

प्रकाशक—

श्रीमन्त सेठ लक्ष्मीचन्द्र शितावराय,  
जैन-साहित्योद्धारक-फंड कार्यालय  
अमरावती (वारा)



मुद्रक—

टी. एम्. पाटील,  
मैनेजर  
सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस, अमरावती.

THE  
**ṢAṬKHAṆḌĀGAMA**

OF

PUṢPADANTA AND BHŪTABALI

WITH

THE COMMENTARY DHAVALĀ OF VIRASENA

---

VOL. I

**SATPRARŪPAṆĀ**

*Edited*

*with introduction, translation, notes, and indexes*

BY

HIRALAL JAIN, M. A., LL. B.,

C. P. Educational Service, King Edward College, Amraoti.

---

ASSISTED BY

Pandit Phoolchandra  
Siddhānta Shāstrī.

\*

Pandit Hiralal Siddhānta Shāstrī  
Nyāyatīrtha.

*With the cooperation of*

Pandit Devakinandan  
Siddhānta Shāstrī

\*

Dr. A. N. Upadhye,  
M. A., D. Litt.

*Published by*

Shrīmant Seth Laxmichandra Shitabrai,

Jain Sāhitya Uddhāraka Fund Karyalaya.

AMRAOTI ( Berar ).

---

1939

Price rupees ten only.

---



*Published by—*  
**Shrimant Seth Laxmichandra Shitabrai,**  
Jain Sāhitya Uddharaka Fund Karyalaya,  
**AMRAOTI (Berar).**



*Printed by—*  
**T. M. Patil, Manager,**  
Saraswati Printing Press,  
**AMRAOTI (Berar).**








स्व० सेठ हीराचन्द नेमीचन्द



स्व० सेठ माणिकचन्द हीराचन्द जे० पी०



बैरिस्टर जमनाप्रसादजी



श्रीमंत सेठ लक्ष्मीचन्दजी



सेठ राजमलजो बट्टजात्या



स्व० सेठ रात्रजी सखाराम दोसी



सिंघई पन्नालालजी

## चित्र-परिचय

- १ स्व० सेठ हीराचन्द्र नेमीचन्द्र, सोलापूर, जिन्होंने मूडचिद्रीमें सिद्धान्त-ग्रंथोंकी प्रतिलिपि करानेकी सर्व प्रथम व्यवस्था की ।
- २ स्व० दानवीर सेठ माणिकचन्द्र हीराचन्द्र जौहरी बम्बई, जिन्होंने सिद्धान्त-ग्रंथोंके उद्धारका सर्व प्रथम प्रयत्न किया ।
- ३ श्रीमन्त सेठ लक्ष्मीचन्द्र सितावरायजी, भेलसा, संस्थापक जैन साहित्य उद्धारक फंड ।
- ४ श्रीयुत वैरिस्टर जमनाप्रसादजी सब जज, जिन्होंने सेठ लक्ष्मीचन्द्रजीको प्रोत्साहित करके उद्धारक फंडकी स्थापना कराई ।
- ५ श्रीयुक्त सेठ राजमलजी वडजात्या, भेलसा, जिन्होंने उद्धारक फंडद्वारा सिद्धान्त-ग्रंथोंके प्रकाशनकी प्रेरणा की ।
- ६ स्व० सेठ रावजी सखारामजी दोसी, सोलापुर, जो अभी अभी तक श्री महाधवल सिद्धान्तके उद्धारके लिये प्रयत्नशील थे ।
- ७ श्रीमान् सिंघई पन्नालाल वंसीलालजी, अमरावती, जिन्होंने धवल-जय-धवलकी प्रतिलिपियाँ कराकर मँगाई और संशोधन सम्पादन निमित्त संस्थाके सुपुर्दे कीं ।

## फ्राक कथन

यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी ।

सन् १९२४ में मैंने कारंजाके शास्त्रभंडारोंका अवलोकन किया और वहांके ग्रंथोंकी सूची बनाई। वहां अपभ्रंश भाषाका बहुतसा अश्रुतपूर्व साहित्य मेरे दृष्टिगोचर हुआ। उसको प्रकाशमें लानेकी उत्कंठा मेरे तथा संसारके अनेक भाषा-कोविदोंके हृदयमें उठने लगी। ठीक उसी समय मेरी कारंजाके समीप ही अमरावती, किंग एडवर्ड कालेजमें, नियुक्ति हो गई और मेरे सदैवके सहयोगी सिद्धांतशास्त्री पं. देवकीनन्दनजीके सुप्रयत्नसे व श्रीमान् सेठ गोपाल सावजी चवरे व बलात्कारगण मन्दिरके अधिकारियोंके सदुत्साहसे उन अपभ्रंश ग्रंथोंके सम्पादन प्रकाशनका कार्य चल पड़ा, जिसके फलस्वरूप पांच छह अत्यन्त महत्वपूर्ण अपभ्रंश काव्योंका अब तक प्रकाशन हो चुका है।

मूडविद्रीके धवलादि सिद्धान्त ग्रंथोंकी कीर्ति मैं वचनसे ही सुनता आ रहा हूँ। सन् १९२२ में मैंने जैनसाहित्यका विशेषरूपसे अध्ययन प्रारम्भ किया, और उसी समयके लगभग इन सिद्धान्त ग्रंथोंकी हस्तलिखित प्रतियोंके कुछ कुछ प्रचारकी चर्चा सुनाई पड़ने लगी। किन्तु उनके दर्शनोंका सौभाग्य मुझे पहले पहले तभी प्राप्त हुआ जब हमारे नगरके अत्यन्त धर्मानुरागी, साहित्यप्रेमी श्रीमान् सिंघई पन्नालालजीने धवल और जयधवलकी प्रति-लिपियां कराकर यहांके जैनमन्दिरमें विराजमान कर दीं। अब हृदयमें चुपचाप आशा होने लगी कि कभी न कभी इन ग्रंथोंको प्रकाशमें लानेका अवश्य सुअवसर मिलेगा।

सन् १९३३ के दिसम्बर मासमें अखिल भारतवर्षीय दिगम्बर जैन परिषद्का वार्षिक अधिवेशन इटारसीमें हुआ और उसके सभापाति हुए मेरे परमप्रिय मित्र वैरिस्टर जमनाप्रसादजी स्वज्ज। पहले दिनके जलसेके पश्चात् रात्रिके समय हम लोग एक कमरेमें बैठे हुए जैन साहित्यके उद्धारके विषयमें चर्चा कर रहे थे। जजसाहब दिनभरकी धूमधाम व दौड़ धूपसे थककर सुस्तसे लेटे हुए थे। इसी बीच किसीने खबर दी कि भेलसानिवासी सेठ लक्ष्मीचन्द्रजी भी अधिवेशनमें आये हुए हैं और वे किसी धार्मिक कार्यमें, सम्भवतः रथ चलानेमें, कुछ द्रव्य लगाना चाहते हैं। इस खबरसे जजसाहबका चेहरा एकदम चमक उठा और उनमें न जाने कहांकी स्फूर्ति आ गई। वे हम लोगोंसे विना कुछ कहे सुने वहांसे चल दिये। रातके कोई एक घंटे लौटकर उन्होंने मुझे जगाया और एक पुर्जा मेरे हाथमें दिया जिसमें सेठ लक्ष्मी-चन्द्रजीने साहित्योद्धारके लिये दस हजारके दानकी प्रतिज्ञा की थी। इस दानके उपलक्ष्यमें दूसरे दिन प्रातःकाल उपस्थित समाजने सेठजीको श्रीमन्त सेठकी पदवीसे विभूषित किया।

आगामी गर्मीकी छुट्टियोंमें जजसाहय मुझे लेकर भेलसा पहुंचे और वहां सेठ राजमलजी बडजात्या व श्रीमान् तख्तमलजी वकीलके सहयोगसे सेठजीके उक्त दानका ट्रस्ट रजिस्ट्री करा लिया गया और यह भी निश्चय हो गया कि उस द्रव्यसे श्री धवलदि सिद्धान्तोंके संशोधन प्रकाशनका कार्य किया जाय ।

गर्मीके पश्चात् अमरावती लौटने पर मुझे श्रीमन्त सेठजीके दानपत्रकी सद्भावनाको क्रियात्मक रूप देनेकी चिन्ता हुई । पहली चिन्ता धवल जयधवलकी प्रतिलिपि प्राप्त करने की हुई । उस समय इन ग्रंथोंको प्रकाशित करनेके नामसे ही धार्मिक लोग चौकन्ने हो जाते थे और उस कार्यके लिये कोई प्रतिलिपि देनेके लिये तैयार नहीं थे । ऐसे समयमें श्रीमान् सिंगई पन्नालालजीने व अमरावती पंचायतने सत्साहस करके अपने यहांकी प्रतियोंका सदुपयोग करनेकी अनुमति दे दी ।

इन प्रतियोंके सूक्ष्मावलोकनसे मुझे स्पष्ट हो गया कि यह कार्य अत्यन्त कष्टसाध्य है क्योंकि ग्रंथोंका परिमाण बहुत विशाल, विषय अत्यन्त गहन और दुसूह, भाषा संस्कृत मिश्रित प्राकृत, और प्राप्य प्रति बहुत अशुद्ध व स्खलन-प्रचुर ज्ञात हुई । हमारे सम्मुख जो धवल और जयधवलकी प्रतियां थीं उनमेंसे जयधवलकी प्रति सीताराम शाल्मीकी लिखी हुई थी और दूसरीकी अपेक्षा कम अशुद्ध जान पड़ी । अतः मैंने इसके प्रारम्भका कुछ अंश संस्कृत रूपान्तर और हिन्दी भाषान्तर सहित छपाकर चुने हुए विद्वानोंके पास इस हेतु भेजा कि वे उसके आधारसे उक्त ग्रंथोंके सम्पादन प्रकाशनादिके सम्बन्धमें उचित परामर्श दे सकें । इस प्रकार मुझे जो सम्मतियां प्राप्त हो सकीं उनपरसे मैंने सम्पादन कार्यके विषयमें निम्न निर्णय किये—

१. सम्पादन कार्य धवलासे ही प्रारम्भ किया जाय, क्योंकि, रचना-क्रमकी दृष्टिसे तथा प्रचलित परंपरामें इसीका नाम पहले आता है ।

२. मूलपाठ एक ही प्रतिके भरोसे न रखा जाय । समस्त प्रचलित प्रतियां एक ही आधुनिक प्रतिकी प्रायः एक ही हाथकी नकलें होते हुए भी उनमेंसे जितनी मिल सकें उनका उपयोग किया जाय तथा मूढ़विद्वीकी ताड़पत्रकी प्रतिले मिलान करनेका प्रयत्न किया जाय, और उसके अभावमें सहारनपुरकी प्रतिके मिलानका उद्योग किया जाय ।

३. मूलके अतिरिक्त हिन्दी अनुवाद दिया जाय, क्योंकि, उसके बिना सर्व स्वाध्याय-प्रेमियोंको ग्रंथराजसे लाभ उठाना कठिन है । संस्कृत छाया न दी जाय क्योंकि एक तो उससे ग्रंथका कलेवर बहुत बढ़ता है; दूसरे उससे प्राकृतके पठन पाठनका प्रचार नहीं होने पाता, क्योंकि, लोग उस छायाका ही आश्रय लेकर बैठ रहते हैं और प्राकृतकी ओर ध्यान नहीं देते; और तीसरे जिन्हें संस्कृतका अच्छा ज्ञान है उन्हें मूलानुगामी अनुवादकी सहायतासे प्राकृतके समझनेमें भी कोई कठिनाई नहीं होगी ।

४. संस्कृत छाया न देनेसे जो स्थानकी वचन होगी उसमें अन्य प्राचीन जैन ग्रंथोंमेंसे तुलनात्मक टिप्पण दिये जाय ।

५. ऐसे ग्रंथोंका सम्पादन प्रकाशन बारबार नहीं होता, अतएव इस कार्यमें कोई ऐसी उतावली न की जाय जिससे ग्रंथकी प्रामाणिकता व शुद्धतामें त्रुटि पड़े।

६. उक्त कार्यमें जितना हो सके उतना अन्य विद्वानोंका सहयोग प्राप्त किया जाय।

इन निर्णयोंको सन्मुख रखकर मैंने सम्पादन कार्यकी व्यवस्थाका प्रयत्न किया। मेरे पास तो अपने कालेजके दैनिक कर्तव्यसे तथा गृहस्थीकी अनेक चिन्ताओं और विघ्न-वाधाओंसे बचा हुआ ही समय था, जिसके कारण कार्य बहुत ही मन्दगतिसे चल सकता था। अतएव एक सहायक स्थायी रूपसे रख लेनेकी आवश्यकता प्रतीत हुई। सन् १९३५ में बीनानिवासी पं. वंशीधरजी व्याकरणाचार्यको मैंने बुला लिया, किन्तु लगभग एक माह कार्य करनेके पश्चात् ही कुछ गार्हस्थिक आवश्यकताके कारण उन्हें कार्य छोड़कर चले जाना पड़ा। तत्पश्चात् साहूमल ( झांसी ) के निवासी पं. हीरालालजी शास्त्री न्यायतीर्थको बुलानेकी बात हुई। वे प्रथम तीन वर्ष उज्जैनमें रायवहादुर सेठ लालचन्द्रजीके यहां रहते हुए ही कार्य करते रहे। किन्तु गत जनवरीसे वे यहां बुला लिये गये और तबसे वे इस कार्यमें मेरी सहायता कर रहे हैं। उसी समयसे बीना निवासी पं. फूलचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्रीकी भी नियुक्ति करली गई है और वे भी अब इसी कार्यमें मेरे साथ तत्परतासे संलग्न हैं। संशोधन कार्यमें यथावसर अन्य विद्वानोंका भी परामर्श लिया गया है।

प्राकृतपाठ संशोधनसम्बन्धी नियम हमने प्रेस कापीके दो सौ पृष्ठ राजाराम कालेज कोल्हापुरके अर्धमागधीके प्रोफेसर, हमारे सहयोगी व अनेक प्राकृत ग्रंथोंका अत्यन्त कुशलतासे सम्पादन करनेवाले डाक्टर ए. एन्. उपाध्येके साथ पढ़कर निश्चित किये। तथा अनुवादके संशोधनमें जैनधर्मके प्रकाण्ड विद्वान् सि. शा. पं. देवकीनन्दनजीका भी समय समय पर साहाय्य लिया गया। इन दोनों सहयोगियोंकी इस निर्व्याज सहायताका मुझ पर बड़ा अनुग्रह है। शेष समस्त सम्पादन, प्रूफ शोधनादि कार्य मेरे स्थायी सहयोगी पं. हीरालालजी शास्त्री व पं. फूलचन्द्रजी शास्त्रीके निरन्तर साहाय्यसे हुआ है, जिसके लिये मैं उन सबका बहुत कृतज्ञ हूँ। यदि इस कृतिमें कुछ अच्छाई व सौन्दर्य हो तो वह सब इसी सहयोगका ही सुफल है।

अब जिनके पूर्व परिश्रम, सहायता और सहयोगसे यह कार्य सम्पन्न हो रहा है उनका हम उपकार मानते हैं। कालके दोषसे कहे या समाजके प्रमादसे, इन सिद्धान्त ग्रंथोंका पठन पाठन चिरकालसे विच्छिन्न हो गया था। ऐसी अवस्थामें भी एकमात्र अवशिष्ट प्रतिकी शताब्दियोंतक सावधानीसे रक्षा करनेवाले मूढ़विद्वीके सम्मान्य भट्टारकजी हमारे महान् उपकारी हुए हैं। गत पचास वर्षोंमें इन ग्रंथोंको प्रकाशमें लानेका महान् प्रयत्न करनेवाले स्व. सेठ माणिकचन्द्रजी जवेरी, बम्बई, मूलचन्द्रजी सोनी, अजमेर, व स्व. सेठ हीराचन्द्र नेमीचन्द्रजी सोलापुरके हम अत्यन्त कृतज्ञ हैं। यह स्व. सेठ हीराचन्द्रजीके ही

१ मेरी गृहिणी सन् १९२७ से हृदयगसे ग्रसित हो गई थी। अनेक औषधि उपचार काने पर भी उसका यह रोग हटाया नहीं जा सका, किन्तु धीरे धीरे बढ़ता ही गया। बहुतवार मरणप्राय अवस्थामें बड़े मंहगे इलाजोंके निमित्तसे प्राणरक्षा की गई। इसीप्रकार ग्यारह वर्ष तक उसकी जीवनयात्रा चलाई। अन्ततः सन् १९३८ के दिसम्बर मासमें उसका चिरवियोग होगया।



प्रयत्नका सुफल है कि आज हमें इन महान् सिद्धान्तोंके एक अंशको सर्वसुलभ बनानेका सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। स्व. लाला जम्बूप्रसादजी रईसकी भी लक्ष्मी सफल है जो उन्होंने इन ग्रंथोंकी एक प्रतिलिपिको अपने यहां सुरक्षित रखनेकी उदारता दिखाई और इस प्रकार उनके प्रकट होनेमें निमित्त कारण हुए। हमारे विशेष धन्यवादके पात्र स्व. पं. गजपतिजी उपाध्याय और उनकी स्व. भार्या विदुषी लक्ष्मीबाई तथा पं. सीतारामजी शास्त्री हैं जिन्होंने इन ग्रंथोंकी प्रतिलिपियोंके प्रचारका कठिन कार्य किया और उस कारण उन भाइयोंके क्रोध और विद्वेषको सहन किया जो इन ग्रंथोंके प्रकट होनेमें अपने धर्मकी हानि समझते हैं। श्रीमान् सिंघई पन्नालालजीने जिस धार्मिकभाव और उत्साहसे बहुत धन व्यय करके इन ग्रंथोंकी प्रतियां अमरावतीमें मंगाई और उन्हें संशोधन व प्रकाशनके लिये हमें प्रदान कीं उसका ऊपर उल्लेख कर ही आये हैं। इस कार्यके लिये उनका जितना उपकार माना जावे सब थोड़ा है। प्रिय सुहृद् वैरि. जमनाप्रसादजी सबजजका भारी उपकार है जो उन्होंने सेठ लक्ष्मीचन्द्रजीको इस साहित्योद्धार कार्यके लिये प्रेरित किया। वे ऐसे धार्मिक व सामाजिक कार्योंमें सदैव कप्तानका कार्य किया करते हैं। श्रीमन्त सेठ लक्ष्मीचन्द्रजी तो इस समस्त व्यवस्थाके आधार-स्तम्भ ही हैं। आर्थिक संकटमय वर्तमान कालमें उनके हायस्कूल, छात्रवृत्ति, व साहित्योद्धार निमित्त दिये हुए अनेक बड़े बड़े दानोंद्वारा धर्म और समाजका जो उपकार हो रहा है उसका पूरा मूल्य अभी आंका नहीं जा सकता। वह कार्य कदाचित् हमारी भारी पीढ़ीद्वारा ही सुचारुरूपसे किया जा सकेगा। सेठजीको उनके इन उदार कार्योंमें प्रवृत्त कराने और उनका निर्वाह करानेवाले भेलसानिवासी सेठ राजमलजी वडुजात्या और श्रीमान् तखतमलजी वकील हैं जिन्होंने इस योजनामें भी बड़ी रुचि दिखाई और हमें हर प्रकारसे सहायता पहुंचाकर उपकृत किया। साहित्योद्धारकी ट्रस्ट कमेटीमें सिं. पन्नालालजी, पं. देवकीनन्दनजी व सेठ राजमलजीके अतिरिक्त भेलसाके श्रीयुक्त मिश्रीलालजी व सरसावा निवासी पं. जुगलकिशोरजी मुख्तार भी हैं। इन्होंने प्रस्तुत कार्यको सफल बनानेमें सदैव अपना पूरा योग दिया है। पं. जुगलकिशोरजी मुख्तारसे हमें सम्पादन कार्यमें विशेष साहाय्य मिलनेकी आशा थी, किन्तु हमारे दुर्भाग्यसे इसी बीच उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और हम उनके साहाय्यसे बिलकुल वंचित रहे। किन्तु आगे संशोधन कार्यमें उनसे सहायता मिलनेकी हमें पूरी आशा है। जबसे इन ग्रंथोंके प्रकाशनका निश्चय हुआ है तबसे शायद ही कोई माह ऐसा गया हो जब हमारी समाजके अद्वितीय कार्यकर्ता श्रीयुक्त ब्रह्मचारी शीतल-प्रसादजीने हमें इस कार्यको आगे बढ़ाने और पूरा करनेकी प्रेरणा न की हो। धर्मप्रभावनाके ऐसे कार्योंको सफल देखनेके लिये ब्रह्मचारीजीका हृदय ऐसा तड़पता है जैसे कोई शिशु अपने माताके दूधके लिये तड़पे। उनकी इस निरन्तर प्रेरणाके लिये हम उनके बहुत उपकृत हैं। हम जानते हैं वे इतने कार्यको सफल देख बहुत ही प्रसन्न होंगे। सम्पादन व प्रकाशन सम्बन्धी अनेक व्यावहारिक कठिनाइयोंको सुलझानेमें निरन्तर साहाय्य हमें अपने समाजके महारथी साहित्यिक विद्वान् श्रेष्ठ पं. नाथूरामजी प्रेमीसे मिला है। यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि प्रेमीजी जैन समाजमें नवीन युगके साहित्यिकोंके प्रमुख

स्फूर्तिदाता हैं। जिन जिन कार्योंमें जिस जिस प्रकार हमने प्रेमीजीकी सहायता ली है और उन्हें उनकी वृद्धावस्थामें कष्ट पहुंचाया है उसका यहां विवरण न देकर इतना ही कहना वश है कि हमारी इस कृतिके कलेवरमें जो कुछ उत्तम और सुन्दर है उसमें हमारे प्रेमीजीका अनुभवी और कुशल हाथ प्रत्यक्ष व परोक्ष रूपसे विद्यमान है। विना उनके तात्कालिक सत्परामर्श, सदुपदेश और सत्साहाय्यके न जाने हमारे इस कार्यकी क्या गति होती। जैसा भूमिकासे ज्ञात होगा, प्रस्तुत ग्रंथके संशोधनमें हमें सिद्धान्तभवन, आरा, व महावीर ब्रह्मचर्याश्रम, कारंजा, की प्रतियोंसे बड़ी सहायता मिली है, इस हेतु हम इन दोनों संस्थाओंके अधिकारियोंके व प्रतिकी प्राप्तिमें सहायक पं. के. भुजवली शास्त्री व पं. देवकी-नन्दनजी शास्त्री के बहुत कृतज्ञ हैं। जिन्होंने हमारी प्रश्नावलीका उत्तर देकर हमें मूडविद्रीसे व तत्पश्चात् सहारनपुरसे प्रतिलिपि बाहर आनेका इतिहास लिखनेमें सहायता दी उनका हम बहुत उपकार मानते हैं। उनकी नामावली अन्यत्र प्रकाशित है। इनमें श्रीमान् सेठ रावजी सखारामजी दोशी,\* सोलापुर, पं. लोकनाथजी शास्त्री, मूडविद्री, व श्रीयुक्त नेमिचन्द्रजी वकील, उसमानाबादका नाम विशेष उल्लेखनीय है। अमरावतीके सुप्रसिद्ध, प्रवीण ज्योतिर्विद् श्रीयुक्त प्रेमशंकरजी देवकी सहायतासे ही हम धवलकी प्रशस्तिके ज्योतिष सम्बन्धी उल्लेखोंकी छानबीन और संशोधन करनेमें समर्थ हुए हैं। इस हेतु हम उनके बहुत कृतज्ञ हैं। इस ग्रंथका मुद्रण स्थानीय 'सरस्वती प्रेसमें' हुआ है। यह क्वचित् ही होता है कि सम्पादकको प्रेसके कार्य और विशेषतः उसकी मुद्रणकी गति और वेगसे सन्तोष हो। किन्तु इस प्रेसके मैनेजर मि. टी. एम्. पाटीलको हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे कार्यमें कभी असन्तोषका कारण उत्पन्न नहीं होने दिया और अल्प समयमें ही इस ग्रंथका मुद्रण पूरा करनेमें उन्होंने व उनके कर्मचारियोंने बेहद परिश्रम किया है।

इस वक्तव्यको पूरा करते समय हृदयके पावित्र्य और दृढ़ताके लिये हमारा ध्यान पुनः हमारे तीर्थंकर भगवान् महावीर व उनकी धरसेन, पुष्पदन्त और भूतबलितककी आचार्य-परम्पराकी ओर जाता है जिनके प्रसाद-लवसे हमें यह साहित्य प्राप्त हुआ है। तीर्थंकरों और केवलज्ञानियोंका जो विश्वव्यापी ज्ञान द्वादशांग साहित्यमें ग्रथित हुआ था, उससे सीधा सम्बन्ध रखनेवाला केवल इतना ही साहित्यांश बचा है जो धवल, जयधवल व महाधवल कहलानेवाले ग्रंथोंमें निबद्ध है; दिग्ग्वर मान्यतानुसार शेष सब कालके गालमें समा गया। किन्तु जितना भी शेष बचा है वह भी विषय और रचनाकी दृष्टिसे हिमाचल जैसा विशाल और महोदधि जैसा गंभीर है। उसके विवेचनकी सूक्ष्मता और प्रतिपादनके विस्तारको

\* इसके छपते छपते हमें समाचार मिला है कि दोशीजीका २० अक्टूबरको स्वर्गवास हो गया, इसका हमें अत्यन्त शोक है। हमारी समाजका एक भारी कर्मठ पुरुषपरल उठ गया।

देखनेसे हम जैसे अल्प-ज्ञानियाकी वृद्धि चकरा जाती है और अच्छे अच्छे विद्वानोंका भी गर्व खर्व होने लगता है। हम ऐसी उच्च और विपुल साहित्यिक सम्पत्तिके उत्तराधिकारी हैं इसका हमें भारी गौरव है।

इस गौरवकी वस्तुके एक अंशको प्रस्तुत रूपमें पाकर पाठक प्रसन्न होंगे। किन्तु इसके तैयार करनेमें हमें जो अनुभव मिला है उससे हमारा हृदय भीतर ही भीतर खेद और विषादके आवेगसे रो रहा है। इन सिद्धान्त ग्रंथोंमें जो अपार ज्ञाननिधि भरी हुई हैं उसका गत कई शताब्दियोंमें हमारे साहित्यको कोई लाभ नहीं मिल सका, क्योंकि, इनकी एकमात्र प्रति किसीप्रकार तालोंके भीतर बन्द होगई और अध्ययनकी वस्तु न रहकर पूजाकी वस्तु बन गई। यदि ये ग्रंथ साहित्य-क्षेत्रमें प्रस्तुत रहते तो उनके आधारसे अवनक न जाने कितना किस कोटिका साहित्य निर्माण हो गया होता और हमारे साहित्यको कौनसी दिशा व गति मिल गई होती। कितनी ही सैद्धान्तिक गुत्थियां जिनमें विद्वत्समाजके समय और शक्तिका न जाने कितना हास होता रहता है, यहां सुलझी हुई पड़ी हैं। ऐसी विशाल सम्पत्ति पाकर भी हम दरिद्री ही बने रहे और इस दरिद्रताका सबसे अधिक सन्ताप और दुःख हमें इनके संशोधन करते समय हुआ। जिन प्रतियोंको लेकर हम संशोधन करने बैठे वे त्रुटियों और खलनोंसे परिपूर्ण हैं। हमें उनके एक एक शब्दके संशोधनार्थ न जाने कितनी मानसिक कसरतें करनी पड़ी हैं और कितने दिनोंतक रातके दो दो बजे तक बैठकर अपने खूनको सुखाना पड़ा है। फिर भी हमने जो संशोधन किया उसका सोलहों आने यह भी विश्वास नहीं कि वे ही आचार्य-रचित शब्द हैं। और यह सब करना पड़ा, जब कि मूडविद्रीकी आदर्श प्रतियोंके दृष्टिपात मात्रसे संभवतः उन कठिन स्थलोंका निर्विवाद रूपसे निर्णय हो सकता था। हमें उस मनुष्यके जीवन कैसा अनुभव हुआ जिसके पिताकी अपार कमाईपर कोई ताला लगाकर बैठ जाय और वह स्वयं एक एक टुकड़ेके लिये दर दर भीख मांगता फिरे। और इससे जो हानि हुई वह किसकी? जितना समय और परिश्रम इनके संशोधनमें खर्च हो रहा है उससे मूल प्रतियोंकी उपलब्धिमें न जाने कितनी साहित्यसेवा हो सकती थी और समाजका उपकार किया जा सकता था। ऐसे ही समय और शक्तिके अपव्ययसे समाजकी गति रुकती है। इस मंदगतिसे न जाने कितना समय इन ग्रंथोंके उद्धारमें खर्च होगा। यह समय साहित्य, कला व संस्कृतिके लिये बड़े संकटका है। राजनैतिक विप्लवसे हजारों वर्षोंकी सांस्कृतिक सम्पत्ति कदाचित् मिनटोंमें भस्मसात् हो सकती है। दैव रक्षा करे, किन्तु यदि ऐसा ही संकट यहां आ गया तो ये द्वादशांगवाणीके अवशिष्ट रूप फिर कहां रहेंगे? इन्श, चीन आदि देशोंके उदाहरण हमारे सन्मुख हैं। प्राचीन प्रतिमाएं खण्डित हो जानेपर नई कभी भी प्रतिष्ठित हो सकती हैं, पुराने मन्दिर जीर्ण होकर गिर जानेपर नये कभी भी निर्माण कराकर खड़े किये जा सकते हैं, धर्मके अनुयायियोंकी संख्या कम होनेपर कदाचित् प्रचारद्वारा बढ़ाई जा सकती है, किन्तु प्राचीन आचार्योंके जो शब्द ग्रंथोंमें ग्रथित हैं उनके एकवार नष्ट हो

जानेपर उनका पुनरुद्धार सर्वथा असम्भव है। क्या लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके भी पूरे द्वादशांग श्रुतका उद्धार किया जा सकता है? कभी नहीं। इसी कारण सजीव देश, राष्ट्र और समाज अपने पूर्व साहित्यके एक एक टुकड़ेपर अपनी सारी शक्ति लगाकर उसकी रक्षा करते हैं। यह ख्याल रहे कि जिन उपायोंसे अभीतक ग्रंथ रक्षा होती रही, वे उपाय अब कार्यकारी नहीं। संहारक शक्तिने आजकल भीषण रूप धारण कर लिया है। आजकल साहित्य रक्षाका इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं कि ग्रंथोंकी हजारों प्रतियां छपाकर सर्वत्र फैला दी जाय ताकि किसी भी अवस्थामें कहीं न कहीं उनका अस्तित्व बना ही रहेगा। यह हमारी श्रुत-भक्तिका अत्यन्त बुद्धिहीन स्वरूप है जो हम ज्ञानके इन उत्तम संग्रहोंकी ओर इतने उदासीन हैं और उनके सर्वथा विनाशकी जोखिम लिये चुपचाप बैठे हैं। यह प्रश्न समस्त जैन समाजके लिये विचारणीय है। इसमें उदासीनता घातक है। हृदयके इन उद्धारोंके साथ अब मैं अपने प्राक्कथनको समाप्त करता हूं और इस ग्रंथको पाठकोंके हाथोंमें सौंपता हूं।

किंग एडवर्ड कालेज.

अमरावती.

१—११—३०.

हीरालाल जैन.

## विषय सूची

<p>१ आदर्श प्रतियोंके चित्र (मुख पृष्ठके पश्चात्)</p> <p>२ ग्रंथोद्धारमें सहायक महानुभावोंके चित्र व चित्र-परिचय ।</p> <p>३ प्राक् कथन १-७</p> <p style="text-align: center;"><b>प्रस्तावना</b></p> <p>पदखंडागम परिचय (अंग्रेजीमें) i-iv</p> <p>१ श्री धवलादि सिद्धान्तोंके प्रकाशमें आनेका इतिहास १</p> <p>२ हमारी आदर्श प्रतियां ६</p> <p>३ पाठसंशोधनके नियम १०</p> <p>४ पदखंडागमके रचयिता १३</p> <p>५ आचार्य परम्परा २१</p> <p>६ वीर-निर्वाण-काल ३२</p> <p>७ पदखंडागमकी टीका धवलाके रचयिता ३५</p> <p>८ धवलासे पूर्वके टीकाकार ४६</p> <p>९ धवलाकारके सन्मुख उपस्थित साहित्य ५३</p> <p>१० पदखंडागमका परिचय ६३</p>	<p>११ सत्प्ररूपणाका विषय ७१</p> <p>१२ ग्रंथकी भाषा उपसंहार ८८</p> <p>टिप्पणियोंमें उल्लिखित ग्रंथोंकी संकेत-सूची ८९</p> <p>सत्प्ररूपणाकी विषय-सूची ९१</p> <p>शुद्धिपत्र ९४</p> <p>मंगलाचरण ९६</p> <p>सत्प्ररूपणा (मूल, अनुवाद और टिप्पण) १-४१०</p> <p style="text-align: center;"><b>परिशिष्ट</b></p> <p>१ संत-परुवणा-सुत्ताणि १</p> <p>२ अचतरण-गाथा-सूची ११</p> <p>३ ऐतिहासिक नाम सूची १६</p> <p>४ भौगोलिक नाम सूची १७</p> <p>५ ग्रंथ नामोल्लेख १८</p> <p>६ वंश नामोल्लेख १८</p> <p>७ प्रतियोंके पाठ-भेद १९</p> <p>८ प्रतियोंमें छूटे हुए पाठ २६</p> <p>९ विशेष टिप्पण २७</p>
--	--

**प्रस्तावना**



## INTRODUCTION TO ṢAṬKHANDĀGAMA

The only surviving pieces of the original Jain Canon of twelve Angas, are, according to Digambara tradition, preserved in what are popularly known as Dhavaḷa, Jaidhavaḷa and Mahadhavaḷa siddhāntas. Manuscripts of these were preserved only at the Jain pontifical seat of Mudbidri in South Kanara. It is only during the last twenty years that copies of the first two have become available, while the last still remains inaccessible.

The story of the composition of Ṣaṭkhandāgama is told in the introductory part of the Dhavalā which is the commentary. The teachings of Lord Mahāvira were arranged into Twelve Angas by his pupil Indrahūti Gautama, and they were handed down from preceptor to pupil by word of mouth till gradually they fell into oblivion. Only fractions of them were known to Dharasena who practised penances in the Chandra Guphā of Girinagara in the country of Saurāṣṭra (modern Kathiawar). He felt the necessity of preserving the knowledge and so he called two sages who afterwards became famous as Puṣpadanta and Bhūtabali, and taught to them portions of the fifth Anga Viāhapamatti and of the twelfth Anga Ditthivāda. These were subsequently reduced to writing in Sūtra form by the two eminent pupils. Puṣpadanta composed the first 177 Sūtras which are all embodied in the present edition of satprarupana, and his colleague Bhūtabali wrote the rest, the total being 6003 Sūtras.

As regards the time of this composition we are told definitely that Dharasena lived after Lohārya the 28th in succession after Mahāvira, but how long afterwards is left uncertain. Most of the succession lists available show that the time that elapsed from the Nirvāṇa of Mahāvira up to Lahārya was 683 years. But the Prakrit Pattavālī of Nandi sangha carries on the list of succession from Lahārya to five more Acharyas, the last three of which are Dharasena, Puṣpadanta and Bhūtabali, and makes them all fall within the 683 years after Vira Nirvāṇa. According to this account Dharasena succeeded his predecessor Māghanadi 614 years after Vira Nirvāṇa. Though this account stands by itself in opposition to the unanimous account given in the Dhavalā commentary and many other works, it is in a way supported by an old list Brihad-tippaṇīka which attributes a work by name Jonī pahuda to Dharasena and assigns it to 600 years after Vira Nirvāṇa. The reliability of this tippaṇa has been unquestioned so far and the statement is corroborated by the fact that in the Dhavalā itself is found a reference to Jonīpahuda as a work on Mantra shāstra and with the knowledge of this subject Dharasena has also been associated. There is, thus, a strong case for identifying our Dharasena with the author of the Jonīpahuda and then the combined evidence



of the Brihat tippana and the Prakrit Pattavali would make the composition of Satkhandāgama fall between 614 and 683 years after Vira Nirvāna. i. e. between the 1st and 2nd centuries of the Christian Era.

This inference about the period of the composition of Satkhandāgama is corroborated by the account of its commentaries as given by Indranandi in his Srutāvātāra which work I have now come to regard as authentically preserving old traditions. According to Indranandi, six commentaries were written on Satkhandāgama in succession, the last being the Dhavalā. The first of these commentaries was Parikarma written by Kundakunda. References to Parikarma are many and various in the Dhavalā itself, and a careful examination of them has led me to believe that it was really a commentary by Kundakunda on this work. The time of Kundakunda is approximately the 2nd century A. D. and so the Satkhandāgama has to be assigned to a period before that. Other commentators mentioned by Indranandi are Shamakunda, Tumbulura, Samantabhadra and Bappaḍeva, before we come to Virasena the author of Dhavalā, and we would not be far wrong in separating them each in succession by about a century, and assign them to 3rd, 4th, 5th and 6th century respectively. None of these commentaries have so far been discovered, but traces of most of them may be found in the existing literature.

As regards the time of the commentary Dhavalā there is no uncertainty. Its author Virasena has recorded many astronomical details of the time of his composition in the ending verses. But unfortunately the available text of those verses is very corrupt.

After a careful scrutiny of the text and its contents, however, I have been able to interpret it correctly, and it yields the result that the Dhavalā was completed by Virasena on the 13th day of the bright fortnight of Karttika in the year 738 of the Saka era, when Jagattunga (i. e. Govinda III of the Rashtrakuta dynasty) had abandoned the throne and Boddana Rāya (probably Amoghavarsha I) was ruling. I have worked out the astronomical details and found them correct, and the date corresponds, according to Swami Kannu Pillai's Indian Ephemeris, to the 8th October 816 A. D., Wednesday morning.

In the ending verses of the Jayadhavalā we are told that Virasena's pupil Jinasena completed that commentary in Saka 759. The Volume of 60 thousand ślokas, thus, took 21 years to compose, which comes roughly to 3000 verses per year. If we take this as the average speed at which Virasena wrote, it gives us the period between 792 and 823 A. D. for the vigorous literary activity of Virasena alone, which produced the complete Dhavalā equal to 72 thousand ślokas, and the first one-third of the Jayadhavalā i. e. equal to 20 thousand ślokas. This single man, thus, accomplished the stupendous and extraordinary task of writing philosophical prose equal to 92 thousand ślokas in the course of 31 years; and he was succeeded by an equally

gigantic writer Jinasena, his pupil, who wrote the 40 thousand ślokas of the Jayadhavalā, the beautiful little poem Pārśvābhyudaya and the magnificent Sānskrit Ādipurāna, before he died. What a bewildering amount of literary effusion ?

The various mentions found in the Dhavalā reveal to us that there was a good deal of manuscript material before Virasena, and he utilised it very judiciously and cautiously. He had to deal with various recensions of the Sūtras which did not always agree in their statements. Virasena satisfied himself by giving their alternative views, leaving the question of right and wrong between them to those who might know better than himself. He also had to deal with opposite opinions of earlier commentators and teachers, and here he boldly criticizes their views in offering his own explanation. On certain points he mentions two different schools of thought which he calls the Northern and the Southern. At present I am examining these views a bit more closely. They may ultimately turn out to be the Śvetāmbara and Digāmbara schools. Works mentioned and quoted from are ( 1 ) Santa-kamma Pāhuḍa, ( 2 ) Kaṣāya Pāhuḍa, ( 3 ) Sammaisutta, ( 4 ) Tiloya-pannatti Sutta; ( 5 ) Pancatthi Pāhuḍa ( 6 ) Tattvārtha Sūtra of Griddhapinchha, ( 7 ) Ācāranga, ( 8 ) Sārasamgraha of Pūjayapada, ( 9 ) Tattvārtha Bhāṣya of Akalaṅka, ( 10 ) Jivasamāsa ( 11 ) Chhedasūtra ( 12 ) Kammavavāda and ( 13 ) Daśakaraṇī samgraha, while authors mentioned without the name of their works are Arya-mankshu, Nāgahasti, Prabhāchandra and others.

Besides these, there are numerous quotations both prose and verse without the mention of their source. In the Satprarūpanā alone there are 216 such verses of which I have been able to trace many in the Ācāranga, Brihatkalpa Sūtra, Daśvaikālika Sūtra, Sthānāṅga tikā, Anuyogadvāra, and Āvaśyaka Nirukti of the Svetāmbara canon, besides quite a large number of them in the Digāmbara literature. These mentions give us an insight into the comparative and critical faculty as well as the coordinating power of Virasena.

The Saṅkhaṇḍāgama, was reduced to writing, as told before, just at the time when the whole Jain Canon was on the point of being forgotten. In this connection it is important to note that according to the Digāmbara tradition all the twelve Āṅgas have been lost except these portions of the last of them i. e. Diṭṭhivāya and a bit of the fifth Āṅga. According to the Svetāambaras, on the other hand, the first eleven are preserved though in a mutilated form, while the Diṭṭhivāya is totally lost. Thus, to a certain extent, the two traditions mutually complement each other.

A look at the tables showing the connection of the present work with the original canon will convey some idea of the extraordinary extent of the Purvas in particular and of the whole canon in general. The section dealing with the twenty-four subjects Kṛiti, Vedanā and others was called in the canon Mahakamma-Payadi Pāhuḍa. The same twenty four subjects have been dealt with in the present work which was called Santa-Kamma-Pāhuḍa, but which, owing to its six subdivisions

acquired the handy title of *Shatkhandagama*. Its six subdivisions are *Jivatthana*, *Khudda Bandha*, *Bandha-Samitta-Vichaya*, *Vedana*, *Vaggana* and *Mahabandha*.

The whole work deals with the Karma philosophy, the first three divisions from the point of view of the soul which is the agent of the bondage, and the last three from the point of view of the objective karmas, their nature and extent. The portion now published is the first part of the *Jivatthana* and it deals with the quest of the soul qualities and the stages of spiritual advancement through some expressed characteristics such as conditions of existence, senses, bodies, vibratory activities and the like. I propose to deal with the subject in some detail in the next volume when *Satprarūpanā* will be completed.

The present work consists of the original *Sūtras*, the commentary of *Virasena* called *Dhavalā* and the various quotations given by the commentator from the writings of his predecessors. The language of the *Sūtras* is *Prakrit* and so also of the most of the quoted *Gāthās*. The prose of *Virasena* is *Prakrit* alternating with *Sanskrit*. In the present portion *Sanskrit* predominates, being three times as much as *Prakrit*. This condition of the whole text clearly reflects the comparative position of *Prakrit* and *Sanskrit* in the *Digambara* Jain literature of the South. The most ancient literature was all in *Prakrit* as shown by the *Sūtras* and their first reputed commentary *Parikarma* as well as all the other works of *Kundakunda*, and also by the preponderance of *Prakrit* verses quoted in the *Dhavalā*. But about the time of *Virasena* the tables had turned against *Prakrit* and *Sanskrit* had got the upperhand as revealed by the present portion of *Dhavalā* as well as its contemporary literature.

The *Prakrit* of the *Sūtras*, the *Gāthas* as well as of the commentary, is *Sauraseni* influenced by the older *Ardha Māgadhī* on the one hand and the *Mahārāshtrī* on the other, and this is exactly the nature of the language called *Jain Sauraseni* by *Dr. Pischel* and subsequent writers. It is, however, only a very small fraction of the whole text that has now been edited critically so far as was possible with the available material. Final conclusions on this subject as well as on all others pertaining to this work must wait till the whole or at least a good deal of it has been so edited.

I have avoided details in this survey of *Shatkhandagama* because I have discussed all these topics fully in my introduction in *Hindi* to which my learned readers are referred for details. The available manuscripts of the work are all very corrupt and full of lacunae, being very recent copies of a transcript which, so to say, had to be stolen from *Mudbidri*. My great regret is that inspite of all efforts, I could not get at the only old manuscript preserved there. So the text had to be constituted from the available copies as critically as was possible according to the principles which I have explained in full in my *Hindi* introduction. Inspite of all these difficulties, however, I hope my readers will not find the text as unsatisfactory as it might have been expected under the circumstances.

## १. श्री धवलादि सिद्धान्तोंके प्रकाशमें आनेका इतिहास

सुना जाता है कि-श्री धवलादि सिद्धान्त ग्रंथोंको प्रकाशमें लाने और उनका उत्तर भारतमें पठनपाठनद्वारा प्रचार करनेका विचार पंडित टोडरमलजीके समयमें जयपुर और अजमेरकी ओरसे प्रारंभ हुआ था। किंतु कोई भी महान् कार्य सुसंपादित होनेके लिये किसी महान् आत्माकी वाट जोहता रहता है। बम्बईके दानवीर, परमोपकारी स्व. सेठ माणिकचंदजी जे. पी. का नाम किसने न सुना होगा? आजसे छप्पन वर्ष पहले वि. सं. १९४० (सन् १८८३ ई.) की बात है। सेठ जी संघ लेकर मूडविद्रीकी यात्राको गये थे। वहां उन्होंने रत्नमयी प्रतिमाओं और धवलादि सिद्धान्त ग्रंथोंकी-प्रतियोंके दर्शन किये। सेठजीका ध्यान जितना उन बहुमूल्य प्रतिमाओंकी ओर गया, उससे कहीं अधिक उन प्रतियोंकी ओर आकर्षित हुआ। उनकी सूक्ष्म धर्मरक्षक दृष्टिसे यह बात छुपी नहीं रही कि उन प्रतियोंके ताड़पत्र जीर्ण हो रहे हैं। उन्होंने उस समयके भट्टारकजी तथा वहांके पंचोंका ध्यान भी उस ओर दिलाया और इस बातकी पूछताछ की कि क्या कोई उन ग्रंथोंको पढ़ समझ भी सकता है या नहीं? पंचोंने उत्तर दिया 'हम लोग तो इनका दर्शन पूजन करके ही अपने जन्मको सफल मानते हैं। हां, जैनविद्री (श्रवणवेलगुल) में ब्रह्मसूरि शास्त्री हैं, वे इनको पढ़ना जानते हैं'। यह सुनकर सेठजी गंभीर विचारमें पड़ गये। उस समय इससे अधिक कुछ न कर सके, किंतु उनके मनमें सिद्धान्त ग्रंथोंके उद्धारकी चिन्ता स्थान कर गई।

यात्रासे लौटकर सेठजीने अपने परम सहयोगी मित्र, सोलापुरनिवासी श्री सेठ हीराचंद नेमचन्दजी को पत्र लिखा और उसमें श्री धवलादि ग्रंथोंके उद्धारकी चिन्ता प्रगट की, तथा स्वयं भी जाकर उक्त ग्रंथोंके दर्शन करने और फिर उद्धारके उपाय सोचनेकी प्रेरणा की। सेठ माणिकचंदजीकी इस इच्छाको मान देकर सेठ हीराचंदजीने दूसरे ही वर्ष, अर्थात् वि. सं. १९४१ (सन् १८८४) में स्वयं मूडविद्रीकी यात्रा की। वे अपने साथ श्रवणवेलगुलके पण्डित ब्रह्मसूरि शास्त्रीको भी ले गये। ब्रह्मसूरिजीने उन्हें तथा उपस्थित सज्जनोंको श्री धवल सिद्धान्तका मंगलाचरण पढ़कर सुनाया, जिसे सुनकर वे सब अतिप्रसन्न हुए। सेठ हीराचंदजीके मनमें सिद्धान्त ग्रंथोंकी प्रतिलिपि करानेकी भावना दृढ़ हो गई और उन्होंने ब्रह्मसूरि शास्त्रीसे प्रतिलिपिका कार्य अपने हाथमें लेनेका आग्रह किया। वहांसे लौटकर सेठ हीराचंदजी बम्बई आये और सेठ माणिकचंदजीसे मिलकर उन्होंने ग्रंथोंकी प्रतिलिपि करानेका विचार पक्का किया। किंतु उनके

वहाँसे लौटनेपर वे तथा सेठ माणिकचंदजी अपने अपने व्यावसायिक कार्योंमें गुंथ गये और कोई दश वर्षतक प्रतिलिपि करानेकी बात उनके मनमें ही रह गई ।

इसी बीचमें अजमेरनिवासी श्रीयुक्त सेठ मूलचंदजी सोनी श्रीयुक्त पं. गोपालदासजी वरैयाके साथ मूडविद्रीकी यात्राको गये । उस समय उन्होंने सिद्धान्त ग्रंथोंके दर्शनकर वहाँके पंचों और ब्रह्मसूरि शास्त्रीके साथ यह बात निश्चित की कि उन ग्रंथोंकी प्रतिलिपियां की जाय । तदनुसार लेखनकार्य भी प्रारंभ हो गया । यात्रासे लौटते समय सेठ मूलचंदजी सोनी सोलापुर और वम्बई भी गये और उन्होंने सेठ हीराचंदजी व माणिकचंदजीको भी अपने उक्त कार्यकी सूचना दी, जिसका उन्होंने अनुमोदन किया । श्रीमान् सिंघई पन्नालालजी अमरावतीवालोंसे ज्ञात हुआ है कि जब उनके पिता स्व० सिंघई वंशीलालजी सं. १९४७ ( सन् १८९० ) के लगभग मूडविद्रीकी यात्राको गये थे तब ब्रह्मसूरि शास्त्री द्वारा लेखनकार्य प्रारंभ हो गया था । किंतु लगभग तीसरी श्लोक प्रमाण प्रतिलिपि होनेके पश्चात् ही वह कार्य बन्द पड़ गया, क्योंकि, सेठजी वह प्रतिलिपि अजमेरके लिये चाहते थे और यह बात मूडविद्रीके भट्टारकजी व पंचोंको इष्ट नहीं थी ।

इसी विषयको लेकर सं० १९५२ ( सन् १८९५ ) में सेठ माणिकचंदजी और सेठ हीराचंदजी के बीच पुनः पत्रव्यवहार हुआ, जिसके फलस्वरूप सेठ हीराचंदजीने प्रतिलिपि करानेके खर्चके लिये चन्दा एकत्र करनेका बीड़ा उठाया । उन्होंने अपने पत्र जैनबोधकमें सौ सौ रुपयोंके सहायक बननेके लिये अपील निकालना प्रारंभ कर दिया । फलतः एक वर्षके भीतर चौदह हजारसे ऊपरके चन्देकी स्वीकारता आ गई । तब सेठ हीराचंदजीने सेठ माणिकचंदजीको सोलापुर बुलाया और उनके समक्ष ब्रह्मसूरि शास्त्रीसे एकसौ पच्चीस ( १२५ ) रुपया मासिक वृत्तिपर प्रतिलिपि करानेकी बात पक्की होगई । उनकी सहायताके लिये मिरजनिवासी गजपति शास्त्री भी नियुक्त कर दिये गये । ये दोनों शास्त्री मूडविद्री पहुँचे और उसी वर्षकी फाल्गुन शुक्ला ७ बुधवारको ग्रंथकी प्रतिलिपि करनेका कार्य प्रारंभ हो गया । उसके एक माह और तीन दिन पश्चात् चैत्र शुक्ला १० को ब्रह्मसूरि शास्त्रीने सेठ हीराचंदजीको पत्रद्वारा सूचित किया कि जयधवलके पन्द्रह पत्र अर्थात् लगभग १५०० श्लोकोंकी कापी हो चुकी । इसके कुछ ही पश्चात् ब्रह्मसूरि शास्त्री अस्वस्थ हो गये और अन्ततः स्वर्गवासी हुए ।

ब्रह्मसूरि शास्त्रीके पश्चात् गजपति शास्त्रीने प्रतिलेखनका कार्य चालू रक्खा और लगभग सोलह वर्षमें धवल और जयधवलकी प्रतिलिपि नागरी लिपिमें पूरी की । इसी अवसरमें मूडविद्रीके पण्डित देवराज सेठी, शांतप्पा उपाध्याय तथा ब्रह्मय्य इंद्रद्वारा उक्त ग्रंथोंकी कनाडी लिपिमें भी प्रतिलिपि कर ली गई । उस समय सेठ हीराचंदजी पुनः मूडविद्री पहुँचे और उन्होंने यह इच्छा

प्रगट की कि तीसरे ग्रंथराज महाधवलकी भी प्रतिलिपि हो जाय और इन ग्रंथोंकी सुरक्षा तथा पठनपाठनरूप सदुपयोगके लिये अनेक प्रतियां कराकर भिन्न भिन्न स्थानोंमें रक्खी जावें । किंतु इस बातपर भट्टारकजी व पंचलोग राजी नहीं हुए । तथापि महाधवलकी कनाडी प्रतिलिपि पंडित नेमिराजजी द्वारा किये जानेकी व्यवस्था करा दी गई ; यह कार्य सन् १९१८ से पूर्व पूर्ण हो गया । इसके पश्चात् सेठ हीराचंदजीके प्रयत्नसे महाधवलकी नागरी प्रतिलिपि पं. लोकनाथजी शास्त्रीद्वारा लगभग चार वर्षमें पूरी हुई । इसप्रकार इन ग्रंथोंका प्रतिलिपि कार्य सन् १८९६ से १९२२ तक अर्थात् २६ वर्ष चला, और इतने समयमें इनकी कनाडी लिपि पं. देवराज सेठी, पं. शांतप्पा इन्द्र, पं. ब्रह्मय्य इन्द्र तथा पं. नेमिराज सेठी द्वारा; तथा नागरी लिपि पं. ब्रह्मसूरि शास्त्री, पं. गजपति उपाध्याय और पं. लोकनाथजी शास्त्री द्वारा की गई । इस कार्यमें लगभग बीस हजार रुपया खर्च हुआ ।

### धवल और जयधवलकी प्रतिके बाहर निकलनेका इतिहास

धवल और जयधवलकी नागरी प्रतिलिपि करते समय श्री गजपति उपाध्यायने गुप्त-रीतिसं उनकी एक कनाडी प्रतिलिपि भी कर ली और उसे अपने ही पास रख लिया । इस कार्य में विशेष हाथ उनकी विदुषी पत्नी लक्ष्मीबाईका था, जिनकी यह प्रवृत्ति इच्छा थी कि इन ग्रंथोंके पठनपाठनका प्रचार हो । सन् १९१५ में उन प्रतिलिपियोंको लेकर गजपति उपाध्याय सेठ हीराचंदजीके पास सोलापुर पहुंचे और न्योछावर देकर उन्हें अपने पास रखनेके लिये कहा । किंतु सेठजीने उन्हें अपने पास रखना स्वीकार नहीं किया, तथा अपने घनिष्ठ मित्र सेठ माणिकचंदजी को भी लिख दिया कि वे भी उन प्रतियोंको अपने पास न रक्खें । उनके ऐसा करनेका कारण यही जाना जाता है कि वे मूडविद्रीसे बाहर प्रतियोंको न ले जानेके लिये मूडविद्रीके पंचों और भट्टारकजी से वचनबद्ध हो चुके थे । अतएव प्रतियोंके प्रचारकी भावना रखते हुए भी उन्होंने प्रतियोंको अपने पास रखना नैतिक दृष्टिसे उचित नहीं समझा । तब गजपति उपाध्याय उन प्रतियोंको लेकर सहारनपुर पहुंचे, और वहां श्री लाला जम्बूप्रसादजी रईसने उन्हें यथोचित पुरस्कार देकर उन प्रतियोंको अपने मंदिरजीमें विराजमान कर दिया ।

गजपति उपाध्यायने लालाजी को यह आश्वासन दिया था कि वे स्वयं उन कनाडी प्रतियोंकी नागरी लिपि कर देंगे । किंतु पुत्रकी बीमारीके कारण उन्हें शीघ्र घर लौटना पड़ा । पश्चात् उनकी पत्नी भी बीमार हुई और उनका देहान्त हो गया । इन संकटोंके कारण उपाध्यायजी फिर सहारनपुर न जा सके और सन् १९२३ में उनका भी शरीरान्त हो गया । लालाजीने उन ग्रंथोंकी नागरी प्रतिलिपि पण्डित विजयचंद्रय्या और पं. सीताराम शास्त्रीके द्वारा

कराई । यह कार्य सन् १९१६ से १९२३ तक संपन्न हुआ । सन् १९२४ में सहारनपुरवालोंने मूडविट्रीके पं. लोकनाथ जी शास्त्रीको बुलाकर उनसे कनाडी और नागरी लिपियोंका मिलान करा लिया ।

सहारनपुरकी कनाडी प्रतिकी नागरी लिपि करते समय पं. सीताराम शास्त्रीने एक और कापी कर ली और उसे अपने ही पास रख लिया, यह लाला प्रद्युम्नकुमारजी रईस, सहारनपुर, की सूचनासे ज्ञात हुआ है । पर यह भी सुना जाता है कि जिस समय पं. विजयचंद्रय्या और पं. सीताराम शास्त्री कनाडीकी नागरी प्रतिलिपि करने बैठे उस समय पं. विजयचंद्रय्या पढ़ते जाते थे और पं. सीताराम शास्त्री सुविधा और जल्दीके लिये कागजके खरोंपर नागरीमें लिखते जाते थे । इन्हीं खरोंपरसे उन्होंने पीछे शास्त्राकार प्रति सावधानीसे लिखकर लालाजीको दे दी, किंतु उन खरोंको अपने पास ही रख लिया, और उन्हीं खरोंपरसे पीछे सीताराम शास्त्रीने अनेक स्थानोंपर धवल जयधवल की लिपियां करके दीं । ये ही तथा उन परसे की गई प्रतियां अब अमरावती, आरा, कारंजा, दिल्ली, बम्बई, सोलापुर, सागर, झालरापाटन, इन्दौर, सिवनी, व्यावर, और अजमेरमें विराजमान हैं ।

पं. गजपति उपाध्याय तथा पं. सीताराम शास्त्रीने चाहे जिस भावनासे उक्त कार्य किया हो और भले ही नीतिकी कसौटी पर वह कार्य ठीक न उतरता हो, किंतु इन महान् सिद्धान्त ग्रंथोंको सैकड़ों वर्षोंके कैदसे मुक्त करके विद्वत् और जिज्ञासु संसारका महान् उपकार करनेका श्रेय भी उन्हींको है । इस प्रसंगमें मुझे गुमानी कविका निम्न पद्य याद आता है—

पूर्वजशुद्धिमिपाद् भुवि गंगां प्रापितवान् स भगीरथभूपः ।

बन्धुरभूजगतः परमोऽसौ सज्जन है सचका उपकारी ॥

---

सिद्धान्त ग्रंथोंकी प्रतियोंका इतिहास संग्रह करनेके लिये हमने जो प्रश्नावली प्रकाशित की थी उसका जिन अनेक महानुभावोंने सूचनात्मक उत्तर भेजनेकी कृपा की। हम उन्हीं उत्तरोंके आधारसे पूर्वोक्त इतिहास प्रस्तुत करनेमें समर्थ हुए, इस हेतु हम इन सज्जनोंका आभार मानते हैं।

धवलादि सिद्धान्त ग्रंथोंकी प्रति-उद्धारसंबन्धी प्रश्नावलीका उत्तर भेजनेवाले सज्जनोंकी नामावली—

- १ श्रीमान् सेठ रावजी सखारामजी दोशी, सोलापुर
- २ ,, लाला प्रद्युम्नकुमारजी रईस, सहारनपुर
- ३ ,, पंडित नाथूराम जी प्रेमी, बम्बई
- ४ ,, पं. लोकनाथजी शास्त्री, मंत्री, वीरवाणी सिद्धान्त भवन, मूडविट्टी
- ५ ,, ब्र. शीतलप्रसादजी
- ६ ,, पं. देवकीनन्दनजी सिद्धान्तशास्त्री, कारंजा
- ७ ,, सिंघई पन्नालालजी वंशीलालजी, अमरावती
- ८ ,, पं. मन्मथलालजी शास्त्री, मोरेना
- ९ ,, पं. रामप्रसादजी शास्त्री, श्री. ए. पन्नालाल दि. जैन सरस्वती भवन, बम्बई
- १० ,, पं. के. भुजवलीजी शास्त्री, जैन सिद्धान्त भवन, आरा
- ११ ,, पं. दयाचन्दजी न्यायातीर्थ, सत्तर्कसुधातरंगिणी पाठशाला, सागर
- १२ ,, सेठ वीरचंद कोदरजी गांधी, फलटन
- १३ ,, सेठ ठाकुरदास भगवानदासजी जव्हेरी, बम्बई
- १४ ,, सेठ मूलचन्द किशनदास जी कापड़िया, सूरत
- १५ ,, सेठ राजमल जी वड़जात्या, भेलसा
- १६ ,, गांधी नेमचंद बालचंदजी, वकील, उसमानावाद
- १७ ,, बाबू कामताप्रसादजी, सम्पादक वीर, अलीगंज



## २. हमारी आदर्श प्रतियां

१. धवलादि सिद्धान्तग्रंथोंकी एकमात्र प्राचीन प्रति दक्षिण कर्नाटक देशके मूडविद्री नगरके गुरुवसदि नामक जैन मंदिरमें वहांके भट्टारक श्रीचारुकीर्तिजी महाराज तथा जैन पंचोंके अधिकारमें है। तीनों ग्रंथोंकी प्रतियां ताड़पत्र पर कनाड़ी लिपिमें हैं। धवलाके ताड़पत्रोंकी लम्बाई लगभग २। फुट, चौड़ाई ३ इंच, और कुलसंख्या ५९२ हैं। यह प्रति कवकी लिखी हुई है इसका ठीक ज्ञान प्राप्त प्रतियों पर से नहीं होता है। किन्तु लिपि प्राचीन कनाड़ी है जो पांच सैसौ वर्षोंसे कम प्राचीन नहीं अनुमान की जाती। कहा जाता है कि ये सिद्धान्त ग्रंथ पहले जैनविद्री अर्थात् श्रवणबेलगोल नगर के एक मंदिरकी में विराजमान थे। इसी कारण उस मंदिरकी अभी तक 'सिद्धान्त वस्ती' नामसे प्रसिद्धि है। वहां से किसी समय ये ग्रंथ मूडविद्री पहुंचे। ( एपीग्राफिया कर्नाटिका, जिल्द २, भूमिका पृ. २८ )।

२. इसी प्रतिकी धवलाकी कनाड़ी प्रतिलिपि पं० देवराज सेठी, शान्तप्पा उपाध्याय और ब्रह्मय्य इन्द्र द्वारा सन् १८९६ और १९१६ के बीच पूर्ण की गयी थी। यह लगभग १ फुट २ इंच लम्बे और ६ इंच चौड़े काश्मीरी कागज के २८०० पत्रों पर है। यह भी मूडविद्री के गुरुवसदि मंदिर में सुरक्षित है।

३. धवलाके ताड़पत्रोंकी नागरी प्रतिलिपि पं० गजपति उपाध्याय द्वारा सन् १८९६ और १९१६ के बीच की गई थी। यह प्रति १ फुट ३ इंच लम्बे, १० इंच चौड़े काश्मीरी कागज के १३२३ पत्रों पर है। यह भी मूडविद्री के गुरुवसदि मंदिरमें सुरक्षित है।

४. मूडविद्रीके ताड़पत्रों परसे सन् १८९६ और १९१६ के बीच पं. गजपति उपाध्यायने उनकी विदुषी पत्नी लक्ष्मीबाई की सहायतासे जो प्रति गुप्त रीतिसे की थी वह आधुनिक कनाड़ी लिपिमें कागजपर है। यह प्रति अब सहारनपुरमें लाला प्रद्युम्नकुमारजी रईसके अधिकारमें है।

५. पूर्वोक्त नं. ४ की प्रति की नागरी प्रतिलिपि सहारनपुर में पं. विजयचंद्रैया और पं. सीतारामशास्त्रीके द्वारा सन् १९१६ और १९२४ के बीच कराई गई थी। यह प्रति १ फुट लम्बे, ८ इंच चौड़े कागजके १६५० पत्रोंपर हुई है। इसका नं. ४ की कनाड़ी प्रतिसे मिलान मूडविद्री के पं. लोकनाथजी शास्त्रीद्वारा सन् १९२४ में किया गया था। यह प्रति भी उक्त लालाजीके ही अधिकारमें है।

६. पूर्वोक्त नं. ५ की नागरी प्रतिलिपि करते समय पं. सीताराम शास्त्रीने एक और नागरी प्रतिलिपि करके अपने पास रख ली थी, ऐसा श्रीमान् लाला प्रद्युम्नकुमारजी रईस, सहारनपुर, की सूचनासे जाना जाता है। यह प्रति अब भी पं सीताराम शास्त्रीके अधिकारमें है।

७. पूर्वोक्त नं. ६ की प्रतिपरसे ही सीताराम शास्त्रीने वे अनेक प्रतियां की हैं जो अब कारंजा, आरा, सागर आदि स्थानों में विराजमान हैं। सागर की प्रति १३॥ इंच लम्बे ७॥ इंच चौड़े कागज के १५९६ पत्रोंपर है। यह प्रति सत्तर्कसुधातरंगिणी पाठशाला, सागर, के चैत्यालयमें विराजमान है और श्रीमान् पं. गणेशप्रसादजी वर्णीके अधिकारमें है।

८. नं. ७ परसे अमरावतीकी धवला प्रति १७ इंच लम्बे, ७ इंच चौड़े कागजके १४६५ पत्रोंपर बटुकप्रसादजी कायस्थके हाथसे संवत् १९८५ के माघकृष्णा ८ शनि० को लिखी गई है। यह प्रति अब इस साहित्य उद्धारक फंडके ट्रस्टी श्रीमान् सिं. पन्नालाल बंशीलालजी के अधिकारमें है और अमरावतीके परवार दि. जैन मन्दिरमें विराजमान है। इसके ३७५ पत्रोंका संशोधन सहारनपुरवाली नं. ५ की प्रतिपरसे १९३८ में कर लिया गया था।

प्रस्तुत ग्रंथ की प्रथम प्रेसकापी इसी प्रतिपरसे की गई थी। इसका उल्लेख प्रस्तुत ग्रंथकी टिप्पणियों में 'अ' संकेत द्वारा किया गया है।

९. दूसरी प्रति जिसका हमने पाठ संशोधनमें उपयोग किया है, आराके जैनसिद्धान्त भवन में विराजमान है, और लाला निर्मलकुमारजी चक्रेश्वरकुमारजीके अधिकारमें है। यह उपर्युक्त प्रति नं. ६ पर से स्वयं सीताराम शास्त्री द्वारा वि. सं. १९८३ माघ शुक्ला ५ रविवार को लिखकर समाप्त की हुई है। इसके कागज १४॥ इंच लम्बे और ६॥ इंच चौड़े हैं, तथा पत्रसंख्या ११२७ है। यह हमारा टिप्पणियों आदि की 'आ' प्रति है।


१०. हमारेद्वारा उपयोगमें ली गई तीसरी प्रति कारंजाके श्री महावीर ब्रह्मचर्याश्रमकी है और हमें पं. देवकीनन्दनजी सिद्धान्तशास्त्रीके द्वारा प्राप्त हुई। यह भी उपर्युक्त नं. ६ परसे स्वयं सीताराम शास्त्री द्वारा १३॥ इंच लंबे ८ इंच चौड़े कागजके १४१२ पत्रोंपर श्रावण शुक्ला १५ सं. १९८८ में लिखी गई है। इस प्रतिका उल्लेख टिप्पणियों आदि में 'क' संकेत द्वारा किया गया है।

सहारनपुर की प्रतिसे लिए गए संशोधनोंका संकेत 'स' प्रति के नामसे किया गया है।

इनके अतिरिक्त, जहांतक हमें ज्ञात है, सिद्धान्त ग्रंथोंकी प्रतियां सोलापुर, झालरा-पाटन, व्यावर, बम्बई, इन्दौर, अजमेर, दिल्ली और सिवनीमें भी हैं। इनमेंसे केवल बम्बई दि. जैन सरस्वती भवन की प्रति का परिचय हमारी प्रश्नावलीके उत्तरमें वहां के मैनेजर श्रीयुक्त पं. रामप्रसादजी शास्त्रीने भेजनेकी कृपा की, जिससे ज्ञात हुआ कि वह प्रति आराकी उपर्युक्त नं. ९ की प्रति पर से पं. रोशनलालद्वारा सं. १९८९ में लिखी गई है, और उसी परसे झालरा-पाटन ऐलक पन्नालाल दि. जैन सरस्वतीभवन के लिए प्रति कराई गई है। सागरकी सत्तर्कसुधा-तरंगिणी पाठशालाकी प्रतिका जो परिचय वहां के प्रधानाध्यापक पं. दयाचंदजी शास्त्रीने भेजने की कृपा की है, उससे ज्ञात हुआ है कि सिवनी की प्रति सागरकी प्रतिपरसे ही की गई है। शेष प्रतियोंका हमें हमारी प्रश्नावलीके उत्तरमें कोई परिचय भी नहीं मिल सका।

इससे स्पष्ट है कि स्वयं सीताराम शास्त्रीके हाथकी लिखी हुई जो तीन प्रतियां कारंजा, आरा और सागरकी हैं, उनमेंसे पूर्व दोका तो हमने सीधा उपयोग किया है और सागरकी प्रतिका उसकी अमरावतीवाली प्रतिलिपि परसे लाभ लिया है।

## धवल सिद्धान्तकी प्रतियोंकी पूर्वोक्त परम्पराका निदर्शक वंशवृक्ष



इस विवरण और वंशवृक्ष से स्पष्ट है कि यथार्थमें प्राचीन प्रति एक ही है किंतु खेद है कि अत्यन्त प्रयत्न करनेपर भी हमें मूढ़विद्वीकी प्रतिके मिलानका लाभ नहीं मिल सका । यही नहीं, जिस प्रति परसे हमारी प्रथम प्रेस-कापी तैयार हुई वह उस प्रतिकी छठवीं पीढ़ीकी है । उसके संशोधनके लिये हम पूर्णतः दो पांचवीं पीढ़ीकी प्रतियोंका लाभ पा सके । तीसरी पीढ़ीकी सहारनपुरवाली प्रति अन्तिम संशोधनके समय हमारे सामने नहीं थी । उसके जो पाठ-भेद अमरावतीकी प्रतिपर अंकित कर लिये गये थे उन्हींसे लाभ उठाया गया है । इस परंपरामें भी दो पीढ़ियोंकी प्रतियां गुप्त रीतिसे की गई थीं । ऐसी अवस्थामें पाठ-संशोधनका कार्य कितना कठिन हुआ है यह वे पाठक विशेषरूपसे समझ सकेंगे जिन्हें प्राचीन ग्रंथोंके संशोधनका कार्य पड़ा है । भाषाके प्राकृत होने और विषयकी अत्यन्त गहनता और दुरूहतासे संशोधन कार्य और भी जटिल बना दिया था ।

यह सब होते हुए भी हम प्रस्तुत ग्रंथ पाठकोंके हाथमें कुछ दृढ़ता और विश्वासके साथ दे रहे हैं । उपर्युक्त अवस्थामें जो कुछ सामग्री हमें उपलब्ध हो सकी उसका पूरा लाभ लेनेमें कसर नहीं रखी गई । सभी प्रतियोंमें कहीं कहीं लिपिकारके प्रमादसे एक शब्दसे लेकर कोई सौ शब्दतक छूट गये हैं । इनकी पूर्ति एक दूसरी प्रतिसे कर ली गई है । प्रतियोंमें वाक्य-समाप्ति-सूचक विराम-चिन्ह नहीं हैं । कारंजाकी प्रतिमें लाल स्याहीके दण्डक लगे हुए हैं, जो वाक्यसमाप्तिके समझनेमें सहायक होनेकी अपेक्षा भ्रामक ही अधिक हैं । ये दण्डक किसप्रकार लगाये गये थे इसका इतिहास श्रीमान् पं. देवकीनन्दनजी शास्त्री सुनाते थे । जब पं. सीतारामजी शास्त्री ग्रंथोंको लेकर कारंजा पहुंचे तब पण्डितजीने ग्रंथोंको देखकर कहा कि उनमें विराम-चिन्होंकी कमी है । पं. सीतारामजी शास्त्रीने इस कमीकी वहाँ पूर्ति कर देनेका वचन दिया और लाल स्याही लेकर कलमसे खटाखट दण्डक लगाना प्रारंभ कर दिया । जब पण्डितजीने उन दण्डकोंको जाकर देखा और उन्हें अनुचित स्थानोंपर भी लगा पाया तब उन्होंने कहा यह क्या किया ? पं. सीतारामजीने कहा जहां प्रतिमें स्थान मिला, आखिर वहाँ तो दण्डक लगाये जा सकते हैं ? पण्डितजी इस अनर्थको देखकर अपनी कृतिपर पछताये । अतएव वाक्यका निर्णय करनेमें ऐसे विराम-चिन्होंका ख्याल त्रिलकुल ही छोड़कर विषयके तारतम्यद्वारा ही हमें वाक्य-समाप्तिका निर्णय करना पड़ा है । इसप्रकार तथा अन्यत्र दिये हुए संशोधनके नियमोंद्वारा अब जो पाठ प्रस्तुत किया जा रहा है वह समुचित साधनोंकी अप्राप्तिको देखते हुए असंतोषजनक नहीं कहा जा सकता । हमें तो बहुत थोड़े स्थानोंपर शुद्ध पाठमें संदेह रहा है । हमें आश्चर्य इस बातका नहीं है कि ये थोड़े स्थल

शंकास्पद रह गये, किंतु आश्चर्य इस बातका है कि प्रतियोंकी पूर्वोक्त अवस्था होते हुए भी उन परसे इतना शुद्ध पाठ प्रस्तुत किया जा सका । इस संबन्धमें हमसे पुनः यह कहे बिना नहीं रहा जाता कि गजपतिजी उपाध्याय और पं. सीतारामजी शास्त्रीने भले ही किसी प्रयोजनवश नकलें की हों, किंतु उन्होंने कार्य किया उनकी शक्तिभर ईमानदारीसे और इसके लिये उनके प्रति, और विशेषतः पं. गजपतिजी उपाध्यायकी धर्मपत्नी लक्ष्मीबाईके प्रति हमारी कृतज्ञता कम नहीं है ।

### ३. पाठ संशोधनके नियम

१. प्रस्तुत ग्रंथके पाठ-संशोधनमें ऊपर बतलाई हुई अमरावती, सहारनपुर, कारंजा और आराकी चार हस्तलिखित प्रतियोंका उपयोग किया गया है । यद्यपि ये सब प्रतियां एक ही प्रतिका प्रायः एक ही व्यक्तिद्वारा गत पंद्रह वर्षोंके भीतर की हुई नकलें हैं, तथापि उनसे पूर्विका प्रति अलभ्य होनेकी अवस्थामें पाठ-संशोधनमें इन चार प्रतियोंसे बहुत सहायता मिली है । कमसे कम उनके मिलानद्वारा भिन्न भिन्न प्रतियोंमें छूटे हुए भिन्न भिन्न पाठ, जो एक मात्रासे लगा कर लगभग सौ शब्दोंतक पाये जाते हैं, उपलब्ध हो गये और इसप्रकार कमसे कम उन सबकी उस एक आदर्श प्रतिका पाठ हमारे सामने आ गया । पाठका विचार करते समय सहारनपुरकी प्रति हमारे सामने नहीं थी, इस कारण उसका जितना उपयोग चाहिये उतना हम नहीं कर सके । केवल उसके जो पाठ-भेद अमरावतीकी हस्त-प्रति पर अंकित कर लिये गये थे, उन्हींसे लाभ उठाया गया है । जहां पर अन्य सब प्रतियोंसे इसका पाठ भिन्न पाया गया वहां इसीको प्रामाण्य दिया गया है । ऐसे स्थल परिशिष्टमें दी हुई प्रति-मिलानकी तालिकाके देखनेसे ज्ञात हो जावेंगे । प्रति-प्रामाण्यके बिना पाठ-परिवर्तन केवल ऐसे ही स्थानोंपर किया गया है जहां वह विषय और व्याकरणको देखते हुये नितान्त आवश्यक जंचा । फिर भी वहां पर कमसे कम परिवर्तनद्वारा काम चलाया गया है ।

२. जहां पर प्रतियोंके पाठ-मिलानमात्रसे शुद्ध पाठ नहीं मिल सका वहां पहले यह विचार किया गया है कि क्या कनाड़ीसे नागरी लिपि करनेमें कोई दृष्टि-दोषजन्य भ्रम वहां संभव है ? ऐसे विचारद्वारा हम निम्न प्रकारके संशोधन कर सके—

( अ ) प्राचीन कनाड़ीमें प्राकृत लिखते समय अनुस्वार और वर्ण-द्वित्व-बोधक संकेत एक बिन्दु ही होता है, भेद केवल इतना है कि अनुस्वारका बिन्दु कुछ छोटा ( ० ) और द्वित्वका

कुछ बड़ा (○) होता है। फिर अनुस्वार का विन्दु वर्णसे पश्चात् और द्वित्वका वर्णसे पूर्व रखा जाता है। अतएव लिपिकार द्वित्वको अनुस्वार और अनुस्वारको द्वित्व भी पढ़ सकता है। उदाहरणार्थ, प्रो० पाठकने अपने एक लेखमें\* त्रिलोकसारकी कनाड़ी ताड़पत्र प्रति परसे कुछ नागरीमें गाथाएं उद्धृत की हैं जिनमेंसे एक यहां देते हैं—

सो उ०म०गाहिमुहो चउ०मुहो सदरि-वास-परमाऊ ।  
चालीस र०जओ जिदभूमि पु०च्छइ स-मंति-गणं ॥

इसका शुद्धरूप है—

सो उ०म०गाहिमुहो चउ०मुहो सदरि-वास-परमाऊ ।  
चालीस-रजओ जिदभूमि पु०च्छइ स-मंति-गणं ॥

ऐसे भ्रमकी संभवता ध्यानमें रखकर निम्न प्रकारके पाठ सुधार लिये गये हैं—

(१) अनुस्वारके स्थान पर अगले वर्णका द्वित्व—

अंग गिञ्जा—अंगगिञ्जा ( पृ. ६ ); लक्खणं खइणो—लक्खणक्खइणो ( पृ. १५ )  
संबंध—संबद्ध ( पृ. २५, २९२, ) वंस—वस्स ( पृ. ११० ) आदि ।

(२) द्वित्वके स्थानपर अनुस्वार—

भग—भंग ( पृ. ४९ ) अक्कुलेसर—अकुलेसर ( पृ. ७१ ) कंक्खा—कंखा ( पृ. ७३ ) समिइवइस्सया दंतं—समिइवइं सया दंतं ( पृ. ७ ) सव्वेयणी—संवेयणी ( पृ. १०४ ) ओरालिय त्ति ओरालियं ति ( पृ. २९१ ) पावगालिय—पावं गालिय ( पृ. ४८ ) पडिमव्वा—पडिमं वा ( पृ. ५८ ) इत्यादि ।

(आ) कनाड़ीमें द और ध प्रायः एकसे ही लिखे जाते हैं जिससे एक दूसरेमें भ्रम हो सकता है ।

द—ध, दरिद—धरिद ( पृ. २९ ) ध—द, इविध—इविद ( पृ. २० ) हरधणु—हरदणु ( पृ. २७३ ) इत्यादि ।

(इ) कनाड़ीमें थ और ध में अन्तर केवल वर्णके मध्यमें एक विंदुके रहने न रहनेका

है, अतएव इनके लिखने पढ़नेमें भ्रान्ति हो सकती है। अतः कथं के स्थानपर कधं और इसको तथा पूर्वोक्त अनुस्वार द्वित्व-विभ्रमको ध्यानमें रखकर संबंधोवा के स्थान पर सव्यत्योवा कर दिये गये हैं।

यद्यपि शौरसेनीके नियमानुसार कथं आदिमें थ के स्थान पर ध ही रक्खा है, किंतु जहां ध करनेसे किसी अन्य शब्दसे भ्रम होनेकी संभावना हुई वहां थ ही रहने दिया। उदाहरणार्थ—किसी किसी प्रतिमें ' गंधो ' के स्थान पर ' गंधो ' भी है किंतु हमने ' गंधो ' ही रक्खा है।

(ई) ष्वस्व और दीर्घ स्वरोंमें बहुत व्यत्यय पाया जाता है, विशेषतः प्राकृत रूपोंमें। इसका कारण यही जान पड़ता है कि प्राचीन कनाड़ी लिपिमें ष्वस्व और दीर्घका कोई भेद ही नहीं किया जाता। अतः संशोधनमें ष्वस्वत्व और दीर्घत्व व्याकरणके नियमानुसार रक्खा गया है।

(उ) प्राचीन कनाड़ी ग्रंथोंमें बहुधा आदि ल के स्थान पर अ लिखा मिलता है जैसा कि प्रो. उपाध्येने परमात्मप्रकाशकी भूमिकामें (पृ. ८३ पर) कहा है। हमें भी पृ. ३२६ की अवतरण गाथा नं. १६९ में ' अहइ ' के स्थान पर ' लहइ ' करना पड़ा।

३. प्रतियोंमें न और ण के द्वित्वको छोड़कर रोप पंचमाक्षरोंमें हलन्त रूप नहीं पाये जाते। किंतु यहां संशोधित संस्कृतमें पंचमाक्षर यथास्थान रक्खे गये हैं।

४. प और य में प्राचीन कनाड़ी तथा वर्तमान नागरी लिपिमें बहुधा भ्रम पाया जाता है। यही बात हमारी प्रतियोंमें भी पाई गई। अतः संशोधनमें वे दोनों यथास्थान रक्खे गये हैं।

५. प्रतियोंमें व और व का भेद नहीं दिखाई देता, सर्वत्र व ही दिखाई देता है। अतः संशोधनमें दोनों अक्षर यथास्थान रक्खे गये हैं। प्राकृतमें व या व संस्कृतके वर्णानुसार रक्खा गया है।

६. ' अरिहंतः ' संस्कृतमें अकारांतके रूपसे प्रतियोंमें पाया जाता है। हमने उसके स्थानपर संस्कृत नियमानुसार अरिहंता ही रक्खा है। ( देखो, भाषा व व्याकरणका प्रकरण )

७. ग्रंथमें संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओंका खूब उपयोग हुआ है, तथा प्रतियोंकी नकल करनेवाले संस्कृतके ही जानकर रहे हैं। अतएव बहुत स्थानोंपर प्राकृतके बीच संस्कृतके और संस्कृतके बीच प्राकृतके रूप आ गये हैं। ऐसे स्थानोंपर शुद्ध करके उनके प्राकृत और संस्कृत रूप ही दिये गये हैं। जैसे, इदि—इति, वणं—वनं, गदि—गति, आदि।

८. प्रतियोंमें अवतरण गाथाएं प्रायः अनियमितरूपसे उक्तं च या उक्तं च कहकर उद्धृत की गई हैं। नियमके लिये हमने सर्वत्र संस्कृत पाठके पश्चात् उक्तं च और प्राकृत पाठके पश्चात् उक्तं च रखा है।

९. प्रतियोंमें संधिके संबंधमें भी बहुत अनियम पाया जाता है। हमने व्याकरणके संधिसंबंधी नियमोंको ध्यानमें रखकर यथाशक्ति मूलके अनुसार ही पाठ रखनेका प्रयत्न किया है, किंतु जहां विराम चिन्ह आगया है वहां संधि अवश्य ही तोड़ दी गई है।

१०. प्रतियोंमें प्राकृत शब्दोंमें लुप्त व्यंजनोंके स्थानोंमें कहीं य श्रुति पाई जाती है और कहीं नहीं। हमने यह नियम पालनेका प्रयत्न किया है कि जहां आदर्श प्रतियोंमें अवशिष्ट स्वर ही हो वहां यदि संयोगी स्वर अ या आ हो तो य श्रुतिका उपयोग करना, नहीं तो य श्रुतिका उपयोग नहीं करना। प्रतियोंमें अधिकांश स्थानोंपर इसी नियमका प्रभाव पाया जाता है। पर ओ के साथ भी बहुत स्थानों पर य श्रुति मिलती है और ऊ अथवा ए के साथ क्वचित् ही, अन्य स्वरोंके साथ नहीं।

(१) ओ के साथ य श्रुतिके उदाहरण —

भणियो, जाणयो, विसारयो, पारयो, आदि।

(२) ऊके साथ—वज्जियूण

(३) ए के साथ—परिणयेण ( परिणतेन ) एक्कारसीये, आदीये, इत्यादि।

## ४. पट्खंडागमके रचयिता

प्रस्तुत ग्रंथके अनुसार ( पृ. ६७ ) पट्खंडागमके विषयके ज्ञाता धरसेनाचार्य थे, जो सोरठ देशके गिरिनगरकी चन्द्रगुफामें ध्यान करते थे। नंदिसंघकी प्राकृत पट्टावलीके आचार्य धरसेन अनुसार वे आचारांग के पूर्ण ज्ञाता थे किन्तु ' धवला 'के शब्दोंमें वे अंगों और पूर्वोंके एकदेश ज्ञाता थे। कुछ भी हो वे थे भारी विद्वान् और श्रुत-वत्सल। उन्हें इस बातकी चिंता हुई कि उनके पश्चात् श्रुतज्ञानका लोप हो जायगा, अतः उन्होंने महिमा नगरीके मुनिसम्भेदनको पत्र लिखा जिसके फलस्वरूप वहांसे दो मुनि उनके पास पहुंचे। आचार्यने उनकी बुद्धिकी परीक्षा करके उन्हें सिद्धान्त पढ़ाया। ये दोनों मुनि पुष्पदंत और भूतबलि थे। धरसेनाचार्यने इन्हें सिखाया तो उत्तम-



तासे किंतु ज्यों ही आपाठ शुक्ला एकादशीको अध्ययन पूरा हुआ ल्यों ही वर्षाकालके बहुत समीप होते हुए भी उन्हें उसी दिन अपने पाससे विदा कर दिया । दोनों शिष्योंने गुरुकी बात अनुल्लंघनीय मानकर उसका पालन किया और वहांसे चलकर अंकुलेश्वरमें<sup>१</sup> चातुर्मास किया । धरसेनाचार्यने इन्हें वहांसे तत्क्षण क्यों रवाना कर दिया यह प्रस्तुत ग्रंथमें नहीं बतलाया गया है । किंतु इन्द्रनन्दिकृत श्रुतावतार तथा विबुध श्रीधरकृत श्रुतावतारमें लिखा है कि धरसेनाचार्यको ज्ञात हुआ कि उनकी मृत्यु निकट है, अतएव इन्हें उस कारण क्लेश न हो इससे उन्होंने उन मुनियोंको तत्काल अपने पाससे विदा कर दिया<sup>२</sup> । संभव है उनके वहां रहनेसे आचार्यके ध्यान और तपमें विघ्न होता, विशेषतः जब कि वे श्रुतज्ञानका रक्षासंवन्धी अपना कर्तव्य पूरा कर चुके थे । वे संभवतः यह भी चाहते होंगे कि उनके वे शिष्य वहांसे जल्दी निकल कर उस श्रुतज्ञानका प्रचार करें । जो भी हो, धरसेनाचार्यकी हमें फिर कोई छटा देखनेको नहीं मिलती, वे सदाके लिये हमारी आंखोंसे ओझल हो गये ।

धवलाकारने धरसेनाचार्यके गुरुका नाम नहीं दिया । इन्द्रनन्दिके श्रुतावतारमें लोहार्य तककी गुरुपरम्पराके पश्चात् विनयदत्त, श्रीदत्त, शिवदत्त और अर्हदत्त इन चार आचार्योंका उल्लेख किया गया है । वे सब अंगों और पूर्वोंके एकदेश ज्ञाता थे । और माघनन्दि इनके पश्चात् अर्हद्वलिका उल्लेख आया है । अर्हद्वलि बड़े भारी संवनायक थे । वे पूर्वदेशमें पुंड्रवर्धनपुरके कहे गये हैं । उन्होंने पंचवर्षीय युग-प्रतिक्रमणके समय बड़ा भारी यति-सम्मेलन किया जिसमें सौ योजनके यति एकत्र हुए । उनकी भावनाओं परसे उन्होंने जान लिया कि अब पक्षपातका जमाना आगया है । अतः उन्होंने नन्दि, वीर, अपराजित, देव, पंचस्तूप, सेन, भद्र, गुणधर, गुप्त, सिंह, चन्द्र आदि नामोंसे भिन्न भिन्न संघ स्थापित किये जिसमें एकत्व और अपनत्वकी भावनासे खूब धर्म-वात्सल्य और धर्म-प्रभावना बड़े ।

श्रुतावतारके अनुसार अर्हद्वलिके अनन्तर माघनन्दि हुए जो मुनियोंमें श्रेष्ठ थे । उन्होंने अंगों और पूर्वोंका एकदेश प्रकाश फैलाया और पश्चात् समाधिमरण किया । उनके पश्चात् ही

१ इन्द्रनन्दिके अनुसार धरसेनाचार्यने उन्हें दूसरे दिन विदा किया ।

२ इन्द्रनन्दिने इस पत्तनका नाम कुरीश्वर दिया है । वहां वे नौ दिनकी यात्रा करके पहुंचे ।

३ स्वासन्नमृतिं ज्ञात्वा सा भूत्संक्लेशमेतयोरस्मिन् । इति गुरुणा संचिन्त्य द्वितीयदिवसे ततस्तेन । इन्द्रनन्दि, श्रुतावतार. आत्मनो निकटमरणं ज्ञात्वा धरसेनस्तयोर्मां क्लेशो भवतु इति मत्वा तन्मृनिविसर्जनं करिष्यति ।

सौराष्ट्र देशके गिरिनगरके सर्माप ऊर्जयन्त पर्वतकी चन्द्रगुफाके निवासी धरसेनाचार्यका वर्णन आया है ।

इन चार आरातीय यतियों और अर्हद्वलि, माघनन्दि व धरसेन आचार्योंके बीच इन्द्र-नन्दिने कोई गुरु-शिष्य-परम्पराका उल्लेख नहीं किया । केवल अर्हद्वलि आदि तीन आचार्योंमें एकके पश्चात् दूसरेके होनेका स्पष्ट संकेत किया है । पर इन तीनोंके गुरु-शिष्य तारतम्यके संबन्धमें भी उन्होंने कुछ नहीं कहा । यही नहीं प्रत्युत उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि—

गुणधरधरसेनान्वयगुर्वोः पूर्वापरक्रमोऽस्माभिः ।

न ज्ञायते तदन्वयकथकागममुनिजनाभावात् ॥१५१॥

अर्थात् गुणधर और धरसेनकी पूर्वापर गुरुपरम्परा हमें ज्ञात नहीं है, क्योंकि, उसका वृत्तान्त न तो हमें किसी आगममें मिला और न किसी मुनिने ही बतलाया ।

किंतु नन्दिसंघकी प्राकृत पट्टावलीमें अर्हद्वलि, माघनन्दि और धरसेन तथा उनके पश्चात् पुष्पदन्त और भूतवलिको एक दूसरेके उत्तराधिकारी बतलाया है जिससे ज्ञात होता है कि धरसेनके दादागुरु अर्हद्वलि और गुरु माघनन्दि थे ।

नन्दिसंघकी संस्कृत गुर्वावलीमें भी माघनन्दिका नाम आया है । इस पट्टावलीके प्रारंभमें भद्रवाहु और उनके शिष्य गुप्तिगुप्तकी वन्दना की गई है, किन्तु उनके नामके साथ संघ आदिका उल्लेख नहीं किया गया है । उनकी वन्दनाके पश्चात् मूलसंघमें नन्दिसंघ बलात्कारगणके उत्पन्न होनेके साथ ही माघनन्दिका उल्लेख किया गया है । संभव है कि संघभेदके विधाता अर्हद्वलि आचार्यने उन्हें ही नन्दिसंघका अग्रणी बनाया हो । उनके नामके साथ 'नन्दि' पद होनेसे भी उनका इस गणके साथ संबन्ध प्रकट होता है । यथा—

श्रीमानशेषनरनायकवन्दितांघ्रिः श्रीगुप्तिगुप्त इति विश्रुतनामधेयः ।

यो भद्रवाहुमुनिपुंगवपट्टपद्मः सूर्यः स वो दिशतु निर्मलसंघवृद्धिम् ॥ १ ॥

श्रीमूलसंघेऽजनि नन्दिसंघः तस्मिन्बलात्कारगणोऽतिरम्यः ।

तत्राभवत्पूर्वपदांशवेदी श्रीमाघनन्दी नरदेववन्धः ॥ २ ॥

जं. सि. भा. १, ४, पृ. ५१.

पट्टावलीमें इनके पट्टधारी जिनचन्द्र और उनके पश्चात् पद्मनन्दि कुन्दकुन्दका उल्लेख किया गया है, पर धरसेनका नहीं । अतः संशय हो सकता है कि ये वे ही धरसेनके गुरु हैं या

नहीं । किंतु उनके ' पूर्वपदांशवेदी ' अर्थात् पूर्वोक्ते एकदंशको जाननेवाले, ऐसे विशेषणसे पता चलता है कि ये वे ही हैं । पट्टावलीमें उनके शिष्य धरसेनका उल्लेख न आनेका कारण यह हो सकता है कि धरसेन विद्यानुरागी थे और वे संघसे अलग रहकर शास्त्राभ्यास किया करते थे । अतः उनकी अनुपस्थितिमें संघका नायकत्व माघनन्दिके अन्य शिष्य जिनचन्द्रपर पड़ा हो । उधर धरसेनाचार्यने अपनी विद्याद्वारा शिष्यपरम्परा पुष्पदन्त और भूतबलिद्वारा चलाई ।

माघनन्दिका उल्लेख ' जंबूदीवपण्णात्ति ' के कर्ता पद्मनन्दिने भी किया है और उन्हें, राग, द्वेष और मोह से रहित, श्रुतसागरके पारगामी, मति-प्रगल्भ, तप और संयमसे सम्पन्न तथा विख्यात कहा है । इनके शिष्य सकलचंद्र गुरु थे जिन्होंने सिद्धान्तमहोदधिमें अपने पापरूपी मैल धो डाले थे । उनके शिष्य श्रीनन्दि गुरु हुए जिनके निमित्त जंबूदीवपण्णात्ति लिखी गई । यथा—

गय-राय-दोस-मोहो सुद-सायर-पारओ मइ-पगम्भो ।

तव-संजम-संपण्णो विक्खाओ माघनंदि-गुरु ॥ १५४ ॥

तस्सेव य वरसिस्सो सिद्धंत-महोदहिम्मि धुय-कल्लसो ।

णय-णियम-झील-कल्लिदो गुणउत्तो सयलचंद-गुरु ॥ १५५ ॥

तस्सेव य वर-सिस्सो णिम्मल-वर-णाण-चरण-संजुत्तो ।

सम्मदंसण-सुद्धो सिरिणंदि-गुरु त्ति विक्खाओ ॥ १५६ ॥

तस्स णिमित्तं लिहियं जंबूदीवस्स तह य पण्णत्ती ।

जो पढइ सुणइ एदं सो गच्छइ उत्तमं ठाणं ॥ १५७ ॥

( जैन साहित्य संशोधक, खं. १. जंबूदीवपण्णात्ति. लेखक पं. नाथूरामजी प्रेमी )

जंबूदीवपण्णात्तिका रचनाकाल निश्चित नहीं है । किन्तु यहां माघनन्दिको श्रुतसागर पारगामी कहा है जिससे जान पड़ता है कि संभवतः यहां हमारे माघनन्दिसे ही तात्पर्य है ।

माघनन्दि सिद्धान्तवेदीके संबन्धका एक कथानक भी प्रचलित है । कहा जाता है कि माघनन्दि मुनि एकवार चर्याके लिये नगरमें गये थे । वहां एक कुम्हारकी कन्याने इनसे प्रेम प्रगट किया और वे उसीके साथ रहने लगे । कालान्तरमें एकवार संघमें किसी सैद्धान्तिक विषयपर मत-भेद उपस्थित हुआ और जब किसीसे उसका समाधान नहीं हो सका तब संघनायकने आज्ञा दी कि इसका समाधान माघनन्दिके पास जाकर किया जाय । अतः साधु माघनन्दिके पास पहुंचे और उनसे ज्ञानकी व्यवस्था मांगी । माघनन्दिने पूछा ' क्या संघ मुझे अब भी यह सत्कार देता है ? मुनियोंने उत्तर दिया आपके श्रुतज्ञानका सदैव आदर होगा । ' यह सुनकर माघनन्दीको पुनः

वैराग्य हो गया और वे अपने सुरक्षित रखे हुए पीछी कमंडलु लेकर पुनः संघमें आ मिले । जैन सिद्धान्तभास्कर, सन् १९१३, अंक ४, पृष्ठ १५१ पर, ' एक ऐतिहासिक स्तुति ' शीर्षकसे इसी कथानकका एक भाग छपा है और उसके साथ सोलह श्लोकोंका एक स्तुति छपी है जिसे कहा है कि माघनन्दिने अपने कुम्हार-जीवनके समय कच्चे घड़ोंपर थाप देते समय गाते गाते बनाया था ।

यदि इस कथानकमें कुछ तथ्यांश हो भी तो संभवतः वह उन माघनन्दि नामके आचार्योंमेंसे किसी एकके संवन्धका हो सकता है जिनका उल्लेख श्रवणबेलगोलके अनेक शिलालेखों में आया है । ( देखो जैनशिलालेखसंग्रह ). इनमेंसे नं. ४७१ के शिलालेखमें शुभचंद्र त्रैविद्यदेवके गुरु माघनन्दि सिद्धान्तदेव कहे गये हैं । शिलालेख नं. १२९ में बिना किसी गुरु-शिष्य संवन्धके माघनन्दिको जगत्प्रसिद्ध सिद्धान्तवेदी कहा है । यथा—

नमो नम्रजनानन्दस्यन्दिने माघनन्दिने ।

जगत्प्रसिद्धसिद्धान्तवेदिने चित्रमोदिने ॥ ४ ॥

ये दोनों आचार्य हमारे षट्खण्डागमके सच्चे रचयिता हैं । प्रस्तुत ग्रंथमें इनके आचार्य पुष्पदन्त और भूतबलि प्रारम्भिक नाम, धाम व गुरु-परम्पराका कोई परिचय नहीं पाया जाता । घबलाकारने उनके संवन्धमें केवल इतना ही कहा है कि जब महिमा नगरीमें सम्मिलित यतिसंघको धरसेनाचार्यका पुत्र मिला तब उन्होंने श्रुत-रक्षासंवन्धी उनके अभिप्रायको समझकर अपने संघमेंसे दो साधु चुने जो विद्याग्रहण करने और स्मरण रखनेमें समर्थ थे, जो अत्यन्त विनयशील थे, शीलवान् थे, जिनका देश, कुल और जाति शुद्ध था और जो समस्त कलाओंमें पारंगत थे । उन दोनोंको धरसेनाचार्यके पास गिरिनगर ( गिरनार ) भेज दिया । धरसेनाचार्यने उनकी परीक्षा की । एकको अधिकाक्षरी और दूसरेको हीनाक्षरी विद्या बताकर उनसे उन्हें पट्टोपवाससे सिद्ध करनेको कहा । जब विद्याएं सिद्ध हुईं तो एक बड़े बड़े दांतोंवाली और दूसरी कानी देवीके रूपमें प्रगट हुई । इन्हें देख कर चतुर साधकोंने जान लिया कि उनके मंत्रोंमें कुछ त्रुटि है । उन्होंने विचारपूर्वक उनके अधिक और हीन अक्षरोंकी कभी वेशी करके पुनः साधना की, जिससे देवियां अपने स्वाभाविक सौम्यरूपमें प्रकट हुईं । उनकी इस कुशलतासे गुरुने जान लिया कि ये सिद्धान्त सिखानेके योग्य पात्र हैं । फिर उन्हें क्रमसे सब सिद्धान्त पढ़ा दिया । यह श्रुताभ्यास आपाढ़ शुक्ला एकांदशीको समाप्त हुआ और उसी समय भूतोंने पुष्पापहारोंद्वारा शंख, तूर्य और वादियोंकी ध्वनिके साथ एककी बड़ी पूजा की । इसीसे आचार्यश्रीने उनका नाम भूतबलि रक्खा । दूसरेकी दंतपंक्ति अस्त-व्यस्त थी, उसे भूतोंने ठीक कर दी, इससे उनका नाम पुष्पदन्त रक्खा गया । ये ही दो आचार्य पुष्पदन्त और भूतबलि षट्खण्डागमके रचयिता हुए ।

इन दोनोंने धरसेनाचार्यसे सिद्धान्त सीखकर ग्रंथ-रचना की, अतः धरसेनाचार्य उनके शिक्षागुरु थे । पर उनके दीक्षागुरु कौन थे इसका कोई उल्लेख प्रस्तुत ग्रंथमें नहीं मिलता । ब्रह्म नेमिदत्तने अपने आराधना-कथाकोषमें भी धरसेनाचार्यकी कथा दी है । उसमें कहा है कि धरसेनाचार्यने जिस मुनिसंघको पत्र भेजा था उसके संघाधिपति महासेनाचार्य थे और उन्हींने अपने संघमेंसे पुष्पदन्त और भूतबलिको उनके पास भेजा । यह कहना कठिन है कि ब्रह्म नेमिदत्तने संघाधिपतिका नाम कथानकके लिये कल्पित कर लिया है या वे किसी आधार परसे उसे लिख रहे हैं ।

विबुध श्रीधरने अपने श्रुतावतारमें भविष्यवाणी के रूपमें एक भिन्न ही कथानक दिया है जो इस प्रकार है—

इसी भरतक्षेत्रके वांमिदेश ( ब्रह्मदेश ? ) में वसुंधरा नामकी नगरी होगी । वहाँके राजा नरवाहन और रानी सुखपाको पुत्र न. होनेसे राजा खेदखिन्न होगा । तब सुबुद्धि नामके सेठ उन्हें पद्मावतीकी पूजा करनेका उपदेश देंगे । राजाके तदनुसार देवीकी पूजा करनेपर पुत्रप्राप्ति होगी और वे उस पुत्रका नाम पद्म रक्खेंगे । फिर राजा सहस्रकूट चैत्यालय वनवावेंगे और प्रतिवर्ष यात्रा करेंगे । सेठजी भी राजासादसे पद पदपर पृथ्वीको जिनमंदिरोंसे मंडित करेंगे । इसी समय वसंत ऋतुमें समस्त संघ वहाँ एकत्र होगा और राजा सेठजीके साथ जिनपूजा करके रथ चलावेंगे । उसी समय राजा अपने मित्र मगधस्वामीको मुनींद्र हुआ देख सुबुद्धि सेठके साथ वैराग्यसे जैनी दीक्षा धारण करेंगे । इसी समय एक लेखवाहक वहाँ आवेगा । वह जिन देवोंको नमस्कार करके व मुनियोंकी तथा (परोक्षमें) धरसेन गुरुकी वन्दना करके लेख समर्पित करेगा । वे मुनि उसे वाँचेंगे कि गिरिनगरके समीप गुफावासी धरसेन मुनीश्वर आप्रायणीय पूर्वकी पंचम वस्तुके चौथे प्राभृतशास्त्रका व्याख्यान प्रारम्भ करनेवाले हैं । धरसेन भद्धारक कुछ दिनोंमें नरवाहन और सुबुद्धि नामके मुनियों को पठन, श्रवण और चिन्तनक्रिया कराकर आषाढ़ शुक्ल एकादशीको शास्त्र समाप्त करेंगे । उनमेंसे एककी भूत रात्रिको बलिविधि करेंगे और दूसरेके चार दांतोंको सुन्दर बना देंगे । अतएव भूत-बलिके प्रभावसे नरवाहन मुनिका नाम भूतबलि और चार दांत समान हो जानेसे सुबुद्धि मुनिका नाम पुष्पदन्त होगा । इसके लेखकका समय आदि अज्ञात है और यह कथानक कल्पित जान पड़ता है । अतएव उसमें कहीं गई बातोंपर कोई जोर नहीं दिया जा सकता ।

श्रवणबेलगोलके एक शिलालेख ( नं. १०५ ) में पुष्पदन्त और भूतबलिको स्पष्टरूपसे संघभेद-कर्ता अर्हद्वलिके शिष्य कहा है । यथा—

यः पुष्पदन्तेन च भूतबल्याल्येनापि शिष्यद्वितयेन रेजे ।

फलप्रदानाय जगज्जनानां प्राप्नोऽङ्गराभ्यामिव कल्पभूजः ॥ २५ ॥

अर्हद्वलिस्संघचतुर्विधं स श्रीकोण्डकुन्दान्वयमूलसंघम् ।

कालस्वभावादिह जायमान-द्वेपेतराल्पीकरणाय चक्रे ॥ २६ ॥

यद्यपि यह लेख बहुत पीछे अर्थात् शक सं. १३२० का है, तथापि संभवतः लेखकने किसी आधार पर से ही इन्हें अर्हद्वलिके शिष्य कहा होगा। यदि ऐसा हो तो यह भी संभव है कि ये इन दोनोंके दीक्षा-गुरु हों और धरसेनाचार्यने जिस मुनि-सम्मेलनको पत्र भेजा था वह अर्हद्वलिका युग-प्रतिक्रमणके समय एकत्र किया हुआ समाज ही हो, और वहींसे उन्होंने अपने अत्यन्त कुशाग्रबुद्धि शिष्य पुष्पदन्त और भूतबलिको धरसेनाचार्यके पास भेजा हो। पञ्चावलीके अनुसार अर्हद्वलिके अन्तिम समय और पुष्पदन्तके प्रारम्भ समयमें २१ + १९ = ४० वर्षका अन्तर पड़ता है जिससे उनका समसामयिक होना असंभव नहीं है। केवल इतना ही है कि इस अवस्थामें, लेख लिखते समय धरसेनाचार्यकी आयु अपेक्षाकृत कम ही मानना पड़ेगी।

प्रस्तुत ग्रन्थमें पुष्पदन्तका सम्पर्क एक और व्यक्तिसे बतलाया गया है। अंकुलेश्वरमें

पुष्पदन्त  
और

चातुर्मास समाप्त करके जब वे निकले तब उन्हें जिनपालित मिल गये और उनके साथ वे वनवास देशको चले गये'। ( 'जिणवालयं ददूण पुष्पयन्ताइरियो

जिनपालित वणवासविसयं गदो' पृष्ठ ७१ । ) ददूण का साधारणतः दृष्ट्वा अर्थात् देखकर अर्थ

होता है। पर यहां पर यदि ददूण का देखकर यही अर्थ ले लिया जाता है तो यह नहीं मात्स्य

होता कि वहां जिनपालित कहांसे आ गये? ददूणका अर्थ दृष्टुं अर्थात् देखनेके लिये भी हो सकता

है, जिसका तात्पर्य यह होगा कि पुष्पदन्त अंकुलेश्वरसे निकलकर जिनपालितको देखनेके लिये

वनवास चले गये। संगतिकी दृष्टिसे यह अर्थ ठीक बैठता है। इन्द्रनन्दिने जिनपालितको पुष्प-

दन्तका भागिनेय अर्थात् भनेज कहा है। पर इस रिश्तेके कारण वे उन्हें देखनेके लिये गये यह

कदाचित् साधुके आचारकी दृष्टिसे ठीक न समझा जाय इसलिये वैसा अर्थ नहीं किया। वनवास

देशसे ही वे गिरिनगर गये थे और वहांसे फिर वनवास देशको ही लौट गये। इससे यही प्रान्त

पुष्पदन्ताचार्यकी जन्मभूमि ज्ञात होती है। वहां पहुंचकर उन्होंने जिनपालितको दीक्षा दी और

१ त्रिवुध श्रीधरकृत श्रुतावतारके अनुसार पुष्पदन्त और भूतबलिके अंकुलेश्वरमें ही षडंग आगमकी रचना की। ( तन्मुनिद्वयं अंकुलेश्वरपुरे गत्वा मत्वा षडंगरचनां कृत्वा शास्त्रेषु लिखाप्य... )

२ जैसे, रामो तिसमुद्द-मेहलं पुहईं पालेऊण समत्थो । पउम च. ३१, ४०. संसार-गमण-भीओ इच्छइ वेत्तूण पच्चर्जं । पउम च. ३१, ४८.

‘ वीसदि सूत्रों ’ की रचना करके उन्हें पढ़ाया, और फिर उन्हें भूतवलिके पास भेज दिया । भूतवलिके ने उन्हें अल्पायु जान, महाकर्मप्रकृति पाहुड़के विच्छेद-भयसे द्रव्यप्रमाणसे लगाकर आगेकी ग्रन्थ-रचना की । इसप्रकार पुष्पदन्त और भूतवलि दोनों इस सिद्धान्त ग्रंथके रचयिता हैं और जिनपालित उस रचनाके निमित्त कारण हुए ।

पुष्पदन्त और भूतवलिके बीच आयुमें पुष्पदन्त ही जेठे प्रतीत होते हैं । धवलाकारने अपनी टीकाके मंगलाचरणमें उन्हें ही पहले नमस्कार किया है और उन्हें ‘ इसि-समिद्ध-वद् ’ ( ऋषिसमिति-पति ) अर्थात् ऋषियों व मुनियोंकी समाके नायक कहा है । उनकी ग्रंथ-रचना भी आदिमें हुई और भूतवलिके ने अपनी रचना अन्ततः उन्हींके पास भेजी जिसे देख वे प्रसन्न हुए । इन बातोंसे उनका ज्येष्ठत्व पाया जाता है । नन्दिसंघकी प्राकृत पद्यावलीमें वे स्पष्टतः भूतवलिसे पूर्व पद्याधिकारी हुए बतलाये गये हैं ।

वर्तमान ग्रंथमें पुष्पदन्तकी रचना कितनी है और भूतवलिकी कितनी, इसका स्पष्ट उल्लेख पाया जाता है । पुष्पदन्तने आदिके प्रथम ‘ वीसदि सूत्र ’ रचे । पर इन वीस सूत्रोंसे धवलाकारका समस्त सत्प्ररूपणाके वीस अधिकारोंसे तात्पर्य है, न कि आदिके २० नम्वर तकके सूत्रोंमें, क्योंकि, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भूतवलिके ने द्रव्यप्रमाणानुगमसे लेकर रचना की ( पृ. ७१ ) । जहाँसे द्रव्य-प्रमाणानुगम अर्थात् संख्याप्ररूपणा प्रारंभ होती है वहाँपर भी कहा गया है कि—

संपहि चोदसण्हं जीवसमासाणमथित्तमवगदाणं सिस्साणं तेसिं चैव परिमाणं पडिवोहणहं भूदवलियाइरियो सुत्तमाह ।

अर्थात्—‘ अव चौदह जीवसमासों के अस्तित्व को जान लेनेवाले शिष्यों को उन्हीं जीवसमासोंके परिमाण बतलानेके लिये भूतवलि आचार्य सूत्र कहते हैं ’ ।

इसप्रकार सत्प्ररूपणा अधिकारके कर्ता पुष्पदन्त और शेष समस्त ग्रंथके कर्ता भूतवलि ठहरते हैं ।

धवलामें इस ग्रंथकी रचनाका इतना ही इतिहास पाया जाता है । इससे आगेका वृत्तान्त इन्द्रनदिकृत श्रुतावतारमें मिलता है । उसके अनुसार भूतवलि आचार्यने षट्खण्डागमकी रचना पुस्तकारूढ करके ज्येष्ठ शुक्ला ५ को चतुर्विध संघके साथ उन पुस्तकोंको उपकरण मान श्रुतज्ञानकी पूजा की जिससे श्रुतपंचमी तिथिकी प्रचार

प्रख्याति जैनियोंमें आजतक चली आती है और उस तिथिको वे श्रुतकी पूजा करते हैं \* । फिर भूतबलिने उन पट्खण्डागम पुस्तकोंको जिनपालितके हाथ पुष्पदन्त गुरुके पास भेजा । पुष्पदन्त उन्हें देखकर और अपने चिन्तित कार्यको सफल जान अत्यन्त प्रसन्न हुए और उन्होंने भी चातुर्वर्ण संघसहित सिद्धान्तकी पूजा की ।

## ५. आचार्य-परम्परा

अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि धरसेनाचार्य और उनसे सिद्धान्त सीखकर ग्रंथ-रचना करनेवाले पुष्पदन्त और भूतबलि आचार्य कब हुए ? प्रस्तुत ग्रंथ में इस सम्बन्ध की कुछ सूचना महावीर स्वामीसे लगाकर लोहाचार्य तक की परम्परासे मिलती है । वह परम्परा इस प्रकार है, महावीर भगवान्के पश्चात् क्रमशः गौतम, लोहार्य और जम्बूस्वामी समस्त श्रुत के ज्ञायक और अन्तमें केवलज्ञानी हुए । उनके पश्चात् क्रमशः विष्णु, नन्दिमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रवाहु, ये पांच श्रुतकेवली हुए । उनके पश्चात् विशाखाचार्य, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जय, नाग, सिद्धार्थ, धृतिसेन, विजय, बुद्धिल, गंगदेव, और धर्मसेन, ये ग्यारह एकादश अंग और दशपूर्वके पारगामी हुए । तत्पश्चात् नक्षत्र, जयपाल, पांडु, ध्रुवसेन और कंस, ये पांच एकादश अंगोंके धारक हुए, और इनके पश्चात् सुभद्र, यशोभद्र, यशोवाहु और लोहार्य, ये चार आचार्य एक आचारंग के धारक और शेष श्रुतके एकदेश ज्ञाता हुए । इसके पश्चात् समस्त अंगों और पूर्वोक्ता एकदेश ज्ञान आचार्य परम्परासे आकर धरसेनाचार्यको प्राप्त हुआ ( ६५-६६ ) । यह परम्परा इस प्रकार है—

\* ज्येष्ठसितपक्षपञ्चम्यां चातुर्वर्ण्यसंघसमवेतः ।

तत्पुस्तकोपकरणैर्व्यधान् क्रियापूर्वकं पूजाम् ॥ १४३ ॥

श्रुतपञ्चमीति तेन प्रख्यातिं तिथिरियं परामाप ।

अद्यापि येन तस्यां श्रुतपूर्जां कुरुते जैनाः ॥ १४४ ॥

इन्द्रनन्दि-श्रुतावतार



## महावीर की शिष्य-परम्परा

१ गौतम	} ३ केवली	१५ धृतिसेन	}
२ लोहार्य		१६ विजय	
३ जम्बू		१७ बुद्धिल	
४ विष्णु	} ५ श्रुतकेवली	१८ गंगदेव	}
५ नन्दिमित्र		१९ घर्मसेन	
६ अपराजित		२० नक्षत्र	
७ गोवर्धन		२१ जयपाल	
८ भद्रबाहु	} ११ दशपूर्वी	२२ पाण्डु	} ५ एकादशांगधारी
९ विशाखाचार्य		२३ ध्रुवसेन	
१० प्रोष्ठिल		२४ कंस	
११ क्षत्रिय		२५ सुभद्र	
१२ जय		२६ यशोमद्र	
१३ नाग	२७ यशोवाहु	} ४ आचारांगधारी	
१४ सिद्धार्थ	२८ लोहार्य		

ठीक यही परम्परा धवलामें आगे पुनः वेदनाखंडके आदिमें मिलती है। इन दोनों स्थानोंपर तथा बेलगोलके शिलालेख नं. १ में नं. २ के आचार्य का नाम लोहार्य ही पाया जाता है, किन्तु हरिवंशपुराण, श्रुतावतार व ब्रह्म हेमकृत श्रुतस्कंध व शिलालेख नं. १०५ ( २५३ ) में उस स्थान पर सुधर्मका नाम मिलता है। यही नहीं, स्वयं धवलाकारद्वारा ही रची हुई 'जयधवला' में भी उस स्थानपर लोहार्य नहीं सुधर्मका नाम है। इस उलझनको सुलझानेवाला उल्लेख 'जंबूदीवपण्णत्ति' में पाया जाता है। वहां यह स्पष्ट कहा गया है कि लोहार्यका ही दूसरा नाम सुधर्म था। यथा—

‘तेण वि लोहजस्स य लोहज्जेण य सुधम्मगामेण ।

गणधर-सुधम्मणा खलु जंबूणामस्स णिदिट्ठं ॥ १० ॥

( जै सा. सं. १ पृ. १४९ )

नं. ४ पर विष्णुके स्थानमें भी नामभेद पाया जाता है। जंबूदीवपण्णत्ति, आदिपुराण व श्रुतस्कंधमें उस स्थानपर 'नन्दी' या नन्दीमुनि नाम मिलता है। यह भी लोहार्य और सुधर्मके समान एक ही आचार्यके दो नाम प्रतीत होते हैं। इस भेदका कारण यह प्रतीत होता है कि इन आचार्यका पूरा नाम विष्णुनन्दि होगा और वे ही एक स्थानपर संक्षेपसे विष्णु और

दूसरे स्थानपर नन्दि नामसे निर्दिष्ट किये गये हैं । यही बात आगे नं. १८ के गंगदेवके विषयमें पाई जाती है ।

नं ५ और ६ के आचार्योंका शिलालेख नं. १०५ में विपरीत क्रमसे उल्लेख किया गया है, अर्थात् वहां अपराजितका नाम पहिले और नन्दिमित्र का पश्चात् किया गया है । संभवतः यह छंद-निर्वाहमात्रके लिये है, कोई भिन्न मान्यताका द्योतक नहीं ।

आगेके अनेक आचार्योंके नाम भी शिलालेख नं. १०५ में भिन्न क्रमसे दिये गये हैं जिसका कारण भी छंदरचना प्रतीत होता है और इसी कारण संभवतः धर्मसेनका नाम यहां भिन्न क्रमसे सुधर्म दिया गया है ।

उसीप्रकार नं. ११ और १२ का उल्लेख श्रुतस्कंधमें विपरीत है, अर्थात् जयका नाम पहले और क्षत्रियका नाम पश्चात् दिया गया है । क्षत्रियके स्थानमें शिलालेख नं. १ में कृत्तिकार्य नाम है जो अनुमानतः प्राकृत पाठ 'क्वत्तियारिय' का भ्रान्त संस्कृत रूप प्रतीत होता है । नन्दिसंघकी प्राकृत पट्टावलीमें नं. १७ के बुद्धिलेके स्थानपर बुद्धिलिंग व नं. १८ के गंगदेवके स्थानपर केवल 'देव' नाम है ।

नं. २१ के जयपालके स्थान पर जयधवलामें 'जसफल' तथा हरिवंशपुराणमें यशःपाल नाम दिये हैं ।

नं. २३ के ध्रुवसेनके स्थान पर श्रुतावतार व शिलालेख नं. १०५ में द्रुमसेन तथा श्रुतस्कंधमें 'ध्रुतसेन' नाम है ।

नं. २६ के यशोभद्रके स्थान पर श्रुतावतारमें अभयभद्र नाम है ।

नं. २७ के यशोवाहुके स्थानपर जयधवलामें जहवाहु, श्रुतावतारमें जयवाहु, व नन्दि संघ प्राकृत पट्टावलीमें व आदिपुराणमें भद्रवाहु नाम है । संभवतः ये ही नन्दिसंघकी संस्कृत पट्टावलीके भद्रवाहु द्वितीय हैं ।

इन सब नाम-भेदोंका मूलकारण प्राकृत नामों परसे भ्रमवश संस्कृत रूप बनाना प्रतीत होता है । कहीं कहीं लिपिमें भ्रम होनेसे भी पाठ-भेद पड़ जाना संभव है ।

उक्त आचार्य-परंपराका प्रस्तुत खण्डमें समय नहीं दिया गया है । किंतु धवलके धरसेनाचार्य के वेदनाखण्डके आदिमें, जयधवलामें व इन्द्रनन्दिकृत श्रुतावतारमें गौतम स्वामीसे लगाकर लोहार्य तकका समय मिलता है, जिससे ज्ञात होता है कि महावीर निर्वाणके पश्चात् क्रमशः ६२ वर्षमें तीन केवली, १००

वर्षमें पांच श्रुतकेवली, १८३ वर्षमें ग्यारह दशपूर्वी, २२० वर्षमें पांच एकादशांगधारी और ११८ वर्षमें चार एकांगधारी आचार्य हुए। इसप्रकार महावीर निर्वाणसे लोहाचार्य ( द्वि. ) तक  $६२ + १०० + १८३ + २२० + ११८ = ६८३$  वर्ष व्यतीत हुए और इसके पश्चात् किसी समय धरसेनाचार्य हुए।

अत्र प्रश्न यह है कि लोहाचार्यसे कितने समय पश्चात् धरसेनाचार्य हुए। प्रस्तुत ग्रन्थमें तो इसके संबन्धमें इतना ही कहा गया है कि इसके पश्चात् की आचार्य-परम्परामें धरसेनाचार्य हुए (पृष्ठ ६७)। अन्यत्र जहां यह आचार्य-परम्परा पाई जाती है वहां सर्वत्र वह परम्परा लोहाचार्य पर ही समाप्त हो जाती है। इन्द्रनन्दिने अपने श्रुतावतारमें प्रस्तुत ग्रंथोंके निर्माणका वृत्तान्त विस्तारसे दिया है। किंतु लोहाचार्यके पश्चात् आचार्योंका क्रम स्पष्टतः सूचित नहीं किया। प्रत्युत, जैसा ऊपर बताया आये हैं, उन्होंने कहा है कि इन आचार्योंकी गुरु-परंपराका कोई निश्चय नहीं, क्योंकि, उसके कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। उन्होंने लोहाचार्यके पश्चात् चार और आचार्योंके नाम गिनाये हैं, विनयधर, श्रीदत्त, शिवदत्त, और अर्हदत्त। और उन्हें आरातीय तथा अंगों और पूर्वोंके एकदेश ज्ञाता कहा है।

लोहाचार्यके पश्चात् चार आरातीय यतियोंका जिसप्रकार इन्द्रनन्दिने एकसाथ उल्लेख किया है उससे जान पड़ता है कि संभवतः वे सब एक ही कालमें हुए थे। इसीसे श्रीयुक्त पं. जुगलकिशोरजी मुस्तारने उन चारोंका एकत्र समय २० वर्ष अनुमान किया है। उनके पश्चात् के अर्हद्वलि आदि आचार्योंका समय मुस्तारजी क्रमशः १० वर्ष अनुमान करते हैं (समन्तभद्र पृ. १६१)। इसके अनुसार धरसेनाचार्यका समय वारनिर्वाणसे  $६८३ + २० + १० + १० = ७२३$  वर्ष पश्चात् आता है।

किंतु नन्दिसंघकी प्राकृत पट्टावली इसका समर्थन नहीं करती। यथार्थतः यह पट्टावली अन्य सब परम्पराओं और पट्टावलियोंसे इतनी विलक्षण है और उन विलक्षणताओंका प्रस्तुत आचार्योंके काल-निर्णयसे इतना घनिष्ठ संबन्ध है कि उसका पूरा परिचय यहां देना आवश्यक प्रतीत होता है। और चूंकि यह पट्टावली, जहां तक हमें ज्ञात है, केवल जैनसिद्धान्तभास्कर, भाग १, किरण ४, सन् १९१३ में छपी थी जो अब अप्राप्य है, अतः उसे हम यहां पूरी विना संशोधनका प्रयत्न किये उद्धृत करते हैं—

### नन्दि-आज्ञायकी पट्टावली

श्रीत्रैलोक्याधिपं नत्वा स्मृत्वा सद्गुरुभारतीम् ।

वक्ष्ये पट्टावलीं रम्यां मूलसंघगणाधिपाम् ॥ १ ॥

श्रीमूलसंघप्रवरे नन्धान्नाये मनोहरे ।

• बलात्कारगणोत्तसे गच्छे सारस्वतीयके ॥ २ ॥

कुन्दकुन्दान्वये श्रेष्ठमुत्पन्नं श्रीगणाधिपम् ।

तमेवात्त प्रवक्ष्यामि श्रूयतां सज्जना जनाः ॥ ३ ॥

### पट्टावली

अंतिम-जिण-णिञ्जाणे केवलणाणी य गोयम-मुणिदो ।

वारह-वासे य गये सुधम्म-सामी य संजादो ॥ १ ॥

तह वारह-वासे पुण संजादो जम्बु-सामि मुणिणाहो ।

अठ्ठीस-वास रहियो केवलणाणी य उक्किट्ठो ॥ २ ॥

वासट्ठि-केवल-वासे तिण्हि मुणी गोयम सुधम्म जंबू य ।

वारह वारह दो जण तिय दुगहीणं च चालीसं ॥ ३ ॥

सुयकेवलि पंच जणा वासट्ठि-वासे गये सुसंजादा

पढमं चउदह-वासं विण्हुकुमारं मुणेयव्वं ॥ ४ ॥

नंदिमित्त वास सोलह तिय अपराजिय वास वावीसं ॥

इग-हीण-वीस वासं गोवद्धण भद्दवाहु गुणतीसं ॥ ५ ॥

सद सुयकेवलणाणी पंच जणा विण्हु नंदिमित्तो य ॥

अपराजिय गोवद्धण तह भद्दवाहु य संजादा ॥ ६ ॥

सद-वासट्ठि सुवासे गए सु-उप्पण दह सुपुव्वहरा ॥

सद-तिरासि वासाणि य एगादह मुणिवरा जादा ॥ ७ ॥

आयरिय विसाख पोड्डल खत्तिय जयसेण नागसेण मुणी ॥

सिद्धत्थ धित्ति विजयं बुहिलिंग देव धमसेणं ॥ ८ ॥

दह उगणीस य सत्तर इक्कीस अट्टारह सत्तर ॥

अट्टारह तेरह वीस चउदह चोदय ( सोडस ) कमेणेयं ॥ ९ ॥

अंतिम जिण-णिञ्जाणे तियसय-पण-चालवास जादेसु ।

एगादहंगधारिय पंच जणा मुणिवरा जादा ॥ १० ॥

नक्खत्तो जयपालग पंडव धुवसेन कंस आयरिया ।

अठारह वीस-वासं गुणचालं चोद वत्तीसं ॥ ११ ॥

सद तेवीस वासे एगादह अंगधरा जादा ।

वासं सत्ताणवदिय दसंग नव अंग अट्टधरा ॥ १२ ॥

सुभदं च जसोभदं भद्रबाहु कमेण च ।

लोहाचर्य्य मुणीसं च कहियं च जिणागमे ॥ १३ ॥

छह अट्टारह वासे तेवीस वावण ( पणास ) वास मुणिणाहं ।

दस णव अट्टंगधरा वास दुसदवीस सधेसु ॥ १४ ॥

पंचसये पणसठे अंतिम-जिण-समय-जादेसु ।

उप्पणा पंच जणा इयंगधारी मुणेयन्वा ॥ १५ ॥

अहिवाह्लि माघनंदि य धरसेणं पुप्फयंत भूदवली ।

अडवीसं इगवीसं उगणीसं तीस वीस वास पुणो ॥ १६ ॥

इगसय-अठार-वासे इयंगधारी य मुणिवरा जादा ।

छसय-तिरासिय-वासे णिन्वाणा अंगदित्ति कहिय जिणे ॥ १७ ॥

सत्तरि-चउ-सद-युतो तिणकाला विक्रमो हवइ जम्मो ।

अठ-वरस वाललीला सोडस-वासेहि भम्मिए देसे ॥ १८ ॥

पणरस-वासे रज्जं कुणंति मिच्छोवदेससंयुत्तो ।

चालीस-वरस जिणवर-धम्मं पालीय सुरपयं लहियं ॥ १९ ॥

प्राकृत पञ्चवलीके अनुसार वीर निर्वाणके पश्चात् की काल-गणना इसप्रकार आती है—

### वीर निर्वाणके पश्चात्

१ गौतम	केवली	१२	९ विशाखाचार्य	दशपूर्वधारी	१०
२ सुधर्म	„	१२	१० प्रोष्ठिल	„	१९
३ जम्बूस्वामी	„	३८	११ क्षत्रिय	„	१७
		<hr/>	१२ जयसेन	„	२१
		६२	१३ नागसेन	„	१८
		<hr/>	१४ सिद्धार्थ	„	१७
४ विष्णु	श्रुतकेवली	१४	१५ धृतिपेण	„	१८
५ नन्दिमित्र	„	१६	१६ विजय	„	१३
६ अपराजित	„	२२	१७ बुद्धिलिंग	„	२०
७ गोवर्धन	„	१९	१८ देव	„	१४
८ भद्रबाहु	„	२९	१९ धर्मसेन	„	१४ (१६)
		<hr/>			<hr/>
		१००			१८१ (१८३)
		<hr/>			<hr/>

२० नक्षत्र	ग्यारह अंगधारी	१८	२८ लोहाचार्य	"	५२ (५०)
२१ जयपाल	"	२०			<u>९९ (९७)</u>
२२ पांडव	"	३९			
२३ ध्रुवसेन	"	१४	२९ अर्हद्वालि	एक अंगधारी	२८
२४ कंस	"	३२	३० माघनन्दि	"	२१
		<u>१२३</u>	३१ धरसेन	"	१९
			३२ पुष्पदन्त	"	३०
			३३ भूतबलि	"	२०
२५ सुभद्र	दश नव व आठ	६			<u>११८</u>
२६ यशोभद्र	अंगधारी	१८			
२७ भद्रबाहु	"	२३			<u>६८३</u>

इस पञ्चावलीमें प्रत्येक आचार्यका समय अलग अलग निर्दिष्ट किया गया है, जो अन्यत्र नहीं पाया जाता, और समष्टिरूपसे भी वर्ष-संख्यायें दी गई हैं। प्रथम तीन केवलियों, पांच श्रुतकेवलियों और ग्यारह दशपूर्वियोंका समय क्रमशः वही ६२, १००, और १८३ वर्ष बतलाया गया है और इसका योग ३४५ वर्ष कहा है। किन्तु दशपूर्वधारी एक एक आचार्यका जो काल दिया है उसका योग १८१ वर्ष आता है। अतएव स्पष्टतः कहीं दो वर्ष की भूल ज्ञात होती है, क्योंकि, नहीं तो यहां तकका योग ३४५ वर्ष नहीं आसकता। इसके आगे जिन पांच एकादशांगधारियोंका समय अन्यत्र २२० वर्ष बतलाया गया है उनका समय यहां १२३ वर्ष दिया है। इनके पश्चात् आगेके जिन चार आचार्योंको अन्यत्र एकांगधारी कह कर श्रुतज्ञानकी परंपरा पूरी कर दी गई है उन्हें यहां क्रमशः दश, नव और आठ अंगके धारक कहा है, पर यह स्पष्ट नहीं किया गया कि कौन कितने अंगोंका ज्ञाता था। इससे दश अंगोंका अचानक लोप नहीं पाया जाता, जैसा कि अन्यत्र। इनका समय ११८ वर्ष के स्थानपर ९७ वर्ष बतलाया गया है। पर आचार्योंका समय जोड़नेसे ९९ आता है अतः दो वर्ष की यहां भी भूल है। तथा उनसे आगे पांच और आचार्योंके नाम गिनाये गये हैं जो एकांगधारी कहे गये हैं। उनके नाम अद्विचलि (अर्हद्वलि) माघनन्दि, धरसेन, पुष्पदन्त और भूतबलि हैं। इनका समय क्रमशः २८, २१, १९, ३० और २० वर्ष दिया गया है जिसका योग ११८ वर्ष होता है। इससे पूर्व श्रुतावतारमें विनयधर आदि जिन चार आचार्योंके नाम दिये गये हैं वे यहां नहीं पाये जाते। इसप्रकार इस पञ्चावलीके अनुसार भी अंग-परंपराका कुल काल ६२ + १०० + १८३ + १२३ + ९७ + ११८ = ६८३ वर्ष ही आता है जितना कि अन्यत्र बतलाया गया है। परंतु भेद यह है कि अन्यत्र यह काल लोहाचार्य तक ही पूरा कर दिया गया है और यहांपर उसके अन्तर्गत वे पांच

आचार्य भी हो जाते हैं जिनके भीतर हमारे ग्रंथकर्ता धरसेन, पुष्पदन्त और भूतवलि भी सम्मिलित हैं ।

अब विचारणीय प्रश्न यह है कि जो एकादशांगधारियों और उनके पश्चात्के आचार्योंके समयोंमें अन्तर पड़ता है वह क्यों और किसप्रकार ?

कालसंबन्धी अंकोंपर विचार करनेसे ही स्पष्ट हो जाता है कि जहां पर अन्यत्र पांच एकादशांगधारियों और चार एकांगधारियोंका समय अलग अलग २२० और ११८ वर्ष बतलाया गया है वहां इस पट्टावलीमें उनका समय क्रमशः १२३ और ९७ वर्ष बतलाया है अर्थात् २२० वर्षके भीतर नौ ही आचार्य आ जाते हैं और आगे ११८ वर्षमें अन्य पांच आचार्य गिनाये गये हैं जिनके अन्तर्गत धरसेन, पुष्पदन्त और भूतवलि भी हैं ।

जहां अनेक क्रमागत व्यक्तियोंका समय समष्टिरूपसे दिया जाता है वहां बहुधा ऐसी भूल हो जाया करती है । किंतु जहां एक एक व्यक्तिका काल निर्दिष्ट किया जाता है वहां ऐसी भूलकी संभावना बहुत कम हो जाती है । हिन्दु पुराणोंमें अनेक स्थानोंपर दो राजवंशोंका काल एक ही वंशके साथ दे दिया गया है । स्वयं महाधीर तीर्थकरके निर्वाणसे पश्चात्के राजवंशोंका जो समय जैन ग्रंथोंमें पाया जाता है उसमें भी इसप्रकारकी एक भूल हुई है, जिसके कारण वीरनिर्वाणके समयके संबन्धमें दो मान्यतायें हो गई हैं जिनमें परस्पर ६० वर्षका अन्तर पड़ गया है । ( देखो आगे वीरनिर्वाण संबन्ध ) । प्रस्तुत परंपरामें इन २२० वर्षोंके कालमें भी ऐसा ही भ्रम हुआ प्रतीत होता है ।

यह भी प्रश्न उठता है कि यदि अर्हद्वलि आदि आचार्य अंगज्ञाताओंकी परंपरामें थे तो उनके नाम सर्वत्र परंपराओंमें क्यों नहीं रहे, इसका कारण अर्हद्वलिके द्वारा स्थापित किया गया संघभेद प्रतीत होता है । उनके पश्चात् प्रत्येक संघ अपनी अपनी परंपरा अलग रखने लगा, जिसमें स्वभावतः संघभेदके पश्चात्के केवल उन्हीं आचार्योंके नाम रखे जा सकते थे जो उसी संघके हों या जो संघभेदसे पूर्वके हों । अतः केवल लोहार्य तककी ही परंपरा सर्वमान्य रही । संभव है कि इसी कारण काल-गणनामें भी वह गड़बड़ी आ गई हो, क्योंकि अंगज्ञाताओंकी परंपराको संघ-पक्षपातसे बचानेके लिये लेखकोंका यह प्रयत्न हो सकता है कि अंग-परंपराका काल ६८३ वर्ष ही बना रहे और उसमें अर्हद्वलि आदि संघ-भेदसे संबन्ध रखनेवाले आचार्य भी न दिखाये जावें ।

प्रश्न यह है कि क्या हम इस पट्टावलीको प्रमाण मान सकते हैं, विशेषतः जब कि उसकी वार्ता प्रस्तुत ग्रंथों व श्रुतावतारादि अन्य प्रमाणोंके विरुद्ध जाती है ? इस पट्टावलीकी जांच करनेके लिये हमने सिद्धान्तभवन आराको उसकी मूल हस्तलिखित प्रति भेजनेके लिये लिखा,

किंतु वहांसे पं. भुजबलिजी शास्त्री सूचित करते हैं कि बहुत खोज करने पर भी उस पट्टावलीकी मूल प्रति मिल नहीं रही है। ऐसी अवस्थामें हमें उसकी जांच मुद्रित पाठ परसे ही करनी पड़ती है। यह पट्टावली प्राकृतमें है और संभवतः एक प्रतिपरसे दिना कुछ संशोधनके छपाई गई होनेसे उसमें अनेक भाषादि-दोष हैं। इसलिये उस परसे उसकी रचनाके समयके संवन्धमें कुछ कहना अशक्य है। पट्टावलीके ऊपर जो तीन संस्कृत श्लोक हैं उनकी रचना बहुत शिथिल है। तीसरा श्लोक सदोष है। पर उन पर विचार करनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि उनका रचयिता स्वयं पट्टावलीकी रचना नहीं कर रहा, किंतु वह अपनी उस प्रस्तावनाके साथ एक प्राचीन पट्टावलीको प्रस्तुत कर रहा है। पट्टावलीको नन्दि आमनाय, बलात्कार गण, सरस्वती गच्छ व कुन्दकुन्दान्वयकी कहनेका यह तो तात्पर्य हो ही नहीं सकता कि उसमें उल्लिखित आचार्य उस अन्वयमें कुन्द-कुन्दके पश्चात् हुए हैं, किंतु उसका अभिप्राय यही है कि लेखक उक्त अन्वयका था और ये सब आचार्य उक्त अन्वयमें माने जाते थे। इस पट्टावलीमें जो अंगविच्छेदका क्रम और उसकी काल-गणना पाई जाती है वह अन्यत्रकी मान्यताके विरुद्ध जाती है। किंतु उससे अकस्मात् अंगलोप-संवन्धी कठिनाई कुछ कम हो जाती है और जो पांच आचार्योंका २२० वर्षका काल असंभव नहीं तो दुःशक्य जंचता है उसका समाधान हो जाता है। पर यदि यह ठीक हो तो कहना पड़ेगा कि श्रुत-परम्पराके संवन्धमें हरिवंशपुराणके कर्तासे लगाकर श्रुतावतारके कर्ता इन्द्रनन्दितकके सब आचार्योंने धोखा म्नाया है और उन्हें वे प्रमाण उपलब्ध नहीं थे जो इस पट्टावलीके कर्ताको थे। समयाभावके कारण इस समय हम इसकी और अधिक जांच पड़ताल नहीं कर सकते। किंतु साधक त्राधक प्रमाणोंका संग्रह करके इसका निर्णय किये जानेकी आवश्यकता है।

यदि यह पट्टावली ठीक प्रामाणिक हो जाय तो हमारे आचार्योंका समय वीर निर्वाणके पश्चात् ६२ + १०० + १८३ + १२३ + ९७ + २८ + २१ = ६१४ और ६८३ वर्षके भीतर पड़ता है।

धरसेन, पुष्पदन्त और भूतबलिके समय पर प्रकाश डालनेवाला एक और प्रमाण है।

**धरसेनकृत** प्रस्तुत ग्रन्थकी उत्थानिकामें कहा गया है कि जब धरसेनाचार्य के पत्रके उत्तरमें **जोगिपाहुड** आन्ध्रदेशसे दो साधु, जो पीछे पुष्पदन्त और भूतबलि कहलाये, उनके पास पहुंचे तब धरसेनाचार्यने उनकी परीक्षाके लिये उन्हें कुछ मन्त्रविद्याएं सिद्ध करनेके लिये दीं। इससे धरसेनाचार्यकी मन्त्रविद्यामें कुशलता सिद्ध होती है। अनेकान्त भाग २ के गत १ जुलाई के अंक ९ में श्रीयुत्. पं. जुगलकिशोरजी मुख्तारका लिखा हुआ योनिप्राभृत ग्रन्थका परिचय प्रकाशित हुआ है, जिससे ज्ञात होता है कि यह ग्रन्थ ८०० श्लोक प्रमाण प्राकृत गाथाओंमें है, उसका विषय मन्त्र-तन्त्रवाद है, तथा वह १५५६ वि. संवत्में लिखी गई बृहद्विष्णुिका नामकी ग्रन्थ-सूचीके



आधारपर मे धरसेनद्वारा वीर निर्वाणसे ६०० वर्ष पश्चात् बना हुआ माना गया है। इस ग्रंथकी एक प्रति भंडारकर इंस्टीट्यूट पुनामें है, जिसे देखकर पं. वेचरदानजाने जो नोट्स लिये थे उन्हीं परसे मुस्तारजीने उक्त परिचय लिखा है। इस प्रतिमें ग्रंथका नाम तो योनिप्राभृत ही है किंतु उसके कर्ताका नाम पण्हसवण मुनि पाया जाता है। इन महामुनिने उसे कृष्णाण्डिनी महादेवीसे प्राप्त किया था और अपने शिष्य पुण्यदंत और भूतवलिके लिये लिखा था। इन दो नामोंके कथनसे इस ग्रंथका धरसेनकृत होना बहुत संभव जंचता है। प्रज्ञाश्रमणत्व एक ऋद्धिका नाम है और उसके धारण करनेवाले मुनि प्रज्ञाश्रमण कहलाते थे। जोणिपाहुडकी इस प्रतिका लेखन-काल संवत् १५८२ है, अर्थात् वह चारसौ वर्षसे भी अधिक प्राचीन है। 'जोणिपाहुड' नामक ग्रंथका उल्लेख धवलामें भी आया है। जो इस प्रकार है—

‘ जोणिपाहुडे भणिद-मंत-तंत-सत्तीओ पोग्गलाणुभागो त्ति वेत्तञ्चो ।’

( धवला. अ. प्रति. पत्र ११९८ )

इससे स्पष्ट है कि योनिप्राभृत नामका मंत्रशास्त्रसंबन्धी कोई अत्यन्त प्राचीन ग्रंथ अवश्य है। उपर्युक्त अवस्थामें आचार्य धरसेननिर्मित योनिप्राभृत ग्रंथके होनेमें अविश्वासका कोई कारण नहीं है। तथा बृहट्टिप्पणिकामें जो उसका रचनाकाल वीर निर्वाणसे ६०० वर्ष पश्चात् सूचित किया है वह भी गलत सिद्ध नहीं होता। अभी अभी अनेकान्त (वर्ष २, किरण १२, पृ. ६६६) में श्रीमान् पं. नाथूरामजी प्रेमीका 'योनिप्राभृत और प्रयोगमाळा' शीर्षक लेख छपा है, जिसमें उन्होंने प्रमाण देकर बतलाया है कि भंडारकर इंस्टीट्यूटवाला 'योनिप्राभृत' और उसके साथ गुंथा हुआ 'जगसुंदरी योगमाळा' संभवतः हरिवेगकृत हैं, किंतु हरिवेगके समयमें एक और प्राचीन योनिप्राभृत विद्यमान था। बृहट्टिप्पणिकाकी प्रामाणिकताके विषयमें प्रेमीजाने कहा है कि

१ योनिप्राभृतं वीरान् ६०० धारसेनम । ( बृहट्टिप्पणिका जं सा. सं. १, २ ( परिशिष्ट )

२ धवलां पण्हसमणांको नमस्कार किया है और अन्य ऋद्धियोंके साथ प्रज्ञाश्रमणत्व ऋद्धिका विवरण दिया है। यथा—

णमो पण्हसमणार्णं ॥ १८ ॥ औत्पत्तिका वेनयिका कर्मजा पारिणाभिका चंति चतुर्विधा प्रजा । एदेशु पण्हसमणेसु केसि गहणं । चदुण्हं पि गहणं । प्रज्ञा एव श्रवण येयां ते प्रज्ञाश्रवणाः

धवला. अ. प्रति ६८४

जयधवलाकी प्रशंस्तिमें कहा गया है कि धरसेनके ज्ञानके प्रकाशको देखकर विद्वान् उन्हें श्रुतकेवली और प्रज्ञाश्रमण कहते थे। यथा—

यमाहुः प्रस्फुरद्वोधदीधितिप्रसरांदयम् ।

श्रुतकेवलिनं प्राप्ताः प्रज्ञाश्रवणसत्तमम् ॥ २२ ॥

तिलोपपण्णत्ति गाथा ७० में कहा गया है कि प्रज्ञाश्रमणोंमें अन्तिम मुनि 'वज्रयश' नामके हुए। यथा—  
पण्हसमणेसु चरिमो वडरजसो णाम । ( अनेकान्त, २, १२ पृ. ६६८ )

‘ वह सूची एक श्वेतांबर विद्वान्ने प्रत्येक ग्रंथ देखकर तैयार की थी और अभी तक वह बहुत ही प्रामाणिक समझी जाती है ’ । नन्दिसंघकी प्राकृत पद्यावलीके अनुसार धरसेनका काल वीर निर्वाणसे ६२+१००+१८३+१२३+९७+२८+२१=६१४ वर्ष पश्चात् पड़ता है, अतः अपने पद्य-कालसे १४ वर्ष पूर्व उन्होंने यह ग्रंथ रचा होगा । इस समीकरणसे प्राकृत पद्यावली और बृहद्विष्णु-णिकाके संकेत, इन दोनोंकी प्रामाणिकता सिद्ध होती है, क्योंकि, ये दोनों एक दूसरेसे स्वतंत्र आधारपर लिखे हुए प्रतीत होते हैं ।

षट्खण्डागमके रचनाकाल पर कुछ प्रकाश कुन्दकुन्दाचार्यके संबन्धसे भी पड़ता है । कुन्दकुन्दकृत इन्द्रनन्दिने श्रुतावतारमें कहा है कि जब कर्मप्राभृत और कपायप्राभृत दोनों परिकर्म पुस्तकारूढ हो चुके तब कोण्डकुन्दपुरमें पद्मनन्दि मुनिने, जिन्हें सिद्धान्तका ज्ञान गुरु-परिपाटीसे मिला था, उन छह खण्डोंमेंसे प्रथम तीन खण्डोंपर परिकर्म नामक बारह हजार श्लोक प्रमाण टीका-ग्रन्थ रचा । पद्मनन्दि कुन्दकुन्दाचार्यका भी नाम था और श्रुतावतारमें कोण्डकुन्दपुरका उल्लेख आनेसे इसमें संदेह नहीं रहता कि यहां उन्हींसे अभिप्राय है । यद्यपि प्रो. उपाध्ये कुन्दकुन्दके ऐसे किसी ग्रन्थकी रचनाकी बातको प्रामाणिक नहीं स्वीकार करते, क्योंकि उन्हें धवला व जयधवलामें इसका कोई संकेत नहीं मिला । किंतु कुन्दकुन्दके सिद्धान्त ग्रंथोंपर टीका बनानेकी बात सर्वथा निर्मूल नहीं कही जा सकती, क्योंकि, जैसा कि हम अन्यत्र बता रहे हैं, परिकर्म नामक ग्रन्थके उल्लेख धंवाला व जयधवलामें अनेक जगह पाये जाते हैं ।

प्रो. उपाध्येने कुन्दकुन्दके लिये ईस्वीका प्रारम्भ काल, लगभग प्रथम दो शताब्दियोंके भीतरका समय, अनुमान किया है उससे भी षट्खण्डागमकी रचनाका समय उपरोक्त ठीक जंचता है ।

धरसेनाचार्य गिरिनगरकी चन्द्रगुफामें रहते थे । यह स्थान काठियावाड़के अन्तर्गत है । **भौगोलिक** यह बाईसवें तीर्थंकर नेमिनाथकी निर्वाणभूमि होनेसे जैनियोंके लिये बहुत प्राचीन **उल्लेख** कालसे अबतक महत्वपूर्ण है । मौर्य राजाओंके समयसे लगाकर गुप्त काल अर्थात् ४ थी, ५ वीं शताब्दितक इसका भारी महत्व रहा जैसा कि यहांपर एक ही चट्टान पर पाये गये अशोक मौर्य, रुद्रदामन और गुप्तवंशी स्कन्धगुप्तके समयके लेखोंसे पाया जाता है ।

धरसेनाचार्यने ‘ महिमा ’ में सम्मिलित संघको पत्र भेजा था जिससे महिमा किसी नगर या स्थान का नाम ज्ञात होता है, जो कि आन्ध्र देशके अन्तर्गत वेण्णाक नदीके तीरपर था । वेण्णा नामकी एक नदी बम्बई प्रान्तके सतारा जिलेमें है और उसी जिलेमें महिमानगढ़ नामका एक गांव भी है, जो हमारी महिमा नगरी हो संकता है । इससे अनुमानतः यहीं सतारा जिलेमें वह

जैन मुनियोंका सम्मेलन हुआ था। यदि यह अनुमान ठीक हो तो मानना पड़ेगा कि सतारा जिलेका भाग उस समय आन्ध्र देशके अन्तर्गत था। आन्ध्रोंका राज्य पुराणों व शिलादि लेखोंपरसे ईस्वी पूर्व २३२ से ई० सन् २२५ तक पाया जाता है। इसके पश्चात् कमसे कम इस भागपर आन्ध्रोंका अधिकार नहीं रहा। अतएव इस देशको आन्ध्र विषयान्तर्गत लेना इसी समयके भीतर माना जा सकता है। गिरिनगरसे लौटते हुए पुष्पदन्त और भूतबलिने जिस अंकुलेश्वर स्थानमें वर्षाकाल व्यतीत किया था वह निरसन्देह गुजरातमें भड़ोच जिलेका प्रसिद्ध नगर अंकुलेश्वर ही होना चाहिये। वहांसे पुष्पदन्त जिस वनवास देशको गये वह उत्तर कर्नाटकका ही प्राचीन नाम है जो तुंगभद्रा और वरदा नदियोंके बीच बसा हुआ है। प्राचीन कालमें यहां कदम्ब वंशका राज्य था। जहां इसकी राजधानी 'वनवासि' थी वहां अब भी उस नामका एक ग्राम विद्यमान है। तथा भूतबलि जिस द्रमिल देशको गये वह दक्षिण भारतका वह भाग है जो मद्राससे सेरिंगपट्टम और कामोरिन तक फैला हुआ है और जिसकी प्राचीन राजधानी कांचीपुरी थी। प्रस्तुत ग्रंथकी रचना-संरन्धी इन भौगोलिक सीमाओंसे स्पष्ट जाना जाता है कि उस प्राचीन कालमें कण्ठियावाड़से लगाकर देशके दक्षिणतम भाग तक जैन मुनियोंका प्रचुरतासे विहार होता था और उनके बीच पारस्परिक धार्मिक व साहित्यिक आदान-प्रदान सुचारुरूपसे चलता था। यह परिस्थिति विक्रमकी दूसरी शताब्दितक के समयका संकेत करती है।

## ६. वीर-निर्वाण-काल

पूर्वोक्त प्रकार से षट्खंडागमकी रचनाका समय वीरनिर्वाणके पश्चात् सातवीं शताब्दिके अन्तिम या आठवीं शताब्दिके प्रारम्भिक भागमें पड़ता है। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि महावीर भगवान्का निर्वाणकाल क्या है ?

जैनियोंमें एक वीरनिर्वाण संवत् प्रचलित है जिसका इस समय २४६५ वां वर्ष चालू है। इसे लिखते समय मेरे सन्मुख 'जैनमित्र' का ता. १४ सितम्बर १९३९ का अंक प्रस्तुत है जिसपर वीर सं. २४६५ भादों सुदी १, दिया हुआ है। यह संवत् वीरनिर्वाण दिवस अर्थात् पूर्णिमान्त मास-गणनाके अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष १४ के पश्चात् बदलता है। अतः आगामी नवम्बर ११ सन् १९३९ से निर्वाण संवत् २४६६ प्रारम्भ हो जायगा। इस समय विक्रम संवत् १९९६ प्रचलित है और यह चैत्र शुक्ल पक्षसे प्रारम्भ होता है। इसके अनुसार निर्वाण संवत् और विक्रम संवत् में २४६६-१९९६=४७० वर्ष का अन्तर है। दोनों संवत्तोंके प्रारम्भ मासमें भेद होनेसे कुछ मासोंमें यह अन्तर ४६९ वर्ष आता है जैसा कि वर्तमान में। अतः इस मान्यताके अनुसार महावीरका निर्वाण विक्रम संवत्से कुछ मास कम ४७० वर्ष पूर्व हुआ।

किन्तु विक्रम संवत्के प्रारम्भके सम्बन्धमें प्राचीन कालसे बहुत मतभेद चला आ रहा है जिसके कारण वीरनिर्वाण कालके सम्बन्धमें भी कुछ गड़बड़ी और मतभेद उत्पन्न हो गया है। उदाहरणार्थ, जो नन्दिसंघ की प्राकृत पद्यावली ऊपर उद्धृत की गई है उसमें वीरनिर्वाणसे ४७० वर्ष पश्चात् विक्रमका जन्म हुआ, ऐसा कहा गया है, और चूंकि ४७० वर्षका ही अन्तर प्रचलित निर्वाण संवत् और विक्रम संवत्में पाया जाता है, इससे प्रतीत होता है कि विक्रम संवत् विक्रमके जन्मसे ही प्रारम्भ हो गया था। किन्तु मेरुतुंगकृत स्थविरावली<sup>१</sup> तपागच्छ पद्यावली,<sup>२</sup> जिनप्रभसूरिकृत पावापुरीकल्प,<sup>३</sup> प्रभाचन्द्रसूरिकृत प्रभावकचरित<sup>४</sup> आदि ग्रंथोंमें उल्लेख है कि विक्रम संवत् का प्रारम्भ विक्रम राजाके राज्यकालसे या उससे भी कुछ पश्चात् प्रारम्भ हुआ।

श्रीयुत् वैरिस्टर काशीप्रसादजी जायसवालने इसी मतको मान देकर निश्चित किया कि चूंकि जैन ग्रंथोंमें ४७० वर्ष पश्चात् विक्रमका जन्म हुआ कहा गया है और चूंकि विक्रमका राज्यारंभ उनकी १८ वर्षकी आयुमें होना पाया जाता है, अतः वीर निर्वाणका ठीक समय जाननेके लिये ४७० वर्षमें १८ वर्ष और जोड़ना चाहिये अर्थात् प्रचलित विक्रम संवत्से ४८८ वर्ष पूर्व महावीरका निर्वाण हुआ<sup>५</sup>।

एक और तीसरा मत हेमचंद्राचार्य के उल्लेखपरसे प्रारम्भ हो गया है। हेमचन्द्रने अपने परिशिष्ट पर्वमें कहा है कि महावीरकी मुक्ति से १५५ वर्ष जाने पर चन्द्रगुप्त राजा हुआ<sup>६</sup>। यहां उनका तात्पर्य स्पष्टतः चन्द्रगुप्त मौर्यसे है। और चूंकि चन्द्रगुप्तसे लगाकर विक्रमतक का काल सर्वत्र २५५ वर्ष पाया जाता है, अतः वीर निर्वाणका समय विक्रमसे  $२५५ + १५५ = ४१०$  वर्ष पूर्व ठहरा। इस मतके अनुसार ४७० मेंसे ६० वर्ष घटा देनेसे ठीक विक्रम पूर्व वीर निर्वाण काल ठहरता है। पाश्चिमिक विद्वानों, जैसे डॉ. याकोबी<sup>७</sup> डॉ. चापेंटियर<sup>८</sup> आदिने इसी मत का प्रतिपादन किया है और इधर मुनि कल्याणविजयजीने<sup>९</sup> भी इसी मतकी पुष्टि की है।

१. विक्रम-रज्जारंभा पुरां सिरि-वीर-णिञ्जुई भणिया । सुव-गुणि-वेय-जुचो विक्रम-कालाउ जिणकालो ॥  
( मेरुतुंग-स्थविरावली )
२. तद्राज्यं तु श्रीवारात् सप्तति-वर्ष-शत-चतुष्टये ४७० संजातम् । ( तपागच्छ पद्यावली )
३. मह मुक्ख-गमणाओ पालय-नंद-चंद-गुत्ताइ-राईसु बोलीणेषु चउसयसत्तरेहिं वासेहिं विक्रमाइच्चो राया होही । ( जिनप्रभसूरि-पावापुरीकल्प )
४. इतः श्रीविक्रमादित्यः शास्त्यवन्तीं नराधिपः । अचूणां पृथिवीं कुर्वन् प्रवर्तयति वत्सरम् ॥  
( प्रभाचन्द्रसूरि-प्रभावकचरित )
५. Bihar and Orissa Research Society Journal, 1915.
६. एवं च श्रीमहावीरमुक्तेर्नवशते गते । पंचपंचाशदधिके चन्द्रगुप्तोऽभवन्नृपः ॥  
( परिशिष्ट-पर्व )
७. Sacred books of the East XXII.
८. Indian Antiquary XLIII.
९. ' वीर निर्वाण संवत् और जैनकालगणना, ' संवत् १९८७.

किन्तु दिगम्बर सम्प्रदायमें जो उल्लेख मिलते हैं वे इस उलझनको बहुत कुछ सुलझा देते हैं । इन उल्लेखोंके अनुसार शक संवत्की उत्पत्ति वीरनिर्वाणसे कुछ मास अधिक ६०५ वर्ष पश्चात् हुई<sup>१</sup> तथा जो विक्रम संवत् प्रचलित है और जिसका अन्तर वीरनिर्वाण कालसे ४७० वर्ष पड़ता है उसका प्रारम्भ विक्रमके जन्म या राज्यकालसे नहीं किन्तु विक्रमकी मृत्युसे हुआ था<sup>२</sup> । ये उल्लेख उपर्युक्त उल्लेखोंकी अपेक्षा अधिक प्राचीन भी हैं । उससे पूर्व प्रचलित वीर और बुद्धके निर्वाण संवत् मृत्युकालसेही सम्बद्ध पाये जाते हैं ।

इन उल्लेखोंसे पूर्वोक्त उलझन इसप्रकार सुलझती है । प्रथम शक संवत् को लीजिये । यह वीर निर्वाणसे ६०५ वर्ष पश्चात् चला । प्रचलित विक्रम संवत् और शक संवत् में १३५ वर्ष का अन्तर पाया जाता है । अतः इस मतके अनुसार विक्रम संवत् का प्रारम्भ वीरनिर्वाणसे ६०५-१३५=४७० वर्ष पश्चात् हुआ । अब विक्रम संवत् पर विचार कीजिये जो विक्रमकी मृत्युसे प्रारम्भ हुआ । मेरुतुंगाचार्यने विक्रमका राज्यकाल ६० वर्ष कहा है<sup>३</sup>, अतएव ४७० वर्षमेंसे ये ६० वर्ष निकाल देनेसे विक्रम के राज्यका प्रारम्भ वीरनिर्वाणसे ४१० वर्ष पश्चात् सिद्ध होता है । इसप्रकार हेमचन्द्रके उल्लेखानुसार जो वीरनिर्वाणसे ४१० वर्ष पश्चात् विक्रमका

१. णिव्वाणे वीरजिणे छव्वास-सदेसु पंचवरिसेसु । पणमासेसु गदेसु संजादो सगणिओ अह्वा ॥  
( तिलोयपण्णत्ति )

वर्षाणां षट्शतीं त्यक्त्वा पंचाश्रां मासपंचकम् । मुक्तिं गते महावीरे शकराजस्ततोऽभवन् ॥  
( जिनसेन-हरिवंशपुराण )

पणल्लसयवस्सं पणमासजुदं गमिय वीरणिव्वुद्धो । सगराजो ... .. ॥ ८५० ॥  
( नेमिचन्द्र-तिलोकसार )

एसो वीरजिणिद-णिव्वाण-गद-दिवसादो जाव सगकालस्स आदी होदि । तावदिय-कालो जुदो ६०५-५, एदाम्भि काले सग-णरिदि-कालम्भि पविखत्ते वद्धमाणजिण-णिव्वुदि-कालागमणादो । वृत्तं च—

पंच य मासा पंच य वासा छच्चेव होंति वाससया । सगकालेण य सहिया भावेयव्वो तदो रासी ॥

२. छत्तासि वरिस-सए विक्कमरायस्स मरण-पत्तस्स । सोरट्ठे बलहीए उप्पण्णो सेवडो संघो ॥११॥  
पंच-सए छव्वीसे विक्कमरायस्स मरणपत्तस्स । दक्खिण-सहुरा-जादो दाविडसंघो महामोहो ॥२८॥  
सत्तसए तेवण्णे विक्कमरायस्स मरणपत्तस्स । णंदियडे वरगामे कट्ठो संघो मुण्णेयव्वो ॥ ३८ ॥  
( देवसेन-दर्शनसार )

सषट्तिंशे शतेऽब्दानां मृते विक्कमराजनि । सारापेट्ठे वद्धभीपुर्यामभूत्तकथ्यते मया ॥  
( वामदेव-भावसंग्रह )

समारुढे पूत-त्रिदशवसतिं विक्कमनृपे । सहसे वर्षाणां प्रभवति हि पंचाशदधिके ।  
समाप्तं पंचम्याभवति धरिणां मुंजनृपतौ । सिते पक्षे पौषे बुधहितमिदं शास्त्रमनघम् ॥

( आभितगति-सुभापितरत्नसंदोह )  
मृते विक्कम-भूपाळे सप्तविंशति-संयुते । दशपंचशतेऽब्दानामतीति शृणुतापरम् ॥ १५७ ॥

३. विक्रमस्य राज्यं ६० वर्षाणि । ( मेरुतुंग-विचारश्रेणी, पृष्ठ ३, जै. सा. संशोधक २ )  
( रत्नान्दि-भद्रवाहुचरित )

राज्य प्रारम्भ माना गया है वह ठीक बैठ जाता है, किंतु उसे विक्रम संवत्का प्रारम्भ नहीं समझना चाहिये । जिन मतोंमें विक्रमके राज्यसे पूर्व या जन्मसे पूर्व ४७० वर्ष वतलाये गये हैं उनमें विक्रमके जन्म, राज्यकाल व मृत्युके समयसे संवत्-प्रारंभके सम्बन्धमें लेखकोंकी भ्रान्ति ज्ञात होती है । भ्रान्तिका एक दूसरा भी कारण हुआ है । हेमचन्द्रेने वीरनिर्वाणसे नन्द राजातक ६० वर्षका अन्तर वतलाया है और चन्द्रगुप्त मौर्य तक १५५ वर्षका । इसप्रकार नन्दोंका राज्यकाल ९५ वर्ष पड़ता है । किंतु अन्य लेखकोंने चन्द्रगुप्तके राज्यकाल तकके १५५ वर्षोंको नन्दवंशका ही काल मान लिया है और उससे पूर्व ६० वर्षोंको नन्दकाल तक भी कायम रखा है । इसप्रकार जो ६० वर्ष बढ़ गये उसे उन्होंने अन्तमें विक्रमकालमें घटाकर जन्म या राज्यकाल से ही संवत्का प्रारम्भ मान लिया और इसप्रकार ४७० वर्षकी संख्या कायम रखी । इस मत का प्रतिपादन पं. जुगलकिशोरजी मुद्गलारने किया है ।

इस मतका बुद्धनिर्वाण व आचार्य-परम्पराकी गणना आदिसे कैसा सम्बन्ध बैठता है, यह पुनः विवादास्पद विषय है जिसका स्वतंत्रतासे विचार करना आवश्यक है । यहां पर तो प्रस्तुत प्रमाणों पर से यह मान लेनेमें आपत्ति नहीं कि वीर-निर्वाणसे ४७० वर्ष पश्चात् विक्रमकी मृत्युके साथ प्रचलित विक्रम संवत् प्रारम्भ हुआ । अतः प्रस्तुत षट्खंडागमका रचना काल विक्रम संवत् ६१४ - ४७० = १४४, शक संवत् ६१४ - ६०५ = ९ तथा ईस्वी सन् ६१४ - ५२७ = ८७ के पश्चात् पड़ता है ।

## ७. षट्खण्डागमकी टीका धवलाके रचयिता

प्रस्तुत ग्रंथ धवलाके अन्तमें निम्न नौ गाथाएं पाई जाती हैं जो इसके रचयिताकी प्रशस्ति है—

### धवलाकी अन्तिम प्रशस्ति

जस्स सेसाएण (पसाएण) मए सिद्धंतमिदं हि अहिलहुंदी (अहिलहुदं) ।

महु सो एलाइरियो पसियउ वरधीरसेणस्स ॥ १ ॥

वंदामि उसहसेणं तिहुवण-जिय-बंधवं सिवं संतं ।

णाण-किरणावहासिय-सयल-इयर-तम-पणासियं दिदं ॥ २ ॥

अरहंतपदो ( अरहंतो ) भगवंतो सिद्धा सिद्धा पसिद्ध आइरिया ।

साहू साहू य महं पसियंतु भडारया सव्वे ॥ ३ ॥

अञ्जलज्जणंदिस्सिस्सेणुञ्जुव-कम्मस्स चंदसेणस्स ।  
 तह णत्तुवेण पंचत्थुहण्यंभाणुणा मुणिणा ॥ ४ ॥  
 सिद्धंत-छंद-जोइस-वायरण-पमाण-सत्थ-णिवुणेण ।  
 भट्टारण टीका लिहिएसा वीरसेणेण ॥ ५ ॥  
 अट्टतीसग्धि सासिय विक्कमरायग्धि एसु संगरमो । (?)  
 पासे सुतेरसीए भाव-विल्लगे धवल-पक्खे ॥ ६ ॥  
 जगतुंगदेवरज्जे रियग्धि कुंभग्धि राहुणा कोणे ।  
 सूरु तुलाए संते गुरुग्धि कुलविल्लए होंते ॥ ७ ॥  
 चावग्धि वरणिवुत्ते सिंघे सुक्कम्मि णेमिचंदम्मि ।  
 कत्तियमासे एसा टीका हु समाणिआ धवला ॥ ८ ॥  
 वोद्दणराय-णरिंदे णरिंद-चूडामणिग्धि भुंजंते ।  
 सिद्धंतगंथमत्थिय गुरुप्पसाएण विगत्ता सा ॥ ९ ॥

दुर्भाग्यतः इस प्रशस्तिका पाठ अनेक जगह अशुद्ध है जिसे उपलब्ध अनेक प्रतियोंके मिलानसे भी अभीतक हम पूरी तरह शुद्ध नहीं कर सके । तो भी इस प्रशस्तिसे टीकाकारके विषयमें हमें बहुतसी ज्ञातव्य बातें विदित हो जाती हैं । पहली गाथासे स्पष्ट है कि इस टीकाके रचयिताका नाम वीरसेन है और उनके गुरुका नाम एलाचार्य । फिर चौथी गाथामें वीरसेनके गुरुका नाम आर्यनन्दि और दादा गुरुका नाम चन्द्रसेन कहा गया है । संभवतः एलाचार्य उनके विद्यागुरु और आर्यनन्दि दीक्षागुरु थे । इसी गाथामें उनकी शाखाका नाम भी पंचस्तूपान्वय दिया है । पांचवी गाथामें कहा गया है कि इस टीकाके कर्ता वीरसेन सिद्धान्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण और प्रमाण अर्थात् न्याय, इन शास्त्रोंमें निपुण थे और भट्टारक पदसे विभूषित थे । आगेकी तीन अर्थात् ६ से ८ वीं तककी गाथाओंमें इस टीकाका नाम 'धवला' दिया गया है और उसके समाप्त होनेका समय वर्ष, मास, पक्ष, तिथि, नक्षत्र व अन्य ज्योतिषसंबन्धी योगोंके सहित दिया है और जगतुंगदेव के राज्यका भी उल्लेख किया है । अन्तिम अर्थात् ९ वीं गाथामें पुनः राजाका नाम दिया है जो प्रतियोंमें 'वोद्दणराय' पढ़ा जाता है । वे नरेन्द्रचूडामणि थे । उन्हींके राज्यमें सिद्धान्त ग्रन्थके ऊपर गुरुके प्रसादसे लेखकने इस टीकाकी रचना की ।

द्वितीय सिद्धान्त ग्रन्थ कषायप्राभृतकी टीका 'जयधवला' का भी एक भाग इन्हीं वीरसेनाचार्यका लिखा हुआ है । शेष भाग उनके शिष्य जिनसेनने पूरा किया था । उसकी प्रश-

स्तिमें भी वीरसेनके संबन्धमें प्रायः ये ही बातें कही गई हैं । चूंकि वह प्रशस्ति ' उनके शिष्यद्वारा लिखी गई है अतएव उसमें उनकी कीर्ति विशेष रूपसे वर्णित पाई जाती है । वहां उन्हें साक्षात् केवलीके समान समस्त विश्वके पारदर्शी कहा है । उनकी वाणी पट्खण्ड आगममें अस्खलित रूपसे प्रवृत्त होती थी । उनकी सर्वार्थगामिनी नैसर्गिक प्रज्ञाको देखकर सर्वज्ञकी सत्तामें किसी मनीषीको शंका नहीं रही थी । विद्वान् लोग उनकी ज्ञानरूपी किरणोंके प्रसारको देखकर उन्हें प्रज्ञाश्रमणोंमें श्रेष्ठ आचार्य और श्रुतकेवली कहते थे । सिद्धान्तरूपी समुद्रके जलसे उनकी बुद्धि शुद्ध हुई थी जिससे वे तीव्रबुद्धि प्रत्येकबुद्धोंसे भी स्पर्धा करते थे । उनके विषयमें एक मार्मिक बात यह कही गई है कि उन्होंने चिरंतन कालकी पुस्तकों ( अर्थात् पुस्तकारूढ़ सिद्धांतों ) की खूब पुष्टि की और इस कार्यमें वे अपनेसे पूर्वके समस्त पुस्तक-पाठियोंसे बढ़ गये । इसमें सन्देह नहीं कि वीरसेनकी इस टीकाने इन आगम-सूत्रोंको चमका दिया और अपनेसे पूर्वकी अनेक टीकाओंको अस्तमित कर दिया ।

जिनसेनने अपने आदिपुराणमें भी गुरु वीरसेनकी स्तुति की है और उनकी भट्टारक पदवीका उल्लेख किया है । उन्हें वादि-वृन्दारक मुनि कहा है, उनकी लोकविज्ञता, कवित्वशक्ति और वाचस्पतिके समान वाग्मिताकी प्रशंसा की है, उन्हें सिद्धान्तोपनिबन्धकर्ता कहा है तथा उनकी ' धवला ' भारतीको भुवनव्यापिनी कहा है ।

१. भूयादावीरसेनस्य वीरसेनस्य शासनम् । शासनं वीरसेनस्य वीरसेन-कुशेशयम् ॥ १७ ॥  
 आसीदासीददासन्नमभ्यसच्चक्रुमुद्रतीम् । मुद्रतीं कर्तुमीशो यः शशांक इव पुष्कलः ॥ १८ ॥  
 श्रीवीरसेन इत्यात्तभट्टारकपृथुप्रथः । पारदश्वाधिनिश्चानां साक्षादिव स केवली ॥ १९ ॥  
 प्रीणितप्राणिसंपत्तिराक्रांताशेषगोचरा । भारती भारतीवाज्ञा पट्खण्डे यस्य नास्खलत् ॥ २० ॥  
 यस्य नैसर्गिकीं प्रज्ञां दृष्ट्वा सर्वार्थगामिनीम् । जाताः सर्वज्ञसद्भावे निरारेका मनीषिणः ॥ २१ ॥  
 यं प्राहुः प्रस्फुरद्वोधदीधितिप्रसरोदयम् । श्रुतकेवलिनं प्राज्ञाः प्रज्ञाश्रमणसत्तमम् ॥ २२ ॥  
 प्रसिद्ध-सिद्धसिद्धान्तवाधिवाधौतशुद्धधीः । सार्द्धं प्रत्येकबुद्धैर्यः स्पर्धते धीद्वबुद्धिभिः ॥ २३ ॥  
 पुस्तकानां चिरत्नानां गुरुत्वमिह कुर्वता । येनातिशयिताः पूर्वं सर्वे पुस्तकशिष्यकाः ॥ २४ ॥  
 यस्तप्तोद्दीप्तकिरणैर्मर्याभोजानि बोधयन् । व्यद्योतिष्ठ मुनीनेनः पंचस्रूपान्वयांवरैः ॥ २५ ॥  
 प्रशिष्यश्चन्द्रसेनस्य यः शिष्योऽप्यार्यनन्दिनाम् । कुलं गणं च सन्तानं स्वगुणैरुदजिज्वलत् ॥ २६ ॥  
 तस्य शिष्योऽभवच्छ्रीमान् जिनसेनसामिद्धधीः । ( जयधवला-प्रशस्ति )

२. श्री वीरसेन इत्यात्त-भट्टारकपृथुप्रथः । स नः पुनातु पूतात्मा वादिवृन्दारको मुनिः ॥ ५५ ॥  
 लोकविन्वं कवित्वं च स्थितं भट्टारके द्वयम् । वाग्मिता वाग्मिनी यस्य वाचा वाचस्पतेरपि ॥ ५६ ॥  
 सिद्धान्तोपनिबन्धानां त्रिधातुर्मद्गुरोश्चिरम् । मन्मनःसरसि स्थेयान्मृदुपादकुशेशयम् ॥ ५७ ॥  
 धवला भारती तस्य कीर्तिं च शुचि-निर्मलाम् । धवलीकृतनिःशेषभुवनं तां नमान्यहम् ॥ ५८ ॥



इन्द्रनन्दिने अपने श्रुतावतारमें वीरसेनद्वारा धवला और जयधवला टीका लिखे जानेका इसप्रकार वृत्तान्त दिया है। वप्पदेव गुरुद्वारा सिद्धान्त ग्रंथोंकी टीका लिखे जानेके कितने ही काल पश्चात् सिद्धान्तोंके तत्वज्ञ श्रीमान् एलाचार्य हुए जो चित्रकूटपुरमें निवास करते थे। उनके पास वीरसेन गुरुने समस्त सिद्धान्तका अध्ययन किया और ऊपरके निबन्धनादि आठ अधिकार लिखे। फिर गुरुकी अनुज्ञा पाकर वे वाटग्राममें आये और वहाँके आनतेन्द्रद्वारा बनवाये हुए जिनालयमें ठहरे। वहाँ उन्हें व्याख्याप्रज्ञप्ति (वप्पदेव गुरुकी बनाई हुई टीका) प्राप्त हो गई। फिर उन्होंने ऊपरके बन्धनादि अठारह अधिकार पूरे करके सत्कर्म नामका छठवां खण्ड संक्षेपसे तैयार किया और इसप्रकार छह खण्डोंकी ७२ हजार श्लोक प्रमाण प्राकृत और संस्कृत मिश्रित धवला टीका लिखी। तत्पश्चात् कषायप्राभृतकी चार विभक्तियोंकी २० हजार श्लोक प्रमाण टीका लिखनेके पश्चात् ही वे स्वर्गवासी हो गये। तब उनके शिष्य जयसेन (जिनसेन) गुरुने ४० हजार श्लोक प्रमाण टीका और लिखकर उसे पूरा किया। इसप्रकार जयधवला ६० हजार श्लोक-प्रमाण तैयार हुई।

वीरसेन स्वामीकी अन्य कोई रचना हमें प्राप्त नहीं हुई और यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि उनका समस्त सज्ञान अवस्थाका जीवन निश्चयतः इन सिद्धान्त ग्रंथोंके अध्ययन, संकलन और टीका-लेखनमें ही बीता होगा। उनके कृतज्ञ शिष्य जिनसेनाचार्यने उन्हें जिन विशेषणों और पदवियोंसे अलंकृत किया है उन सबके पोषक प्रमाण उनकी धवला और जयधवला टीकामें प्रचुरतासे पाये जाते हैं। उनकी सूक्ष्म मार्मिक बुद्धि, अपार पाण्डित्य, विशाल स्मृति और अनुपम व्यासंग उनकी रचनाके पृष्ठ पृष्ठ पर झलक रहे हैं। उनकी उपलभ्य रचना ७२ + २० = ९२ हजार श्लोक प्रमाण है। महाभारत शतसाहस्री अर्थात् एक लाख श्लोक-प्रमाण होनेसे संसारका सबसे बड़ा काव्य समझा जाता है। पर वह सब एक व्यक्तिकी रचना नहीं है। वीरसेनकी रचना मात्रामें शतसाहस्री महाभारतसे थोड़ी ही कम है, पर वह उन्हीं एक व्यक्तिके परिश्रमका फल

१. काले गते कियत्यपि ततः पुनाश्चित्रकूटपुरवासी। श्रीमानेलाचार्यो बभूव सिद्धान्ततत्त्वज्ञः ॥ १७७ ॥  
 तस्य समीपे सकलं सिद्धान्तमधीत्य वीरसेनगुरुः। उपरितमनिबन्धनाद्यधिकारानष्ट च लिलेख ॥ १७८ ॥  
 आगत्य चित्रकूटात्ततः स भगवान्युरोरनुज्ञानात्। वाटग्रामे चात्रानतेन्द्रकृतजिमगृहे स्थित्वा ॥ १७९ ॥  
 व्याख्याप्रज्ञप्तिमवाप्य पूर्वषट्खण्डतरतस्तास्मिन्। उपरितमबन्धनाद्यधिकारैरेष्टादशविकल्पैः ॥ १८० ॥  
 सत्कर्मानामर्धय षष्ठं खण्डं विधाय संक्षिप्य। इति षण्णां खण्डानां ग्रंथसहस्रैर्द्विसप्तत्या ॥ १८१ ॥  
 प्राकृत-संस्कृत-भाषा-मिश्रा टीकां विलिख्य धवलाख्याम्। जयधवलां च कषायप्राभृतके चतसृणां

विमत्तीनाम् ॥ १८२ ॥  
 विंशतिसहस्रसद्ग्रंथरचनेया संयुता विरच्य दिवम्। यातस्ततः पुनस्तच्छिष्यो जयसेन (जिनसेन) —

गुरुनामा ॥ १८३ ॥  
 तच्छेषं चत्वारिंशता सहस्रैः समापितवान्। जयधवलैवं षष्टिसहस्रग्रंथोऽभवद्वीका ॥ १८४ ॥

हैं। धन्य हैं वीरसेन स्वामीकी अपार प्रशा और अनुपम साहित्यिक परिश्रमको। उनके विषयमें भव-भूति कविके वे शब्द याद आते हैं

उत्पत्यतेऽस्ति मम कोऽपि समानधर्मा,  
कालो ह्ययं निरवधिर्विपुला च पृथ्वी ।

वीरसेनाचार्यका समय निश्चित है। उनकी अपूर्णटीका जयधवलाको उनके शिष्य जिनसेनेने शक सं० ७५९ की फाल्गुन शुक्ल दशमी तिथिको पूर्ण की थी और उस समय अमोघवर्षका राज्य था<sup>१</sup>। मान्यखेटके राष्ट्रकूट नरेश अमोघवर्ष प्रथमके उल्लेख उनके समयके ताम्रपटोंमें शक सं० ७३७ से लगाकर ७८८ तक अर्थात् उनके राज्यके ५२ वीं वर्ष तकके मिलते हैं<sup>२</sup>। अतः जयधवला टीका अमोघवर्षके राज्यके २३ वीं वर्ष में समाप्त हुई सिद्ध होती है। स्पष्टतः इससे कई वर्ष पूर्व धवला टीका समाप्त हो चुकी थी और वीरसेनाचार्य स्वर्गवासी हो चुके थे।

धवला टीकाके अन्तकी जो प्रशस्ति स्वयं वीरसेनाचार्यकी लिखी हुई हम ऊपर उद्धृत कर आये हैं उसकी छठवीं गायामें उस टीकाकी समाप्तिके सूचक कालका निर्देश है। किंतु दुर्भाग्यतः हमारी उपलब्ध प्रतियोंमें उसका पाठ बहुत भ्रष्ट है इससे वहां अंकित वर्षका ठीक निश्चय नहीं होता। किंतु उसमें जगतुंगदेवके राज्यका स्पष्ट उल्लेख है। राष्ट्रकूट नरेशोंमें जगतुंग उपाधि अनेक राजाओंकी पाई जाती है। इनमेंसे प्रथम जगतुंग गोविंद तृतीय थे जिनके ताम्रपट शक संवत् ७१६ से ७३५ तकके मिले हैं<sup>३</sup>। इन्हींके पुत्र अमोघवर्ष प्रथम थे जिनके राज्यमें जयधवला टीका जिनसेन द्वारा समाप्त हुई। अतएव यह स्पष्ट है कि धवलाकी प्रशस्तिमें इन्हीं गोविन्दराज जगतुंगका उल्लेख होना चाहिये।

१. इति श्रीवीरसेनीया टीका स्वार्थदर्शिनी । वाटग्रामपुरे श्रीमद्गूर्जरार्यानुपालिते ॥ ६ ॥  
फाल्गुने मासि पूर्वार्धे दशम्यां शुक्लपक्षके । प्रवर्द्धमानपूजोरुनन्दीश्वरमहोत्सवे ॥ ७ ॥  
अमोघवर्षराजेन्द्रराज्यप्राप्त्यगुणोदया । निष्ठिता प्रचर्य यायादाकल्पान्तमनल्पिका ॥ ८ ॥  
पूजोत्पत्तिसमधिकसप्तशताब्देद्यु शकनरेन्द्रस्य । समतीतेषु समाप्ता जयधवला प्राभृतव्याख्या ॥ ९ ॥

जयधवला प्रशस्ति

२. Altekar: The Rashtrakutas and their times, p. 71. Dr. Altekar, on page 87 of his book says " His ( Amoghavarsha's ) latest known date is Phalgunā S'uddha 10, S'aka 799 ( i. e. March 878 A. D. ), when the Jayadhavalā tikā of Virasena was finished. This is a gross mistake. He has wrongly taken S'aka 759 to be saka 799.

३. रंजु भारतके प्राचीन राजवंश. ३. पृ. ३६, ६५-६७.

अब कुछ प्रशस्तिकी उन शंकास्पद गाथाओंपर विचार कीजिये । गाथा नं. ६ में ' अद्वर्तासंम्हि ' और ' विक्रमरायम्हि ' सुस्पष्ट हैं । शताब्दिकी सूचनाके अभावमें अद्वर्तासवां वर्ष हम जगतुंगदेवके राज्यका ले सकते थे । किंतु न तो उसका विक्रमराजसे कुछ संबन्ध बैठता और न जगतुंगका राज्य ही ३८ वर्ष रहा । जैसा हम ऊपर बतला चुके हैं उनका राज्य केवल २० वर्ष के लगभग रहा था । अतएव इस ३८ वर्ष का संबन्ध विक्रमसेही होना चाहिये । गाथामें शतसूचक शब्द गड़बड़में है । किंतु जान पड़ता है लेखकका तात्पर्य कुछ सौ ३८ वर्ष विक्रम संवत्के कहनेका है । किंतु विक्रम संवत्के अनुसार जगतुंगका राज्य ८५१ से ८७० के लगभग आता है । अतः उसके अनुसार ३८ के अंककी कुछ सार्थकता नहीं बैठती । यह भी कुछ साधारण नहीं जान पड़ता कि वीरसेनने यहां विक्रम संवत्का उल्लेख किया हो । उन्होंने जहां जहां वीर निर्वाणका काल-गणना दी है वहां शक-कालका ही उल्लेख किया है । उनके शिष्य जिनसेनने जयध्वलाकी समाप्तिका काल शक गणनानुसार ही सूचित किया है । दक्षिणके प्रायः समस्त जैन लेखकोंने शककालका ही उल्लेख किया है । ऐसी अवस्थामें आश्चर्य नहीं जो यहां भी लेखकका अभिप्राय शक कालसे हो । यदि हम उक्त संख्या ३८ के साथ सातसौं और मिला दें और ७३८ शक संवत्के लें तो यह काल जगतुंगके ज्ञात काल अर्थात् शक संवत् ७३५ के बहुत समीप आ जाता है ।

अब प्रश्न यह है कि जब गाथामें विक्रमराजका स्पष्ट उल्लेख है तब हम उसे शक संवत् अनुमान कैसे कर सकते हैं ? पर खोज करनेसे जान पड़ता है कि अनेक जैन लेखकोंने प्राचीन कालसे शक कालके साथ भी विक्रमका नाम जोड़ रखा है । अकलंकचरितमें अकलंकके बौद्धोंके साथ शास्त्रार्थका समय इसप्रकार बतलाया है ।

विक्रमार्कशकाब्दीयशतसप्तप्रमाञ्जुपि ।

कालेऽकलङ्कयतिनो बौद्धैर्वादो महानभूत् ॥

यद्यपि इस विषयमें मतभेद है कि यहां लेखकका अभिप्राय विक्रम संवत् से है या शकसे, किंतु यह तो स्पष्ट है कि विक्रम और शकका संबन्ध एक ही काल गणनासे जोड़ा गया है । यह भ्रमवश हो और चाहे किसी मान्यतानुसार । यह भी बात नहीं है कि अकेला ही इसप्रकारका उदाहरण हो । त्रिलोकसारकी गाथा नं. ८५० की टीका करते हुए टीकाकार श्री माधवचन्द्र त्रैविद्य लिखते हैं—

‘ श्रीवीरनाथनिवृत्तेः सकाशात् पंचोत्तरषट्शतवर्षाणि ( ६०५ ) पंचमासयुतानि गत्वा पश्चात् विक्रमांकशकराजो जायते । तत उपरि चतुर्णवत्युत्तरत्रिंशत् ( ३९४ ) वर्षाणि सप्तमासाधिकानि गत्वा पश्चात् कल्की जायते ’ ।

यहां विक्रमांक शकराजका उल्लेख है और उसका तात्पर्य स्पष्टतः शकसंवत्के संस्थापकसे है। उक्त अवतरणपर डा. पाठकने टिप्पणी की है कि यह उल्लेख त्रुटि-पूर्ण है। उन्होंने ऐसा समझकर यह कहा ज्ञात होता है कि उस शब्दका तात्पर्य विक्रम संवत्से ही हो सकता है। किंतु ऐसा नहीं है। शक संवत्की सूचनामें ही लेखकने विक्रमका नाम जोड़ा है, और उसे शकराजकी उपाधि कहा है जो सर्वथा संभव है। शक और विक्रमके संबन्धका कालगणनाके विषयमें जैन लेखकोंमें कुछ भ्रम रहा है यह तो अवश्य है। त्रिलोकप्रज्ञसिमें जो शककी उत्पत्ति वीरनिर्वाणसे ४६१ वर्ष पश्चात् या विकल्पसे ६०५ वर्ष पश्चात् बतलाई गई है<sup>१</sup> उसमें यही भ्रम या मान्यता कार्यकारी है, क्योंकि, वीर नि. से ४६१ वां वर्ष विक्रमके राज्यमें पड़ता है और ६०५ वर्षसे शककाल प्रारंभ होता है। ऐसी अवस्थामें प्रस्तुत गाथामें यदि 'विक्रमरायम्हि' से शकसंवत्की सूचना ही हो तो हम कह सकते हैं कि उस गाथाके शुद्ध पाठमें धवलाके समाप्त होनेका समय शक संवत् ७३८ निर्दिष्ट रहा है।

इस निर्णयमें एक कठिनाई उपस्थित होती है। शक संवत् ७३८ में लिखे गये नव-सारीके ताम्रपटमें जगतुंगके उत्तराधिकारी अमोघवर्षके राज्यका उल्लेख है। यही नहीं, किंतु शक संवत् ७८८ के सिरूरसे मिले हुए ताम्रपटमें अमोघवर्षके राज्यके ५२ वें वर्षका उल्लेख है, जिससे ज्ञात होता है कि अमोघवर्षका राज्य ७३७ से प्रारंभ हो गया था। तब फिर शक ७३८ में जगतुंगका उल्लेख किस प्रकार किया जा सकता है? इस प्रश्नपर विचार करते हुए हमारी दृष्टि गाथा नं. ७ में 'जगतुंगदेवरज्जे' के अनन्तर आये हुए 'रियम्हि' शब्दपर जाती है जिसका अर्थ होता है 'ऋते' या 'रित्ते'। संभवतः उसीसे कुछ पूर्व जगतुंगदेवका राज्य गत हुआ था और अमोघवर्ष सिंहासनारूढ़ हुए थे। इस कल्पनासे आगे गाथा नं. ९ में जो बोद्धणराय नरेन्द्रका उल्लेख है, उसकी उलझन भी सुलझ जाती है। बोद्धणराय संभवतः अमोघवर्षका ही उपनाम होगा। या वह बड्ढिगकाही रूप हो और बड्ढिग अमोघवर्षका उपनाम हो। अमोघवर्ष तृतीयका उपनाम बड्ढिग या बड्ढिगका तो उल्लेख मिलता ही है। यदि यह कल्पना ठीक हो तो वीरसेन स्वामीके इन उल्लेखोंका यह तात्पर्य निकलता है कि उन्होंने धवला टीका शक संवत् ७३८ में समाप्त की जब जगतुंगदेवका राज्य पूरा हो चुका था और बोद्धणराय (अमोघवर्ष) राजगद्दीपर बैठ चुके थे। 'जगतुंगदेवरज्जे रियम्हि' और 'बोद्धणरायणरिंदे णरिंदचूडामणिम्हि भुंजंते' पाठोंपर ध्यान देनेसे यह कल्पना बहुत कुछ पुष्ट हो जाती है।

१ वीरजिणं सिद्धिगंदे चउ-सद-इगसट्ठि वास-परिमाणे । कालम्मि अदिक्कंते उप्पण्णो एत्थ सगराओ ॥८६॥  
णिच्चाणे वीरजिणे लब्बास-सदेसु, पंच-वरिसेसु, पण-मासेसु, गदेसु, संजादो सगणिओ अहवा ॥ ८९ ॥  
तिलोयपण्णत्ति

अमोघवर्षके राज्यके प्रारंभिक इतिहासको देखनेसे जान पड़ता है कि संभवतः गोविन्दराजने अपने जीवन कालमें ही अपने अल्पवयस्क पुत्र अमोघवर्षको राजतिलक कर दिया था और उनके संरक्षक भी नियुक्त कर दिये थे, और आप राज्यभारसे मुक्त होकर, आश्रय नहीं, धर्मध्यान करने लगे हों। नवसाराके शक ७३८ के ताम्रपटोंमें अमोघवर्षके राज्यमें किसी प्रकारकी गड़बड़ीकी सूचना नहीं है, किंतु सूरतसे मिले हुए शक संवत् ७४३ के ताम्रपटोंमें एक विप्लवके समनके पश्चात् अमोघवर्षके पुनः राज्यारोहणका उल्लेख है। इस विप्लवका वृत्तान्त बड़ौदासे मिले हुए शक संवत् ७५७ के ताम्रपटोंमें भी पाया जाता है। अनुमान होता है कि गोविन्दराजके जीवनकालमें तो कुछ गड़बड़ी नहीं हुई किंतु उनकी मृत्युके पश्चात् राज्यासिंहासनके लिये विप्लव मचा जो शक संवत् ७४३ के पूर्व समन हो गया<sup>१</sup>। अतएव शक ७३८ में जगतुंग ( गोविन्दराज ) जीवित थे इस कारण उनका उल्लेख किया और उनके पुत्र सिंहासनारुढ़ हो चुके थे इससे उनका भी कथन किया, यह उचित जान पड़ता है।

यदि यह कालसंबन्धी निर्णय ठीक हो तो उस परसे वीरसेनस्वामीके कुल रचनाकाल व धवलाके प्रारंभकालका भी कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। धवला टीका ७३८ शकमें समाप्त हुई और जयधवला उसके पश्चात् ७५९ शक में। तात्पर्य यह कि कोई २० वर्ष में जयधवलाके ६० हजार श्लोक रचे गये जिसकी औसत एक वर्षमें ३ हजार आती है। इस अनुमानसे धवलाके ७२ हजार श्लोक रचनेमें २४ वर्ष लगना चाहिये। अतः उसकी रचना ७३८ - २४ = ७१४ शकमें प्रारंभ हुई होगी, और चूंकि जयधवलाके २० हजार श्लोक रचे जानेके पश्चात् वीरसेन स्वामीकी मृत्यु हुई और उतने श्लोकोंकी रचनामें लगभग ७ वर्ष लगे होंगे, अतः वीरसेन स्वामीके स्वर्गवासका समय ७३८ + ७ = ७४५ शकके लगभग आता है। तथा उनका कुल रचना-काल शक ७१४ से ७४५ अर्थात् ३१ वर्ष पड़ता है<sup>२</sup>।

१. Altekar: The Rashtrakutas and their times p. 71 ff

२. आजसे कोई ३० वर्ष पूर्व विद्वद् वर पं. नाथूरामजी प्रेमाने अपनी विद्वदरत्नमाला नामक लेखमालामें वीरसेनके शिष्य जिनसेन स्वामीका पूरा परिचय देते हुए बहुत सयुक्तिक रूपसे जिनसेनका जन्मकाल शक संवत् ६७५ अनुमान किया था और कहा था कि उनके गुरुका जन्म उनसे 'अधिक नहीं तो २० वर्ष पहले लगभग ६६५ शकमें हुआ होगा'। इससे वीरसेन स्वामीका जीवनकाल शक ६६५ से ७४५ तक अर्थात् ८० वर्ष पड़ता है। ठीक यही अनुमान अन्य प्रकारसे संख्या जोड़कर प्रेमीजानि किया था और लिखा था कि 'जिनसेन स्वामीके गुरु वीरसेन स्वामीकी अवस्था भी ८० वर्षसे कम न हुई होगी ऐसा जान पड़ता है। विद्वदरत्नमाला पृ. २५ आदि, व पृ. ३६. इन हमारे कविश्रेष्ठोंके पूर्ण परिचयके लिये पाठकोंको प्रेमीजीका वह ८९ पृष्ठोंका पूरा लेख पढ़ना चाहिये।

अब हम प्रशस्तिमें दी हुई ग्रह-स्थितिपर भी विचार कर सकते हैं। सूर्यकी स्थिति तुला राशिमें बताई गई है सो ठीक ही है, क्योंकि, कार्तिक मासमें सूर्य तुलामें ही रहता है। चन्द्रकी स्थितिका द्योतक पद अशुद्ध है। शुक्लपक्ष होनेसे चन्द्र सूर्यसे सात राशिके भीतर ही होना चाहिये और कार्तिक मासकी त्रयोदशीको चन्द्र मीन या मेष राशिमें ही हो सकता है। अतएव 'गोमिचंद्रमि' की जगह शुद्ध पाठ 'मीणे चंद्रमि' प्रतीत होता है जिससे चन्द्रकी स्थिति मीन राशिमें पड़ती है। लिपिकारके प्रमादसे लेखनमें वर्णव्यत्यय होगया जान पड़ता है। शुक्रकी स्थिति सिंह राशिमें बताई है जो तुलाके सूर्यके साथ ठीक बैठती है।

संवत्सरके निर्णयमें नौ ग्रहोंमेंसे केवल तीन ही ग्रह अर्थात् गुरु, राहु और शनिकी स्थिति सहायक हो सकती है। इनमेंसे शनिका नाम तो प्रशस्तिमें कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता। राहु और गुरुके नामोल्लेख स्पष्ट हैं किन्तु पाठ-भ्रमके कारण उनकी स्थितिका निर्भ्रान्त ज्ञान नहीं होता। अतएव इन ग्रहोंकी वर्तमान स्थितिपरसे प्रशस्तिके उल्लेखोंका निर्णय करना आवश्यक प्रतीत हुआ। आज इसका विवेचन करते समय शक १८६१, आश्विन शुक्ल ५, मंगलवार, है और इस समय गुरु मीनमें, राहु तुलामें तथा शनि मेषमें है। गुरुकी एक परिक्रमा बारह वर्षमें होती है, अतः शक ७३८ से १८६१ अर्थात् ११२३ वर्षमें उसकी ९३ परिक्रमाएं पूरी हुईं और शेष सात वर्षमें सात राशियां आगे बढ़ीं। इसप्रकार शक ७३८ में गुरुकी स्थिति कन्या या तुला राशिमें होना चाहिये। अब प्रशस्तिमें गुरुको हम सूर्यके साथ तुला राशिमें ले सकते हैं।

राहुकी परिक्रमा अठारह वर्षमें पूरी होती है अतः गत ११२३ वर्षमें उसकी ६२ परिक्रमाएं पूरी हुईं और शेष सात वर्षमें वह लगभग पांच राशि आगे बढ़ा। राहुकी गति सदैव वृद्धी होती है। तदनुसार शक ७३८ में राहुकी स्थिति तुलामें पांचवीं राशि अर्थात् कुंभमें होना चाहिये। अतएव प्रशस्तिमें हम राहुका सम्बन्ध कुंभम्हि से लगा सकते हैं। राहु यहां तृतीयान्त पद क्यों है इसका समाधान आगे करेंगे।

शनिकी परिक्रमा तीस वर्षमें पूरी होती है। तदनुसार गत ११२३ वर्षमें उसकी ३७ परिक्रमाएं पूरी हुईं और शेष १३ वर्षमें वह कोई पांच राशि आगे बढ़ा। अतः शक ७३८ में शनि धनु राशिमें होना चाहिये। जब धवलाकारने इतने ग्रहोंकी स्थितियां दी हैं, तब वे शनि जैसे प्रमुख ग्रहको भूल जाय यह संभव न जान हमारी दृष्टि प्रशस्तिके चापम्हि वरणिबुत्ते पाठपर गई। चाप का अर्थ तो धनु होता ही है, किन्तु वरणिबुत्ते से शनिका अर्थ नहीं निकल सका। पर साथ ही यह ध्यानमें आते देर न लगी कि संभवतः शुद्ध पाठ तरणि-बुत्ते ( तरणिपुत्रे ) है। तरणि सूर्यका पर्यायवाची है और शनि सूर्यपुत्र कहलाता है। इसप्रकार प्रशस्तिमें शनिका भी उल्लेख मिल गया और इन तीन ग्रहोंकी स्थितिसे हमारे अनुमान किए हुए धवलाके समाप्तिकाल शक संवत् ७३८ की पूरी पुष्टि हो गई।

इन ग्रहोंका इन्ही राशियोंमें योग शक ७६८ के अतिरिक्त केवल शक ३७८, ५५८, ९१८, १०९८, १२७८, १४५८, १६३८ और १८१८ मेंही पाया जाता है, और ये कोईभी संवत् धवलाके रचनाकालके लिये उपयुक्त नहीं हो सकते ।

अब ग्रहोंमेंसे केवल तीन अर्थात् केतु, मंगल और बुध ही ऐसे रह गये जिनका नामोल्लेख प्रशास्तिमें हमारे दृष्टिगोचर नहीं हुआ । केतुकी स्थिति सर्वत्र राहुसे सन्तम राशिपर रहती है, अतः राहुकी स्थिति बता देने पर उसकी स्थिति आप ही स्पष्ट हो जाती है कि उस समय केतु सिंह राशिमें था । प्रशास्तिके शेष शब्दोंपर विचार करनेसे हमें मंगल और बुधका भी पता लग जाता है । प्रशास्तिमें ' कोणे ' शब्द आया है । कोण शब्द कोपके अनुसार मंगलका भी पर्यायवाची है<sup>१</sup> । जैसा आगे चलकर ज्ञात होगा, कुंडली-चक्रमें मंगलकी स्थिति कोनेमें आती है, इसीसे संभवतः मंगलका यह पर्याय कुशल कविको यहां उपयुक्त प्रतीत हुआ । अतः मंगलकी स्थिति राहुके साथ कुंभ राशिमें थी । राहु पदकी तृतीया विभक्ति इसी साथको व्यक्त करनेके लिये रखी गई जान पड़ती है । अब केवल ' भावविलगो ' और ' कुलविल्लए ' शब्द प्रशास्तिमें ऐसे वच रहे हैं जिनका अभीतक उपयोग नहीं हुआ । कुल का अर्थ कोपानुसार बुध भी होता है,<sup>२</sup> और बुध सूर्यकी आज्ञा वाञ्छकी राशियोंसे बाहर नहीं जा सकता । जान पड़ता है यहां कुलविल्लए का अर्थ ' कुलविलये ' है । अर्थात् बुधकी सूर्यकी ही राशिमें स्थिति होनेसे उसका विलय था । गायामें मात्रापूर्तिके लिये विलए का विल्लए कर दिया प्रतीत होता है ।

जब तक लग्नका समय नहीं दिया जाता तब तक ज्योतिष कुंडली पूरी नहीं कही जा सकती । इस कमी की पूर्ति ' भावविलगो ' पद से होती है । ' भावविलगो ' का कुल टीका अर्थ नहीं बैठता । पर यदि हम उसकी जगह ' भाणुविलगो ' पाठ ले लें तो उससे यह अर्थ निकलता है कि उस समय सूर्य लग्नकी राशिमें था, और क्योंकि सूर्यकी राशि अन्यत्र तुला व्रतला दी है, अतः ज्ञात हुआ कि धवला टीका को वीरसेन स्वामीने प्रातःकालके समय पूरी की थी जब तुला राशिके साथ सूर्यदेव उदय हो रहे थे ।

इस विवेचनद्वारा उक्त प्रशास्तिके समयसूचक पद्योंका पूरा संशोधन हो जाता है, और उससे धवलाकी समाप्तिका काल निर्विवाद रूपसे शक ७३८ कार्तिक शुक्ल १३, तदनुसार तारीख ८ अक्टूबर सन् ८१६, दिन बुधवार का प्रातःकाल, सिद्ध हो जाता है । उससे वीरसेन स्वामीके सूक्ष्म ज्योतिष-ज्ञानका भी पता चल जाता है ।


१ Apte: Sanskrit English Dictionary.

२ " " " " "

अब हम उन तीन पदोंको शुद्धतासे इसप्रकार पढ़ सकते हैं—

अठतीसम्हि सतसए विक्रमरायंकिए सु-सगणामे ।  
 वामे सुतेरसीए भाणु-धिलग्गे धवल-पक्खे ॥ ६ ॥  
 जगतुंगदेव-रजे रियम्हि कुंभम्हि राहुणा कोणे ।  
 मूरे तुलाए संते गुरुम्हि कुलविल्लए होंते ॥ ७ ॥  
 चावम्हि तरणि-वुत्ते सिंघे सुक्कम्मि मीणे चंदम्मि ।  
 कच्चिय-मासे एसा टीका हु समाणिआ धवला ॥ ८ ॥

इस पर से धवला की जन्मकुंडली निम्नप्रकारसे खींची जा सकती है—



वीरसेन स्वामीने अपनी टीकाका नाम धवला क्यों रखा यह कहीं बतलाया गया  
 धवला नामकी दृष्टिगोचर नहीं हुआ। धवलाका शब्दार्थ शुक्लके अतिरिक्त शुद्ध, विशद, स्पष्ट  
 सार्थकता भी होता है। संभव है अपनी टीकाके इसी प्रसाद गुणको व्यक्त करनेके लिये  
 उन्होंने यह नाम चुना हो। ऊपर दी हुई प्रशस्तिसे ज्ञात है कि यह टीका  
 कार्तिक मासके धवल पक्षकी त्रयोदशीको समाप्त हुई थी। अतएव संभव है इसी निमित्तसे  
 रचयिताको यह नाम उपयुक्त जान पड़ा हो। ऊपर बतला चुके हैं कि यह टीका बदिग उपनाम-  
 धारी अमोघवर्ष (प्रथम) के राज्यके प्रारंभकालमें समाप्त हुई थी। अमोघवर्षकी अनेक उपाधियोंमें  
 एक उपाधि 'अतिशय-धवल' भी मिलती है। उनकी इस उपाधिकी सार्थकता या तो उनके  
 शरीरके अत्यन्त गौरधर्णमें हो या उनकी अत्यन्त शुद्ध सात्त्विक प्रकृतिमें। अमोघवर्ष बड़े धार्मिक  
 बुद्धिवाले थे। उन्होंने अपने वृद्धत्वकालमें राज्यपाट छोड़कर वैराग्य धारण किया था और  
 'प्रश्नोत्तररत्नमालिका' नामक सुन्दर काव्य लिखा था। बाल्यकालसे ही उनकी यह धार्मिक बुद्धि  
 प्रकट हुई होगी। अतः संभव है उनकी यह 'अतिशय धवल' उपाधि भी धवलाके नाम-करणमें  
 एक निमित्तकारण हुआ हो।



## ८. धवलासे पूर्वके टीकाकार

ऊपर कह आये हैं कि जयधवलाकी प्रशस्तिके अनुसार वीरसेनाचार्यने अपनी टीकाद्वारा सिद्धान्त ग्रन्थोंकी बहुत पुष्टि की, जिससे वे अपनेसे पूर्वके समस्त पुस्तकशिष्यकोंसे बढ़ गये। इससे प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या वीरसेनसे भी पूर्व इस सिद्धान्त ग्रन्थकी अन्य टीकाएं लिखी गई थीं ? इन्द्रनन्दिने अपने श्रुतावतारमें दोनों सिद्धान्त ग्रन्थोंपर लिखी गई अनेक टीकाओंका उल्लेख किया है जिसके आधारसे पट्खण्डागमकी धवलासे पूर्व रची गई टीकाओंका यहां परिचय दिया जाता है।

**परिकर्म और उसके रचयिता**  
**कुन्दकुन्द**

कर्मप्राभृत ( पट्खण्डागम ) और कपायप्राभृत इन दोनों सिद्धान्तोंका ज्ञान गुरु-परिपाटीसे कुन्दकुन्दपुरके पद्मनन्दि मुनिका प्राप्त हुआ, और उन्होंने सबसे पहले पट्खण्डागमके प्रथम तीन खण्डोंपर बारह हजार श्लोक प्रमाण एक टीका ग्रन्थ रचा जिसका नाम परिकर्म था। हम ऊपर बतला आये हैं कि इन्द्रनन्दिका कुन्दकुन्दपुरके पद्मनन्दिसे हमारे उन्हीं प्रातःस्मरणीय कुन्दकुन्दाचार्यका ही अभिप्राय हो सकता है जो दिगम्बर जैन संप्रदायमें सबसे बड़े आचार्य गिने गये हैं और जिनके प्रवचनसार, समयसार आदि ग्रंथ जैन सिद्धान्तके सर्वोपरि प्रमाण माने जाते हैं। दुर्भाग्यतः उनकी बनायी यह टीका प्राप्य नहीं है और न किन्हीं अन्य लेखकोंने उसके कोई उल्लेखादि दिये। किंतु स्वयं धवला टीकामें परिकर्म नामके ग्रन्थका अनेकवार उल्लेख आया है। धवलाकारने कहीं ' परिकर्म ' से उद्धृत किया है, कहीं कहा है कि यह बात ' परिकर्म ' के कथनपरसे जानी जाती है और कहीं अपने कथनका परिकर्मके कथनसे विरोध आनेकी शंका उठाकर उसका समाधान किया है। एक स्थानपर उन्होंने परिकर्मके कथनके विरुद्ध अपने कथनकी पुष्टि भी की है और

१ पुस्तकानां चिरज्ञानां गुरुत्वमिह कुर्वता । येनातिशयिताः पूर्वं सर्वे पुस्तकशिष्यकाः ॥ २४ ॥

( जयधवलाप्रशस्ति )

२ एवं द्विविधो द्रव्यभावपुस्तकगतः समागच्छन् । गुरुपरिपाट्या ज्ञातः सिद्धान्तः कुण्डकुन्दपुरे ॥ २६० ॥

श्रीपद्मनन्दिमुनिना सोऽपि द्वादशसहस्रपरिमाणः । ग्रन्थपरिकर्मकर्त्रा पट्खण्डावखण्डस्य ॥ २६१ ॥

इन्द्रः श्रुतावतार-

- ३ ' ति परियम्मे वुत्तं ' ( धवला अ. १४१ ) ५ ' ण च परियम्मेण सह विरोही ( धवला. अ. २०३ )  
 ' परियम्ममि वुत्तं ' ( " " ६७८ ) परियम्मवयणेण सह एदं सुत्तं  
 ४ ' परियम्मवयणादो णव्वदे ' ( " " १६७ ) विरुद्धादि ति ण ( " " ३०४ )  
 ' इदि परियम्मवयणादो ' ( " " २०३ )

कहा है कि उन्हींके व्याख्यानको ग्रहण करना चाहिए, परिकर्मके व्याख्यानको नहीं, क्योंकि, वह व्याख्यान सूत्रके विरुद्ध जाता है<sup>१</sup>। इससे स्पष्ट ही ज्ञात होता है कि 'परिकर्म' इसी षट्खण्डा-गमकी टीका थी। इसकी पुष्टि एक और उल्लेखसे होती है जहां ऐसा ही विरोध उत्पन्न होनेपर कहा है कि यह कथन उसप्रकार नहीं है, क्योंकि, स्वयं 'परिकर्मकी' प्रवृत्ति इसी सूत्रके बलसे हुई है<sup>२</sup>। इन उल्लेखोंसे इस बातमें कोई सन्देह नहीं रहता कि 'परिकर्म' नामका ग्रंथ था, उसमें इसी आगम का व्याख्यान था और वह ग्रंथ वीरसेनाचार्यके सन्मुख विद्यमान था। एक उल्लेख द्वारा धवलाकारने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि 'परिकर्म' ग्रंथको सभी आचार्य प्रमाण मानते थे<sup>३</sup>।

उक्त उल्लेखोंमेंसे प्रायः सभीका सम्बन्ध षट्खण्डगमके प्रथम तीन खण्डोंके विषयसे ही हैं जिससे इन्द्रनन्दिके इस कथन की पुष्टि होती है कि वह ग्रंथ प्रथम तीन खण्डोंपर ही लिखा गया था। उक्त उल्लेखोंपरसे 'परिकर्मके' कर्ताके नामादिकका कुछ पता नहीं लगता। किंतु ऐसी भी कोई बात उनमें नहीं है कि जिससे वह ग्रंथ कुन्दकुन्दकृत न कहा जा सके। धवलाकारने कुन्दकुन्दके अन्य सुविख्यात ग्रंथोंका भी कर्ताका नाम दिये बिना ही उल्लेख किया है। यथा, वुत्तं च पंचथिपाहुडे ( धवला. अ. पृ. २८९ )

इन्द्रनन्दिने जो इस टीकाको सर्व प्रथम बतलाया है और धवलाकारने उसे सर्व-आचार्य-सम्मत कहा है, तथा उसका स्थान स्थानपर उल्लेख किया है, इससे इस ग्रंथके कुन्दकुन्दा-चार्यकृत माननेमें कोई आपत्ति नहीं दिखती। यद्यपि इन्द्रनन्दिने यह नहीं कहा है कि यह ग्रंथ किस भाषामें लिखा गया था, किंतु उसके जो 'अवतरण' धवलामें आये हैं वे सब प्राकृतमें ही हैं, जिससे जान पड़ता है कि वह टीका प्राकृतमें ही लिखी गई होगी। कुन्दकुन्दके अन्य सब ग्रंथ भी प्राकृतमें ही हैं।

धवलामें परिकर्मका एक उल्लेख इसप्रकार से आया है—

“ 'अपदेसं णेव इंदिए गेज्झं' इदि परमाणूणं णिरवयवत्तं परियम्मे वुत्तमिदि ” ( ध. १११० )

१ परियम्मेण एदं वक्खाणं किण्ण विरुज्झदे ? एदेण सह विरुज्झदे, किंतु सुत्तेण सह ण विरुज्झदे । तेण एदस्स वक्खाणस्स गहणं कायच्चं, ण परियम्मस्स तस्स सुत्तविरुज्झत्तादी । ( धवला. अ. २५९ )

२ परियम्मादो असंखेज्जाओ जोयणकोलीओ सेटीए पमाणमवगदमिदि चे ण, एदस्स सुत्तस्स वल्लेण परियम्मपवृत्तीदो । ( धवला अ. पृ. १८६ )

३ ' सयलाइरियसम्मदपरियम्मसिद्धत्तादो ' । ( धवला अ. पृ. ५४२ )

इसका कुन्दकुन्दके नियमसारका इस गायसे मिलान काजिये—

अत्तादि अत्तमज्जं अत्तंतं णं च इंदिए गेज्जं ।

अविभागां जं दच्चं परमाणुं तं विआणाहि ॥ २६ ॥

इन दोनों अवतरणोंके मिलानसे स्पष्ट है कि धवलामें आया हुआ उल्लेख नियमसारसे भिन्न है, फिर भी दोनोंकी रचनामें एक ही हाथ सुस्पष्टरूपसे दिखाई देता है । इन सब प्रमाणोंसे कुन्दकुन्दकृत परिकर्म के अस्तित्वमें बहुत कम सन्देह रह जाता है ।

धवलाकारने एक स्थानपर 'परिकर्म' का सूत्र कह कर उल्लेख किया है । यथा—  
'रूवाहियाणि त्ति परियम्मसुत्तेण सह विरुज्जइ' ( धवला अ. पृ. १४३ ) । बहुधा वृत्तिरूप जो व्याख्या होती है उसे सूत्र भी कहते हैं । जयधवलामें यतिवृषभाचार्यको 'कपायप्राभृत' का 'वृत्तिसूत्रकर्ता' कहा है । यथा—

'सो वित्तिसुत्तकत्ता जइवसहो मे वरं देऊ' ( जयध० मंगलाचरण गा० ८ )

इससे जान पड़ता है कि परिकर्म नामक व्याख्यान वृत्तिरूप था । इन्द्रनन्दिने परिकर्मको ग्रंथ कहा है । वैजयन्ती कोपके अनुसार ग्रंथ वृत्तिक्रा एक पर्याय-वाचक नाम है । यथा—  
'वृत्तिर्ग्रन्थजीवनयोः' । वृत्ति उसे कहते हैं जिसमें सूत्रोंका ही विवरण हो, शब्द रचना संक्षिप्त हो और फिर भी सूत्रके समस्त अर्थोंका जिसमें संग्रह हो । यथा—

'सुत्तस्सेव विवरणाए संखित्त-सद-रयणाए संगहिय-सुत्तासेसत्थाए वित्तिसुत्त-ववएसादो ।  
( जयध० अ. ५२. )

इन्द्रनन्दिने दूसरी जिस टांकिका उल्लेख किया है, वह शामकुंड नामक आचार्य-कृत  
२ शामकुंडकृत  
पद्धति थी । यह टांकिका छठवें खण्डको छोड़कर प्रथम पांच खण्डोंपर तथा दूसरे सिद्धान्त-  
ग्रंथ ( कपायप्राभृत ) पर भी थी । यह टांकिका पद्धति रूप थी । वृत्तिसूत्रके  
प्रथम-पदोंका भंजन अर्थात् विद्वलेपणात्मक विवरणको पद्धति कहते हैं । यथा—

वित्तिसुत्त-विसम-पयाभंजिए विवरणाए पड्डइ-ववएसादो ( जयध. पृ. ५२ )

इससे स्पष्ट है कि शामकुंडके सन्मुख कोई वृत्तिसूत्र रहे हैं जिनकी उन्होंने पद्धति लिखी । हम ऊपर कह ही आये हैं कि कुन्दकुन्दकृत परिकर्म संभवतः वृत्तिरूप-ग्रंथ था । अतः शामकुंडने उसी वृत्तिपर और उधर कपायप्राभृतकी यतिवृषभाचार्यकृत वृत्तिपर अपनी पद्धति लिखी ।

इस समस्त टीकाका परिमाण भी बारह हजार श्लोक था और उसकी भाषा प्राकृत संस्कृत और कनाड़ी तीनों मिश्रित थी । यह टीका परिकर्मसे कितने ही काल पश्चात् लिखी गई थी । इस टीकाके कोई उल्लेख आदि धवला व जयधवलामें अभीतक हमारे दृष्टिगोचर नहीं हुए ।

इन्द्रनन्दिद्वारा उल्लिखित तीसरी सिद्धान्तटीका तुम्बुलूर नामके आचार्यद्वारा लिखी गई ।

ये आचार्य 'तुम्बुलूर' नामके एक सुन्दर ग्राममें रहते थे, इसीसे वे तुम्बुलूरा-  
३ चूडामणिकर्ता चार्य कहलाये, जैसे कुण्डकुन्दपुरमें रहनेके कारण पद्मनन्दि आचार्यकी  
तुम्बुलूराचार्य कुन्दकुन्द नामसे प्रसिद्धि हुई । इनका असली नाम क्या था यह ज्ञात नहीं  
होता । इन्होंने छठवें खंडको छोड़ शेष दोनों सिद्धान्तोंपर एक बड़ी भारी व्याख्या लिखी,  
जिसका नाम 'चूडामणि' था और परिमाण चौरासी हजार । इस महती व्याख्याकी भाषा  
कनाड़ी थी । इसके अतिरिक्त उन्होंने छठवें खंडपर सात हजार प्रमाण 'पञ्चिका' लिखी । इस-  
प्रकार इनकी कुल रचनाका प्रमाण ९१ हजार श्लोक हो जाता है । इन रचनाओंका भी कोई उल्लेख  
धवला व जयधवलामें हमारे दृष्टिगोचर नहीं हुआ । किन्तु महाधवलका जो परिचय 'धवलादि-  
सिद्धान्त ग्रंथोंके प्रशास्तिसंग्रह' में दिया गया है उसमें पंचिकारूप विवरणका उल्लेख पाया जाता  
है<sup>३</sup> । यथा—

वोच्छामि संतकम्मे पंचियरूवेण विवरणं सुमहत्थं ॥.....पुणो तेहिंतो सेसट्टारसणि-  
योगद्वाराणि संतकम्मे सव्वाणि परुविदाणि । तो वि तस्सइग्भीरत्तादो अत्थविसमपदाणमत्थे थोरु-  
द्धयेण पंचिय-सरूवेण भणिस्सामो ।

जान पड़ता है यही तुम्बुलूराचार्यकृत पष्ठम खंडकी वह पंचिका है जिसका इन्द्रनन्दिने उल्लेख किया है । यदि यह ठीक हो तो कहना पड़ेगा कि चूडामणि व्याख्याकी भाषा कनाड़ी थी, किन्तु इस पंचिकाको उन्होंने प्राकृतमें रचा था ।

मट्टाकलंकदेवने अपने कर्णाटक शब्दानुशासनमें कनाड़ी भाषामें रचित 'चूडामणि' नामक तत्त्वार्थमहाशास्त्र व्याख्यानका उल्लेख किया है । यद्यपि वहां इसका प्रमाण ९६ हजार वतलाया है जो इन्द्रनन्दिके कथनसे अधिक है, तथापि उसका तात्पर्य इसी तुम्बुलूराचार्यकृत 'चूडामणि' से है ऐसा जान पड़ता है<sup>३</sup> । इनके रचना-कालके विषयमें इन्द्रनन्दिने इतना

१ काले ततः कियत्यपि गते पुनः शामकुण्डसंज्ञेन । आचार्येण ज्ञात्वा द्विभेदसप्यागमः कार्त्स्न्यात् ॥ १६२ ॥  
द्वादशशुणितसहस्रं ग्रन्थं सिद्धान्तयोरुभयोः । षष्ठेन विना खण्डेन पृथुमहाबन्धसंज्ञेन ॥ १६३ ॥

प्राकृतसंस्कृतकर्णाटभाषया पद्धतिः परा रचिता ॥ इन्द्र. श्रुतावतार.

२ वीरवाणीविलास जैनसिद्धान्तभवनका प्रथम वार्षिक रिपोर्ट, १९३५.

३ न चैषा ( कर्णाटकी ) भाषा शास्त्रानुपयोगिनी, तत्त्वार्थमहाशास्त्रव्याख्यानस्य षण्णवतिसहस्रप्रमित-

ही कहा है कि शामकुंडसे कितने ही काल पश्चात् तुम्बुद्धराचार्य हुए<sup>१</sup> ।

तुम्बुद्धराचार्यके पश्चात् कालान्तरमें समन्तभद्र स्वामी हुए, जिन्हें इन्द्रनान्दिने  
 ४ समन्तभद्रस्वामी- 'तार्किकार्क' कहा है । उन्होंने दोनों सिद्धान्तोंका अध्ययन करके  
 कृत टीका षट्खण्डागमके पांच खंडोंपर ४८ हजार श्लोकप्रमाण टीका रची । इस  
 टीकाकी भाषा अत्यंत सुंदर और मृदुल संस्कृत थी<sup>२</sup>

यहां इन्द्रनन्दिका अभिप्राय निश्चयतः आप्तमीमांसादि सुप्रसिद्ध ग्रन्थोंके रचयितासे ही है,  
 जिन्हें अष्टसहस्रीके टिप्पणकारने भी 'तार्किकार्क' कहा है । यथा —

तदेवं महाभागैस्तार्किकैरुपज्ञातां..... आप्तमीमांसाम्.....

( अष्टस. पृ. १ टिप्पण )

धवला टीकामें समन्तभद्रस्वामीके नामसहित दो अवतरण हमारे दृष्टिगोचर हुए हैं ।  
 इनमेंसे प्रथम पत्र ४९४ पर है । यथा—

'तथा समंतभद्रसामिणा वि उक्तं, विधिर्विपक्तप्रतिपेधरूप.....इत्यादि '

यह श्लोक बृहत्स्वयम्भूस्तोत्रका है । दूसरा अवतरण पत्र ७०० पर है । यथा—

'तथा समंतभद्रस्वामिनाप्युक्तं, स्याद्वादप्रविभक्तार्थविशेषव्यंजको नयः । '

यह आप्तमीमांसाके श्लोक १०६ का पूर्वार्ध है । और भी कुछ अवतरण केवल 'उक्तं च' रूपसे  
 आये हैं जो बृहत्स्वयम्भूस्तोत्रादि ग्रन्थोंमें मिलते हैं । पर हमें ऐसा कहीं कुछ अभी तक नहीं मिल

ग्रंथसंदर्भरूपस्य चूडामण्यभिधानस्य महाशास्त्रस्यान्येषां च शब्दागम-युक्त्यागम-परमागम-विपयाणां तथा काव्य-नाटक  
 कलाशास्त्र-विपयाणां च बहूनां ग्रन्थानामपि भाषाकृतानामुपलब्धमानत्वात् । ( समन्तभद्र. पृ. २१८ )

१ तस्मादारात्पुनरपि काले गतवति कियत्यपि च ।

अथ तुम्बुद्धरानामाचार्योऽभूत्तुम्बुद्धरसद्भाभे । पद्येन विना खण्डेन सोऽपि सिद्धान्तयोरुभयोः ॥ १६५ ॥

चतुरधिकार्शितिसहस्रग्रन्थरचनया युक्ताम् । कर्णाटभाषयाऽकृत महतीं चूडामणिं व्याख्याम् ॥ १६६ ॥

सप्तसहस्रग्रन्थां पद्यस्य च पंचिकां पुनरकार्षात् ।

इन्द्र. श्रुतावतार.

२ कालान्तरे ततः पुनरासंध्यां पलरि(?) तार्किकार्कोभूत् ॥ १६७ ॥

श्रीमान् समन्तभद्रस्वामीलथ सोऽप्यधीत्य तं द्विविधम् ।

सिद्धान्तमतः षट्खण्डागमगतखण्डपञ्चकस्य पुनः ॥ १६८ ॥

अष्टौ चत्वारिंशत्सहस्रसद्ग्रन्थरचनया युक्ताम् ।

विरचितवानतिसुन्दरमृदुसंस्कृतभाषया टीकाम् ॥ १६९ ॥

इन्द्र. श्रुतावतार.

सका जिससे उक्त टीकाका पता चलता । श्रुतावतारके ' आसन्ध्यां पलरि ' पाठमें संभवतः आचार्यके निवासस्थानका उल्लेख है, किन्तु पाठ अशुद्धसा होनेके कारण ठीक ज्ञात नहीं होता ।

जिनसेनाचार्यकृत हरिवंशपुराणमें समन्तभद्रनिर्मित ' जीवसिद्धि ' का उल्लेख आया है, किन्तु यह ग्रंथ अभीतक मिला नहीं है । कहीं यह समन्तभद्रकृत ' जीवद्विषण ' की टीकाका ही तो उल्लेख न हो ? समन्तभद्रकृत गंधहस्तिमहाभाष्यके भी उल्लेख मिलते हैं, जिनमें उसे तत्त्वार्थ या तत्त्वार्थसूत्रका व्याख्यान कहा है<sup>१</sup> । इस परसे माना जाता है कि समन्तभद्रने यह भाष्य उमास्वातिकृत तत्त्वार्थसूत्रपर लिखा होगा । किन्तु यह भी संभव है कि उन उल्लेखोंका अभिप्राय समन्तभद्रकृत इन्हीं सिद्धान्तग्रंथोंकी टीकासे हो । इन ग्रंथोंकी भी ' तत्त्वार्थमहाशास्त्र ' नामसे प्रासिद्धि रही है, क्योंकि, जैसा हम ऊपर कह आये हैं, तुम्बुल्लराचार्यकृत इन्हीं ग्रंथोंकी ' चूडामणि ' टीकाको अकलंकदेवने तत्त्वार्थमहाशास्त्र व्याख्यान कहा है ।

इन्द्रनन्दिने कहा है कि समन्तभद्र स्वामी द्वितीय सिद्धान्तकी भी टीका लिखनेवाले थे, किन्तु उनके एक सधर्मने उन्हें ऐसा करनेसे रोक दिया । उनके ऐसा करनेका कारण द्रव्यादि-शुद्धि-करण-प्रयत्नका अभाव बतलाया गया है<sup>२</sup> । संभव है कि यहां समन्तभद्रकी उस भस्मक व्याधिकी ओर संकेत हो, जिसके कारण कहा गया है कि उन्हें कुछ काल अपने मुनि आचारका अतिरेक करना पड़ा था । उनके इन्हीं भावों और शरीरकी अवस्थाको उनके सहधर्मने द्वितीय सिद्धान्त ग्रन्थकी टीका लिखनेमें अनुकूल न देख उन्हें रोक दिया हो ।

यदि समन्तभद्रकृत टीका संस्कृतमें लिखी गई थी और वीरसेनाचार्यके समय तक, विद्यमान थी तो उसका ध्वला जयध्वजधर्म उल्लेख न पाया जाना बड़े आश्चर्यकी बात होगी ।

सिद्धान्तग्रन्थोंका व्याख्यानक्रम गुरु-परम्परासे चलता रहा । इसी परम्परामें शुभनन्दि

१. देखो, पं. जुगलकिशोर मुख्तारकृत समन्तभद्र पृ. २१२.

२. जीवसिद्धिविधायीह कृतयुक्त्यनुशासनम् । वचः समन्तभद्रस्य वीरस्यैव विजृम्भते ॥

हरिवंशपुराण. १. ३०.

३. तत्त्वार्थसूत्रव्याख्यानगंधहस्तिप्रवर्तकः । स्वामी समन्तभद्रोऽभूद्देवागमनिदेशकः ॥

( हस्तिमल्ल. विक्रान्तकौरवनाटक, मा. प्रं. मा. )

तत्त्वार्थ-व्याख्यान-षण्णवति-सहस्र-गंधहस्ति-महाभाष्य-विधायक-देवागम-कवीश्वर-स्याद्वाद-विधाधि-पति-समन्तभद्र ... .. ( एक प्राचीन कनाड़ी ग्रन्थ, देखो समन्तभद्र. पृ. २२० )

श्रीमत्तत्त्वार्थशास्त्राद्भुतसलिलनिघेरिद्धरत्नोद्भवस्य । प्रोःथानारम्भकाले सकलमलमिदे शास्त्रकारैः कृतं यत् । ( विद्यानन्द. आप्तमीमांसा )

४. विलिखन् द्वितीयसिद्धान्तस्य व्याख्यां सधर्मणा स्वने । द्रव्यादिशुद्धिकरणप्रयत्नविरहात् प्रतिषिद्धम् ॥१७०॥  
इन्द्र. श्रुतावतार.

## ५ वृषदेव गुरुकृत व्याख्याप्रज्ञप्ति

और रविनन्दि नामके दो मुनि हुए, जो अत्यन्त तीक्ष्णबुद्धि थे। उनसे वृषदेवगुरुने वह समस्त सिद्धान्त विशेषरूपसे सीखा। वह व्याख्यान भीमरथि और कृष्णमेख नदियोंके बीचके प्रदेशमें उत्कलिका ग्रामके समीप मगणवल्ली ग्राममें हुआ था। भीमरथि कृष्णा नदीकी शाखा है और इनके बीचका प्रदेश अब वेल्गांव व धारवाड़ कहलाता है। वहीं यह वृषदेव गुरुका सिद्धान्त-अध्ययन हुआ होगा। इस अध्ययनके पश्चात् उन्होंने महाब्रन्धको छोड़ शेष पांच खंडोंपर 'व्याख्याप्रज्ञप्ति' नामकी टीका लिखी। तत्पश्चात् उन्होंने छठे खण्डकी संक्षेपमें व्याख्या लिखी। इस प्रकार छहों खंडोंके निष्पन्न हो जानेके पश्चात् उन्होंने कषायप्राभृतकी भी टीका रची। उक्त पांच खंडों और कषायप्राभृतकी टीकाका परिमाण साठ हजार, और महाब्रन्धकी टीकाका 'पांच अधिक अठ हजार' था, और इस सब रचनाकी भाषा प्राकृत थी<sup>१</sup>।

धवलामें व्याख्याप्रज्ञप्तिके दो उल्लेख हमारी दृष्टिमें आये हैं। एक स्थानपर उसके अवतरण द्वारा टीकाकारने अपने मतकी पुष्टि की है। यथा—

लोगो वादपदिद्विदो त्ति त्रियाहपण्णत्तिवयणादो ( ध. १४३ )

दूसरे स्थानपर उससे अपने मतका विरोध दिखाया है और कहा है कि आचार्य भेदसे वह भिन्न-मान्यताको लिये हुए है और इसलिये उसका हमारे मतसे ऐक्य नहीं है। यथा—

‘ एदेण त्रियाहपण्णत्तिसुत्तोण सह कवं ण विरोहो ? ण, एदम्हादो तस्स पुत्रसुदस्स आयरियभेएण भेदमावण्णस्स एयत्ताभावादो ( ध० ८०८ )

इस प्रकारके स्पष्ट मतभेदसे तथा उसके सूत्र कहे जानेसे इस व्याख्याप्रज्ञप्तिको इन सिद्धान्त ग्रन्थोंकी टीका मानने में आशंका उत्पन्न हो सकती है। किन्तु जयधवलामें एक स्थानपर लेखकने वृषदेवका नाम लेकर उनके और अपने बीचके मतभेदको बतलाया है। यथा—

चुण्णिसुत्तम्मि वृषदेवाइरियलिहिदुच्चारणाए अंतोमुहुत्तमिदि मणिदो । अम्हेहि लिहिदुच्चारणाए पुण जह० एगसमओ, उक्क० संखेज्जा समया त्ति परूविदो ( जयध० १८५ )

१ एवं व्याख्यानक्रममवाप्तवान् परमगुरुपरम्परया । आगच्छन् सिद्धान्तो द्विविधोऽप्यतिनिश्चितबुद्धिभ्याम् ॥ १७१ ॥  
शुभ-रवि-नन्दिपुनिभ्यां भीमरथि-कृष्णमेखयोःसरितोः । मध्यमविषये-रमणीयोत्कलिकाग्रामसामीप्यम् ॥ १७२ ॥  
विख्यातमगणवल्लीग्रामेऽथ विशेषरूपेण । श्रुत्वा तयोश्च पार्श्वे तमशेषं वृषदेवगुरुः ॥ १७३ ॥  
अपनीय महाब्रन्धं पट्खण्डान्छेषपंचखंडे तु ! व्याख्याप्रज्ञप्तिं च पठं खंडं च ततः संक्षिप्य ॥ १७४ ॥  
पण्णां खंडानामिति निष्पन्नानां तथा कषायारख्य-प्राभृतकस्य च षष्टिसहस्रग्रन्थप्रमाणयुताम् ॥ १७५ ॥  
व्यलिखत्प्राकृतभाषारूपां सम्यक्पुरातनव्याख्याम् । अष्टसहस्रग्रंथां व्याख्यां पञ्चाधिकां महाब्रन्धे ॥ १७६ ॥

इन अवतरणोंसे वप्पदेव और उनकी टीका 'व्याख्याप्रज्ञप्ति' का अस्तित्व सिद्ध होता है। धवलाकार वीरसेनाचार्यके परिचयमें हम कह ही आये हैं कि इन्द्रनन्दिके अनुसार उन्होंने व्याख्याप्रज्ञप्तिको पाकर ही अपनी टीका लिखना प्रारम्भ किया था।

उक्त पांच टीकाएं पटखंडागमके पुस्तकारूढ होनेके काल ( विक्रमकी २ री शताब्दि ) से धवलाकारके रचना काल ( विक्रमकी ९ वीं शताब्दि ) तक रची गई जिसके अनुसार स्थूल मानसे कुन्दकुन्द दूसरी शताब्दिमें, शामकुंड तीसरीमें, तुम्बुलूर चौथीमें, समन्तभद्र पांचवींमें और वप्पदेव छठवीं और आठवीं शताब्दिके बीच अनुमान किये जा सकते हैं।

प्रश्न हो सकता है कि ये सब टीकाएं कहां गईं और उनका पठन-पाठनरूपसे प्रचार क्यों विच्छिन्न हो गया ? हम धवलाकारके परिचयमें ऊपर कह ही आये हैं कि उन्होंने, उनके शिष्य जिनसेनके शब्दोंमें, चिरकालीन पुस्तकोंका गौरव बढ़ाया और इस कार्यमें वे अपनेसे पूर्वके समस्त पुस्तक-शिष्योंसे बढ़ गये। जान पड़ता है कि इसी टीकाके प्रभावमें उक्त सब प्राचीन टीकाओंका प्रचार रुक गया। वीरसेनाचार्यने अपनी टीकाके विस्तार व विषयके पूर्ण परिचय तथा पूर्वमान्यताओं व मतभेदोंके संग्रह, आलोचन व मंथनद्वारा उन पूर्ववती टीकाओंको पाठकोंकी दृष्टिसे ओझल कर दिया। किन्तु स्वयं यह वीरसेनीया टीका भी उसी प्रकारके अन्धकारमें पड़नेसे अपनेको नहीं बचा सकी। नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीने इसका पूरा सार लेकर संक्षेपमें सरल और सुस्पष्टरूपसे गोमटसारकी रचना कर दी, जिससे इस टीकाका भी पठन-पाठन प्रचार रुक गया। यह बात इसीसे सिद्ध है कि गत सात-आठ शताब्दियोंमें इसका कोई साहित्यिक उपयोग हुआ नहीं जान पड़ता और इसकी एकमात्र प्रति पूजाकी वस्तु बनकर तालोंमें बन्द पड़ी रही। किन्तु यह असंभव नहीं है कि पूर्वकी टीकाओंकी प्रतियां अभी भी दक्षिणके किसी शास्त्रभंडारमें पड़ी हुई प्रकाशकी वाट जोह रही हों। दक्षिणमें पुस्तकें ताड़पत्रोंपर लिखी जाती थीं और ताड़पत्र जल्दी क्षीण नहीं होते। साहित्यप्रेमियोंको दक्षिणप्रान्तके भण्डारोंकी इस दृष्टिसे भी खोजबीन करते रहना चाहिए।

## ९. धवलाकारके सन्मुख उपस्थित साहित्य

धवला और जयधवलाको देखनेसे पता चलता है कि उनके रचयिता वीरसेन आचार्यके सन्मुख बहुत विशाल जैन साहित्य प्रस्तुत था। सत्प्ररूपणाका जो भाग अब प्रकाशित हो रहा है उसमें उन्होंने सत्कर्मप्राभृत व कपायप्राभृतके नामोल्लेख व उनके विविध अधिकारोंके उल्लेख व अवतरण आदि दिये हैं। इनके अतिरिक्त सिद्धसेन दिवाकरकृत सन्मतितर्कका 'सम्मइसुत्त' ( सन्मतिसूत्र ) नामसे

सत्प्ररूपणामें  
उल्लिखित  
साहित्य



उल्लेख किया है और एक स्थलपर उसके कथनसे विरोध बताकर उसका समाधान किया है, तथा उसकी सात गाथाओंको उद्धृत किया है<sup>१</sup>। उन्होंने अकलंकदेवकृत तत्त्वार्थराजवार्तिकका 'तत्त्वार्थ-भाष्य' नामसे उल्लेख किया है और उसके अनेक अवतरण कहीं शब्दशः और कहीं कुछ परिवर्तनके साथ दिये हैं<sup>२</sup>। इनके सिवाय उन्होंने जो २१६ संस्कृत व प्राकृत पद्य बहुधा 'उक्तं च' कहकर और कहीं कहीं विना ऐसी सूचनाके उद्धृत किये हैं उनमेंसे हमें ६ कुन्दकुन्दकृत प्रवचनसार, पंचास्तिकाय व उसकी जयसेनकृत टीकामें<sup>३</sup>, ७ तिलोयपण्णात्तिमें<sup>४</sup>, १२ वड्डकेरकृत मूलाचारमें<sup>५</sup>, १ अकलंकदेवकृत लघीयस्त्रयीमें<sup>६</sup>, २ मूलाराधनामें<sup>७</sup>, ५ वसुनन्दिश्रावकाचारमें<sup>८</sup>, १ प्रभाचन्द्रकृत शाकटायन-न्यासमें<sup>९</sup>, १ देवसनकृत नयचक्रमें<sup>१०</sup>, व १ विद्यानन्दकृत आप्त-परीक्षामें<sup>११</sup> मिले हैं। गोम्मटसार जीवकाण्ड, कर्मकाण्ड, व जीवप्रबोधनी टीकामें इसकी ११० गाथाएं पाई गई हैं जो स्पष्टतः वहांपर यहींसे ली गई हैं। कई जगह तिलोयपण्णात्तिकी गाथाओंके विषयका उन्हीं शब्दोंमें संस्कृत पद्य अथवा गद्यद्वारा वर्णन किया<sup>१२</sup> है व यतिवृषभाचार्यके मतका भी यहां उल्लेख आया है<sup>१३</sup>। इनके अतिरिक्त इन गाथाओंमेंसे अनेक श्वेताम्बर साहित्यमें भी मिली हैं। सन्मतितर्ककी सात गाथाओंका हम ऊपर उल्लेख कर ही आये हैं। उनके सिवाय हमें ५ गाथाएं आचारांगमें<sup>१४</sup>, १ बृहत्कल्पसूत्रमें<sup>१५</sup>, ३ दशवैकालिकसूत्रमें<sup>१६</sup>, १ स्थानांगटीकामें<sup>१७</sup>, १ अनुयोग-द्वारमें<sup>१८</sup> व २ आवश्यक-निर्युक्तिमें<sup>१९</sup> मिली हैं। इसके अतिरिक्त और विशेष खोज करनेसे दिगम्बर और श्वेताम्बर साहित्यमें प्रायः सभी गाथाओंके पाये जानेकी संभावना है।

किंतु वीरसेनाचार्यके सन्मुख उपस्थित साहित्यकी विशालताको समझनेके लिये उनकी समस्त रचना अर्थात् धवला और जयधवलापर कमसे कम एक त्रिहंग-दृष्टि सूत्र-पुस्तकोंमें डालना आवश्यक है। यह तो कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि उनके पाठभेद व मतभेद सन्मुख पुष्पदन्त, भूतचलि व गुणधर आचार्यकृत पूरा सूत्र-साहित्य प्रस्तुत

१ पृ. १५ व गाथा नं. ५, ६, ७, ८, ९, ६७, ६९.

२ पृ. १०३, २२६, २३२, २३४, २३९.

३ गाथा नं. १, १३, ४६, ७२, ७३, १९८.

४ गाथा नं. २०, ३५, ३७, ५५, ५६, ६०.

५ गाथा नं. १८, ३१ ( पाठभेद ) ६५ ( पाठभेद ) ७०, ७१, १३४, १४७, १४८, १४९, १५०,

१५१, १५२. ६ गाथा नं. ११, ७ गाथा नं. १६७, १६८. ८ गाथा नं. ५८, १६७, १६८, ३०, ७४,

९ गाथा नं. २. १० गाथा नं. १०. ११ गाथा नं. २२.

१२ देखो पृ. १०, २८, २९, ३२, ३३, आदि. १३ देखो पृ. ३०२.

१४ गाथा नं. १४, १४९, १५०, १५१, १५२ ( पाठभेद ). १५ गाथा नं. ६२.

१६ गाथा नं. ३४, ७०, ७१. १७ गाथा नं. ८८. १८ गाथा नं. १४. १९ गाथा नं. ६८, १००.

था। पर इसमें भी यह बात उल्लेखनीय है कि इन सूत्र-ग्रंथोंके अनेक संस्करण छोटे-बड़े पाठ-भेदोंको रखते हुए उनके सम्मुख विद्यमान थे। उन्होंने अनेक जगह सूत्र-पुस्तकोंके भिन्न भिन्न पाठों व तज्जन्य मतभेदोंका उल्लेख व यथाशक्ति समाधान किया है।

कहीं कहीं सूत्रोंमें परस्पर विरोध पाया जाता था। ऐसे स्थलोंपर टीकाकारने निर्णय करनेमें अपनी असमर्थता प्रकट की है और स्पष्ट कह दिया है कि इनमें कौन सूत्र है और कौन असूत्र है इसका निर्णय आगममें निपुण आचार्य करें। हम इस विषयमें कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि, हमें इसका उपदेश कुछ नहीं मिला। कहीं उन्होंने दोनों विरोधी सूत्रोंका व्याख्यान कर दिया है, यह कह कर कि 'इसका निर्णय तो चतुर्दश पूर्वधारी व केवलज्ञानी ही कर सकते हैं, किंतु वर्तमान कालमें वे हैं नहीं, और अब उनके पाससे सुनकर आये हुए भी कोई नहीं पाये जाते। अतः सूत्रोंकी प्रामाणिकता नष्ट करनेसे डरनेवाले आचार्योंको तो दोनों सूत्रोंका व्याख्यान करना चाहिये'। कहीं कहीं तो सूत्रोंपर उठाई गई शंका पर टीकाकारने यहांतक कह दिया है कि 'इस विषयकी पूछताछ गौतमसे करना चाहिये, हमने तो यहां उनका अभिप्राय कहा है'।

सूत्रविरोधका कहीं कहीं ऐसा कहकर भी उन्होंने समाधान किया है कि 'यह विरोध तो सत्य है किंतु एकान्तग्रहण नहीं करना चाहिये, क्योंकि, वह विरोध सूत्रोंका नहीं है, किंतु इन सूत्रोंके उपसंग्रहकर्ता आचार्य सकल श्रुतके ज्ञाता न होनेसे उनके द्वारा विरोध आ जाना संभव है'। इससे वीरसेन स्वामीका यह मत जाना जाता है कि सूत्रोंमें पाठ-भेदादि परंपरागत

१ केषु वि सुत्तपोत्थपसु पुरिसवेदस्संतरं छम्मासा । धवला अ. ३४५.

केसु वि सुत्तपोत्थपसु उवलम्भइ, तदो एत्थ उवएसं लद्धुण वत्तव्वं । धवला. अ. ५९१.

केसु वि सुत्तपोत्थपसु विदियमद्धमस्सिदूण परुविद-अप्पावहुअभावादो । धवला अ. १२०६.

केसु वि सुत्तपोत्थपसु एसो पाठो । धवला अ. १२४३

२ तदो तेहि सुत्तेहि एदेसिं सुत्ताणं विरोहो होदि त्ति भाणिदे जदि एवं उवदेसं लद्धुण इदं सुत्तं इदं चासुत्तमिदि आगम-णिउणा मणंतु, ण च अम्हे एत्थ वोत्तुं समत्या अलद्धोवदेसत्तादो । धवला. अ. ५६३.

३ होदु णाम तुम्हेहि वृत्तःथस्स सच्चत्तं, बहुएसु सुत्तेसु वणप्फदीणं उवरि णिगोदपदस्स अणुवलंमादो । ×× चोद्दसपुञ्जघरो केवलणाणी वा, ण च वट्टमाणकाले ते अत्थि । ण च तेसिं पासे सोदूणागदा वि संपहि उवलम्भंति । तदो थप्पं काउण वे वि सुत्ताणि सुत्तासायण-भीरुहि आयरिएहि वक्खाणियव्वाणि । धवला. अ. ५६७.

४ सुत्ते वणप्फदिसण्णा किण्ण णिदिट्ठा ? गोदमो एत्थ पुच्छेयव्वो । अम्हेहि गोदमो वादरणिगोदपदिट्ठिदाणं वणप्फदिसण्णं णेच्छदि त्ति तस्स अभिप्पाओ कहिओ । धवला. अ. ५६७

५ कसायपाहुडसुत्तेणेदं सुत्तं विरुद्धदि त्ति वुत्ते सच्चं विरुद्धइ किंतु पर्यंतग्गहो एत्थ ण कायव्वो । ×× कयं सुत्ताणं विरोहो ? ण, सूत्तोवसंधाराणमसयलसुद-धारयाइरियपरतंताणं विरोह-संभव-दंसणादो । धवला. अ. ५८९.

आचार्योंद्वारा भी हो चुके थे । और यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि, उनके उल्लेखोंसे ज्ञात होता है कि सूत्रोंका अध्ययन कई प्रकारसे चला करता था जिसके अनुसार कोई सूत्राचार्य<sup>१</sup> थे,<sup>२</sup> कोई उच्चारणाचार्य<sup>३</sup>, कोई निक्षेपाचार्य<sup>३</sup> और कोई व्याख्यानाचार्य<sup>४</sup> । इनसे भी ऊपर 'महावाचकोंका' पद ज्ञात होता है<sup>५</sup> । कषायप्राभृतके प्रकाण्ड ज्ञाता आर्यमंशु और नागहस्तिको अनेक जगह महावाचक कहा है । आर्यनन्दिका भी महावाचकरूपसे एक जगह उल्लेख है । संभवतः ये स्वयं वीरसेनके गुरु थे जिनका उल्लेख धवलाक्री प्रशस्तिमें भी किया गया है ।

धवलाकारने कई जगह ऐसे प्रसंग भी उठाये हैं जहां सूत्रोंपर इन आचार्योंका कोई मत उपलब्ध नहीं था । इनका निर्णय उन्होंने अपने गुरुके उपदेशके बल पर<sup>६</sup> व परंपरागत उपदेशद्वारा<sup>७</sup> तथा सूत्रोंसे अतिरिक्त अन्य आचार्योंके वचनोंद्वारा<sup>८</sup> किया है ।

धवला पत्र १०३६ पर तथा जयधवलाके मंगलाचरणमें कहा गया है कि गुणधराचार्य विरचित कषायप्राभृत आचार्यपरंपरासे आर्यमंशु और नागहस्ति आचार्योंको प्राप्त हुआ और उनसे सीखकर यतिवृषभने उनपर वृत्तिसूत्र रचे । वीरसेन और जिनसेनके सन्मुख, जान पड़ता है, उन दोनों आचार्योंके अलग अलग व्याख्यान प्रस्तुत थे क्योंकि उन्होंने अनेक जगह उन दोनोंके

१ सुत्ताहरिय-वक्खाण-पसिद्धो उवल्लभदे । तम्हा तेषु सुत्ताहरिय-वक्खाण-पसिद्धेण, ध. २९४.

२ एसो उच्चारणाहरिय-अभिप्पाओ । धवला अ. ७६४. एदेसिमणियोगद्वाराणमुच्चारणाहरियो-वएसव्वलेण परूवरणं वत्तइस्सामो । जयध. अ. ८४२.

३ णिकखेवाहरिय-परूविद-गाहाणमत्थं भणिस्सामो । धवला. अ. ८६३.

४ वक्खाणाहरिय-परूविदं वत्तइस्सामो । धवला. अ. १२३५.

वक्खाणाहरियाणमभावादो । धवला. अ. ३४८.

५ महावाचयाणमज्जमंखुसमाणमुवदेसेण ... .. महावाचयाणमज्जणंदीणं उवदेसेण । धवला. अ. १४५७. महावाचया अज्जिणदिणो संतकम्मं करोति । द्विदिसंतकम्मं पयासंति । धवला. अ. १४५८.

अज्जमंखु-णागहत्थि-महावाचय-मुहकमल-विणिग्गएण सम्मत्तस्स । जयध. अ. ९७३.

६ कथमेदं णव्वदे ? गुरुव्वेसादो । धवला. अ. ३१२

७ सुत्ताभावे सत्त चैव खंडाणि कीरंति त्ति कथं णव्वदे ? ण, आहरिय-परंपरागदुव्वेसादो ।

धवला. अ. ५९२.

८ कुदो णव्वदे ? अतिरुद्धाहरियवयणादो सुत्त-समाणो । धवला. अ. १२५७. सुत्तेण विणा ... .. कुदो णव्वदे ? सुत्तविरुद्धाहरियवयणादो । धवला. अ. १३३७.

मतभेदोंका उल्लेख किया है' तथा उन्हें महावाचकके अतिरिक्त 'क्षमाश्रमण' भी कहा है। यतिवृषभकृत चूर्णिसूत्रोंकी पुस्तक भी उनके सामने थी और उसके सूत्र-संख्या-क्रमका भी वीरसेनने बड़ा ध्यान रक्खा है<sup>१</sup>।

सूत्रों और उनके व्याख्यानोंमें विरोधके अतिरिक्त एक और विरोधका उल्लेख मिलता है  
**उत्तर और दक्षिण प्रतिपत्ति** जिसे धवलाकारने उत्तर-प्रतिपत्ति और दक्षिण-प्रतिपत्ति कहा है। ये दो भिन्न मान्यताएं थीं जिनमेंसे टीकाकार स्वयं दक्षिण-प्रतिपत्तिको स्वीकार करते थे, क्योंकि, वह ऋजु अर्थात् सरल, सुस्पष्ट और आचार्य-परंपरागत है, तथा उत्तर-प्रतिपत्ति अनृजु है और आचार्य-परंपरागत नहीं है। धवलामें इस प्रकारके तीन मत-भेद हमारे दृष्टिगोचर हुए हैं। प्रथम द्रव्यप्रमाणानुयोगद्वारमें उपशमश्रेणीकी संख्या ३०४ बताकर कहा है—

' केचि पुबुत्तपमाणं पंचूणं करेति । एदं पंचूणं वक्खाणं पवाइज्जमाणं दक्खिणमाइरिय-परंपरागयमिदि जं वुत्तं होई । पुबुत्त-वक्खाणमपवाइज्ज-माणं वाउं आइरियपरंपरा-अणागदमिदि णायव्वं । '

अर्थात् कोई कोई पूर्वोक्त प्रमाणमें पांचकी कमी करते हैं। यह पांचकी कमीका व्याख्यान प्रवचन-प्राप्त है, दक्षिण है और आचार्य-परंपरागत है। पूर्वोक्त व्याख्यान प्रवचन-प्राप्त नहीं है, वाम है और आचार्यपरंपरासे आया हुआ भी नहीं है, ऐसा जानना चाहिये।

इसीके आगे क्षपकश्रेणीकी संख्या ६०५ बताकर कहा गया है—

एसा उत्तर-पडिवत्ती । एत्थ दस अवणिदे दक्खिण-पडिवत्ती हवदि ।

अर्थात् यह ( ६०५ की संख्यासंबंधी ) उत्तर प्रतिपत्ति है। इसमेंसे दश निकाल देने-पर दक्षिण-प्रतिपत्ति हो जाती है।

आगे चलकर द्रव्यप्रमाणानुयोगद्वारमें ही संयतोंकी संख्या ८९९९९९७ बतलाकर कहा है ' एसा दक्खिण-पडिवत्ती '। इसके अन्तर्गत भी मतभेदादिका निरसन करके, फिर

१ कम्मट्ठिदि ति अणियोगद्वारे हि भण्णमाणे वे उवदेसा होंति । जहण्णुक्कस्सट्ठिदीणं पमाणपरूवणा कम्म-ट्ठिदिपरूवणे ति णागहत्थि-खमासमणा भणंति । अज्जमंखुखमासमणा पुण कम्मट्ठिदिपरूवणे ति भणंति । एवं दोहि उवदेसेहि कम्मट्ठिदिपरूवणा कायव्वा । (धवला. अ. १४४०.) एत्थ दुवे उवएसा ... महावाचयाणमज्जमंखुखवणा-णमुवदेसेण लोगपूरिदे आउगसमाण णामा-गोद-वेदणीयाणं ट्ठिदिसंत-कम्मं ठवेदि । महावाचयाणं णागहत्थि-खवणाण-मुवपुसेण लोगे पूरिदे णामा-गोद-वेदणीयाणं ट्ठिदिसंतकम्मं अंतोमुहुत्तपमाणं होदि । ... जयध. अ. १२३९.

२ जइवसह-शुण्णिमुत्तम्मि णव-अंकुवलंभादो । ... जइवसहठविद-चारहंकादो । जयध. अ. २४.

कहा है ' एतो उत्तर-पडिवत्तिं वत्तइस्सामो ' और तत्पश्चात् संयतों की संख्या ६९९९९९९६ बतलाई है । यहां इनकी समीचीनताके विषयमें कुछ नहीं कहा ।

दक्षिण-प्रतिपत्तिके अंतर्गत एक और मतभेदका भी उल्लेख किया गया है । कुछ आचार्योंने उक्त संख्याके संबंधमें जो शंका उठाई है उसका निरसन करके धवलाकार कहते हैं—

‘ जं दूसणं भणिदं तण्ण दूसणं, बुद्धिविहूणाइरियमुहविणिग्गयत्तादो । ’

अर्थात् 'जो दूषण कहा गया है वह दूषण नहीं है, क्योंकि वह बुद्धिविहीन आचार्योंके मुखसे निकली हुई बात है' । संभव है वॉरसेन स्वामीने किसी समसामयिक आचार्यकी शंकाको ही दृष्टिमें रखकर यह भर्त्सना की हो ।

उत्तर और दक्षिण प्रतिपत्ति भेदका तीसरा उल्लेख अन्तरानुगोगद्वारमें आया है जहां तिर्यंच और मनुष्योंके सम्यक्त्व और संयमादि धारण करनेकी योग्यताके कालका विवेचन करते हुए लिखते हैं—

‘ एत्थ वे उवदेसा, तं जहा—तिरिक्खेसु वेमासमुहुत्तपुधत्तस्सुवरि सम्मतं संजमासंजमं च जीवो पडिवज्जदि । मणुसेसु गव्भादिअट्टवस्सेसु अंतोमुहुत्तव्वहिएसु सम्मतं संजमं संजमासंजमं च पडिवज्जदि त्ति । एसा दक्खिणपडिवत्ती । दक्खिणं उज्जुवं आइरियपरंपरागदमिदि एयट्ठो । तिरिक्खेसु तिण्णि पक्ख तिण्णि दिवस अंतोमुहुत्तस्सुवरि सम्मतं संजमासंजमं च पडिवज्जदि । मणुसेसु अट्टवस्साणमुवरि सम्मतं संजमं संजमासंजमं च पडिवज्जदि । एसा उत्तरपडिवत्ती, उत्तरमणुज्जुवं आइरियपरंपराए णागदमिदि एयट्ठो धवला. अ. ३३०

इसका तात्पर्य यह है कि सम्यक्त्व और संयमासंयमादि धारण करनेकी योग्यता दक्षिण प्रतिपत्तिके अनुसार तिर्यंचोंमें ( जन्मसे ) २ मास और मुहूर्तपृथक्त्वके पश्चात् होती है, तथा मनुष्योंमें गर्भसे ८ वर्ष और अन्तर्मुहूर्तके पश्चात् होती है । किन्तु उत्तर प्रतिपत्तिके अनुसार तिर्यंचोंमें वही योग्यता ३ पक्ष, ३ दिन और अन्तर्मुहूर्तके उपरान्त, तथा मनुष्योंमें ८ वर्षके उपरान्त होती है । धवलाकारने दक्षिण प्रतिपत्तिको यहां भी दक्षिण, ऋजु व आचार्य-परंपरागत कहा है और उत्तर प्रतिपत्तिको उत्तर, अनृजु और आचार्य-परम्परासे अनागत कहा है ।

हमने इन उल्लेखोंका दूसरे उल्लेखोंकी अपेक्षा कुछ विस्तारसे परिचय इस कारण दिया है, क्योंकि, यह उत्तर और दक्षिण प्रतिपत्तिका मतभेद अत्यन्त महत्वपूर्ण और विचारणीय है । संभव है इनसे धवलाकारका तात्पर्य जैन समाजके भीतरकी किन्हीं विशेष साम्प्रदायिक मान्यताओंसे ही हो ?

धवलामें जिन अन्य आचार्यों व रचनाओंके उल्लेख दृष्टिगोचर हुए हैं वे इसप्रकार हैं ।

**तिलोयपण्णत्ति सूत्र** त्रिलोकप्रज्ञप्तिको धवलाकारने सूत्र कहा है और उसका यथास्थान खूब उपयोग किया है । हम उपर कह आये हैं कि सत्प्ररूपणामें तिलोयपण्णत्तिके मुद्रित अंशकी सात गाथाएं ज्योंकी त्यों पाई जाती हैं और उसके कुछ प्रकरण भाषा-परिवर्तन करके ज्योंके त्यों लिखे गये है । इस ग्रंथके कर्ता **यतिवृषभाचार्य** कहे जाते हैं जो जयधवलाके अन्तर्गत कषायप्राभृतपर चूर्णिसूत्र रचनेवाले यतिवृषभसे अभिन्न प्रतीत होते हैं । ' सत्प्ररूपणामें भी यतिवृषभका उल्लेख आया है' व आगे भी उनके मतका उल्लेख किया गया है ।

कुंदकुंदके पंचास्तिकायका ' पंचत्थिपाहुड ' नामसे उल्लेख आया है और उसकी दो गाथाएं भी उद्धृत की गई हैं । सत्प्ररूपणामें उनके ग्रंथोंके जो अवतरण पाये जाते हैं उनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है । **परिकर्म** ग्रंथके उल्लेख और उसके साथ कुंदकुंदाचार्यके संबन्धका विवेचन भी हम ऊपर कर आये हैं ।

धवलाकारने तत्त्वार्थसूत्रको **गृद्धपिच्छाचार्यकृत** कहा है और 'उसके कई सूत्र भी उद्धृत किये हैं' । इससे तत्त्वार्थसूत्रसंबन्धी एक श्लोक व श्रवणवेलगोलके कुछ शिलालेखोंके उस कथनकी पुष्टि होती है जिसमें उमास्वातिको **गृद्धपिच्छोपलांछित** कहा है । सत्प्ररूपणामें भी तत्त्वार्थसूत्रके अनेक उल्लेख आये हैं ।

१ तिरियलंगो ति तिलोयपणत्तिसुत्तादे । धवला. अ. १४३.

चंदाइच्चविषयमाणपरुवयतिलोयपण्णत्तिसुत्तादे । धवला. अ. १४३.

तिलोयपण्णत्तिसुत्ताणुसारि । धवला. अ. २५९.

२ Catalogue of Sans. & Prak. Mss. in C. P. & Berar, Intro. p. XV.

३ यतिवृषभोपदेशात् सर्वघातिकर्मणा इत्यादि । धवला. अ. ३०२

४ एसो दंसणमोहणीय-उवसामओ ति जइवसहेण माणंदं । धवला. अ. ४२५.

५ धवला. अ. २८९ 'वृत्तं च 'पंचत्थिपाहुडे' कहकर चार गाथाएं उद्धृत की गई हैं जिनमेंसे दो पंचास्तिकाय में क्रमशः १०८, १०७ नंबर पर मिलती हैं । अन्य दो ' ण य परिणमइ सयं सो ' आदि व ' लोयायासपदेसे ' आदि गाथाएं हमारे सन्मुख वर्तमान पंचास्तिकायमें दृष्टिगोचर नहीं होतीं । किन्तु वे दोनों गो. जीवमें क्रमशः नं. ५७० और ५८९ पर पाई जाती हैं । धवलाके उसी पत्रपर आगे पुनः वही ' वृत्तं च पंचत्थिपाहुडे ' कहकर तीन गाथाएं उद्धृत की हैं जो पंचास्तिकायमें क्रमशः २३, २५ और २६ नं. पर मिलती हैं । ( पंचास्तिकायसार, आरा, १९२०. )

६ देखो ऊपर पृ. ४६ आदि.

७ देखो पृ. १५१, २३२, २३६, २३९, २४०.

आचारांग धवलामें एक गाथा इसप्रकारसे उद्धृत मिलती है—

पंचथिकाया य छज्जीवणिकायकालदन्वमण्णे य ।  
आणागेज्जे भावे आणाविचएण विचिणादि ॥

धवला. अ. २८९ .

यह गाथा बड़ुकेरकृत मूलाचारमें निम्न प्रकारसे पाई जाती है—

पंचथिकायछज्जीवणिकाये कालदन्वमण्णे य ।  
आणागेज्जे भावे आणाविचयेण विचिणादि ॥ ३९९ ॥

यदि उक्त गाथा यहींसे धवलामें उद्धृत की गई हो तो कहा जा सकता है कि उस समय मूलाचारकी प्रख्याति आचारांगके नामसे थी ।

स्वामी समन्तभद्रके जो उल्लेख दृष्टिगोचर होते हैं उनका परिचय हम पद्वंङागमकी अन्य टीकाओंके प्रकरणमें करा ही आये हैं ।

धवलाकारने नयका निरूपण करते हुए एक जगह पूज्यपादद्वारा सारसंग्रहमें दिया हुआ नयका लक्षण उद्धृत किया है । यथा—

पूज्यपादकृत  
सारसंग्रह

सारसंग्रहेऽप्युक्तं पूज्यपादैः— अनन्तपर्यायान्मकस्य वस्तुनोऽन्यतम-पर्यायाधिगमे  
कर्तव्ये जात्यहेत्वपेक्षो निरवद्यप्रयोगो नय इति । धवला. अ. ७०० वेदनाखंड

पहले अनुमान होता है कि संभव है पूज्यपादकृत सर्वार्थसिद्धिको ही यहां सारसंग्रह कहा गया हो । किन्तु उपलब्ध सर्वार्थसिद्धिमें नयका लक्षण इस प्रकारसे नहीं पाया जाता । इससे पता चलता है कि पूज्यपादकृत सारसंग्रह नामका कोई और ग्रन्थ धवलाकारके सन्मुख था । ग्रन्थके नामपरसे जान पड़ता है कि उसमें सिद्धान्तोंका मथितार्थ संग्रह किया गया होगा । संभव है ऐसे ही सुन्दर लक्षणोंको दृष्टिमें रखकर धनञ्जयने अपने नाममालाकोपकी प्रशस्तिमें पूज्यपादके 'लक्षण' को अपश्चिम अर्थात् वेजोड़ कहा है । यथा—

प्रमाणमकलंकस्य पूज्यपादस्य लक्षणम् ।

द्विसंधानकवेः काव्यं रत्नत्रयमपश्चिमम् ॥ २०३ ॥

अकलंकदेवकृत तत्त्वार्थराजवार्तिकका धवलाकारने खूब उपयोग किया है और, जैसा हम ऊपर कह आये हैं, कहीं शब्दशः और कहीं कुछ हेरफेरके साथ उसके अनेक अवतरण दिये हैं । किन्तु न तो उनके साथ कहीं अकलंकका नाम आया और न 'राजवार्तिकका' । उन अवतरणोंको प्रायः 'उक्तं

पूज्यपाद भट्टारक  
अकलंक

च तत्वार्थभाष्ये ' या ' तत्वार्थभाष्यगत ' प्रकट किया गया है । धवलामें एक स्थान ( प. ७०० ) पर कहा गया है—

पूज्यपादभट्टारकैरप्यभाणि—सामान्य-नय-लक्षणमिदमेव । तद्यथा, प्रमाण-प्रकाशितार्थ-विशेष-प्ररूपको नयः इति ।

इसके आगे ' प्रकर्षेण मानं प्रमाणम् ' आदि उक्त लक्षणकी व्याख्या भी दी है । यही लक्षण व व्याख्या तत्वार्थराजवार्तिक, १, ३३, १ में आई है । जयधवला ( पत्र २६ ) में भी यह व्याख्या दी गई है और वहां उसे ' तत्वार्थभाष्यगत ' कहा है । ' अयं वाक्यनयः तत्वार्थ-भाष्यगतः ' । इससे सिद्ध होता है कि राजवार्तिकका असली प्राचीन नाम ' तत्वार्थभाष्य ' है और उसके कर्ता अकलंकका सन्मानसूचक उपनाम ' पूज्यपाद भट्टारक ' भी था । उनका नाम भट्टाकलंकदेव तो मिलता ही है ।

धवलाके वेदनाखंडान्तर्गत नयके निरूपणमें ( प. ७०० ) प्रभाचन्द्र भट्टारक-द्वारा कहा गया नयका लक्षण उद्धृत किया गया है, जो इस प्रकार है—

' प्रभाचन्द्र-भट्टारकैरप्यभाणि-प्रमाण-व्यपाश्रय-परिणाम-विकल्प-वशीकृतार्थ-विशेष-प्ररूपण-प्रवणः प्रणिधिर्यः स नय इति । '

ठीक यही लक्षण ' प्रमाणव्यपाश्रय ' आदि जयधवला ( प. २६ ) में भी आया है और उसके पश्चात् लिखा है ' अयं नास्य नयः प्रभाचन्द्रो यः ' । यह हमारी प्रतिकी अशुद्धि ज्ञात होती है और इसका ठीक रूप ' अयं वाक्यनयः प्रभाचन्द्रीयः ' ऐसा प्रतीत होता है ।

प्रभाचन्द्रकृत दो प्रौढ़ न्याय-ग्रंथ सुप्रसिद्ध हैं, एक ग्रंथेयकमलमार्तण्ड और दूसरा न्याय-कुमुदचन्द्रोदय । इस दूसरे ग्रंथका अभी एक ही खंड प्रकाशित हुआ है । इन दोनों ग्रंथोंमें उक्त लक्षणका पता लगानेका हमने प्रयत्न किया किन्तु वह उनमें नहीं मिला । तब हमने न्या. कु. चं. के सुयोग्य सम्पादक पं. महेन्द्रकुमारजीसे भी इसकी खोज करनेकी प्रार्थना की । किन्तु उन्होंने भी परिश्रम करनेके पश्चात् हमें सूचित किया कि बहुत खोज करनेपर भी उस लक्षणका पता नहीं लग रहा । इससे प्रतीत होता है कि प्रभाचन्द्रकृत कोई और भी ग्रंथ रहा है जो अभी तक प्रसिद्धिमें नहीं आया और उसीके अन्तर्गत वह लक्षण हो, या इसके कर्ता कोई दूसरे ही प्रभाचन्द्र हुए हों ?

धवलामें ' इति ' के अनेक अर्थ बतलानेके लिये ' एत्थ उवज्जंतओ सिलोगो ' अर्थात्



धनञ्जयकृत  
अनेकार्थ  
नाममाला

इस विषय का एक उपयोगी श्लोक कहकर निम्न श्लोक उद्धृत किया है—

हेतावेवं प्रकाराद्यैः व्यवच्छेदे विपर्ययः ।

प्रादुर्भावे समाप्तं च इति शब्दं विदुर्वुधाः ॥ धवला. अ. ३८७

यह श्लोक धनञ्जयकृत अनेकार्थ नाममालाका है और वहां वह अपने शुद्धरूपमें इसप्रकार पाया जाता है—

हेतावेवं प्रकारादौ व्यवच्छेदे विपर्यये ।

प्रादुर्भावे समाप्तौ च इति शब्दः प्रकीर्तितः ॥ ३० ॥

इन्हीं धनञ्जयका बनाया हुआ नाममाला कोष भी है जिसमें उन्होंने अपने द्विसंश्रान काव्यको तथा अकलंकके प्रमाण और पूज्यपादके लक्षणको अपश्चिम कहा है अर्थात् उनके समान फिर कोई नहीं लिख सका ।

इससे यह तो स्पष्ट था कि उक्त कोषकार धनञ्जय, पूज्यपाद और अकलंकके पश्चात् हुए । किन्तु कितने पश्चात् इसका अर्भातिक निर्णय नहीं होता था । धवलाके उल्लेखसे प्रमाणित होता है कि धनञ्जयका समय धवलाकी समाप्तिसे अर्थात् शक ७३८ से पूर्व है ।

धवलामें कुछ ऐसे ग्रंथोंके उल्लेख भी पाये जाते हैं जिनके संबंधमें अभीतक कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि वे कहाँके और किसके बनाये हुए हैं । इसप्रकारका एक उल्लेख जीवसमासका है । यथा, ( धवला प. २८९ ) जीवसमासाए वि उत्तं—

छप्पंचणव-विहाणं अथाणं जिणवरोवइट्ठाणं ।

आणाए अहिगमेण य सदहणं होइ सम्मत्तं ॥

यह गाथा 'उक्तं च' रूपसे सध्ररूपणामें भी दो बार आई है और गोम्मटसार जीवकाण्डमें भी है ।

एक जगह धवलाकारने 'छेदसूत्र' का उल्लेख किया है । यथा—

ण च दन्वित्थिणवुंसयवेदाणं चेलादिचाओ अत्थि छेदसुत्तेण सह विरोहादो ।

धवला. अ. ९०७.

एक उल्लेख कर्मप्रवादका भी है । यथा—

‘ सा कम्मपवादे सवित्थरेण पख्विदा ’ ( धवला अ. १३७१. )

जयधवलामें एक स्थानपर दशकरणीसंग्रहका उल्लेख आया है । यथा—

.....शुष्ककुड्यपतितसिकतामुष्टिवदनन्तरसमये निर्वर्तते कर्मर्यापयं वीतरागाणामिति । दस-  
करणीसंगहे पुण पयडिबंधसंभवमेत्तमवेक्खिय वेदणीयस्स वीयरायगुणट्ठाणेषु वि बंधणाकरणमोवट्ठ-  
णाकरणं च दो वि भाणिदाणि त्ति । जयध० अ. १०४२.

इस अवतरणपरसे इस ग्रंथमें कर्मोंकी बन्ध, उदय, संक्रमण आदि दश अवस्थाओंका वर्णन है ऐसा प्रतीत होता है ।

ये थोड़ेसे ऐसे उल्लेख हैं जो धवला और जयधवलापर एक स्थूल दृष्टि डालनेसे प्राप्त हुए हैं । हमें विश्वास है कि इन ग्रंथोंके सूक्ष्म अवलोकनसे जैन धार्मिक और साहित्यिक इतिहासके सम्बंधमें बहुतसी नई बातें ज्ञात होंगी जिनसे अनेक साहित्यिक ग्रंथियां सुलझ सकेंगी ।

## १०. षट्खंडागमका परिचय

पुष्पदन्त और भूतबलिद्वारा जो ग्रंथ रचा गया उसका नाम क्या था ? स्वयं सूत्रोंमें तो ग्रंथका कोई नाम हमारे देखनेमें नहीं आया, किंतु धवलाकारने ग्रंथकी उत्थानिकामें ग्रंथके मंगल, निमित्त, हेतु, परिमाण, नाम और कर्ता, इन छह ज्ञातव्य बातोंका परिचय कराया है । वहां इसे ‘ खंडसिद्धान्त ’ कहा है और इसके खंडोंकी संख्या छह बतलाई है<sup>१</sup> । इस प्रकार धवलाकारने इस ग्रंथका नाम ‘ षट्खंड सिद्धान्त ’ प्रकट किया है । उन्होंने यह भी कहा है कि सिद्धान्त और आगम एकार्थवाची हैं<sup>२</sup> । धवलाकारके पश्चात् इन ग्रंथोंकी प्रसिद्धि आगम परमागम व षट्खंडागम नामसे ही विशेषतः हुई । अपभ्रंश महापुराणके कर्ता पुष्पदन्तने धवल और जयधवलको आगम सिद्धान्त<sup>३</sup>, गोम्मटसारके टीकाकारने परमागम<sup>४</sup>

१ तदो एयं खंडसिद्धंतं पडुच्च भूदवलि-पुष्पयंताहरिया वि कत्तारो उच्चंति । ( पृ. ७१ )

इदं पुण जीवट्ठाणं खंडसिद्धंतं पडुच्च पुव्वाणुपुव्वाए द्विदं छणहं खंडाणं पदमखंडं जीवट्ठाणमिदि ।

( पृ. ७४ )

२ आगमो सिद्धंतो पवयणमिदि एयट्ठो । ( पृ. २०. ) आगमः सिद्धान्तः । ( पृ. २९. )

कृतान्तागम-सिद्धान्त-ग्रंथाः शास्त्रमतः परम् ॥ ( धनंजय-नाममाला ४ )

३ ण उ बुद्धिउ आयमु सदधामु । सिद्धंतु धवलु जयधवलु णाम ॥ ( महापु. १, ९, ८. )

४ एवं त्रिंशतिसंख्या गुणस्थानादयः प्ररूपणाः भगवदर्हद्गुणधरशिष्य-प्रशिष्यादिगुरुपर्वागतया परिपाठ्या अनुक्रमेण भणिताः परमागमे पूर्वाचार्यैः प्रतिपादिताः ( गो. जी. टी. २१. ) परमागमे निगोदजीवानां द्वैविध्यस्य सुप्रासिद्धत्वात् । ( गो. जी. टी. ४४२. )

तथा श्रुतावतारके कर्ता इन्द्रनन्दिने षट्खंडागम' कहा है, और इन ग्रंथोंको 'आगम कहनेकी बड़ी भारी सार्थकता भी है। सिद्धान्त और आगम यद्यपि साधारणतः पर्यायवाची गिने जाते हैं, किंतु निरुक्ति और सूक्ष्मार्थकी दृष्टिसे उनमें भेद है। कोई भी निश्चित या सिद्ध मत सिद्धान्त कहा जा सकता है, किंतु आगम वही सिद्धान्त कहलाता है जो आप्तवाक्य है और पूर्व-परम्परासे आया है। इसप्रकार सभी आगमको सिद्धान्त कह सकते हैं किंतु सभी सिद्धान्त आगम नहीं कहला सकते। सिद्धान्त सामान्य संज्ञा है और आगम विशेष।

इस विवेचनके अनुसार प्रस्तुत ग्रंथ पूर्णरूपसे आगम सिद्धान्त ही है। धरसेनाचार्यने पुष्पदन्त और भूतबलिको वे ही सिद्धान्त सिखाये जो उन्हें उनके पूर्ववर्ती आचार्योंद्वारा प्राप्त हुए और जिनकी परंपरा महावीरस्वामीतक पहुंचती है। पुष्पदन्त और भूतबलिने भी उन्हीं आगम सिद्धान्तोंको पुस्तकारूढ़ किया और टीकाकारने भी उनका विवेचन पूर्व मान्यताओं और पूर्व आचार्योंके उप-देशोंके अनुसार ही किया है जैसा कि उनकी टीकामें स्थान स्थानपर प्रकट है। आगमकी यह भी विशेषता है कि उसमें हेतुवाद नहीं चलता, क्योंकि, आगम अनुमान आदिकी अपेक्षा नहीं रखता किंतु स्वयं प्रत्यक्षके बराबरका प्रमाण माना जाता है।

पुष्पदन्त व भूतबलिकी रचना तथा उस पर वीरसेनकी टीका इसी पूर्व परम्पराकी मर्यादाको लिये हुए है इसीलिये इन्द्रनन्दिने उसे आगम कहा है और हमने भी इसी सार्थकताको मान देकर इन्द्रनन्दिद्वारा निर्दिष्ट नाम षट्खंडागम स्वीकार किया है।

**जीवद्वान** षट्खंडोंमें प्रथम खंडका नाम 'जीवद्वान' है। उसके अन्तर्गत १ सत्, २ संख्या, ३ क्षेत्र, ४ स्पर्शन, ५ काल, ६ अन्तर, ७ भाव और ८ अल्पबहुत्व, ये आठ अनुयोगद्वारा, तथा १ प्रकृति-

१ षट्खंडागमरचनामिप्रायं पुष्पदन्तगुरोः ॥ १३७ ॥ षट्खंडागमरचनां प्रविधाय भूतबल्यार्यः ॥ १३८ ॥ षट्खंडागमपुस्तकमहो मया चिंतितं कार्यम् ॥ १४६ ॥ एवं षट्खंडागमसूत्रोत्पत्तिं प्ररूप्य पुनरनुना ॥ १४९ ॥ षट्खंडागमगत-खंड-पंचकस्य पुनः ॥ १६८ ॥ इन्द्र. श्रुतावतार.

२ राद्ध-सिद्ध-कृतेभ्योऽन्त आप्तोक्तिः समयागमौ ( हैम. २, १५६. ) पूर्वापरविरुद्धादेव्यपेतो दोष-संहतेः । द्योतकः सर्वभावानामाप्तव्याहृतिरागमः । ( धवला अ. ७१६ )

३ ' भूयसामाचार्याणामुपदेशाद्वा तदवगतेः ' ( १९७ ) ' किमित्यागमे तत्र तस्य सत्त्वं नोक्तमिति चेन्न, आगमस्यातर्कगोचरत्वात् ' ( २०६ ) ' जिणा ण अण्णहावाइणो ' ( २२१ ) ' आइरियपरं-पराए णिरंतरमागयाणं आइरिएहि पोत्थेसु च्छावियाणं असुत्तन्नविरोहादो ' ( २२१ ) ' प्रतिपादकापौपलंभात् ' ( २३९ ) ' आपासादवगतेः ' ( २५८ ) ' प्रवाहरूपेणापौरुषेयत्वतस्तीर्थकृदादयोऽस्य व्याख्यातार एव न कर्तारः ' ( ३४९ )

४ ' किमित्यागमे तत्र तस्य सत्त्वं नोक्तमिति चेन्न, आगमस्यातर्कगोचरत्वात् ( २०६ )

५, सुदकेवलं च णाणं दोष्णि. वि सरिसाणि होंति बोहादो । सुदणाणं तु परोक्खं पच्चक्खं केवलं णाणं ॥

गो. जी. ३६९.

समुःकीर्तना, २ स्थानसमुःकीर्तना, ३-५ तीन महादण्डक, ६ जघन्य स्थिति, ७ उत्कृष्ट स्थिति, ८ सम्यक्त्वोत्पत्ति और ९ गति-आगति ये नौ चूलिकाएं हैं। इस खंडका परिमाण धवलाकारने अठारह हजार पद कहा है ( पृ. ६० )। पूर्वोक्त आठ अनुयोगद्वारों और नौ चूलिकाओंमें गुणस्थानों और मार्गणाओंका आश्रय लेकर यहां विस्तारसे वर्णन किया गया है।

दूसरा खंड सुहाबंध ( क्षुल्लकबंध ) है। इसके ग्यारह अधिकार हैं, १ स्वामित्व, २ सुहाबंध २ काल, ३ अन्तर, ४ भंगविचय, ५ द्रव्यप्रमाणानुगम, ६ क्षेत्रानुगम, ७ स्पर्श-नानुगम, ८ नाना-जीव-काल, ९ नाना-जीव-अन्तर, १० भागाभागानुगम और ११ अल्पबहुत्वानुगम। इस खंडमें इन ग्यारह प्ररूपणाओंद्वारा कर्मबन्ध करनेवाले जीवका कर्मबन्धके भेदोंसहित वर्णन किया गया है।

यह खंड अ. प्रतिके ४७५ पत्रसे प्रारम्भ होकर ५७६ पत्रपर समाप्त हुआ है।

तीसरे खंडका नाम बंधस्वामित्वविचय है। कितनी प्रकृतियोंका किस जीवके कहां तक बंध होना है, किसके नहीं होता है, कितनी प्रकृतियोंकी किस गुणस्थानमें व्युत्पत्ति होती है, स्वोदय बंधरूप प्रकृतियां कितनी हैं और परोदय बंधरूप कितनी हैं, इत्यादि कर्मबंधसंबन्धी विषयोंका बंधक जीवका अपेक्षासे इस खंडमें वर्णन है।

यह खंड अ. प्रतिके ५७६ वें पत्रसे प्रारम्भ होकर ६६७ वें पत्र पर समाप्त हुआ है।

चौथे खंडका नाम वेदना है। इसके आदिमें पुनः मंगलाचरण किया गया है। इसी खंडके अन्तर्गत कृति और वेदना अनुयोगद्वार हैं। किंतु वेदनाके कथनकी प्रधानता और अधिक विस्तारके कारण इस खंडका नाम वेदना रखा गया है।

कृतिमें आदारिकादि पांच शरीरोंकी संघातन और परिशातनरूप कृतिका तथा भवके प्रथम और अप्रथम समयमें स्थित जीवोंके कृति, नोकृति और अवक्तव्यरूप संख्याओंका वर्णन है। १ नाम, २ स्थापना, ३ द्रव्य, ४ गणना, ५ ग्रंथ, ६ करण और ७ भाव, ये कृतिके सात प्रकार हैं, जिनमेंसे प्रकृतमें गणनाकृति मुख्य बतलाई गई है।

वेदनामें १ निक्षेप, २ नय, ३ नाम, ४ द्रव्य, ५ क्षेत्र, ६ काल, ७ भाव, ८ प्रत्यय,

१ कदि-पास-कम्म-पयाडि-अणियोगद्वाराणि वि एत्थ परूविदाणि, तेसिं खंडंगथसण्णमकाऊण तिण्णि चव खंडाणि ति किमट्ठं उच्चदं ? ण, तेसिं पहाणत्ताभावादे । तं पि कुदो णव्वदे ? संखेवेण परूवणादे ।

९ स्वामित्व, १० वेदना, ११ गति, १२ अनन्तर, १३ सन्निकर्ष, १४ परिमाण, १५ भागा-  
भागानुगम और १६ अल्पबहुत्वानुगम, इन सोलह अधिकारोंके द्वारा वेदनाका वर्णन है ।

इस खंडका परिमाण सोलह हजार पद बतलाया गया है। यह समस्त खंड अ. प्रतिके  
६६७ वें पत्रसे प्रारम्भ होकर ११०६ वें पत्रपर समाप्त हुआ है, जहां कहा गया है—

एवं वेयण-अप्पाबहुगाणिओगदारे समत्ते वेयणाखंडं समत्ता (खंडो समत्तो) ।

पांचवें खंडका नाम वर्गणा है । इसी खंडमें बंधनीयके अन्तर्गत वर्गणा अधिकारके  
५ वर्गणा अतिरिक्त स्पर्श, कर्म, प्रकृति और बन्धनका पहला भेद बंध, इन अनुयोगद्वारोंका भी  
अन्तर्भाव कर लिया गया है ।

स्पर्शमें निक्षेप, नय आदि सोलह अधिकारोंद्वारा तेरह प्रकारके स्पर्शोंका वर्णन करके  
प्रकृतमें कर्म-स्पर्शसे प्रयोजन बतलाया है ।

कर्ममें पूर्वोक्त सोलह अधिकारोंद्वारा १ नाम, २ स्थापना, ३ द्रव्य, ४ प्रयोग,  
५ समवधान ६ अधः, ७ ईर्यापथ, ८ तप ९ क्रिया और १० भाव, इन दश प्रकारके कर्मोंका  
वर्णन है ।

प्रकृतिमें शील और स्वभावको प्रकृतिके पर्यायवाची बतलाकर उसके नाम, स्थापना,  
द्रव्य और भाव, इन चार भेदोंमेंसे कर्म-द्रव्य-प्रकृतिका पूर्वोक्त १६ अधिकारोंद्वारा विस्तारसे वर्णन  
किया गया है ।

इस खंडका प्रधान अधिकार बंधनीय है, जिसमें २३ प्रकारकी वर्णणाओंका वर्णन  
और उनमेंसे कर्मबन्धके योग्य वर्णणाओंका विस्तारसे कथन किया है ।

यह खंड अ. प्रतिके ११०६ वें पत्रसे प्रारम्भ होकर १३३२ वें पत्रपर समाप्त हुआ  
है और वहां कहा है—

एवं विस्ससोवचय-परुत्वणाए समत्ताए बाहिरिय-वग्गणा समत्ता होदि ।

इन्द्रनन्दिने श्रुतावतारमें कहा है कि भूतबलिने पांच खंडोंके पुष्पदन्त विरचित सूत्रों-  
६ महाबंध सहित छह हजार सूत्र रचनेके पश्चात् महाबंध नामके छठवें खंडकी तीस  
हजार श्लोक प्रमाण रचना की ।

१ तेन ततः परिपठितां भूतबलिः सत्परूपणां श्रुत्वा । षट्संखंडागमरचनामिप्रायं पुष्पदन्तशुरोः ॥ १३७ ॥  
विज्ञायात्पायुन्यान्वपमतीन्मानवान् प्रतीत्य ततः । द्रव्यपरूपणाधाधिकारः खंडपंचकस्यान्वक् ॥ १३८ ॥  
सूत्राणि षट्सहस्रप्रधान्यथ पूर्वसूत्रसहितानि । प्रविरच्य महाबंधाह्वयं ततः षष्ठकं खंडम् ॥ १३९ ॥  
त्रिंशत्सहस्रसूत्रग्रंथं व्यरचयदसौ महात्मा ।

इन्द्र, श्रुतावतार.

धवलामें जहां वर्गणाखंड समाप्त हुआ है वहां सूचना की गई है कि—

‘ जं तं बंधविहाणं तं चउच्चिहं, पयडिवंधो द्विदिवंधो अणुभागबंधो पदेसबंधो चेदि । एदोसिं चदुण्हं बंधाणं विहाणं भूदत्रलि-भडारण महाबंधे सप्पवंचेण लिहिदं ति अम्हेहि एत्थ ण लिहिदं । तदो सयले महाबंधे एत्थ परूविदे बंधविहाणं समप्पदि’ । (धवला क. १२५९-१२६०)

अर्थात् बंधविधान चार प्रकारका है, प्रकृतिबंध, स्थितिबंध, अनुभागबंध और प्रदेशबंध । इन चारों प्रकारके बंधोंका विधान भूतवलि भट्टारकने महाबंधमें सविस्तररूपसे लिखा है, इस कारण हमने ( श्रीसेनाचार्यने ) उसे यहां नहीं लिखा । इसप्रकारसे समस्त महाबंधके यहां प्ररूपण हो जानेपर बंधविधान समाप्त होता है ।

ऐसा ही एक उल्लेख जयधवलामें भी पाया जाता है जहां कहा गया है कि प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंधका वर्णन विस्तारसे महाबंधमें प्ररूपित है और उसे वहांसे देख लेना चाहिये, क्योंकि, जो बात प्रकाशित हो चुकी है उसे पुनः प्रकाशित करनेमें कोई फल नहीं । यथा—

सो पुण पयडिद्विदिअणुभागपदेसबंधो बहुसो परूविदो । ( चूर्णिसूत्र ) । सो उण गाहाए पुच्चदम्मि णिल्लोणो पयडि-द्विदि-अणुभाग-पदेस-विसओ बंधो बहुसो गंथंतरेसु परूविदो त्ति तत्थेव वित्तरो ददुच्चो, ण एत्थ पुणो परूविज्जदे, पयासियपयासणे फलविसेसाणुवलंभादो । तदो महाबंधा-णुसारेणेत्य पयडि-द्विदि-अणुभाग-पदेसबंधेसु विहासियसमत्तेसु तदो बंधो समत्तो होई । जयध. अ. ५४८

इससे इन्द्रनन्दिके कथनका पुष्टि होती है कि छठवां खंड स्वयं भूतवलि आचार्यद्वारा रचित सविस्तर पुस्तकारूढ़ है ।

किंतु इन्द्रनन्दिनं श्रुतावतारमें आगे चलकर कहा है कि श्रीसेनाचार्यने एलाचार्यसे सत्कर्म-पाहुड सिद्धान्त सीखनेके अनन्तर निबन्धनादि अठारह अधिकारोंद्वारा सत्कर्म नामक छठवें खंडका संश्लेषसे विधान किया और इसप्रकार छहों खंडोंकी बहतर हजार ग्रंथप्रमाण धवला टीका रची गई । ( देखो ऊपर पृ. ३८ )

धवलामें वर्गणाखंडकी समाप्ति तथा उपर्युक्त भूतवलिकृत महाबंधकी सूचनाके पश्चात् निबंधन, प्रक्रम, उपक्रम, उदय, मोक्ष, संक्रम, लेझ्या, लेझ्याकर्म, लेझ्यापरिणाम, सातासात, दीर्घ-ह्रस्व, भवधारणीय, पुद्गलात्म, निधत्त-अनिधत्त, निकाचित-अनिकाचित, कर्मस्थिति, पश्चिमस्कंध और अल्पबहुत्व, इन अठारह अनुयोगद्वारोंका कथन किया गया है और इस समस्त भागको चूलिका कहा है । यथा—

एत्तो उवरिम-गंथो चूलिया णाम ।

इन्द्रनन्दिके उपर्युक्त कथनानुसार यही चूलिका संक्षेपसे छठवां खंड ठहरता है, और इसका नाम सत्कर्म प्रतीत होता है, तथा इसके सहित धवला पट्खंडागम ७२ हजार श्लोक प्रमाण सिद्ध होता है। विबुध श्रीधरके मतानुसार वीरसेनकृत ७२ हजार प्रमाण समस्त धवला टीकाका ही नाम सत्कर्म है। यथा—

अत्रान्तरे एलाचार्यभट्टारकपार्श्वे सिद्धान्तद्वयं वीरसेननामा मुनिः पठित्वाऽपराण्यपि अष्टादशा-  
धिकाराणि प्राप्य पंच-खंडे पट्-खंडे संकल्प्य संस्कृतप्राकृतभाषया सत्कर्मनामटीकां द्वासप्ततिसह-  
स्रप्रमितां धवलनामांकितां लिखाप्य विशंतिसहस्रकर्पप्राभृतं विचार्य वीरसेनो मुनिः स्वर्गं  
यास्यति । ( विबुध श्रीधर. श्रुतावतार मा प्रं. मा. २१, पृ. ३१८ )

दुर्भाग्यतः महाबंध ( महाधवल ) हमें उपलब्ध नहीं है, इस कारण महाबंध और सत्कर्म नामोंकी इस उलझनको सुलझाना कठिन प्रतीत होता है। किन्तु मूढविद्रांमें सुरक्षित महाधवलका जो थोड़ासा परिचय उपलब्ध हुआ है उससे ज्ञात होता है कि वह ग्रंथ भी सत्कर्म नामसे है और उसपर एक पंचिकारूप विवरण है जिसके आदिमें ही कहा गया है—

‘ वोच्छामि संतकम्मे पंचियस्सुवेण विवरणं सुमहत्थं । .....चोत्वीसमणियोगद्वारेसु तत्थ  
कादिवेदणा त्ति जाणि अणियोगद्वाराणि वेदणाखंडग्हि पुणो फास ( कम्म-पयडि-वंवणाणि )  
चत्तारि अणियोगद्वारेसु तत्थ बंध-बंधणिवज्जणामणियोगेहि सह वर्गणाखंडग्हि, पुणो बंध-  
विधाणणामणियोगो खुद्दाबंधग्हि सप्पबंधेण परुविदाणि । तो वि तस्सङ्गंभीरत्तादो अत्थ-विसम  
पदानमत्थे थोरुद्धयेण (?) पंचियस्सुवेण मणिस्सामो । ( वीरवाणी सि भ रिपोर्ट, १९३५ )

इसका भावार्थ यह है कि महाकर्मप्रकृति पाहुडके चौबीस अनुयोगद्वारोंमेंसे कृति और वेदनाका वेदना खंडमें, स्पर्श, कर्म, प्रकृति और बंधनके बंध और बंधनीयका वर्गणा-  
खंडमें और बंधविधान नामक अनुयोगद्वारका खुद्दाबंधमें विस्तारसे वर्णन किया जा चुका है। इनसे शेष अठारह अनुयोगद्वार सब सत्कर्ममें प्ररूपित किये गये हैं। तो भी उनके अतिगंभीर होनेसे उसके विषय पदोंका अर्थ संक्षेपमें पंचिकारूपसे यहां कहा जाता है।

इससे जान पड़ा कि महाधवलका मूलग्रंथ संतकम्म ( सत्कर्म ) नामका है और उसमें महाकर्मप्रकृतिपाहुडके चौबीस अनुयोगद्वारोंमेंसे वेदना और वर्गणाखंडमें वर्णित प्रथम छहको छोड़कर शेष निबंधनादि अठारह अनुयोगद्वारोंका प्ररूपण है।

१ यहाँ पाठमें कुछ त्रुटि जान पड़ती है, क्योंकि, धवलाके अनुसार खुद्दाबंधमें बंधकका वर्णन है और बंधविधान महाबंधका विषय है।

महाधवल या सत्कर्मकी उक्त पंचिका कवकी और किसकी है ? संभवतः यह वही पंचिका है जिसको इन्द्रनन्दिने समन्तभद्रसे भी पूर्व तुम्बुल्लराचार्यद्वारा सात हजार श्लोक प्रमाण विरचित कहा है । [ देखो ऊपर पृ. ४०. ]

किंतु जयधवलामें एक स्थानपर स्पष्ट कहा गया है कि सत्कर्म महाधिकारमें कृति, वेदनादि चौबीस अनुयोगद्वार प्रतिवद्ध हैं और उनमें उदय नामक अर्थाधिकार प्रकृति सहित स्थिति, अनुभाग और प्रदेशोंके उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य व अजघन्य उदयके प्ररूपणमें व्यापार करता है । यथा—

संतकम्ममहाहियारे कदि-वेदणादि-चउवीसमणियोगद्वारेसु पडिबद्धेसु उदओ गाम अथाहियारो ट्ठिदि-अणुभाग-पदेसाणं पयडिसर्मणिणयाणमुक्कस्साणुक्कस्स-जहण्णाजहण्णुदयपरवणे य ववारो । जयध. अ. ५१२.

इससे जाना जाता है कि कृति, वेदनादि चौबीस अनुयोगद्वारोंका ही समष्टिरूपसे सत्कर्म महाधिकार नाम है और चूंकि ये चौबीस अधिकार तीसरे अर्थात् बंधस्वामित्वविचयके पश्चात् क्रमसे वर्णन किये गये हैं, अतः उस समस्त विभाग अर्थात् अन्तिम तीन खंडोंका नाम संतकम्म या सत्कर्मपाहुड महाधिकार है ।

किन्तु, जैसा आगे चलकर ज्ञात होगा, इन्हीं चौबीस अनुयोगद्वारोंसे जीवद्वाणके थोड़ेसे भागको छोड़कर शेष समस्त षट्खंडागमकी उत्पत्ति हुई है । अतः जयधवलाके उल्लेखपरसे इस समस्त ग्रंथका नाम भी सत्कर्म महाधिकार सिद्ध होता है । इस अनुमानकी पुष्टि प्रस्तुत ग्रंथके दो उल्लेखोंसे अच्छीतरह हो जाती है । पृ. २१७ पर कपायपाहुड और सत्कर्मपाहुडके उपदेशमें मतभेदका उल्लेख किया गया है । यथा—

‘ एसो संतकम्म-पाहुड-उवएसो । कसायपाहुड-उवएसो पुण..... ’

आगे चलकर पृष्ठ २२१ पर शंका की गई कि इनमेंसे एक वचन सूत्र और दूसरा असूत्र होना चाहिये और यह संभव भी है, क्योंकि, ये जिनेन्द्र वचन नहीं हैं किन्तु आचार्योंके वचन हैं । इसका समाधान किया गया है कि नहीं, सत्कर्म और कपायपाहुड दोनों ही सूत्र हैं, क्योंकि उनमें तीर्थंकरद्वारा कथित, गणधरद्वारा रचित तथा आचार्यपरंपरासे आगत अर्थका ही ग्रंथन किया गया है । यथा—

‘ आइरियकहियाणं संतकम्म-कसाय-पाहुडाणं कथं सुत्तत्तणमिदि चे ण..... ’ [ पृ. २२१ ]

यहां स्पष्टतः कपाय पाहुड के साथ सत्कर्मपाहुडसे प्रस्तुत समस्त षट्खंडागमसे ही



प्रयोजन हो सकता है और यह ठीक भी है, क्योंकि, पूर्वोक्ती रचनामें उक्त चौबीस अनुयोगद्वारांका नाम महाकर्मप्रकृतिपाहुड है । उसीका धरसेन गुरुने पुष्पदन्त भूतबलि द्वारा उद्धार कराया है, जैसा कि जीवद्वानके अन्त व खुद्दाबंधके आदिकी एक गाथासे प्रकट होता है—

जयऽ धरसेणणाहो जेण महाकम्मपयडिपाहुडसेलो ।

बुद्धिसिरेणुद्धरिओ समप्पिओ पुष्पयंतस्स ॥ ( धवला अ. ४७५ )

महाकर्मप्रकृति और सत्कर्म संज्ञाएं एक ही अर्थकी द्योतक हैं । अतः सिद्ध होता है कि इस समस्त पट्खंडागमका नाम सत्कर्मप्राभृत है । और चूंकि इसका बहुभाग धवला टीकामें प्रथित है, अतः समस्त धवलाको भी सत्कर्मप्राभृत कहना अनुचित नहीं । उसीप्रकार महाबंध या निबन्धनादि अठारह अधिकार भी इसीके एक खंड होनेसे सत्कर्म कहे जा सकते हैं । और जिसप्रकार खंड विभागकी दृष्टिसे कृतिका वेदना खंडमें, और स्पर्श, कर्म, प्रकृति तथा बंधनके प्रथम भेद बंधका वर्गणाखंडमें अन्तर्भाव कर लिया गया है, उसीप्रकार निबन्धनादि अठारह अधिकारोंका महाबंध नामक खंडमें अन्तर्भाव अनुमान किया जा सकता है जिससे महा-धवलान्तर्गत उक्त पंचिकाके कथनकी सार्थकता सिद्ध हो जाती है, क्योंकि, सत्कर्मका एक विभाग होनेसे वह भी सत्कर्म कहा जा सकता है ।

सत्कर्मप्राभृत व पट्खंडागम तथा उसकी टीका धवलाकी इस रचनाको देखनेसे ज्ञात होता है कि उसके मुख्यतः दो विभाग हैं । प्रथम विभागके अन्तर्गत जीवद्वान, खुद्दाबंध व बंध-स्वामित्वविचय हैं । इनका मंगलाचरण, श्रुतावतार आदि एक ही वार जीवद्वानके आदिमें किया गया है और उन सबका विषय भी जीव या बंधककी मुख्यतासे है । जीवद्वानमें गुणस्थान और मार्गणाओंकी अपेक्षा सत्, संख्या आदि रूपसे जीवत्वका विचार किया गया है । खुद्दाबंधमें सामान्यकी अपेक्षा बंधक, और बंधस्वामित्वविचयमें विशेषकी अपेक्षा बंधकका विवरण है ।

दूसरे विभागके आदिमें पुनः मंगलाचरण व श्रुतावतार दिया गया है, और उसमें यथार्थतः कृति, वेदना आदि चौबीस अधिकारोंका क्रमशः वर्णन किया गया है और इस समस्त विभागमें प्रधानतासे कर्मोंकी समस्त दशाओंका विवरण होनेसे उसकी विशेष संज्ञा सत्कर्मप्राभृत है । इन चौबीसोंमेंसे द्वितीय अधिकार वेदनाका विस्तारसे वर्णन किये जानेके कारण उसे प्रधानता प्राप्त हो गई और उसके नामसे चौथा खंड खड़ा हो गया । बंधनके तीसरे भेद बंधनीयमें वर्गणाओंका विस्तारसे वर्णन आया और उसके महत्वके कारण वर्गणा नामका पांचवां खंड हो गया । इसी बंधनके चौथे भेद बंधविधानके खूब विस्तारसे वर्णन किये जानेके कारण उसका महाबंध नामक छठवां खंड बन गया और शेष अठारह अधिकार उन्हींके आजूबाजूकी वस्तु रह गये ।

ध्वलाकी रचनाके पश्चात् उसके सबसे बड़े पारगामी विद्वान् नेमिचंद्र सिद्धान्तचक्रवर्तीने इन दो ही विभागोंको ध्यानमें रखकर जीवकाण्ड और कर्मकाण्डकी रचना की, ऐसा प्रतीत होता है । तथा उसके छहों खंडोंका ख्याल करके उन्होंने गर्वके साथ कहा है कि ' जिसप्रकार एक चक्रवर्ती अपने चक्रके द्वारा छह खंड पृथिवीको निर्विघ्नरूपसे अपने वशमें कर लेता है, उसीप्रकार अपने मतिरूपी चक्रद्वारा मैंने छह खंड सिद्धान्तका सम्यक् प्रकारसे साधन कर लिया '—

जह चक्रेण य चक्रां छक्खंडं साहियं अविघ्णेण ।


तह मइचक्रेण मया छक्खंडं साहियं सम्मं ॥ ३९७ ॥ गो. क.

इससे आचार्य नेमिचंद्रको सिद्धान्तचक्रवर्तीका पद मिल गया और तभीसे उक्त पूरे सिद्धान्तके ज्ञाताको इस पदवीसे विभूषित करनेकी प्रथा चल पड़ी । जो इसके केवल प्रथम तीन खंडोंमें पारंगत होते थे, उन्हें ही जान पड़ता है, त्रैविद्यदेवका पद दिया जाता था । श्रवणबेलगोलके शिलालेखोंमें अनेक मुनियोंके नाम इन पदवियोंसे अलंकृत पाये जाते हैं । इन उपाधियोंने वीरसेनसे पूर्वकी सूत्राचार्य, उच्चारणाचार्य, व्याख्यानाचार्य, निक्षेपाचार्य व महावाचकी पदवियोंका सर्वथा स्थान ले लिया । किंतु थोड़े ही कालमें गोम्मटसारने इन सिद्धान्तोंका भी स्थान ले लिया और उनका पठन-पाठन सर्वथा रुक गया । आज कई शताब्दियोंके पश्चात् इनके सुप्रचारका पुनः सुअवसर मिल रहा है ।

दिगम्बर सम्प्रदायकी मान्यतानुसार षट्खंडागम और कपायप्राभृत ही ऐसे ग्रंथ हैं जिनका सीधा सम्बंध महावीरस्वामीकी द्वादशांग वाणीसे माना जाता है । शेष सब श्रुतज्ञान इससे पूर्व ही क्रमशः लुप्त व छिन्न भिन्न होगया । द्वादशांग श्रुतका प्रस्तुत ग्रंथमें विस्तारसे परिचय कराया गया है ( पृ. ९९ से ) । इनमेंसे वारहवें अंगको छोड़कर शेष सब ही नामोंके अंग-ग्रंथ श्वेताम्बर सम्प्रदायमें अब भी पाये जाते हैं । इन ग्रंथोंकी परम्परा क्या है और उनका विषय विस्तारादि दिगम्बर मान्यताके कहांतक अनुकूल प्रतिकूल है इसका विवेचन आगेके किसी खंडमें किया जायगा, यहां केवल यह बात ध्यान देने योग्य है कि जो ग्यारह अंग श्वेताम्बर साहित्यमें हैं वे दिगम्बर साहित्यमें नहीं हैं और जिस वारहवें अंगका श्वेताम्बर साहित्यमें सर्वथा अभाव है वही दृष्टिवाद नामक वारहवां अंग प्रस्तुत सिद्धान्त ग्रन्थोंका उद्गमस्थान है ।

वारहवें दृष्टिवादके अन्तर्गत परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका ये पांच प्रभेद हैं । इनमेंसे पूर्वगतके चौदह भेदोंमेंके द्वितीय आग्रायणीय पूर्वसे ही जीवहाणका बहुभाग और शेष पांच खंड संपूर्ण निकले हैं जिनका क्रमभेद नीचेके वंशवृक्षोंसे स्पष्ट हो जायगा ।


१. वारहवें अंग दृष्टिवादके चतुर्थ भेद पूर्वगतका द्वितीय भेद  
आग्रायणीय पूर्व.




इस वंशवृक्षसे स्पष्ट है कि आग्रायणीय पूर्वके चयनलब्धि अधिकारके चतुर्थ भेद कर्म प्रकृति पाहुड के चौबीस अनुयोगद्वारोंसे ही चार खंड निष्पन्न हुए हैं। इन्हींके बंधन अनुयोग-द्वार के एकभेद बंधविधानसे जीवद्वाराण का बहुभाग और तीसरा खंड बंधस्वामित्वाविचय किस प्रकार निकले यह आगेके वंश वृक्षोंसे स्पष्ट हो जायगा।

बंधकके ११ अनुयोगद्वारोंमें पांचवां द्रव्यप्रमाणानुगम है । वही जीवद्वानकी संख्या प्ररूपणाका उद्गमस्थान है ।


### २ बंधविधान



## ३ बंधविधान



## ४ दृष्टिवाद ( १२ वां अंग )



## ५ व्याख्याप्रज्ञप्ति ( पांचवां अंग )

गति आगति  
चूलिका ९

इन वंश-वृक्षोंसे पट्खंडागमका द्वादशांगश्रुतसे सम्बंध स्पष्ट हो जाता है और साथ ही साथ उस द्वादशांग वाणीके साहित्यके विस्तारका भी कुछ अनुमान किया जा सकता है ।

## ११. सत्प्ररूपणाका विषय

प्रस्तुत ग्रंथमें ही जीवद्वानकी उत्थानिकामें कहा गया है कि धरसेन गुरुसे सिद्धान्त सीखकर पुष्पदन्ताचार्य वनवास देशको गये और वहां उन्होंने 'विंशति' सूत्रोंकी रचना करके और उन्हें जिनपालितको पढ़ाकर भूतबलि आचार्य, जो द्रमिल देशको चले गये थे, के पास भेजा । भूतबलिने उन सूत्रोंको देखा और तत्पश्चात् द्रव्यप्रमाणसे प्रारम्भ करके शेष समस्त षट्खंडागमकी सूत्र-रचना की । इससे स्पष्ट है कि सत्प्ररूपणाके कुल सूत्र पुष्पदन्ताचार्यके बनाये हुए हैं । किंतु उन सूत्रोंकी संख्या विंशति अर्थात् बीस नहीं परन्तु एक सौ सत्तर है, तब प्रश्न उपस्थित होता है कि पुष्पदन्तके बनाये हुए बीस सूत्र कहनेसे ध्वलाकारका तात्पर्य क्या है ? ध्वलाकारने सत्प्ररूपणाके सूत्रोंका विवरण समाप्त होनेके अनन्तर जो ओघालाप प्रकरण लिखा है वह बीस प्ररूपणाओंको ध्यानमें रखकर ही लिखा गया है । और इस सिद्धान्तका जो सार नेमिचंद्र सि. च. ने गोम्मटसार जीवकाण्डमें संगृहीत किया है वह भी उन बीस प्ररूपणाओंके अनुसार ही है । वे बीस प्ररूपणाएं गोम्मटसारके शब्दोंमें इसप्रकार हैं—

गुणेर्जीवा' पज्जती' पाणा' सण्णा' य मग्गर्णोओ य ।

उवओगो' वि य कमसो वीसं तु परूवणा भणिया ॥ २ ॥

अर्थात् गुणस्थान, जीवसमास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, चौदह मार्गणाएं और उपयोग ये बीस प्ररूपणाएं हैं ।

अतएव विंशति सूत्रसे इन्हीं बीस प्ररूपणाओंका तात्पर्य ज्ञात होता है । इन बीसों प्ररूपणाओंका विषय यहां चौदह गुणस्थानों और चौदह मार्गणाओंके भीतर आजाता है ।

राग, द्वेष व मिथ्यात्व भावोंको मोह कहते हैं, और मन, वचन व कायके निमित्तसे आत्माके प्रदेशोंके चंचल होनेको योग कहते हैं, और इन्हीं मोह और योगके निमित्तसे दर्शन ज्ञान और चारित्ररूप आत्मगुणों की क्रमविकासरूप अवस्थाओंको गुणस्थान कहते हैं ।

ऐसे गुणस्थान चौदह हैं—१ मिथ्यात्व, २ सासादन, ३ मिश्र, ४ अविरतसम्यग्दृष्टि, ५ देशविरत, ६ प्रमत्तविरत, ७ अप्रमत्तविरत, ८ अपूर्वकरण, ९ अनिवृत्तिकरण, १० सूक्ष्मसाम्प-  
राय, ११ उपशान्तमोह, १२ क्षीणमोह, १३ सयोगकेवली और १४ अयोगकेवली ।

१. मिथ्यात्व अवस्थामें जीव अज्ञानके वशीभूत होता है और इसका कारण दर्शन मोहनीय कर्मका उदय है । सासादन और मिश्र मिथ्यात्व और सम्यग्दृष्टि के बीचकी अवस्थाएं हैं । चौथे

गुणस्थानमें सम्यक्त्व हो जाता है किन्तु चारित्र नहीं सुधरता । देशविरतका चारित्र थोड़ा सुधरता है, प्रमत्तविरतका चारित्र पूर्ण तो होता है, किन्तु परिणामोंकी अपेक्षा अप्रमत्तविरतसे चारित्रकी क्रमसे शुद्धि व वृद्धि होती जाती है । ग्यारहवें गुणस्थानमें चारित्रमोहनीयका उपशम हो जाता है और बारहवां गुणस्थान चारित्र मोहनीयके क्षयसे उत्पन्न होता है । तेरहवें गुणस्थानमें सम्यग्ज्ञानकी पूर्णता है किन्तु योगोंका सद्भाव भी है । अन्तिम गुणस्थानमें दर्शन, ज्ञान और चारित्रकी पूर्णता तथा योगोंका अभाव हो जानेसे मोक्ष हो जाता है ।

मार्गणा शब्दका अर्थ खोज करना है । अतएव जिन जिन धर्मविशेषोंसे जीवोंकी खोज या अन्वेषण किया जाय उन धर्मविशेषोंको मार्गणा कहते हैं । ऐसी मार्गणाएं चौदह हैं—गति, इन्द्रिय काय, योग, वेद कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संज्ञित्व, और आहार ।

१. गति चार प्रकारकी हैं— नरक, तिर्यच, मनुष्य और देव.

२. इन्द्रियां द्रव्य और भावरूप होती हैं और वे पांच प्रकारकी हैं— स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र.

३. एकेन्द्रियसे पांच इन्द्रियों तककी शरीररचनाको काय कहते हैं । एकेन्द्रिय जीव स्थावर और शेष त्रस कहलते हैं ।

४. आत्मप्रदेशोंकी चंचलताका नाम योग है इसीसे कर्मबंध होता है । योग तीन निमित्तोंसे होता है— मन, वचन और काय ।

५. पुरुष, स्त्री व नपुंसकरूप भाव व तद्रूप अवयवविशेषको वेद कहते हैं ।

६. जो आत्माके निर्मलभाव व चारित्रको कपै अर्थात् घात पहुंचावे वह कृपाय है । उसके क्रोध, मान, माया और लोभ ये चार भेद हैं ।

७. मति, श्रुति, अवधि, मनःपर्यय, केवल, तथा कुमति, कुश्रुति और कुअवधि रूपसे ज्ञान आठ प्रकारका होता है ।

८. मन व इन्द्रियोंकी वृत्तिके निरोधका नाम संयम है और यह संयम हिंसादिक पापोंकी निवृत्तिसे प्रकट होता है । सामायिक छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मसांपराय, यथाख्यात, संयमासंयम और असंयम, ये संयमके सात भेद हैं ।

९. चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल ये दर्शनके चार भेद हैं ।

१०. कषायसे अनुरंजित योगोंकी प्रवृत्ति व शरीरके वर्णोंका नाम लेख्या है। इसके छह भेद हैं—कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल।

११. जिस शक्तिके निमित्तसे आत्माके दर्शन, ज्ञान और चारित्र गुण प्रगट होते हैं उसे भव्यत्व कहते हैं। तदनुसार जीव भव्य व अभव्य होते हैं

१२. तत्त्वार्थके श्रद्धानका नाम सम्यक्त्व है, और दर्शनमोहके उपशम, क्षयोपशम, क्षायिक, सम्यग्मिथ्यात्व, सासादन व मिथ्यात्वरूप भावोंके अनुसार सम्यक्त्वमार्गणाके छह भेद हो जाते हैं।

१३. मनके द्वारा शिक्षादिके ग्रहण करनेको संज्ञा कहते हैं और ऐसी संज्ञा जिसमें हो वह संज्ञी कहलाता है। तदनुसार जीव संज्ञी व असंज्ञी होते हैं।

१४. औदारिक आदि शरीर और पर्याप्तिके ग्रहण करनेको आहार कहते हैं। तदनुसार जीव आहारक और अनाहारक होते हैं।

इन चौदह गुणस्थानों और मार्गणाओंका प्ररूपण करनेवाले सत्प्ररूपणाके अन्तर्गत १७७ सूत्र हैं जिनका विषयक्रम इसप्रकार है। प्रथम सूत्रमें पंचपरमेष्ठोको नमस्कार किया है। आगेके तीन सूत्रोंमें मार्गणाओंका प्रयोजन बतलाया गया है और उनका गति आदि नाम निर्देश किया गया है। ५, ६ और ७ वें सूत्रमें मार्गणाओंके प्ररूपण निमित्त आठ अनुयोगद्वारोंके जाननेकी आवश्यकता बतलाई है और उनके सत्, द्रव्यप्रमाण ( संख्या ) आदि नामनिर्देश किये हैं। ८ वें सूत्रसे इन अनुयोगद्वारोंमेंसे प्रथम सत् प्ररूपणाका विवरण प्रारम्भ होता है जिसके आदिमें ही ओघ और आदेश अर्थात् सामान्य और विशेष रूपसे विषयका प्रतिपादन करनेकी प्रतिज्ञा करके मिथ्यादृष्टि आदि चौदह गुणस्थानोंका निरूपण किया है जो ९ वें सूत्रसे २३ वें सूत्रतक चला है। २४ वें सूत्रसे विशेष अर्थात् गति आदि मार्गणाओंका विवरण प्रारम्भ हुआ है जो अन्त तक अर्थात् १७७ वें सूत्रतक चलता रहा है। गति मार्गणा ३२ वें सूत्रतक है। यहांपर नरकादि चारों गतियोंके गुणस्थान बतलाकर यह प्रतिपादन किया है कि एकेन्द्रियसे असंज्ञी पंचेन्द्रियतक शुद्ध तिर्यच होते हैं, संज्ञी मिथ्यादृष्टिसे संयतासंयत गुणस्थानतक मिश्र तिर्यच होते हैं, और इसी प्रकार मनुष्य भी। देव और नारकी असंयत गुणस्थानतक मिश्र अर्थात् परिणामोंकी अपेक्षा दूसरी तीन गतियोंके जीवोंके साथ समान होते हैं। प्रमत्तसंयतसे आगे शुद्ध मनुष्य होते हैं। ३३ वें सूत्रसे ३८ वें तक इन्द्रिय मार्गणाका कथन है और उससे आगे ४६ वें सूत्र तक कायका और फिर १०० वें सूत्र तक योगका कथन है। इस मार्गणामें योगके साथ पर्याप्ति अपर्याप्तियोंका भी प्ररूपण



क्रिया गया है । तत्पश्चात् ११० वें सूत्रतक वेद, ११४ तक कषाय, १२२ तक ज्ञान, १३० तक संयम, १३५ तक दर्शन, १४० तक लेश्यां, १४३ तक भव्य १७१ तक सम्यक्त्व १७४ तक संज्ञी और फिर १७७ तक आहार मार्गणाका विवरण है ।

प्रतियोंमें सूत्रोंका क्रमांक दो कम पाया जाता है, क्योंकि, वहां प्रथम मंगलाचरण व तीसरे सूत्र ' तं जहा ' की पृथक् गणना नहीं की ; किन्तु टीकाकारने स्पष्टतः उनका सूत्ररूपसे व्याख्यान किया है, अतएव हमने उन्हें सूत्र गिना है ।

टीकाकारने प्रथम मंगलाचरण सूत्रके व्याख्यानमें इस ग्रंथका मंगल, निमित्त, हेतु परिमाण, नाम और कर्ताका विस्तारसे विवेचन करके दूसरे सूत्रके व्याख्यानमें द्वादशांगका पूरा परिचय कराया है और उसमें द्वादशांग श्रुतसे जीवद्वानके गिन भिन्न अधिकारोंकी उत्पत्ति बतलाई है । चौथे सूत्रके व्याख्यानमें गति आदि चौदह मार्गणाओंके नामोंकी निरुक्ति और सार्थकता बतलाते हुए उनका सामान्य परिचय करा दिया गया है । उसके पश्चात् विषयका सूत्र विस्तार सहित न्यायशैलीसे विवेचन किया है । टीकाकारकी शैली सर्वत्र प्रथम उठाकर उनका समाधान करनेकी रही है । इस प्रकार प्रस्तुत ग्रंथमें कोई छह सौ शंकाएं उठाई गई हैं और उनके समाधान किये गये हैं । उदाहरणों, दृष्टान्तों, युक्तियों और तर्कों द्वारा टीकाकारने विषयको स्पष्ट ही बताना है और स्पष्ट किया है, किन्तु ये सब युक्ति और तर्क, जैसा हम ऊपर कह आये हैं, आगमकी मर्यादाको लिए हुए हैं, और आगम ही यहां सर्वोपरि प्रमाण है । टीकाकारद्वारा व्याख्यात विषयकी गंभीरता, सूक्ष्मता और तुलनात्मक विवेचना हम अगले खंडमें करेंगे जिसमें सप्ररूपणाका आलाप प्रकरण भी पूरा हो जावेगा । तबतक पाठक स्वयं सूत्रकार और टीकाकारके शब्दोंका स्वाध्याय और मनन करनेकी कृपा करें ।

## १२. ग्रंथकी भाषा

प्रस्तुत ग्रंथ रचनाकी दृष्टिसे तीन भागोंमें बटा हुआ है । प्रथम पुष्पदन्ताचार्यके सूत्र, दूसरे वीरसेनाचार्यकी टीका और तीसरे टीकामें स्थान स्थान पर उद्धृत किये गये प्राचीन गद्य और पद्य । सूत्रोंकी भाषा आदिसे अन्त तक प्राकृत है और इन सूत्रोंकी संख्या है १७७ । वीरसेनाचार्यकी टीकाका लगभग तृतीय भाग प्राकृतमें और शेष भाग संस्कृतमें है । उद्धृत पद्योंकी संख्या २१६ है जिनमें १७ संस्कृतमें और शेष सब प्राकृतमें हैं । इससे अनुमान किया जा सकता है कि वीरसेनाचार्यके सन्मुख जो जैन साहित्य उपस्थित था उसका अधिकांश भाग प्राकृतमें ही था । किन्तु उनके समयके लगभग जैन साहित्यमें संस्कृतका प्राधान्य

हो गया और उनकी टीकामें जो संस्कृत-प्राकृतका परिमाण पाया जाता है वह प्रायः उन दोनों भाषाओंकी तात्कालिक-आपेक्षिक प्रचलताका द्योतक है। इस समयसे प्राकृतका बल घट चला और संस्कृतका बढ़ा, यहांतक कि आजकल जैनियोंमें प्राकृत भाषाके पठन पाठनकी बहुत ही मन्दता है। दिगम्बर समाजके विद्यालयोंमें तो व्यवस्थित रूपसे प्राकृत पढ़ानेकी सर्वथा व्यवस्था रही ही नहीं। ऐसी अवस्थामें प्रस्तुत ग्रंथका परिचय कराते समय प्राकृत भाषाका परिचय करा देना भी उचित प्रतीत होता है। प्राकृत साहित्यमें प्राकृत भाषा मुख्यतः पांच प्रकारकी पाई जाती है-- मागधी, अर्धमागधी, शौरसेनी, महाराष्ट्री, और अपभ्रंश।

महावीरस्वामीके समयमें अर्थात् आजसे लगभग ढाई हजार वर्ष पूर्व जो भाषा मगध प्रांतमें प्रचलित थी वह मागधी कहलाती है। इस भाषाका कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं पाया जाता। किंतु प्राकृत व्याकरणोंमें इस भाषाका स्वरूप बतलाया गया है, और कुछ शिलालेखों और नाटकमें इस भाषाके उदाहरण मिलते हैं जिनपर से इस भाषाकी तीन विशेषताएं स्पष्ट समझमें आ जाती हैं--

१. र के स्थानमें ल, जैसे, राजा-लाजा, नगर-णगल,

२. श, ष और सके स्थानपर श। जैसे, शम-शम, दासी-दाशी, मनुष-मनुश।

३. संज्ञाओंके कर्ताकारक एकवचन पुल्लिङ्ग रूपमें ए। जैसे, देवः-देवे, नरः-णले, उदाहरण--

अले कुंभीलआ ! कहेंहि, कहिं तुए एशे मणिवंधणुक्किणगामहेए .लाअकीलए अंगुली-  
अए शमाशादिए । ( शकुंतला )

‘ अरे कुंभीलक ! कह, कहां तुने इस मणिवंध और उत्कीर्ण-नाम राजकीय अंगुलीको पाया ’ ।

दूसरे प्रकारकी प्राकृत अर्धमागधी इस कारण कहलाई कि उसमें मागधीके आधे लक्षण पाये जाते हैं और क्योंकि, संभवतः वह आधे मगध देशमें प्रचलित थी। इसी भाषामें अर्धमागधी प्राचीन जैन सूत्रोंकी रचना हुई थी और इसका रूप अब श्वेताम्बरीय सूत्र-ग्रंथोंमें पाया जाता है, इसीलिये डा. याकोबीने इसे जैन प्राकृत कहा है। इसमें ष और स के स्थानपर श न होकर सर्वत्र स ही पाया जाता है; र के स्थानपर ल तथा कर्ता कारकमें ‘ए’ विकल्पसे होता है, अर्थात् कहीं होता है और कहीं नहीं होता, और अधिकरण कारकका रूप ‘ए’ व ‘म्मि’ के अतिरिक्त ‘अंसि’ लगाकर भी बनाया जाता है।

उदाहरणः—

कोहाइ माणं हणिया य वीरे लोभस्स पासे निरयं महंतं ।

तम्हा हि वीरे विरओ वहाओ छिदेज्ज सोयं लहुभूयगामी ॥ ( आचारांग )

क्रोधादि व मान का हनन करके महावीरने लोभके महान् पाशको तोड़ डाला । इस प्रकार वीर वधसे विरत होकर भूतगामी शोकका छिन्दन करें ।

सुसाणंसि वा सुन्नागारेंसि वा गिरिगुहंसि वा रुक्खमूलम्मि वा । ( आचारांग )

श्मशानमें या शून्यागारमें या गिरिगुफामें व वृक्षके मूलमें ( साधु निवास करे )

ये मागधीकी प्रवृत्तियां अर्धमागधीमें भी धीरे धीरे कम होती गई हैं ।

प्राचीन शूरसेन अर्थात् मथुराके आसपासके प्रदेशकी भाषाका नाम शौरसेनी है । शौरसेनी वैयाकरणोंने इस भाषाका जैसा स्वरूप बतलाया है वैसा संस्कृत नाटकोंमें कहीं कहीं मिलता है, पर इसका स्वतंत्र साहित्य दिगम्बर जैन ग्रंथोंमें ही पाया जाता है । प्रवचनसारादि कुंदकुंदाचार्यके ग्रंथ इसी प्राकृतमें हैं । कहा जा सकता है कि यह दिगम्बर जैनियोंकी मुख्य प्राचीन साहित्यिक भाषा है । किन्तु इस भाषाका रूप कुछ विशेषताओंको लिये हुए होनेसे उसका वैयाकरणोंकी शौरसेनीसे पृथक् निर्देश करनेके हेतु उसे 'जैन शौरसेनी' कहनेका रिवाज हो गया है । जैसा कि आगे चलकर बतलाया जायगा, प्रस्तुत ग्रंथकी प्राकृत मुख्यतः यही है ।

शौरसेनीकी विशेषताएं ये हैं कि उसमें र का ल क्वचित् ही होता है, तीनों सकारों के स्थानपर स ही होता है, और कर्ताकारक पुल्लिङ्ग एकवचनमें ओ होता है । इसकी अन्य विशेषताएं ये हैं कि शब्दोंके मध्यमें त के स्थानपर द, थ के स्थानपर ध, भ के स्थानपर कहीं कहीं ह और पूर्वकालिक कृदन्तको रूप संस्कृत प्रत्यय त्वा के स्थानपर त्ता, इअ या दूण होता है । जैसे—

सुतः—सुदो; भवति—भोदि या होई; कथम्—कधं; कृत्वा—करित्ता, करिअ, करिदूण; आदि

उदाहरण—

रत्तो वंधदि कम्मं मुच्चदि कम्मेहिं राग-रहिदप्पा ।

एसो वंधसमासो जीवाणं जाण णिच्छयदो ॥ प्रवच. २, ८७.

णो सद्वहंति सोक्खं सुहेसु परमं ति विगद-श्रादीणं ।

सुणिदूण ते अभव्वा भव्वा वा तं पडिच्छंति ॥ प्रवच. १. ६२.

अर्थात् आत्मा रक्त होकर कर्म बांधता है तथा रागरहित होकर कर्मोंसे मुक्त होता है । यह जीवोंका बंधसमाप्त है, ऐसा निश्चय जानो ।

घातिया कर्मोंसे रहित ( केवली भगवान् ) का सुख ही सुखोंमें श्रेष्ठ है, ऐसा सुनकर जो श्रद्धा नहीं करते वे अभव्य हैं, और जो भव्य हैं वे उसे मानते हैं ।

महाराष्ट्री प्राकृत प्राचीन महाराष्ट्रीकी भाषा है जिसका स्वरूप गाथासप्तशती, सेतुबंध, गउडवह आदि काव्योंमें पाया जाता है । संस्कृत नाटकोंमें जहां प्राकृतका प्रयोग होता है वहां पात्र वातचीत तो शौरसेनीमें करते हैं और गाते महाराष्ट्रीमें हैं, ऐसा विद्वानोंका मत है । इसका उपयोग जैनियोंने भी खूब किया है । पउमचरिअं, समराइच्चकहा, सुरसुंदरीचरिअं, पासणाहचरिअं आदि काव्य और श्वेताम्बर आगम सूत्रोंके भाष्य, चूर्णी, टीका, आदिकी भाषा महाराष्ट्री प्राकृत है । पर यहां भी जैनियोंने इधर उधरसे अर्धमागधीकी प्रवृत्तियां लाकर उसपर अपनी छाप लगा दी है, और इस कारण इन ग्रंथोंकी भाषा जैन महाराष्ट्री कहलाती है । जैन महाराष्ट्रीमें सप्तशती व सेतुबंध आदिकी भाषासे विलक्षण आदि व, द्वित्वमें न और लुप्त वर्णके स्थानपर य श्रुतिका उपयोग हुआ है, जैसा जैन शौरसेनीमें भी होता है । महाराष्ट्रीके विशेष लक्षण जो उसे शौरसेनीसे पृथक् करते हैं, ये हैं कि यहां मध्यवर्ती त का लोप होकर केवल उसका स्वर रह जाता है, किंतु वह द में परिवर्तित नहीं होता । उसीप्रकार थ यहां ध में परिवर्तित न होकर ह में परिवर्तित होता है, और क्रियाका पूर्वकालिक रूप ऊण लगाकर बनाया जाता है । जैन महाराष्ट्रीमें इन विशेषताओंके अतिरिक्त कहीं कहीं र का ल व प्रथमान्त ए आजाता है । जैसे—

जानाति-जाणइ; कथम्-कहं; भूत्वा-होऊण; आदि ।

उदाहरणार्थ—

सव्वायरेण चल्लणे गुरुस्स नमिऊण दसरहो राया ।

पविसरइ नियय-नयरिं साएयं जण-धणाइण्णं ॥

( पउम. च. ३१, ३८, पृ. १३२. )

अर्थात् सब प्रकारसे गुरुके चरणोंको नमस्कार करके दशरथ राजा जन-धन-परिपूर्ण अपनी नगरी साकेतमें प्रवेश करते हैं ।

क्रमविकासकी दृष्टिसे अपभ्रंश भाषा प्राकृतका सबसे अन्तिम रूप है; उससे आगे फिर प्राकृत वर्तमान हिन्दी, गुजराती, मराठी आदि भाषाओंका रूप धारण कर लेती है । इस भाषापर अपभ्रंश भी जैनियों का प्रायः एकलत्र अधिकार रहा है । जितना साहित्य इस भाषाका अभी-

तक प्रकाशमें आया है उसमेंका कमसे कम तीन चौथाई हिस्सा दिगम्बर जैन साहित्यका है । कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि जितनी प्राकृत भाषाएं थीं उन सबका विकसित होकर एक एक अपभ्रंश बना । जैसे, मागधी अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश, महाराष्ट्री अपभ्रंश आदि । बौद्ध चर्यापदों व विद्यापतिकी कीर्तिलतामें मागधी अपभ्रंश पाया जाता है । किन्तु विशेष साहित्यिक उन्नति जिस अपभ्रंशकी हुई वह शौरसेनी महाराष्ट्री मिश्रित अपभ्रंश है, जिसे कुछ वैयाकरणोंने नागर अपभ्रंश भी कहा है, क्योंकि, किसी समय संभवतः वह नागरिक लोगोंकी बोलचालकी भाषा थी । पुष्पदन्तकृत महापुराण, गायकुमारचरित, जसहरचरित, तथा अन्य कवियोंके करकंडचरित, भविसयत्तकहा, सणकुमारचरित, सावयधम्मदोहा, पाहुडदोहा, इसी भाषाके काव्य हैं । इस भाषाको अपभ्रंश नाम वैयाकरणोंने दिया है, क्योंकि वे स्थितिपालक होनेसे भाषाके स्वाभाविक परिवर्तनको विकाश न समझकर विकार समझते थे । पर इस अपमानजनक नामको लेकर भी यह भाषा खूब फली फूली और उसीकी पुत्रियां आज समस्त उत्तर भारतका काजव्यवहार सम्हाले हुए हैं ।

इस भाषाकी संज्ञा व क्रियाकी रूपरचना अन्य प्राकृतोंसे बहुत कुछ भिन्न हो गई है । उदाहरणार्थ, कर्ता व कर्म कारक एकवचन, उकारान्त होता है जैसे, पुत्रो, पुत्रम्—पुत्तु; पुत्रेण—पुत्ते; पुत्राय, पुत्रात्, पुत्रस्य—पुत्तद्दु; पुत्रे—पुत्ते, पुत्ति, पुत्तिहिं, आदि ।

क्रियामें, करोमि—करउं; कुर्वन्ति—करहिं; कुरुथ—करहु, आदि ।

इसमें नये नये छन्दोंका प्रादुर्भाव हुआ जो पुरानी संस्कृत व प्राकृतमें नहीं पाये जाते, किन्तु जो हिन्दी, गुजराती, मराठी आदि आधुनिक भाषाओंमें सुप्रचलित हुए । अन्त-यमक अर्थात् तुकबंदी इन छन्दोंकी एक बड़ी विशेषता है । दोहा, चौपाई आदि छन्द यहांसे ही हिन्दीमें आये ।

अपभ्रंशका उदाहरण—

सुहु सारउ मणुयत्तणहं तं सुहु धम्मायत्तु ।

धम्मु वि रे जिय तं करहि जं अरहंतइं वुत्तु ॥

सावयधम्मदोहा ॥ ४ ॥

अर्थात् सुख मनुष्यत्वका सार है और वह सुख धर्मके आधीन है । रे जीव ! वह धर्म कर जो अरहंतका कहा हुआ है ।

इन विशेष लक्षणोंके अतिरिक्त स्वर और व्यंजनसम्बन्धी कुछ विलक्षणताएं सभी प्राकृतोंमें समानरूपसे पाई जाती हैं । जैसे, स्वरोंमें ऐ और औ, ऋ और लृ का अभाव और उनके स्थान पर क्रमशः अइ, अउ, अथवा ए, ओ, तथा अ या इ का आदेश; मध्यवर्ती

व्यंजनोंमें अनेक प्रकारके परिवर्तन व उनका लोप, संयुक्त व्यंजनोंका असंयुक्त या द्वित्वरूप परिवर्तन, पंचमाक्षर ङ्, ञ् आदि सबके स्थानपर हलन्त अवस्थामें अनुस्वार व स्वरसहित अवस्थामें ण में परिवर्तन । ये परिवर्तन प्राकृत जितनी पुरानी होगी उतने कम और जितनी अर्वाचीन होगी उतनी अधिक मात्रामें पाये जाते हैं । अपभ्रंश भाषामें ये परिवर्तन अपनी चरम सीमापर पहुँच गये और वहाँसे फिर भाषाके रूपमें विपरिवर्तन हो चला ।

इन सब प्राकृतोंमें प्रस्तुत ग्रंथकी भाषाका ठीक स्थान क्या है इसके पूर्णतः निर्णय करनेका अभी समय नहीं आया, क्योंकि, समस्त ध्वल सिद्धान्त अमरावतीकी प्रतिके १४६५ पत्रोंमें समाप्त हुआ है। प्रस्तुत ग्रंथ उसके प्रथम ६५ पत्रोंमात्रका संस्करण है, अतएव यह उसका वाईसवां अंश है । तथा ध्वला और जयध्वलाको मिलाकर वीरसेनकी रचनाका यह केवल चालीसवां अंश बैठेगा । सो भी उपलभ्य एकमात्र प्राचीन प्रतिकी अभी अभी की हुई पाँचवीं छठवीं पीढीकी प्रतियोंपरसे तैयार किया गया है और मूल प्रतिके मिलानका सुअवसर भी नहीं मिल सका । ऐसी अवस्थामें इस ग्रंथकी प्राकृत भाषा व व्याकरणके विषयमें कुछ निश्चय करना बड़ा कठिन कार्य है, विशेषतः जब कि प्राकृतोंका भेद बहुत कुछ वर्णविपर्ययके ऊपर अवलम्बित है । तथापि इस ग्रंथके सूक्ष्म अध्ययनादिकी सुविधाके लिये व इसकी भाषाके महत्वपूर्ण प्रश्नकी ओर विद्वानोंका ध्यान आकर्षित करनेके हेतु उसकी भाषाका कुछ स्वरूप बतलाना यहां अनुचित न होगा ।

१. प्रस्तुत ग्रंथमें त्र बहुधा द में परिवर्तित पाया जाता है, जैसे, सूत्रोंमें—गदि-गति; चदु-चतुः; वीदराग-वीतराग; मदि-मति, आदि । गाथाओंमें—पव्वद-पर्वत; अदीद-अतीत; तदिय-तृतीय, आदि । टीकामें—अवदारो-अवतारः; एदे-एते; पदिद-पतित; चितिदं-चितितम्; संठिदं-संस्थितम्; गोदम-गौतम, आदि ।

किन्तु अनेक स्थानोंपर त्र का लोप भी पाया जाता है, यथा—सूत्रोंमें—गइ-गति; चउ-चतुः; वीयराय-वीतराग; जोइसिय-ज्योतिष्क; आदि । गाथाओंमें—हेऊ-हेतुः; पयई-प्रकृतिः, आदि । टीकामें—सम्मइ-सम्मति; चउव्विह-चतुर्विध; सव्वाइ-सर्वधाति; आदि ।

क्रियाके रूपोंमें भी अधिकतः ति या ते के स्थानपर दि या दे पाये जाते हैं । जैसे, ( सूत्रोंमें अत्थि के सिवाय दूसरी कोई क्रिया नहीं है ) । गाथाओंमें—णयदि-नयति; छिज्जदे-छिद्यते; जाणदि-जानाति; लिपदि-लिपति; रोचेदि-रोचते; सद्दहदि-श्रद्धधाति; कुणदि-करोति; आदि । टीकामें—कीरदे, कीरदि-क्रियते; खिवदि-क्षिपति; उच्चदि-उच्यते; जाणदि-जानाति; परूवेदि-प्ररूपयति; वददि-वदति; विरुज्जदे-विरुध्यते; आदि ।

किन्तु त का लोप होकर संयोगी स्वरमात्र शेष रहनेके भी उदाहरण बहुत मिलते हैं यथा— गाथाओंमें—होइ, हइ-भवति; कहेइ-कथयति; वक्खाणइ-व्याख्याति; भमइ भ्रमति; भण्णइ-भण्यते, आदि । टीकामें—कुणइ-करोति; वण्णेइ-वर्णयति; आदि ।

२. क्रियाओंके पूर्वकालिक रूपोंके उदाहरण इसप्रकार मिलते हैं— इय-छडिय-त्यक्त्वा । तु-कट्टु-कृत्वा । अ-अहिगम्म-अधिगम्य । दूण-अस्सिदूण-आश्रित्य । ऊण-अस्सिऊण, ददूण, मोत्तूण, दाऊण, चित्तिऊण, आदि ।

३. मध्यवर्ती क के स्थानमें ग आदेशके उदाहरण मिलते हैं । यथा— सूत्रोंमें—वेदग-वेदक । गाथामें—एगदेस-एकदेश, टीकामें—एगत्त-एकत्व; वंधग-वन्धक; अप्पावहुग-अल्पबहुत्व; आगास-आकाश; जाणुग-ज्ञायक; आदि ।

किन्तु बहुधा मध्यवर्ती क का लोप पाया जाता है । यथा— सूत्रोंमें—सांपराइय-साम्परायिक; एइदिय-एकेन्द्रिय; सामाइय-सामायिक; काइय-कायिक । गाथाओंमें—तित्थयर-तीर्थकर; वायरणी-व्याकरण; पर्यई-प्रकृति; पंचएण-पंचकेन; समाइण्ण-समाकीर्ण; अहियार-अधिकार । टीकामें—एय-एक; परियम्म-परिकर्म; किदियम्म-कृतिकर्म; वायरण-व्याकरण; भट्टारएण-भट्टारकेण, आदि ।

४. मध्यवर्ती क, ग, च, ज, त, द, और प, के लोपके तो उदाहरण सर्वत्र पाये ही जाते हैं, किन्तु इनमेंसे कुछके लोप न होनेके भी उदाहरण मिलते हैं । यथा— ग—सजोग-सयोग; संजोग-संयोग; चाग-त्याग; जुग-युग; आदि । त—वितीद-व्यतीत । द—छट्टुमत्थ-छट्टुमत्थ वादर-वादर; जुगादि-युगादि; अणुवाद-अनुवाद; वेद, उदार, आदि ।

५. थ और ध के स्थानमें प्रायः ह पाया जाता है, किंतु कहीं कहीं थ के स्थानमें ध और ध के स्थानमें थ ही पाया जाता है । यथा—पुध-पृथक्; कधं-कथम्; ओधि-अवधि; ( सू. १३१ ) सोधम्म-सौधर्म ( सू. १६९ ); साधारण ( सू. ४१ ); कदिविधो-कृतिविधः; ( गा. १८ ) आधार ( टी. १९ )

६. संज्ञाओंके पंचमी-एकवचनके रूपमें सूत्रोंमें व गाथाओंमें आ तथा टीकामें बहुतायतसे दो पाया जाता है । यथा— सूत्रोंमें—णियमा-नियमात् । गाथाओंमें—मोहा-मोहात् । तम्हा-तस्मात् । टीकामें—णाणादो, पढमादो, केवलादो, विदियादो, खेत्तदो, कालदो, आदि ।

संज्ञाओंके सप्तमी-एकवचनके रूपमें णिम् और णिह् दोनों पाये जाते हैं । यथा— सूत्रोंमें—एकम्मि ( ३६, ४३, १२९, १४८, १४९ ) आदि । एकम्मिह् ( ६३, १२७ ) ।

गाथाओंमें—एकम्मि, लोयम्मि, पक्खम्मि, मदम्मि, आदि । टीकामें—वत्थुम्मि, चइदम्मि, जम्मि, आदि ।

दो गाथाओंमें कर्ताकारक एकवचनकी विभक्ति उ भी पाई जाती है । जैसे थावरु ( १३५ ) एककु ( १४६ ) यह स्पष्टतः अपभ्रंश भाषाकी ओर प्रवृत्ति है और उस लक्षणका शक ७३८ से पूर्वके साहित्यमें पाया जाना महत्वपूर्ण है ।

७. जहां मध्यवर्ती व्यंजनका लोप हुआ है वहां यदि संयोगी शेष स्वर अ अथवा आ हो तो बहुधा य श्रुति पायी जाती है । जैसे—तित्थयर-तीर्थकर; पयत्थ-पदार्थ; वेयणा-वेदना; गय-गत; गज; विमगया-विमार्गगाः, आहारया-आहारकाः, आदि ।

अ के अतिरिक्त ' ओ ' के साथ भी और कचित् ऊ व ए के साथ भी हस्तलिखित प्रतियोंमें य श्रुति पाई गई है । किन्तु हेमचन्द्रके नियमका तथा जैन शौरसेनीके अक्षयत्र प्रयोगोंका विचार करके नियमके लिए इन स्वरोंके साथ य श्रुति नहीं रखनेका प्रस्तुत ग्रंथमें प्रयत्न किया गया है । तथापि इसके प्रयोगकी ओर आगे हमारी सूक्ष्मदृष्टि रहेगी । ( देखो ऊपर पाठसंशोधनके नियम पृ. १३ )

उ के पश्चात् लुप्तवर्णके स्थानमें बहुधा व श्रुति पाई जाती है । जैसे—वालुवा-वालुकाः; बहुवं-बहुवंक; विहुव-विधूत, आदि । किन्तु ' पञ्जव ' में विना उ के सामीप्यके भी नियमसे व श्रुति पाई जाती है ।

८. वर्ण विकारके कुछ विशेष उदाहरण इस प्रकार पाये जाते हैं—सूत्रोंमें—अङ्गाइज्ज-अर्धतृतीय ( १६३ ), अणियोग-अनुयोग ( ५ ); आउ-अप् ( ३९ ) इड्ढि-ऋड्ढि ( ५९ ) ओधि, ओहि-अवधि ( ११५, १३१ ); ओरालिय-औदारिक ( ५६ ); छदुमत्थ-छदुमत्थ ( १३२ ); तेउ-तेजस ( ३९ ); पज्जव-पर्याय ( ११५ ); मोस-मृषा ( ४९ ); वेंतर-व्यन्तर ( ९६ ); णेरइय-नारक, नारकी ( २५ ); गाथाओंमें—इक्खय-इक्खाकु ( ५० ); उराल-उदार ( १६० ); इंगाल-अंगार ( १५१ ); खेतण्हू-क्षेत्रज्ञ ( ५२ ); चाग-त्याग ( ९२ ); फदय-स्पर्धक ( १२१ ); सत्सेदिम-संस्वेदज ( १३९ ) ।

गाथाओंमें आए हुए कुछ देशी शब्द इस प्रकार हैं—कायोली-वीवध ( ८८ ); धुम्मंत-भ्रमत् ( ६३ ); चोक्खो-शुद्ध ( २०७ ); णिमिण-आधार ( ७ ); मेज्ज-भीरु ( २०१ ); मेर-माला, मर्यादा ( ९० ) ।

टीकाके कुछ देशी शब्द—अल्लियइ-उपसर्पति ( २२० ); चडविय-आरूढ ( २२१ ); छडिय त्यक्खा ( २११ ); णिसुडिय-नत ( ६८ ); वोलाविय-व्यतीत्य ( ६८ ) ।

१. अक्षरों य श्रुति: ( ८, १, १८०, ) टीका—कश्चिद् भवति, पियइ ॥ १८० ॥

२. ओं उपाध्ये; प्रवचनसारकी भूमिका, पृ. ११५



इन थोड़ेसे उदाहरणोंपरसे ही हम सूत्रों, गाथाओं व टीकाकी भाषा के विषयमें कुछ निर्णय कर सकते हैं। यह भाषा मागधी या अर्धमागधी नहीं है, क्योंकि उसमें न तो अनिवाय रूपसे, और न विकल्पसे ही र के स्थान पर ल, व स के स्थानपर श पाया जाता, और न कर्ताकारक एकवचन में कहीं ए मिलता।

त के स्थानपर द, क्रियाओंके एकवचन वर्तमान कालमें दि व दे, पूर्वकालिक क्रियाओंके रूपमें तु व दूण, अपादानकारककी विभक्ति दो तथा अधिकरणकारककी विभक्ति म्हि, क के स्थानपर ग, तथा थ के स्थानपर ध आदेश, तथा द, और ध का लोपाभाव, ये सब शौरसेनीके लक्षण हैं। तथा त का लोप, क्रियाके रूपोंमें इ, पूर्वकालिक क्रियाके रूपमें ऊण, ये महाराष्ट्रीके लक्षण हैं। ये दोनों प्रकारके लक्षण सूत्रों, गाथाओं व टीका सभीमें पाये जाते हैं। सूत्रोंमें जो वर्णविकारके विशेष उदाहरण पाये जाते हैं वे अर्धमागधीकी ओर संकेत करते हैं। अतः कहा जा सकता है कि सूत्रों, गाथाओं व टीकाकी भाषा शौरसेनी प्राकृत है, उसपर अर्धमागधी का प्रभाव है, तथा उसपर महाराष्ट्रीका भी संस्कार पड़ा है। ऐसी ही भाषाको पिशेल आदि पाश्चमिक विद्वानोंने जैन शौरसेनी नाम दिया है।

सूत्रोंमें अर्धमागधी वर्णविकार का बाहुल्य है। सूत्रोंमें एक मात्र क्रिया 'अत्थि' आती है और वह एकवचन व बहुवचन दोनोंकी बोधक है। यह भी सूत्रोंके प्राचीन आर्ष प्रयोग का उदाहरण है।

गाथाएं प्राचीन साहित्यके भिन्न भिन्न ग्रंथोंकी भिन्न भिन्न कालकी रची हुई अनुमान की जा सकती हैं। अतएव उनमें शौरसेनी व महाराष्ट्रीपनकी मात्रामें भेद है। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि भाषा जितनी अधिक पुरानी है उतना उसमें शौरसेनीपन अधिक है और जितनी अर्वाचीन है उतना महाराष्ट्रीपन। महाराष्ट्रीका प्रभाव साहित्यमें पीछे पीछे अधिकाधिक पड़ता गया है। उदाहरणके लिये प्रस्तुत ग्रंथ की गाथा नं० २०३ लीजिये जो यहां इसप्रकार पाई जाती है—

रूसदि णिंददि अण्णे दूसदि बहुसो य सोय-भय-वहुल्लो ।

असुयदि परिभवदि परं पसंसदि अप्पयं बहुसो ॥

इसी गाथाने गोम्मटसार ( जीवकांड ५१२ ) में यह रूप धारण कर लिया है—

रूसइ णिंदइ अण्णे दूसइ बहुसो य सोय-भय-वहुलो ।

असुयइ परिभवइ परं पसंसए अप्पयं बहुसो ॥

यहांकी गाथाओंका गोम्मटसारमें इसप्रकारका महाराष्ट्री परिवर्तन बहुत पाया जाता है। किन्तु कहीं कहीं ऐसा भी पाया जाता है कि जहां इस ग्रंथमें महाराष्ट्रीपन है वहां गोम्मटसारमें

शौरसेनीपन स्थिर है। यथा, गाथा २०७ में यहां 'खमइ बहुअं हि' है वहां गो. जी. ५१६ में 'खमदि बहुगं पि' पाया जाता है। गाथा २१० में यहां 'एय-णिगोद' है, किन्तु गोम्मटसार १९६ में उसी जगह 'एग-णिगोद' है। ऐसे स्थलोंपर गोम्मटसारमें प्राचीन पाठ रक्षित रह गया प्रतीत होता है। इन उदाहरणोंसे यह भी स्पष्ट है कि जबतक प्राचीन ग्रंथोंकी पुरानी हस्तलिखित प्रतियोंकी सावधानीसे परीक्षा न की जाय और यथेष्ट उदाहरण सन्मुख उपस्थित न हों तबतक इनकी भाषाके विषयमें निश्चयतः कुछ कहना अनुचित है।

टीका का प्राकृत गद्य प्रौढ, महावरेदार और विषयके अनुसार संस्कृतकी तर्कशैलीसे प्रभावित है। सन्धि और समासोंका भी यथास्थान बाहुल्य है। यहां यह बात उल्लेखनीय है कि सूत्र-ग्रंथोंको या स्फुट छोटी मोटी खंड रचनाओंको छोड़कर दिगम्बर साहित्यमें अभीतक यही एक ग्रंथ ऐसा प्रकाशित हो रहा है जिसमें साहित्यिक प्राकृत गद्य पाया जाता है। अभी इस गद्यका बहुत बड़ा भाग आगे प्रकाशित होने वाला है। अतः ज्यों ज्यों वह साहित्य सामने आता जायगा त्यों त्यों इस प्राकृतके स्वरूपपर अधिकाधिक प्रकाश डालनेका प्रयत्न किया जायगा।

इसी कारण ग्रंथकी संस्कृत भाषाके विषयमें भी अभी हम विशेष कुछ नहीं लिखते। केवल इतना सूचित कर देना पर्याप्त समझते हैं कि ग्रंथकी संस्कृत शैली अत्यन्त प्रौढ, सुपरिमाजित और न्यायशास्त्रके ग्रंथोंके अनुरूप है। हम अपने पाठ-संशोधन के निममोंमें कह आये हैं कि प्रस्तुत ग्रंथमें अरिहंतः शब्द अनेकवार आया है और उसकी निरुक्ति भी अरिहिननाद् अरिहंतः आदि की गई है। संस्कृत व्याकरणके नियमानुसार हमें यह रूप विचारणीय ज्ञात हुआ। अर्ह् धातुसे बना अर्हत् होता है और उसके एकवचन व बहुवचनके रूप क्रमशः अर्हन् और अर्हन्तः होते हैं। यदि अरि+हन् से कर्तावाचक रूप बनाया जाय तो अरिहन्तृ होगा जिसके कर्ता एकवचन व बहुवचन रूप अरिहन्ता और अरिहन्तारः होना चाहिये। चूंकि यहां व्युत्पत्तिमें अरिहिननात् कहा गया है अतः अर्हन् व अर्हन्तः शब्द ग्रहण नहीं किया जा सकता। हमने प्रस्तुत ग्रंथमें अरिहन्ता कर दिया है, किन्तु है यह प्रश्न विचारणीय कि संस्कृतमें अरिहन्तः जैसा रूप रखना चाहिये या नहीं। यदि हम हन् धातुसे बना हुआ 'अरिहा' शब्द ग्रहण करें और पाणिनि के 'मघवा बहुलम्' सूत्रका इस शब्दपर भी अधिकार चलावें तो बहुवचनमें अरिहन्तः हो सकता है। संस्कृतभाषा की प्रगतिके अनुसार यह भी असंभव नहीं है कि यह अकारान्त शब्द अर्हत् के प्राकृत रूप अरहंत, अरिहंत, अरुहंत परसे ही संस्कृतमें रूढ़ हो गया हो। विद्वानोंका मत है कि गोविन्द शब्द संस्कृतके गोपेन्द्र का प्राकृत रूप है। किन्तु पीछे से संस्कृतमें भी वह रूढ़ हो गया और उसीकी व्युत्पत्ति संस्कृतमें दी जाने लगी। उस अवस्थामें अरिहन्तः शब्द अकारान्त जैन संस्कृतमें रूढ़ माना जा सकता है। वैयाकरणोंको इसका विचार करना चाहिये।

## उपसंहार.

अन्तिम तीर्थंकर श्रीमहावीरस्वामीके वचनोंकी उनके प्रमुख शिष्य इन्द्रभूति गांतमने द्वादशांग श्रुतके रूपमें ग्रंथ रचना की जिसका ज्ञान आचार्य परम्परासे क्रमशः कम होते हुए धरसेनाचार्यतक आया । उन्होंने बारहवें अंग दृष्टिवादके अन्तर्गत पूर्वोंके तथा पाचवें अंग व्याख्याप्रज्ञप्तिके कुछ अंशोंको पुष्पदन्त और भूतबलि आचार्योंको पढाया । और उन्होंने वीर निर्वाण के पश्चात् ७ वीं शताब्दिके लगभग सत्कर्मपाहुडकी छह हजार सूत्रोंमें रचना की । इसीकी प्रसिद्धि षट्खंडागम नामसे हुई । इसकी टीकाएं क्रमशः कुन्दकुन्द, शामकुंड, तुम्बुलूर, समन्तभद्र और बप्पदेवने बनाई, ऐसा कहा जाता है, पर ये टीकाएं अब मिलती नहीं हैं । इनके अन्तिम टीकाकार वीरसेनाचार्य हुए जिन्होंने अपनी सुप्रसिद्ध टीका धवलाकी रचना शक ७३८ कार्तिक शुक्ल १३ को पूरी की । यह टीका ७२ हजार श्लोक प्रमाण है ।

षट्खंडागमका छठवां खंड महाबंध है । जिसकी रचना स्वयं भूतबलि आचार्यने बहुत विस्तारसे की थी । अतएव पंचिकादिकको छोड़ उसपर विशेष टीकाएं नहीं रची गई । इसी महाबंधकी प्रसिद्धि महाधवलके नामसे है जिसका प्रमाण ३० या ४० हजार कहा जाता है ।

धरसेनाचार्यके समयके लगभग एक और आचार्य गुणधर हुए जिन्हें भी द्वादशांग श्रुतका कुछ ज्ञान था । उन्होंने कषायप्राभृत की रचना की । इसका आर्यमंक्षु और नागहस्तिने व्याख्यान किया और यतिवृषभ आचार्यने चूर्णिसूत्र रचे । इसपर भी वीरसेनाचार्यने टीका लिखी । किन्तु वे उसे २० हजार प्रमाण लिखकर ही स्वर्गवासी हुए । तब उनके सुयोग्य शिष्य जिनसेनाचार्यने ४० हजार प्रमाण और लिखकर उसे शक ७५९ में पूरा किया । इस टीकाका नाम जयधवला है और वह ६० हजार श्लोक प्रमाण है ।

इन दोनों या तीनों महाग्रंथों की केवल एकमात्र प्रति ताड़पत्रपर शेष रही थी जो सैकड़ों वर्षोंसे मूडविद्रीके भंडारमें बन्द थी । गत २०।२५ वर्षोंमें उनमेंसे धवला व जयधवलाकी प्रतिलिपियां किसी प्रकार बाहर निकल पाई हैं । महाबंध या महाधवल अब भी दुःप्राप्य है । उनमेंसे धवलाके प्रथम अंशका अब प्रकाशन हो रहा है । इस अंशमें द्वादशांगवाणी व ग्रंथ रचनाके इतिहासके अतिरिक्त सत्प्ररूपणा अर्थात् जीवसमासों और मार्गणाओं का विशेष विवरण है । सूत्रोंकी भाषा पूर्णतः प्राकृत है । टीकामें जगह जगह उद्धृत पूर्वाचार्योंके पद्य २१६ हैं जिनमें केवल १७ संस्कृतमें और शेष प्राकृतमें हैं, टीकाका कोई तृतीयांश प्राकृतमें और शेष संस्कृतमें है । यह सब प्राकृत प्रायः वही शौरसेनी है जिसमें कुन्दकुन्दादि आचार्यों के ग्रंथ रचे पाये जाते हैं । प्राकृत और संस्कृत दोनोंकी शैली अत्यंत सुन्दर, परिमार्जित और प्रौढ है ।

टिप्पणियोंमें उल्लिखित ग्रन्थोंकी

संकेत-सूची

संकेत	ग्रंथ नाम	संकेत	ग्रंथ नाम
१ अनु. सू.	अनुयोगद्वारसूत्र	२४ जी. द. सू.	जीवद्वार, दन्वाणिओग- द्वार सुत्त
२ अभि. रा. को.	अभिधानराजेन्द्रकोष	२५ जी. वि. प्र.	जीवविचारप्रकरण
३ अलं. चि.	अलङ्कारचिन्तामणि	२६ जी. सं. सू.	जीवद्वार संतपरुवणा सुत्त
४ अष्टश.	अष्टशती	२७ ज्यो. क.	ज्योतिष्करण्डक सटीक
५ अष्टस.	अष्टसहस्री	२८ णाया. सू.	णायाधम्मकहासुत्त
६ आचा. नि.	आचाराङ्ग-निर्युक्ति	२९ तत्त्वार्थ भा.	तत्त्वार्थभाष्य (श्वे.)
७ आ. नि.	आवश्यक-निर्युक्ति	३० त. रा. वा.	तत्त्वार्थराजवार्तिक
८ आ. पा.	आलापपद्धति	३१ त. श्लो. वा.	तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक
९ आ. पु.	आदिपुराण	३२ त. सू.	तत्त्वार्थसूत्र
१० आ. मी.	आप्तमीमांसा	३३ ति. प.	तिथेयपण्णात्ति
११ इन्द्र. श्रुता.	इन्द्रनन्दिश्रुतावतार	३४ द. म.	दशमक्ति
१२ उक्त.	उत्तराध्ययन	३५ द. वै.	दशवैकालिक
१३ औप. सू.	औपपातिकसूत्र	३६ देशीना.	देशीनाममाला
१४ क. ग्रं.	कर्मग्रंथ	३७ द्र. सं. वृ.	द्रव्यसंग्रहवृत्ति
१५ क. प्र.	कर्मप्रकृति	३८ धवला.	धवला ( लिखित )
१६ क. प्र. य. उ. टी.	कर्मप्रकृति यशोविजय उपाध्यायकृत वि. टी.	३९ न. च.	नयचक्र
१७ कसायपाहुडचुण्णि	( लिखित )	४० न्या. कु. च.	न्यायकुमुदचन्द्र
१८ गुण. क्र. प्र.	गुणस्थान-क्रमारोह- प्रकरण	४१ नं. सू.	नन्दिसूत्र
१९ गो. क.	गोम्मटसार कर्मकांड	४२ पञ्चसं.	पञ्चसंग्रह ( दि. )
२० गो. जी.	„ जीवकांड	४३ पञ्चा.	पञ्चास्तिकाय
२१ गो. जी., जी. प्र., टी.	गोम्मटसार जीवकांड जीवतत्त्वप्रदीपिका टीका.	४४ पञ्चाध्या.	पञ्चाध्यायी
२२ गो. जी., मं. प्र., टी.	गो० जी० मंदप्रबो- धिनी टीका.	४५ पञ्चा. वि.	पञ्चाशक सटीक वि.
२३ जयध.	जयधवला ( लिखित )	४६ प. मु.	परीक्षामुख
		४७ पा. उ.	पाणिनि उणादि
		४८ पात. महाभा.	पातञ्जल महाभाष्य

संकेत	ग्रंथ नाम	संकेत	ग्रंथ नाम
४९ पु. सि.	पुरुषार्थसिद्धयुपाय	६४ मूला.	मूलाराधना (भगवती
५० पं. सं.	पंचसंग्रह ( इवे. )		आराधना )
५१ प्र. क. मा.	प्रमेयकमलमातंड	६५ रत्नक.	रत्नकरण्ड श्रावकाचार
५२ प्रज्ञा. सू.	प्रज्ञापना सूत्र	६६ ल. क्ष.	लघ्विसार क्षपणासार
५३ प्रमाणनयत.	प्रमाणनयतत्वालोकालं- कार	६७ लघीय.	लघीयख्य
५४ प्रमाणमी.	प्रमाणमीमांसा (इवे.)	६८ ,, खो. वृ लि.	,, स्वोपज्ञवृत्ति लिखित
५५ प्रवच.	प्रवचनसार	६९ लो. प्र.	लोकप्रकाश
५६ प्र. सा. पू.	प्रवचनसारोद्धार पूर्वार्ध	७० वि. भा.	विशेषावश्यकभाष्य
५७ वा. अ.	वारस अणुवेक्खा	७१ स. त.	सन्मतितर्क
५८ वृ. क. सू.	वृहत्कल्पसूत्र	७२ स. त. टी.	सन्मतितर्क टीका
५९ वृ. स्व. स्तो.	वृहत्स्वयम्भूस्तोत्र	७३ स. त. सू.	सभाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्र
६० ब्र. श्रु.	ब्रह्महेमचन्द्र श्रुतस्कंध	७४ स. सि.	सर्वार्थासिद्धि
६१ भग. गी.	भगवद्गीता	७५ सम. सू.	समवायाङ्गसूत्र
६२ भग. सू.	भगवती सूत्र	७६ स्था. सू.	स्थानाङ्गसूत्र
६३ मूलाचा.	मूलाचार	७७ ह. पु.	हरिवंशपुराण

## सत्प्ररूपणाकी

### विषय-सूची

१	मंगलाचरण	१-७२	चक्रवर्ती और तीर्थकरका स्वरूप	५७
१	मंगलाचरण टीकाकारकृत	१	२. नैःश्रेयस-सुख-कथन	५८
२	सूत्रकारकृत पंच परमेष्ठी नमस्काररूप मंगलाचरण	८	३. प्रकारान्तरसे निमित्त और हेतुका कथन	६०
३	मंगल, निमित्त आदि छह अधिकारोंकी प्रतिज्ञा	८	७ ग्रंथ-परिमाण	६०
४	मंगलका स्वरूप और विवेचन	९	८ ग्रंथ-नाम	६०
१.	नय-निरूपण	१०	९ कर्ता के भेदोंका निरूपण	६०
२.	नयोंमें निक्षेपोंका अन्तर्भाव	१४	१. क्षेत्र-विशिष्ट अर्थकर्ता	६१
३.	निक्षेप-निरूपण	१७	२. कालकी अपेक्षा अर्थकर्ता	६२
४.	मंगलके पर्यायवाची नाम, निरुक्ति व अनुयोगद्वारासे कथन.	३१	३. भावकी अपेक्षा अर्थकर्ता	६३
५.	छह दंडकोंद्वारा मंगल-निरूपण	३९	४. ग्रंथ-कर्ता	६४
६.	सूत्रके मंगलत्व-अमंगलत्वका विवेचन	४१	५. अंगधारियोंकी परम्परा	६५
७.	अरिहंतका शब्दार्थ और स्वरूप	४२	६. श्रुतावतार-वर्णन	६७
८.	सिद्धका " "	४६	२	
९.	अर्हत् और सिद्धमें भेदाभेद विवेचन	४६	जीवस्थानका अवतार	७२-१३२
१०.	आचार्यका शब्दार्थ और स्वरूप	४८	१० उपक्रम	७२-८३
११.	उपाध्याय " "	५०	१. आनुपूर्वीके तीन भेद	७२
१२.	साधु " "	५१	२. नामके दश भेद	७३
१३.	आचार्यादि परमेष्ठियोंमें भी देवत्वकी सिद्धि	५२	३. प्रमाणके पांच भेद	८०
१४.	अरिहंतोंको प्रथम नमस्कार करनेका प्रयोजन	५३	४. वक्तव्यताके तीन भेद	८२
५	निमित्त-कथन	५४	५. अर्थाधिकारके तीन भेद	८२
६	हेतु-कथन	५५	११ निक्षेप-कथन	८३
१.	अभ्युदय सुखमें राजा, महाराजा, मंडलीक, महामंडलीक, नारायण,	१३	१२ नयनिरूपण	८३-९१
			१. नयके दो भेद	८३
			२. द्रव्यार्थिक नयका निरूपण	८३
			३. पर्यायार्थिक नयका निरूपण	८५
			१३ अनुगम-निरूपण	९१-१३२
			१. प्रमाणानुगमके भेदोंका निरूपण	९३

२. श्रुतज्ञानके भेद-प्रभेदोंका स्वरूप	९६	३. सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थान	१६६
३. आग्रायणीय पूर्वके १४ अर्थोधिकार और जीवद्वान खंडके अन्तर्गता- धिकारोंकी उत्पत्ति	१२३	४. असंयतसम्यग्दृष्टि	१७०
३		५. संयतासंयत	१७३
विषयकी उत्थानिका	१३२-१५९	६. प्रमत्तसंयत	१७५
१४ चौदह मार्गणाओंका सामान्य स्वरूप- निरूपण	१३२-१५३	७. अप्रमत्तसंयत	१७८
१. गतिमार्गणा	१३४	८. अपूर्वकरण	१७९
२. इन्द्रियमार्गणा	१३५	९. अनिवृत्तिकरण	१८३
३. कायमार्गणा	१३८	१०. सूक्ष्मसाम्पराय	१८७
४. योगमार्गणा	१३९	११. उपशान्तकषाय	१८८
५. वेदमार्गणा	१४०	१२. क्षीणकषाय	१८९
६. कषायमार्गणा	१४१	१३. सयोगकेवली	१९०
७. ज्ञानमार्गणा	१४२	१४. अयोगकेवली	१९२
८. संयममार्गणा	१४४	१५. सयोगी और अयोगीके मनका अभाव होनेपर केवलज्ञानकी सयुक्तिक सिद्धि	१९२
९. दर्शनमार्गणा	१४५	१६. सिद्धस्वरूप-निरूपण	२००
१०. लेख्यामार्गणा	१४९	१७. मार्गणाओंमें गुणस्थान-निरूपण २०१-४१०	
११. भव्यमार्गणा	१५०	१. गतिभेद-निरूपण	२०१
१२. सम्यक्त्वमार्गणा	१५१	२. नरकगतिमें गुणस्थान-प्रतिपादन	२०४
१३. संज्ञिमार्गणा	१५१	३. तिर्यचगतिमें	२०७
१४. आहारमार्गणा	१५२	४. मनुष्यगतिमें	२१०
१५ अनुयोगद्वारके आठों भेदोंका सोपपत्तिक निरूपण	१५३	५. उपशमविधि-निरूपण	२१०
४		६. क्षपणविधि	२१५
सत्प्ररूपणा	१५९-४१०	७. देवगतिमें गुणस्थान-निरूपण	२२५
१६ ओघ और आदेशकी प्रतिज्ञा तथा गुणस्थान-निरूपण	१५९-२००	८. शुद्ध-तिर्यचोंका	२२७
१. मिथ्यादृष्टिगुणस्थान	१६१	९. मिश्र-तिर्यचोंका	२२८
२. सासादनसम्यग्दृष्टि गुण०	१६३	१०. मिश्र और शुद्ध मनुष्योंका	२३१
		११. इन्द्रियमार्गणाके भेद	२३१
		१२. इन्द्रियोंके भेद-प्रभेदोंका स्वरूप	२३२
		१३. एकेन्द्रिय जीवोंके भेद	२४९
		१४. पर्याप्ति-निरूपण	२५४

१५. पर्याप्ति और प्राणमें भेद	२५६	३४. आदेशकी अपेक्षा वेद-सत्त्व- प्रतिपादन	३४५
१६. द्वीन्द्रियादि जीवोंके भेद	२५८	३५. कषायमार्गणाके भेद व स्वरूप	३४८
१७. अपर्याप्त अवस्थामें मनका निराकरण	२५९	३६. कषायमार्गणामें गुणस्थान-विचार	३५१
१८. इन्द्रियमार्गणामें गुणस्थान-सत्त्व- प्रतिपादन	२६१	३७. ज्ञानमार्गणाके भेद व स्वरूप	३५३
१९. कायमार्गणाके भेद	२६४	३८. ज्ञानमार्गणामें गुणस्थान-विचार	३६०
२०. स्थावरकायिक जीवोंके भेद	२६७	३९. संयममार्गणाके भेद व स्वरूप	३६८
२१. त्रसकायिक जीवोंके भेद	२७२	४०. संयममार्गणामें गुणस्थान-विचार	३७४
२२. कायमार्गणामें गुणस्थान-निरूपण	२७४	४१. दर्शनमार्गणाके भेद व स्वरूप	३७८
२३. योग मार्गणाके भेद व स्वरूप	२७८	४२. दर्शनमार्गणामें गुणस्थान-विचार	३८३
२४. मनोयोगके भेद और उनमें गुणस्थान-निरूपण	२८०	४३. लेश्यामार्गणाके भेद व स्वरूप	३८६
२५. वचनयोगके भेद ,,	२८६	४४. लेश्यामार्गणामें गुणस्थान-विचार	३९०
२६. काययोगके भेद ,,	२८९	४५. भव्यमार्गणाके भेद व स्वरूप	३९२
२७. केवलि-समुद्घात-विचार	३००	४६. भव्यमार्गणामें गुणस्थान-विचार	३९४
२८. त्रिसंयोगी योगोंके स्वामी	३०८	४७. सम्यक्त्वमार्गणाके भेद व स्वरूप	३९५
२९. द्विसंयोगी और एकसंयोगी योगोंके स्वामी	३०९	४८. सम्यक्त्वमार्गणामें गुणस्थान- विचार	३९६
३०. योगोंमें पर्याप्त व अपर्याप्त-विचार	३१०	४९. आदेशकी अपेक्षा सम्यक्त्व- सत्त्व प्रतिपादन	३९९
३१. आदेशकी अपेक्षा गतिमार्गणामें पर्याप्त व अपर्याप्त-विचार	३२२	५०. संज्ञिमार्गणाके भेद व स्वरूप	४०८
३२. वेदमार्गणाके भेद व स्वरूप	३४०	५१. संज्ञिमार्गणामें गुणस्थान-विचार	४०८
३३. वेदमार्गणामें गुणस्थान-विचार	३४२	५२. आहारमार्गणाके भेद और उसमें गुणस्थान-विचार	४०९



# शुद्धिपत्र

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्धि	शुद्धि	पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्धि	शुद्धि
८	४	साहूणं ॥१॥	साहूणं-॥१॥ इदि ।	११४	१	लक्ख छायाल	लक्ख-छायाल
२३	२	॥ इदि ।	॥१२॥ इदि ।	११५(टि.)	२	वर्णयति	वर्णयति । गो. जी.
"	४	चात्तमिदि	चत्तमिदि				जी. प्र. टी. ३६६
२५	७	एवं	एदं	१२३	१०	पुव्वत्तादो	पुव्वंतादो
२६	३	मङ्गल	मङ्गल	"	"	अवरत्तादो	अवरंतादो
३२	५	विनाशयति	विनाशयति घात- यति	"	११	पुव्वत्तादो	पुव्वंतादो
३४	६	सव्वे	सव्व-	"	"	अवरत्तादो	अवरंतादो
३५	२	मङ्गलम् ?	मङ्गलम्? जीवस्य	१२५	४	पयडी सुबंधणे	पयडीसु बंधणे
४०	५	फलं पावेंतु	फलं हि पावेंतु	१२७	१०	तेवीसादिमादो	तेवीसादिमादो
"	६	लहु-पारया	लहु पारया				भावादो
४७	२	गुणकृत	गुणकृतो	१३३	१	-विरुद्ध स	-विरुद्धः । स
४८ [हिं]	६	जो पुरुषाकार	जो सब अवय- वोंसे पुरुषाकार	१५६	६	कथं	कथं
५५	१	' भोयण-वेलाप सैंधवमाणि '	भोयण-वेलाप ' सैंधवमाणि '	२२६	३	-स्थानेषु	-स्थानेषु मार्गणा
५६	५	अभ्युदयनै- श्रेयसम्	अभ्युदयं नैःश्रेयसम्	२२७	६	यत्परिमणा	यत्परिमाण-
५९	६	पवयणादो	पवयणदो	२६४	५	ग्राह्या	ग्राह्याः
७०	४	अहिय-क्खरा	अहियक्खरा	२६९	५	वनस्पति-	वनस्पति-
"	"	विहीण-क्खरा	विहीणक्खरा	२७७	४	-निवन्धन-	-निवन्धन
"	६	-हिय-क्खराणं-	हियक्खराणं	२८०	७	॥ १५३ ॥	॥ १५५ ॥
८२	१०	सा	तत्थ सा	२८१	२	॥ १५४ ॥	॥ १५६ ॥
९४	६	पुधत्तं ।	पुधत्तं,	२८२	४	॥ १५५ ॥	॥ १५७ ॥
९७	३	पुरिसं	पुरिसे	२८६	९	॥ १५६ ॥	॥ १५८ ॥
१०१	८	छप्पण सहस्स	छप्पण-सहस्स	"	११	॥ १५७ ॥	॥ १५९ ॥
१०७	६	पणारह-लक्खा- वे-सहस्सं	पणारह लक्खा वे सहस्सं	३०५	३	वाड्मनसो-	वाड्मनसयो-
				३०८	९	वाड्मनोभ्या-	वाड्मनसाभ्या-
				३१०	५	"	"

संत परुवणा

# मंगलाचरणम्

श्रीमत्परम-गम्भीर-स्याद्वादामोघ-लाञ्छनम् ।

जीयात् त्रैलोक्य-नाथस्य शासनं जिन-शासनम् ॥ १ ॥

सः श्रीमान् धरसेन-नाम-सुगुरुः श्रीजैन-सिद्धान्त-सद्-

वाद्धिर्धुर्धर-पुष्पदन्त-सुमुनिः श्रीभूतपूर्वो बलिः ।

एते सन्मुनयो जगत्त्रय-हिताः स्वर्गामरैरर्चिताः

कुर्युर्मे जिनधर्म-कर्मणि मतिं स्वर्गापवर्गप्रदे ॥ २ ॥

श्रीवीरसेन इत्याप्त-भङ्गारक-पृथु-प्रथः ।

स नः पुनातु पूतात्मा वादि-वृन्दारको मुनिः ॥ ३ ॥

धवलां भारतीं तस्य कीर्तिं च शुचि-निर्मलाम् ।

धवलीकृत-निःशेष-भुवनां तां नमाम्यहम् ॥ ४ ॥

भूयादावीरसेनस्य वीरसेनस्य शासनम् ।

शासनं वीरसेनस्य वीरसेन-कुशेशयम् ॥ ५ ॥

सिद्धानां कीर्तनादन्ते यः सिद्धान्त-प्रसिद्ध-वाक् ।

सोऽनाद्यनन्त-सन्तानः सिद्धान्तो नोऽवताच्चिरम् ॥ ६ ॥



सिरि-भगवंत-पुष्पदंत-भूदबलि-पणीदे

## छक्खंडागमे

जीवट्टाणं

तस्स

सिरि-वीरसेणाइरिय-विरइया टीका

धवला

सिद्धमणंतमणिंदियमणुवममप्पुत्थ-सोक्खमणवज्जं ।

केवल-पहोह-णिज्जिय-दुण्णय-तिमिरं जिणं णमह ॥ १ ॥

जो सिद्ध हैं, अनन्त-स्वरूप हैं, अनिन्द्रिय हैं, अनुपम हैं, आत्मोत्पन्न सुखको प्राप्त हैं, अनवद्य अर्थात् निर्दोष हैं, और जिन्होंने केवलज्ञानरूप सूर्यके प्रभापुंजसे कुनयरूप अन्धकारको जीत लिया है, ऐसे जिन भगवान्को नमस्कार करो। अथवा, जो अनन्त-स्वरूप हैं, अनिन्द्रिय हैं, अनुपम हैं, आत्मोत्पन्न सुखको प्राप्त हैं, अनवद्य अर्थात् निर्दोष हैं, जिन्होंने केवलज्ञानरूप सूर्यके प्रभा-पुंजसे कुनयरूप अन्धकारको जीत लिया है, और जो समस्तकर्म-शत्रुओंके जीतनेसे 'जिन' संज्ञाको प्राप्त हैं, ऐसे सिद्ध परमात्माको नमस्कार करो।

विशेषार्थ—‘सिद्ध’ शब्दका अर्थ कृतकृत्य होता है, अर्थात्, जिन्होंने अपने करने योग्य सब कार्योंको कर लिया है, जिन्होंने अनादिकालसे बंधे हुए ज्ञानाचरणादि कर्मोंको प्रचण्ड ध्यानरूप अग्निके द्वारा भस्म कर दिया है, ऐसे कर्म-प्रपंच-मुक्त जीवोंको सिद्ध कहते हैं। अरहंत परमेष्ठी भी चार घातिया कर्मोंका नाश कर चुके हैं, इसलिये वे भी घातिकर्म-क्षय सिद्ध हैं। इस विशेषणसे उनके मतका निराकरण हो जाता है जो अनादि कालसे ही ईश्वरको कर्मोंसे अस्पृष्ट मानते हैं। अथवा, ‘षिधु’ धातु गमनार्थक भी है, जिससे सिद्ध शब्दका यह अर्थ होता है, कि जो शिव-लोकमें पहुंच चुके हैं, और वहांसे लौट कर कभी नहीं आते। इस कथनसे मुक्त जीवोंके पुनरागमनकी मान्यता का निराकरण हो जाता है। अथवा, ‘षिधु’ धातु ‘संराधन’ के अर्थमें भी आती है, जिससे यह अर्थ निकलता है, कि जिन्होंने आत्मीय गुणोंको प्राप्त कर लिया है, अर्थात्, जिनकी आत्मामें अपने स्वाभाविक अनन्त गुणोंका विकास हो गया है। इस व्याख्यासे उन लोगोंके मतका निरासन हो जाता है, जो मानते हैं कि, ‘जिस-प्रकार दीपक बुझ जाने पर, न वह पृथ्वीकी ओर नीचे जाता है, न आकाशकी ओर ऊपर ही जाता है, न किसी दिशाकी ओर जाता है और न किसी विदिशाकी ओर ही, किंतु तेलके क्षय हो जानेसे केवल शान्ति अर्थात् नाशको ही प्राप्त होता है। उसीप्रकार, मुक्तिको प्राप्त होता हुआ जीव भी न नीचे भूतलकी ओर जाता है, न ऊपर नभस्तलकी ओर, न किसी दिशाकी ओर जाता है, और न किसी विदिशाकी ओर ही। किंतु स्नेह अर्थात् रागपरिणतिके नष्ट हो जानेपर, केवल शान्ति अर्थात् नाशको ही प्राप्त होता है’।\*

अनन्त—जिसका अन्त अर्थात् विनाश नहीं है उसे अनन्त कहते हैं। अथवा, ‘अन्त’ शब्द सीमा-वाचक भी है, इसलिये जिसकी सीमा न हो उसे भी अनन्त कहते हैं। अथवा, अनन्त पदार्थोंके जाननेवालेको भी अनन्त कहते हैं। अथवा, अनन्त कर्मोंके अंशोंके जीतनेवालेको भी अनन्त कहते हैं। अथवा, अनन्त-ज्ञानादि गुणोंसे युक्त होनेके कारण भी अनन्त कहते हैं।

अनिन्द्रिय—जिसके इन्द्रियां न हों, उसे अनिन्द्रिय कहते हैं। इन्द्रियां अर्थात् भावेन्द्रियां छद्मस्थ दशामें पाई जाती हैं, परंतु सिद्ध और अरहंत परमात्मा छद्मस्थ दशको

१ आदौ सकार-प्रयोगः मुखदः । तथा च ‘सद्गौ मुखदाहर्दा’ । अलं. चिं. १, ४९. ‘माङ्गलिक आचार्यों महतः शास्त्रीषस्य मङ्गलार्थं सिद्ध-शब्दं आदितः प्रयुङ्क्ते’ । पात. महाभा. पृ. ५७. सितं ब्रह्ममष्टप्रकारं कर्मन्धनं ध्मातं दग्धं जाञ्जल्यमान-शुक्लानानलनेन यैस्ते सिद्धाः । अथवा, ‘षिधु गतो’ इति वचनात् सेधन्ति स्म अपुनरावृत्या निर्वृतिपुरीमगच्छन् । अथवा, ‘षिधु संराद्धौ’ इति वचनात् सेधन्ति सिद्धयन्ति स्म निष्ठितार्था भवन्ति स्म । अथवा, ‘षिधुञ् शास्त्रे माङ्गल्ये च’ इति वचनात् सेधन्ति स्म शासितारोऽभूवन् माङ्गल्य-रूपतां चानुभवन्ति स्म इति सिद्धाः । अथवा, सिद्धाः नित्याः अपर्यवसान-स्थितिकत्वात् । प्रख्याता वा मय्यै-ऽपलब्धगुणसंदोहत्वात् । आह च, ध्मातं सितं येन पुराणकर्म यो वा गतो निर्वृति-सौध-मूर्ध्नि । ख्यातोऽनुशास्ता परिनिष्ठितार्थो यः सोऽस्तु सिद्धः कृतमङ्गलो मे ॥ भग. सू. १, १, १, ( टीका ) ।\* धवला, अ. पृ. ५७४.

२ नास्यान्तोऽस्तौत्यनन्तः निरन्वयविनाशेनाविनश्यमानः । नास्यान्तः सांभास्यनन्तः केवलत्वनोऽनन्त-त्वात् । अनन्तार्थ-विषयत्वाद्धानन्तः अनन्तार्थ-विषय-ज्ञान-स्वरूपत्वात् । अनन्त-कर्मांश-जयनादनन्तः । अनन्तानि वा ज्ञानादीनि यस्येत्यनन्तः । अमि. रा. कोष ।

३ ‘न य विज्जइ तगहणे लिंगं पि अणिदियत्तणओ’ । पा. स. म. कोष ( अणिदिअ ) ।

उल्लंघन करके केवलज्ञानसे विभूषित हैं, इसलिये वे अनिन्द्रिय हैं। भावेन्द्रियोंकी तरह इन दोनों परमात्माओंके भाव-मन भी नहीं पाया जाता है, क्योंकि तेरहवें गुणस्थानमें क्षायोपशमिक ज्ञानोंका अभाव है। अथवा, 'अणिन्दिय' पद अतीन्द्रिय के अर्थमें भी आता है, जिससे यह अर्थ निकलता है कि वे हमारे इन्द्रिय-जन्य ज्ञानसे नहीं जाने जा सकते हैं, अर्थात् वे दोनों परमात्मा इन्द्रियोंके अगोचर हैं। 'अणिन्दिय' पदका अर्थ अनिन्दित भी होता है, जिसका यह तात्पर्य है कि सिद्ध और अरहंत परमेष्ठी निर्दोष होनेके कारण सबके द्वारा अनिन्दित हैं। निन्दा उसकी की जाती है जिसमें किसी प्रकारके दोष पाये जावें, जिसका आचरण दूसरोंके लिये अहितकर हो। परंतु उक्त दोनों परमेष्ठी कामादि दोषोंसे रहित होनेके कारण कोई भी उनकी निन्दा नहीं कर सकता है, इसलिये वे अनिन्दित हैं।

**अनुपमं**—प्रत्येक वस्तु अनन्त-धर्मात्मक है। उसके स्वरूप-निर्णयके लिये हम जो कुछ भी दृष्टान्त देकर, शब्दोंद्वारा, उसे मापनेका प्रयास करते हैं, उस मापनेको उपमा कहते हैं। 'उप' अर्थात् उपचारसे जो 'मा' माप करे वह उपमा है। उपचारसे मापनेका भाव यह है कि एक वस्तुके गुण-धर्म किसी दूसरी वस्तुमें तो पाये नहीं जाते हैं, इसलिये आकार, दीप्ति, स्वभाव आदि धर्मोंमें थोड़ी बहुत समानता होने पर भी किसी एक वस्तुके द्वारा दूसरी वस्तुका ठीक कथन तो नहीं हो सकता है, फिर भी दृष्टान्तद्वारा दूसरी वस्तुका कुछ न कुछ अनुभव या परिज्ञान अवश्य हो जाता है। इसलिये इस प्रक्रियाको उपमामें लिया जाता है। परंतु यह प्रक्रिया उन्हीं पदार्थोंमें घटित हो सकती है जो इन्द्रियगोचर हैं। सिद्धपरमेष्ठी तो अतीन्द्रिय हैं। अरहंत परमेष्ठीका शरीर इन्द्रियगोचर होते हुए भी उनकी पुनीत आत्माका हम संसारी जन इन्द्रियज्ञानके द्वारा साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। इसलिये उपमाद्वारा उनका परिज्ञान होना असंभव है। उन्हें यदि कोई भी समुचित उपमा दी जा सकती है, तो उन्हींकी दी जा सकती है जो कि सर्वथा छद्मस्थ ज्ञानियोंके अप्रत्यक्ष हैं। अतः सिद्ध और अरहंत परमात्माको अनुपम अर्थात् उपमा-रहित कहना सर्वथा युक्ति-युक्त है। 'उप' का अर्थ पास भी होता है, अर्थात् ऐसा कोई पदार्थ, जिसके लिये उसकी उपमा दी जाती हो, पासका अर्थात् उसका ठीक तरहसे बोध करानेवाला, होना चाहिये। परंतु संसारमें ऐसा एक भी पदार्थ नहीं है जिसके द्वारा हम सिद्ध और अरहंत परमेष्ठीके स्वरूपकी तुलना कर सकें। अतएव वे अनुपम हैं।

**आत्मोत्पन्न सुखं**—जिसके द्वारा आत्मा, शान्ति, संतोष या आनन्दका चिरकाल-तक अनुभव करे उसे सुख कहते हैं। संसारी जीव कोमल स्पर्शमें, विविध-रस-परिपूर्ण उत्तम सुस्वादु भोजनके स्वादमें, वायुमण्डलको सुरभित करनेवाले नानाप्रकारके पुष्प, इत्र, तैल

१ लोके तत्सदृशो ह्यर्थः कृत्स्नोऽप्यन्यो न विद्यते । उपमेयित तथेन तस्मान्निरुपमं स्मृतम् ।

जयध. अ. पृ. १२४९.

२ अइसयमाद-समुन्धं विसयातीदं अणोवममणंतं । अव्युच्छिण्णं च सुहं सु द्रुवओगप्पसिद्धाणं ॥ प्रवच. १, १२. स-परं वाधा-सहियं विच्छिण्णं वंध-कारणं विसमं । जं इदिण्हि लद्धं तं सोक्खं दुक्खमेव तथा ॥ प्रवच. १, ७६. कर्म-पर-वशे सान्ते दुःखैरन्तरितोदये । पाप-वाजे मुखेऽनास्था श्रद्धानाकाङ्क्षणा स्मृता ॥ रत्नक. १, १२.

आदि सुगन्धित पदार्थोंके सूंघनेमें, रमणीय रूपोंके अवलोकनमें, श्रवण-सुम्न-कर संगीतोंके सुननेमें और चित्तमें प्रमोद उत्पन्न करनेवाले अनेक प्रकारके विषयोंके चिन्तनमें आनन्दका अनुभवसा करता है, और उससे अपनेको सुखी भी मानता है। पर यथार्थमें देखा जाय तो इसे 'सुख' नहीं कह सकते हैं। सुख जिसे कहना चाहिये वह तो आकुलताके अभावमें ही उपलब्ध हो सकता है। परंतु इन सब विषयोंके ग्रहण करनेमें आकुलता देखी जाती है, क्योंकि प्रथम तो इन्द्रिय-सुखकी कारणभूत सामग्रीका उपलब्ध होना ही अशक्य है, इसलिये आकुलता होती है। दैववशात् उक्त सामग्री यदि मिल भी जाय तो उसे चिरस्थायी बनानेके लिये और उसे अपने अनुकूल परिणामनेके लिये चिन्ता करनी पड़ती है। इतना सब कुछ करने पर भी उस सामग्रीसे उत्पन्न हुआ सुख चिरस्थायी ही रहेगा, यह कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि संसारमें न किसीका सुख चिरस्थायी रहा है और न कोई प्राणी ही। फिर इस सुखमें रोग, शोक, इष्टविद्योग, अनिष्टसंयोग आदि निमित्तोंसे सदा ही सैकड़ों बाधाएं उपस्थित होती रहती हैं, जिससे वह सुखद सामग्री ही दुखकर हो जाती है। यदि इतनेसे ही बस होता, तो भी ठीक था। पर वह सुख पापका बीज है, क्योंकि संसारमें सुखकी सामग्री परिमित है और उसके ग्राहक अर्थात् उसके अभिलाषी असंख्य हैं। अतः जो भी व्यक्ति सुखकी आवश्यकतासे अधिक सामग्री एकत्रित करता है, यथार्थतः देखा जाय तो, वह दूसरोंके न्याय-प्राप्त अंशको छीनता है। इसलिये यह सुख पापका बीज है। फिर यह सुख आरम्भादि निमित्तोंसे अनेकों जीवोंकी हिंसा करनेके वाद ही तो उपलब्ध होता है, अतः कर्मबन्धका कारण भी है। अतः यह इन्द्रियोंसे उत्पन्न होनेवाला सुख, सुख न होकर यथार्थमें दुख ही है। किंतु जो आनन्द, जो शान्ति, स्वार्धान है, अर्थात्, बाह्य पदार्थोंकी अपेक्षा न करके केवल आत्मासे उत्पन्न होती है, बाधा-रहित है, अविच्छिन्न एक धारासे प्रवाहित हो कर सदाकाल स्थायी है, नवीन कर्मबन्ध करानेवाली भी नहीं है, दूसरोंके अधिकार नहीं छीननेसे पापका बीज भी नहीं है, उसे ही सच्चा सुख कहा जा सकता है। सो ऐसा आत्मोत्पन्न, अनन्त सुख सिद्ध और अरहंत परमेष्ठिके ही संभव है। अतः उक्त विशेषण देना सार्थक एवं समुचित ही है।

अनवद्य—अवद्य, पाप या दोषको कहते हैं। गुणस्थानक्रमसे आत्माके क्रमिक-विकाशको देखते हुये यह भलीभांति समझमें आ जाता है कि ज्यों ज्यों आत्मा विशुद्धि-मार्गपर अग्रेसर होता जाता है, त्यों त्यों ही उसमेंसे मोह, राग, द्वेष, काम, क्रोध, मान, माया, मत्सर, लोभ, वृष्णा आदि विकार-परिणति अपने आप मन्द या क्षीण होती हुई चली जाती है। यहां तक कि एक वह समय आ जाता है जब वह उन समस्त विकारोंसे रहित हो जाता है। इसी अवस्थाको मंगलकारने अनवद्य या निर्दोष शब्दसे प्रगट किया है।

केवलप्रमौघनिर्जितदुर्नयतिमिरं—अन्य दृष्टिभेदोंकी अपेक्षा-रहित केवल एक दृष्टि-

१ जह एए तह अब्बे पत्तेयं दुण्णया णया सब्बे । स. त. १, १५. निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु तेऽर्थकृत । आ. मी. १०८. तदनेकान्त-प्रतिपत्तिः प्रमाणम् । एक-धर्म-प्रतिपत्तिर्नयः । तत्प्रत्यनीक-प्रतिक्षेपो दुर्णयः केवल-विपक्ष-विरोध-दर्शनेन स्व-पक्षाभिनिवेशात् । अष्टश. का. १०६. अर्थस्यानेकरूपस्य धीःप्रमाणं तदशधीः । नयो धर्मान्तरापेक्षी दुर्णयस्तन्निराकृतिः ॥ अष्टस. पृ. २९०.

भेदको ही दुर्नय कहते हैं। इससे पदार्थका बोध तो होता है, परन्तु वह बोध केवल पक्षग्राही रहता है। इससे प्राणीमात्र किसी पदार्थकी समीचीनताका अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसलिये इसके द्वारा पदार्थको जानते हुए भी उसके विषयमें जाननेवाले अन्धे ही बने रहते हैं, क्योंकि इस दृष्टि-भेदसे पदार्थ जितने अंशमें प्रतिभासित होता है, पदार्थ केवल उतना ही नहीं है, वह तो उसकी केवल एक अवस्था ही है। पदार्थ तो उस जाने हुए अंशसे और भी कुछ है। और वह दृष्टि-भेद पदार्थके उन अंशोंकी अपेक्षा ही नहीं करता है, बल्कि अपने द्वारा ग्रहण किये हुए अंशको ही उस पदार्थकी समग्रता समझ लेता है। अतएव वह दृष्टि-भेद पदार्थका प्रकाशक होते हुए भी अन्धकारके समान है। मंगलकारने इसी दृष्टिको सामने रखकर अन्य दृष्टिभेदोंकी अपेक्षा-रहित एक दृष्टि-भेदको 'दुर्नय-तिमिर' संज्ञा दी है। इसे सिद्ध और अरहंत परमेष्ठीने अपने केवलज्ञानरूप सूर्यके प्रभा-पुंजसे जीत लिया है, क्योंकि केवलज्ञानरूप सूर्यमें ऐसा एक भी दृष्टि-भेद नहीं है जिसका समन्वय नहीं होता है, अर्थात्, उसमें सभी दृष्टि-भेदोंका समन्वय हो जाता है। अतएव वह पदार्थका पूर्ण प्रकाशक है। सूर्यके उदित होने पर जिसप्रकार अन्धकार विलीन हो जाता है, उसीप्रकार केवलज्ञानरूपी सूर्यके प्रभा-पुंजके सामने वे दृष्टियां नहीं ठहर सकती हैं। अतएव केवलज्ञान-विभूषित सिद्ध और अरहंत परमेष्ठीको 'केवलप्रभौघनिर्जितदुर्नयतिमिर' यह विशेषण देना युक्तियुक्त ही है।

जिन—मोह या मिथ्यात्व आत्माका सबसे अधिक अहित करनेवाला है। इसके वशमें होकर ही यह जीव अनादि-कालसे आत्म-स्वरूपको भूला हुआ संसारमें भटक रहा है। जब इस जीवको उपदेशादिकका निमित्त मिलता है और उससे 'स्व' क्या है, 'पर' क्या है, 'हित' क्या है, 'अहित' क्या है, इसका बोध करके आत्म-कल्याणकी ओर इसकी प्रवृत्ति होने लगती है; परिणामोंमें इतनी अधिक पवित्रता आ जाती है, कि वह केवल अपने स्वार्थकी पुष्टिके लिये दूसरोंके न्याय-प्राप्त अधिकारोंको छीननेसे ग्लानि करने लगता है; उसके पहिले बांधे हुए कर्म हलके होने लगते हैं, तथा नवीन कर्मोंकी स्थिति भी कम पड़ने लगती है; सांसारिक कार्योंको करते हुए भी उनमें उसे स्वभावतः अरुचिका अनुभव होने लगता है; तब कहीं समझना चाहिये कि यह जीव सम्यग्दर्शनके सन्मुख हो रहा है। फिर भी ऊपर जितने भी कारण बतलाये हैं, वे सम्यग्दर्शनकी उत्पत्तिके समर्थ कारण नहीं हैं। इनके होते हुए यदि मिथ्यात्व या मोहका उपशम करनेमें समर्थ ऐसे अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण-रूप परिणाम होते हैं तो समझना चाहिये कि यह जीव सम्यग्दर्शनको पा सकता है, इनके विना नहीं; क्योंकि इन परिणामोंमें ही मिथ्यात्वके नष्ट करनेकी सामर्थ्य है। इसतरह जब यह जीव अधःकरणरूप परिणामोंको उलंघन करके अपूर्वकरणरूप परिणामोंको प्राप्त होता है, तब यह जिनत्वकी पहिली सीढ़ी पर है, ऐसा समझना चाहिये। यहीं से 'जो कर्मरूपी शत्रुओंको जीते उसे जिन कहते हैं', इस व्याख्याके अनुसार, जिनत्वका प्रारम्भ होता है। इसके

१ सकलात्म-प्रदेश-निविड-निबद्ध-घाति-कर्म-मेघ-पटल-विघटन-प्रकटीभूतानन्त-ज्ञानादि-नव-केवल-लब्धित्वा-  
जिनः । गो. जी., जी. प्र. टी., गा. १. अनेक-विषम-भव-गहन-दुःख-प्रापण-हेतून् कर्मारतीन् जयन्ति निर्जरयन्तीति  
जिनाः । गो. जी., मं. प्र. टी., गा. १.



वारह-अंगगिगज्जा वियलिय-मल-मूढ-दंसणुत्तिलया ।  
 विविह-वर-चरण-भूसा पसियउ सुय-देवया सुइरं ॥ २ ॥  
 सयल-गण-उउम-रविणो विविहद्वि-विराइया विणिस्संगा ।  
 णीराया वि कुराया गणहर-देवा पसीयंतु ॥ ३ ॥  
 पसियउ महु धरसेणो पर-चाइ-गओह-इण-वर-सीहो ।  
 सिद्धंतामिय-सायर-तरंग-संघाय-धोय-मणो ॥ ४ ॥

आगे जैसे जैसे कर्म-शत्रुओंका अभाव होता जाता है वैसे ही वैसे जिनत्व धर्मका प्रादुर्भाव होता जाता है, और वारहवें गुणस्थानके अन्तमें जब यह जीव समस्त घातिया कर्मोंको नष्ट कर चुकता है तब पूर्णरूपसे 'जिन' संज्ञाको प्राप्त होता है। सिद्ध परमेष्ठी तो समस्त कर्मोंसे रहित हैं, इसलिये अरहंत और सिद्ध परमेष्ठी कर्मशत्रुओंके जीतनेसे साक्षात् जिन हैं, ऐसा समझना चाहिये।

इसप्रकार शास्त्रारम्भमें अनन्त आदि विशेषणोंसे युक्त अरहंत और सिद्ध दोनों परमेष्ठियोंको नमस्कार किया है ॥ २ ॥

जो श्रुतज्ञानके प्रसिद्ध वारह अंगोंसे ग्रहण करने योग्य है, अर्थात् वारह अंगोंका समूह ही जिसका शरीर है, जो सर्व प्रकारके मल ( अतीचार ) और तीन मूढताओंसे रहित सम्यग्दर्शन-रूप उन्नत तिलकसे विराजमान है और नाना-प्रकारके निर्मल चरित्र ही जिसके आभूषण हैं, ऐसी भगवती श्रुतदेवता चिरकाल तक प्रसन्न रहो ॥ २ ॥

जो सर्व प्रकारके गण, मुनिगण अर्थात् ऋषि, यति, मुनि और अनगार, इन चार प्रकारके संघरूपी कमलोंके लिये अथवा, मुनि, आर्थिका, श्रावक और श्राविका इन चार प्रकारके संघरूपी कमलोंके लिये सूर्यके समान हैं, जो बल, बुद्धि इत्यादि नाना प्रकारकी ऋद्धियोंसे विराजमान हैं, जो अन्तरंग और बहिरंग दोनों प्रकारके परिग्रहसे रहित हैं और जो वीतरागी होने पर भी समस्त भूमण्डलके हितैषी हैं, ऐसे गणधर देव प्रसन्न होंगे।

इस मंगलरूप गायामें 'णीराया वि कुराया' पदमें विरोधाभास अलंकार है। जो नीराग अर्थात् वीतराग होता है, उसके कुत्सित अर्थात् खोटा राग कैसे हो सकता है? इस विरोधका परिहार इस प्रकार कर लेना चाहिये कि गणधरदेव 'णीराया वि' अर्थात् वीतराग होने पर भी 'कुराया' अर्थात् भूमण्डलमें रहनेवाले समस्त प्राणियोंके हितैषी होते हैं। अथवा, वीतराग होने पर भी अभी पृथ्वी-मण्डल पर विराजमान हैं, मोक्ष को नहीं गये ॥ ३ ॥

जो परवादीरूपी हाथियोंके समूहके मदका नाश करनेके लिये श्रेष्ठ सिंहके समान हैं, अर्थात् जिसप्रकार सिंहके सामने मदोन्मत्त भी हाथी नहीं ठहर सकता है, किंतु वह गलितमद होकर भाग खड़ा होता है, उसीप्रकार जिनके सामने अन्य-मतावलम्बी अपने आप गलितमद हो जाते हैं, और सिद्धान्तरूपी अमृत-सागरकी तरंगोंके समूहसे जिनका मन धुल गया है,

पणमामि पुप्फदंतं दुकयंतं दुण्णयंधयार-रविं ।  
 भग्ग-सिव-मग्ग-कंटयमिसि-समिइ-वइं सया दंतं ॥ ५ ॥  
 पणमह कय-भूय-वलिं भूयवलिं केस-वास-परिभूय-वलिं ।  
 विणिहय-वम्मह-पसरं वड्ढाविय-विमल-णाण-वम्मह-पसरं ॥ ६ ॥

मंगल-णिमित्त-हेऊ परिमाणं णाम तह य कत्तारं ।

वागरिय छ पि पच्छा वक्खाणउ सत्थमाइरियो ॥ १ ॥

अर्थात्, सिद्धान्तके अवगाहनसे जिन्होंने विवेकको प्राप्त कर लिया है, ऐसे श्री धरसेन आचार्य मुझ पर प्रसन्न हों ॥ ४ ॥

जो दुष्कृत अर्थात् पापोंका अन्त करनेवाले हैं, जो कुनयरूपी अन्धकारके नाश करनेके लिये सूर्यके समान हैं, जिन्होंने मोक्षमार्गके कंटकोंको ( मिथ्योपदेशादि प्रति-बन्धक कारणोंको ) भग्न अर्थात् नष्ट कर दिया है, जो ऋषियोंकी सामेति अर्थात् सभाके अधिपति हैं, और जो निरन्तर पंचेन्द्रियोंका दमन करनेवाले हैं, ऐसे पुष्पदन्त आचार्यको मैं ( वीरसेन ) प्रणाम करता हूँ ॥ ५ ॥

जो भूत अर्थात् प्राणिमात्रसे पूजे गये हैं, अथवा, भूत-नामक व्यन्तर-जातिके देवोंसे पूजे गये हैं, जिन्होंने अपने केशपाश अर्थात् संयत-सुन्दर बालोंसे बलि अर्थात् जरा आदिसे उत्पन्न होनेवाली शिथिलताको परिभूत अर्थात् तिरस्कृत कर दिया है, जिन्होंने कामदेवके प्रसारको नष्ट कर दिया है, और जिन्होंने निर्मल-ज्ञानके द्वारा ब्रह्मचर्यके प्रसारको बढ़ा लिया है, ऐसे भूतबलि नामक आचार्यको प्रणाम करो ॥ ६ ॥

विशेषार्थ—जिस समय भूतबलि आचार्यने अपने गुरु धरसेन आचार्यसे सिद्धान्त-ग्रन्थ पढ़कर समाप्त किया था उस समय भूत-नामक व्यन्तर देवोंने उनकी पूजा की थी। इसका उल्लेख धवलामें आगे स्वर्थ किया गया है।

मंगल, निमित्त, हेतु, परिमाण, नाम और कर्ता, इन छह अधिकारोंका व्याख्यान करनेके पश्चात् आचार्य शास्त्रका व्याख्यान करें।

विशेषार्थ—शास्त्रके प्रारम्भमें पहिले मंगलाचरण करना चाहिये। पीछे जिस निमित्तसे शास्त्रकी रचना हुई हो, उस निमित्तका वर्णन करना चाहिये। इसके बाद शास्त्र-प्रणयनके प्रत्यक्ष और परम्परा-हेतुका वर्णन करना चाहिये। अनन्तर शास्त्रका प्रमाण बताना चाहिये। फिर ग्रन्थका नाम और आम्नायक्रमसे उसके मूलकर्ता, उत्तरकर्ता और परंपरा-कर्ताओंका उल्लेख करना चाहिये। इसके बाद ग्रन्थका व्याख्यान करना उचित है। ग्रन्थरचनाका यह क्रम आचार्य

१ मंगल-कारण-हेतु सत्थं सपमाण-णाम-कत्तारा । पढमं चि य कहिदव्वां एसा आइरिय-परिमासा ॥

इदि णायमाइरिय-परंपरागयं मणेणावहारिय पुव्वाइरियायाराणुसरणं ति-रयण-हेउ त्ति पुप्फदंताइरियो मंगलादीणं छण्णं सकारणाणं परूवणइं सुत्तमाह—

णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आइरियाणं ।  
णमो उवज्झायाणं, णमो लोए सव्व-साहूणं ॥ १ ॥

कधमिदं सुत्तं मंगल-णिमित्त-हेउ-परिमाण-णाम-कत्ताराणं सकारणाणं परूवयं ?  
ण, तालपलंब-सुत्तं व देसामासियत्तादो' ।

परंपरासे चला आ रहा है, और इस ग्रंथमें भी इसी क्रमसे व्याख्यान किया गया है ॥ १ ॥

आचार्य परंपरासे आये हुए इस न्यायको मनमें धारण करके, और पूर्वाचार्योंके आचार अर्थात् व्यवहार-परंपराका अनुसरण करना रत्नत्रयका कारण है, ऐसा समझकर पुष्पदन्त आचार्य मंगलादिक छहों अधिकारोंका सकारण व्याख्यान करनेके लिये मंगल-सूत्र कहते हैं—

अरिहंतोंको नमस्कार हो, सिद्धोंको नमस्कार हो, आचार्योंको नमस्कार हो, उपाध्यायोंको नमस्कार हो, और लोकमें सर्व साधुओंको नमस्कार हो ॥ १ ॥

विशेषार्थ—यही मंगलसूत्र नमोकार मंत्रके नामसे प्रसिद्ध है। इसके अन्तिम भागमें जो 'लोए' अर्थात् लोकमें और 'सव्व' अर्थात् सर्व पद आये हैं, उनका संबन्ध 'णमो अरिहंताणं' आदि प्रत्येक नमस्कार वाक्य के साथ कर लेना चाहिये। इसका खुलासा आचार्यने स्वयं आगे चलकर किया है।

शंका—यह सूत्र, मंगल, निमित्त, हेतु, परिमाण, नाम और कर्ताका सकारण प्ररूपण करता है, यह कैसे संभव है? शंकाकारका यह अभिप्राय है कि इस सूत्रमें जब कि केवल मंगल अर्थात् इष्ट-देवताको नमस्कार किया गया है तब उससे निमित्त आदि अन्य पांच अधिकारोंका स्पष्टीकरण कैसे संभव है।

समाधान—यह मंगलसूत्र 'ताल-प्रलम्ब' सूत्रके समान देशामर्शक होनेसे मंगलादि छहों अधिकारोंका सकारण प्ररूपण करता है, इसलिये उपर्युक्त शंका ठीक नहीं है।

विशेषार्थ—जो सूत्र अधिकृत विषयोंके एकदेश कथनद्वारा समस्त विषयोंकी सूचना करे उसे देशामर्शक सूत्र कहते हैं। इसलिये 'तालप्रलम्बसूत्र' के समान यह मंगलसूत्र

१ देशामर्शकस्य स्पष्टीकरणम्—

'जेणेदं सुत्तं देसाम्मासयं, तेण उच्चासेसलवखणाणि एदेण उच्चाणि' । स. प्रती पृ. ४८६. 'एदं देसामासिगसुत्तं कुदो ? एगदेसपटुप्पायणेण एत्थतणसयलत्थस्स सूचयत्तादो' । स. प्रती पृ. ४६८. 'एदं देसामासिय-सुत्तं, देसपटुप्पायणसुहेण सूचिदाणयत्तादो' । स. प्रती पृ. ५८९. 'एदं देसामासियसुत्तं, तेणेदेण. आमासियत्थेण अणामासियत्थो उच्चदे' । स. प्रती पृ. ५९५. देसामासियसुत्तं आचेलवकं ति तं खु ठिदिक्कप्पे । लुत्तोऽथवादिसदो,

तत्थ धाउ-णिकखेव-णय-एयत्थ-णिरुत्ति-आणियोग-द्वारेहि मंगलं परुविज्जदि । तत्थ धाउ ' भू सत्तायां ' इच्चेवमाइओ सयलत्थ-वत्थूणं सदाणं मूल-कारणभूदो । तत्थ ' मग्गि ' इदि अणेण धाउणा णिप्पणो मंगल-सदो । धाउ-परुवणा किमट्ठं कीरदे ? ण,

भी देशामर्शक है । कल्पसूत्रके कल्प्याकल्प्य नामक प्रथम उद्देश्यके प्रथम सूत्रमें ' तालपलम्ब ' पद आता है, जिसका भाव यह है कि ताड़वृक्षको आदि लेकर जितनी भी वनस्पतिकी जातियां हैं, उनके अभिन्न ( बिना तोड़े या काटे गये ) और अपक्व या कच्चे अर्थात् सचित्त मूल, पत्र, फल, पुष्प आदिका लेना साधुको योग्य नहीं है । इस सूत्रमें तो केवल ' तालपलम्ब ' पद ही दिया है, फिर भी उसे उपलक्षण मानकर समस्त वृक्ष-जाति और उसके पत्र पुष्पादिकोंका ग्रहण किया गया है । उसीप्रकार यह नमस्कारात्मक सूत्र भी देशामर्शक होनेसे मंगलके साथ अधिकृत निमित्त, हेतु, परिमाण, नाम और कर्ताका भी बोधक है ।

उन उक्त मंगलादि छह अधिकारोंमें से पहले धातु, निक्षेप, नय, एकार्थ, निरुक्ति और अनुयोगके द्वारा ' मंगल ' का प्ररूपण किया जाता है । उनमें ' भू ' धातु सत्ता अर्थमें है, इसको आदि लेकर समस्त अर्थ-वाचक शब्दोंकी जो मूल कारण हैं उन्हें धातु कहते हैं । उनमेंसे ' मग्गि ' धातुसे मंगल शब्द निष्पन्न हुआ है । अर्थात् ' मग्गि ' धातुमें ' अलच् ' प्रत्यय जोड़ देने पर मंगल शब्द बन जाता है ।

शंका—यहां धातुका निरूपण किसलिये किया जा रहा है ? शंकाकारका यह अभिप्राय है कि यह ग्रन्थ सिद्धान्त-विषयका प्ररूपक है, इसलिये इसमें धातुके कथनकी कोई आवश्यकता नहीं थी । इसका कथन तो व्याकरण-शास्त्रमें करना चाहिये ।

समाधान—ऐसी शंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि, जो शिष्य धातुसे अपरिचित है, अर्थात् किस धातुसे कौन शब्द बना है इस बातको नहीं जानता है; उसे धातुके परिज्ञानके

जह तालपलम्बसुत्तम्भि ॥ मूलारा. ११२३. ' देसामासिय ' इत्यादि स्थितिकल्पे वाच्ये तःप्रथमतयोपदिष्टमा-  
चेलक्यमिति सूत्रं देशामर्शकम् । बाह्यपरिग्रहकदेशस्य चेलस्य परामर्शकं बाह्यपरिग्रहाणामुपलक्षणार्थमुपात्तम् ।  
यथा ' तालपलम्बं ण कप्पदि ' ति सूत्रे तालशब्दां वनस्पत्येकदेशस्य तरुविशेषस्य परामर्शको  
वनस्पतीनामुपलक्षणाय ग्रहीतः । तथा चोक्तं कल्पे, हरिदतणोसाधिगुच्छा गुम्मा वल्ली लदा य रुक्खा य । एवं  
वणप्फदीओ तालादेसेण आदिट्ठा ॥ तालेदि दलेदि ति य तलेव जादो ति उस्सिदो व ति । तालादिणो तरु ति य  
वणप्फदीणं इवदि णामं ॥ तालस्य प्रलम्बं तालप्रलम्बम् । प्रलम्बं च द्विविधं, मूलप्रलम्बं अग्रप्रलम्बं च । तत्र मूलप्रलम्बं  
भूम्यनुप्रवेशि कन्दमूलाङ्कुरादिकम् । ततोऽन्यदग्रप्रलम्बम्, अङ्कुरप्रवालपत्रपुष्पफलादिकम् । वनस्पतिकन्दादिकमनुभोक्तुं  
निर्ग्रन्थानामार्याणां च न युज्यते इति । यथा " तालपलम्बं ण कप्पदि ति " इत्यत्र सूत्रेऽर्थस्तथा सकलोऽपि बाह्यः  
परिग्रहो मुमुक्षुणां ग्रहीतुं न युज्यते इत्याचेलक्येति सूत्रेऽर्थ इति तापर्यम् । तथा चोक्तम्, तद्देशामर्शकं  
सूत्रमाचेलक्यमिति स्थितम् । लुप्तोऽथवादिशब्दोऽत्र तालप्रलम्बसूत्रवत् ॥ मूलारा. टी. आचेलक्युद्देशिय-  
सेज्जाहरारायपिंडकिदियम्मे वदजेट्टपडिक्कमणे मास पज्जो समणकम्पां ॥ मूलारा. ४२१. अहवा एगगगहणे गहणं  
तज्जातियाण सञ्चेसिं । तेणज्जगपल्लवेणं तु सूइया सेसगपल्लवा ॥ वृ. क. सू. ८५५.

अणवगय-धाउस्स सिस्सस्स अत्थावगमाणवचत्तीदो । उक्तं च—

शब्दात्पदप्रसिद्धिः पदसिद्धेरर्थनिर्णयो भवति ।

अर्थात्तत्त्वज्ञानं तत्त्वज्ञानात्परं श्रेयः ॥ २ ॥ इति ।

णिच्छये णिण्णए खिवदि ति णिक्खेवो । सो वि छ्विहो, णाम-डुवणा-द्व-  
खेत्त-काल-भाव-मंगलमिदि ।

उच्चारियमःथपदं णिक्खेवं वा कयं तु दट्टण ।

अत्थं णयंति तच्चंतमिदि तदो ते णया भणियां ॥ ३ ॥

विना विवक्षित शब्दके अर्थका ज्ञान नहीं हो सकता है। और अर्थ-बोधके लिये विवक्षित शब्दके अर्थका ज्ञान कराना आवश्यक है। इसलिये यहां पर धातुका निरूपण किया गया है। कहा भी है—

(शब्दके पदकी सिद्धि होती है, पदकी सिद्धिसे उसके अर्थका निर्णय होता है, अर्थ-निर्णयसे तत्त्वज्ञान अर्थात् हेयोपादेय विवेककी प्राप्ति होती है, और तत्त्वज्ञानसे परम कल्याण होता है ॥ २ ॥)

जो किसी एक निश्चय या निर्णयमें क्षेपण करे, अर्थात् अनिर्णीत वस्तुका उसके नामादिकद्वारा निर्णय करावे, उसे निक्षेप कहते हैं। वह नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके भेदसे छह प्रकारका है, और उसके संबन्धसे मंगल भी छह प्रकारका हो जाता है, नाममंगल, स्थापनामंगल, द्रव्यमंगल, क्षेत्रमंगल, कालमंगल, और भावमंगल।

‘उच्चारण किये गये अर्थ-पद और उसमें किये गये निक्षेपको देखकर, अर्थात् समझकर, पदार्थको ठीक निर्णयतक पहुंचा देते हैं, इसलिये वे नच कहलाते हैं’ ॥ ३ ॥

विशेषार्थ—आगमके किसी श्लोक, गाथा, वाक्य अथवा पदके ऊपरसे अर्थ-निर्णय

१ श्लोकोऽयं ‘व्याकरणात्पदसिद्धिः’ इत्येतावन्मात्रपाठभेदेन सह प्रसाचन्द्रकृत-शाकटायनन्यास-सिद्ध-हैमादिव्याकरणग्रन्थेषूपलभ्यते ।

२ जुत्तीसु जुत्तमग्गे जं चउभेएण हाइ खलु डुवणं । कञ्जं सदि णामादिह तं णिक्खेवं हवे समए ॥ नयच. २६९. निक्खिप्पइ तेण तहिं तओ व निक्खेवणं व निक्खेवो । नियओ व निच्छओ वा खेवो नासो ति जं भणियं ॥ वि. मा. ९१२. निक्षेपणं शान्नादेनामस्थापनादिभेदेर्न्यसनं व्यवस्थापनं निक्षेपः । निक्षिप्यते नामादि-भेदैर्व्यवस्थाप्यतेऽनेनास्मादिति वा निक्षेपः । वि. मा. ९१२. म. टी.

३ णामणिडुवणादो द्वक्खेत्ताणि कालमात्रा य । इय छ्मेयं भणियं मंगलमाणंदसंजणणं ॥

ति. प. १, १८.

४ जत्तिएहि अक्खरोहि अत्थोवलद्धी होदि तेसिमक्खराणं कलावो अत्थपदं णाम । जयध. अ. पु. १२.

५ गाथेयं पाठभेदेन जयधवलायामप्युपलभ्यते । तथथा, उच्चारियन्मि दु पदे णिक्खेवं वा कयं तु दट्टण ।

अत्थं णयंति ते तच्चदो वि तन्हा णया भणिया । जयध. अ. पु. ३०. सुत्तं पयं पयत्थो पय-निक्खेवो य निजय-पसिद्धी ।

वृ. क. सू. ३०९.

इदि वयणादो कय-णिकखेवे दूण गयणमवदारो भवदि । को णयो' णाम ?

णयदि ति णयो भाणो बहूहि गुण-पज्जएहि जं दव्वं ।

परिणाम-खेत्त-कालंतरेसु अविणह-सव्भावं ॥ ४ ॥

करनेके लिये पहले निर्दोष पद्धतिसे श्लोकादिकका उच्चारण करना चाहिये, तदनन्तर पदच्छेद करना चाहिये, उसके बाद उसका अर्थ कहना चाहिये, अनन्तर पद-निक्षेप अर्थात् नामादि विधिसे नयोंका अवलंबन लेकर पदार्थका ऊहापोह करना चाहिये। तभी पदार्थके स्वरूपका निर्णय होता है। पदार्थ-निर्णयके इस क्रमको दृष्टिमें रखकर गाथाकारने अर्थ-पदका उच्चारण करके, और उसमें निक्षेप करके, नयोंके द्वारा, तत्व-निर्णयका उपदेश दिया है। गाथामें 'अत्यपद' इस पदसे पद, पदच्छेद और उसका अर्थ ध्वनित किया गया है। जितने अक्षरोंसे वस्तुका बोध हो उतने अक्षरोंके समूहको 'अर्थ-पद' कहते हैं। 'णिकखेवं' इस पदसे निक्षेप-विधिकी, और 'अत्यं णयाति तच्चंतं' इत्यादि पदोंसे पदार्थ-निर्णयके लिये नयोंकी आवश्यकता बतलाई गई है ॥ ३ ॥

पूर्वोक्त वचनके अनुसार पदार्थमें किये गये निक्षेपको देखकर नयोंका अवतार होता है।

शंका—नय किसे कहते हैं ?

(अनेक गुण और अनेक पर्यायोंसाहित, अथवा उनकेद्वारा, एक परिणामसे दूसरे परिणाममें, एक क्षेत्रसे दूसरे क्षेत्रमें और एक कालसे दूसरे कालमें अविनाशी-स्वभावरूपसे रहनेवाले द्रव्यको जो ले जाता है, अर्थात् उसका ज्ञान करा देता है, उसे नय कहते हैं ॥ ४ ॥)

विशेषार्थ—आगममें द्रव्यका लक्षण दो प्रकारसे बतलाया है, एक 'गुणपर्ययवद् द्रव्यम्' अर्थात् जिसमें गुण और पर्याय पाये जाय उसे द्रव्य कहते हैं। और दूसरा 'उत्पाद-व्यय-ध्रौव्ययुक्तं सत्' व 'सद् द्रव्यलक्षणम्' जो उत्पत्ति, विनाश और स्थिति-स्वभाव होता है वह सत् है, और सत् ही द्रव्यका लक्षण है। यहाँ पर नयकी निरुक्ति करते समय द्रव्यके इन

१ " अनन्त-पर्यायात्मकस्य वस्तुनः अन्यतम-पर्यायाधिगमे कर्तव्ये जालयुक्त्यपेक्षो निरवद्य-प्रयोगो नय इति अयं वाक्य-नयः तत्त्वार्थ-भाष्य-गतः ।" जयव. अ. पृ. २६. स्याद्वाद-प्राविमत्तार्थ-विशेष-व्यञ्जको नयः । आ. मी. १०६. वस्तुन्यनेकान्तात्मन्यविरोधेन हेत्वर्पणात्साध्य-विशेषस्य यायात्म्य-प्रापण-प्रवण-प्रयोगो नयः । स. सि. १, ३३. प्रमाण-प्रकाशितार्थ-विशेष-ग्रहणको नयः । त. रा. वा. १, ३३. प्रमाणेन वस्तु-संगृहीतार्थैकांशो नयः । श्रुत-विकल्पो वा ज्ञानुरभिप्रायो वा नयः । नानास्वभावभ्यो व्यावृत्त्य एकस्मिन् स्वभावे वस्तु नयति प्राप्नोति वा नयः । आ. प. १२१. जीवादीन् पदार्थान्वयन्ति प्राप्नुवन्ति कारयन्ति साधयन्ति निर्वर्तयन्ति निर्मासयन्ति उपलम्भयन्ति व्यञ्जयन्ति इति नयाः । स. त. सू. १, ३५. जं णाणीण वियप्पं सुअ-भेयं वत्थु-अंस-संगहणं । तं इह णयं पउत्तं, णाणी पुण तेहिं णाणेहिं ॥ न. च. १७४.

२ दव्वं सङ्खणियं उप्पाद-व्वय-धुवत्त-संजुत्तं । गुण-पज्जयासयं वा जं तं भणांति सव्वण्ह ॥ पच्चा. १०. अपरिचत्त-सहावेणुप्पाद-व्वय-धुवत्त-संजुत्तं । गुणवं च सपज्जायं जं तं दव्वं ति वृत्तं ॥ प्रवच. २, ३.

तित्थयर-वयण संगह-विसेस-पत्थार-मूल-वायरणी ।

दव्वट्ठिओ य पज्जय-णयो य सेसा वियप्पा सिं ॥ ५ ॥

दव्वट्ठिय-णय-पर्यई सुद्धा संगह-परूवणा-विसयो ।

पडिरूवं पुण वयणत्य-णिच्छयो तस्स ववहारो ॥ ६ ॥

दोनों लक्षणोंपर दृष्टि रखी गई प्रतीत होती है। नय किसी विवक्षित धर्मद्वारा ही द्रव्यका बोध कराता है। नयके इस लक्षणका संकेत भी 'गुणपज्जणहि' पदद्वारा ही जाता है। यह पद तृतीया विभक्ति सहित होनेसे उसे द्रव्यके लक्षणमें तथा निरुक्तिके साथ नयके लक्षणमें भी ले सकते हैं ॥ ४ ॥

तीर्थकरोंके वचनोंके सामान्य-प्रस्तारका मूल व्याख्यान करनेवाला द्रव्यार्थिक नय है और उन्हीं वचनोंके विशेष-प्रस्तारका मूल व्याख्याता पर्यायार्थिक नय है। शेष सभी नय इन दोनों नयोंके विकल्प अर्थात् भेद हैं ॥ ५ ॥

विशेषार्थ—जिनेन्द्रदेवने दिव्यध्वनिके द्वारा जितना भी उपदेश दिया है, उसका, अभेद अर्थात् सामान्यकी मुख्यतासे प्रतिपादन करनेवाला द्रव्यार्थिक नय है, और भेद अर्थात् पर्यायकी मुख्यतासे प्रतिपादन करनेवाला पर्यायार्थिक नय है। ये दोनों ही नय समस्त विचारों अथवा शास्त्रोंके आधारभूत हैं, इसलिये उन्हें यहां मूल व्याख्याता कहा है। शेष संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द आदि इन दोनों नयोंके अवान्तर भेद हैं ॥ ५ ॥

संग्रह नयकी प्ररूपणाको विषय करना द्रव्यार्थिक नयकी शुद्ध प्रकृति है, और वस्तुके प्रत्येक भेदके प्रति शब्दार्थका निश्चय करना उसका व्यवहार है। अर्थात् व्यवहार नयकी प्ररूपणाको विषय करना द्रव्यार्थिक नयकी अशुद्ध प्रकृति है ॥ ६ ॥

विशेषार्थ—वस्तु सामान्य-विशेष-धर्मात्मक है। उनमेंसे सामान्य-धर्मको विषय करना द्रव्यार्थिक और विशेष-धर्मको (पर्यायको) विषय करना पर्यायार्थिक नय है। उनमेंसे संग्रह और व्यवहारके भेदसे द्रव्यार्थिक नय दो प्रकारका है। जो अभेदको विषय करता है उसे संग्रह नय कहते हैं, और जो भेदको विषय करता है उसे व्यवहार नय कहते हैं। ये दोनों ही द्रव्यार्थिक नयकी क्रमशः शुद्ध और अशुद्ध प्रकृति हैं। जब तक द्रव्यार्थिक नय घट, पट आदि विशेष भेद न करके द्रव्य सत्स्वरूप है इसप्रकार द्रव्यको अभेदरूपसे ग्रहण करता है तब तक वह उसकी शुद्ध प्रकृति समझनी चाहिये। इसे ही संग्रह नय कहते हैं। तथा सत्स्वरूप जो द्रव्य है, उसके जीव और अजीव ये दो भेद हैं। जीवके संसारी और मुक्त इसतरह दो भेद हैं। अजीव भी पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल इस तरह पांच भेदरूप है। इस प्रकार उत्तरोत्तर प्रभेदोंकी अपेक्षा अभेदको स्पर्श करता हुआ भी जब वह भेदरूपसे वस्तुको ग्रहण करता है, तब वह उसकी अशुद्ध प्रकृति समझनी चाहिये। इसीको व्यवहार नय कहते हैं।

मूल-णिमेणं<sup>१</sup> पञ्जव-णयस्स उजुसुद-वयण-विच्छेदो<sup>२</sup> ।

तस्स दु सद्दादीया साह-पसाहा सुहुम-भेया ॥ ७ ॥

उप्पज्जंति त्रियंति य भावा णियमेण पञ्जव-णयस्स ।

दब्बट्ठियस्स सव्वं सदा अणुप्पण्णमधिणहं ॥ ८ ॥

यहां पर इतना विशेष समझना चाहिये कि वस्तुमें चाहे जितने भेद किये जावें, परंतु वे कालकृत नहीं होना चाहिये, क्योंकि वस्तुमें कालकृत भेदकी प्रधानतासे ही पर्यायार्थिक नयका अवतार होता है। द्रव्यार्थिक नयकी अगुद्ध प्रकृतिमें द्रव्यभेद अथवा सत्ताभेद ही इष्ट है, कालकृत भेद इष्ट नहीं है ॥ ६ ॥

ऋजुसूत्र वचनका विच्छेदरूप वर्तमान काल ही पर्यायार्थिक नयका मूल आधार है, और शब्दादिक नय शाखा-उपशाखारूप उसके उत्तरोत्तर सूक्ष्म भेद हैं ॥ ७ ॥

**विशेषार्थ**—वर्तमान समयवर्ती पर्यायको विषय करना ऋजुसूत्र नय है। इसलिये जब तक द्रव्यगत भेदोंकी ही मुख्यता रहती है, तब तक व्यवहार नय चलता है, और जब कालकृत भेद प्रारम्भ हो जाता है, तभीसे ऋजुसूत्र नयका प्रारम्भ होता है। शब्द, समभिरूढ और एवंभूत इन तीन नयोंका विषय भी वर्तमान पर्यायमात्र है। परंतु उनमें ऋजुसूत्रके विषयभूत अर्थके वाचक शब्दोंकी मुख्यता है, इसलिये उनका विषय ऋजुसूत्रसे सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम माना गया है। अर्थात् ऋजुसूत्रके विषयमें लिंग आदिसे भेद करनेवाला शब्दनय, शब्दनयसे स्वीकृत लिंग, वचनवाले शब्दोंमें व्युत्पत्तिभेदसे अर्थभेद करनेवाला समभिरूढ नय, और पर्याय-शब्दको उस शब्दसे ध्वनित होनेवाले क्रियाकालमें ही वाचक माननेवाला एवंभूत नय समझना चाहिये। इसतरह ये शब्दादिक नय उस ऋजुसूत्र नयकी शाखा उपशाखा हैं, यह सिद्ध हो जाता है। अतएव ऋजुसूत्र नय पर्यायार्थिक नयका मूल आधार माना गया है ॥ ७ ॥

पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षा पदार्थ नियमसे उत्पन्न होते हैं और नाशको प्राप्त होते हैं, क्योंकि, प्रत्येक द्रव्यमें प्रतिक्षण नवीन-नवीन पर्यायें उत्पन्न होती हैं और पूर्व-पूर्व पर्यायोंका नाश होता है। किंतु द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा वे सदा अनुत्पन्न और अविनष्ट स्वभाववाले हैं। उनका न तो कभी उत्पाद होता है और न कभी नाश होता है, वे सदाकाल स्थितिस्वभाव रहते हैं ॥ ८ ॥

**विशेषार्थ**—उत्पाद दो प्रकारका माना गया है, उसीप्रकार व्यय भी, एक स्वनिमित्त, और दूसरा परनिमित्त। इसका खुलासा इसप्रकार समझना चाहिये कि प्रत्येक द्रव्यमें आगम प्रमाणसे अनन्त अगुरुलघु गुणके अविभागप्रतिच्छेद माने गये हैं, जो षड्गुणहानि और षड्गुणवृद्धिरूपसे निरन्तर प्रवर्तमान रहते हैं। इसलिये इनके आधारसे प्रत्येक द्रव्यमें उत्पाद

१ ' णिमेणमन्नि ठाणे ' देशी नां. ४, ३७.

२ ऋजुसूत्रवचनविच्छेदो मूलाधारो येषां नयानां ते पर्यायार्थिकाः । विच्छिद्यतेऽस्मिन् काल इति विच्छेदः । ऋजुसूत्रवचनं नाम वर्तमानवचनं, तस्य विच्छेदः ऋजुसूत्रवचनविच्छेदः । स कालो मूल आधारो येषां नयानां ते पर्यायार्थिकाः । धवलायामग्रे नय-विवरणे.



तत्थ णेगम-संग्रह-व्यवहार-णएमु सव्वे एदे णिकखेवां हवंति तव्विसयम्मि-  
तवभव-सारिच्छ-सामण्णाहि सव्व-णिकखेव-संभवादो। कथं दव्वद्विय-णये भाव-णिकखेवस्स  
संभवो ? ण, वट्टमाण-पज्जायोवलक्खियं दव्वं भावो इदि दव्वद्विय-णयस्स वट्टमाण-

और व्यय हुआ करता है। इसीको स्वनिमित्तोत्पाद-व्यय कहते हैं। उसीप्रकार पर-निमित्तसे भी द्रव्यमें उत्पाद और व्ययका व्यवहार किया जाता है। जैसे, स्वर्णकारने कड़ेसे कुण्डल बनाया। यहां पर स्वर्णकारके निमित्तसे कड़ेरूप सोनेकी पर्याय नष्ट होकर कुण्डलरूप पर्यायका उत्पाद हुआ है और इसमें स्वर्णकार निमित्त है, इसलिये इस पर-निमित्त उत्पाद-व्यय समझ लेना चाहिये। इसीप्रकार आकाशादि निष्क्रिय द्रव्योंमें भी पर-निमित्त उत्पाद और व्यय समझ लेना चाहिये, क्योंकि आकाशादि निष्क्रिय द्रव्य दूसरे पदार्थोंके अवगाहन, गति आदिमें कारण पड़ते हैं, और अवगाहन, गति आदिमें निरन्तर भेद दिखाई देता है, इसलिये अवगाहन, गति आदिके कारण भी भिन्न होना चाहिये। स्थित वस्तुके अवगाहनमें जो आकाश कारण है उससे भिन्न दूसरा ही आकाश क्रिया-परिणत वस्तुके अवगाहनमें कारण है। इसतरह अवगाह्यमान वस्तुके भेदसे आकाशमें भेद सिद्ध हो जाता है, और इसलिये आकाशमें पर-निमित्तसे भी उत्पाद-व्ययका व्यवहार किया जाता है। इसीप्रकार धर्मादिक द्रव्योंमें भी पर-निमित्तसे उत्पाद और व्यय समझ लेना चाहिये। इसप्रकार यह सिद्ध हो गया कि पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षा पदार्थ उत्पन्न भी होते हैं और नाशको भी प्राप्त होते हैं। इसप्रकार अनन्त-कालसे अनन्त-पर्याय-परिणत होते रहने पर भी द्रव्यका कभी भी नाश नहीं होता है, और न एक द्रव्यके गुण-धर्म बदलकर कभी दूसरे द्रव्य-रूपही हो जाते हैं। अतएव द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा पदार्थ सर्वदा स्थिति-स्वभाव हैं ॥ ८ ॥

उन सात नयोंमें से नैगम, संग्रह और व्यवहार, इन तीन नयोंमें नाम, स्थापना आदि सभी निक्षेप होते हैं, क्योंकि, इन नयोंके विषयभूत तद्भव-सामान्य और सादृश्य-सामान्यमें सभी निक्षेप संभव हैं।

शंका—द्रव्यार्थिक नयमें भावनिक्षेप कैसे संभव है? अर्थात् जिस पदार्थमें भावनिक्षेप होता है वह तो उस पदार्थकी वर्तमान पर्याय है, परंतु द्रव्यार्थिक नय सामान्यको विषय करता है, पर्यायको नहीं। इसलिये द्रव्यार्थिक नयमें, अर्थात् द्रव्यार्थिक नयके विषयभूत पदार्थमें, जिसप्रकार दूसरे निक्षेप घटित हो जाते हैं उसप्रकार भावनिक्षेप घटित नहीं हो सकता है। भावनिक्षेपका अन्तर्भाव तो पर्यायार्थिक नयमें संभव है?

समाधान—ऐसा नहीं है, क्योंकि, वर्तमान पर्यायसे युक्त द्रव्यको ही भाव कहते हैं, और वह वर्तमान पर्याय भी द्रव्यकी आरम्भसे लेकर अन्ततककी पर्यायोंमें आ ही जाती है। तथा द्रव्य, अर्थात् सामान्य, द्रव्यार्थिक नयका विषय है जिसमें द्रव्यकी त्रिकालवर्ती पर्यायें अन्तर्नि-

१. णेगम-संग्रह-व्यवहारा सव्वे इच्छंति । कसाय-पाहुड-जुण्णि (जयध. अ.) पृ. ३०.

२. सामान्यं द्वेषा; तिर्यगूर्ध्वता-भेदात् । सदृश-परिणामस्तिर्यक्, गण-पणदादिणं जोज्ज्वन । पणपरिवर्त-व्यापि-द्रव्यमूर्ध्वता, मृदिव स्थासादिपु । प. सु. ४, ३-५.

मवि आरंभप्पहुडि आ उवरमादो । संगहे सुद्ध-दव्वड्डिए वि भाव-णिकखेवस्स अत्थित्तं  
ण विरुज्झदे सुकुक्खिण-णिकखितासेस-विसेस-सत्ताए सव्व-कालमवड्डिःए भावब्भुव-  
गमादो ति ।

गामं ठवणा दविए ति एस दव्वड्डियस्स णिकखेवो ।

भावो दु पज्जवड्डिय-परूवणा एस परमड्डो ॥ ९ ॥

अणेण सम्मइ-सुत्तेण सह कधमिदं वक्खवाणं ण विरुज्झदे ? इदि ण, तत्थ  
पज्जायस्सलक्खण-क्खण्डो भावब्भुवगमादो ।

हित हैं, अतएव द्रव्यार्थिक नयमें भावनिक्षेपं भी बन जाता है। यहां पर पर्यायकी गौणता  
और द्रव्यकी मुख्यतासे भावनिक्षेपका द्रव्यार्थिक नयमें अन्तर्भाव समझना चाहिये।

इसीप्रकार शुद्ध द्रव्यार्थिकरूप संग्रह नयमें भी भावनिक्षेपका सद्भाव विरोधको प्राप्त  
नहीं होता है, क्योंकि, अपनी कुक्षिमें समस्त विशेष सत्ताओंको समाविष्ट करनेवाली और  
सदाकाल एकरूपसे अवस्थित रहनेवाली महासत्तामें ही 'भाव' अर्थात् पर्यायका सद्भाव माना  
गया है।

अभेदरूपसे वस्तुको जब भी ग्रहण किया जायगा, तब ही वह वर्तमान पर्यायसे युक्त  
होगी ही, इसलिये वर्तमान पर्यायका अन्तर्भाव महासत्तामें हो जाता है। और शुद्ध संग्रह  
नयका महासत्ता विषय है, अतएव संग्रह नयमें भी भावनिक्षेपका अन्तर्भाव हो जाता  
है। यहां पर भी पर्यायकी गौणता और द्रव्यकी मुख्यता समझना चाहिये।

शंका—'नाम, स्थापना और द्रव्य ये तीनों द्रव्यार्थिक नयके निक्षेप हैं, और भाव  
पर्यायार्थिक नयका निक्षेप है। यही परमार्थ-सत्य है।' ॥ ९ ॥

सन्मतितर्कके इस कथनसे 'भावनिक्षेपका द्रव्यार्थिक नयमें अथवा संग्रह नयमें भी  
अन्तर्भाव होता है' यह व्याख्यान क्यों नहीं विरोधको प्राप्त होगा ?

विशेषार्थ—शंकाकारका यह अभिप्राय है, कि सन्मतिकारने भावनिक्षेपका केवल  
पर्यायार्थिक नयमें ही अन्तर्भाव किया है। परंतु यहांपर उसका द्रव्यार्थिक नयमें भी अन्तर्भाव  
किया गया है। इसलिये यह कथन तो सन्मतिकारके कथनसे विरुद्ध प्रतीत होता है।

समाधान—ऐसी शंका ठीक नहीं है, क्योंकि, सन्मतितर्कमें, पर्यायका लक्षण क्षणिक  
है इसे भावरूपसे स्वीकार किया गया है। अर्थात् सन्मतितर्कमें पर्यायकी विवक्षासे कथन किया  
है, और यहां पर वर्तमान पर्यायको द्रव्यसे अभिन्न मानकर कथन किया है। इसलिये कोई  
विरोध नहीं आता है।

१ स. त. १, ६. नामोक्तं स्थापनाद्रव्यं द्रव्यार्थिकनयार्पणाद् । पर्यायार्थार्पणाद् भावस्तैर्न्यासः सम्य-  
गीरितः ॥ त. श्लो. वा. १, ५. ६९. नामाइतियं दव्वड्डियस्स भावो य पञ्चवनयस्स । संगह-ववहारा पदमगस्स सेसा  
य इयरस्स ॥ वि. भा. ७५. पर्यायार्थिकनयेन पर्यायतत्वमधिगन्तव्यम्, इतरेषां नामस्थापनाद्रव्याणां द्रव्यार्थिकनयेन  
समान्यात्मकत्वात् । स. सि. १, ६. वृत्ति.

उज्जुसुदे<sup>१</sup> दृवण-णिकखेवं वज्जिऊण सच्चवे<sup>२</sup> णिकखेवा हवंति तत्थ सारिच्छ-  
सामण्णाभावादो ।

कथमुज्जुसुदे पञ्चवट्टिए दच्च-णिकखेवो त्ति ? ण, तत्थ वट्टमाण-समयाणंत-  
गुणणिणद-एग-दच्च-संभवादो । ण तत्थ णाम-णिकखेवाभावो वि सद्दोवलद्धि-काले णियत-  
वाचयत्तुवलंभादो । सद्द-समभिरूढ-एवंभूद-णएसु वि णाम-भाव-णिकखेवा हवंति तेसिं-  
चेय तत्थ संभवादो । एत्थ किमट्ठं णय-परूवणमिदि ?

प्रमाण-नय-निक्षेपैर्योऽर्थो नाभिसमीक्ष्यते ।

युक्तं चायुक्तवद्भाति तस्यायुक्तं च युक्तवत् ॥ १० ॥

ऋजुसूत्र नयमें स्थापना निक्षेपको छोड़कर शेष सभी निक्षेप संग्रह हैं, क्योंकि, ऋजुसूत्र  
नयमें सादृश्य-सामान्यका ग्रहण नहीं होता है। और स्थापना निक्षेप सादृश्य-सामान्यकी  
मुख्यतासे होता है।

शंका — ऋजुसूत्र तो पर्यायार्थिक नय है, उसमें द्रव्यनिक्षेप कैसे घटित हो सकता है ?

समाधान — ऐसी शंका ठीक नहीं है, क्योंकि, ऋजुसूत्र नयमें वर्तमान समयवर्ती  
पर्यायसे अनन्तगुणित एक द्रव्य ही तो विषयरूपसे संभव है।

विशेषार्थ — पर्याय द्रव्यको छोड़कर स्वतन्त्र नहीं रहती है, और ऋजुसूत्रका विषय  
वर्तमान पर्यायविशिष्ट द्रव्य है। इसलिये ऋजुसूत्र नयमें द्रव्यनिक्षेप भी संभव है।

इसीप्रकार ऋजुसूत्र नयमें नाम निक्षेपका भी अभाव नहीं है, क्योंकि, जिस समय शब्दका  
ग्रहण होता है, उसी समय उसकी नियत वाच्यता अर्थात् उसके विषयभूत अर्थका भी ग्रहण  
हो जाता है।

शब्द, समभिरूढ और एवंभूत नयमें भी नाम और भाव ये दो निक्षेप होते हैं, क्योंकि,  
ये दो ही निक्षेप वहां पर संभव हैं, अन्य नहीं।

विशेषार्थ — शब्द, समभिरूढ और एवंभूत, ये तीनों ही नय शब्द-प्रधान हैं, और  
शब्द किसी न किसी संज्ञाके वाचक होते ही हैं। अतः उक्त तीनों नयोंमें नाम-निक्षेप बन जाता  
है। तथा, उक्त तीनों नय वाचक शब्दोंके उच्चारण करते ही वर्तमानकालीन पर्यायको भी विषय  
करते हैं, अतएव उनमें भाव-निक्षेप भी बन जाता है।

शंका — यहां पर नयका निरूपण किसलिये किया गया है ?

समाधान — जिस पदार्थका प्रत्यक्षादि प्रमाणोंके द्वारा, नैगमादि नयोंके द्वारा और

१. उज्जुसुदो दृवण-वज्जे । कसाय-पाहुड-चुण्णि ( जयध. अ., ) पृ. ३०.

२. सद्द-णयस्स णाम-भाव-णिकखेवा । कसाय-पाहुड-चुण्णि । ( जयध. अ., ) पृ. ३१.

३. जो ण पमाण-णएहिं णिकखेवेणं णिरिक्खदे अत्थं । तस्साजुत्तं जुत्तं जुत्तमजुत्तं व पडिहाइ । ति. प.

१. ८३. अत्थं जो. त्तं समिक्खइ णिकखेव-णय-प्पमाणो विहिणा । तस्साजुत्तं जुत्तं जुत्तमजुत्तं व पडिहाइ ।

ज्ञानं प्रमाणमित्याहुरुपायो न्यास-उच्यते ।

नयो ज्ञातुरभिप्रायो युक्तितोऽर्थ-परिग्रहः ॥ ११ ॥ इति ।

ततः कर्तव्यं नयनिरूपणम् ।

इदाणि णिकखेवत्थं भणिस्सामो । तत्थ णाम-मंगलं णाम णिमित्ततरं-णिरवेक्खा  
मंगल-सण्णा । तत्थ णिमित्तं चउव्विहं, जाइ-दव्व-गुण-किरिया चेदि । तत्थ जाई तव्व-  
सारिच्छ-लक्खण-सामणं । दव्वं दुविहं, संजोय-दव्वं समवाय-दव्वं चेदि । तत्थ

नामादि निक्षेपोंके द्वारा सूक्ष्म-दृष्टिसे विचार नहीं किया जाता है, वह पदार्थ कभी युक्त (संगत) होते हुए भी अयुक्त (असंगत) सा प्रतीत होता है और कभी अयुक्त होते हुए भी युक्त की तरह प्रतीत होता है ॥ १० ॥

विद्वान् लोग सम्यग्ज्ञानको प्रमाण कहते हैं, नामादिकके द्वारा वस्तुमें भेद करनेके उपायको न्यास या निक्षेप कहते हैं, और ज्ञाताके अभिप्रायको नय कहते हैं । इसप्रकार युक्तिसे अर्थात् प्रमाण, नय और निक्षेपके द्वारा पदार्थका ग्रहण अथवा निर्णय करना चाहिये ॥ ११ ॥

अतएव नयका निरूपण करना आवश्यक है ।

अब आगे नामादि निक्षेपोंका कथन करते हैं । उनमेंसे, अन्य निमित्तोंकी अपेक्षा रहित किसीकी 'मंगल' ऐसी संज्ञा करनेको नाममंगल कहते हैं । नाम निक्षेपमें संज्ञाके चार निमित्त होते हैं, जाति, द्रव्य, गुण और क्रिया । उन चार निमित्तोंमें से, तद्भव और सादृश्य-लक्षणवाले सामान्यको जाति कहते हैं ।

विशेषार्थ—जिसमें विवक्षित-द्रव्यगत भूत, वर्तमान और भविष्यकाल संबन्धी पर्यायें अन्वयरूपसे होती हैं उस सामान्यको, अथवा किसी एक द्रव्यकी त्रिकालगोचर अनेक पर्यायोंमें रहनेवाले अन्वयको तद्भवसामान्य या ऊर्ध्वतासामान्य कहते हैं । जैसे मनुष्यकी बालक, युवा और वृद्ध अवस्थामें मनुष्यत्व-सामान्यका अन्वय पाया जाता है । तथा एक ही समयमें नाना व्यक्तिगत सदृश परिणामको सादृश्यसामान्य या तिर्यक्सामान्य कहते हैं । जैसे, रंग, आकार आदिसे भिन्न भिन्न प्रकारकी गायोंमें गोत्व-सामान्यका अन्वय पाया जाता है ।

द्रव्य-निमित्तके दो भेद हैं, संयोग-द्रव्य और समवाय-द्रव्य । उनमें, अलग अलग सत्ता

१ ज्ञानं प्रमाणमात्मादेरुपायो न्यास उच्यते । नयो ज्ञातुरभिप्रायो युक्तितोऽर्थ-परिग्रहः ॥ लघीय. ६, २. णाणं होदि पमाणं णओ वि णाडुस्स हिदय-भावत्थो । णिकखेओ वि उवाओ जुत्तीए अत्थपडिगहणं ॥ ति. प. १, ८३. वत्थु पमाणविसयं णयत्रिसयं हवइ वत्थु-एयंसं । जं दोहि णिण्णयट्ठं तं णिकखेवे हवे विसयं ॥ णाणासहाव-भरियं वत्थुं गहिऊण तं पमाणेण । एयंतणासणट्ठं पच्छा णय-जुंजणं कुणह ॥ जम्हा णएण ण विणा होइ णरस्स सिय-त्राय-पडिवत्ती । तम्हा सो णायव्वो एयंतं हंतुकामेण ॥ न. च. १७२, १७३, १७५.

२. नाम्नो वक्तरभिप्रायो निमित्तं कथितं समम् । तस्मादन्यत्तु जात्यादि निमित्तान्तरमिष्यते ॥

त. श्लो. वा. १, ५.

संजोय-द्व्वं णाम पुध पुध पसिद्धाणं दव्वाणं संजोगेण णिप्पणं । समवाय-द्व्वं णाम जं दव्वम्मि समवेदं । गुणो णाम पज्जायादि-परोप्पर-विरुद्धो अविरुद्धो वा । किरिया णाम परिप्फंदणरूवा । तत्थ जाइ-णिमित्तं णाम गो-मणुस्स-घड-पड-त्थंभ-वेत्तादि' । संजोग-द्व्व-णिमित्तं णाम दंडी छत्री मौली इच्चेवमादि' । समवाय-णिमित्तं णाम गल-गंडो काणो कुंडो इच्चेवमाइ । गुण-णिमित्तं णाम किण्हो रुहिरो इच्चेवमाई । किरिया-णिमित्तं णाम गायणो णच्चणो इच्चेवमाई । ण च एदे चत्तारि णिमित्ते मोत्तूण णाम-पउत्तीए अण्ण-णिमित्तंतरमत्थि ।

रखनेवाले द्रव्योंके मेलसे जो पैदा हो उसे संयोग-द्रव्य कहते हैं । जो द्रव्यमें समवेत हो अर्थात् कथंचित् तादात्म्य रखता हो उसे समवाय-द्रव्य कहते हैं । जो पर्याय आदिकसे परस्पर विरुद्ध हो अथवा अविरुद्ध हो उसे गुण कहते हैं ।

विशेषार्थ—इसका अर्थ इसप्रकार प्रतीत होता है कि उत्पाद और व्ययकी विवक्षासे गुण, पर्यायोंसे कथंचित् विरुद्ध अर्थात् भिन्न हैं, और ध्रौव्य-विवक्षासे टंकोत्कीर्ण न्याया-नुसार अभिन्न अर्थात् अविरुद्ध भी हैं ।

परिस्पन्द अर्थात् हलन-चलनरूप अवस्थाको क्रिया कहते हैं ।

उन चार प्रकारके निमित्तोंमेंसे, गौ, मनुष्य, घट, पट, स्तंभ और वेत इत्यादि जाति-निमित्तक नाम हैं, क्योंकि, गौ, मनुष्यादि संज्ञाएँ गौ, मनुष्यादि जातिमें उत्पन्न होनेसे प्रचलित हैं । दण्डी, छत्री, मौली इत्यादि संयोग-द्रव्य-निमित्तक नाम हैं, क्योंकि, दंडा, छतरी, मुकुट इत्यादि स्वतंत्र-सत्तावाले पदार्थ हैं, और उनके संयोगसे दंडी, छत्री, मौली इत्यादि नाम व्यवहारमें आते हैं । गलगण्ड, काना, कुबड़ा इत्यादि समवाय-द्रव्यनिमित्तक नाम हैं, क्योंकि, जिसके लिये 'गलगण्ड' इस नामका उपयोग किया गया है उससे गलेका गण्ड भिन्न-सत्तावाला नहीं है । इसीप्रकार काना, कुबड़ा आदि नाम समझ लेना चाहिये । कृष्ण, रुधिर इत्यादि गुण-निमित्तक नाम हैं, क्योंकि, कृष्ण आदि गुणोंके निमित्तसे उन गुणवाले द्रव्योंमें ये नाम व्यवहारमें आते हैं । गायक, नर्तक इत्यादि क्रिया-निमित्तक नाम हैं, क्योंकि, गाना, नाचना आदि क्रियाओंके निमित्तसे गायक नर्तक आदि नाम व्यवहारमें आते हैं । इसतरह जाति आदि उन चार निमित्तोंको छोड़कर संज्ञाकी प्रवृत्तिमें अन्य कोई निमित्त नहीं है ।

१ जातिद्वारेण शब्दो हि यो द्रव्यादिषु वर्तते । जातिहेतुः स विज्ञेयो गौरश्व इति शब्दवत् ॥

त. श्लो. वा. १, ५, ३.

२ संयोगि-द्रव्य-शब्दः स्यात्कुंडलीत्यादिशब्दवत् । समवायि-द्रव्य-शब्दो विषाणीलादिरास्थितः ॥

त. श्लो. वा. १, ५, ९.

३ गुणप्राधान्यतो वृत्ते द्रव्ये गुणनिमित्तकः । शुक्लः पाटल इजादि-शब्दवत्संप्रतीयते ॥ त. श्लो. वा. १, ५, ६.

४ कर्म-प्राधान्यतस्तत्र कर्महेतुर्निवृष्यते । चरति ध्रुवते यद्रत्नश्चिदित्यतिनिश्चितम् ॥ त. श्लो. वा. १, ५, ७.

वेच्चत्थ-णिरवेक्खो मंगल-सदो णाम-मंगलं । तस्स मंगलस्स आधारो अट्ठविहो । तं जहा, जीवो वा, जीवा वा, अजीवो वा, अजीवा वा, जीवो य अजीवो य, जीवा य अजीवो य, जीवो य अजीवा य, जीवा य अजीवा य ।

तत्थ ट्ठवण-मंगलं णाम आहिद-णामस्स अण्णस्स सोयमिदि ट्ठवणं ट्ठवणा णाम ।

वाच्यार्थ अर्थात् शब्दार्थकी अपेक्षा रहित 'मंगल' यह शब्द नाममंगल है। उस नाममंगलका आधार आठ प्रकारका है। जैसे, १ एक जीव, २ अनेक जीव, ३ एक अजीव, ४ अनेक अजीव, ५ एक जीव और एक अजीव, ६ अनेक जीव और एक अजीव, ७ एक जीव और अनेक अजीव, ८ अनेक जीव और अनेक अजीव।

विशेषार्थ—मंगलके लिये आधार या आश्रय आठ प्रकारका होता है, जिसका खुलासा इसप्रकार समझना चाहिये—१ साक्षात् एक जिनेन्द्रदेवके आश्रयसे जो मंगल किया जाता है उसे एकजीवाश्रित मंगल कहते हैं। यहां जिनेन्द्रदेवके स्थानपर एक जिन-यति भी लिया जा सकता है। २ अनेक यतियोंके आश्रयसे जो मंगल किया जाता है उसे अनेक जीवाश्रित मंगल कहते हैं। ३ एक जिनेन्द्रदेवकी प्रतिमाके आश्रयसे जो मंगल किया जाता है उसे एक अजीवाश्रित मंगल कहते हैं। ४ अनेक जिन-प्रतिमाओंके आश्रयसे जो मंगल किया जाता है उसे अनेक अजीवाश्रित मंगल कहते हैं। ५ एक जिनेन्द्रदेव और एक ही उनकी प्रतिमाके आश्रयसे एक ही समय जो मंगल किया जाता है उसे एक जीव और एक अजीवाश्रित मंगल कहते हैं। ६ अनेक यति और एक जिनेन्द्रदेवकी प्रतिमाके आश्रयसे एक ही समय जो मंगल किया जाता है उसे अनेक जीव और एक अजीवाश्रित मंगल कहते हैं। ७ एक जिनेन्द्रदेव और अनेक जिन प्रतिमाओंके आश्रयसे एक ही समय जो मंगल किया जाता है उसे एक जीव और अनेक अजीवाश्रित मंगल कहते हैं। ८ अनेक यति और अनेक जिन प्रतिमाओंके आश्रयसे एक ही समय जो मंगल किया जाता है उसे अनेक जीव और अनेक अजीवाश्रित मंगल कहते हैं।

उन नामादि निक्षेपोंमेंसे अब स्थापनामंगलको बतलाते हैं। किसी नामको धारण करने-वाले दूसरे पदार्थकी 'वह यह है' इसप्रकार स्थापना करनेको स्थापना-निक्षेप कहते हैं।

१ प्रतिपु 'वच्चत्थ' इति पाठः । ' नामं पि होज्ज सत्ता तच्चच्चं वा तयत्थपरिसुत्तं ॥ वि. भा. ३४००.

२ पाठोऽयमादर्शप्रतावित्थमुपलभ्यते—“ जीवो वा जीवो वा अजीवो वा अजीवो वा जीवो च अजीवो च अजीवो च अजीवा च जीवा च अजीवो च जीवा चेति ” । “ किञ्चिद्धि प्रतीतिमेकजीवनाम, यथा वित्थ इति । किञ्चिदनेकजीवनाम यथा यूथ इति । किञ्चिदेकाजीवनाम, यथा घट इति । किञ्चिदनेकाजीवनाम, यथा प्रासाद इति । किञ्चिदेकजीवैकाजीवनाम, यथा प्रतीहार इति । किञ्चिदेकजीवानेकाजीवनाम, यथा काहार इति । किञ्चिदेकाजीवानेक जीवनाम, यथा मंदुरेति । किञ्चिदनेकजीवाजीवनाम, यथा नगरमिति ” । त. श्लो. वा. १, ५. जीवस्स सो जिणस्स व अज्जीवस्स उ जिणिंदपडिमाए । जीवाण जईणं पि व अज्जीवाणं तु पडिमाणं ॥ जीवस्साजीवस्स य जइणो विवस्स चेगओ समयं । जीवस्साजीवाण य जइणो पडिमाण चेगत्यं ॥ जीवाणमजीवस्स य जईणं विवस्स चेगओ समयं । जीवाणमजीवाण य जईण पडिमाण चेगत्यं ॥ वि. भा. ३४२४, ३४२५, ३४२६.

सा दुविहा, सवभावसवभाव-द्ववणा चेदि । तत्थ आगारवंतए वत्थुम्मि सवभाव-द्ववणा । तव्विवरीया असवभाव-द्ववणा ।

मंगल-पज्जय-परिणद-जीव-रूवं लिहण-खणण-बंधण-क्खेवणादिणण इविदं बुद्धीए आरोविद-गुण-समूहं सवभाव-द्ववणा-मंगलं । बुद्धीए समारोविद-मंगल-पज्जय-परिणद-जीव-गुण-सरूवक्ख-वराडयादयो असवभाव-द्ववणा-मंगलं ।

दव्व-मंगलं णाम अणागय-पज्जाय-विसेसं पडुच्च गहियाहिमुहियं दव्वं अतव्वभावं वा । तं दुविहं, आगम-णो-आगम-दव्वं चेदि । आगमो सिद्धंतो पवयणमिदि एयट्ठो । आगमादो

वह स्थापनानिक्षेप दो प्रकारका है, सद्भावस्थापना और असद्भावस्थापना । इन दोनोंमेंसे, जिस वस्तुकी स्थापना की जाती है उसके आकारको धारण करनेवाली वस्तुमें सद्भावस्थापना समझना चाहिये, तथा जिस वस्तुकी स्थापना की जाती है उसके आकारसे रहित वस्तुमें असद्भावस्थापना जानना चाहिये ।

लेखनीसे लिखकर अर्थात् चित्र बनाकर, और खनन अर्थात् छेनी, टांकी आदिके द्वारा, बन्धन अर्थात् चिनाई, लेप आदिके द्वारा तथा क्षेपण अर्थात् सांचे आदिमें ढलाई आदिके द्वारा मूर्ति बनाकर स्थापित किये गये, और जिसमें बुद्धिसे अनेक प्रकारके मंगलरूप अर्थके सूचक गुणसमूहोंकी कल्पना की गई है ऐसे मंगल-पर्यायसे परिणत जीवके स्वरूपको अर्थात् आकृतिको सद्भावस्थापना-मंगल कहते हैं ।

नमस्कारादि करते हुए जीवके आकारसे रहित अक्ष अर्थात् शतरंजकी गोदोंमें, वराटक अर्थात् कौड़ियोंमें तथा इसीप्रकारकी अन्य वस्तुओंमें मंगल-पर्यायसे परिणत जीवके गुण या स्वरूपकी बुद्धिसे कल्पना करना अतदाकारस्थापना-मंगल है ।

विशेषार्थ—जैसे शतरंज आदिके खेलमें राजा, मन्त्री आदिकी और खेलनेकी कौड़ी व पासोंमें संख्याकी आरोपणा होती है, उसीप्रकार मंगलपर्यायपरिणत जीव और उसके गुणोंकी बुद्धिके द्वारा की हुई स्थापनाको असद्भावस्थापनामंगल कहते हैं ।

अब द्रव्यमंगलका कथन करते हैं । आगे होनेवाली पर्यायको ग्रहण करनेके सन्मुख-हुए द्रव्यको ( उस पर्यायकी अपेक्षा ) द्रव्यनिक्षेप कहते हैं । अथवा, वर्तमान पर्यायकी विवक्षासे रहित द्रव्यको ही द्रव्यनिक्षेप कहते हैं । वह द्रव्यनिक्षेप आगम और नो-आगमके भेदसे दो प्रकारका है ।

आगम, सिद्धान्त और प्रवचन, ये शब्द एकार्थवाची हैं । आगमसे भिन्न पदार्थको नो-आगम कहते हैं ।

१ तत्राध्यारोप्यमानेन भावेन्द्रादिना समाना प्रतिमा सद्भावस्थापना, मुख्यदक्षिणः स्वयं तस्यास्त्रबुद्धि-संभवान्, कथंचित्सादृश्यसद्भावान् । त. श्लो. वा. १, ५.

२ मुख्याकारग्न्या वस्तुमात्रा पुनरसद्भावस्थापना परोपदेशादेव तत्र सोऽयमिति संप्रत्ययान् । त. श्लो. वा. १, ५.

अण्णो णो-आगमो । तत्थं आगमदो दब्ब-मंगलं णाम मंगल-पाहुड-जाणओ अणुवजुत्तो,  
मंगल-पाहुड-सद्-रयणा वा, तस्सत्थ-डुवणक्खर-रयणा वा । णो-आगमदो दब्ब-मंगलं  
तिविहं, जाणुग-सरीरं भवियं तव्वदिरित्तमिदि । जं तं जाणुग-सरीरं णो-आगम-दब्ब-मंगलं  
तं तिविहं, मंगल-पाहुडस्स केवल-णाणादि-मंगल-पज्जायस्स वा आधारत्तणेण भविय-वट्टमा-  
णादीद-सरीरमिदि । आहारस्साहेयोवयारादो भवदु धरिद-मंगल-पज्जाय-परिणद-जीव-

मंगल-प्राभूत अर्थात् मंगल विषयका प्रतिपादन करनेवाले शास्त्रको जाननेवाला, किंतु  
वर्तमानमें उसके उपयोगसे रहित जीवको आगम-द्रव्यमंगल कहते हैं । अथवा, मंगल विषयके  
प्रतिपादक शास्त्रकी शब्द-रचनाको आगम-द्रव्यमंगल कहते हैं । मंगल विषयको प्रतिपादन  
करनेवाले शास्त्रकी स्थापनारूप अक्षरोंकी रचनाको भी आगम-द्रव्यमंगल कहते हैं ।

विशेषार्थ—आगे होनेवाली पर्यायके सन्मुख, अथवा वर्तमान पर्यायकी विवक्षासे  
रहित, अर्थात् भूत या भविष्यत् पर्यायकी विवक्षासे द्रव्यको द्रव्यनिक्षेप कहा है, और तद्विष-  
यक ज्ञानको आगम कहा है । इससे यह तात्पर्य निकलता है कि जो वर्तमानमें मंगलविषयक  
शास्त्रके उपयोगसे रहित हो वह आगमद्रव्यमंगल है । यहाँपर जो मंगलविषयक शास्त्रकी  
शब्दरचना अथवा मंगलशास्त्रकी स्थापनारूप अक्षरोंकी रचनाको आगमद्रव्यमंगल कहा है  
वह उपचारसे ही समझना चाहिये, क्योंकि, मंगलविषयक शास्त्र-ज्ञानमें मंगलविषयक शास्त्रकी  
शब्दरचना और मंगलशास्त्रकी स्थापनारूप अक्षरोंकी रचना ये मुख्यरूपसे निमित्त पड़ते हैं । वैसे  
तो सहकारी कारण शरीरादिक और भी होते हैं, परंतु वे मुख्य निमित्त न होनेसे उनका  
ग्रहण नो-आगममें किया है । अथवा, मंगलविषयक शास्त्रज्ञानसे और दूसरे निमित्तोंकी अपेक्षा  
इन दोनों निमित्तोंकी विशेषता दिखानेके प्रयोजनसे इन दोनों निमित्तोंका आगमद्रव्यमंगलमें  
ग्रहण कर लिया है ।

नो-आगमद्रव्यमंगल तीन प्रकारका है, ज्ञायकशरीर, भव्य या भावि और तद्व्यतिरिक्त ।  
उनमें जो ज्ञायकशरीर नो-आगमद्रव्यमंगल है वह भी तीन प्रकारका समझना चाहिये । मंगल-  
विषयक शास्त्रका अथवा केवलज्ञानादिरूप मंगल-पर्यायका आधार होनेसे भाविशरीर, वर्तमान-  
शरीर और अतीतशरीर, इसप्रकार ज्ञायकशरीर नो-आगमद्रव्यनिक्षेपके तीन भेद हो जाते हैं ।

शंका—आधारभूत शरीरमें आधेयभूत आत्माके उपचारसे धारण की हुई मंगल-  
पर्यायसे परिणत जीवके शरीरको नो-आगमज्ञायकशरीरद्रव्यमंगल कहना तो उचित भी है,

१ आगमओअणुवजुत्तो मंगल-सद्दाणुवासिओ वत्ता । तच्चाण-लद्धि-सहिओ वि नोवउत्तो त्ति तो दब्बं ॥  
जइ नाणमागमो तो कह दब्बं दब्बमागमो कह णु । आगम-कारणमाया देहो सद्दो यतो दब्बं ॥ मंगल-पयत्थ-जाणयं-  
देहो भवस्स वा सजीवो वि । नो आगमओ दब्बं आगम-रहिओ त्ति जं मणिअ ॥ अहवा नो देसम्मि नो आगमओ  
तदेग-देसाओ । भूयस्स भाविणो वाऽऽगमस्स जं कारणं देहो ॥ जाणय-भव्व-सरीराइरित्तमिह दब्ब-मंगलं होइ । जा  
मंगल्ला किरिया तं कुणमाणो अणुवजुत्तो ॥ वि. मा. २९, ३०, ४४, ४५, ४६.



सरीरस्स मंगल-ववएसो ण अण्णोसिं, तेसु द्विदं-मंगल-पज्जायाभावा । ण, राय-पज्जाया-  
हारत्तणेण अणागदादीद-जीवे वि राय-ववहारोवलंभा ।

तत्थ अदीद-सरीरं तिविहं, चुदं चइदं चत्तमिदि । तत्थ चुदं णाम कयलीघादेण  
विणा पक्कं पि फलं व कम्मोदएण ज्झीयमाणायु-क्खय-पदिदं । चइदं णाम कयली-  
घादेण छिण्णायु-क्खय-पदिद-सरीरं । उत्तं च—

परंतु भावी और भूतकालके शरीरकी अवस्थाको मंगल संज्ञा देना किसी प्रकार भी उचित नहीं  
है, क्योंकि, उनमें वर्तमान मंगलरूप पर्यायका अभाव है ?

समाधान—पेसा नहीं है, क्योंकि राज-पर्यायका आधार होनेसे अनागत और अतीत  
जीवमें भी जिसप्रकार राजारूप व्यवहारकी उपलब्धि होती है, उसीप्रकार मंगल पर्यायसे  
परिणत जीवका आधार होनेसे अतीत और अनागत शरीरमें भी मंगलरूप व्यवहार हो  
सकता है ।

विशेषार्थ—आगमके सहकारी कारण होनेसे शरीरको नो-आगम कहा गया है और  
उसमें अन्वय प्रत्ययकी उपलब्धि होनेसे उसे द्रव्य कहा गया है । ये दोनों बातें अतीत, वर्तमान  
और अनागत इन तीनों शरीरोंमें घटित होती हैं, इसलिये इनमें मंगलपनेका व्यवहार हो  
सकता है । इसका खुलासा इसप्रकार है—

औदारिक, वैक्रियक और आहारक शरीर मंगलविषयक शास्त्रके परिज्ञानमें सहकारी  
कारण हैं, क्योंकि, इनके विना कोई शास्त्रका अभ्यास ही नहीं कर सकता है । अब इनमें अन्वय-  
प्रत्यय कैसे पाया जाता है इसका खुलासा करते हैं । जिस शरीरसे मैंने मंगल शास्त्रका अभ्यास  
किया था वही शरीर उक्त अभ्यासको पूरा करते समय भी विद्यमान है, इसप्रकार तो वर्तमान  
ज्ञायक शरीरमें अन्वयप्रत्यय पाया जाता है । मंगल शास्त्रज्ञानसे उपयुक्त मेरा जो शरीर था,  
तद्विषयक शास्त्रज्ञानसे रहित मेरे अब भी वही शरीर विद्यमान है, इसप्रकार अतीत ज्ञायक  
शरीरमें अन्वयप्रत्ययकी उपलब्धि होती है । मंगल शास्त्रज्ञानके उपयोगसे रहित मेरा जो  
शरीर है वही तद्विषयक तत्वज्ञानकी उपयोग-दशमें भी होगा, इसप्रकार अनागत ज्ञायकशरीरमें  
अन्वयप्रत्ययकी उपलब्धि बन जाती है । इसलिये वर्तमान शरीरकी तरह अतीत और अनागत  
शरीरमें भी मंगलरूप व्यवहार हो सकता है ।

इनमेंसे अतीत शरीरके तीन भेद हैं, च्युत, च्यावित और त्यक्त ।

कदलीघात-मरणके विना कर्मके उदयसे झड़नेवाले आयुकर्मके क्षयसे पके हुए  
फलके समान अपने आप पतित शरीरको च्युतशरीर कहते हैं ।

विशेषार्थ—जैसे पका हुआ फल अपना समय पूरा हो जानेके कारण वृक्षमेंसे स्वयं  
गिर पड़ता है । वृक्षसे अलग होनेके लिये उसे और दूसरे निमित्तोंकी अपेक्षा नहीं पड़ती है ।  
उसीप्रकार आयु कर्मके पूरे हो जाने पर जो शरीर शास्त्रादिकके विना छूट जाता है, उसे च्युत  
शरीर कहते हैं ।

कदलीघातके द्वारा आयुके छिन्न हो जानेसे छूटे हुए शरीरको च्यावितशरीर  
कहते हैं । कंहा भी है—

विष-वेयण-रक्तकवय-भय-सत्यगहण-संकिलिस्सेहि ।

आहारोस्सासाणं गिरोहदो छिज्जदे आऊ ॥ इदि ।

चतसरीरं तिविहं, पायोवगमण-विहाणेण, इंगिणि-विहाणेण, भक्त-पच्चक्खाण-विहाणेण चात्तमिदि । तत्रात्मपरोपकारनिरपेक्षं प्रायोपगमनम् । आत्मोपकारसव्यपेक्षं परोप-

विपके खा लेनेसे, वेदनासे, रक्तका क्षय हो जानेसे, तीव्र भयसे, शस्त्राघातसे संक्लेशकी अधिकतासे, आहार और श्वासोच्छ्वासके रुक जानेसे आयु क्षीण हो जाती है । इसतरह जो मरण होता है उसे कदलीघात मरण कहते हैं ।

विशेषार्थ—जैसे कदली (केला) के वृक्षका तलवार आदिके प्रहारसे एकदम विनाश हो जाता है, उसीप्रकार विप-भक्षणादि निमित्तोंसे भी जीवकी आयु एकदम उदीर्ण हो जाती है । इसे ही अकाल-मरण कहते हैं, और इसके द्वारा जो शरीर छूटता है उसे च्यावित शरीर कहते हैं ।

त्यक्तशरीर तीन प्रकारका है, प्रायोपगमन विधानसे छोड़ा गया, इंगिणी विधानसे छोड़ा गया और भक्तप्रत्याख्यान विधानसे छोड़ा गया । इसतरह इन तीन निमित्तोंसे त्यक्त शरीरके तीन भेद हो जाते हैं ।

अपने और परके उपकारकी अपेक्षा रहित समाधिमरणको प्रायोपगमन विधान कहते हैं ।

विशेषार्थ—प्रायोपगमन समाधिमरणको धारण करनेवाला साधु संस्तरका ग्रहण करना, बाधाके निवारणके लिये हाथ पांवका हिलाना, एक क्षेत्रको छोड़कर दूसरे क्षेत्रमें जाना आदि क्रियाएं न तो स्वयं करता है और न दूसरेसे कराता है । जैसे काष्ठ सर्वथा निश्चल रहता है, उसीप्रकार वह साधु समाधिमें सर्वथा निश्चल रहता है । शास्त्रोंमें प्रायोपगमनके अनेक प्रकारके अर्थ मिलते हैं । जैसे, संघको छोड़कर अपने पैरोंद्वारा किसी योग्य देशका आश्रय करके जो समाधिमरण किया जाता है उसे पादोपगमन समाधिमरण कहते हैं । अथवा, प्राय अर्थात् संन्यासकी तरह उपवासके द्वारा जो समाधिमरण होता है उसे प्रायोपगमन समाधिमरण कहते हैं । अथवा, पादप अर्थात् वृक्षकी तरह निष्पन्दरूपसे रहकर, शरीरसे किसी भी प्रकारकी क्रिया न करते हुए जो समाधिमरण होता है उसे पादोपगमन समाधिमरण कहते हैं । इन सब अर्थोंका मुख्य अभिप्राय यही है कि इस विधानमें अपने व परके उपकार की अपेक्षा नहीं रहती है ।

१. गो. क. ५७.

२. पायोवगमणमरणं, पादाभ्यामुपगमनं दौकनं तेन प्रवर्तितं मरणं पादोपगमनमरणम् । अथवा 'पाउगगमणमरणं' इति पाठः, भवान्तकरणं प्रायोग्यं संहननं संस्थानं चेह प्रायोग्यशब्देनोच्यते । अस्य गमनं प्राप्तिः, तेन कारणभूतेन यन्निर्वर्त्य मरणं तदुच्यते पाउगगमणमरणमिति । मूलारा. पृ. ११३. 'पाओवगमणं' पादपस्येवोपगमनमस्पन्दतयाऽवस्थानं पादोपगमनम् । तदुक्तं-पाओवगमं भाणियं सम-विसमे पायवो जहा पडितो । नवरं परप्पओगा केषेज्ज जहा चलतव च्च ॥ ५४४ अभिरा. कोष ( पाओवगमण )

कारनिरपेक्षं इंगिनीमरणम् । आत्मपरोपकारसव्यपेक्षं भक्तप्रत्याख्यानमिति । तत्र भक्त-  
प्रत्याख्यानं त्रिविधं जघन्योत्कृष्टमध्यममेदात् । जघन्यमन्तर्मुहूर्तप्रमाणम् । उत्कृष्ट-  
भक्तप्रत्याख्यानं द्वादशवर्षप्रमाणम् । मध्यममेतयोरन्तरालमिति ।

जिस संन्यासमें, अपने द्वारा किये गये उपकारकी अपेक्षा रहती है, किन्तु दूसरेके द्वारा किये गये वैयावृत्य आदि उपकारकी अपेक्षा सर्वथा नहीं रहती, उसे इंगिनीसमाधि कहते हैं ।

विशेषार्थ— इंगिनी शब्दका अर्थ इंगित ( अभिप्राय ) है । इससे यह तात्पर्य निकलता है कि इस समाधिमरणको करनेवाला स्वतः किये हुए उपकारकी अपेक्षा रखता है । इस समाधि-मरणमें साधु संघसे निकलकर किसी योग्य देशमें समभूमि अथवा शिलापट्ट देखकर उसके ऊपर स्वयं तृणका संस्तर तैयार करके समाधिकी प्रतिज्ञा करता है । इसमें उठना, बैठना, सोना, हाथ-पैरका पसारना, मल-मूत्रका विसर्जन करना आदि क्रियाएं शक्य स्वयं करता है । किसी दूसरे साधुकी सहायता नहीं लेता है । इसतरह यावज्जीवन चार प्रकारके आहारके त्यागके साथ, स्वयं किये गये उपचार सहित समाधिमरणको इंगिनी-संन्यास कहते हैं ।

जिस संन्यासमें अपने और दूसरेके द्वारा किये गये उपकारकी अपेक्षा रहती है उसे भक्तप्रत्याख्यानसंन्यास कहते हैं ।

विशेषार्थ—भक्त नाम भोजनका है और प्रत्याख्यान त्यागको कहते हैं । इसका यह अभिप्राय है कि जिस संन्यासमें क्रम-क्रमसे आहारादिका त्याग करते हुए अपने और पराये उप-कारकी अपेक्षा रखकर समाधिमरण किया जाता है, उसे भक्त-प्रत्याख्यान-संन्यास कहते हैं ।

इन तीनों प्रकारके समाधिमरणोंमेंसे भक्त-प्रत्याख्यानविधि जघन्य, मध्यम और उत्कृष्टके भेदसे तीन प्रकारकी है । जघन्य भक्तप्रत्याख्यानविधिका प्रमाण अन्तर्मुहूर्तमात्र है, उत्कृष्ट भक्तप्रत्याख्यानविधिका प्रमाण बारह वर्ष है और मध्यम भक्तप्रत्याख्यान विधिका प्रमाण, जघन्य अन्तर्मुहूर्तसे लेकर बारह वर्षके भीतर है ।

१. इंगिनीशब्देन, इंगितमात्मनाऽभिप्रायं भण्यते, स्वाभिप्रायेण स्थित्वा प्रव्रत्यमानं मरणं इंगिनीमरणम् । यत्पुनः स्ववैयावृत्तिसापेक्षमेव । मूलारा. पृ. १२४. अत्र नियमाच्चतुर्विधाहारविरतिः, परपरिकर्मविवर्जनञ्च भवति । स्वयं पुनरिहितदेशाभ्यन्तरे उद्धर्तनादि चेष्टात्मकं परिकर्म यथासमाधि विदधाति । आमि. रा. कोष. ( इंगिनी )

२. मव्यते देहस्थित्यर्थमिति भक्तमाहारः । तस्य प्रतिज्ञा प्रत्याख्यान त्यागः । भक्तप्रतिज्ञा नृपरवैयावृत्य-सापेक्षं मरणम् । मूलारा. पृ. १२३.

३. उक्तस्यैव भक्त-पश्यन्ना कालो जिणेहि णिद्धिद्वो । काळं हि संपहुत्ते वारिस वरिसाणि पुण्णाणि ॥ जोगेहि विचिचेहि दु खवेदि संवच्छराणि चत्तारि । विचिदीणि य जूहिता चत्तारि पुणो वि सोसेइ ॥ आयंविह-णिन्वियदीहि-दोणिण आयंविलेण एक्कं च । अद्धं णादि विगट्टेहि तदो अद्धं विगट्टेहि ॥ मूलारा. २५७-२५९.

संजम-विणास-भण्ण उस्सास-णिरोंहं काऊण मुद-साहुं-सरीरं कत्थ णिवदिदि ? ण कत्थ वि तहा-मुद-देहस्स मंगलत्ताभावादो । मंगल-पाहुड-धारयस्स धरिद-महव्वयस्स चत्त-देहस्स अचत्त-देहस्स वा देहो कधममंगलं ? साहणमजुत्तकारिस्स देहत्तादो अमंगल-मिदि ण वोत्तुं जुत्तं, पुव्वं ति-रयणाहारत्तेण मंगलत्तमुव्वगयस्स पच्छा भूद-पुव्व-णाएण मंगल-भावं पडि विरोहाभावादो । तदो मंगल-भावेण कत्थ वि णिवदेयव्वमेदेण सरीरे-णेति । ण चइदम्मिह पददि चत्तस्स वि आहार-णिरोंहेण पदिदस्स चइदत्तावत्तीदो । तो क्खहिं एव्वं घेत्तव्वं ? कयली-घादेण मरण-कंखाए जीवियासाए जीविय-मरणासाहि विणा वा पदिद-सरीरं चइदं । जीवियासाए मरणासाए जीविय-मरणासाहि विणा वाकयली-

शंका—संयमके विनाशके भयसे श्वासोच्छ्वासका निरोध करके मरे हुए साधुके शरीरका त्यक्तके तीन भेदोंमेंसे किस भेदमें अन्तर्भाव होता है ?

समाधान—ऐसे शरीरका त्यक्तके किसी भी भेदमें अन्तर्भाव नहीं होता है, क्योंकि, इसप्रकारसे मृत-शरीरको मंगलपना प्राप्त नहीं हो सकता ।

शंका—जो मंगल शास्त्रका धारक है अर्थात् ज्ञाता है, जिसने महाव्रतोंको धारण किया है, चाहे उस साधुने समाधिसे शरीर छोड़ा हो अथवा नहीं छोड़ा हो, परंतु उसके शरीरको अमंगलपना कैसे प्राप्त हो सकता है ? यदि कहा जावे कि साधुओंमें अयोग्य कार्य करनेवाले साधुका शरीर होनेसे वह अमंगल है, सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि, जो शरीर पहले रत्नत्रयका आधार होनेसे मंगलपनेको प्राप्त हो चुका है, उसमें पीछेसे भी भूतपूर्व न्यायकी अपेक्षा मंगलत्वके स्वीकार कर लेनेमें कोई विरोध नहीं आता है । इसलिये मंगलपनेकी अपेक्षा संयमके विनाशके भयसे श्वासोच्छ्वासके निरोधसे छोड़े हुए साधुके शरीरको त्यक्तके तीन भेदोंमेंसे किसी एक भेदमें ग्रहण करना ही चाहिये । इस शरीरका च्यावितमें तो ग्रहण हो नहीं सकता है, क्योंकि, यदि इसका च्यावितमें ग्रहण किया जावे, तो आहारके निरोधसे छूटे हुए त्यक्त शरीरका भी च्यावितमें ही अन्तर्भाव करना पड़ेगा ? तो ऐसे शरीरको किस भेदमें ग्रहण करना चाहिये ?

समाधान—मरणकी आशासे या जीवनकी आशासे अथवा जीवन और मरण इन दोनोंकी आशाके विना ही कदलीघातसे छूटे हुए शरीरको च्यावित कहते हैं । जीवनकी आशासे, मरणकी आशासे अथवा जीवन और मरण इन दोनोंकी आशाके विना ही कदली-

१. तो णाउ वित्तिच्छेयं उसासनिरोहमादिणि कयाइं । अणहीयासे तेहिं वेयण साइहि ओमम्मि ॥ पडि-घातो वा सिञ्जु गिरिमिती कोणयाइं वा हुज्जा । सन्नद्धहत्थपायादओ च्च वातेण होज्जाहि ॥ एएहिं कारणेहिं पंडिय-मरण तु काउमसमन्थो । उसासगिद्वपट्टं रञ्जुगहणं च कुज्जाहि ॥ च्यव. सू. ५४६-५४८.

घादेण अचत्त-भावेण पदिद-सरीरं चुदं णाम । जीविद-मरणासाहि विणा सरूवोवलद्धि-णिमित्तं व चत्त-वज्झंतरंग-परिग्गहस्स कयली-घादेणियरेण वा पदिद-सरीरं चत्त-देहमिदि ।

भव्यनोआगमद्रव्यं भविष्यत्काले मङ्गलप्राभृतज्ञायको जीवः मङ्गल-पर्यायं परिणंस्यतीति वा । तद्व्यतिरिक्तं द्विविधं कर्मनोकर्ममङ्गलभेदात् । तत्र कर्ममङ्गलं दर्शन-विशुद्ध्यादि-षोडशधा-प्रविभक्त-तीर्थकर-नामकर्म-कारणैर्जीव-प्रदेश-निवद्ध-तीर्थकर-नामकर्म-माङ्गल्य-निबन्धनत्वान्मङ्गलम् । यत्तन्नोकर्ममङ्गलं तद् द्विविधम्, लौकिकं लोकोत्तर

घात व समाधिमरणसे रहित होकर छूटे हुए शरीरको च्युत कहते हैं। आत्म-स्वरूपकी प्राप्तिके निमित्त, जिसने बहिरंग और अन्तरंग परिग्रहका त्याग कर दिया है ऐसे साधुके जीवन और मरणकी आशाके विना ही कदलीघातसे अथवा इतर कारणोंसे छूटे हुए शरीरको त्यक्तशरीर कहते हैं।

विशेषार्थ — ऊपर बतलाये गये च्युत, च्यावित और त्यक्तके स्वरूप पर ध्यान देनेसे यह भर्त्सकप्रकार विदित हो जाता है कि संयम-विनाशके भयसे श्वासोच्छ्वासका निरोध करके छूटे हुए साधुके शरीरका च्यावितमें ही अन्तर्भाव होता है, क्योंकि, च्यावित मरणमें कदलीघातकी प्रधानता है। और श्वासोच्छ्वासका स्वयं निरोध करके मरना कदलीघातमरण है। उसमें समाधिका सद्भाव नहीं रह सकता है, इसलिये ऐसे मरणका त्यक्तके किसी भी भेदमें ग्रहण नहीं किया जा सकता है। यद्यपि किसी त्यक्तमरणमें कदलीघात भी निमित्त पड़ता है। परंतु वहांपर कदलीघातसे, परकृत उपसर्गादि निमित्तोंका ही ग्रहण किया गया है, स्वकृत श्वासोच्छ्वासनिरोध आदि आत्मघातके साधन विवक्षित नहीं हैं।

जो जीव भविष्यकालमें मंगल-शास्त्रका जाननेवाला होगा, अथवा मंगलपर्यायसे परिणत होगा उसे भव्यनोआगमद्रव्यमंगलनिक्षेप कहते हैं।

विशेषार्थ — ज्ञायकशरीरके तीन भेद किये हैं। उसका एक भेद भावी भी है। परंतु उससे इस भावीको भिन्न समझना चाहिये, क्योंकि, ज्ञायकशरीरके भावी विकल्पमें ज्ञाताके आगे होनेवाले शरीरको ग्रहण किया है, और यहांपर भविष्यमें होनेवाला तद्विषयक शास्त्रका ज्ञाता ग्रहण किया है।

कर्मतद्व्यतिरिक्तद्रव्यमंगल और नोकर्मतद्व्यतिरिक्तद्रव्यमंगलके भेदसे तद्व्यतिरिक्तनोआगमद्रव्यमंगल दो प्रकारका है। उनमें दर्शनविशुद्धि आदि सोलह प्रकारके तीर्थकर नामकर्मके कारणोंसे जीवके प्रदेशोंसे बंधे हुए तीर्थकर नामकर्मको कर्मतद्व्यतिरिक्तनोआगमद्रव्यमंगल कहते हैं, क्योंकि, वह भी मंगलपनेका सहकारी कारण है।

नोकर्मतद्व्यतिरिक्तनोआगमद्रव्यमंगल दो प्रकारका है। एक लौकिक नोकर्मतद्व्यतिरिक्तनोआगमद्रव्यमंगल और दूसरा लोकोत्तर नोकर्मतद्व्यतिरिक्तनोआगमद्रव्यमंगल।

मिति । तत्र लौकिकं त्रिविधम्, सचित्तमचित्तं मिश्रमिति । तत्राचित्तमङ्गलम्—

सिद्धत्य-पुण्य-कुंभो वंदणमाला य मंगलं छत्तं ।

सेदो वण्णो आदंसणो य कण्णा य जच्चस्सो' ॥ १३ ॥

सचित्तमङ्गलम् । मिश्रमङ्गलं सालङ्कारकन्यादिः ।

उन दोनोंमेंसे लौकिकमंगल सचित्त, अचित्त और मिश्रके भेदसे तीन प्रकारका है । इनमें—'सिद्धार्थ अर्थात् पीले सरसों, जलसे भरा हुआ कलश, वंदनमाला, छत्र, श्वेत-वर्ण, और दर्पण आदि अचित्त मंगल हैं । और बालकन्या तथा उत्तम जातिका घोड़ा आदि सचित्त मंगल हैं ॥ १३ ॥

विशेषार्थ—पंचास्तिकायकी टीकामें भी जयसेन आचार्यने इन पदार्थोंको मंगलरूप माननेमें भिन्न भिन्न कारण दिये हैं । वे इसप्रकार हैं, जिनेन्द्रदेवने व्रतादिकके द्वारा परमार्थको प्राप्त किया और उन्हें सिद्ध यह संधा प्राप्त हुई, इसलिये लोकमें सिद्धार्थ अर्थात् सरसों मंगलरूप माने गये । जिनेन्द्रदेव संपूर्ण मनोरथोंसे अथवा केवलज्ञानसे परिपूर्ण हैं, इसलिये पूर्ण-कलश मंगलरूपसे प्रसिद्ध हुआ । बाहर निकलते समय अथवा प्रवेश करते समय चौबीस ही तीर्थकर वन्दना करने योग्य हैं, इसलिये भरत चक्रवर्तीने वन्दनमालाकी स्थापना की । अरहंत परमेष्ठी सभी जीवोंका कल्याण करनेवाले होनेसे जगके लिये छत्राकार हैं, अथवा सिद्धलोक भी छत्राकार है, इसलिये छत्र मंगलरूप माना गया है । ध्यान, शुक्लेश्या इत्यादि श्वेत-वर्ण माने गये हैं, इसलिये श्वेतवर्ण मंगलरूप माना गया है । जिनेन्द्रदेवके केवलज्ञानमें जिसप्रकार लोक और अलोक प्रतिभासित होता है, उसीप्रकार दर्पणमें भी अपना बिम्ब झलकता है; अतएव दर्पण मंगलरूप माना गया है । जिसप्रकार वीतराग सर्वज्ञदेव लोकमें मंगलस्वरूप हैं, उसीप्रकार बालकन्या भी रागभावसे रहित होनेके कारण लोकमें मंगल मानी गई है । जिसप्रकार जिनेन्द्रदेवने कर्म-शत्रुओं पर विजय पाई, उसीप्रकार उत्तम जातिके घोड़ेसे भी शत्रु जीते जाते हैं, अतएव उत्तम जातिका घोड़ा मंगलरूप माना गया है ॥ १३ ॥

अलंकार सहित कन्या आदि मिश्र-मंगल समझना चाहिये । यहां पर अलंकार अचित्त और कन्या सचित्त होनेके कारण अलंकारसहित कन्याको मिश्रमंगल कहा है ।

१. वयाणियमसंजमगुणेहि साहिदो जिणवोहि परमट्ठो । सिद्धा सण्णा जेसिं सिद्धत्वा मंगलं तेण ॥ पुण्णा मणोरहेहि य केवलणापिण चावि संपुण्णा । अरहंता इदि लोए सुमंगलं पुण्णकुंभो दु ॥ गिग्गमणपवेसम्हि य इह चत्तवीसं पि वंदणिञ्जा ते । वंदणमालं ति कया भरहेण य मंगलं तेण ॥ सच्चजणणिवुदियरां छत्तायारा जगस्स अरहंता । छत्तायारं सिद्धि ति मंगलं तेण छत्तं तं ॥ सेदो वण्णो वज्जाणं लेस्सा य अघाइसेसकम्मं च । अरुहाणं इदि लोए सुमंगलं सेदवण्णो दु ॥ दांसिद लोयालोओ केवलणाणे तहा जिणिदत्स । तह दीसइ मुकुरे विंत्तु मंगलं तेण तं सुणह ॥ जह वीयरायसच्चण्णं जिणवरो मंगलं हवइ लोए । हयरायवालकण्णा तह मंगलमिदि वियाणाहि ॥ कम्मारे जिणेविणु जिणवरोहिं भोक्खु जिणाहि वि जेण । जच्चत्स उ अरविल जिणइ मंगलु वुच्चइ तेण ॥ पञ्चा. टीका.

लोकोत्तरमङ्गलमपि त्रिविधम्, सचित्तमचित्तं मिश्रमिति । सचित्तमर्हदादीनाम-  
नाद्यनिधनजीवद्रव्यम् । न केवलज्ञानादिमङ्गलपर्यायविशिष्टार्हदादीनाम्, जीवद्रव्यस्यैव  
ग्रहणं तस्य वर्तमानपर्यायोपलक्षितं द्रव्यं भाव इति भावनिक्षेपान्तर्भावात् । न केवल-  
ज्ञानादिपर्यायाणां ग्रहणं तेषामपि भावरूपत्वात् । अचित्तमङ्गलं कृत्रिमाकृत्रिमचैत्याल-  
यादिः, न तत्स्थप्रतिमास्तु संस्थापनान्तर्भावात् । अकृत्रिमाणां कथं स्थापनाव्यपदेशः ?  
इति चेन्न, तत्रापि बुद्ध्या प्रतिनिधौ स्थापितमुख्योपलम्भात् । यथा अग्निरिव माणवकोऽग्निः  
तथा स्थापनेव स्थापनेति तासां तद्व्यपदेशोपपत्तेर्वा । तदुभयमपि मिश्रमङ्गलम् ।

तत्र क्षेत्रमङ्गलं गुण-परिणतासन-परिनिष्क्रमण-केवलज्ञानोत्पत्ति-परिनिर्वाण-

लोकोत्तर मंगल भी सचित्त, अचित्त और मिश्रके भेदसे तीन प्रकारका है । अरहंत  
आदिका अनादि और अनन्तस्वरूप जीवद्रव्य सचित्त लोकोत्तर नो-आगमतद्रव्यतिरिक्तद्रव्य-  
मंगल है । यहांपर केवलज्ञानादि मंगल-पर्याययुक्त अरहंत आदिकका ग्रहण नहीं करना चाहिये,  
किंतु उनके सामान्य जीवद्रव्यका ही ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि, वर्तमान-पर्यायसहित  
द्रव्यका भावनिक्षेपमें अन्तर्भाव होता है । इसलिये केवलज्ञानादिगुक्त अरहंतके आत्माकी  
भावनिक्षेपमें परिगणना होगी । उसकी द्रव्यनिक्षेपमें गणना नहीं हो सकती है । उसीप्रकार,  
केवलज्ञानादि पर्यायोंका भी इस लोकोत्तर नो-आगमतद्रव्यमंगलमें ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि,  
वे सब पर्याय भावस्वरूप होनेके कारण उनका भी भावनिक्षेपमें ही अन्तर्भाव होगा ।

कृत्रिम और अकृत्रिम चैत्यालयादि अचित्त लोकोत्तर नो-आगमतद्रव्यतिरिक्तद्रव्य-  
मंगल हैं । उन चैत्यालयोंमें स्थित प्रतिमाओंका इस निक्षेपमें ग्रहण नहीं करना चाहिये,  
क्योंकि, उनका स्थापना निक्षेपमें अन्तर्भाव होता है ।

शंका—अकृत्रिम प्रतिमाओंमें स्थापनाका व्यवहार कैसे संभव है ?

समाधान—इसप्रकार शंका करना उचित नहीं है, क्योंकि, अकृत्रिम प्रतिमाओंमें  
भी बुद्धिद्वारा प्रतिनिधित्व मान लेने पर 'ये जिनेन्द्रदेव हैं' इसप्रकारके मुख्य व्यवहारकी  
उपलब्धि होती है । अथवा, अग्नि-तुल्य बालकको भी जिसप्रकार अग्नि कहा जाता है, उसीप्रकार  
कृत्रिम प्रतिमाओंमें की गई स्थापनाके समान यह भी स्थापना है, इसलिये अकृत्रिम जिन  
प्रतिमाओंमें स्थापनाका व्यवहार हो सकता है । उक्त दोनों प्रकारके सचित्त और अचित्त  
मंगलोंको मिश्र-मंगल कहते हैं ।

गुणपरिणत आसनक्षेत्र, अर्थात् जहां पर योगासन वीरासन इत्यादि अनेक आसनोंसे  
तदनुकूल अनेक प्रकारके योगाभ्यास, जितेन्द्रियता आदि गुण प्राप्त किये गये हों ऐसा क्षेत्र,  
परिनिष्क्रमणक्षेत्र, केवलज्ञानोत्पत्तिक्षेत्र और निर्वाणक्षेत्र आदिको क्षेत्रमंगल कहते हैं ।

१. गुणपरिणदासनं परिणिष्क्रमणं केवलस्स णाणस्स । उप्पत्ती इय पडुदी बहुमेयं खेत्तमंगलयं ॥ एदस्स-  
उदाहरणं पावाणगरुद्धयंतचंपादी । आहुद्धहथपडुदी पणुवीसम्भहियणसयधगूणि ॥ देहअवट्टिदकेवलणणावट्टद-

क्षेत्रादिः । तस्योदाहरणम्, ऊर्जयन्त-चम्पा-पावा-नगरादिः । अर्धाष्टारल्यादि-पंचविंशत्यु-  
त्तर-पंच-धनुः-शन-प्रमाण-शरीर-स्थित-केवलयाद्यवष्ट्रधाकाश-देशा वा, लोकमात्रात्म-  
प्रदेशलोक-पूरणापरित-विश्व-लोक-प्रदेशा वा ।

तत्र काल-मंगलं णाम', जम्हि काले केवल-णाणादि-पञ्चएहि परिणदो कालो  
पाव-मल-गालणत्तादो मंगलं । तस्योदाहरणम्, परिनिष्क्रमण-केवलज्ञानोत्पत्ति-परिनिर्वाण-  
दिवसादयः । जिन-महिम-सम्बद्ध-कालोऽपि मङ्गलम् । यथा, नन्दीश्वरदिवसादिः ।

तत्र भाव-मंगलं णाम, वर्तमानपर्यायोपलक्षितं द्रव्यं भावः । स द्विविधः  
आगमनोआगमभेदान् । आगमः सिद्धान्तः । आगमदो मंगल-पाहुड-जाणओ  
उवजुत्तो । णो-आगमदो भाव-मंगलं दुविहं, उपयुक्तस्तत्परिणत इति । आगममन्तरेण  
अर्थोपयुक्त उपयुक्तः । मङ्गलपर्यायपरिणतस्तत्परिणत इति ।

आगे उदाहरण देकर इसका खुलासा किया जाता है—

ऊर्जयन्त ( गिरनार-पर्वत ) चम्पापुर और पावापुर आदि नगर क्षेत्रमंगल हैं ।  
अथवा, साढ़े तीन हाथसे लेकर पांचसौ पर्वत धनुष तकके शरीरमें स्थित और केवलज्ञाना-  
दिसे व्याप्त आकाश-प्रदेशोंको क्षेत्रमंगल कहते हैं । अथवा लोकप्रमाण आत्मप्रदेशोंसे लोक-  
पूरणसमुदायदशामें व्याप्त किये गये समस्त लोकके प्रदेशोंको क्षेत्रमंगल कहते हैं ।

जिस कालमें जीव केवलज्ञानादि अवस्थाओंको प्राप्त होता है उसे पापरूपी मलका  
गलानेवाला होनेके कारण कालमंगल कहते हैं । उदाहरणार्थ, दीक्षाकल्याणक, केवलज्ञानकी  
उत्पत्ति और निर्वाण-प्राप्तिके दिवस आदि कालमंगल समझना चाहिये । जिन-महिमासम्बन्धी  
काल को भी कालमंगल कहते हैं । जैसे, आष्टादिक पर्व आदि ।

वर्तमान पर्यायसे युक्त द्रव्यको भाव कहते हैं । वह आगमभावमंगल और नोआगम-  
भावमंगलके भेदसे दो प्रकारका है । आगम सिद्धान्तको कहते हैं, इसलिये जो मंगलविषयक  
शास्त्रका प्राना होने हुए वर्तमानमें उसमें उपयुक्त है उसे आगमभावमंगल कहते हैं । नो-आगम-  
भावमंगल, उपयुक्त और तत्परिणतके भेदसे दो प्रकारका है । जो आगमके बिना ही मंगलके  
अर्थमें उपयुक्त है उसे उपयुक्तनो-आगमभावमंगल कहते हैं और मंगलरूप पर्याय अर्थात्

गयनदंगो वा । मदीवणमंतअयपदममद्रलोयउगुणं पुण्णं ॥ त्रिण्णामं लोवाणं होदि पदेसा वि मंगलं खेतं ॥

ति. प. १, २१-२४.

१ ' अर्धाष्ट ' द्रव्य ' अर्थननुर्थ ' इति पाठेन भाव्यम् ।

२ जसिं काले केवलणाणादि मंगलं पारणमदि ॥ परिणिकमणं केवलणाणभ्रवणिच्युदिवसेसार्दा । पावमल-  
गालणादी पण्णमं कालमंगलं म्दं ॥ एधं अणयमेयं इवेदि त्कालमंगलं पवरं । जिनमहिमासंबंधं णंदोसरदीव-  
पाहुदीओ ॥ ति. प. १, २४-२६.

३ मंगलपयाणदिं उवलभिस्रयजंत्वद्वमेत्तं च । भावं मंगलमेदं पठियउ सत्थादिमंशयंतंमु ॥ ति. प. १, २७.



एदंसु णिक्खेवेसु केण णिक्खेवेण पयोजणं ? णो-आगमदो भाव-णिक्खेवेण तत्परिणएण पयोजणं । जदि णो-आगमदो भाव-णिक्खेवेण तत्परिणदेण पयोजणमियरेहि णिक्खेवेहि इह किं पयोजणं ?

जत्थ वहुं जाणिज्जां अवरिमिदं तत्थ णिक्खेवे णियमा ।

जत्थ बहुवं ण जाणदि चउट्टयं णिक्खेवे तत्थ ॥ १४ ॥

इदि वयणादो णिक्खेवो कदो ।

अथ स्यात्, किमिति निक्षेपः क्रियत इति ? उच्यते, त्रिविधाः श्रोतारः, अव्युत्पन्नः अवगताशेषविवक्षितपदार्थः एकदेशतोऽवगतविवक्षितपदार्थ इति । तत्र प्रथमोऽव्युत्पन्नत्वान्नाध्यवस्यतीति । विवक्षितपदस्यार्थं द्वितीयः संशेते कोऽर्थोऽस्य पदस्याधिकृत-

जिनेन्द्रदेव आदिकी वन्दना, भावस्तुति आदिमें परिणत जविको तत्परिणतनोआगमभावमंगल कहते हैं ।

शंका—इन निक्षेपोंमेंसे यहां ( इस ग्रन्थावताररूप प्रकरणमें ) किस निक्षेप से प्रयोजन है ?

समाधान—यहांपर तत्परिणतनोआगमभावमंगल से प्रयोजन है ।

शंका—यदि यहां तत्परिणतनोआगमभावमंगल से ही प्रयोजन था, तो अन्य निक्षेपोंके कथन करने से यहां क्या प्रयोजन है ? अर्थात् प्रयोजनके विना उनका यहां कथन नहीं करना चाहिये था ।

समाधान—‘जहां जीवादि पदार्थोंके विषयमें बहुत जाने, वहांपर नियमसे सभी निक्षेपोंके द्वारा उन पदार्थोंका विचार करना चाहिये । और जहांपर बहुत न जाने, तो वहांपर चार निक्षेप अवश्य करना चाहिये । अर्थात् चार निक्षेपोंके द्वारा उस वस्तुका विचार अवश्य करना चाहिये ’ ॥ १४ ॥

इस वचनके अनुसार यहांपर निक्षेपोंका कथन किया गया ।

पूर्वोक्त कथनके मान लेने पर भी, किस प्रयोजनको लेकर निक्षेपोंका कथन किया जाता है, इसप्रकारकी शंका करने पर आचार्य उत्तर देते हैं, कि श्रोता तीन प्रकारके होते हैं, पहला अव्युत्पन्न अर्थात् वस्तु-स्वरूपसे अनभिज्ञ, दूसरा संपूर्ण विवक्षित पदार्थको जाननेवाला, और तीसरा एकदेश विवक्षित पदार्थको जाननेवाला । इनमेंसे पहला श्रोता अव्युत्पन्न होनेके कारण विवक्षित पदके अर्थको कुछ भी नहीं समझता है । दूसरा ‘यहां पर इस पदका कौनसा अर्थ अधिकृत है’ इसप्रकार विवक्षित पदके अर्थमें संदेह करता है, अथवा, प्रकरणप्राप्त अर्थको

१ प्रतिपु ‘जाणिज्जा’ इति पाठः

२ जत्थ य जं जाणेज्जा निक्खेवं निक्खेवे निरवसेसं । जत्थ वि अ न जाणेज्जा चउट्टयं निक्खेवे तत्थ ॥ अनु. द्वा. १, ६-

इति; प्रकृतार्थादन्यमर्थमादाय विपर्यस्यति वा । द्वितीयवचृतीयोऽपि संशेते विपर्य-  
स्यति वा । तत्र यद्यव्युत्पन्नः पर्यायार्थिको भवेन्निक्षेपः क्रियते अव्युत्पन्नव्युत्पादनमुखेन  
अप्रकृतनिराकरणाय' । अथ द्रव्यार्थिकः तद्द्वारेण प्रकृतप्ररूपणायाशेषनिक्षेपाः उच्यन्ते  
व्यतिरेकधर्मनिर्णयमन्तरेण विधिनिर्णयानुपपत्तेः । द्वितीयतृतीययोः संशयितयोः  
संशयविनाशायाशेषनिक्षेपकथनम् । तयोरेव विपर्यस्यतोः प्रकृतार्थावधारणार्थं निक्षेपः  
क्रियते । उक्तं च—

अवगय-णिवारणद्वं पयदस्स परूवणा-णिमित्तं च ।

संसय-विणासणद्वं तच्चत्यवधारणद्वं च ॥ १५ ॥

निक्षेपविसृष्टः सिद्धान्तो वर्ण्यमानो वक्तुः श्रोतुश्चोत्पथोच्छानं कुर्यादिति वा ।

मङ्गलस्यैकार्थं उच्यते, मङ्गलं पुण्यं पूतं पवित्रं प्रशस्तं शिवं शुभं कल्याणं भद्रं

छोड़ कर और दूसरे अर्थको ग्रहण करके विपरीत समझता है । दूसरी जातिके श्रोताके समान  
तीसरी जातिका श्रोता भी प्रकृत पदके अर्थमें या तो संदेह करता है, अथवा, विपरीत निश्चय  
कर लेता है ।

इनमेंसे यदि अव्युत्पन्न श्रोता पर्यायका अर्थी अर्थात् पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षा  
वस्तुकी किसी विवक्षित पर्यायको जानना चाहता है, तो उस अव्युत्पन्न श्रोताको प्रकृत  
विषयकी व्युत्पत्तिके द्वारा अप्रकृत विषयके निराकरण करनेके लिये निक्षेपका कथन करना  
चाहिये । यदि वह अव्युत्पन्न श्रोता द्रव्यार्थिक है, अर्थात् सामान्यरूपसे किसी वस्तुका स्वरूप  
जानना चाहता है, तो भी निक्षेपोंके द्वारा प्रकृत पदार्थके प्ररूपण करनेके लिये संपूर्ण निक्षेप कहे  
जाते हैं, क्योंकि, विशेष धर्मके निर्णयके विना विधिका निर्णय नहीं हो सकता है । दूसरी और  
तीसरी जातिके श्रोताओंको यदि संदेह हो, तो उनके संदेहको दूर करनेके लिये संपूर्ण निक्षेपोंका  
कथन किया जाता है । और यदि उन्हें विपरीत ज्ञान हो गया हो, तो प्रकृत अर्थात् विवक्षित  
वस्तुके निर्णयके लिये संपूर्ण निक्षेपोंका कथन किया जाता है । कहा भी है—

अप्रकृत विषयके निवारण करनेके लिये, प्रकृत विषयके प्ररूपण करनेके लिये, संशयका  
विनाश करनेके लिये और तत्त्वार्थका निश्चय करनेके लिये निक्षेपोंका कथन करना चाहिये ॥१५॥

अथवा, निक्षेपोंको छोड़कर वर्णन किया गया सिद्धान्त संभव है वक्ता और श्रोता  
दोनोंको कुमार्गमें ले जावे, इसलिये भी निक्षेपोंका कथन करना चाहिये ।

अब मंगलके एकार्थ-वाचक नाम कहते हैं, मंगल, पुण्य, पूत, पवित्र, प्रशस्त, शिव,

१ ननु निक्षेपामावेऽपि प्रमाणनयैरधिगम्यत एव तत्त्वार्थ इति चेन्न, अप्रकृतनिराकरणार्थत्वात्; प्रकृतप्ररूपणार्थ-  
त्वाच्च-निक्षेपस्य । न खलु नामादावप्रकृते प्रमाणनयाधिगतो भावो व्यवहारायालं, मुख्योपचारविभागेनैव तत्सिद्धेः ।  
न च तद्विभागे नामादिनिक्षेपैर्विना संभवति, येन तदभावेऽपि तत्त्वार्थाधिगतिः स्यात् । लघीय. पृ. ९९.

सौख्यमित्येवमादीनि' मङ्गलपर्यायवचनानि' । एकार्थप्ररूपणं किमिति चेत्, यतो मङ्गलार्थोऽनेकशब्दाभिधेयस्ततोऽनेकेषु शास्त्रेषु नैकाभिधानैः मङ्गलार्थः प्रयुक्तश्चिरंतनाचार्यैः । सोऽव्यामोहेन शिष्यैः सुखेनावगम्यत इत्येकार्थं उच्यते 'यद्येकशब्देन न जानाति ततोऽन्येनापि शब्देन ज्ञापयितव्यः' इति वचनाद्वा ।

मङ्गलस्य निरुक्तिरुच्यते, मलं गालयति विनाशयति दहति हन्ति विशोधयति विध्वंसयतीति मङ्गलम् । तन्मलं द्विविधं द्रव्यभावमलभेदात् । द्रव्यमलं द्विविधम्, बाह्य-माभ्यतरं च । तत्र स्वेदरजोमलादि बाह्यम् । घन-कठिन-जीव-प्रदेश-निवृद्ध-प्रकृति-स्थित्यनुभाग-प्रदेश-विभक्त-ज्ञानावरणाद्यष्टविध-कर्माभ्यन्तर-द्रव्यमलम् । अज्ञानादर्शनादिपरि-

शुभ, कल्याण, भद्र और सौख्य इत्यादि मंगलके पर्यायवाची नाम हैं ।

शंका—यहां पर मंगलके एकार्थ-वाचक अनेक नामोंका प्ररूपण किसलिये किया गया है ?

समाधान—क्योंकि, मंगलरूप अर्थ अनेक-शब्द-वाच्य है, अर्थात् अनेक पर्यायवाची नामोंके द्वारा मंगलरूप अर्थका प्रतिपादन किया जाता है, इसलिये प्राचीन आचार्योंने अनेक शास्त्रोंमें अनेक अर्थात् भिन्न भिन्न शब्दोंके द्वारा मंगलरूप अर्थका प्रयोग किया है । इससे मतिभ्रमके विना शिष्योंको मंगलके पर्याय-वाची उन सब नामोंका सरलतापूर्वक ज्ञान हो जावे, इसलिये यहां पर मंगलके एकार्थ-वाची नाम कहे हैं ।

अथवा, 'यदि शिष्य एक शब्द से प्रकृत विषयको नहीं समझ पावे, तो दूसरे-शब्दोंके द्वारा उसे ज्ञान करा देना चाहिये' इस वचनके अनुसार भी यहांपर मंगलरूप अर्थके पर्याय-वाची अनेक नाम कहे गये हैं ।

अब मंगलकी निरुक्ति (व्युत्पत्ति-जन्य अर्थ) कहते हैं । जो मलका गालन करे, विनाश करे, घात करे, दहन करे, नाश करे, शोधन करे, विध्वंस करे, उसे मंगल कहते हैं । द्रव्यमल और भावमलके भेदसे वह मल दो प्रकारका है । द्रव्यमल भी दो प्रकारका है, बाह्य-द्रव्यमल और आभ्यन्तर-द्रव्यमल । इनमेंसे, पसीना, धूलि और मल आदि बाह्य द्रव्यमल हैं । सान्द्र और कठिनरूपसे जीवके प्रदेशोंसे बंधे हुए, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, और प्रदेश इन

१ पुण्यं प्रदपयित्वा पसत्त्यसिवमद्रखेमकल्लाणा । मुहसोत्रसादी सन्त्रे णिद्धिडा मंगलस्स पञ्जाया ॥

ति. प. १, ८.

२ गालयदि विणासयदे घादेदि दहेदि हंति सोधयदे । विद्धंसेदि मलाई जन्हा तम्हा य मंगलं मणिदं ॥

ति. प. १, ९.

३ दोण्णि वियप्पा हंति हु मलस्स इमं दव्वमावसेएहि । ति. प. १, १०.

४ द्रव्यमलं द्विविधम् बाहिरमभ्यंतरं चैव । सैदमलरेणुकद्रमपहुदी बाहिरमलं संमुद्धि । ति. प. १, १०-११.

५ पुणु दिद्वज्जीवपदेसे णिवंधरूवाइ पयडिठिदिआई । अणुभागपदेसाई चजहि पत्तेकभेज्जमाणं तु ॥

णामो भावमलम् ।

अथवा अर्थाभिधानप्रत्ययभेदात्रिविधं मलम् । उक्तमर्थमलम् । अभिधानमलं तद्वाचकः शब्दः । तयोरुत्पन्नबुद्धिः प्रत्ययमलम् । अथवा चतुर्विधं मलं नामस्थापना-द्रव्यभावमलभेदात् । अनेकविधं वा । तन्मलं गालयति विनाशयति विध्वंसयतीति मङ्गलम् । अथवा मङ्गं सुखं तल्लायति आदत्त इति वा मङ्गलम् । उक्तं च—

मङ्गशब्दोऽयमुद्दिष्टः पुण्यार्थस्याभिधायकः ।

तल्लायतीत्युच्यते सद्भिर्मङ्गलं मङ्गलार्थिभिः ॥ १६ ॥

भेदोंमें विभक्त ऐसे ज्ञानावरणादि आठ प्रकारके कर्म आभ्यन्तर द्रव्यमल हैं । अज्ञान और अदर्शन आदि परिणामोंको भावमल कहते हैं ।

अथवा, अर्थ, अभिधान ( शब्द ) और प्रत्यय ( ज्ञान ) के भेदसे मल तीन प्रकारका होता है । अर्थमलको तो अभी पहले कह आये हैं, अर्थात् जो पहले बाह्य द्रव्यमल, आभ्यन्तर द्रव्यमल और भावमल कहा गया है उसे ही अर्थमल समझना चाहिये । मलके वाचक शब्दोंको अभिधान मल कहते हैं । तथा अर्थमल और अभिधानमलमें उत्पन्न हुई बुद्धिको प्रत्ययमल कहते हैं ।

अथवा, नाममल, स्थापनामल, द्रव्यमल और भावमलके भेदसे मल चार प्रकारका है । अथवा, इसीप्रकार विचक्षाभेदसे मल अनेक प्रकारका भी है । इसप्रकार ऊपर कहे गये मलका जो गालन करे, विनाश करे व ध्वंस करे उसे मंगल कहते हैं ।

अथवा, मंग शब्द सुखवाची है उसे जो लावे, प्राप्त करे उसे मंगल कहते हैं । कहा भी है—

यह मंग शब्द पुण्यरूप अर्थका प्रतिपादन करनेवाला माना गया है । उस पुण्यको जो लाता है उसे मंगलके इच्छुक सत्पुरुष मंगल कहते हैं ॥ १६ ॥

णाणावरणप्रहृदी अट्टविहं कम्ममखिलपावरणं । अब्भंतरदच्चमलं जीवपदेसे णिवद्धमिदि हेदो । ति. प. १, ११-१२.

१ भावमलं णादच्चं अण्णाणादंसणादिपरिणामो ॥ ति. प. १, १३.

२ अह्वा बहुमेयगयं णाणावरणादि दच्चभावमलभेदा । ति. प. १, १४.

३ ताइं गालेदि पुहं जदो तदो मंगलं भणिदं ॥ ति. प. १, १४.

४ अह्वा मंगं सोक्खं लादि हु गेण्हेदि मंगलं तम्हा । एदाण कच्चसिद्धिं मंगलगत्थेदि गंथकत्तारो ॥

ति. प. १, १४, १५.

५ पुच्चं आइरिण्णिं मंगलपुच्चं च वाचिदं भणिदं । तं लादि हु आदत्ते जदो तदो मंगलपवरं ॥

ति. प. १, १६.

पापं मलमिति प्रोक्तमुपचारसमाश्रयात् ।

तद्वि गालयतीत्युक्तं मङ्गलं पण्डितैर्जनैः ॥ १७ ॥

अथवा मङ्गलमिति गच्छति कर्ता कार्यसिद्धिमनेनास्मिन् वेति मङ्गलम् । मङ्गलशब्द-  
स्यार्थविषयनिश्चयोत्पादनार्थं निरुक्तिरुक्ता । मङ्गलस्यानुयोग उच्यते—

किं कस्स केण कथं व केवचिरं कदिविधो य भावो ति ।

छहि अणिओग-द्वारेहि सब्बे भावाणुगतव्वा ॥ १८ ॥ इति वयणादो ।

किं मङ्गलम् ? जीवो मङ्गलम् । न सर्वजीवानां मङ्गलप्राप्तिः द्रव्यार्थिकनयापेक्षया  
मङ्गलपर्यायपरिणतजीवस्य पर्यायार्थिकनयापेक्षया केवलज्ञानादिपर्यायाणां च मङ्गल-

उपचारसे पापको भी मल कहा है । इसलिये जो उसका गालन अर्थात् नाश करता है  
उसे भी पण्डितजन मंगल कहते हैं ॥ १७ ॥

अथवा कर्ता, अर्थात् किसी उद्दिष्ट कार्यको करनेवाला, जिसके द्वारा या जिसके किये  
जाने पर कार्यकी सिद्धिको प्राप्त होता है उसे भी मंगल कहते हैं । इसतरह मंगल शब्दके  
अर्थ-विषयक निश्चयके उत्पन्न करनेके लिये मंगल शब्दकी निरुक्ति कही गई है ।

अब मंगलका अनुयोग कहते हैं, अर्थात् अनुयोगद्वारा मंगलका निरूपण करते हैं ।

विशेषार्थ—जिनेन्द्रकथित आगमका पूर्वापर संदर्भ मिलाते हुए अनुकूल व्याख्यान  
करनेको अनुयोग कहते हैं । अथवा, सूत्रका उसके वाच्यरूप विषयके साथ संबन्ध जोड़नेको  
अनुयोग कहते हैं । अथवा, एक ही भगवत्-प्रोक्त-सूत्रके अनन्त अर्थ होते हैं, इसलिये सूत्रकी  
'अणु' संज्ञा है । उस सूक्ष्मरूप सूत्रका अर्थरूप विस्तारके साथ संबन्धके प्रतिपादन करनेको  
अनुयोग कहते हैं ।

पदार्थ क्या है, किसका है, किसके द्वारा होता है, कहां पर होता है, कितने समय  
तक रहता है, कितने प्रकारका है, इसप्रकार इन छह अनुयोग-द्वारोंसे संपूर्ण पदार्थोंका ज्ञान  
करना चाहिये ॥ १८ ॥ इस वचनसे अनुयोगद्वारा मंगलका निरूपण किया जाता है ।

मंगल क्या है ? जीव ही मंगल है । किन्तु जीव को मंगल कहनेसे सभी जीव मंगलरूप  
नहीं हो जावेंगे, क्योंकि, द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा मंगलपर्यायसे परिणत जीवको अर्थात् मंगल  
करते हुए जीवको, और पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षा केवलज्ञानादि पर्यायोंको मंगल माना है ।

१ पापं मलं ति मण्णदि उवचारसरूपण जीवाणं । तं गालेदि विणासं पेदि ति भणंति मंगलं केई ॥

ति. प. १, १७.

२ अणुओयणमणुओगो सुयस्स नियण्ण जमभिधेण्णं । वावारो वा जोगो जो अणुरूपोऽणुकूलो वा ॥  
अहवा जमत्थओ थोवपच्छभावेहि सुयमणुं तस्स । अभिधेए वावारो जोगो तेणं व संबधो ॥ वि. भा. १३९३, १३९४-

३ मूलचा. ७०५. दुविहा परुवणा, छप्पया य नवहा य छप्पया इणमो । किं कस्स केण व कहिं केवचिरं  
कद्विहो य भवे ॥ आ. नि. ८६४. तानिमानि षडनुयोगद्वाराणि, निर्देशस्वामित्वसाधनाधिकरणास्थितिविधानतः ।

त्वाभ्युपगमात् ।

कस्य मङ्गलम् ? द्रव्यार्थिकनयार्पणया नित्यतामांदधानस्य पर्यायार्थिकनयार्पण-  
योत्पादविगमात्मकस्य । देवदत्तात्कम्बलस्येव न जीवान्मङ्गलपर्यायस्य भेदः सुवर्ण-  
स्याङ्गुलीयकमित्यत्राभेदेऽपि पृष्ठ्युपलम्भतोऽनेकान्तात् ।

केन मङ्गलम् ? औदयिकादिभावैः ।

क मङ्गलम् ? जीवे । कुण्डाद्भद्राणामिव न जीवान्मङ्गलपर्यायस्य भेदः सारे स्तम्भं

मंगल किसके होता है ? द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा नित्यताको धारण करनेवाले अर्थात् सदाकाल एक-स्वरूप रहनेवाले और पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षा उत्पाद और व्ययस्वरूप जीवके मंगल होता है। यहां पर जिसप्रकार (कम्बल देवदत्तका होते हुए भी) देवदत्तसे कम्बलका भेद है, उसप्रकार जीवका मंगलरूप पर्यायसे भेद नहीं है। क्योंकि, 'यह अंगूठी स्वर्णकी है' यहां पर अभेदमें, अर्थात् अंगूठीरूप पर्याय स्वर्णसे अभिन्न होने पर भी जिसप्रकार भेदद्योतक पृष्ठी विभक्ति देखी जाती है, उसीप्रकार 'जीवस्य मंगलम्' यहां पर भी अभेदमें पृष्ठी विभक्ति समझना चाहिये। इसतरह संबन्धकारकमें अनेकान्त समझना चाहिये। अर्थात् कहीं पर दो पदार्थोंमें भेद होने पर भी संबन्धकी विवक्षासे पृष्ठी कारक होता है और कहीं पर अभेद होने पर भी पृष्ठी कारकका प्रयोग होता है।

किस कारणसे मंगल उत्पन्न होता है ? जीवके औदयिक, औपशमिक आदि भावोंसे मंगल उत्पन्न होता है।

विशेषार्थ—यद्यपि कर्मोंके उपशम, क्षय और क्षयोपशमसे सम्यग्दर्शनादिकी उत्पत्ति होती है, इसलिये उनसे मंगल की उत्पत्ति मानना तो ठीक है। परंतु औदयिक भावसे मंगलकी उत्पत्ति नहीं बन सकती है, इसलिये यहां पर 'औदयिक आदि भावोंसे मंगल उत्पन्न होता है' यह कइना किसप्रकार संभव है ? इसका समाधान इसप्रकार समझना चाहिये कि यद्यपि सभी औदयिक भाव मंगलकी उत्पत्तिमें कारण नहीं हैं, फिर भी तीर्थकर प्रकृतिके उदयसे उत्पन्न होनेवाला औदयिक भाव मंगलका कारण है। इसलिये उसकी अपेक्षासे औदयिक भावको भी मंगलकी उत्पत्तिके कारणोंमें ग्रहण किया है।

मंगल किसमें उत्पन्न होता है ? जीवमें मंगल उत्पन्न होता है। जिसप्रकार कुंडेसे उसमें रखे हुए बेरोंका भेद है, उसप्रकार जीवसे मंगलपर्यायका भेद नहीं समझना चाहिये, क्योंकि, 'सारे स्तम्भः' अर्थात् वृक्षके सारमें स्तम्भ है। यहां पर जिसतरह अभेदमें भी सप्तमी विभक्तिकी

तः सू. १, ७. तत्र किमित्यनुयोगे वस्तुस्वरूपकथनं निर्देशः । कस्येत्यनुयोगे स्वस्येत्याधिपलकथनं स्वाभित्वम् । केनेति प्रश्ने करणनिरूपण साधनम् । कस्मिन्नित्यनुयोगे आधारप्रतिपादनमधिकरणम् । कियच्चिरमिति प्रश्ने कालप्ररूपण स्थितिः । कतिविध इत्यनुयोगे प्रकारकथनं विधानम् । लघीयं. पृ. ९५.

१ प्रतिशु. 'सारस्थस्तम्भः' इति पाठः ।

इत्यत्राभेदेऽपि समम्युपलम्भतोऽनेकान्तात् ।

क्रियच्चिरं मङ्गलम् ? नानाजीवापेक्षया सर्वोद्यम् । एकजीवापेक्षया अनाद्यपर्यवसितं साद्यपर्यवसितं सादिसपर्यवसितमिति त्रिविधम् । कथमनाद्यपर्यवसितता मङ्गलस्य ? द्रव्यार्थिकनयार्पणया । तथा च मिथ्यादृष्ट्यवस्थायामपि मङ्गलत्वं जीवस्य प्राप्नोतीति चेन्नैष दोषः इष्टत्वात् । न मिथ्याविरतिप्रमादानां मङ्गलत्वं तेषां जीवत्वाभावात् । जीवो हि मङ्गलम् स च केवलज्ञानाद्यनन्तधर्मात्मकः । नावृतावस्थायां मङ्गलीभूतकेवलज्ञानाद्यभावः आव्रियमाणकेवलाद्यभावे तदावरणानुपपत्तेः, जीवलक्षणयोज्ञानदर्शनयोरभावे लक्ष्यस्याप्यभावापत्तेश्च ; न चैवं तथाऽनुपलम्भात् ।

उपलब्धि होती है, उसीप्रकार 'जीवे मंगलम्' यहां पर भी अभेदमें सप्तमी विभक्ति समझना चाहिये । इसतरह यह सिद्ध हुआ कि अधिकरण कारकके प्रयोगमें भी अनेकान्त है । अर्थात् कहीं भेदमें भी अधिकरण कारक होता है और कहीं अभेदमें भी अधिकरण कारक होता है ।

कबतक मंगल रहता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वदा मंगल रहता है और एक जीवकी अपेक्षा अनादि-अनन्त, सादि-अनन्त, और सादि-सान्त इसप्रकार मंगलके तीन भेद होते हैं ।

शंका — मंगलमें एक जीवकी अपेक्षा अनादि-अनन्तपना कैसे बनता है, अर्थात् एक जीवके अनादि कालसे अनन्तकाल तक मंगल होता है यह कैसे संभव है ?

समाधान—द्रव्यार्थिक नयकी प्रधानतासे मंगलमें अनादि-अनन्तपना बन जाता है । अर्थात् द्रव्यार्थिक नयकी मुख्यतासे जीव अनादिकालसे अनन्तकाल तक सर्वदा एक-स्वभाव अवस्थित है और मंगलरूप पर्याय उससे सर्वथा भिन्न नहीं है । अतएव मंगलमें भी अनादि-अनन्तपना बन जाता है ।

शंका—इसतरह तो मिथ्यादृष्टि अवस्थामें भी जीवको मंगलपनेकी प्राप्ति हो जायगी ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, ऐसा प्रसंग तो हमें इष्ट ही है । किंतु ऐसा मान लेने पर भी मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद आदि को मंगलपना सिद्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि, उनमें जीवत्व नहीं पाया जाता है । मंगल तो जीव ही है, और वह जीव केवलज्ञानादि अनन्त-धर्मात्मक है ।

आवृत अवस्थामें अर्थात् केवलज्ञानावरण आदि कर्मबन्धनकी दशामें मंगलीभूत-केवलज्ञानादिका अभाव है, अर्थात् उस अवस्थामें वे सर्वथा नहीं पाये जाते । यदि कोई ऐसा प्रश्न करे, तो, आव्रियमाण अर्थात् जो कर्मोंके द्वारा आवृत होते हैं ऐसे केवलज्ञानादिके अभावमें केवलज्ञानादिको आवरण करनेवाले कर्मोंका संज्ञाव सिद्ध नहीं हो सकेगा । दूसरे, जीवके लक्षणरूप ज्ञान और दर्शनके अभाव मानने पर लक्ष्यरूप जीवके अभावकी भी आपत्ति आ जाती है । लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि, प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे जीवकी उपलब्धि नहीं होती

न भस्मच्छन्नाग्निना व्यभिचारः तापप्रकाशयोस्तत्राप्युपलम्भात् । पर्यायत्वात्केवलादीनां न स्थितिरिति चेन्न, अत्रुद्वयज्ञानसंतानापेक्षया तत्स्थैर्यस्य विरोधाभावात् । न छद्मस्थज्ञानदर्शनयोरल्पत्वादमङ्गलत्वमेकदेशस्य माङ्गल्याभावे तद्विश्वावयवानामप्यमङ्गलत्वप्राप्तेः । रजोजुषां ज्ञानदर्शने न मङ्गलीभूतकेवलज्ञानदर्शनयोरवयवाविति चेन्न, ताभ्यां व्यतिरिक्तयोस्तयोरसत्वात् । मत्यादयोऽपि सन्तीति चेन्न, तदवस्थानां मत्यादिव्यपदेशात् ।

हो ऐसा नहीं देखा जाता । किंतु प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे भी उसकी उपलब्धि होती ही है ।

यहां पर भस्मसे ढकी हुई अग्नि के साथ व्यभिचार दोष भी नहीं आता है, क्योंकि, ताप और प्रकाश की वहां पर भी उपलब्धि होती है ।

विशेषार्थ—आवृत अवस्थामें भी केवलज्ञानादि पाये जाते हैं, क्योंकि, वे जीवके गुण हैं, यदि इस अवस्थामें उनका अभाव माना जावे तो जीवका भी अभाव मानना पड़ेगा । इस अनुमानको ध्यानमें रखकर शंकाकारका कहना है कि इस तरह तो भस्मसे ढकी हुई अग्निसे व्यभिचार हो जावेगा, क्योंकि, भस्माच्छादित अग्निमें अग्निरूप द्रव्यका सद्भाव तो पाया जाता है, किंतु उसके धर्मरूप ताप और प्रकाशका सद्भाव नहीं पाया जाता है । इसतरह हेतु विपक्षमें चला जाता है, अतएव वह व्यभिचारित हो जाता है । इसप्रकार शंकाकारका भस्मसे ढकी हुई अग्निसे व्यभिचारका दोष देना ठीक नहीं है, क्योंकि, राखसे ढकी हुई अग्निमें भी उसके गुणधर्म ताप और प्रकाशकी उपलब्धि अनुमानादि प्रमाणोंसे बराबर होती है ।

शंका—केवलज्ञानादि पर्यायरूप हैं, इसलिये आवृतअवस्थामें उनका सद्भाव नहीं बन सकता है ?

समाधान—यह शंका भी ठीक नहीं है, क्योंकि, कभी भी नहीं टूटनेवाली ज्ञानसंतानकी अपेक्षा केवलज्ञानके सद्भाव मान लेनेमें कोई विरोध नहीं आता है ।

छद्मस्थ अर्थात् अल्पज्ञानियोंके ज्ञान और दर्शन अल्प होनेमात्रसे अमंगल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि, ज्ञान और दर्शनके एकदेशमें मंगलपनेका अभाव स्वीकार कर लेने पर ज्ञान और दर्शनके संपूर्ण अवयवोंको भी अमंगल मानना पड़ेगा ।

शंका -- आवरणसे युक्त जीवोंके ज्ञान और दर्शन मंगलीभूत केवलज्ञान और केवलदर्शनके अवयव ही नहीं हो सकते हैं ?

समाधान—ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि, केवलज्ञान और केवलदर्शनसे भिन्न ज्ञान और दर्शनका सद्भाव नहीं पाया जाता है ।

शंका—केवलज्ञान और केवलदर्शनसे अतिरिक्त मतिज्ञानादि ज्ञान और चक्षुदर्शन आदि दर्शन तो पाये जाते हैं । इनका अभाव कैसे किया जा सकता है ?

समाधान—उस ज्ञान और दर्शनसंबन्धी अवस्थाओंकी मतिज्ञानादि और चक्षुदर्शनादि नाना संज्ञापं हैं । अर्थात् ज्ञानगुणकी अवस्थाविशेषका नाम मत्यादि और दर्शनगुणकी अवस्था-



तयोः केवलज्ञानदर्शनाङ्कुरयोर्मङ्गलत्वे मिथ्यादृष्टिरपि मङ्गलं तत्रापि तौ स्त इति चेद्भवतु तद्रूपतया मङ्गलम्, न मिथ्यात्वादीनां मङ्गलम् । तन्न मिथ्यादृष्टयः सुगतिभाजः सम्यग्दर्शनमन्तरेण तज्ज्ञानस्य सम्यक्त्वाभावतस्तदभावात् । कथं पुनस्तज्ज्ञानदर्शनयोर्मङ्गलत्वमिति चेन्न, सम्यग्दृष्टीनामवगताप्तस्वरूपाणां केवलज्ञानदर्शनावयवत्वेनाध्यवसितरजो-जुड्ज्ञानदर्शनानामावरणविविक्तानन्तज्ञानदर्शनशक्तिखचितात्मस्मृतृणां वा पापक्षयकारित्वतस्तयोस्तदुपपत्तेः । नोआगमभव्यद्रव्यमङ्गलापेक्षया वा मङ्गलमनाद्यपर्यवसानमिति । रत्नत्रयमुपादायाविनष्टेनैवाप्तसिद्धस्वरूपापेक्षया नैगमनयेन साद्यपर्यवसितं मङ्गलम् ।

विशेषका नाम चक्षुदर्शनादि है। यथार्थमें इन सब अवस्थाओंमें रहनेवाले ज्ञान और दर्शन एक ही हैं।

शंका—केवलज्ञान और केवलदर्शनके अंकुररूप छद्मस्थोंके ज्ञान और दर्शनको मंगलरूप मान लेने पर मिथ्यादृष्टि जीव भी मंगल संज्ञाको प्राप्त होता है, क्योंकि, मिथ्यादृष्टि जीवमें भी वे अंकुर विद्यमान हैं ?

समाधान—यदि ऐसा है तो भले ही मिथ्यादृष्टि जीवको ज्ञान और दर्शनरूपसे मंगलपना प्राप्त हो, किन्तु इतनेसे ही मिथ्यात्व, अविरति आदिको मंगलपना प्राप्त नहीं हो सकता है। और इसलिये मिथ्यादृष्टि जीव सुगतिको प्राप्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि, सम्यग्दर्शनके बिना मिथ्यादृष्टियोंके ज्ञानमें समीचीनता नहीं आ सकती है। तथा समीचीनताके बिना उन्हें सुगति नहीं मिल सकती है।

शंका—फिर मिथ्यादृष्टियोंके ज्ञान और दर्शनको मंगलपना कैसे है ?

समाधान—ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि, आप्तके स्वरूपको जाननेवाले, छद्मस्थोंके ज्ञान और दर्शनको केवलज्ञान और केवलदर्शनके अवयवरूपसे निश्चय करनेवाले और आवरण-रहित अनन्तज्ञान और अनन्तदर्शनरूप शक्तिसे युक्त आत्माका स्मरण करनेवाले सम्यग्दृष्टियोंके ज्ञान और दर्शनमें जिसप्रकार पापका क्षयकारीपना पाया जाता है, उसीप्रकार मिथ्यादृष्टियोंके ज्ञान और दर्शनमें भी पापका क्षयकारीपना पाया जाता है। इसलिये मिथ्यादृष्टियोंके ज्ञान और दर्शनको भी मंगल माननेमें विरोध नहीं है। अथवा, नोआगमभावद्रव्य-मंगलकी अपेक्षा मंगल-अनादि-अनंत है।

विशेषार्थ—जो आत्मा वर्तमानमें मंगलपर्यायसे युक्त तो नहीं है, किन्तु भविष्यमें मंगलपर्यायसे युक्त होगा। उसके शक्तिकी अपेक्षासे अनादि-अनन्तरूप मंगलपना बन जाता है।

रत्नत्रयको धारण करके कर्मा भी नष्ट नहीं होनेवाले रत्नत्रयके द्वारा ही प्राप्त हुए सिद्धके स्वरूपकी अपेक्षा नैगमनयसे मंगल सादि-अनंत है।

विशेषार्थ—रत्नत्रयकी प्राप्तिसे सादिपना और रत्नत्रय प्राप्तिके अनंतर सिद्ध स्वरूप

सादिसपर्यवसितं . सम्यग्दर्शनापेक्षया . जघन्येनान्तर्मुहूर्तकालमुत्कर्षेण . षट्षष्टिसागराः देशोनाः ।

कतिविधं मङ्गलम् ? मङ्गलसामान्यात्तदेकविधम्, मुख्यामुख्यभेदतो द्विविधम्, सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यभेदात्रिविधं मङ्गलम्, धर्मसिद्धसाध्वर्हद्भेदाच्चतुर्विधम्, ज्ञानदर्शन-त्रिगुप्तिभेदात् पञ्चविधम्, ' नमो जिनाणं ' इत्यादिनानेकविधं वा ।

अथवा मंगलम्हि छ अहियाराएँ दंडा वत्तव्वा भवंति । तं जहा, मंगलं मंगल-कर्ता मंगल-करणीयं मंगलोवायो मंगल-विहाणं मंगल-फलमिदि । एदेसिं छण्हं पि अत्थो उच्चदे । मंगलत्थो पुव्वुत्तो । मंगल-कर्ता चोद्दस-विजा-ट्ठाण-पारओ आइरियो । मंगल-करणीयं भव्व-जणो । मंगलोवायो ति-रयण-साहणाणि । मंगल-विहाणं एय-विहादि पुव्वुत्तं । मंगलं-फलं देहिंतो कय-अभ्युदय-णिस्सेयस-सुहाइत्तं । मंगलं सुत्तस्स आदीए

पकी जो प्राप्ति हुई है उसका कभी अन्त आनेवाला नहीं है । इसतरह इन दोनों धर्मोंको ही विषय करनेवाले ( न एकं गमः नैगमः ) नैगमनयकी अपेक्षा मंगल सादि-अनन्त है ।

सम्यग्दर्शनकी अपेक्षा मंगल सादि-सान्त समझना चाहिये । उसका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल कुछ कम छयासठ सागर प्रमाण है ।

मंगल कितने प्रकारका है ? मंगल-सामान्यकी अपेक्षा मंगल एक प्रकारका है । मुख्य और गौणके भेदसे दो प्रकारका है । सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य के भेदसे तीन प्रकारका है । धर्म, सिद्ध साधु और अर्हन्तके भेदसे चार प्रकारका है । ज्ञान, दर्शन और तीन गुप्ति के भेदसे पांच प्रकारका है । अथवा ' जिनेन्द्रदेवको नमस्कार हो ' इत्यादि रूपसे अनेक प्रकारका है ।

अथवा, मंगलके विषयमें छह अधिकारोंद्वारा दंडकोंका कथन करना चाहिये । वे इस प्रकार हैं । १ मंगल, २ मंगलकर्ता, ३ मंगलकरणीय, ४ मंगल-उपाय, ५ मंगल-भेद और ६ मंगल-फल । अब इन छह अधिकारोंका अर्थ कहते हैं । मंगलका अर्थ तो पहले कहा जा चुका है । चौदह विद्यास्थानोंके पारगामी आचार्य-परमेष्ठी मंगलकर्ता हैं । भव्यजन मंगल करने योग्य हैं । रत्नत्रयकी साधक सामग्री मंगलका उपाय है । एक प्रकारका मंगल, दो प्रकारका मंगल इत्यादि रूपसे मंगलके भेद पहले कह आये हैं । ऊपर कहे हुए मंगलादिकसे प्राप्त होनेवाले अभ्युदय और मोक्ष-सुखके आधीन मंगलका फल है । अर्थात् जितने प्रमाणमें यह जीव मंगलके साधन मिलाता है उतने ही प्रमाणमें उससे जो यथायोग्य अभ्युदय और निःश्रेयस सुख मिलता है वही उसके मंगलका फल है । उक्त मंगल ग्रन्थके आदि, मध्य और अन्तमें कहना

१ प्रतिपु ' नमो जिनाणां ' इति पाठः ।

२ ' अहियारेहि ' इति पाठः प्रतिभाति ।

मञ्जे अवसाणे च वत्तव्वं । उत्तं च—

आदीवसाण-मञ्जे पणत्तं मंगलं जिणिदेहि ।

तो कय-मंगल-विणयो विणमो-सुत्तं पवक्खामि ॥ १९ ॥

तिसु टाणेसु मंगलं किमट्टं बुच्चदे ? कय-कोउंय-मंगल-पायच्छित्तं विणयोवगया-  
सिस्सा अज्जेदारो सोदारो वत्तारो आरोग्गमविग्घेण विज्जं विज्जा-फलं पावेंतु त्ति । उत्तं च—

आदिग्घि भद्द-वयणं सिस्सा लहु-पारया हवंतु त्ति ।

मञ्जे अब्बोच्छित्ति य विज्जा विज्जा-फलं चरिमे ॥ २० ॥

चाहिये । कहा भी है—

जिनेन्द्रदेवने आदि, अन्त और मध्यमें मंगल करनेका विधान किया है । अतः मंगल-  
विनयको करके भी मैं नमोकार-सूत्रका वर्णन करता हूँ ॥ १९ ॥

शंका—ग्रन्थके आदि, मध्य और अन्त, इसप्रकार तीन स्थानोंमें मंगल करनेका उपदेश  
किसलिये दिया गया है ?

समाधान—मंगलसंबन्धी आवश्यक कृतिकर्म करनेवाले तथा मंगलसंबन्धी प्राय-  
श्चित्त करनेवाले अर्थात् मंगलके लिये आगे प्रारंभ किये जानेवाले कार्यमें दुःस्वप्नादिकसे मनमें  
चंचलता आदि न हो इसलिये प्रायश्चित्तस्वरूप मंगलीक दधि, अक्षत, चन्द्रनादिकको सामने  
रखनेवाले और विनयको प्राप्त पैसे शिष्य, अध्येता अर्थात् पढ़नेवाले, श्रोता और वक्ता आरोग्य  
और निर्विघ्नरूपसे विद्या तथा विद्याके फलको प्राप्त हों, इसलिये तीनों जगह मंगल करनेका  
उपदेश दिया गया है । कहा भी है—

शिष्य सरलतापूर्वक प्रारंभ किये गये ग्रंथाध्ययनादि कार्यके पारंगत हों इसलिये आदिमें  
भद्रवचनं अर्थात् मंगलाचरण करना चाहिये । प्रारंभ किये गये कार्यकी व्युच्छित्ति न हो  
इसलिये मध्यमें मंगलाचरण करना चाहिये, और विद्या तथा विद्याके फलकी प्राप्ति हो इसलिये  
अन्तमें मंगलाचरण करना चाहिये ॥ २० ॥

१ सौभाग्यादिनिमित्तं यत्कृत्वादि कियते तत्कौतुकम् । उत्तं च, सोहग्गादिणिमित्तं परोसिं ष्वण्णादि कोउगं-  
भणियं ॥ णया १, १४.

२ कृतानि कौतुकमङ्गलान्येव प्रायश्चित्तानि दुःस्वप्नादिविघातार्थमवश्यकरणायत्वाद्यैस्ते तथा । अन्ये त्वाहुः-  
'पायच्छित्त' त्ति पादेन पादे वा लुप्ताश्चक्षुर्दोषपरिहारार्थं पादच्छ्रुताः । कृतकौतुकमङ्गलाश्च ते पादच्छ्रुताश्चेति विग्रहः ।  
तत्र कौतुकानि मर्षातिलकादीनि, मङ्गलानि तु सिद्धार्थकदध्यक्षतद्वाङ्कुरादि । भग. २, ५, १०८. टीका.

३ पदमे मंगलवयणं सिस्सा सत्थस्स पारगा होति । मञ्जिम्भे णिविग्घं विज्जा विज्जाफलं चरिमे ॥

तिं. प. १, २९.

विघ्नाः प्रणश्यन्ति भयं न जातु न दुष्टदेवाः परिलङ्घयन्ति ।  
 अर्थान्यथेष्टांश्च सदा लभन्ते जिनोत्तमानां परिकीर्तनेन' ॥ २१ ॥  
 आदौ मध्येऽवसाने च मङ्गलं भषितं बुधैः ।  
 तज्जिनेन्द्रगुणस्तोत्रं तदविघ्नप्रसिद्धये ॥ २२ ॥

तच्च मंगलं दुविहं णिवद्धमणिवद्धमिदि । तत्थ णिवद्धं णाम्, जो सुत्तस्सादीए सुत्त-कत्तारेण णिवद्ध-देवदा-णमोकारो तं णिवद्ध-मंगलं । जो सुत्तस्सादीए सुत्त-कत्तारेण कय-देवदा-णमोकारो तमणिवद्ध-मंगलं । इदं पुण जीवट्ठाणं णिवद्ध-मंगलं । यत्तो ' इमेसिं चोद्दसण्हं जीवसमासाणं ' इदि एदस्स सुत्तस्सादीए णिवद्ध- ' णमो अरिहंताणं ' इच्चादि- देवदा-णमोकार-दंसणादो ।

सुत्तं किं मंगलमुद अमंगलमिदि ? जदि ण मंगलं, ण तं सुत्तं पावकारणस्स

जिनेन्द्रदेवके गुणोंका कीर्तन करनेसे विघ्न नाशको प्राप्त होते हैं, कभी भी भय नहीं होता है, दुष्ट देवता आक्रमण नहीं कर सकते हैं और निरन्तर यथेष्ट पदार्थोंकी प्राप्ति होती है।

विद्वान् पुरुषोंने, प्रारम्भ किये गये किसी भी कार्यके आदि, मध्य और अन्तमें मंगल करनेका विधान किया है। वह मंगल निर्विघ्न कार्यसिद्धिके लिये जिनेन्द्र भगवानके गुणोंका कीर्तन करना ही है।

वह मंगल दो प्रकारका है, निवद्ध-मंगल और अनिवद्ध-मंगल। जो ग्रन्थके आदिमें ग्रन्थकारके द्वारा इष्ट-देवता नमस्कार निवद्ध कर दिया जाता है, अर्थात् श्लोकादिरूपसे रचा जाता है, उसे निवद्ध-मंगल कहते हैं। और जो ग्रन्थकारके द्वारा देवताको नमस्कार किया जाता है ( किन्तु श्लोकादिके द्वारा संग्रह नहीं किया जाता है, ) उसे अनिवद्ध मंगल कहते हैं। उनमेंसे यह ' जीवस्थान ' नामका प्रथम खण्डागम निवद्ध-मंगल है, क्योंकि, ' इमेसिं चोद्दसण्हं जीवसमासाणं ' इत्यादि जीवस्थानके इस सूत्रके पहले ' णमो अरिहंताणं ' इत्यादि रूपसे देवता-नमस्कार निवद्धरूपसे देखनेमें आता है।

शंका—सूत्र-ग्रन्थ स्वयं मंगलरूप है, या अमंगलरूप ? यदि सूत्र स्वयं मंगलरूप नहीं है, तो वह सूत्र भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि, मंगलके अभावमें पापका कारण होनेसे

१ णासदि विग्घं भेददि यंहो दुट्ठा सुरा ण लंघंति । इट्ठो अत्थो लब्भइ जिणणामं गहणमेत्तेण ॥

ति. प. १, ३०.

२ आदर्श प्रतिपु ' जो सुत्तस्सादीए सुत्तकत्तारेण कयदेवदाणमोकारो तं णिवद्धमंगलं । जो सुत्तस्सादीए सुत्तकत्तारेण णिवद्धो देवदाणमोकारो तमणिवद्धमंगलं ' इति पाठः ।

३ जइ मंगलं सयं त्रिय सत्थं तो किमिहः मंगलगहणं ? सीसमइमंगलपरिगहत्थमेत्तं तदमिहाणं ॥ इह मंगलं पि मंगलबुद्धोए मंगलं जहा साह । मंगलतियबुद्धिपरिगहे वि नणु कारणं मणिअं ॥ वि. भा. २०, २१.

सुत्त-विरोहादो । अह मंगलं, किं तत्थ मंगलेण एगदो चय कज्ज-णिप्पत्तीदो इदि । ण ताव सुत्तं ण मंगलमिदि ? तारिस-पइज्जाभावादो परिसेसादो मंगलं स । सुत्तस्सादीए मंगलं पढिज्जदि, ण पुव्वुत्तदोसो वि दोण्हं पि पुध पुध विणासिज्जमाण-पाव-दंसणादो । पढण-विग्घ-विद्दावणं मंगलं । सुत्तं पुण समयं पडि असंखेज्ज-गुण-सेढीए पावं गालिय पच्छा सब्ब-कम्म-क्खय-कारणमिदि । देवतानमस्कारोऽपि चरमावस्थायां कृत्स्नकर्मक्षय-कारीति द्वयोरप्येककार्यकर्तृत्वमिति चेन्न, सूत्रविषयपरिज्ञानमन्तरेण तस्य तथाविधसामर्थ्या-भावात् । शुक्लध्यानान्मोक्षः, न च देवतानमस्कारः शुक्लध्यानमिति ।

इदानीं देवदा-णमोक्कार-सुत्तस्सत्थो उच्चदे ।

‘ णमो अरिहंताणं ’ अरिहननादरिहन्ता । नरकतिर्यक्कुमानुष्य-

उसका सूत्रपनेसे विरोध पड़ जाता है । और यदि सूत्र स्वयं मंगलरूप है, तो फिर उसमें अलगसे मंगल करनेकी क्या आवश्यकता है, क्योंकि, मंगलरूप एक सूत्र-ग्रन्थसे ही कार्यकी निष्पत्ति हो जाती है ? और यदि कहा जाय कि यह सूत्र नहीं है, अतएव मंगल भी नहीं है, तो ऐसा तो कहीं कहा नहीं गया कि यह सूत्र नहीं है । अतएव यह सूत्र है और परिशेष न्यायसे मंगल भी है । तब फिर इसमें अलग से मंगल क्यों किया गया ?

समाधान—सूत्र के आदि में मंगल किया गया है तथापि पूर्वोक्त दोष नहीं आता है, क्योंकि, सूत्र और मंगल इन दोनों से पृथक् पृथक् रूपमें पापोंका विनाश होता हुआ देखा जाता है ।

निबद्ध और अनिबद्ध मंगल पठनमें आनेवाले विघ्नोंको दूर करता है, और सूत्र, प्रति-समय असंख्यात-गुणित-श्रेणीरूपसे पापोंका नाश करके उसके बाद संपूर्ण कर्मोंके क्षयका कारण होता है

शंका—देवता-नमस्कार भी अन्तिम अवस्थामें संपूर्ण कर्मोंका क्षय करनेवाला होता है, इसलिये मंगल और सूत्र ये दोनों ही एक कार्यको करनेवाले हैं । फिर दोनोंका कार्य भिन्न भिन्न क्यों बतलाया गया है ?

समाधान—ऐसा नहीं है, क्योंकि, सूत्रकथित विषयके परिज्ञानके बिना केवल देवता-नमस्कारमें कर्मक्षयकी सामर्थ्य नहीं है । मोक्षकी प्राप्ति शुक्लध्यानसे होती है, परंतु देवता-नमस्कार तो शुक्लध्यान नहीं है ।

विशेषार्थ—शास्त्रज्ञान शुक्लध्यानका साक्षात् कारण है और देवता-नमस्कार परंपरा कारण है, इसलिये दोनोंके अलग अलग कार्य बतलाये गये हैं ।

अब देवता-नमस्कार सूत्रका अर्थ कहते हैं । ‘ णमो अरिहंताणं ’ अरिहंतोंको नमस्कार हो । अरि अर्थात् शत्रुओंके ‘ हननात् ’ अर्थात् नाश करनेसे ‘ अरिहंत ’ यह संज्ञा प्राप्त होती

प्रेतावासगताशेषदुःखप्राप्तिनिमित्तत्वादर्निर्मोहः । तथा च शेषकर्मव्यापारो वैफल्यमुपेयादिति चेन्न, शेषकर्मणां मोहतन्त्रत्वात् । न हि मोहमन्तरेण शेषकर्माणि स्वकार्यनिष्पत्तौ व्यापृतान्युपलभ्यन्ते येन तेषां स्वातन्त्र्यं जायेत । मोहे विनष्टेऽपि कियन्तमपि कालं शेषकर्मणां सत्त्वोपलम्भान्न तेषां तत्तन्त्रत्वमिति चेन्न, विनष्टेऽसौ जन्ममरणप्रबन्धलक्षणसंसारोत्पादनसामर्थ्यमन्तरेण तत्सत्त्वस्यासत्त्वसमानत्वात् केवलज्ञानाद्यशेषात्मगुणाविर्भावप्रतिबन्धनप्रत्ययसमर्थत्वाच्च । तस्यारेहननादरिहन्ता' ।

रजोहननाद्वा अरिहन्ता । ज्ञानदृगावरणानि रजांसीव बहिरङ्गान्तरङ्गाशेषत्रिकालगोचरानन्तार्थव्यञ्जनपरिणामात्मकवस्तुविषयबोधानुभवप्रतिबन्धकत्वाद्द्रजांसि । मोहोऽपि रजः

है । नरक, तिर्यच, कुमानुष और प्रेत इन पर्यायोंमें निवास करनेसे होनेवाले समस्त दुःखोंकी प्राप्तिका निमित्तकारण होनेसे मोहको 'अरि' अर्थात् शत्रु कहा है ।

शंका — केवल मोहको ही अरि मान लेनेपर शेष कर्मोंका व्यापार निष्फल हो जाता है ?

समाधान — ऐसा नहीं है, क्योंकि, वाकीके समस्त कर्म मोहके ही आधीन हैं । मोहके विना शेष कर्म अपने अपने कार्यकी उत्पत्तिमें व्यापार करते हुए नहीं पाये जाते हैं । जिससे कि वे भी अपने कार्यमें स्वतन्त्र समझे जायं । इसलिये सच्चा अरि मोह ही है, और शेष कर्म उसके आधीन हैं ।

शंका — मोहके नष्ट हो जाने पर भी कितने ही काल तक शेष कर्मोंकी सत्ता रहती है, इसलिये उनको मोहके आधीन मानना उचित नहीं है ?

समाधान — ऐसा नहीं समझना चाहिये, क्योंकि, मोहरूप अरिके नष्ट हो जाने पर जन्म, मरणकी परंपरारूप संसारके उत्पादनकी सामर्थ्य शेष कर्मोंमें नहीं रहनेसे उन कर्मोंका सत्त्व असत्त्वके समान हो जाता है ।

तथा केवलज्ञानादि संपूर्ण आत्म-गुणोंके आविर्भावके रोकनेमें समर्थ कारण होनेसे भी मोह प्रधान शत्रु है, और उस शत्रुके नाश करनेसे 'अरिहंत' यह संज्ञा प्राप्त होती है ।

अथवा, रज अर्थात् आवरण-कर्मोंके नाश करनेसे 'अरिहंत' यह संज्ञा प्राप्त होती है । ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म धूलिकी तरह, बाह्य और अन्तरंग समस्त त्रिकालके विषयभूत-अनन्त अर्थपर्याय और व्यंजनपर्यायस्वरूप वस्तुओंको विषय करनेवाले बोध और अनुभवके प्रतिबन्धक होनेसे रज कहलाते हैं । मोहको भी रज कहते हैं, क्योंकि, जिसप्रकार जिनका मुख

१ प्रतिपु अत्रान्यत्र च 'अरिहंतः' इति पाठः । रागद्वेषकसाए य इंदियाणि य पंच य । परीसहे उवसगो णासयंतो णमोरिहा ॥ मूलाचा. ५०४. अट्टविहं पि य कम्मं अरिभयं होइ सच्चजीवाणं । तं कम्ममरिं हंता अरिहंता ज्ञेण वुच्चंति ॥ इंदियविसयकसाए परीसहे वेयणा उवसगो । एए अरिणो हंता अरिहंता, तेण वुच्चंति ॥

भस्मरजसा पूरिताननानामिव भूयो मोहावरुद्धात्मनां जिह्वभावोपलम्भात् ।  
किमिति त्रितयस्यैव विनाश उपदिश्यंत इति चेन्न, एतद्विनाशस्य शेषकर्मविनाशाविना-  
भावित्वात् । तेषां हननादरिहन्ता ।

रहस्याभावाद्वा अरिहन्ता । रहस्यमन्तरायः, तस्य शेषघातित्रितयविनाशाविना-  
भाविनो भ्रष्टबीजवन्निःशक्तीकृताघातिकर्मणो हननादरिहन्ता ।

अतिशयपूजार्हत्वाद्वाहन्तः । स्वर्गावतरणजन्माभिपेक्षपरिनिष्क्रमणकेवलज्ञानोत्पत्ति-  
परिनिर्वाणेषु देवकृतानां पूजानां देवासुरमानवप्राप्तपूजाभ्योऽधिकत्वादातिशयानामर्हत्वा-  
द्योग्यत्वादहन्तः ।

भस्मसे व्याप्त होता है उनमें जिह्वभाव अर्थात् कार्यकी मन्दता देखी जाती है, उसीप्रकार  
मोहसे जिनका आत्मा व्याप्त हो रहा है उनके भी जिह्वभाव देखा जाता है, अर्थात् उनकी  
स्वानुभूतिमें कालुष्य, मन्दता या कुटिलता पाई जाती है ।

शंका — यहाँ पर केवल तीनों, अर्थात् मोहनीय, ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्मके  
हीं विनाशका उपदेश क्यों दिया गया है ?

समाधान — ऐसा नहीं समझना चाहिये, क्योंकि, शेष सभी कर्मोंका विनाश इन तीन  
कर्मोंके विनाशका अविनाभावी है । अर्थात् इन तीन कर्मोंके नाश हो जाने पर शेष कर्मोंका  
नाश अवश्यभावी है । इसप्रकार उनका नाश करनेसे अरिहंत संज्ञा प्राप्त होती है ।

अथवा, 'रहस्य' के अभावसे भी अरिहंत संज्ञा प्राप्त होती है । रहस्य अन्तराय  
कर्मको कहते हैं । अन्तराय कर्मका नाश शेष तीन घातिया कर्मोंके नाशका अविनाभावी है,  
और अन्तराय कर्म के नाश होनेपर अघातिया कर्म भ्रष्ट बीज के समान निःशक्त हो जाते हैं ।  
ऐसे अन्तराय कर्मके नाशसे अरिहंत संज्ञा प्राप्त होती है ।

अथवा, सातिशय पूजाके योग्य होनेसे अर्हन् संज्ञा प्राप्त होती है, क्योंकि, गर्भ, जन्म,  
दीक्षा, केवल और निर्वाण इन पांचों कल्याणकोंमें देवोंद्वारा की गई पूजाएँ देव, असुर और  
मनुष्योंको प्राप्त पूजाओंसे अधिक अर्थात् महान् हैं, इसलिये इन अतिशयोंके योग्य होनेसे अर्हन्  
संज्ञा समझना चाहिये ।

१ अरहंति णमोक्कारं अरिहा पूजा सुरुत्तमा लोए । रजहंता अरिहंति य अरहंता तेण उच्चंदे ॥ मूरावा. ५०५  
अरिहंति वंदणमंसणाइं अरिहंति पूयसकारं । सिद्धिगमणं च अरिहा अरहंता तेण वुच्चंति ॥ देवासुरमणुएसुं अरिहा  
पूजा सुरुत्तमा जम्हा । अरिणो हंता रयं हंता अरिहंता तेण वुच्चंति ॥ वि. भा. ३५८४, ३५८५.

२ अविद्यमानं वा रहः एकान्तरूपो देशः, अन्तश्च मध्यं गिरिगुहादीनां सर्ववेदितया समस्तवस्तुस्तोमगत-  
प्रच्छन्नत्वस्याभावेन येषां ते अरहोऽन्तरः [ अरहंता ] अथवा अविद्यमानो रथः स्यन्दनः सकलपरिग्रहोपलक्षणभूतः  
अन्तश्च विनाशो जराद्युपलक्षणभूतो येषां ते अरथान्ता [ अरहंता ] । अथवा ' अरहंताणं ' ति क्वचिदप्यासक्तिमगच्छन्तः,

आविर्भूतानन्तज्ञानदर्शनसुखवीर्यविरतिक्षायिकसम्यक्त्वदानलाभभोगोपभोगाद्यन-  
न्तगुणत्वादिहैवात्मसात्कृतसिद्धस्वरूपाः स्फटिकमणिमहीधरगर्भोद्भूतादित्यविम्बवद्दैदीप्य-  
मानाः स्वशरीरपरिमाणा अपि ज्ञानेन व्याप्तविश्वरूपाः स्वस्थिताशेषप्रमेयत्वतः प्राप्त-  
विश्वरूपाः निर्गताशेषामयत्वतो निरामयाः विगताशेषपापाञ्जनपुञ्जत्वेन निरञ्जनाः  
दोषकलातीतत्वतो निष्कलाः । तेभ्योऽर्हद्भ्यो नमः, इति यावत् ।

णिद्व-मोह-तरुणो विथिण्णाण-सायरुत्तिण्णा ।

णिहय-णिय-विग्व-वग्गा बहु-त्राह-विणिग्गया अयला ॥ २३ ॥

दलिय-मयण-प्पयावा तिकाळ-विसएहि तीहि णयणेहि ।

दिद्व-सयलट्ट-सारा सुदद्व-तिउरा मुणि-व्वइणो ॥ २४ ॥

ति-रयण-तिसूलधारिय मोहंधासुर-कबंध-धिद-हरा ।

सिद्ध-सयलप्प-रत्त्वा अरहंता दुण्णय-कयंता ॥ २५ ॥

अनन्त-ज्ञान, अनन्त-दर्शन, अनन्त-सुख, अनन्त-वीर्य, अनन्त-विरति, क्षायिक-सम्यक्त्व,  
क्षायिक-दान, क्षायिक-लाभ, क्षायिक-भोग और क्षायिक-उपभोग आदि प्रगट हुए अनन्त गुण-  
स्वरूप होनेसे जिन्होंने यहीं पर सिद्धस्वरूप प्राप्त कर लिया है, स्फटिकमणिके पर्वतके मध्यसे  
निकलते हुए सूर्य-विम्बके समान जो दैदीप्यमान हो रहे हैं, अपने शरीर-प्रमाण होने पर भी  
जिन्होंने अपने ज्ञानके द्वारा संपूर्ण विश्वको व्याप्त कर लिया है, अपने ( ज्ञान ) में ही संपूर्ण  
प्रमेय रहनेके कारण ( प्रतिभासित होनेसे ) जो विश्वरूपताको प्राप्त हो गये हैं, संपूर्ण आमय  
अर्थात् रोगोंके दूर हो जानेके कारण जो निरामय हैं, संपूर्ण पापरूपी अंजनके समूहके नष्ट हो  
जानेसे जो निरञ्जन हैं, और दोषोंकी कलाएँ अर्थात् संपूर्ण दोषों से रहित होनेके कारण जो  
निष्कल हैं, ऐसे उन अरिहंतोंको नमस्कार हो ।

जिन्होंने मोहरूपी वृक्षको जला दिया है, जो विस्तीर्ण अज्ञानरूपी समुद्रसे उत्तीर्ण हो  
गये हैं, जिन्होंने अपने विघ्नोंके समूहको नष्ट कर दिया है, जो अनेक प्रकारकी बाधाओंसे रहित  
हैं, जो अचल हैं, जिन्होंने कामदेवके प्रतापको दलित कर दिया है, जिन्होंने तीनों कालोंको  
विषय करनेरूप तीन नेत्रोंसे सकल पदार्थोंके सारको देख लिया है, जिन्होंने त्रिपुर अर्थात्  
मोह, राग और द्वेषको अच्छी तरहसे भस्म कर दिया है, जो मुनिव्रती अर्थात् दिगम्बर अथवा  
मुनियोंके पाति अर्थात् ईश्वर हैं, जिन्होंने सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्-चारित्र्य इन  
तीन रत्नरूपी त्रिशूलको धारण करके मोहरूपी अन्धकासुरके कबंधवृन्दका हरण कर लिया है,

क्षीणरागत्वान् । अथवा ' अरहयद्भ्यः ' प्रकृष्टरागादिहेतुभूतमनोहंतरविषयसंपर्कंऽपि वीतरागत्वादिकं स्वं स्वभाव-  
मत्यजन्तः [ अरहंता ] । अरहंताणमित्यापि पाठान्तरम् । तत्र ' अरोहद्भ्यः ' अलुपजायमानेभ्यः क्षीणकर्मबीजत्वात् ।  
आह च, दग्धे बीजे यथात्यन्तं प्रादुर्भवति नाङ्कुरः । कर्मबीजे तथा दग्धे न रोहते भवाङ्कुरः ॥ नमस्करणीयता चैषां  
भीममवगहनभ्रमणभीतभूतानामनुपमानन्दरूपपरमपदपुरपयप्रदर्शकत्वेन परमोपकारित्वादिति । भग. १, १, १, टीका.



‘णमो सिद्धाणं’ सिद्धाः निष्ठिताः कृतकृत्याः सिद्धसाध्याः नष्टाष्टकर्माणः । सिद्धानामर्हतां च को भेद इति चेन्न, नष्टाष्टकर्माणः सिद्धाः नष्टघातिकर्माणोऽर्हन्त इति तयोर्भेदः । नष्टेषु घातिकर्मस्वाविर्भूताशेषात्मगुणत्वान्न गुणकृतस्तयोर्भेद इति चेन्न, अघातिकर्मोदयसत्त्वोपलम्भात् । तानि शुक्लध्यानाग्निनाथदग्धत्वात्सन्त्यपि न स्वकार्य-कर्तृणीति चेन्न, पिण्डनिपाताभावान्यथानुपपत्तितः आयुष्यादिशेषकर्मोदयास्तित्वसिद्धेः ।

जिन्होंने संपूर्ण आत्मस्वरूपको प्राप्त कर लिया है और जिन्होंने दुर्नयका अन्त कर दिया है, ऐसे अरिहंत परमेष्ठी होते हैं ॥ २३, २४, २५ ॥

विशेषार्थ—शैवमतमें महादेवको कामदेवका नाश करनेवाला, अपने तीन नेत्रोंसे सकल पदार्थोंके सारको जाननेवाला, त्रिपुरका ध्वंस करनेवाला, मुनिव्रती अर्थात् दिगम्बर, त्रिशूलको धारण करनेवाला और अन्धकासुरके कवन्धचन्द्रका हरण करनेवाला माना है । महादेवके इन विशेषणोंको लक्ष्यमें रखकर नीचेकी दो गाथाओंकी रचना हुई है । जिससे यह प्रगट हो जाता है कि अरिहंत परमेष्ठी ही सब्हे महादेव हैं ।

‘णमो सिद्धाणं’ अर्थात् सिद्धोंको नमस्कार हो । जो निष्ठित अर्थात् पूर्णतः अपने स्वरूपमें स्थित हैं, कृतकृत्य हैं, जिन्होंने अपने साध्यको सिद्ध कर लिया है, और जिनके ज्ञानावरणादि आठ कर्म नष्ट हो चुके हैं उन्हें सिद्ध कहते हैं ।

शंका—सिद्ध और अरिहंतोंमें क्या भेद है ?

समाधान—आठ कर्मोंको नष्ट करनेवाले सिद्ध होते हैं, और चार घातिया कर्मोंको नष्ट करनेवाले अरिहंत होते हैं । यही उन दोनोंमें भेद है ।

शंका—चार घातिया कर्मोंके नष्ट हो जाने पर अरिहंतोंकी आत्माके समस्त गुण प्रकट हो जाते हैं, इसलिये सिद्ध और अरिहंत परमेष्ठीमें गुणकृत भेद नहीं हो सकता है ?

समाधान—ऐसा नहीं है, क्योंकि, अरिहंतोंके अघातियाकर्मोंका उदय और सत्त्व दोनों पाये जाते हैं, अतएव इन दोनों परमेष्ठियोंमें गुणकृत भेद भी है ।

शंका—वे अघातिया कर्म शुक्लध्यानरूप अग्निके द्वारा अधजलेसे हो जानेके कारण उदय और सत्त्वरूपसे विद्यमान रहते हुए भी अपना कार्य करनेमें समर्थ नहीं है ?

समाधान—ऐसा भी नहीं है, क्योंकि, शरीरके पतनका अभाव अन्यथा सिद्ध नहीं होता है, इसलिये अरिहंतोंके आयु आदि शेष कर्मोंके उदय और सत्त्वकी सिद्धि हो जाती है । अर्थात् यदि आयु आदि कर्म अपने कार्यमें असमर्थ माने जायं, तो शरीर का पतन हो जाना चाहिये । परंतु शरीर का पतन तो होता नहीं है, इसलिये आयु आदि शेष कर्मोंका कार्य करना सिद्ध है ।

१ सर्वविवर्तोत्तीर्णं यदा स चैतन्यमचलमाप्नोति । भवति तदा कृतकृत्यः सम्यक् पुरुषार्थसिद्धिमापन्नः ॥

पु. सि. १-१-

२ दीहकालमयं जन्व उसिदो अट्टकम्मसु । सिद्धे धत्ते णिघत्ते य सिद्धत्तमुवगच्छइ । मूलाचा. ५०७.

तत्कार्यस्य चतुरशीतिलक्षयोन्यात्मकस्य जातिजरामरणोपलक्षितस्य संसारस्यासत्त्वात्तेषा-  
मात्मगुणघातनसामर्थ्याभावाच्च न तयोर्गुणकृत भेद इति चेन्न, आयुष्यवेदनीयोदययो-  
र्जीवोर्ध्वगमनसुखप्रतिबन्धकयोः सत्त्वात् ।

नोर्ध्वगमनमात्मगुणस्तदभावे चात्मनो विनाशप्रसङ्गात् । सुखमपि न गुणस्तत  
एव । न वेदनीयोदयो दुःखजनकः केवलानि केवलित्वान्यथानुपपत्तेरिति चेदस्त्वेवमेव  
न्यायप्राप्तत्वात् । किंतु सलेपनिर्लेपत्वाम्यां देशभेदाच्च तयोर्भेद इति सिद्धम् ।

शंका—कर्मोंका कार्य तो चौरासी लाख योनिरूप जन्म, जरा और मरणसे युक्त  
संसार है । वह, अघातिया कर्मोंके रहने पर भी अरिहंत परमेष्ठीके नहीं पाया जाता है । तथा,  
अघातिया कर्म आत्माके अनुजीवी गुणोंके घात करनेमें असमर्थ भी हैं । इसलिये अरिहंत और  
सिद्ध परमेष्ठीमें गुणकृत भेद मानना ठीक नहीं है ?

समाधान—ऐसा नहीं है, क्योंकि, जीव के ऊर्ध्वगमन स्वभाव का प्रतिबन्धक आयु-  
कर्म का उदय और सुखगुणका प्रतिबन्धक वेदनीय कर्मका उदय अरिहंतों के पाया जाता है ।  
इसलिये अरिहंत और सिद्धों में गुणकृत भेद मानना ही चाहिये ।

शंका—ऊर्ध्वगमन आत्माका गुण नहीं है, क्योंकि, उसे आत्माका गुण मान लेने पर  
उसके अभावमें आत्माका भी अभाव मानना पड़ेगा । इसीकारण सुख भी आत्माका गुण नहीं  
है । दूसरे वेदनीय कर्मका उदय केवलीमें दुखको भी उत्पन्न नहीं करता है, अन्यथा, अर्थात्  
वेदनीय कर्मको दुःखोत्पादक मान लेने पर, केवली भगवान्के केवलीपना ही नहीं बन  
सकता है ?

समाधान—यदि ऐसा है तो रहो, अर्थात् अरिहंत और सिद्धोंमें गुणकृत भेद सिद्ध  
नहीं होता है तो मत होओ, क्योंकि, वह न्यायसंगत है । फिर भी सलेपत्व और निर्लेपत्वकी  
अपेक्षा और देशभेदकी अपेक्षा उन दोनों परमेष्ठियोंमें भेद सिद्ध है ।

विशेषार्थ—अरिहंत और सिद्धोंमें अनुजीवी गुणोंकी अपेक्षा तो कोई भेद नहीं है ।  
फिर भी प्रतिजीवी गुणोंकी अपेक्षा माना जा सकता है । परंतु प्रतिजीवी गुण आत्माके भाव-  
स्वरूप धर्म नहीं होनेसे तत्कृत भेदकी कोई मुख्यता नहीं है । इसलिये सलेपत्व और निर्लेपत्वकी  
अपेक्षा अथवा देशभेदकी अपेक्षा ही इन दोनोंमें भेद समझना चाहिये । ऊपर जो ऊर्ध्वगमन  
और सुख आत्माके गुण नहीं हैं, इसप्रकारका कथन किया है । वहां पर उन दोनों गुणोंका  
तात्पर्य प्रतिजीवी गुणोंसे है । ऊर्ध्वगमनसे अवगाहनत्व और सुखसे अब्याबाध गुणका ग्रहण  
करना चाहिये । क्योंकि, ग्रन्थान्तरोंमें आयु और वेदनीयके अभावसे होनेवाले जिन गुणोंको  
अवगाहन और अब्याबाध कहा है । उन्हें ही यहां पर ऊर्ध्वगमन और सुखके नामसे प्रतिपादन  
किया है ।

तेभ्यः सिद्धेभ्यो नम इति यावत् ।

णिहय त्रिविहृ-कम्मा तिहुवण-सिर-सेहरा विहुव-दुक्खा ।

सुह-साचर-मज्ज-गया णिरंजणा णिच्च अट्ट-गुणा ॥ २६ ॥

अणवज्जा कय-कज्जा सन्वावयवेहि दिट्ट-सच्चञ्च ।

वज्ज-सिलत्थम्मगय पडिमं वाभेज्ज-संठाणा ॥ २७ ॥

नाणुस-संठाणा वि हु सन्वावयवेहि णो गुणेहि समा ।

सच्चिदियाण विसयं जमेग-देसे विजाणंति ॥ २८ ॥

‘ णमो आइरियाणं ’ पञ्चविधमाचारं चरन्ति चारयन्तीत्याचार्याः चतुर्दश-  
विद्यास्थानपारगाः एकादशाङ्गधराः । आचाराङ्गधरो वा तात्कालिकस्वसमयपरसमय-  
पारगो वा मेरुरिव निश्चलः क्षितिरिव सहिष्णुः सागर इव वहिःक्षिप्तमलः सप्तभय-

ऐसे सिद्धोंको नमस्कार हो ।

जिन्होंने नाना भेदरूप आठ कर्मोंका नाश कर दिया है, जो तीन लोकके मस्तकके  
शेखरस्वरूप हैं, दुःखोंसे रहित हैं, सुखरूपी सागरमें निमग्न हैं, निरंजन हैं, नित्य हैं, आठ  
गुणोंसे युक्त हैं, अनवद्य अर्थात् निर्दोष हैं, कृतकृत्य हैं, जिन्होंने सर्वांगसे अथवा समस्त  
पर्यायोंसहित संपूर्ण पदार्थोंको जान लिया है, जो वज्रशिला-निर्मित अभय प्रतिमाके समान  
अभेद्य आंकारसे युक्त हैं, जो पुरुषाकार होने पर भी गुणोंसे पुरुषके समान नहीं हैं, क्योंकि,  
पुरुष संपूर्ण इन्द्रियोंके विषयोंको भिन्न भिन्न देशमें जानता है, परंतु जो प्रति प्रदेशमें सब  
विषयोंको जानते हैं, वे सिद्ध हैं ।

‘ णमो आइरियाणं ’ आचार्य परमेष्ठीको नमस्कार हो । जो दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य, तप  
और वीर्य इन पांच आचारोंका स्वयं आचरण करते हैं और दूसरे साधुओंसे आचरण कराते

१ नमस्करणीयता चैयामविग्रणाशिक्षानदर्शनसुखवीर्यादिगुणयुक्ततया स्वविषयग्रमोदप्रकृत्यात्पादनेन  
भयानामतीवोपकारहेतुत्वादिति । मग. १, १, २, टीका.

२ जन्हा पंचविहाचारं आचरंती पमासदि । आयरियाणि देसंतो आयरिओ तेष उच्चंद ॥ मूलाचा. ५१०.

आयारं पंचविहं चरदि चरावेदि जो णिरदिचारं । उवादिअदि य आयारं एसो आयारवं णाम ॥ मूलाचा. ४१९.

३ चौइसदसणवपुच्ची महामदी सोयरो च गंभीरो । कप्पववहारधारीहोदि हु आयारवं णाम ॥

मूलाचा. ४२५.

४ पंच मह्ययतुंगा तच्चाडियसपरसमयसुदधारा । णाणाणुणगगरिया आइरिया मम पसीदितु ॥

ति. प. १, ३.

५ गंभीरो दुद्धरिसो हरो धम्मप्यहावणासालो । चिदिसिसिआयरसरिसो कमेण तं सो दु संपतो ॥

मूलाचा. १५९.

विप्रमुक्तः आचार्यः ।

पवण-जलहि-जलयर-ण्हायामल-बुद्धि-सुद्ध-छावासो<sup>१</sup> ।

मेरु व्व णिप्पकंपो सूरु पंचाणणो वज्जो ॥ २९ ॥

देस-कुल-जाइ-सुद्धो सोमंगो संग-भंग-उम्मुक्को ।

गयण व्व णिरुवलेवो आइरियो एरिसो होई ॥ ३० ॥

संगह-णिग्गह-कुसलो सुत्तथ-विसारओ पहिय-कित्ती ।

सारण-वारण-साहण-किरियुज्जुत्तो हु आइरियो<sup>२</sup> ॥ ३१ ॥

एवंविधेभ्य आचार्येभ्यो नम इति यावत् ।

हैं उन्हें आचार्य कहते हैं । जो चौदह विद्यास्थानोंके पारंगत हों, ग्यारह अंगके धारी हों, अथवा आचारांगमात्रके धारी हों, अथवा तत्कालीन स्वसमय और परसमयमें पारंगत हों, मेरुके समान निश्चल हों, पृथिवीके समान सहनशील हों, जिन्होंने समुद्रके समान मल अर्थात् दोषोंको बाहिर फेंक दिया हो, और जो सात प्रकारके भयसे रहित हों, उन्हें आचार्य कहते हैं ।

प्रवचनरूपी समुद्रके जलके मध्यमें स्नान करनेसे अर्थात् परमागमके परिपूर्ण अभ्यास और अनुभवसे जिनकी बुद्धि निर्मल हो गई है; जो निर्दोष रीतिसे छह आवश्यकोंका पालन करते हैं; जो मेरु पर्वतके समान निष्कम्प हैं, जो शूरवीर हैं; जो सिंहके समान निर्भीक हैं, जो वर्य अर्थात् श्रेष्ठ हैं, देश, कुल और जातिसे शुद्ध हैं, सौम्यमूर्ति हैं, अन्तरंग और बहिरंग परिग्रहसे रहित हैं, आकाशके समान निर्लेप हैं, ऐसे आचार्य परमेष्ठी होते हैं । जो संघके संग्रह अर्थात् दीक्षा और निग्रह अर्थात् शिक्षा या प्रायश्चित्त देनेमें कुशल हैं, जो सूत्र अर्थात् परमागमके अर्थमें विशारद हैं, जिनकी कीर्ति सब जगह फैल रही है, जो सारण अर्थात् आचरण, वारण अर्थात् निषेध और साधन अर्थात् बतोंकी रक्षा करनेवाली क्रियाओंमें निरन्तर उद्युक्त हैं, उन्हें आचार्य परमेष्ठी समझना चाहिये ॥ २९, ३०, ३१ ॥

ऐसे आचार्योंको नमस्कार हो ।

१ तत्र भीतिरिहासुत्र लोके वे वेदनामयम् । चतुर्थी भीतिरत्राणं स्यादशुक्तिस्तु पंचमी ॥ भीतिः स्याद्वा तथा मृत्युः भीतिराकस्मिकं ततः । क्मादुदेशिताश्चेति सप्तैता भीतयः स्मृताः ॥ पञ्चाध्या. २, ५०४, ५०५.

२ 'सुद्धछावासो' ण वसो अवसो, अवसस्स कम्ममावासणं इति व्युत्पत्तावपि सामयिकादिन्वेवायं शब्दो वर्तते । व्याधिदौर्व्रत्यादिना व्याकुलो भण्यते अवशः परवश इति यावत् । तेनापि कर्त्तव्यं कर्मेति । अथवा, 'आवासो' इत्ययमर्थः, आवासयन्ति रत्नत्रयमात्मनीति कृत्वा सामायिकं चतुर्विंशतिस्तवो वंदना प्रतिक्रमणं प्रत्याख्यानं व्युत्सर्गं इत्यमी षडवश्यकानि ॥ मूलारा. गा. ११६ टीका.

३ संगहणुग्गहकुसलो सुत्तथविसारओ पहियकित्ती । किरियाचरणसुज्जुत्तो गाहुय आदेज्ज वयणो य ॥

मूलाचा. १५८.

४ आ मर्यादया तद्विषयविनयरूपया चर्यन्ते सेव्यन्ते जिनशासनार्थोपदेशकतया तदाकाङ्क्षिभिः इत्याचार्याः ।

‘ णमो उवज्झायाणं ’ चतुर्दशविद्यास्थानव्याख्यातारः उपाध्यायाः तात्कालिक-  
प्रवचनव्याख्यातारो वा आचार्यस्योक्ताशेषलक्षणसमन्विताः संग्रहानुग्रहांदिगुणहीनाः ।

चौदस-पुव्व-महोयहिमहिगम्म सिव-त्थिओ सिवत्थीणं ।

सीलंधराण वत्ता होइ मुणीसो उवज्झायो ॥ ३२ ॥

एतेभ्य उपाध्यायेभ्यो<sup>१</sup> नम इति यावत् ।

‘ णमो उवज्झायाणं ’ उपाध्याय परमेष्ठीको नमस्कार हो । चौदह विद्यास्थानके व्याख्यान करनेवाले उपाध्याय होते हैं, अथवा तत्कालीन परमागमके व्याख्यान करनेवाले उपाध्याय होते हैं । वे संग्रह, अनुग्रह आदि गुणोंको छोड़कर पहले कहे गये आचार्यके समस्त गुणोंसे युक्त होते हैं ।

जो साधु चौदह पूर्वरूपी समुद्रमें प्रवेश करके अर्थात् परमागमका अभ्यास करके मोक्षमार्गमें स्थित हैं, तथा मोक्षके इच्छुक शीलंधरों अर्थात् मुनियों को उपदेश देते हैं, उन मुनीश्वरोंको उपाध्याय परमेष्ठी कहते हैं ॥ ३२ ॥

ऐसे उपाध्यायोंको नमस्कार हो ।

उक्तं च, सुत्तत्थविज्ज लक्खणञ्जुत्तो गच्छस्स मेदिभूओ य । गणतत्तिविप्पमुको अत्थं वाएइ आयरिओ ॥ अथवा आचारो ज्ञानाचारिदिः पञ्चधा । आ मर्यादया वा चारो विहारः आचारस्तत्र साधवः स्वयंकरणात् प्रभाषणात् प्रदर्शनाच्चेत्याचार्याः । आह च, पंचविहं आयारं आयरमाणा तहा पयासंता । आयारं दंसंता आयरिया तेण वुच्चंति ॥ अथंवा आ ईपद्द अपरिपूर्णा इत्यर्थः चारा हेरिका ये ते आचारा चारकल्पा इत्यर्थः । युक्तायुक्तविभागनिरूपणनिपुणा विनेयाः, अतस्तेषु साधवो यथावच्छास्त्रार्थोपदेशकतया इत्याचार्याः । नमस्यता चैपामाचारोपदेशकतयोपकारित्वात् ।

भग. १, १, १. टीका.

१ ‘ निग्रह ’ पाठः प्रतिभाति ।

२ वारसंगं जिणक्खादं सज्झायं कथितं बुधं । उवदेसइ सज्झायं तेषुवज्झाउ उच्चदि ॥ मूलाचा. ५११, आ. नि. १०००. ‘ उ ’ ति उवओगकरणे ‘ ज्झ ’ ति य ज्ञाणस्स होइ णिद्वेसे । एएण होंति उज्झा एसो अन्नो वि पज्जाओ ॥ ‘ उ ’ ति उवओगकरणे ‘ व ’ ति अ पावपरिवज्जणे होइ । ‘ ज्झ ’ ति अ ज्ञाणस्स कए ‘ ओ ’ ति अ ओक्कस्सणा कम्मे ॥ आ. नि. ९९८, ९९९. उप समीपमागत्याधीयते ‘ इङ् अध्ययने ’ इति वचनात् पठ्यते ‘ इण् गतौ ’ इति वचनाद्वा अधि आधिक्येन गम्यते, ‘ इक् स्मरणे ’ इति वचनाद्वा स्मर्यते सूत्रतो जिनप्रवचनं येभ्यस्ते उपाध्यायाः । यदाह, वारसंगो जिणक्खाओ सज्झाओ कहिओ बुहे । तं उवइसंति जम्हा उवज्झाया तेण वुच्चंति ॥ अथवा उपधानमुपाधिः संनिधिस्तेनोपाधिना उपाधौ वा आयो लाभः श्रुतस्य येषां ते । उपधीनां वा विशेषणानां प्रकमाच्छोभनानामायो लाभो येभ्यः । अथवा उपाधिरेव संनिधिरेव आयं इष्टफलं दैवजनितत्वेन अयानां इष्टफलानां समूहस्तदेकहेतुत्वाद्येषां ते । अथवा आधीनां मनःपीडानामायो लाभ आध्यायः अधियां वा ‘ नजः कुत्सार्थत्वात् ’ कुबुद्धीनामायोऽध्यायः । ध्यै चिन्तायां इत्यस्य धातोः प्रयोगान्नजः कुत्सार्थत्वादेव च दुर्ध्यानं वाध्यायः । उपहत आध्यायः अध्यायो वा यैस्ते उपाध्यायाः । नमस्यता चैषां सुसम्प्रदायायातजिनवचनाध्यापनतो विनयनेन भव्यानामुपकारित्वादिति । भग. १, १, १. टीका.

‘ णमो लोए सव्व साहूणं ’ अनन्तज्ञानादिशुद्धात्मस्वरूपं साधयन्तीति साधवः ।  
पञ्चमहाव्रतधरास्त्रिगुप्तिगुप्ताः अष्टादशशीलसहस्रधराश्चतुरशीतिशतसहस्रगुणधराश्च साधवः ।

सीह-गय-वसह-मिय-पसु-मारुद-सूरुवहि-मंदरिंदु-मणी ।

खिदि-उरगंवर-सरिसा परम-पय-विमग्गया साहूँ ॥ ३३ ॥

सकलकर्मभूमीपूतपन्नेभ्यस्त्रिकालगोचरेभ्यः साधुभ्यो नमः

‘ णमो लोए सव्वसाहूणं ’ लोक अर्थात् ढाई द्वीपवर्ती सर्व साधुओंको नमस्कार हो । जो अनन्त ज्ञानादिरूप शुद्ध आत्माके स्वरूपकी साधना करते हैं उन्हें साधु कहते हैं । जो पांच महाव्रतोंको धारण करते हैं, तीन गुप्तियोंसे सुरक्षित हैं, अठारह हजार शीलके भेदोंको धारण करते हैं और चौरासी लाख उत्तर गुणोंका पालन करते हैं, वे साधु परमेष्ठी होते हैं ।

सिंहके समान पराक्रमी, गजके समान स्वाभिमानी या उन्नत, बैलके समान भद्र-प्रकृति, मृगके समान सरल, पशुके समान निरीह गोचरी-वृत्ति करनेवाले, पवनके समान निःसंग या सब जगह विना रुकावटके विचरनेवाले, सूर्यके समान तेजस्वी या सकल तत्वोंके प्रकाशक, उदधि अर्थात् सागरके समान गम्भीर, मन्दराचल अर्थात् सुमेरु-पर्वतके समान परीषह और उपसर्गोंके आने पर अकम्प और अडोल रहनेवाले, चन्द्रमाके समान शान्तिदायक, मणिके समान प्रभा-पुंजयुक्त, क्षितिके समान सर्व प्रकारकी बाधाओंको सहनेवाले, उरग अर्थात् सर्पके समान दूसरेके बनाये हुए अनियत आश्रय-वसतिका आदिमें निवास करनेवाले, अम्बर अर्थात् आकाशके समान निरालम्बी या निर्लेप और सदाकाल परमपद अर्थात् मोक्षका अन्वेषण करनेवाले साधु होते हैं ॥ ३३ ॥

संपूर्ण कर्मभूमियोंमें उत्पन्न हुए त्रिकालवर्ती साधुओंको नमस्कार हो ।

१ गगणतलं व गिरालंबणा, वाउरिव अपडिंबंधा, सारदसलिल इव सुद्धहियया, पुक्खरपत्त इव निरुवलेवा, कुम्भो इव गुत्तिदिया, विहग इव विप्पमुक्का, खगिगिसाणं व एगजाया, भारंडपक्खी व अप्पमत्ता, कुंजरो इव सोंडीरा, वसमो इव जातत्थिमा, सीहो इव दुद्धरिसा, मंदरा इव अप्पकंपा, सागरो इव गंभीरा, चंदो इव सोमलेसा, सूरु इव दित्तचेया, जच्चकंचणगं च इव जातरुवा, वसुंधरा इव सव्वफासविसया, सुहुयहुयासणो तेयसा जलंता अणगारा ।  
सूत्र. २, २. ७०. उरगगिरिजलणसागरनहतलतरुगणसमो अ जो होई । भमरमियधरणिजलरुहरविपवणसमो अ तो समणो ॥ अनु. पृ. २५६.

२ णिव्वाणसाधए जोगे सदा जुंजंति साधवो । समा सव्वेसु भूदसु तम्हा ते सव्वसाधवो ॥ मूलावा. ५१२. आ. नि. १००५. साधयन्ति ज्ञानादिशक्तिभिर्मोक्षमिति साधवः । समतां वा सर्वभूतेषु ध्यायन्तीति निरुत्तिन्यायात् साधवः । यदाह, णिव्वाणसाहए जोए जम्हा साहंति साहुणो । समा य सव्वभूएसु तम्हा ते भावसाहुणो ॥ साहायकं वा संयमकारिणां धारयन्तीति साधवः । सर्वग्रहणं च सर्वेषां गुणवतामविशेषनमनीयताप्रतिपादनार्थम् । अथवा, सर्वेभ्यो जीवेभ्यो हिताः सार्वाः, ते च ते साधवश्च सार्वसाधवः । सार्वस्य वा अर्हतो न तु बुद्धादेः साधवः सार्वसाधवः । सर्वान् वा शुभयोगान् साधयन्ति कुर्वन्ति, सार्वान् वा अर्हतः साधयन्ति तदाज्ञाकरणादाराधयन्ति प्रतिष्ठापयन्ति वा दुर्नयनिराकारणादिति सर्वसाधवः सार्वसाधवो वा । अथवा श्रव्येषु श्रवणाहंषु वाक्येषु अथवा सव्यानि दक्षिणान्यनु-

सर्वनमस्कारैष्वत्रतनसर्वलोकशब्दाविन्तदीपकत्वाद्ध्याहर्तव्यौ सकलक्षेत्रगतत्रिकालगोचरार्हदादिदेवताप्रणमनार्थम् ।

युक्तः प्राप्तात्मस्वरूपाणामर्हतां सिद्धानां च नमस्कारः, नाचार्यादीनामप्राप्तात्मस्वरूपत्वतस्तेषां देवत्वाभावादिति न, देवो हि नाम त्रीणि रत्नानि स्वभेदतोऽनन्तभेदभिन्नानि, तद्विशिष्टो जीवोऽपि देवः अन्यथाशेषजीवानामपि देवत्वापत्तेः । तत आचार्यादयोऽपि देवाः रत्नत्रयास्तित्वं प्रत्यविशेषात् । नाचार्यादिस्थितरत्नानां सिद्धस्थरत्नेभ्यो भेदो रत्नानामाचार्यादिस्थितानामभावापत्तेः । न कारणकार्यत्वाद्भेदः सत्स्वेवाचार्यादिस्थरत्नावयवेष्वन्यस्य तिरोहितस्य रत्नाभोगस्य स्वावरणविगमत आविर्भावोपलम्भात् । न

पांच परमेष्ठियोंको नमस्कार करनेमें, इस नमोकार मंत्रमें जो 'सर्व' और 'लोक' पद हैं वे अन्तदीपक हैं, अतः संपूर्ण क्षेत्रमें रहनेवाले त्रिकालवर्ती अरिहंत आदि देवताओंको नमस्कार करनेके लिये उन्हें प्रत्येक नमस्कारात्मक पदके साथ जोड़ लेना चाहिये ।

शंका—जिन्होंने आत्म-स्वरूपको प्राप्त कर लिया है ऐसे अरिहंत और सिद्ध परमेष्ठीको नमस्कार करना योग्य है, किंतु आचार्यादिक तीन परमेष्ठियोंने आत्म-स्वरूपको प्राप्त नहीं किया है, इसलिये उनमें देवपना नहीं आ सकता है । अतएव उन्हें नमस्कार करना योग्य नहीं है ?

समाधान—ऐसा नहीं है, क्योंकि, अपने अपने भेदोंसे अनन्त भेदरूप रत्नत्रय ही देव है, अतएव रत्नत्रयसे युक्त जीव भी देव है, अन्यथा ( यदि रत्नत्रयकी अपेक्षा देवपना न माना जाय तो ) संपूर्ण जीवोंको देवपना प्राप्त होनेकी आपत्ति आ जायगी । इसलिये यह सिद्ध हुआ कि आचार्यादिक भी रत्नत्रयके यथायोग्य धारक होनेसे देव हैं, क्योंकि, अरिहंतादिकसे आचार्यादिकमें रत्नत्रयके सद्भावकी अपेक्षा कोई अन्तर नहीं है । अर्थात् जिसतरह अरिहंत और सिद्धोंके रत्नत्रय पाया जाता है, उसीप्रकार आचार्यादिकके भी रत्नत्रयका सद्भाव पाया जाता है । इसलिये आंशिक रत्नत्रयकी अपेक्षा इनमें भी देवपना बन जाता है ।

आचार्यादि परमेष्ठियोंमें स्थित तीन रत्नोंका सिद्ध परमेष्ठीमें स्थित रत्नोंसे भेद भी नहीं है । यदि दोनोंके रत्नत्रयमें सर्वथा भेद मान लिया जावे, तो आचार्यादिकमें स्थित रत्नोंके अभावका प्रसंग आवेगा । अर्थात् जब आचार्यादिकके रत्नत्रय सिद्ध-परमात्माके रत्नत्रयसे भिन्न सिद्ध हो जावेंगे, तो आचार्यादिकके रत्न ही नहीं कहलावेंगे ।

आचार्यादिक और सिद्ध-परमेष्ठीके सम्यग्दर्शनादिक रत्नोंमें कारण-कार्यके भेदसे भी भेद नहीं माना जा सकता है, क्योंकि, आचार्यादिकमें स्थित रत्नोंके अवयवोंके रहने पर ही तिरोहित, अर्थात् कर्मपटलोंके कारण पर्यायरूपसे अप्रगट, दूसरे रत्नावयवोंका अपने आवरण-कर्मके अभाव हो जानेके कारण आविर्भाव पाया जाता है । अर्थात् जैसे जैसे कर्मपटलोंका

कूलानि यानि कार्याणि तेषु साधवो निपुणाः श्रव्यसाधवः सव्यसाधवो वा । एषां च नमनीयता मोक्षमार्गसाहाय्यकरणोपकारित्वात् । भग. १, १, १. टीका.

परोक्षापरोक्षकृतो भेदो वस्तुपरिच्छिन्तिं प्रत्येकत्वात् । नैकस्य ज्ञानस्यावस्थाभेदतो भेदो निर्मलानिर्मलावस्थावस्थितदर्पणस्यापि भेदापत्तेः । नावयवावयविकृतो भेदः अवयवस्यावयविनोऽव्यतिरेकात् । सम्पूर्णरत्नानि देवो न तदेकदेश इति चेन्न, रत्नैकदेशस्य देवत्वाभावे समस्तस्यापि तदसत्त्वापत्तेः । न चाचार्यादिस्थितरत्नानि कृत्स्नकर्मक्षयकर्तृणि रत्नैकदेशत्वादिति चेन्न, अग्निसमूहकार्यस्य पलालराशिदाहस्य तत्कणादप्युपलम्भात् । तस्मादाचार्यादयोऽपि देवा इति स्थितम् ।

विगताशेषलेपेषु सिद्धेषु सत्स्वर्हतां सलेपानामादौ किमिति नमस्कारः क्रियत इति चेन्नैष दोषः, गुणाधिकसिद्धेषु श्रद्धाधिक्यनिबन्धनत्वात् । असत्यर्हत्याप्तागमपदार्थावगमो

अभाव होता जाता है, जैसे ही जैसे अप्रगट रत्नोंके शेष अवयव अपने आप प्रगट होते जाते हैं। इसलिये उनमें कारण-कार्यपना भी नहीं बन सकता है। इसीप्रकार आचार्यादिक और सिद्धोंके रत्नोंमें परोक्ष और प्रत्यक्ष-जन्य भेद भी नहीं माना जा सकता है, क्योंकि, वस्तुके ज्ञान-सामान्यकी अपेक्षा दोनों एक हैं। केवल एक ज्ञानके अवस्थाभेदसे भेद नहीं माना जा सकता है। यदि ज्ञानमें उपाधिकृत अवस्था-भेदसे भेद माना जावे, तो निर्मल और मलिन दशाको प्राप्त दर्पणमें भी भेद मानना पड़ेगा। इसीप्रकार आचार्यादिक और सिद्धोंके रत्नोंमें अवयव और अवयवी-जन्य भी भेद नहीं है, क्योंकि, अवयव अवयवीसे सर्वथा अलग नहीं रहते हैं।

शंका—संपूर्ण रत्न अर्थात् पूर्णताको प्राप्त रत्नत्रयको ही देव माना जा सकता है, रत्नोंके एकदेशको देव नहीं माना जा सकता ?

समाधान—ऐसा कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि, रत्नोंके एकदेशमें देवपनाके अभाव मान लेने पर रत्नोंकी समग्रतामें भी देवपना नहीं बन सकता है। अर्थात् जो कार्य जिसके एकदेशमें नहीं देखा जाता है वह उसकी समग्रतामें कहाँसे आ सकता है ?

शंका—आचार्यादिकमें स्थित रत्नत्रय समस्त कर्मोंके क्षय करनेमें समर्थ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि, उनके रत्न एकदेश हैं।

समाधान—यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि, जिसप्रकार पलाल-राशिका दाहरूप अग्नि-समूहका कार्य अग्निके एक कणसे भी देखा जाता है, उसीप्रकार यहां पर भी समझना चाहिये। इसलिये आचार्यादिक भी देव हैं, यह बात निश्चित हो जाती है।

शंका—सर्व प्रकारके कर्म-लेपसे रहित सिद्ध-परमेष्ठीके विद्यमान रहते हुए अघातिया-कर्मोंके लेपसे युक्त अरिहंतोंको आदिमें नमस्कार क्यों किया जाता है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, सबसे अधिक गुणवाले सिद्धोंमें श्रद्धाकी अधिकताके कारण अरिहंत परमेष्ठी ही हैं, अर्थात् अरिहंत परमेष्ठीके निमित्तसे ही अधिक गुणवाले सिद्धोंमें सबसे अधिक श्रद्धा उत्पन्न होती है। अथवा, यदि अरिहंत परमेष्ठी न होते तो हम लोगोंको आप्त, आगम और पदार्थका परिज्ञान नहीं हो सकता था। किंतु अरिहंत परमेष्ठीके



न भवेदस्मदादीनाम्, संजातश्चैतत्प्रसादादित्युपकारापेक्षया वादावर्हन्नमस्कारः क्रियते । न पक्षपातो दोषाय शुभपक्षवृत्तेःश्रेयोहेतुत्वात् । अद्वैतप्रधाने गुणीभूतद्वैते<sup>१</sup> द्वैतनिबन्धनस्य पक्षपातस्यानुपपत्तेश्च । आप्तश्रद्धाया आप्तागमपदार्थविषयश्रद्धाधिक्यनिबन्धनत्वख्या-  
पनार्थं वाहतामादौ नमस्कारः । उक्तं च—

जस्संतियं धम्मवहं णिगच्छे तस्संतियं वेणइयं पउजे ।

सकारणं तं सिर-पंचण<sup>२</sup> काण्ण वाया मणसा वि णिच्चं<sup>३</sup> ॥ ३४ ॥

मंगलस्स कारणं गयं ।

संपहि णिमित्तमुच्चदे । कस्स णिमित्तं ? सुत्तावदारस्स । तं कथं जाणिज्जदि-

प्रसादसे हमें इस बोधकी प्राप्ति हुई है । इसलिये उपकारकी अपेक्षा भी आदिमें अरिहंतोंको नमस्कार किया जाता है ।

यदि कोई कहे कि इसप्रकार आदिमें अरिहंतोंको नमस्कार करना तो पक्षपात है ? इस पर आचार्य उत्तर देते हैं कि ऐसा पक्षपात दोषोत्पादक नहीं है । किंतु शुभ पक्षमें रहनेसे वह कल्याणका ही कारण है । तथा द्वैतको गौण करके अद्वैतकी प्रधानतासे किये गये नमस्कारमें द्वैतमूलक पक्षपात बन भी तो नहीं सकता है ।

विशेषार्थ—पक्षपात वहीं संभव है जहां दो वस्तुओंमेंसे किसी एककी ओर अधिक आकर्षण होता है । परंतु यहां परमेश्वरियोंको नमस्कार करनेमें दृष्टि प्रधानतया गुणोंकी ओर रहती है, वस्तुभेदकी प्रधानता नहीं है । इसलिये यहां पक्षपात किसीप्रकार भी संभव नहीं है ।

आप्तकी श्रद्धासे ही आप्त, आगम और पदार्थोंके विषयमें दृढ श्रद्धा उत्पन्न होती है, इस बातके प्रसिद्ध करनेके लिये भी आदिमें अरिहंतोंको नमस्कार किया गया है । कहा भी है—

जिसके समीप धर्म-ज्ञान प्राप्त करे उसके समीप विनय युक्त होकर प्रवृत्ति करनी चाहिये । तथा उसका, शिर-पंचक अर्थात् मस्तक, दोनों हाथ और दोनों जंघाएं इन पंचांगोंसे तथा काय, वचन और मनसे निरन्तर सत्कार करना चाहिये ।

इसतरह मंगलके कारणका वर्णन समाप्त हुआ । अब निमित्तका कथन करते हैं—

शंका — यहां पर किसके निमित्तका कथन किया जाता है ?

समाधान—यहां पर सूत्रावतार अर्थात् ग्रन्थके प्रारम्भ होनेके निमित्तका वर्णन किया जाता है ।

१ अरहंतुवएसेणं सिद्धा नञ्जति तेण अरहाई । न वि कोइ य परिसाए पणमित्ता पणमई रञ्जो ॥

आ. नि. १०१५.

२ आदर्शप्रतिपु ' शुणिभूतताद्वैते ' इति पाठः ।

३ आदर्शप्रतिपु ' शब्दाधिक्य ' इति पाठः ।

४ प्रतिपु ' पंचमेण ' इति पाठः । दो जाणू दोणिण करा पंचमंगं होइ उत्तमंगं तु । सम्मं संपणिवाओ षोओ पंचंगपणिवाओ ॥ पञ्चा. वि. ३, १५.

५ जस्संतिए धम्मपयाइ लिक्खे तस्संतिए वेणइयं पउजे । सकारणं सिरसा पंजलीओ कायगिरा भो-

सुत्तावदारस्स ण अण्णस्सेति ? पयरणादो । ' भोयण-वेलाए सेंधवमाणि ' ति वयणादो लोण इव । वद्ध-बंध-बंधकारण-मुक्क-मोक्ख-मोक्खकारणाणि णिक्खेव-णय-प्पमाणाणि-योग-द्वारेहि अहिगम्म भविय-जणो जाणदु ति सुत्तमोइण्णं अत्थदो तित्थयरादो, गंधदो गणहर-देवादो ति ।

द्रव्यभावाभ्यामकृत्रिमत्वतः सदा स्थितस्य श्रुतस्य कथमवतार इति चेदेतत्सर्व-मभविष्यद्यदि द्रव्यार्थिकनयोऽविवक्षिष्यत् । पर्यायार्थिकनयापेक्षायामवतारस्तु पुन-र्घटत एव ।

छद्मव-णव-पयत्थे सुय-णाणाइच्च-दिप्प-तेएण ।

पस्संतु भव्व-जीवा इय सुय-रविणो हवे उदयो<sup>१</sup> ॥ ३५ ॥

साम्प्रतं हेतुरुच्यते ! तत्र हेतुद्विविधः प्रत्यक्षहेतुः परोक्षहेतुरिति । कस्य हेतुः ?

शंका—यह कैसे जाना जाता है कि यहां पर सूत्रावतारके निमित्तका कथन किया जाता है, अन्यका नहीं ।

समाधान—यह बात प्रकरणसे जानी जाती है । जैसे-भोजन करते समय ' सैंधव लाओ ' इसप्रकारके वचनसे सेंधे नमकका ही ज्ञान होता है, उसीप्रकार यहां पर भी समझ लेना चाहिये कि यहां पर ग्रन्थावतारके निमित्तका ही कथन किया जा रहा है ।

वद्ध, बन्ध, बन्धके कारण, मुक्क, मोक्ख और मोक्खके कारण, इन छह तत्वोंको निक्षेप, नय, प्रमाण और अनुयोगद्वारोंसे भलीभांति समझकर भव्यजन उनके ज्ञाता बनें, इसलिये यह सूत्र-ग्रन्थ अर्थ-प्ररूपणाकी अपेक्षा तीर्थकरसे और ग्रन्थरचनाकी अपेक्षा गणधरदेवसे अवतीर्ण हुआ है ।

शंका—द्रव्य और भावसे अकृत्रिम होनेके कारण सर्वदा एकरूपसे अवस्थित श्रुतका अवतार कैसे हो सकता है ?

समाधान—यह शंका तो तब बनती जब यहां पर द्रव्यार्थिक नयकी विवक्षा होती । परंतु यहां पर पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षा होनेसे श्रुतका अवतार तो बन ही जाता है ।

भव्य-जीव श्रुतज्ञानरूपी सूर्यके दीप्त तेजसे छह द्रव्य और नव पदार्थोंको देखें अर्थात् भलीभांति जानें, इसीलिये श्रुतज्ञानरूपी सूर्यका उदय हुआ है ॥ ३५ ॥

अव हेतुका कथन किया जाता है,

हेतु दो प्रकारका होता है, एक-प्रत्यक्ष हेतु और दूसरा परोक्ष हेतु ।

शंका -- यहां पर किसके हेतुका कथन किया जाता है ?

मनसा अ निच्च । द. वै. ९, १३.

१ प्रतिपु ' यण्णस्स ' इति पाठः ।

२ छद्मवणवपयत्थे सुदणाणदुसणिकिरणसत्तीए । देवखंतु भव्वजीवा अण्णाणतमेण सच्छण्णा ॥

ति. प. १, ३४.

सिद्धान्ताध्ययनस्य । तत्र प्रत्यक्षहेतुद्विविधः साक्षात्प्रत्यक्षपरम्पराप्रत्यक्षभेदात् । तत्र साक्षात्प्रत्यक्षमज्ञानविनाशः सज्ज्ञानोत्पत्तिर्देवमनुष्यादिभिः सततमभ्यर्चनं प्रतिसमय-मसंख्यातगुणश्रेण्या कर्मनिर्जरा च । कर्मणामसंख्यातगुणश्रेणिनिर्जरा केषां प्रत्यक्षेति चेन्न, अवधिमनःपर्ययज्ञानिनां सूत्रमधीयानानां तत्प्रत्यक्षतायाः समुपलम्भात् । तत्र परम्पराप्रत्यक्षं शिष्यप्रशिष्यादिभिः सततमभ्यर्चनम् । परोक्षं द्विविधम्, अभ्युदयनैःश्रेय-समिति । तत्राभ्युदयसुखं नाम सातादि-प्रशस्त-कर्म-तीव्रानुभागोदय-जनितेन्द्र-प्रतीन्द्र-सामानिक-त्रायस्त्रिंशदादि-देव-चक्रवर्ति-बलदेव-नारायणार्धमण्डलीक-मण्डलीक-महामण्ड-लीक-राजाधिराज-महाराजाधिराज-परमेश्वरादि-दिव्य-मानुष्य-सुखम् ।

समाधान—यहां पर सिद्धान्तके अध्ययनके हेतुका कथन किया जाता है ।

उन दोनों प्रकारके हेतुओंमेंसे प्रत्यक्ष हेतु दो प्रकारका है, साक्षात्प्रत्यक्ष हेतु और परंपरा-प्रत्यक्ष हेतु । उनमेंसे अज्ञानका विनाश सम्यग्ज्ञानकी उत्पत्ति, देव, मनुष्यादिके द्वारा निरन्तर पूजाका होना और प्रत्येक समयमें असंख्यात-गुणित-श्रेणीरूपसे कर्मोंकी निर्जराका होना साक्षात्प्रत्यक्ष हेतु ( फल ) समझना चाहिये ।

शंका—कर्मोंकी असंख्यात-गुणित-श्रेणीरूपसे निर्जरा होती है, यह किनके प्रत्यक्ष है ?

समाधान—ऐसी शंका ठीक नहीं है ? क्योंकि, सूत्रका अध्ययन करनेवालोंकी असंख्यात-गुणित-श्रेणीरूपसे प्रतिसमय कर्म-निर्जरा होती है, यह बात अवधि-ज्ञानी और मनःपर्यय-ज्ञानियोंको प्रत्यक्षरूपसे उपलब्ध होती है ।

शिष्य, प्रतिशिष्यादिके द्वारा निरन्तर पूजा जाना परंपरा-प्रत्यक्ष हेतु है । परोक्षहेतु भी दो प्रकारका है, एक अभ्युदयसुख और दूसरा नैश्रेयससुख । इनमेंसे साता-वेदनीय आदि प्रशस्त-कर्म-प्रकृतियोंके तीव्र अनुभागके उदयसे उत्पन्न हुआ इन्द्र, प्रतीन्द्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश आदि देवसंबन्धी-दिव्य-सुख और चक्रवर्ती, बलदेव, नारायण, अर्धमण्डलीक, महामण्डलीक, राजाधिराज, महाराजाधिराज, परमेश्वर आदि मनुष्य-सम्बन्धी मानुष्य-सुखको अभ्युदयसुख कहते हैं ।

१ सक्खापच्चखपरंपच्चक्खा दोण्णि होदि पच्चक्खा । अण्णाणस्स विणासं णाणदिवायरस्स उप्पत्ती ॥ देवमशुस्तादीहि य सततमम्मच्चणप्पयाराणी । पडिसमयमसंखेज्जयगुणसेट्टिकम्मणिज्जरणं ॥ ति. प. १, ३६-३७.

२ इय सक्खापच्चखं पच्चखपरं परं च णादव्वं । सिस्सपडिसिस्सपहुदीहिं सददमम्मच्चणपयारं ॥ दोमेदं च परोक्खं अभ्युदयसोवखा मोक्खसोवखाइं । सादादिविविहसुपसत्थकम्मतिन्वाणुसागउदएहिं ॥ इंदपडिंददिग्गिदिय-तेत्तीसामरसमाणपहुदिसुहं । राजाहिराजमहाराजद्धमंडलिमंडलयाणं ॥ महमंडलियाणं अद्धचकिचक्रहरितित्थयरसोक्खं । अट्टारसमेत्ताण सामीसेणेण मत्तिजुत्ताणं ॥ ति. प. १, ३८-४१.

अष्टोदशसंख्यानां श्रेणीनामधिपतिर्विनम्राणाम् ।

राजा स्यान्मुकुटधरः कल्पतरुः सेवमानानाम् ॥ ३६ ॥

एत्थुवउज्जंतीओ गाहाओ—

हय-हथि-रहाणहिवा सेणावइ-मंति-सेट्टि-दंडवई ।

सुद्ध-खत्तिय-ब्रम्हण-वइसा तह महयरा चव ॥ ३७ ॥

गणरायमच्च-तलवर-पुरोहिया दप्पिया महामत्ता ।

अट्टारह सेणीओ पयाइणा मेळिया होंति ॥ ३८ ॥

पृतनाङ्ग-दण्डनायक-वर्ण-वणिग्भुग्-गणोड्-महामात्राश्च ।

मन्त्रि-पुरोहित-सेनान्यमात्य-तलवर-महत्तराः स्युः श्रेण्यः ॥ ३९ ॥

पञ्चशतनरपतीनामधिराजोऽधीश्वरो भवति लोके ।

राजसहस्राधिपतिः प्रतीयतेऽसौ महाराजः ॥ ४० ॥

द्विसहस्रराजनाथो मनीषिभिर्वर्ण्यतेऽर्धमण्डलिकः ।

मण्डलिकश्च तथा स्याच्चतुःसहस्रावनीशपतिः ॥ ४१ ॥

जो नम्रीभूत अठारह श्रेणियोंका अधिपति हो, मुकुटको धारण करनेवाला हो और सेवा करनेवालोंके लिये कल्पवृक्षके समान हो उसे राजा कहते हैं ॥ ३६ ॥

यहां प्रकरणमें उपयोगी गाथाएं उद्धृत की जाती हैं ।

घोड़ा, हाथी, रथ इनके अधिपति, सेनापति, मन्त्री, श्रेणी, दण्डपति, शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, महत्तर, गणराज, अमात्य, तलवर, पुरोहित, स्वाभिमानी महामात्य और पैदल सेना इसतरह सब मिलाकर अठारह श्रेणियां होती हैं ॥ ३७, ३८ ॥

अथवा हाथी, घोड़ा, रथ और पयादे ये चार सेनाके अंग, दण्डनायक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चार वर्ण, वणिकपति, गणराज, महामात्र, मन्त्री, पुरोहित, सेनापति, अमात्य, तलवर और महत्तर ये अठारह श्रेणियां होती हैं ॥ ३९ ॥

लोकमें पांचसौ राजाओंके अधिपतिको अधिराज कहते हैं, और एक हजार राजाओंके अधिपतिको महाराज कहते हैं ॥ ४० ॥

पण्डितजन दो हजार राजाओंके स्वामीको अर्धमण्डलीक कहते हैं और चार हजार राजाओंके स्वामीको मण्डलीक कहते हैं ॥ ४१ ॥

१ वररयणमउडधारी सेवयमाणा णवंति दह अट्टं । देता हवेदि राजा जितसत्तु समरसंघट्टे ॥ करितुरय-रहाहिवई सेणावइ य मंति-सेट्टि-दंडवई । सुद्धखत्तियवइसा हवंति तह महयरा पवरा ॥ गणरायमंति-तलवर-पुरोहिया मंतया महामंता । बहुविहपइण्णया य अट्टारसा होंति सेणीओ ॥ ति. प. १, ४२-४४.

अष्टसहस्रमहोपतिनायकमाहुर्वुधाः महामण्डलिकम् ।  
 पौडशराजसहस्रैर्विनम्यमानस्त्रिखण्डधरणीशः<sup>१</sup> ॥ ४२ ॥  
 पट्खण्डभरतनाथं द्वात्रिंशद्धरणपतिसहस्राणाम् ।  
 दिव्यमनुष्यं विदुरिह भोगागारं सुचक्रधरम् ॥ ४३ ॥  
 सकलभुवनैकनाथस्तीर्थकरो वर्ण्यते मुनिवरिष्ठैः ।  
 विधुधवलचामराणां तस्य स्याद्वै चतुःपट्टिः ॥ ४४ ॥  
 तित्थयर-गणहरत्तं तहेव देविन्द-चक्रवृत्तं ।  
 अण्णरिहमेवमाई अब्भुदय-फलं वियाणाहिं<sup>२</sup> ॥ ४५ ॥

तत्र नैःश्रेयसं नाम सिद्धानामर्हतां चातीन्द्रियसुखम् । उक्तं च—  
 अदिसयमाद-समुत्थं विसयादीदं अणोवममणंतं ।  
 अब्भुच्छिण्णं च सुहं सुद्भुवजोगो य सिद्धानं<sup>३</sup> ॥ ४६ ॥

बुधजन आठ हजार राजाओंके स्वामीको महामण्डलीक कहते हैं। और जिसे सोलह हजार राजा नमस्कार करते हैं उसे तीन खण्ड पृथिवीका अधिपति अर्थात् नारायण कहते हैं ॥ ४२ ॥

इस लोकमें बत्तीस हजार राजाओंसे सेवित, नव निधि आदिसे प्राप्त होनेवाले भोगोंके भण्डार, उत्तम चक्र-रत्नको धारण करनेवाले और भरतक्षेत्रके छह खण्डके अधिपतिको दिव्य अर्थात् अनेक गुणोंसे युक्त मनुष्य अर्थात् चक्रवर्ती समझना चाहिये ॥ ४३ ॥

जिनके ऊपर चन्द्रमाके समान धवल चौसठ चंवर दुरते हैं ऐसे सकल भुवन के अद्वितीय स्वामीको श्रेष्ठ मुनि तीर्थकर कहते हैं ॥ ४४ ॥

इस लोकमें तीर्थकरण, गणधरपना, देवेन्द्रपना, चक्रवर्तिपना और इसीप्रकारके अन्य अर्ह अर्थात् पूज्य पदोंको अभ्युदयका फल समझना चाहिये ॥ ४५ ॥

अरिहंत और सिद्धोंके अतीन्द्रिय सुखको नैश्रेयस सुख कहते हैं। कहा भी है—

अतिशयरूप, आत्मासे उत्पन्न हुआ, विषयोंसे रहित, अनुपम, अनन्त और विच्छेद-

१ पंचसयरायसामी अहिराजो होदि कित्तिभरिददिसो । रायाण जो संहस्सं पालइ सो होदि महाराजो ॥ दुसहस्समउडवद्धभुववसहो तच्च अद्धमंडलियो । चउराजसहस्साणं अहिणाहो होइ मंडलियं ॥ महमंडलियो णामो अट्टसहस्साण अहिवई ताणं । रायाणं अद्धचकी सामी सोलससहस्समेत्ताणं ॥ ति. प. १, ४५-४७.

२ छक्खंडभरहणाहो वत्तीससहस्समउडवद्धपहुदाथो । होदि हु सयलचकी तित्थयरो सयलभुवणवई ॥ ति. प. १, ४५. वलवासुदेवादीनां पराक्रमवर्णनाय किञ्चिदुच्यते, सोलसरायसहस्सा सच्चवलेणं तु संकलनिवद्धं । अच्छंति वासुदेवं अगडतडम्मी ठियं संतं ॥ घेत्तणं संकलं सो वामगहत्थेण अंछमाणाणं । भुंजिज्ज विलिपिज्ज व महुमहणं ते न चापंति ॥ दो सोला वत्तीसा सच्चवलेणं तु संकलनिवद्धं । अच्छंति चक्रवर्दिं अगडतडम्मी ठियं संतं ॥ जं क्केसवस्स उ वलं तं दुगुणं होइ चक्रवट्टिस्स । ततो वला वलवणा अपरिमियवला जिणवरिदा ॥ आ. नि. ७१-७५.

३ प्रवच. १, १३. 'सुद्भुवजोगप्पसिद्धानं' इति पाठमेदः ।

भाविय-सिद्धंताणं दिणयर-कर-णिग्मलं हवइ णाणं ।  
 सिसिर-यर-कर-सरिच्छं हवइ चरित्तं स-वस-चित्तं ॥ ४७ ॥  
 मेरु व्व णिण्णकंपं णट्ट-मलं ति-गूढ-उग्मुक्कं ।  
 राग्मइंसणमणुवममुण्णज्जइ पवयणग्गासा' ॥ ४८ ॥  
 ततो चैव सुहाइं सयलाइं देव-मणुय-खयराणं ।  
 उम्मूलियट्ट-कगं फुड सिद्ध-सुहं पि पवयणादो' ॥ ४९ ॥  
 जिय-मोहिंधण-जलणो अण्णाण-तमंधयार-दिणयरओ ।  
 कग्म-गल-कल्लस-पुसओ जिण-वयणमिवोवहिं सुहयो ॥ ५० ॥  
 अण्णाण-तिमिर-हरणं सुभविय-हिययारविंद-जोहणयं ।  
 उज्जोइय-सयल-वहं सिद्धंत-दिवायरं भजह ॥ ५१ ॥

रहित मुख तथा शुद्धोपयोग सिद्धोंके होता है ॥ ४६ ॥

जिन्होंने सिद्धान्तका उत्तम प्रकारसे अभ्यास किया है ऐसे पुरुषोंका ज्ञान सूर्यकी किरणोंके समान निर्मल होता है और जिसमें अपने चित्तको स्वाधीन कर लिया है ऐसा चन्द्रमाकी किरणोंके समान चारित्र होता है ॥ ४७ ॥

प्रवचन अर्थात् परमागमके अभ्याससे मेरुके समान निष्कम्प, आठ मल-रहित, तीन मूढ़ताओंसे रहित और अनुपम सम्प्रदर्शन भी होता है ॥ ४८ ॥

उस प्रवचनके अभ्याससे ही देव, मनुष्य और विद्याधरोंके सर्व सुख प्राप्त होते हैं, तथा आठ कर्मोंके उन्मूलित हो जानेके बाद प्राप्त होनेवाला विशद सिद्ध सुख भी प्रवचनके अभ्याससे ही प्राप्त होता है ॥ ४९ ॥

वह जिनागम जीवके मोहरूपी ईंधनके शस्त्र करनेके लिये अशिके समान है, अज्ञान-रूपी गाढ़ अन्धकारको नष्ट करनेके लिये सूर्यके समान है, कर्ममल अर्थात् द्रव्यकर्म, और कर्मकलुष अर्थात् भावकर्मको मार्जन करनेवाला समुद्रके समान है और परम सुभग है ॥ ५० ॥

अज्ञानरूपी अन्धकारको हरण करनेवाले, भव्यजीवोंके हृदयरूपी कमलको विकसित करनेवाले और संपूर्ण जीवोंके लिये पथ अर्थात् मोक्षमार्गको प्रकाशित करनेवाले ऐसे सिद्धान्तरूपी दिवाकरको भजो ॥ ५१ ॥

१ शीवक्षे तित्थयराणं कप्पातीदाण तह य इंदियादीदे । अदिसयमादसमुत्थं णिसंसयसमणुवसं पवरं ॥  
 सुवणाणभावणाण णाणं मत्तंड-किंण-उज्जोओ । आदं चंदुज्जलं चरित्तं चित्तं हवेदि भव्वाणं ॥ कणयधराधरधीरं  
 मूदत्तयविरहिं हयग्गमलं । जायदि पवयणपट्ठणे सम्मइंसणमणुवमं णं ॥ ति. प. १, ४९-५१.

२ मुरखेयरमणुवार्णं लब्धंति मुहाइ आरिसंभासा । ततो णिव्वाणसुहं णिण्णासिदधातुणद्धमलं । ति. प. १, ५२.

३ प्रतिपु ' निणवयणमिवोवहिं ' इति पाठः

अथवा जिनपालितो निमित्तम्, हेतुर्मोक्षः, शिक्षकाणां हर्षोत्पादनं निमित्तहेतुकथने प्रयोजनम् । परिमाणमुच्चदे । अक्षर-पय-संघाय-पडिवत्ति-अणियोगदारेहि संखेज्जं, अत्थदो अणंतं । पदं पडुच्च अट्टारह-पद-सहस्सं । शिक्षकाणां हर्षोत्पादनार्थं मतिव्याकुलता-विनाशनार्थं च परिमाणमुच्यते । णामं जीवद्वाणमिदि । कारणं पुव्वं च वत्तव्वं ।

तत्थ कत्ता दुविहो, अत्थ-कत्ता गंथ-कत्ता चेदि । तत्थ अत्थ-कत्ता दव्वादीहि चउहि परूविज्जदि । तत्र तस्य तावद् द्रव्यनिरूपणं क्रियते । स्वेद-रजो-मल-रक्तनयन-कटाक्षशरमोक्षादि-शरीरगताशेषदोपादृषित-समचतुरस्रसंस्थान-वज्रवृषभसंहनन-दिव्यगन्ध-प्रमाणस्थितनखरोम-निभूषणायुधाम्बरभय-सौम्यवदनादि-विशिष्टदेहधरः चतुर्विधोपसर्ग-

अथवा, जिनपालित ही इस श्रुतावतारके निमित्त है और उसका हेतु मोक्ष है, अर्थात् मोक्षके हेतु जिनपालितके निमित्तसे इस श्रुतका अवतार हुआ है । यहां पर निमित्त और हेतुके कथन करनेसे पाठकजनोंको हर्षका उत्पन्न कराना ही प्रयोजन है ।

अब परिमाणका व्याख्यान करते हैं, अक्षर, पद, संघात, प्रतिपत्ति, और अनुयोग द्वारोंकी अपेक्षा श्रुतका परिमाण संख्यात है और अर्थ अर्थात् तद्वाच्य विषयकी अपेक्षा अनन्त है । पदकी अपेक्षा अटारह हजार प्रमाण है । शिक्षकजनोंको हर्ष उत्पन्न करानेके लिये और मतिसंबन्धी व्याकुलता दूर करनेके लिये यहां पर परिमाण कहा गया है ।

नाम, इस शास्त्रका नाम जीवस्थान है ।

कारण, कारणका व्याख्यान पहले कर आये हैं । उसीप्रकार यहां पर भी उसका व्याख्यान करना चाहिये ।

कर्ताके दो भेद हैं, अर्थकर्ता और ग्रन्थकर्ता । इनमेंसे अर्थकर्ताका द्रव्यादिक चार द्वारोंके द्वारा निरूपण किया जाता है । उनमेंसे पहले द्रव्यकी अपेक्षा अर्थकर्ताका निरूपण करते हैं—

पसीना, रज अर्थात् बाह्य कारणोंसे शरीरमें उत्पन्न हुआ मल, मल अर्थात् शरीरसे उत्पन्न हुआ मल, रक्त-नेत्र और कटाक्षरूप बाणोंका छोड़ना आदि शरीरमें होनेवाले संपूर्ण दोषोंसे रहित, समचतुरस्र संस्थान, वज्रवृषभनाराच संहनन, दिव्य-गुगन्धमयी, सदैव योग्य प्रमाणरूप नख और रोमवाले, आभूषण आयुध, वस्त्र और भयरहित सौम्य-मुख आदिसे

१ विविहत्थेहि अणंतं संखेज्जं अक्खराणगणणाए । एदं परिमाणमुच्चिदं सिस्साणे मइविकासयरं ॥

ति. प. १, ५३.

२ कत्तारो दुविग्य्पो णादव्वो अत्थगंथभेदेहि । दव्वादिचउप्पयारेहि भासिमो अत्थकत्तारो ॥ सेदरजाइमलेणे रत्तच्छिकडुक्खवाणमोक्खेहि । इयपहुदिदेहदोसेहि संततमदूसिदसरीरो ॥ आदिमसंहणणजुदो समचउरस्संगचारुसंठाणो । दिव्वरगंधधारी पमाणट्टिदरोमणखरुवो ॥ णिभूषणायुधंवरमीदी सोम्माणणादिदिव्वतणू । अट्टव्वमहियसहस्सपमाणवर-लक्खणोपेदो ॥ चउविहउवसग्गोहि णिच्च विमुक्को कसायपरिहीणो । उहपहुदिपरिसहेहि परिचत्तो रायदोसेहि ॥

ति. प. १, ५५-५६.

क्षुधादिपरीपह-रागद्वेपकपायेन्द्रियादिसकलदोषगोचरातिक्रान्तः योजनान्तरदूरसमीपस्थाष्टा-  
दशभाषा-सप्तहतशतकुभाषायुत-तिर्यग्देवमनुष्यभाषाकारन्यूनाधिक-भावातीतमधुरमनोहर-  
गम्भीरविशदवागतिशयसम्पन्नः भवनवासिवाणव्यन्तर-ज्योतिष्क-कल्पवासीन्द्र-विद्याधर-  
चक्रवर्ति-वल-नारायण-राजाधिराज-महाराजार्धमहामण्डलीकेन्द्राग्नि-वायु-भूति-सिंह-व्याला-  
दि-देव-विद्याधर-मनुष्यर्षि-तिर्यगिन्द्रेभ्यः प्राप्तपूजातिशयो महावीरोऽर्थकर्त्ता ।

तत्थ खेत्त-विसिद्धोत्थ-कत्ता परूविज्जदि—

पंच-सेढ-पुरे रम्मे विउले पव्वदुत्तमे ।

णाणा-दुम-समाइण्णे देव-दानव-वंदिदे<sup>३</sup> ॥ ५२ ॥

महावीरेणत्थो कहिओ भविय-ल्लोयस्स ।

अत्रोपयोगिनौ श्लोकौ—

युक्त ऐसे विशिष्ट शरीरको धारण करनेवाले, देव, मनुष्य, तिर्यच और अचेतनकृत चार प्रकारके उपसर्ग, क्षुधा आदि चारोंस परीपह, राग, द्वेष, कषाय और इन्द्रिय-विषय आदि संपूर्ण दोषोंसे रहित, एक योजनके भीतर दूर अथवा समीप बैठे हुए अठारह महाभाषा और सातसौ लघुभाषाओंसे युक्त ऐसे तिर्यच, देव और मनुष्योंकी भाषाके रूपमें परिणत होनेवाली तथा न्यूनता और अधिकतासे रहित, मधुर, मनोहर, गम्भीर और विशद ऐसी भाषाके अतिशयको प्राप्त, भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क, कल्पवासी देवोंके इन्द्रोंसे, विद्याधर, चक्रवर्ती, बलदेव, नारायण, राजाधिराज, महाराज, अर्धमण्डलीक, महामण्डलीक, राजाओंसे, इन्द्र, अग्नि, वायु, भूति, सिंह, व्याल आदि देव तथा विद्याधर, मनुष्य, ऋषि और तिर्यचोंके इन्द्रोंसे पूजाके अतिशयको प्राप्त श्री महावीर तीर्थकर अर्थकर्त्ता समझना चाहिये ।

अत्र क्षेत्र-विशिष्ट अर्थकर्त्ताका निरूपण करते हैं—

पंचशैलपुरमें ( पंचपहाड़ी अर्थात् पांच पर्वतोंसे शोभायमान राजगृह नगरके पास ) रमणीक, नानाप्रकारके वृक्षोंसे व्याप्त, देव तथा दानवोंसे वन्दित और सर्व पर्वतोंमें उत्तम ऐसे विपुलाचल नामके पर्वतके ऊपर भगवान् महावीरने भव्य-जीवोंको उपदेश दिया अर्थात् दिव्य-ध्वानिके द्वारा भावश्रुत प्रगट किया ॥ ५२ ॥

इसविषयमें दो उपयोगी श्लोक हैं—

१ ज्ञोयणपमाणंसंठितिरियामरमणुवेनिवहपट्टिवोहो । भिदमधुरगम्भीरतरा विसवविसयसयलभासाहि ॥  
अंडरसमहाभाषा खुल्लयभासा वि सत्तसयसंखा । अक्खरअणक्खरप्पयसण्णीजीवाण सयलभासाओ ॥ एदासिं भासाणं  
ताल्लुवदंतोइकंठवावारं । परिहरिय एककालं भव्वजणाणंदकरभासो ॥ भावणवेंतरजोइसियकप्पवासेहिं केसववलेहिं ।  
विज्जाहरीहिं चक्किप्पमुहेहिं णरेहिं तिरिएहिं ॥ एवेहिं अण्णाहिं विरच्चिदचरणारविंदजुगपूजो । दिइसयलइसारी महवीरो  
अःशकत्तारो ॥ ति. प. १, ६०-६४.

२ जयध्वलायां गाथेयं ' सिद्धचारणसेधिदे ' इति चतुर्थचरणपाठभेदेनोपलभ्यते । सुरखेयदमणहरणे गुणगामे



ऋषिगिरिरैन्द्राशायां चतुरस्रो याम्यदिशि च वैभारः ।  
 विपुलगिरिर्नैऋत्यामुभौ त्रिकोणौ स्थितौ तत्र ॥ ५३ ॥  
 धनुराकारश्छिन्नो वारुणवायव्यसौम्यदिक्षु ततः ।  
 वृत्ताकृतिरैशान्यां पाण्डुः सर्वे कुशाप्रवृत्ताः ॥ ५४ ॥

एसो खेत्त-परिच्छेदो ।

तत्थ कालदो अत्थ-कत्ता परूविज्जदि —

इम्मिस्से वसप्पिणीए चउत्थ-समयस्स पच्छिमे भाए ।  
 चोत्तीस-वास-सेसे किञ्चि विसेसूणए संते ॥ ५५ ॥

पूर्व दिशामें चौकोर आकारवाला ऋषिगिरि नामका पर्वत है । दक्षिण दिशामें वैभार और नैऋत दिशामें विपुलाचल नामके पर्वत हैं । ये दोनों पर्वत त्रिकोण आकारवाले हैं ॥ ५३ ॥

पश्चिम, वायव्य और सौम्य दिशामें धनुषके आकारवाला फैला हुआ छिन्न नामका पर्वत है । पेशान दिशामें पाण्डु नामका पर्वत है । ये सब पर्वत कुशके अग्रभागोंसे ढके हुए हैं ॥ ५४ ॥

यह क्षेत्र-परिच्छेद समझना चाहिये ।

अब कालकी अपेक्षा अर्थकर्ताका निरूपण करते हैं—

इस अवसर्पिणी कल्पकालके दुःपमा-सुपमा नामके चौथे कालके पिछले भागमें कुछ कम चौतीस वर्ष बाकी रहने पर, वर्षके प्रथममास अर्थात् श्रावण मासमें, प्रथमपक्ष अर्थात्

पंचसेलणयरम्मि । विउलम्मि पच्चदवरे वीरजिणो अट्टकत्तारो ॥ ति. प. १, ६५. ईरेइ विसेसेण वखवेइ कम्माई गमयइ सिवं वा । गच्छइ य तेण वीरो स महं वीरो महावीरो ॥ वि. मा. १०६५.

१ जयधवलायां ' भूगिरि ' इति पाठः ।

२ चउरस्सो पुव्वाए रिसिसेलो दाहिणाए वेभारो । णइरिदिदिसाए विउलो दांणिण तिकोणट्टिदायारा ॥

ति. प. १, ६६.

३ प्रतिषु ' छिन्नोष्ठा ' इति पाठः ।

४ धनुराकारश्चन्द्रो वारुणवायव्यसामक्षिषु ततः । वृत्ताकृतिरैशान्ये पाण्डुः सर्वे कुशाप्रवृत्ताः । जयध.

अ. पृ. ९. चावसरिच्छो छिण्णो वरुणाणिलसोमदिसविभागेषु । ईसाणाए पंडुव वट्टो सव्वे कुसग्गपरियरणा ॥ ति. प. १, ६७. ऋषिपूर्वो गिरिस्तत्र चतुरस्रः सनिर्हरः । दिग्गजेन्द्र इवेन्द्रस्य ककुभं भूषयत्यलम् ॥ वैभारो दक्षिणामाशां त्रिकोणाकृतिराश्रितः । दक्षिणापरविष्मभ्यं विपुलश्च तदाकृतिः ॥ सव्यचापाकृतिस्तिस्रो दिशो व्याप्य बलाहकः । शोभते पाण्डुको वृत्तः पूर्वोत्तरदिगन्तरे ॥ ह. पु. ३, ५३-५५.

५ पुत्थावसप्पिणीए चउत्थकालस्स चरिमभागम्मि । तेत्तीसवासअडमासपण्णरसदिवससेसम्मि ॥

वासस पढम-मासे पढमे पक्खग्धि सावणे बहुले ।  
 पाडिवद-पुव्व-दिवसे तित्थुप्पत्ती दु अभिजिग्धि' ॥ ५६ ॥  
 सावण-बहुल-पाडिवदे रुद्ध-मुहुत्ते सुहोदए रविणो ।  
 अभिजिस्स पढम-जोए जत्थ जुगाँदी मुणेयव्वो' ॥ ५७ ॥

एसो कालपरिच्छेदो ।

भावतोऽर्थकर्ता निरूप्यते, ज्ञानावरणादि-निश्चय-व्यवहारापायातिशयजातानन्त-  
 ज्ञान-दर्शन-सुख-वीर्य-क्षायिक सम्यक्त्व-दान-लाभ-भोगोपभोग-निश्चय-व्यवहार-प्राप्त्यति-  
 शयभूत-नव-केवल-लब्धि-परिणतः । उक्तं च —

कृष्णपक्षमें, प्रतिपदाके दिन प्रातःकालके समय आकाशमें अभिजित् नक्षत्रके उदित रहने पर  
 तीर्थ अर्थात् धर्मतीर्थकी उत्पत्ति हुई ॥ ५५, ५६ ॥

श्रावणकृष्ण-प्रतिपदाके दिन रुद्रमूर्हर्तमें सूर्यका शुभ उदय होने पर और अभिजित्  
 नक्षत्रके प्रथम योगमें जब युगकी आदि हुई तभी तीर्थ की उत्पत्ति समझना चाहिये ॥ ५७ ॥  
 यह काल-परिच्छेद हुआ ।

अब भावकी अपेक्षा अर्थकर्ताका निरूपण करते हैं—

ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंके निश्चय-व्यवहाररूप विनाश-कारणोंकी विशेषतासे उत्पन्न हुए  
 अनन्त-ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य तथा क्षायिक-सम्यक्त्व, दान, लाभ, भोग और उपभोगकी  
 निश्चय-व्यवहाररूप प्राप्तिके अतिशयसे प्राप्त हुई नौ केवल-लब्धियोंसे परिणत भगवान् महावीरने  
 भावश्रुतका उपदेश दिया । अर्थात् निश्चय और व्यवहारसे अभेद-भेदरूप नौ लब्धियोंसे युक्त  
 होकर भगवान् महावीरने भावश्रुतका उपदेश दिया । कहा भी है—

१ वासस पढममासे सावणणामग्धि बहुलपाडिवाए । अभिजीणक्खत्तग्धि य उप्पत्ती धम्मतित्थस्स ॥

ति. प. १, ६८-६९.

२ जुगाइ ( युगादि ) युगारम्भे, युगारम्भकाले प्रथमतः प्रवृत्ते मास तिथिमुद्दृतादौ च । आदौ जुगस्स  
 संवच्छरो उ मासस्स अद्दमासो उ । दिवसा भरहेरवए राईया सह विदेहेसु ॥ युगस्य  $\times \times$  संवत्सरपंचकात्मकस्यादिः संवत्सरः ।  
 स च श्रावणतः आपादपौर्णमासीचरमसमयः । ततः प्रवर्तमानः श्रावण एव भवति । तस्यापि च मासस्य श्रावणस्यादि-  
 र्धमासः पक्षः पक्षद्वयमीलनेन मासस्य संभवान् । सोऽपि च पक्षो बहुलो वेदितव्यः पौर्णमास्यनन्तरं बहुलपक्षस्यैव  
 भावान् ।  $\times \times$  । दिवसाइ अहोरात्ता बहुलाईयाणि हांति पञ्चाणि । अभिई नक्खत्ताई रंद्दो आई मुहुत्ताणं ॥ सावण-  
 बहुलपाडिवाए बालवकरणे अमीइनक्खत्ते । सव्वत्थ पढमसमए जुगस्स आई वियाणाहि ॥ ज्योः क. २ पाहुड.  
 वक्ष्यन्ते ये च कालांशाः सुपमसुपमादयः । आरम्भं प्रतिपद्यन्ते सर्वे तेऽपि युगादितः ॥ लो. प्र. २५, ४७१.

३ सावणबहुले पाडिव रुद्धमुहुत्ते सुहोदए रविणो । अभिजिस्स पढम जोए जुगस्स आदी इमस्स पुढं ॥  
 ति. प. १, ७०. श्रावणस्यासिते पक्षे नक्षत्रेऽभिजिति प्रभुः । प्रतिपद्यद्भि पूर्वाह्णे शासनार्थमुदाहरत् ॥ ह. पु. २, ९१.

४ णाणावरणप्पहुदि अ. णिच्छयववहारपायअतिसयए । संजादेण अणंतं णाणेणं दंसणसुहेणं ॥ विरिएण तहा  
 खाइयसम्मत्तेणं पि दाणलोहेहिं । भोगोपभोगणिच्छयववहारेहिं च परिपुण्णो ॥ ति. प. ७१, ७२.

दाणे लाभे भोगे परिभोगे वीरिए य सम्मत्ते ।

णव केवल-लद्धीओ दंसण-णाणं चरित्ते य ॥ ५८ ॥

खीणे दंसण-मोहे चरित्त-मोहे चउक्क-घाइ-तिए ।

सम्मत्त-विरिय-णाणं खइयाइं होंति केवल्लिणो' ॥ ५९ ॥

उप्पण्णम्मिह अणंते णट्ठम्मि य छादुमत्थिए णाणे ।

णव-विह-पयत्थ-गच्चमा दिव्वज्जुणी कहेइ सुत्तहं' ॥ ६० ॥

एवंविधो महावीरोऽर्थकर्ता । तेण महावीरेण केवलणाणिणा कहिदत्थो तम्मि चेव काले तत्थेव खेत्ते खयोवसम-जणिद-चउरमल-वुद्धि-संपण्णेण वम्महणेण गोदम-गोत्तेण सयल-दुस्सुदि-पारएण जीवाजीव-विसय-संदेह-विणासणदुसुवगय-वडुमाण-पाद-मूलेण इंदभूदिणा-वहारिदो' । उत्तं च—

दान, लाभ, भोग, परिभोग, वीर्य, सम्यक्त्व, दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य ये नव केवल-लब्धियां समझना चाहिये ॥ ५८ ॥

दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीयके क्षय हो जाने पर तथा मोहनीय कर्मके क्षय हो जानेके बाद चार घातिया कर्मोंमेंसे शेष तीन घातिया कर्मोंके क्षय हो जाने पर केवली जिनके सम्यक्त्व, वीर्य और ज्ञान ये क्षायिक भाव प्रगट होते हैं ॥ ५९ ॥

क्षायोपशमिक ज्ञानके नष्ट हो जाने पर और अनन्तरूप केवलज्ञानके उत्पन्न हो जाने पर नौ प्रकारके पदार्थोंसे गर्भित दिव्यध्वनि सूत्रार्थका प्रतिपादन करती है । अर्थात् केवलज्ञान हो जाने पर भगवान्की दिव्यध्वनि खिरती है ॥ ६० ॥

इसप्रकार भगवान् महावीर अर्थ-कर्ता हैं । इसप्रकार केवलज्ञानसे विभूषित उन भगवान् महावीरके द्वारा कहे गये अर्थको, उसी कालमें और उसी क्षेत्रमें क्षयोपशमविशेषसे उत्पन्न हुए चार प्रकारके निर्मल ज्ञानसे युक्त, वर्णसे ब्राह्मण, गोतमगोत्री, संपूर्ण दुःश्रुतिमें पारंगत, और जीव-अजीवविषयक संदेहको दूर करनेके लिये श्री वर्द्धमानके पादमूलमें उपस्थित हुए ऐसे इन्द्रभूतिने अवधारण किया । कहा भी है—

१ खीणे दंसणमोहे चरित्तमोहे तहेव घाइतिए । सम्मत्तणाणविरिया खइया ते होंति केवल्लिणो ॥ जयध. अ. पृ. ८. दंसणमोहे णट्ठे घादित्तिदए चरित्तमोहम्मि । सम्मत्तणाणदंसणवीरियचरियाइ होंति खइयाइं ॥ ति. प. १, ७३,

२ जादे अणंतणाणे णट्ठे छदुमट्ठिदम्मि णाणम्मि । णवविहपदत्थसारा दिव्वज्जुणी कहेइ सुत्तत्थं ॥ अण्णेहिं अणंतंहिं गुणेहिं जुत्तो विसुद्धचारित्तो । भवभयभंजणदच्छो महवीरो अत्थकत्तारो ॥ ति. प १, ७४-७५.

३ महवीरभासियत्थो तस्सि खेत्तम्मि तत्थकाले य । खायोवसमविवड्ढिदचउरमलमईहिं पुण्णेणं ॥ लोयालोयाण तहा जीवाजीवाण विविहविसएसु । संदेहणासणत्थं उवगदसिरिवीरचलणमूलेण ॥ त्रिमले गोदमगोत्ते जादेणं इंदभूदि-णामेणं । चउवेदपारगेणं सिस्सेण विसुद्धसीलेण ॥ ति. प. १, ७६-७८.

४ मिथ्यादृष्टयवस्थायामिन्द्रभूतिः सकलवेदवेदाङ्गपारगः सन्नपि जीवास्तित्वविषये संदिग्ध एवासीत् । इन्द्र-

गोत्तेण गोदमो' विष्णो चाउव्वेय-सडंगवि ।

पामेण इंदभूदि त्ति सीलवं बम्हणुत्तमो ॥ ६१ ॥

पुणो तेणिंदभूदिणा भाव-सुद-पज्जय-परिणदेण वारहंगाणं चोदस-पुव्वाणं च गंधाणमेव्वेण चैव मुहुत्तेण कमेण रयणा कदा' । तदो भाव-सुदस्स अत्थ-पदाणं च तित्थ-यरो कत्ता । तित्थयरादो सुद-पज्जाएण गोदमो परिणदो त्ति दव्व-सुदस्स गोदमो कत्ता । तत्तो गंध-रयणा जादेत्ति । तेण गोदमेण दुविहमवि सुदणाणं लोहज्जस्स संचारिदं । तेण वि जंबूसामिस्स संचारिदं । परिवाडिमिस्सिदूण एदे तिणिण वि सयल-सुद-धारया भणिया । अपरिवाडीए पुण सयल-सुद-पारगा संखेज्ज-सहस्सा ।

गौतमगोत्री, विप्रवर्णी, चारों वेद और पडंगविद्याका पारगामी, शीलवान् और ब्राह्मणोंमें श्रेष्ठ ऐसा वर्द्धमानस्वामीका प्रथम गणधर इन्द्रभूति इस नामसे प्रसिद्ध हुआ ॥ ६१ ॥

अनन्तर भावश्रुतरूप पर्यायसे परिणत उस इन्द्रभूतिने बारह अंग और चौदह पूर्वरूप ग्रन्थोंकी एक ही मुहूर्तमें क्रमसे रचना की । अतः भावश्रुत और अर्थ-पदोंके कर्ता तीर्थकर हैं । तथा तीर्थकरके निमित्तसे गौतम गणधर श्रुतपर्यायसे परिणत हुए, इसलिये द्रव्यश्रुतके कर्ता गौतम गणधर हैं । इसतरह गौतम गणधरसे ग्रन्थरचना हुई । उन गौतम गणधरने दोनों प्रकारका श्रुतज्ञान लोहाचार्यको दिया । लोहाचार्यने जम्बूस्वामीको दिया । परिपाटी-क्रमसे ये तीनों ही सकलश्रुतके धारण करनेवाले कहे गये हैं । और यदि परिपाटी-क्रमकी अपेक्षा न की जाय तो उस समय संख्यात हजार सकल श्रुतके धारी हुए ।

प्रश्नानन्तरं समवसरणं समन्वैत्य प्रवृज्य च श्रीवर्द्धमानस्वामिनं पप्रच्छ किं जीवोऽस्ति नास्ति वा किंशुणः कियान् कीदृग्? तदा जीवोऽस्त्यनादिनिधनः शुभाशुभविभेदकर्मणां कर्ता । XX इत्याद्यनेकभेदैस्तथा स जीवादिवस्तु-सद्भावम् । दिव्यध्वनिना स्फुटमिन्द्रभूतये सन्मतिरत्रोचन् । इन्द्र. श्रुता. ४५-६४. देवैः क्रियमाणां समवसरणलक्षणां महिमां दृष्ट्वाऽमपितः सन्निन्द्रभूतिर्मणति-भो भो ब्राह्मणवराः ! मां मुक्त्वा किमप्य नागलोकस्तस्य कस्यचित्पादमूलं धावति ? ननु महत्कृतहूलं कथयतात्रनिबन्धनमिति महाप्रलयमेध इव गर्जित्वा समवसरणं प्रविष्टो वादार्थम् । परं च तत्र श्रीवीरं दृष्ट्वा हतप्रम इव सशङ्कितः सन् पुरतः स्थितः । तदा भगवता वीरेणामापितः 'किं मत्ने अस्थि जीवो उयाहु नस्थि त्ति संसजो तुज्ज । वेयपयाण य अत्थं ण याणसी तैसिमो अत्थो' ( आ. नि. १५० ) ततश्च निःसंशयः सन्नसौ प्रव्रजितः । वि. भा. २०१८-२०८३.

१ गौतमा गौः प्रकृष्टा स्यान् सा च सर्वज्ञभारती । तां वेत्सि तामधीष्टे च त्वमतो गौतमो मतः ॥ गौतमादागतो देवः स्वर्गाग्राद्वैतमो मतः । तेन प्रोक्तमधीयानस्त्वन्वासार्सागौतमश्रुतिः ॥ इन्द्रेण प्राप्तपूजद्धिन्द्रिन्द्रभूतिस्त्वमि-प्यसे । साक्षात्सर्वज्ञपुत्रस्त्वमाससंज्ञानकाण्डिकः ॥ आ. पु. २, ५२-५४.

२ भावसुदपज्जएहि परिणदमइणा य वारसंगाणं । चोदसपुव्वाण तहा एकमुहुत्तेण विरचना विहिदा ॥

ति. प. १, ७९.

गोदमदेवो लोहज्जाइरियो<sup>१</sup> जंबूसामी य एदे तिणिण वि सत्त-विह-लद्धि-  
संपण्णा सयल-सुय-सायर-गारया होऊण केवलणाणमुप्पाइय णिच्चुइं पत्तां ।  
तदो विण्हू णंदिमित्तो अवराइदो गोवद्धणो भद्वाहु ति एदे पुरिसोली-कमेण  
पंच<sup>३</sup> वि चोदस-पुव्व-हरा । तदो विसाहाइरियो पोद्धिलो खत्तियो जयाइरियो  
णागाइरियो सिद्धत्थदेवो धिदिसेणो विजयाइरियो बुद्धिलो गंगदेवो  
धम्मसेणो ति एदे<sup>२</sup> पुरिसोली-कमेण एकारस वि आइरिया एकारसण्हमंगाणं  
उप्पायपुव्वादि-दसण्हं पुव्वाणं च पारया जादा, सेसुवारिम-चदुण्हं पुव्वाणमेग-देस-धरा  
य । तदो णक्खत्ताइरियो जयपालो पांडुसामी ध्रुवसेणो<sup>५</sup> कंसाइरियो ति एदे पुरिसोली-  
कमेण पंच<sup>४</sup> वि आइरिया एकारसंग-धारया जादा, चोदसण्हं पुव्वाणमेग-देस-धारया ।  
तदो सुभदो जसभदो<sup>६</sup> जसवाहू<sup>७</sup> लोहज्जो ति एदे चत्तारि<sup>८</sup> वि आइरिया आयारंग-धरा

गौतमस्वामी, लोहाचार्य और जम्बूस्वामी ये तीनों ही सात प्रकारकी ऋद्धियोंसे युक्त और सकल-श्रुतरूपी सागरके पारगामी होकर अन्तमें केवलज्ञानको उत्पन्न कर निर्वाणको प्राप्त हुए । इसके बाद विण्णु, नन्दिमित्र, अपराजित, गोवर्धन, और भद्रवाहु ये पांचों ही आचार्य परिपाटी-क्रमसे चौदह पूर्वके धारी हुए ।

तदनन्तर विशाखाचार्य, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जयाचार्य, नागाचार्य, सिद्धार्थदेव, धृतिसेन, विजयाचार्य, बुद्धिल, गंगदेव और धर्मसेन ये ग्यारह ही महापुरुष परिपाटी-क्रमसे ग्यारह अंग और उत्पादपूर्व आदि दश पूर्वोंके धारक तथा शेष चार पूर्वोंके एकदेशके धारक हुए ।

इसके बाद नक्षत्राचार्य, जयपाल, पाण्डुस्वामी, ध्रुवसेन, कंसाचार्य ये पांचों ही आचार्य परिपाटी-क्रमसे संपूर्ण ग्यारह अंगोंके और चौदह पूर्वोंके एकदेशके धारक हुए । तदनन्तर सुभद्र, यशोभद्र, यशोबाहु और लोहार्य ये चारों ही आचार्य संपूर्ण आचारांगके धारक और

१ जयधवलायाभिन्द्रनन्दिश्रुतावतारे च लोहार्यस्य स्थाने सुधर्माचार्यस्योल्लेखोऽस्ति । तथा-तदो तेण गोअमंगोत्तेण इंदभूदिणा अंतोसुहुत्तेणावहारियदुवालसंगत्थेण तेणेव कालेण कयदुवालसंगगंधरयणेण गुणेहि सगसमाणस्स सुहुमाइरियस्स गंधो वक्खाणिदो । जयध. अ. पृ. ११. प्रतिपादितं ततस्तच्छ्रुतं समस्तं महात्मना तेन । प्रथितात्मीय-सधर्मणे सुधर्माभिधानाय ॥ इन्द्र. श्रुता. ६७.

२ वासद्धि वरिसकालो अणुवट्टिय तिणिण केवलिणो । त्र. श्रु. ६७.

३ एदेसिं पंचण्हं पि सुदकेवलीणं कालो वस्ससदं १०० । जयध. अ. पृ. ११.

४ तेसिं कालो तिसीदिसदवस्साणि १८३ । जयध. अ. पृ. ११.

५ ' धुमसेनः ' इति पाठः । इन्द्र. श्रुता. ८१.

६ एदेसिं कालो वीसत्तरविसदवासमेत्तो २२० । जयध. अ. पृ. ११.

७ ' अमयमद्रः ' इति पाठः । इन्द्र. श्रुता. ८३.

८ ' जहवाहू ' इति पाठः । जयध. अ. पृ. ११. ' जयवाहुः ' इति पाठः । इन्द्र. श्रुता. ८४.

९ एदेसिं XX कालो अट्टारसत्तरं वाससदं ११८. जयध. अ. पृ. ११.

सेसंग-पुञ्जाणमेग-देस-धारया' । तदो सञ्चेसिमंग-पुञ्जाणमेग-देसो आइरिय-परंपराए आग-  
च्छमाणो धरसेणाइरियं संपत्तो ।

तेण वि सोरङ्ग-विसय-गिरिणयर-पट्टण-चंदगुहा-ठिएण' अडुंग-महाणिमित्त-पार-  
एण गंध-वोच्छेदो' होहदि त्ति जाद-भएण पवयण-वच्छलेण दक्खिणावहाइरियाणं  
महिमाए मिलियाणं लेहो पेसिदो' । लेह-द्विय-धरसेण-वयणमवधारिय तेहि वि आइरिएहि  
वे साह् गहण-धारण-समत्था धवलामल-बहु-विह-विणय-विहूसियंगा सील-माला-हरा गुरु-  
पेसणासण-तित्ता देस-कुल-जाइ-मुद्धा सयल-कला-पारया तिवसुत्तावुच्छियाइरिया अंध-  
विसय-वेणायडादो पेसिदा । तेसु आगच्छमाणेसु रयणीए पच्छिमे भाए कुंदेंदु-संख-

शेष अंग तथा पूर्वोके एकदेशके धारक हुए। इसके बाद सभी अंग और पूर्वोका एकदेश आचार्य-  
परंपरासे आता हुआ धरसेन आचार्यको प्राप्त हुआ ।

सौराष्ट्र ( गुजरात-काठियावाड़ ) देशके गिरिनगर नामके नगरकी चन्द्रगुफामें रहने-  
वाले, अष्टांग महानिमित्तके पारगामी, प्रवचन-वत्सल और आगे अंग श्रुतका विच्छेद हो  
जायगा इसप्रकार उत्पन्न हो गया है भय जिनको ऐसे उन धरसेनाचार्यने किसी धर्मोत्सव आदि  
निमित्तसे महिमा नामकी नगरीमें संमिलित हुए दक्षिणापथ के ( दक्षिणदेशके निवासी )  
आचार्योंके पास एक लेख भेजा । लेखमें लिखे गये धरसेनाचार्यके वचनोंको भलीभांति समझ-  
कर उन आचार्योंने शास्त्रके अर्थके ग्रहण और धारण करनेमें समर्थ, नानाप्रकारकी उज्वल  
और निर्मल चिनयसे विभूषित अंगवाले, शीलरूपी मालाके धारक, गुरुओं द्वारा प्रेषण ( भेजने )  
रूपी भोजनसे तृप्त हुए, देश, कुल और जातिसे शुद्ध, अर्थात् उत्तम देश उत्तम कुल और उत्तम  
जातिमें उत्पन्न हुए, समस्त कलाओंमें पारंगत, और तीन चार पूंछा है आचार्योंसे जिन्होंने,  
( अर्थात् आचार्योंसे तीन चार आज्ञा लेकर ) ऐसे दो साधुओंको आन्ध्र-देशमें बहनेवाली  
वेणानदीके तटसे भेजा ।

मार्गमें उन दोनों साधुओंके आते समय, जो कुन्दके पुष्प, चन्द्रमा और शंखके समान

१ एवेसिं सञ्चेसिं कालाणं समासो छसव्वासाणि तेसीद्विवाससमहियाणि ६८३ बडुमाणजिणिंदे-णिञ्जाणं  
गदे । जयध. अ. पू. ११.

२ वैशे ततः सुदान्हे गिरिनगरपुरान्तिकोर्जयन्तगिरौ । चंद्रगुहादिनिवासी महातपाः परममुनिमुख्यः ॥  
अप्रायणीयपूर्वस्थितपंचमवरतुगतचतुर्थमहाकर्मप्राश्रितकज्ञः सूरिर्धरसेननामाभूत् ॥ इन्द्र. श्रुता. १०३, १०४.

३ प्रतिपु ' धंधवोच्छेधो ' इति पाठः ।

४ देशेन्द्रदेशनामानि वेणाकतटीपुरे महामहिमा-समुदितमुनीन् प्रति ब्रह्मचारिणा प्रापयल्लेखम् ॥

इन्द्र. श्रुता. १०६.

वण्णा सच्च-लक्खण-संपुण्णा अप्पणो कय-तिप्पयाहिणा पाएसु णिसुठियं-पदियंगा वे  
 वसहा सुमिणंतरेण धरसेण-भडारएण दिट्ठा । एवंविह-सुमिणं दड्ढुण तुट्ठेण धरसेणाइरिएण  
 'जयउ सुय-देवदा' ति संलवियं । तद्विसे चैय ते दो वि जणा संपत्ता धरसेणाइरियं ।  
 तदो धरसेण-भयवदो किदियम्मं काऊण दोणिण दिवसे वोलाविय तदिय-दिवसे विणएण  
 धरसेण-भडारओ तेहिं विणत्तो 'अणेण कज्जेणम्हा दो वि जणा तुम्हं पादमूलमुगवया'  
 ति । 'सुडु भदं' ति भणिऊण धरसेण-भडारएण दो वि आमासिदा । तदो चित्तिदं  
 भयवदा—

सेलघण-भगघड-अहि-चालणि-महिसाऽवि-जाहय-सुएहि ।  
 मट्टिय-मसय-समाणं वक्खाणइ जो सुदं मोहा ॥ ६२ ॥  
 घद-गारव-पडिबद्धो विसयामिस-विस-वसेण घुम्मंतो ।  
 सो भट्ट-त्रोहि-लाहो भमइ चिरं भव-वणे मूढो ॥ ६३ ॥

सफेद वर्णवाले हैं, जो समस्त लक्षणोंसे परिपूर्ण हैं, जिन्होंने आचार्य (धरसेन) की तीन प्रदक्षिणा  
 दी हैं और जिनके अंग नष्टित होकर आचार्यके चरणोंमें पड़ गये हैं ऐसे दो बैलोंको धरसेन  
 भट्टारकने रात्रिके पिछले भागमें स्वप्नमें देखा । इसप्रकारके स्वप्नको देखकर संतुष्ट हुए धरसेना-  
 चार्यने 'श्रुतदेवता जयवन्त हो' ऐसा वाक्य उच्चारण किया ।

उसी दिन दक्षिणापथसे भेजे हुए वे दोनों साधु धरसेनाचार्यको प्राप्त हुए । उसके  
 बाद धरसेनाचार्यकी पादवन्दना आदि कृतिकर्म करके और दो दिन बिताकर तीसरे दिन उन  
 दोनोंने धरसेनाचार्यसे निवेदन किया कि 'इस कार्यसे हम दोनों आपके पादमूलको प्राप्त हुए  
 हैं' । उन दोनों साधुओंके इसप्रकार निवेदन करने पर 'अच्छ है, कल्याण हो' इसप्रकार  
 कहकर धरसेन भट्टारकने उन दोनों साधुओंको आश्वासन दिया । इसके बाद भगवान् धरसेनने  
 विचार किया कि—

शैलघन, भगघट, अहि ( सर्प ) चालनी, महिप, अवि (मेढा), जाहक ( जोंक ) शुक,  
 माटी और मशक के समान श्रोताओंको जो मोहसे श्रुतका व्याख्यान करता है । वह मूढ़ रस-  
 गारवके आधीन होकर विषयोंकी लोलुपतारूपी विषके वशसे मूर्च्छित हो, बोधि अर्थात्  
 रत्नत्रयकी प्राप्तिसे भ्रष्ट होकर भव-चनमें चिरकालतक परिभ्रमण करता है ॥ ६२, ६३ ॥

१ 'माराक्रान्ते नमेणिमुदः'—है. ८, ४, १५८.

२ आगमनदिने च तयोः पुरैव धरसेनसूरिरपि रात्रौ । निजपादयोः पतन्तौ धवलवृषावैक्षत स्वप्ने ॥  
 तत्स्वप्नेक्षणमात्राञ्जयतु श्रीदेवतेति समुपलपन् । उदतिष्ठदतः प्रातः समागतावैक्षत मुनी द्वौ ॥ इन्द्र. श्रुता. ११२, ११३.

३ ईसरिय-रुव-सिरि-जस-धम्म-पयत्तामया भगाभिकखा । ते तेसिमसामण्णा संति जओ तेण मगवन्ते ॥

वि. भा. १०५३.

४ सेलघण कुड्ढग चालिणि परिपूणग हंसमहिससे थ । मसग जट्टग विराली जाहग गो मेरि आभीरी ॥

वृ. क. सू. ३३४., आ. नि. १३९.

विशेषार्थ—शैलनाम पाषाणका है और घन नाम मेघका है। जिसप्रकार पाषाण, मेघके चिरकालतक वर्षा करने पर भी आर्द्र या मृदु नहीं होता है, उसीप्रकार कुछ ऐसे भी श्रोता होते हैं, जिन्हें गुरुजन चिरकाल तक भी धर्मामृतके वर्षण या सिंचन द्वारा कोमल-परिणामी नहीं बना सकते हैं ऐसे श्रोताओंको शैलघन श्रोता कहा है ॥ १ ॥ भ्रमघट फूटे घड़ेको कहते हैं। जिसप्रकार फूटे घड़ेमें ऊपरसे भरा गया जल नीचेकी ओरसे निकल जाता है भीतर कुछ भी नहीं ठहरता, इसीप्रकार जो उपदेशको एक कानसे सुनकर दूसरे कानसे निकाल देते हैं उन्हें भ्रमघट श्रोता कहा है ॥ २ ॥ अहि नाम सांपका है। जिसप्रकार मिश्री-मिश्रित-दुग्धके पान करने पर भी सर्प विषका ही वमन करता है, उसीप्रकार जो सुन्दर, मधुर और हितकर उपदेशके सुनने पर भी विष वमन करते हैं अर्थात् प्रतिकूल आचरण करते हैं, उन्हें अहिसमान श्रोता समझना चाहिये ॥ ३ ॥ चालनी जैसे उत्तम आटेको नीचे गिरा देती है और भूसा या चौकरको अपने भीतर रख लेती है, इसीप्रकार जो उत्तम सारयुक्त उपदेशको तो बाहर निकाल देते हैं और निःसार तत्वको धारण करते हैं वे चालनीसमान श्रोता हैं ॥ ४ ॥ महिषा अर्थात् भैंसा जिसप्रकार जलाशयसे जल तो कम पीता है परंतु बारबार डुबकी लगाकर उसे गंदला कर देता है, उसीप्रकार जो श्रोता सभामें उपदेश तो अल्प ग्रहण करते हैं पर प्रसंग पाकर श्लोभ या उद्वेग उत्पन्न कर देते हैं वे महिषासमान श्रोता हैं ॥ ५ ॥ अवि नाम मेघ ( मंडा ) का है। जैसे मंडा पालनेवालेको ही मारता है, उसीप्रकार जो उपदेशदाताकी ही निन्दा करते हैं और समय आनेपर घात तक करने को उद्यत रहते हैं उन्हें अविके समान श्रोता समझना चाहिए ॥ ६ ॥ जाहक नाम सेही आदि अनेक जीवोंका है पर प्रकृतमें जौंक अर्थ ग्रहण किया गया है। जैसे जौंकको स्तनपर भी लगावें तो भी वह दूध न पीकर खून ही पीती है, इसीप्रकार जो उत्तम आचार्य या गुरुके समीप रहकर भी उत्तम तत्वको तो ग्रहण नहीं करते, पर अधम तत्वको ही ग्रहण करते हैं वे जौंकके समान श्रोता हैं ॥ ७ ॥ शुक नाम तोतेका है। तोतेको जो कुछ सिखाया जाता है वह सीख तो जाता है पर उसे यथार्थ अर्थ प्रतिभासित नहीं होता, उसीप्रकार उपदेश स्मरणकर लेने पर भी जिनके हृदयमें भाव-भासना नहीं होती है वे शुकसमान श्रोता हैं ॥ ८ ॥ मट्टी जैसे जलके संयोग मिलनेपर तो कोमल हो जाती है पर जलके अभावमें पुनः कठोर हो जाती है, इसीप्रकार जो उपदेश मिलने तक तो मृदु-परिणामी बने रहते हैं और बादमें पूर्ववत् ही कठोर-हृदय हो जाते हैं वे मट्टीके समान श्रोता हैं ॥ ९ ॥ मशक अर्थात् मच्छर पहले कानोंमें आकर गुन-गुनाता है चरणोंमें गिरता है किंतु अवसर पाते ही काट खाता है, उसीप्रकार जो श्रोता पहले तो गुरु या उपदेश-दाताकी प्रशंसा करेंगे, चरण-वन्दना भी करेंगे, पर अवसर आते ही काट बिना न रहेंगे उन्हें मशकके समान श्रोता समझना चाहिये ॥ १० ॥ उक्त सभी प्रकारके श्रोता अयोग्य हैं, उन्हें उपदेश देना व्यर्थ है।

किसी किसी शास्त्रमें उक्त नामोंमें तथा अर्थमें भेद भी देखनेमें आता है, किंतु कुश्रोताका भाव-ग्रहां पर अभीष्ट है।



इदि वयणादो जहाछंडाईणं विज्जा-दाणं संसार-भय-वद्वणमिदि चिंतिऊण सुह-  
सुमिण-दंसणेणव अवगय-पुरिसंतरेण धरसेण-भयवदा पुणरवि ताणं परिक्खा काउमाढत्ता  
' सुपरिक्खा हियय-णिव्वुइकरेति ' । तदो ताणं तेण दो विज्जाओ दिण्णाओ' । तत्थ एया  
अहिय-क्खरा, अवरा विहीण-क्खरा । एदाओ छट्टोववासेण साहेहु त्ति । तदो ते सिद्ध-  
विज्जा विज्जा-देवदाओ पेच्छंति, एया उदंतुरिया अवरेया काणिया । एसो देवदाणं  
संहावो ण होदि त्ति चिंतिऊण मंत-व्वायरण-सत्थ-कुसलेहिं हीणाहिय-क्खराणं छुहणावण-  
यण-विहाणं काऊण पढंतेहि दो वि देवदाओ सहाव-रूव-ट्टियाओ दिट्ठाओ । पुणो तेहि  
धरसेण-भयवंतस्स जहावित्तेण विणएण णिवेदिदे सुट्टु तुट्टेण धरसेण-भडारएण सोम-तिहि-  
णक्खत्त-वारे गंथो पारट्ठो । पुणो कमेण वक्खणंतेण आसाढ-मास-सुक्क-पक्ख-एकारसीए  
पुव्वण्हे गंथो समाणिदो । विणएण गंथो समाणिदो त्ति तुट्टेहि भूदेहि तत्थेयस्स महदी

इस वचनके अनुसार यथाछन्द अर्थात् स्वच्छन्दतापूर्वक आचरण करनेवाले श्रोता-  
ओंको विद्या देना संसार और भयका ही बढ़ानेवाला है, ऐसा विचारकर, शुभ स्वप्नके देखने  
मात्रसे ही यद्यपि धरसेन भट्टारकने उन आये हुए दोनों साधुओंके अन्तर अर्थात् विशेषताको  
जान लिया था, तो भी फिरसे उनकी परीक्षा लेनेका निश्चय किया, क्योंकि, उत्तम प्रकारसे  
ली गई परीक्षा हृदयमें संतोषको उत्पन्न करती है । इसके बाद धरसेनाचार्यने उन दोनों साधु-  
ओंको दो विद्याएं दीं । उनमेंसे एक अधिक अक्षरवाली थी और दूसरी हीन अक्षरवाली थी ।  
दोनोंको दो विद्याएं देकर कहा कि इनको पद्यभक्त उपवास अर्थात् दो दिनके उपवाससे सिद्ध  
करो । इसके बाद जब उनको विद्याएं सिद्ध हुईं, तो उन्होंने विद्याकी अधिष्ठात्री देवताओंको  
देखा कि एक देवीके दांत बाहर निकले हुए हैं और दूसरी कानी है । ' विकृतांग होना देवता-  
ओंका स्वभाव नहीं होता है ' इसप्रकार उन दोनोंने विचारकर मन्त्र-संबन्धी व्याकरण-शास्त्रमें  
कुशल उन दोनोंने हीन अक्षरवाली विद्यामें अधिक अक्षर मिलाकर और अधिक अक्षरवाली  
विद्यामेंसे अक्षर निकालकर मन्त्रको पढ़ना, अर्थात् फिरसे सिद्ध करना प्रारम्भ किया । जिससे  
वे दोनों विद्यादेवताएं अपने स्वभाव और अपने सुन्दर रूपमें स्थित दिखलाई पड़ीं । तदनन्तर  
भगवान् धरसेनके समक्ष, योग्य विनय-सहित उन दोनोंके विद्या-सिद्धिसंबन्धी समस्त  
वृत्तान्तके निवेदन करने पर ' बहुत अच्छा ' इसप्रकार संतुष्ट हुए धरसेन भट्टारकने शुभ तिथि,  
शुभनक्षत्र और शुभवारमें ग्रन्थका पढ़ाना प्रारम्भ किया । इसतरह क्रमसे व्याख्यान करते  
हुए धरसेन भगवान्से उन दोनोंने आषाढ मासके शुक्लपक्षकी एकादशकी पूर्वाह्नकालमें ग्रन्थ  
समाप्त किया । विनयपूर्वक ग्रन्थ समाप्त किया, इसलिये संतुष्ट हुए भूत जातिके व्यन्तर देवोंने

१ सुपरीक्षा ह्यनिर्वृत्तिकरीति संक्रियं दत्तवान् सरिः । साधयितुं विद्ये द्वे हीनाधिकवर्णसंयुक्ते ॥

पूजा पुष्प-बलि-संख-तूर-रव-संकुला कदा । तं दद्वूण तस्स 'भूदबलि' ति भडारण  
णामं कयं । अवरस्स वि भूदेहि पूजिदस्स अत्थ-वियत्थ-द्विय-दंत-पंतिमोसारिय भूदेहि  
समीकय-दंतस्स 'पुष्पयंतो' ति णामं कयं

पुणो तद्विसे<sup>१</sup> चैव पेसिदा संतो 'गुरु-वयणमलंघणिज्जं'<sup>२</sup> इदि चिंतिऊणागदेहि  
अंकुलेसरे वरिसा-कालो कओ । जोगं समाणीय जिणवालियं<sup>३</sup> दद्वूण पुष्पयंताइरियो वण-  
वास-विसयं गदो । भूदबलि-भडारओ वि दंमिल-देसं गदो । तदो पुष्पयंताइरिएण  
जिणवालिदस्स दिक्खं दाऊण वीसदि-सुत्ताणि<sup>३</sup> करियं पंठाविय पुणो सो भूदबलि-भयवं-  
तस्स पासं पेसिदो । भूदबलि-भयवदा जिणवालिद-पासे दिद्व-वीसदि-सुत्तेण अप्पाउओ ति  
अवगय-जिणवालिदेण महाकम्म-पयडि-पाहुडस्स वोच्छेदो होहदि ति समुप्पण-बुद्धिणा  
पुणो दव्व-पमाणाणुगममादिं काऊण गंथ-रचना कदा । तदो एयं खंड-सिद्धंतं पडुच्च  
भूदबलि-पुष्पयंताइरिया वि कत्तारो उच्चति ।

उन दोनोंमेंसे एककी पुष्पावलीसे तथा शंख और तूर्य जातिके वाद्यविशेषके नादसे व्याप्त बड़ी  
भारी पूजा की । उससे देखकर धरसेन भट्टारकने उनका 'भूतबलि' यह नाम रक्खा । तथा  
जिनकी भूर्तोंने पूजा की है, और अस्त-न्यस्त दन्तपंक्तिको दूर करके भूर्तोंने जिनके दांत समान  
कर दिये हैं ऐसे दूसरेका भी धरसेन भट्टारकने 'पुष्पदन्त' नाम रक्खा ।

तदनन्तर उसी दिन वहांसे भेजे गये उन दोनोंने 'गुरुके वचन अर्थात् गुरुकी आज्ञा  
अलंघनीय होती है' ऐसा विचार कर आते हुए अंकलेश्वर ( गुजरात ) में वर्षाकाल बिताया ।  
वर्षायोगको समाप्तकर और जिनपालितको देखकर ( उसके साथ ) पुष्पदन्त आचार्य तो वन-  
वासको चले गये और भूतबलि भट्टारक भी द्रमिल-देशको चले गये । तदनन्तर पुष्पदन्त  
आचार्यने जिनपालितको दीक्षा देकर, वीस प्ररूपणा गर्भित सत्प्ररूपणाके सूत्र बनाकर और  
जिनपालितको पढ़ाकर अनन्तर उन्हें भूतबलि आचार्यके पास भेजा । तदनन्तर जिन्होंने  
जिनपालितके पास वीस प्ररूपणान्तर्गत सत्प्ररूपणाके सूत्र देखे हैं और पुष्पदन्त आचार्य  
अल्पायु है इसप्रकार जिन्होंने जिनपालितसे जान लिया है, अतएव महाकर्मप्रकृतिप्राभृतका  
विच्छेद हो जायगा इसप्रकार उत्पन्न हुई है बुद्धि जिनको ऐसे भगवान् भूतबलिने द्रव्यप्रमाणा-  
नुगमको आदि लेकर ग्रन्थ-रचना की । इसलिये इस खण्डसिद्धान्तकी अपेक्षा भूतबलि और  
पुष्पदन्त आचार्य भी श्रुतके कर्ता कहे जाते हैं ।

१ 'द्वितीयदिवसे' इति पाठः । इन्द्र. श्रुता. १२९.

२ 'स्वसागिनियं' इति विशेषः । इन्द्र. श्रुता. १३४.

३ वाञ्छन् गुणजीवादिकविंशतिविधसूत्रसत्प्ररूपणया । युक्तं जीवस्थानाद्यधिकारं व्यरचयत्सम्यक् ॥

तदो मूल-तंत-कृत्ता बड्डमाण-भडारओ, अणुतंत-कृत्ता गोदम-सामी, उवतंत-कृत्तारा भूदवलि-पुप्फयंतादयो वीय-राय-दोस-मोहा मुणिवरा । किंमर्थं कर्ता प्ररूप्यते ? शास्त्रस्य प्रामाण्यप्रदर्शनार्थम् ' वक्तृप्रामाण्याद् वचनप्रामाण्यम् ' इति न्यायात् ।

संपहि जीवज्ञाणस्स<sup>१</sup> अवयारो उच्चदे । तं जहा, सो वि चउच्चिहो, उवकमो णिक्खेवो णयो अणुगमो चेदि । तत्थ उवकमं भणिस्सामो । उपक्रम इत्यर्थमात्मनः उपसमीपं क्राम्यति करोतीत्युपक्रमः<sup>२</sup> । सो वि उवकमो पंचविहो, आणुपुञ्ची णामं पमाणं वत्तव्वदा अत्थाहियारो चेदि । उच्चं च—

तिविहा य आणुपुञ्ची दसहा णामं च उच्चिहं माणं ।

वत्तव्वदा य तिविहा तिविहो अत्थाहियारो वि ॥ ६४ ॥ इदि ।

इसतरह मूलग्रन्थकर्ता वर्द्धमान भट्टारक हैं, अनुग्रन्थकर्ता गौतमस्वामी हैं और उपग्रन्थकर्ता राग, द्वेष और मोहसे रहित भूतवलि, पुष्पदन्त इत्यादि अनेक आचार्य हैं ।

शंका—यहां पर कर्ताका प्ररूपण किसलिये किया गया है ?

सामधान—शास्त्रकी प्रमाणताके दिखानेके लिये यहां पर कर्ताका प्ररूपण किया गया है, क्योंकि, ' वक्ताकी प्रमाणतासे ही वचनोंमें प्रमाणता आती है ' ऐसा न्याय है ।

अब जीवस्थानके अवतारका प्रतिपादन करते हैं। अर्थात् पुष्पदन्त और भूतवलि आचार्यने जीवस्थान, खुदाबन्ध, बन्धस्वामित्व, वेदनाखण्ड, वर्गणाखण्ड और महाबन्ध नामक जिस पदखण्डागमकी रचना की। उनमेंसे, प्रकृतमें यहां जीवस्थान नामके प्रथम खण्डकी उत्पत्तिका क्रम कहते हैं। वह इसप्रकार है—

वह अवतार चार प्रकारका है, उपक्रम, निक्षेप, नय और अनुगम। उन चारोंमें पहले उपक्रमका निरूपण करते हैं, जो अर्थको अपने समीप करता है उसे उपक्रम कहते हैं। उस उपक्रमके पांच भेद हैं, आनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता और अर्थाधिकार। कहा भी है—

आनुपूर्वी तीन प्रकारकी है, नामके दश भेद हैं, प्रमाणके छह भेद हैं, वक्तव्यताके तीन भेद हैं और अर्थाधिकारके भी तीन भेद समझना चाहिये ॥ ६४ ॥

१ इयमूलतंतकृत्ता सिखारो इंदभूदि विष्पवरे । उवतंत कृत्तारो अणुतंत सेस आइरिया ॥ णिण्णट्टराय-दोसा महेसिणो दिव्वसुत्तकृत्तारो । किं कारणं पभणिदा कहिट्ठं सुत्तस्स पामण्णं ॥ ति. प. १, ८०, ८१.

२ पुष्पदन्तभूतवलिभ्यां प्रणीतस्यागमस्य नाम 'पदखण्डागमः' तस्येमे पद खण्डाः—१ जीवस्थानं २ खुदाबन्धः ३ बन्धस्वामित्वविचयः ४ वेदनाखण्डः ५ वर्गणाखण्डः ६ महाबन्धश्चेति । एषां पण्णां खण्डानां मध्ये प्रथमतस्तावजीवस्थाननामकप्रथमखण्डस्यावतारो निरूप्यते ।

३ प्रकृतस्यार्थतत्वस्य श्रोतृबुद्धौ समर्पणम् । उपक्रमोऽसौ विज्ञेयस्तथोपोद्धात इत्यपि ॥ आ. पु. २. १०३. सत्यस्सोवकमणं उवकमो तेण तम्मि व तओ वा । सत्थसमीवीकरणं आणयणं नासदेसम्मि ॥ वि. भा. ९१४.

पुव्वाणुपुव्वी पच्छाणुपुव्वी जत्थतत्थाणुपुव्वी चेदि तिविहा आणुपुव्वी । जं मूलादो परिवाडीए उच्चदे सा पुव्वाणुपुव्वी<sup>१</sup> । तिस्से उदाहरणं—‘उसहमजियं च वंदे’ इच्चैवमादि<sup>२</sup> । जं उवरीदो हेट्ठा परिवाडीए उच्चदि सा पच्छाणुपुव्वी<sup>३</sup> । तिस्से उदाहरणं—  
एस करेमिं य पणमं जिणवर-वसहस्स वड्डमाणस्स ।

सेसाणं च जिणाणं सिव-सुह-कंखा विलोमेण<sup>४</sup> ॥ ६५ ॥ इदि ।

जमणुलोम-विलोमेहि विणा जहां तहा उच्चदि सा जत्थतत्थाणुपुव्वी<sup>५</sup> । तिस्से उदाहरणं—

गय-गवल-सजल-जलहर-परहुव-सिहि-गलय-भमर-संकासो ।

हरिउल-वंस-पईवो सिव-माउव-वच्छओ जयऊ ॥ ६६ ॥ इच्चैवमादि ।

पूर्वानुपूर्वी, पश्चादानुपूर्वी और यथातथानुपूर्वी इसतरह आनुपूर्वीके तीन भेद हैं । जो वस्तुका विवेचन मूलसे परिपाटीद्वारा किया जाता है उसे पूर्वानुपूर्वी कहते हैं । उसका उदाहरण इसप्रकार है, ‘ऋषभनाथकी वन्दना करता हूं, अजितनाथकी वन्दना करता हूं’ इत्यादि क्रमसे ऋषभनाथको आदि लेकर महावीरस्वामी पर्यन्त क्रमवार वन्दना करना सो वन्दनासंबन्धी पूर्वानुपूर्वी उपक्रम है । जो वस्तुका विवेचन ऊपरसे अर्थात् अन्तसे लेकर आदितक परिपाटी-क्रमसे (प्रतिलोम-पद्धतिसे) किया जाता है उसे पश्चादानुपूर्वी उपक्रम कहते हैं । जैसे—

मोक्ष-सुखकी अभिलाषासे यह मैं जिनवरोंमें श्रेष्ठ ऐसे वर्द्धमानस्वामीको नमस्कार करता हूं । और विलोमक्रमसे अर्थात् वर्द्धमानके बाद पार्श्वनाथको, पार्श्वनाथके बाद नेमिनाथको इत्यादि क्रमसे शेष जिनेन्द्रोंको भी नमस्कार करता हूं ॥ ६५ ॥

जो कथन अनुलोम और प्रतिलोम क्रमके बिना जहां कहींसे भी किया जाता है उसे यथातथानुपूर्वी कहते हैं । जैसे—

हाथी, अरण्यभैंसा, जलपरिपूर्ण और सघन मेघ, कोयल, मयूरका कण्ठ और भ्रमरके

१ जं जेण कमेण सुत्तकारेहि ठइदमुप्पण्णं वा तस्स तेण कमेण गणणा पुव्वाणुपुव्वी णाम । जयध. अ. पृ. ३.

२ उसहमजियं च वंदे संमन्नमभिणंदणं च सुमइं च । पउमप्पहं सुपासं जिणं च चंदप्पहं वंदे ॥ सुविहिं च पुप्फदंतं सीयलसेयं च वासुपुज्जं च । विमलमणंतं भयवं धम्मं संतिं च वंदामि ॥ कुंथुं च जिणवरिंदं अरं च मल्लिं च मुणिसुच्चयं च । णमि वंदामि अरिदं णेमिं तह पासवड्डमाणं च ॥ एवमए अभिधुहिया विहुय-रयमला पहीणजरमरणा । चउवीसं वि जिणवरा तित्थयरा मे पसीयंतु ॥ द. स. पृ. ४.

३ तस्स विलोमेण गणणा पच्छाणुपुव्वी । जयध. अ. पृ. ३.

४ प्रतिपु ‘क्खेमि’ इति पाठः ।

५ एस करेमि पणमं जिणवरवसहस्स वड्डमाणं च । सेसाणं च जिणाणं सगणगणधराणं च सच्चैसिं ॥

६ जत्थ वा तत्थ वा अप्पणो इच्छिदमादिं कादूण गणणा जत्थतत्थाणुपुव्वी । जयध. अ. पृ. ३.

इदं पुण जीवद्वानं खंड-सिद्धंतं पडुच्च पुव्वाणुपुव्वीए द्विदं छण्हं खंडाणं पढम-खंडं जीवद्वानमिदि । वेदणा-कसिण-पाहुड-मज्झादो अणुलोम-विलोम-कमेहि विणा जीवद्वानस्स संतादि-अहियारा अहिणिग्गया त्ति जीवद्वानं जत्थतत्थाणुपुव्वीए वि संठिदं । जीवद्वाने ण पच्छाणुपुव्वी संभवइ ।

णामस्स दस' द्वाणाणि भवंति । तं जहा, गोण्णपदे णोगोण्णपदे आदाणपदे पडिवक्खपदे अणादियसिद्धंतपदे प्राधण्णपदे णामपदे पमाणपदे अवयवपदे संजोगपदे चेदि ।

गुणानां भावो गौण्यम् । तद् गौण्यं पदं स्थानमाश्रयो येषां नाम्नां तानि गौण्य-पदानि<sup>१</sup> । यथा, आदित्यस्य तपनो भास्कर इत्यादीनि नामानि । नोगौण्यपदं<sup>२</sup> नाम गुणनिरपेक्षमनन्वर्थमिति यावत् । तद्यथा, चन्द्रस्वामी सूर्यस्वामी इन्द्रगोप इत्यादीनि

समान वर्णवाले, हरिवंशके प्रदीप, और शिवादेवी माताके लाल ऐसे नेमिनाथ भगवान् जयवन्त हों ॥ ६६ ॥ इत्यादि यथातथानुपूर्वीका उदाहरण समझना चाहिये ।

यह जीवस्थान नामक शास्त्र खण्डसिद्धान्तकी अपेक्षा पूर्वानुपूर्वी क्रमसे लिखा गया है, क्योंकि, षट्खण्डागममें जीवस्थान प्रथम खण्ड है । वेदनाक्रपायप्राभृतके मध्यसे अनुलोम और विलोमक्रमके विना जीवस्थानके सत्, संख्या आदि अधिकार निकले हैं, इसलिये जीवस्थान यथातथानुपूर्वीमें भी गर्भित है । किंतु इस जीवस्थान खण्डमें केवल पश्चादानुपूर्वी संभव नहीं है ।

नाम-उपक्रमके दश भेद होते हैं । वे इसप्रकार हैं—गौण्यपद, नोगौण्यपद, आदानपद, प्रतिपक्षपद, अनादिसिद्धान्तपद, प्राधान्यपद, नामपद, प्रमाणपद, अवयवपद और संयोगपद ।

गुणोंके भावको गौण्य कहते हैं । जो पदार्थ गुणोंकी मुख्यतासे व्यक्त होते हैं वे गौण्य-पदार्थ हैं । वे गौण्य पदार्थ पद अर्थात् स्थान या आश्रय जिन नामोंके होते हैं उन्हें गौण्यपद-नाम कहते हैं । अर्थात् जिस संज्ञाके व्यवहारमें अपने विशेष गुणका आश्रय लिया जाता है उसे गौण्यपदनाम कहते हैं । जैसे, सूर्यकी तपन और भास् गुणकी अपेक्षा तपन और भास्कर इत्यादि संज्ञाएँ हैं । जिन संज्ञाओंमें गुणोंकी अपेक्षा न हो, अर्थात् जो असार्थक नाम हैं उन्हें नोगौण्यपदनाम कहते हैं । जैसे, चन्द्रस्वामी, सूर्यस्वामी, इन्द्रगोप इत्यादि नाम ।

१ से किं दसनामे पण्णेत्ते ? तं जहा, गोण्णे नोगोण्णे आयाणपएणं. पडिवक्खपएणं पहाणयाए अणाइअ-सिद्धतेणं नामेणं अवयवेणं संजोगेणं पमाणेणं । अउ. १, १२७.

२ से किं तं गोण्णे ? गोणे खमइ त्ति खमणो, तपइ त्ति तपणो, जलइ त्ति जलणो, पवइ त्ति पवणो । से चं गोणे । अउ. १, १२८.

३ नो गोणे अकुंतो सकुंतो असुणो समुणो अलालं पलालं अकुलिया सकुलिया अमुदो समुदो नोपलं असइ त्ति पलासं, अमाति वाहए माइवाहए, अवीय वावए वीयावावए, नो इंदगोवइए त्ति इंदगोवे से चं नो गोणे ।

नामानि । आदानपदं नाम आत्तद्रव्यनिबन्धनम् । नैतद्गुणनाम्नोऽन्तर्भवति तत्रादानादेयत्व-  
विवक्षाभावात् । भावे वा न तद्गुणाश्रितमादानपदनाम्नोऽन्तर्भावात् । पूर्णकलश इत्येत-  
दादानपदम् । नादानपदम् । तद्यथा, घटस्य कलश इति संज्ञा नात्तद्रव्यादिमाश्रिता  
तस्यास्तथाविधविवक्षामन्तरेण प्रवृत्तायाः समुपलम्भात् । न पूर्णशब्दोऽपि तस्य  
पर्याप्तवाचकत्वेन गुणनाम्नोऽन्तर्भावात् । नोभयसमाप्तोऽपि तस्य भावसंयोगेऽ-  
न्तर्भावादिति न, जलादिद्रव्याधारत्वविवक्षायां पूर्णकलशशब्दस्यादानपदत्वाभ्युप-

विशेषार्थ—जिन मनुष्योंके चन्द्रस्वामी आदि नाम रक्खे जाते हैं । उनमें चन्द्र  
आदिका न तो स्वामीपना पाया जाता है और न इन्द्रके वे रक्षक ही होते हैं । केवल ये नाम  
रुद्रिसे रक्खे जाते हैं । इनमें गुणादि की कुछ भी प्रधानता नहीं पायी जाती है, इसलिये इन्हें  
नोगौण्यपदनाम कहते हैं ।

ग्रहण किये गये द्रव्यके निमित्तसे जो नाम व्यवहारमें आते हैं, अर्थात् जिनमें  
द्रव्यके निमित्तकी अपेक्षा होती है उन्हें आदानपदनाम कहते हैं ।

विशेषार्थ— आदानपदनामोंमें, संयोगको प्राप्त हुए द्रव्यके निमित्तसे उत्पन्न हुई अवस्था-  
विशेषकी वाचक संज्ञाएँ ली जाती हैं । अर्थात् आदान-आदेय भावकी मुख्यतासे जो नाम  
प्रचलित होते हैं उन्हें आदानपदनाम कहते हैं ।

इस आदानपदनामका गुणनाममें अन्तर्भाव नहीं हो सकता है, क्योंकि, गुणनामोंमें  
आदान-आदेय भावकी विवक्षा नहीं रहती है । यदि गुणनामोंमें भी आदान-आदेय भावकी  
विवक्षा मान ली जाय तो गौण्यपदनाम गुणाश्रित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि, आदान-आदेय  
भावकी मुख्यतासे उनका आदानपदनामोंमें अन्तर्भाव हो जायगा ।

‘ पूर्णकलश ’ इस पदको आदानपदनाम समझना चाहिये ।

शंका — ‘ पूर्णकलश ’ यह आदानपदनाम नहीं हो सकता है । इसका खुलासा इस-  
प्रकार है, घटकी ‘ कलश ’ यह संज्ञा ग्रहण किए गये किसी द्रव्यादिके आश्रयसे नहीं है,  
क्योंकि, ‘ कलश ’ इस संज्ञाकी द्रव्यादिकके निमित्तकी विवक्षाके विना ही प्रवृत्ति देखी जाती  
है । इसीतरह ‘ पूर्ण ’ यह शब्द भी आदानपदनाम नहीं हो सकता है, क्योंकि, ‘ पूर्ण ’ यह  
शब्द पर्याप्तका वाचक होनेसे उसका गौण्यपदनाममें अन्तर्भाव हो जाता है । पूर्ण और कलश  
इन दोनोंका समास भी आदानपदनाम नहीं हो सकता है, क्योंकि, उसका भावसंयोगमें  
अन्तर्भाव हो जाता है ?

समाधान—ऐसी शंका करना उचित नहीं है, क्योंकि, जलादि द्रव्यके आधारपनेकी  
विवक्षामें ‘ पूर्णकलश ’ इस शब्दको आदानपदनाम माना गया है ।

१ से किं तं आयाणपदेणं ? धम्मो मंगलं, चूलिया चाउरंगिज्ज असंखयं आवती तत्थिज्ज अद्दइज्जं  
जण्णइज्जं पुरिसइज्जं एल्लइज्जं त्तरियं धम्मो मग्गो समोसरणं गंत्यो जं महियं से तं आयाणपएणं, अनु. १, १२८.

गमात् । एवमविधवेत्यपि चालयित्वा व्यवस्थापनीयम् । अक्लिष्टानि कानि पुनरादान-  
पदनामानि ? वधूरन्तर्वतीत्यादीनि आत्तभर्तृधृतापत्यनिबन्धनत्वात् । प्रतिपक्षपदानि<sup>१</sup> कुमारी  
बन्ध्येत्येवमादीनि आदानपदप्रतिपक्षनिबन्धनत्वात् । अनादिसिद्धान्तपदानि धर्मास्तिर-  
धर्मास्तिरित्येवमादीनि । अपौरुषेयत्वतोऽनादिः सिद्धान्तः स पदं स्थानं यस्य तदनादि-  
सिद्धान्तपदम्<sup>२</sup> । प्राधान्यपदानि<sup>३</sup> आम्रवनं निम्बवनमित्यादीनि । वनान्तः सत्स्वप्यन्येष्व-

विशेषार्थ—जलादि द्रव्य आदान है और कलश आदेय है। इसलिये 'पूर्णकलश' इस  
शब्दका आदानपदनाममें अन्तर्भाव होता है। यह बात गौण्यपदनाममें नहीं है, इसलिये उसमें  
उसका अन्तर्भाव नहीं हो सकता है। यदि गौण्यपदमें इसप्रकारकी विवक्षा की जायगी तो वह  
गौण्यपद न कहलाकर आदानपदकी कोटिमें आ जायगा।

इसीप्रकार 'अविधवा' इस पदका भी विचार कर आदानपदनाममें अन्तर्भाव कर  
लेना चाहिये।

शंका—अक्लिष्ट अर्थात् सरल आदानपदनाम कौनसे है ?

समाधान—वधू और अन्तर्वती इत्यादि सरल आदानपदनाम समझना चाहिये,  
क्योंकि, स्वीकृत पतिकी अपेक्षा वधू और धारण किये गये गर्भस्थ पुत्रकी अपेक्षा 'अन्तर्वती'  
संज्ञा प्रचलित है।

कुमारी, बन्ध्या इत्यादिक प्रतिपक्षपदनाम हैं, क्योंकि, आदानपदोंमें ग्रहण किये गये  
दूसरे द्रव्यकी निमित्तता कारण पड़ती है और यहां पर अन्य द्रव्यका अभाव कारण पड़ता  
है। इसलिये आदानपदनामोंके प्रतिपक्ष-कारणक होनेसे कुमारी या बन्ध्या इत्यादि पद प्रतिपक्ष-  
पदनाम जानना चाहिये।

अनादिकालसे प्रवाहरूपसे चले आये सिद्धान्तवाचक पदोंको अनादिसिद्धान्तपदनाम  
कहते हैं। जैसे धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय इत्यादि। अपौरुषेय होनेसे सिद्धान्त अनादि है।  
वह सिद्धान्त जिस नामरूप पदका आश्रय हो उसे अनादिसिद्धान्तपद कहते हैं।

बहुतसे पदार्थोंके होने पर भी किसी एक पदार्थकी बहुलता आदि द्वारा प्राप्त हुई  
प्रधानतासे जो नाम बोले जाते हैं उन्हें प्राधान्यपदनाम कहते हैं। जैसे, आम्रवन निम्बवन

१ से किं तं पड्विक्खपणं ? पड्विक्खपदेणं नवेसु गामानारणगरखेडकब्बडमंडवदोणमुहपट्टणासमसंवाह-  
संनिवेशेसु संनिविसमाणेसु असिवा सिवा, अग्गी सीअलो, विसं महुरं, कल्लालघरेसु अंवलं साउअं, जे रत्तए से  
अलत्तए, जे लाउए से अलाउए, जे सुंमए से कुंमंमए, आलवतं विवलीअभासए, से तं पड्विक्खपणं ।

अनु. १, १२८.

२ अणादियसिद्धंतेणं, धम्मत्थिकाए अधम्मत्थिकाए आगासत्थिकाए जीवत्थिकाए पुग्गलत्थिकाए अद्धासमए  
से तं अणादियसिद्धंतेणं । अनु. १, १२८.

३ पाहणयाए असोवणणे सत्तवणवणं चंपवणणे चूअवणणे नागवणणे पुजावणणे उच्छुवणणे दक्खवणणे सालवणणे से  
तं पाहणयाए । अनु. १, १२८.

विवक्षितवृक्षेषु विवक्षाकृतप्राधान्यचूतपिचुमन्दनिवन्धनत्वात् । नामपदं<sup>१</sup> नाम गौडोऽन्ध्रो  
द्रमिल इति गौडान्ध्रद्रमिलभाषानामधामत्वात् । प्रमाणपदानि<sup>२</sup> शतं सहस्रं द्रोणः खारी  
पलं तुला कर्पादीनि प्रमाणनाम्नां प्रमेयेषूपलम्भात् ।

अवयवपदानि<sup>३</sup> यथा । सोऽवयवो द्विविधः, उपचितोऽपचित इति । तत्रोप-  
चितावयवनिवन्धनानि यथा, गलगण्डः शिलीपदः लम्बकर्ण इत्यादीनि नामानि ।  
अवयवापचयनिवन्धनानि यथा, छिन्नकर्णः छिन्ननासिक इत्यादीनि नामानि । संयोग-  
पदानि<sup>४</sup> यथा । स संयोगश्चतुर्विधो द्रव्यक्षेत्रकालभावसंयोगभेदात् । द्रव्यसंयोगपदानि  
यथा, इभ्यः गौथः दण्डी छत्री गर्भिणी इत्यादीनि द्रव्यसंयोगनिवन्धनत्वात् तेषां ।

इत्यादि । वनमें अन्य अविवक्षित वृक्षोंके रहने पर भी विवक्षासे प्रधानताको प्राप्त आम और  
नीमके वृक्षोंके कारण आम्रवन और निम्बवन आदि नाम व्यवहारमें आते हैं ।

जो भाषाभेदसे नाम बोले जाते हैं उन्हें नामपदनाम कहते हैं । जैसे गौड़, आन्ध्र,  
द्रमिल इत्यादि । ये गौड़ आदि नाम गौड़ी, आन्धी और द्रमिल भाषाओंके नाम के  
आधारसे हैं ।

गणना अथवा मापकी अपेक्षासे जो संज्ञाएं प्रचलित हैं उन्हें प्रमाणपदनाम कहते हैं ।  
जैसे, सौ, हजार, द्रोण, खारी, पल, तुला, कर्प इत्यादि । ये सब प्रमाणनाम प्रमेयोंमें पाये  
जाते हैं, अर्थात् इन नामोंके द्वारा तत्प्रमाण वस्तुका बोध होता है ।

अब अवयवपदनाम कहते हैं । अवयव दो प्रकारके होते हैं, उपचितावयव और अप-  
चितावयव । रोगादिके निमित्त मिलने पर किसी अवयवके बढ़ जानेसे जो नाम बोले  
जाते हैं उन्हें उपचितावयवपदनाम कहते हैं । जैसे, गलगंड, शिलीपद, लम्बकर्ण इत्यादि ।  
जो नाम अवयवोंके अपचय अर्थात् उनके छिन्न हो जानेके निमित्तसे व्यवहारमें आते हैं उन्हें  
अपचितावयवपदनाम कहते हैं । जैसे, छिन्नकर्ण, छिन्ननासिक इत्यादि नाम ।

अब संयोगपदनामका कथन करते हैं । द्रव्यसंयोग, क्षेत्रसंयोग, कालसंयोग और  
भावसंयोग के भेदसे संयोग चार प्रकारका है । इभ्यः, गौथ, दण्डी, छत्री, गर्भिणी इत्यादि द्रव्य-  
संयोगपदनाम हैं, क्योंकि, धन, गृथ, दण्डा, छत्ता इत्यादि द्रव्यके संयोगसे ये नाम व्यवहारमें

१ नामेण पिउपिआमहस्सि नामेण उन्नामिज्जंइ से तं णामेणं । अनु. १, १२६.

२ पमाणेणं चउच्चिहे पण्णत्ते । तं जहा, नामपमाणे ठवणपमाणे दव्वपमाणे भाविपमाणे । अनु. १, १३३.

३ अवयवेणं, सिंगी सिही विसाणी दाढी पक्खी खरी नही नाली । दुपय चउप्पय बहुपय लंगूली कैसरी  
फउही परियर-वधेण भडं जाणिज्जा महिलिअं निवसणेणं सित्थेण दोणवायं कविं च एक्काए गाहाए । से तं अवयवेणं ।

अनु. १, १२६.

४ से किं तं संजोएणं ? संजोणि चउच्चिहे पण्णत्ते, तं जहा, दव्वसंजोणे, खेतसंजोणे, कालसंजोणे, भाव-  
संजोणे । से किं तं दव्वसंजोणे ? दव्वसंजोणे तिविहे पण्णत्ते, तं जहा, सचित्ते अचित्ते, मीसए । से किं तं सचित्ते ?



नासिपरश्वाद्यस्तेषां भादानपदेऽन्तर्भावात् । सहचरित्वविवक्षायां भवन्तीति चेन्न, सहचरित्वविवक्षायां तेषां नामपदनाम्नोऽन्तर्भावात् । क्षेत्रसंयोगपदानि<sup>१</sup>, माथुरः चालभः दाक्षिणात्यः औदीच्य इत्यादीनि, यदि नामत्वेनाविवक्षितानि भवन्ति । कालसंयोगपदानि<sup>२</sup> यथा, शारदः वासन्तक इत्यादीनि । न वसन्तशरद्वेमन्तादीनि तेषां नामपदेऽन्तर्भावात् । भावसंयोगपदानि<sup>३</sup>, क्रोधी मानी मायावी लोभीत्यादीनि । न शीलसादृश्य-

आते हैं। असि, परशु इत्यादि द्रव्यसंयोगपदनाम नहीं हैं, क्योंकि, उनका आदानपदमें अन्तर्भाव होता है।

शंका—सहचारीपनेकी विवक्षामें असि, परशु आदिका संयोगपदनाममें अन्तर्भाव ही जायगा ?

समाधान—ऐसा नहीं है, क्योंकि, सहचारीपनेकी विवक्षा होने पर उनका नामपदमें अन्तर्भाव हो जाता है।

माथुर, चालभ, दाक्षिणात्य और औदीच्य इत्यादि क्षेत्रसंयोगपदनाम हैं, क्योंकि, माथुरा आदि क्षेत्रके संयोगसे माथुर आदि संज्ञापं व्यवहारमें आती हैं। जब माथुर आदि संज्ञापं नामरूपसे विवक्षित न हों तभी उनका क्षेत्रसंयोगपदमें अन्तर्भाव होता है, अन्यथा नहीं।

शारद, वासन्तक इत्यादि कालसंयोगपदनाम हैं, क्योंकि, शारद और वसन्त ऋतुके संयोगसे ये संज्ञापं व्यवहारमें आती हैं। किंतु वसन्त, शारद हेमन्त इत्यादि संज्ञाओंका कालसंयोगपदनामोंमें ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि, उनका नामपदमें अन्तर्भाव हो जाता है।

क्रोधी, मानी, मायावी और लोभी इत्यादि नाम भावसंयोगपद हैं, क्योंकि, क्रोध, मान, माया और लोभ आदि भावोंके निमित्तसे ये नाम व्यवहारमें आते हैं। किंतु जिनमें

सचित्ते गोहिं गोमिष्ट, महिषीहिं महिषष्ट, ऊर्णीहिं ऊर्णीष्ट, उट्टीहिं उट्टीवाले, से तं सचित्ते । से किं तं अचित्ते ? अचित्ते छत्तेण छत्ती, दंडेण दंडी, पडेण पडी, घडेण घडी, कडेण कडी से तं अचित्ते । से किं तं मीसष्ट ? मीसष्ट इलेणं हालिष्ट, सगडेणं, सागडिष्ट, रहेणं रहिष्ट, नावाष्ट नाविष्ट, से तं दव्व संजोगे । अनु. १, १२९.

१ से किं तं खेत्तसंजोगे ? भारहे, एरवष्ट, हेमष्ट, एरणवष्ट, हरिवासष्ट, रम्मगवासष्ट, देवकुसष्ट, उत्तरकुसष्ट, पुब्बविदेहष्ट अपरविदेहष्ट । अहवा मागहे, मालवष्ट, सौरष्ट, मरहष्ट, कुंकुणष्ट, से तं खेत्तसंजोगे । अनु. १, १३०.

२ से किं तं कालसंजोगे ? सुसमसुसमाष्ट, सुसमाष्ट, सुसमदुसमाष्ट, दुसमसुसमाष्ट, दुसमाष्ट, दुसमदुसमाष्ट । अहवा पावसष्ट, वासारत्तष्ट, सरदष्ट, हेमंतष्ट, वसंतष्ट, गिम्हष्ट, से तं कालसंजोगे । अनु. १, १३१.

३ से किं तं भावसंजोगे ? दुविहे पण्णत्ते, त जहा, पसत्थे अ अपसत्थे अ । से किं तं पसत्थे ? नाणेणं णाणी, धंसणेणं धंसणी, चरित्तेणं चरित्ती से तं पसत्थे । से किं तं अपसत्थे ? कोहेणं कोही, माणेणं माणी, मायाणं मायी, लोहेणं लोही से तं अपसत्थे, से तं भावसंजोगे । से तं संजोगेणं । अनु. १, १३२,

निवन्धनयमसिंहाग्निरावणादीनि नामानि तेषां नामपदेऽन्तर्भावात् । न चैतेभ्यो व्यतिरिक्तं नामास्त्यनुपलम्भात् ।

तत्थेदस्स जीवङ्गाणस्स णामं किं पदं ? जीवाणं ङ्गाण-वण्णादाओ जीवङ्गाणमिदि गोण्णपदं । मंगलादिसु छसु अहियारेसु वक्खाणिज्जमाणेसु णामं वुत्तमेव । पुणो किमिदं

स्वभावकी सदृशता कारण है ऐसी यम, सिंह, अग्नि और रावण आदि संज्ञाएं भावसंयोग-पदरूप नहीं हो सकती हैं, क्योंकि, उनका नामपदमें अन्तर्भाव होता है। उक्त दश प्रकारके नामोंसे भिन्न और कोई नामपद नहीं है, क्योंकि, व्यवहारमें इनके अतिरिक्त अन्य नाम नहीं पाये जाते हैं।

विशेषार्थ—यतिवृषभाचार्यने कपायप्राभृतमें नामके केवल छह भेद बताये हैं। वे ये हैं, गौण्यपद, नोगौण्यपद, आदानपद, प्रतिपक्षपद, अपचयपद और उपचयपद। ऊपर जो नामके दश भेद कह आये हैं। उनमेंसे, यहां पर अनादिसिद्धान्तसंबन्धी गुणसापेक्ष नामोंका गौण्यपद और आदानपदमें तथा गुणनिरपेक्ष नामोंका नोगौण्यपदमें अन्तर्भाव किया है। प्राधान्यपदनामोंका गौण्यपद और आदानपदमें अन्तर्भाव किया है। प्रमाणपदनामोंका गौण्य-पदमें नामपदनामोंका नोगौण्यपदमें और संयोगपदनामोंका आदानपदमें अन्तर्भाव किया है। अवयवपदनामोंका उपचितपदनाम और अपचितपदनामोंमें अन्तर्भाव हो ही जाता है।

शंका—उन पूर्वोक्त दश प्रकारके नामपदोंमें यह जीवस्थान कौनसा नामपद है ?

समाधान—जीवोंके स्थानोंका वर्णन करनेसे 'जीवस्थान' यह गौण्य नामपद है।

शंका—पहले मंगलादिक छह अधिकारोंका व्याख्यान करते समय नामपदका

१ णामं छव्विहं ॥ ३ ॥ ( कसायपाहुडचुणिसुत्तं ) गोण्णपदे णोगोण्णपदे आदानपदे पडिवक्खपदे अवचयपदे उवचयपदे चोदि । XXX पाधण्णपदणामाणं कथं तन्भावो ? वलाहकाए च बहुसु वण्णेसु संतेसु धवला वलाहका लोकाओ चि जो णामणिद्देसो सो गोण्णपदे णिवददि गुणमुहेण दव्वम्मि पउत्तिदंसणादो । कयंवणिन्नादि-अणगेसु रुक्खेसु तत्थ संतेसु जो एणेण रुक्खेण णिववणमिदि णिद्देसो सो आदानपदे णिवददि वणेणात्तरुक्खसंबधेणेदस्स पउत्तिदंसणादो । दव्वखेत्तकालभावसंजोयपदाणि रायासिधणुहरसुरलोकणयरभारहयअइरावयसायरवासंतयकोहीमाणी इच्चाईणि णामाणि वि आदानपदे चैव णिवदंति इदमेदस्स अत्थि एत्थ वा इदमत्थि चि विवक्खाए एदेसि णामाणं पवुत्तिदंसणादो । अवयवपदणामाणि अवचयउवचयपदणामेसु पविसंति, तेहिंतो तस्स भेदामावादो । सुअणासा कंबुग्गीवा कमलदलणयणा चंदमुही त्रिवोड्डी इच्चाईणि ततो वाहिराणि अत्थि चि चे णेदाणि णामाणि समासंतभूदइव-सदृथसंबधेण दव्वम्मि पउत्तीदो । अणादियसिद्धंतपदणामेसु जाणि अणादिगुणसंबंधमवेक्खिय पयट्टाणि जीवो णाणी चैयणात्रंतो चि ताणि गोण्णपदे आदानपदे च णिवदंति । जाणि णोगोण्णपदाणि ताणि णोगोण्णपदणामेसु णिवदंति । पमाणपदणामाणि वि गोण्णपदे चैव णिवदंति समाणस्स दव्वगुणत्तादो अरविदसंधस्स अरविदसण्णा णामपदा । सा च अणादियसिद्धंतपदणामेसु पविट्टा अणादिसरुवेण तस्स तत्थ पउत्तिदंसणादो । अणादियसिद्धंतपदणामाणं धम्मकालागास-जीवपुग्गलादीणं छप्पदंतन्भावो पुव्वं परुव्विदो चि णेदाणि परुव्विच्छेदे । तदो णामं दसविहं चैव होदि चि एयंतग्गहो ण वत्तव्वो, किंतु छव्विहं पि होदि चि घेत्तव्वं । जयथ, अ. पृ. ४-५.

गंथावदारे णांमं उच्चदि ति ? न, पूर्वोद्दिष्टस्य नाम्नोऽनेन पदान्वेषणात् ।

प्रमाणं पंचविहं द्रव्य-खेत्त-काल-भाव-णय-प्पमाण-भेदेहि । तत्थ द्रव्य-प्रमाणं संखेज्जमसंखेज्जमणंतयं चेदि । खेत्त-प्रमाणं एय-पदेसादि । काल-प्रमाणं समयावलियादि । भाव-प्रमाणं पंचविहं, आभिणिचोहियणाणं सुदणाणं ओहिणाणं मणपञ्जवणाणं केवलणाणं चेदि । णय-प्पमाणं सत्तविहं, णेगम-संगह-ववहारुज्जुसुद-सद्-समभिरूढ-एवंभूद-भेदेहि । अहवा णय-प्पमाणमणेयविहं—

जावदिया वयण-वहा तावदिया चैव होंति णय-वादा ।

जावदिया णय-वादा तावदिया चैव पर-समया ॥ ६७ ॥ इदि वयणादो ।

कथं नयानां प्रामाण्यं ? न, प्रमाणकार्याणां नयानामुपचारतः प्रामाण्याविरोधात् ।

व्याख्यान कर ही आये हैं, फिर यहां पर ग्रन्थके प्रारम्भमें नामपदका व्याख्यान किसलिये किया गया है ?

समाधान—ऐसा नहीं, क्योंकि, पूर्वमें कहे गये नामका दशप्रकारके नामपदोंमेंसे किसमें अन्तर्भाव होता है इसका इस कथनके द्वारा ही अन्वेषण किया है ।

द्रव्यप्रमाण, क्षेत्रप्रमाण, कालप्रमाण, भावप्रमाण और नयप्रमाणके भेदसे प्रमाणके पांच भेद हैं । उनमें, संख्यात असंख्यात और अनंत यह द्रव्यप्रमाण है । एक प्रदेश आदि क्षेत्रप्रमाण है । एक समय, एक आवली आदि कालप्रमाण है । आभिनिवोधिक ( मति ) ज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञानके भेदसे भावप्रमाण पांच प्रकारका है । नैगम, संग्रह, व्यवहार, क्रजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ और एवंभूतनयके भेदसे नयप्रमाण सात प्रकारका है । अथवा नयप्रमाण निम्न वचनके अनुसार अनेक प्रकारका भी समझना चाहिये ।

जितने भी वचन-मार्ग हैं, उतने ही नयवाद, अर्थात् नयके भेद हैं । और जितने नयवाद हैं, उतने ही परसमय हैं ॥ ६७ ॥

शंका—नयोंमें प्रमाणता कैसे संभव है, अर्थात् उनमें प्रमाणता कैसे आ सकती है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, नय प्रमाणके कार्य हैं, इसलिये उपचारसे नयोंमें प्रमाणताके मान लेनेमें कोई विरोध नहीं आता है ।

विशेषार्थ—शंकाकारका अभिप्राय यह है कि जब नय वस्तुके एक अंशमात्रको ग्रहण करता है सर्वांशरूपसे वस्तुको नहीं जानता है तब उसे प्रमाण कैसे माना जाय । इसका समाधान इसप्रकार किया गया है कि, यद्यपि केवल एक नय नय है प्रमाण नहीं है । किन्तु उनमें दूसरे नयोंकी अपेक्षा रहनेसे वे प्रमाणका कार्य करते हैं, इसलिये उपचारसे उनमें प्रमाणता आ जाती है ।

एत्थ इदं जीवड्डाणं एदेसु पंचसु पमाणेसु कदमं पमाणं ? भावपमाणं । तं पि पंचविहं, तत्थ पंचविहेसु भाव-पमाणेसु सुद-भाव-पमाणं । कर्तुनिरूपणया एवास्य प्रामाण्यनिरूपितमिति पुनरस्य प्रामाण्यनिरूपणमनर्थकमिति चेन्न, सामान्येन जिनोक्तत्वान्प्रधानुपपत्तितोऽवगतजीवस्थानप्रामाण्यस्य शिष्यस्य बहुषु भावप्रमाणेष्विदं जीवस्थानं श्रुतभावप्रमाणमिति ज्ञापनार्थत्वात् । अहवा पमाणं छविहं, नामस्थापनाद्रव्यक्षेत्रकालभावप्रमाणभेदात् । तत्थ णाम-पमाणं पमाण-सण्णा । डुवणा-पमाणं दुविहं, सवभाव-डुवणा-पमाण-मसवभाव-डुवणा-पमाणमिदि । आकृतिमति सद्भावस्थापना । अनाकृतिमत्यसद्भावस्थापना । दव्वपमाणं दुविहं आगमदो णोआगमदो य । आगमदो पमाण-पाहुड-जाणओ अणुवजुत्तो, संखेज्जासंखेज्जाणंत-भेद-भिण्ण-सद्दागमो वा । णोआगमो तिविहो, जाणुग-सरीरं भवियं तव्वदिरित्तमिदि । जाणुगसरीरं च भवियं च गयं । तव्वदिरित्त-दव्वं-पमाणं

शंका — उन पांच प्रकारके प्रमाणोंमेंसे ' जीवस्थान ' यह कौनसा प्रमाण है ?

समाधान — यह भावप्रमाण है ।

मतिज्ञानादिरूपसे भावप्रमाणके भी पांच भेद हैं । इसलिये उन पांच प्रकारके भाव-प्रमाणोंमेंसे इस जीवस्थान शास्त्रको श्रुतभावप्रमाणरूप जानना चाहिये ।

शंका — पहले कर्ताका निरूपण कर आये हैं इसलिये उसके निरूपण कर देनेसे ही इस शास्त्रकी प्रमाणताका निरूपण हो जाता है, अतः फिरसे उसकी प्रमाणताका निरूपण करना निरर्थक है ?

समाधान—ऐसा नहीं कहना चाहिये, क्योंकि, यह जीवस्थान शास्त्र प्रमाण है, अन्यथा वह जिनेन्द्रदेवका कहा हुआ नहीं हो सकता था । इसप्रकार सामान्यरूपसे इस जीवस्थान शास्त्रकी प्रमाणताका निश्चय करनेवाले शिष्यको बहुत प्रकारके भाव प्रमाणोंमेंसे यह जीवस्थान शास्त्र श्रुतभावप्रमाणरूप है, इसतरहसे विशेष ज्ञान करानेके लिये यहाँ पर इसकी प्रमाणताका निरूपण किया ।

अथवा, नामप्रमाण, स्थापनाप्रमाण, द्रव्यप्रमाण, क्षेत्रप्रमाण, कालप्रमाण और भाव-प्रमाणके भेदसे प्रमाण छह प्रकारका है ।

उनमें ' प्रमाण ' ऐसी संज्ञाको नामप्रमाण कहते हैं । सद्भावस्थापनाप्रमाण और असद्भावस्थापनाप्रमाणके भेदसे स्थापनाप्रमाण दो प्रकारका है । तदाकारवाले पदार्थोंमें सद्भावस्थापना होती है । और अतदाकारवाले पदार्थोंमें असद्भावस्थापना होती है । आगमद्रव्य-प्रमाण और नोआगमद्रव्यप्रमाणके भेदसे द्रव्यप्रमाण दो प्रकारका है । प्रमाणविषयक शास्त्रको जाननेवाले परंतु वर्तमानमें उसके उपयोगसे रहित जीवको आगमद्रव्यप्रमाण कहते हैं । अथवा, शब्दोंकी अपेक्षा संख्यातभेदरूप वक्ताओंकी अपेक्षा असंख्यातभेदरूप और तद्वाच्य अर्थकी अपेक्षा अनंतभेदरूप ऐसे शब्दरूप आगमको आगमद्रव्यप्रमाण कहते हैं । ज्ञायकशरीर, भावि और तद्ग्रथतिरिक्तके भेदसे नोआगमद्रव्यके तीन भेद समझने चाहिये ।

तिविहं, संखेज्जमसंखेज्जमणंतमिदि । खेत्त-काल-पमाणाणि पुव्वं व वत्तव्याणि । भाव-पमाणं पंचविहं, मदि-भाव-पमाणं सुद-भाव-पमाणं ओहि-भाव-पमाणं मणपञ्जव-भाव-पमाणं केवल-भाव-पमाणं चेदि । एत्थेदं जीवद्वानं भावदो सुद-भाव-पमाणं । दव्वदो संखेज्जासंखेज्जाणंत-सरुव-सद्-पमाणं ।

वत्तव्वदा तिविहा, ससमयवत्तव्वदा परसमयवत्तव्वदा तदुभयवत्तव्वदा चेदि । जम्हि सत्थम्हि स-समयो चेव वण्णिज्जदि परूविज्जदि पण्णाविज्जदि तं सत्थं ससमयवत्तव्वं, तस्स भावो ससमयवत्तव्वदा । पर-समयो मिच्छत्तं जम्हि पाहुडे अणियोगे वा वण्णिज्जदि परूविज्जदि पण्णाविज्जदि तं पाहुडमणियोगो वा परसमयवत्तव्वं, तस्स भावो पर-समयवत्तव्वदा णाम । जत्थ दो वि परूवेज्जण पर-समयो दूक्षिज्जदि स-समयो थाविज्जदि सा तदुभयवत्तव्वदा णाम भवदि । एत्थ पुण जीवद्वाने ससमयवत्तव्वदा ससमयस्तेव परूवणादो । अत्थाधियारो तिविहो, पमाणं पमेयं तदुभयं चेदि । एत्थ जीवद्वाने एक्को चेय अत्थाधियारो पमेय-परूवणादो । उवकमो गदो ।

उनमें, ज्ञायकशरीर और भावि नोआगमद्रव्यका वर्णन पहले कर आये । तद्व्यतिरिक्त-नोआगमद्रव्यप्रमाण संख्यातरूप, असंख्यातरूप और अनन्तरूप-भेदकी अपेक्षा तीन प्रकारका है । क्षेत्रप्रमाण और कालप्रमाणका वर्णन पहलेके समान ही करना चाहिये । मतिभावप्रमाण, श्रुतभाव-प्रमाण, अवधिभावप्रमाण, मनःपर्ययभावप्रमाण और केवलभावप्रमाणके भेदसे भावप्रमाण पांच प्रकारका है । इनमेंसे यह ' जीवस्थान ' नामका शास्त्र भावप्रमाणकी अपेक्षा श्रुतभावप्रमाणरूप है, और द्रव्यकी अपेक्षा संख्यात असंख्यात और अनन्तरूप शब्दप्रमाण है ।

वक्तव्यता तीन प्रकारकी है, स्वसमयवक्तव्यता, परसमयवक्तव्यता और तदुभयवक्तव्यता । जिस शास्त्रमें स्वसमयका ही वर्णन किया जाता है, प्ररूपण किया जाता है, अथवा विशेषरूपसे ज्ञान कराया जाता है उसे स्वसमयवक्तव्य कहते हैं, और उसके भावको अर्थात् उसमें रहनेवाली विशेषताको स्वसमयवक्तव्यता कहते हैं । परसमय मिथ्यात्वको कहते हैं । उसका जिस प्राभृत या अनुयोगमें वर्णन किया जाता है, प्ररूपण किया जाता है या विशेष ज्ञान कराया जाता है उस प्राभृत या अनुयोगको परसमयवक्तव्य कहते हैं, और उसके भावको अर्थात् उसमें होनेवाली विशेषताको परसमयवक्तव्यता कहते हैं । जहां पर स्वसमय और पर-समय इन दोनोंका निरूपण करके परसमयको दोषयुक्त दिखलाया जाता है और स्वसमयकी स्थापना की जाती है उसे तदुभयवक्तव्य कहते हैं और उसके भावको अर्थात् उसमें रहनेवाली विशेषताको तदुभयवक्तव्यता कहते हैं । इनमेंसे इस जीवस्थान शास्त्रमें स्वसमयवक्तव्यता ही समझनी चाहिये, क्योंकि, इसमें स्वसमयका ही निरूपण किया गया है ।

प्रमाण, प्रमेय और तदुभयके भेदसे अर्थाधिकारके तीन भेद हैं । उनमेंसे इस जीवस्थान शास्त्रमें एक प्रमेय-अर्थाधिकारका ही वर्णन है, क्योंकि, इसमें प्रमाणके विषयभूत प्रमेयका ही वर्णन किया गया है । इसतरह उपक्रमनामका प्रकरण समाप्त हुआ ।

णिकखेवो चउन्विहो णाम-द्ववणा-दव्व-भाव-जीवट्टाण-भेएण । णाम-जीवट्टाणं जीवट्टाण-सदो । द्ववण-जीवट्टाणं बुद्धीए समारोविय-जीवट्टाण-दव्वं । दव्व-जीवट्टाणं दुविहं आगम-णोआगम-भेएण । तत्थ जीवट्टाण-जाणओ अणुवजुत्तो आगम-दव्व-जीवट्टाणं । णोआगम-दव्व-जीवट्टाणं तिविहं जाणुगसरीर-भविय-तव्वदिरित्त-णोआगम-दव्व-जीवट्टाण-भेएण । आदिल्ल-दुगं सुगमं । तव्वदिरित्तं जीवट्टाणाहार-भूदागास-दव्वं । भाव-जीवट्टाणं दुविहं आगम-णोआगम-भेएण । आगम-भाव-जीवट्टाणं जीवट्टाण-जाणओ उवजुत्तो । णोआगम-भाव-जीवट्टाणं मिच्छाइट्टियादि-चोदस-जीव-समासा । एत्थ णो-आगम-भाव-जीवट्टाणं पयदं । णिकखेवो गदो ।

नयैर्विना लोकव्यवहारानुपपत्तेर्नया उच्यन्ते । तद्यथा, प्रमाणपरिगृहीतार्थैकदेशे वस्त्वध्यवसायो नयः । स द्विविधः, द्रव्यार्थिकः पर्यायार्थिकश्चेति । द्रोप्यत्यदुद्रुवत्तांस्तान्पर्यायानिति द्रव्यम्, द्रव्यमेवार्थः प्रयोजनमस्येति द्रव्यार्थिकः ।

नामजीवस्थान, स्थापनाजीवस्थान, द्रव्यजीवस्थान और भावजीवस्थानके भेदसे निक्षेप चार प्रकारका है । 'जीवस्थान' इसप्रकारकी संज्ञाको नामजीवस्थान कहते हैं । जिस द्रव्यमें बुद्धिसे जीवस्थानकी आरोपणा की हो उसे स्थापनाजीवस्थान कहते हैं । आगम-जीवस्थान और नोआगमजीवस्थानके भेदसे द्रव्यजीवस्थान दो प्रकारका है । उनमें, जीवस्थान शास्त्रके जाननेवाले किन्तु वर्तमानमें उसके उपयोगसे रहित जीवको आगमद्रव्यजीवस्थान कहते हैं । ज्ञायकशरीर, भावि और तद्व्यतिरिक्तके भेदसे नोआगमद्रव्यजीवस्थान तीन प्रकारका है । इनमेंसे, आदिके दो अर्थात् ज्ञायकशरीर और भावि सुगम हैं । जीवस्थानोंके अथवा जीवस्थान शास्त्रके आधारभूत आकाशद्रव्यको तद्व्यतिरिक्तनोआगमद्रव्यजीवस्थान कहते हैं । आगम और नोआगमके भेदसे भावजीवस्थान दो प्रकारका है । जीवस्थान शास्त्रके जाननेवाले और वर्तमानमें उसके उपयोगसे युक्त जीवको आगमभावजीवस्थान कहते हैं । और मिथ्यादृष्टि आदि चौदह जीवसमासोंको नोआगमभावजीवस्थान कहते हैं । इनमेंसे, इस जीवस्थान शास्त्रमें नोआगमभावजीवस्थान निक्षेप प्रकृत है । इसतरह निक्षेपका वर्णन हुआ ।

नयोंके विना लोकव्यवहार नहीं चल सकता है, इसलिये यहां पर नयोंका वर्णन करते हैं । इन नयोंका खुलासा इसप्रकार है, प्रमाणके द्वारा ग्रहण की गई वस्तुके एक अंशमें वस्तुका निश्चय करनेवाले ज्ञानको नय कहते हैं । वह नय द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिकके भेदसे दो प्रकारका है । जो भविष्यत् पर्यायोंको प्राप्त होगा और भूत पर्यायोंको प्राप्त हुआ था उसे द्रव्यः

१ अनिराकृतप्रतिपक्षां वस्त्वंशत्राही ज्ञातुरभिप्रायो नयः । प्र. क. मा. पृ. २०५.

२ द्रव्यं सामान्यमभेदोऽन्वय उत्सर्गोऽर्थो विषयो येषां ते द्रव्यार्थिकाः । पर्यायो विशेषो भेदो व्यतिरेकोऽपवादोऽर्थो विषयो येषां ते पर्यायार्थिकाः । लघीय. पृ. ५१.

३ द्रवति गच्छति तास्तान् पर्यायान् द्रूयते गम्यते तैस्तैः पर्यायैरिति वा द्रव्यम् । जयध. अं. पृ. २६. निजनिजप्रदेशतप्रैरखण्डवृत्त्या स्वभावविभावपर्यायान् द्रवति द्रोप्यत्यदुद्रुवच्चेति द्रव्यम् । आ. प. ८७.

परि भेदमेति गच्छतीति पर्यायः, पर्याय एवार्थः प्रयोजनमस्येति पर्याया-  
र्थिकः । तत्र द्रव्यार्थिकस्त्रिविधः, नैगमः संग्रहो व्यवहारश्चेति । विधिव्यतिरिक्त-  
प्रतिषेधानुपलम्भाद्विधिमात्रमेव तत्त्वमित्यध्यवसायः समस्तस्य ग्रहणात्संग्रहः । द्रव्य-  
व्यतिरिक्तपर्यायानुपलम्भाद् द्रव्यमेव तत्त्वमित्यध्यवसायो वा संग्रहः । संग्रहनयाक्षिप्ताना-  
मर्थानां विधिपूर्वकमवहरणं भेदनं व्यवहारः, व्यवहारपरतन्त्रो व्यवहारनय इत्यर्थः ।  
यदस्ति न तद् द्रव्यमातिलङ्घ्य वर्तत इति नैकगमो नैगमः, संग्रहासंग्रहस्वरूपद्रव्यार्थिको  
नैगम इति यावत् । एते त्रयोऽपि नयाः नित्यवादिनः स्वविषये पर्यायाभावतः सामान्य-

कहते हैं । द्रव्य ही जिसका अर्थ अर्थात् प्रयोजन हो उसे द्रव्यार्थिकनय कहते हैं । 'परि'  
अर्थात् भेदको जो प्राप्त होता है उसे पर्याय कहते हैं । वह पर्याय ही जिस नयका प्रयोजन हो  
उसे पर्यायार्थिकनय कहते हैं ।

द्रव्यार्थिक नयके तीन भेद हैं-नैगमनय, संग्रहनय और व्यवहारनय । विधि अर्थात्  
सत्ताको छोड़कर प्रतिषेध अर्थात् असत्ताकी प्राप्ति नहीं होती है, इसलिये विधिमात्र ही तत्व  
है । इसप्रकारके निश्चय करनेवाले नयको समस्तका ग्रहण करनेवाला होनेसे संग्रहनय कहते हैं ।  
अथवा, द्रव्यको छोड़कर पर्याय नहीं पाई जाती हैं, इसलिये द्रव्य ही तत्व है । इसप्रकारके निश्चय  
करनेवाले नयको संग्रहनय कहते हैं । संग्रहनयसे ग्रहण किये गये पदार्थोंके विधिपूर्वक भेद  
करनेको व्यवहार कहते हैं । उस व्यवहारके आधीन चलनेवाले नयको व्यवहारनय कहते हैं ।  
जो है वह उक्त दोनों अर्थात् संग्रह और व्यवहारको छोड़कर नहीं रहता है । इसतरह जो केवल  
एकको ही प्राप्त नहीं होता है, अर्थात् अनेकको प्राप्त होता है उसे नैगमनय कहते हैं । अर्थात्  
संग्रह और असंग्रहरूप जो द्रव्यार्थिक नय है वह ही नैगमनय है । ये तीनों ही नय नित्यवादी  
हैं, क्योंकि, इन तीनों ही नयोंका विषय पर्याय न होनेके कारण इन तीनों नयोंके विषयमें

१ प्रतिषु 'समनस्य' इति पाठः ।

२ सद्रूपतानतिक्रान्तस्वभावमिदं जगत् । सत्तारूपतया सर्वं संगृह्यन् संग्रहो मतः ॥ स. त. टी. पृ. ३११.  
स्वजात्यविरोधेनैकत्वमुपनीय पर्यायानाक्रान्तभेदानविशेषेण समस्तग्रहणात्संग्रहः । स. सि. १, ३३. स्वजात्यविरोधे-  
नैकत्वोपनयात्समस्तग्रहणं संग्रहः । त. रा. वा. १, ३३. एकत्वेन विशेषाणां ग्रहणं संग्रहो मतः । सजातिविरोधेन  
दृष्टेष्टान्यां कथंचन ॥ त. श्लो. वा. १, ३३, ४९.

३ स. सि. १, ३३. त. रा. वा. १, ३३. प्र. क. मां. पृ. २०५. संग्रहेण गृहीतानामर्थानां विधिपूर्वकः ।  
योऽवहारो विभागः स्याद्व्यवहारो नयः स्मृतः ॥ त. श्लो. वा. १, ३३, ५८. व्यवहारस्तु तामेव प्रातिवस्तु व्यवस्थिताम् ।  
तथैव दृश्यमानत्वाद् व्यवहारयति देहिनः ॥ स. त. टी. पृ. ३११.

४ अनभिनिवृत्तार्थसङ्कल्पमात्रग्राही नैगमः । स. सि. १, ३३. अर्थसङ्कल्पमात्रग्राही नैगमः । त. रा.  
वा. १, ३३. तत्र सङ्कल्पमात्रस्य ग्राहको नैगमो नयः । त. श्लो. वा. १, ३३. अनिष्पन्नार्थसङ्कल्पमात्रग्राही  
नैगमः । प्र. क. मां. पृ. २०५. अन्यदेव हि सामान्यमभिज्ञानकारणम् । विशेषोऽप्यन्य एवेति मन्यत निगमो  
नयः ॥ स. त. टी. पृ. ३११. नैकैर्निर्महासत्तासामान्यविशेषविशेषज्ञानैर्निर्मिता मिनोति वा नैकमः । निगमेपु वा

विशेषकालयोरभावात् ।

पर्यायार्थिको द्विविधः, अर्थनयो व्यञ्जननयश्चेति । द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिकनययोः किञ्चित्तो भेदश्चेदुच्यते, ऋजुसूत्रवचनविच्छेदो मूलाधारो येषां नयानां ते पर्यायार्थिकाः । विच्छिद्यतेऽस्मिन् काल इति विच्छेदः । ऋजुसूत्रवचनं नाम वर्तमानवचनं, तस्य विच्छेदः ऋजुसूत्रवचनविच्छेदः । स कालो मूल आधारो येषां नयानां ते पर्यायार्थिकाः । ऋजुसूत्रवचनविच्छेदादारभ्य आ एकसमयाद्दस्तुस्थित्यध्यवसायिनः पर्यायार्थिका इति यावत् ।

सामान्य और विशेषकालका अभाव है ।

विशेषार्थ—एवंभूतनयसे लेकर ऊपर ऋजुसूत्र नय तक पूर्व पूर्व नय सामान्य रूपसे और उत्तरोत्तर नय विशेषरूपसे वर्तमान कालवर्ती पर्यायको विषय करते हैं । इसप्रकार सामान्य और विशेष दोनों ही काल द्रव्यार्थिक नयके विषय नहीं होते हैं । इस विवक्षासे द्रव्यार्थिक नयके तीनों भेदोंको नित्यवादी कहा है । अथवा, द्रव्यार्थिक नयमें कालभेदकी विवक्षा दी नहीं है, इसलिये उसमें सामान्य और विशेषकालका अभाव कहा है ।

अर्थनय और व्यञ्जन ( शब्द ) नयके भेदसे पर्यायार्थिक नय दो प्रकारका है ।

शंका—द्रव्यार्थिकनय और पर्यायार्थिकनयमें किसप्रकार भेद है ?

समाधान—ऋजुसूत्रके प्रतिपादक वचनोंका विच्छेद जिस कालमें होता है, वह ( काल ) जिन नयोंका मूल आधार है वे पर्यायार्थिकनय हैं । विच्छेद अथवा अन्त जिस कालमें होता है उस कालको विच्छेद कहते हैं । वर्तमानवचनको ऋजुसूत्रवचन कहते हैं, और उसके विच्छेदको ऋजुसूत्रवचनविच्छेद कहते हैं । वह ऋजुसूत्रके प्रतिपादक वचनोंका विच्छेदरूप काल जिन नयोंका मूल आधार है उन्हें पर्यायार्थिकनय कहते हैं । अर्थात् ऋजुसूत्रके प्रतिपादक वचनोंके विच्छेदरूप समयसे लेकर एक समय पर्यन्त वस्तुकी स्थितिका निश्चय करनेवाले पर्यायार्थिकनय हैं । इन पर्यायार्थिक नयोंके अतिरिक्त शेष शुद्धाशुद्धरूप द्रव्यार्थिक

अर्थशोधेषु कुशलो भवो वा नैगमः । अथवा नैके गमाः पन्थानो यस्य स नैकेगमः । तत्रार्थं सर्वत्र सदित्येवमनुगता-  
कारावत्रोधेहेतुभूता महासत्तामिच्छति अनुवृत्तव्यावृत्तावबोधहेतुभूतं च सामान्यविशेषं द्रव्यत्वादि व्यावृत्तावबोधहेतुभूतं  
च नित्यद्रव्यवृत्तिमन्त्यं विशेषमिति । स्था. सू. पृ. ३७१. सिद्धसेनीयाः पुनः षडेव नयानभ्युपगतवन्तः, नैगमस्य  
संग्रहव्यवहारयोरन्तर्भावविवक्षणात् । तथाहि, यदा नैगमः सामान्यप्रतिपत्तिपरस्तदा स संग्रहेऽन्तर्भवति सामान्याभ्युपगम-  
परत्वात् विशेषाभ्युपगमनिष्ठस्तु व्यवहारे । आ. सू. पृ. ७.

१ द्रव्यमर्थः प्रयोजनमस्येति द्रव्यार्थिकः तद्बलक्षणसामान्येनाभिन्नसादृश्यलक्षणसामान्येन भिन्नमभिन्नं च  
वस्त्वभ्युपगच्छन् द्रव्यार्थिक इति यावत् । परि भेदं ऋजुसूत्रवचनविच्छेदं एति गच्छतीति पर्यायः । स पर्यायः अर्थः  
प्रयोजनमस्येति पर्यायार्थिकः सादृश्यलक्षणसामान्येन भिन्नमभिन्नं च द्रव्यार्थिकशेषप्रियं ऋजुसूत्रवचनविच्छेदेन पाठयन्  
पर्यायार्थिक इत्यवगन्तव्यः । अथ, अ. पृ. २७.



अपरे शुद्धाशुद्धद्रव्यार्थिकाः । तत्रार्थव्यञ्जनपर्यायैर्विभिन्नलिङ्गसंख्याकालकारकपुरुषो-  
पग्रहभेदैरभिन्नं वर्तमानमात्रं वस्त्वध्यवस्यन्तोऽर्थनयाः, न शब्दभेदेनार्थभेद इत्यर्थः ।  
व्यञ्जनभेदेन वस्तुभेदाध्यवसायिनो व्यञ्जननयाः । तत्रार्थनयः ऋजुसूत्रः । कुतः ?  
ऋजु प्रगुणं सूत्रयति सूचयतीति तत्सिद्धेः । नैगमसंग्रहव्यवहाराश्चार्थनया इति चेत्,  
सन्त्वेतेऽर्थनयाः अर्थव्यापृतत्वात्, किंतु न ते पर्यायार्थिकाः द्रव्यार्थिकत्वात् ।

व्यञ्जननयस्त्रिविधः, शब्दः समभिरूढ एवंभूत इति । शब्दपृष्ठतोऽर्थग्रहणप्रवणः

नय है । यही उनमें भेद है ।

उनमेंसे, अर्थपर्याय और व्यञ्जनपर्यायसे भेदरूप और लिंग, संख्या, काल, कारक,  
पुरुष और उपग्रहके भेदसे अभेदरूप केवल वर्तमान-समयवर्ती वस्तुके निश्चय करनेवाले नयोंको  
अर्थनय कहते हैं । यहां पर शब्दोंके भेदसे अर्थमें भेदकी विवक्षा नहीं है । व्यञ्जन ( शब्द ) के  
भेदसे वस्तुमें भेदको निश्चय करनेवाले नय व्यञ्जननय कहलाते हैं । इनमें, ऋजुसूत्र नयको  
अर्थनय समझना चाहिये । क्योंकि, ऋजु-सरल अर्थात् वर्तमान-समयवर्ती पर्यायमात्रको जो  
संग्रह करे अथवा सूचित करे उसे ऋजुसूत्र नय कहते हैं । इसतरह वर्तमान पर्यायरूपसे  
अर्थको ग्रहण करनेवाला होनेके कारण यह नय अर्थनय है, यह बात सिद्ध हो जाती है ।

शंका—नैगम, संग्रह और व्यवहारनय भी तो अर्थनय हैं, फिर यहां पर अर्थनयोंमें  
केवल ऋजुसूत्रनयका ही ग्रहण क्यों किया ?

समाधान—अर्थको विषय करनेवाले होनेके कारण वे भी अर्थनय हैं, इसमें कोई  
बाधा नहीं है । किंतु वे तीनों नय द्रव्यार्थिकरूप होनेके कारण पर्यायार्थिक नहीं है ।

व्यञ्जननय तीन प्रकारका है, शब्द, समभिरूढ और एवंभूत । शब्दको ग्रहण करनेके

१ तत्र शुद्धद्रव्यार्थिकः पर्यायकलङ्करहितः बहुभेदः संग्रहः । (-अशुद्ध-) द्रव्यार्थिकः पर्यायकलङ्काङ्कित-  
द्रव्यविषयः व्यवहारः । यदस्ति न तदद्रव्यमतिलङ्घ्यं वर्तते इति नैगमो नैगमः शब्दशीलकर्मकार्यकारणाधाराधेय-  
सहचारमानमेयोन्मेषभूतभविष्यवर्तमानादिकमाश्रित्य स्थितोपचारविषयः । जयध. अ. पृ. २७.

२ वस्तुनः स्वरूपं त्वधर्मभेदेन भिदानोऽर्थनयः । अभेदको वा, अभेदरूपेण सर्वं वस्तु इत्यति एति गच्छति  
इत्यर्थनयः । जयध. अ. पृ. २७.

३ ऋजुसूत्रवचनविच्छेदोपलक्षितस्य वस्तुनः वाचकभेदेन भेदको व्यञ्जननयः । जयध. अ. पृ. २७.

४ ऋजुं प्रगुणं सूत्रयति तन्त्रयति इति ऋजुसूत्रः । स. सि. १, ३३. सूत्रपातवदृजुसूत्रः । यथा ऋजुः  
सूत्रपातस्तथा ऋजु प्रगुणं सूत्रयति तन्त्रयति ऋजुसूत्रः । त. रा. वा. १, ३३. ऋजुसूत्रं क्षणध्वंसि वस्तु सत्सूत्रयेदृजु ।  
प्राधान्येन गुणीभावाद् द्रव्यस्थानर्पणास्ततः ॥ त. श्लो. वा. १, ३३, ६१. ऋजु प्राञ्जलं ( व्यक्तं ) वर्तमानक्षणमात्रं  
सूत्रयतीत्युजुसूत्रः । प्र. क. मा. पृ. २०५. तत्रुजुसूत्रनीतिः स्याच्छुद्धपर्यायसंश्रिता । नश्वरस्यैव भावस्य भावा स्थिति-  
वियोगतः ॥ अतीतानागताकारकालसंस्पर्शवर्जितम् । वर्तमानतया सर्वमृजुसूत्रेण सूच्यते ॥ स. त. टी. पृ. ३११-३१२.

शब्दनयः लिङ्गसंख्याकालकारकपुरुषोपग्रहव्यभिचारनिवृत्तिपरत्वात् । लिङ्गव्यभिचार-  
स्तावदुच्यते । स्त्रीलिङ्गे पुल्लिङ्गाभिधानं तारका स्वातिरिति । पुल्लिङ्गे स्त्र्यभिधानं  
अवगमो विद्येति । स्त्रीत्वे नपुंसकाभिधानं वीणा आतोद्यमिति । नपुंसके स्त्र्यभिधानं  
आयुधं शक्तिरिति । पुल्लिङ्गे नपुंसकाभिधानं पटो वस्त्रमिति । नपुंसके पुल्लिङ्गाभिधानं  
आयुधं परशुरिति । संख्याव्यभिचारः, एकत्वे द्वित्वं नक्षत्रं पुनर्वसू इति । एकत्वे  
बहुत्वं नक्षत्रं शतभिषज इति । द्वित्वे एकत्वं गोदौ ग्रामं इति । द्वित्वे बहुत्वं पुनर्वसू

याद् अर्थके ग्रहण करनेमें समर्थ शब्दनय है, क्योंकि, यह नय लिंग, संख्या, काल, कारक, पुरुष  
और उपग्रहके व्यभिचारकी निवृत्ति करनेवाला है ।

स्त्रीलिङ्गके स्थानपर पुल्लिङ्गका कथन करना और पुल्लिङ्गके स्थानपर स्त्रीलिङ्गका कथन  
करना आदि लिंगव्यभिचार है । जैसे, ' तारका स्वातिः ' स्वाति नक्षत्र तारका हैं । यहां पर  
तारका शब्द स्त्रीलिङ्ग और स्वाति शब्द पुल्लिङ्ग है । इसलिये स्त्रीलिङ्गके स्थानपर पुल्लिङ्ग  
कहनेसे लिंगव्यभिचार है । ' अवगमो विद्या ' ज्ञान विद्या है । यहां पर अवगम शब्द पुल्लिङ्ग  
और विद्या शब्द स्त्रीलिङ्ग है । इसलिये पुल्लिङ्गके स्थानपर स्त्रीलिङ्ग कहनेसे लिंगव्यभिचार  
है । ' वीणा आतोद्यम् ' वीणावाजा आतोद्य कहा जाता है । यहां पर वीणा शब्द स्त्रीलिङ्ग  
और आतोद्य शब्द नपुंसकलिङ्ग है । इसलिये स्त्रीलिङ्गके स्थानपर नपुंसकलिङ्गका कथन करनेसे  
लिंगव्यभिचार है । ' आयुधं शक्तिः ' शक्ति आयुध है । यहां पर आयुध शब्द नपुंसकलिङ्ग  
और शक्ति शब्द स्त्रीलिङ्ग है । इसलिये नपुंसकलिङ्गके स्थानपर स्त्रीलिङ्गका कथन करनेसे  
लिंगव्यभिचार है । ' पटो वस्त्रम् ' पट वस्त्र है । यहां पर पट शब्द पुल्लिङ्ग और वस्त्र शब्द नपुं-  
सकलिङ्ग है । इसलिये पुल्लिङ्गके स्थानपर नपुंसकलिङ्गका कथन करनेसे लिंगव्यभिचार है ।  
' आयुधं परशुः ' फरसा आयुध है । यहां पर आयुध शब्द नपुंसकलिङ्ग और परशु शब्द पुल्लिङ्ग  
है । इसलिये नपुंसकलिङ्गके स्थानपर पुल्लिङ्गका कथन करनेसे लिंगव्यभिचार है ।

एक वचनकी जगह द्विवचन आदिका कथन करना संख्याव्यभिचार है । जैसे, ' नक्षत्रं  
पुनर्वसू ' पुनर्वसू नक्षत्र है । यहां पर नक्षत्र शब्द एक वचनान्त और पुनर्वसू शब्द द्विवचनान्त  
है । इसलिये एकवचनके स्थानपर द्विवचनका कथन करनेसे संख्याव्यभिचार है । ' नक्षत्रं  
शतभिषजः ' शतभिषज नक्षत्र है । यहां पर नक्षत्र शब्द एकवचनान्त और शतभिषज शब्द  
बहुवचनान्त है । इसलिये एकवचनके स्थानपर बहुवचनका कथन करनेसे संख्याव्यभिचार है ।

१ लिङ्गसंख्यासाधनादिव्यभिचारनिवृत्तिपरः शब्दनयः । स. सि. १, ३३. शपत्यर्थमाह्वयति प्रत्यायतीति  
शब्दः । त. रा. वा. १, ३३. कालादिभेदतोऽर्थस्य भेदं यः प्रतिपादयेत् । सोऽत्र शब्दनयः शब्दप्रधानत्वादुदाहृतः ॥  
त. श्लो. वा. १, ३३, ६८. कालकारकलिङ्गसंख्यासाधनोपग्रहभेदाद्विभक्तमर्थं शपतीति शब्दो नयः । प्र. क. मा.  
पृ. २०६. विरोधिलिङ्गसंख्यादिभेदाद्विभक्तस्वभावताम् । तस्यैव मन्यमानोऽयं शब्दः प्रत्यवतिष्ठते ॥ स. त. टी. पृ. ३१३.

पञ्चतारका इति । बहुत्वे एकत्वं आम्राः वनमिति । बहुत्वे द्वित्वं देवमनुष्या उभौ राशी इति । कालव्यभिचारः, विश्वदृश्यास्य पुत्रो जनिता, भविष्यदर्थे भूतप्रयोगः । भावि कृत्यमासीदिति भूते भविष्यत्प्रयोग इत्यर्थः । साधनव्यभिचारः, ग्राममधिशेते इति । पुरुषव्यभिचारः, एहि मन्ये रथेन यास्यसि न हि यास्यसि यातस्ते पितेति । उपग्रह-

‘गोदौ ग्रामः’ गायोंको देनेवाले गांव हैं। यहां पर गोद शब्द द्विवचनान्त और ग्राम शब्द एकवचनान्त है। इसलिये द्विवचनके स्थानपर एकवचनका कथन करनेसे संख्याव्यभिचार है। ‘पुनर्वसू पञ्च तारकाः’ पुनर्वसू पांच तारे हैं। यहां पर पुनर्वसू द्विवचनान्त और पंचतारका शब्द बहुवचनान्त है। इसलिये द्विवचनके स्थानपर बहुवचनका कथन करनेसे संख्याव्यभिचार है। ‘आम्राः वनम्’ आमोंके वृक्ष वन हैं। यहां पर आम्र शब्द बहुवचनान्त और वन शब्द एकवचनान्त है। इसलिये बहुवचनके स्थानपर एकवचनका कथन करनेसे संख्याव्यभिचार है। ‘देवमनुष्या उभौ राशी’ देव और मनुष्य ये दो राशि हैं। यहां पर देव-मनुष्य शब्द बहुवचनान्त और राशि शब्द द्विवचनान्त है। इसलिये बहुवचनके स्थानपर द्विवचनका कथन करनेसे संख्याव्यभिचार है।

भविष्यत् आदि कालके स्थानपर भूत आदि कालका प्रयोग करना कालव्यभिचार है। जैसे, ‘विश्वदृश्यास्य पुत्रो जनिता’ जिसने समस्त विश्वको देख लिया है ऐसा इसके पुत्र होगा। यहां पर विश्वका देखना भविष्यत् कालका कार्य है, परंतु उसका भूतकालके प्रयोगद्वारा कथन किया गया है। इसलिये यहां पर भविष्यत् कालका कार्य भूतकालमें कहनेसे कालव्यभिचार है। इसीतरह ‘भावि कृत्यमासीत्’ आगे होनेवाला कार्य हो चुका। यहां पर भी भूतकालके स्थानपर भविष्यत् कालका कथन करनेसे कालव्यभिचार है।

एक साधन अर्थात् एक कारकके स्थानपर दूसरे कारकके प्रयोग करनेको साधनव्यभिचार कहते हैं। जैसे, ‘ग्राममधिशेते’ वह ग्राममें शयन करता है। यहां पर सप्तमी कारकके स्थानपर द्वितीया कारकका प्रयोग किया गया है, इसलिये यह साधनव्यभिचार है।

उत्तम पुरुषके स्थानपर मध्यम पुरुष और मध्यम पुरुषके स्थानपर उत्तम पुरुष आदिके

१ ये हि वैयाकरणव्यवहारान्यातुरोधेन ‘धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः’ इति सूत्रमारभ्य विश्वदृश्यास्य पुत्रो जनिता, भाविकृत्यमासीदित्यत्र कालभेदेऽप्येकपदार्थमाहता यो विश्वं दृश्यति सोऽपि पुत्रो जनितेति भविष्यत्कालेनातीतकालस्याभेदोऽभिमतः, तथा व्यवहारदर्शनादिति । तत्र यः परीक्षायाः मूलज्ञतेः कालभेदेऽप्यर्थस्याभेदेऽतिप्रसंगात् रावणशंखचक्रवर्तिनोरप्यतीतानागतकालयोरैकत्वापत्तेः । आसीद्वावणो राजा, शंखचक्रवर्ती भविष्यतीति शब्दयोर्मिन्नविषयत्वात् नैकार्थतेति चेत्, विश्वदृश्या जनितेत्यनयोरपि माभूत् तत एव । न हि विश्वं दृष्टवान् इति विश्वदृशि त्वेतिशब्दस्य योऽर्थोऽतीतकालस्य जनितेति शब्दस्यानागतकालः पुत्रस्य भाविनोऽतीतत्वविरोधात् । अतीतकालस्याप्यनागतत्वाव्यपरोपादेकार्थतामिप्रेतेति चेत् तर्हि न प(मार्थतः कालभेदेऽप्यभिन्नार्थव्यवस्था । त. श्लो. वा. पृ. २७२-२७३.

२ ‘एहि मन्ये रथेन यास्यसि, न हि यास्यसि, स यातस्ते पिता’ इति साधनभेदेपि पदार्थमभिन्नमाहताः “प्रहासे मन्य वावि युष्मन्मन्यते रस्मदेकवच्च” इति वचनात् । तदपि न श्रेयः परीक्षायां, अहं पचामि, त्वं पचसी-

व्यभिचारः; रमते विरमति, तिष्ठति संतिष्ठते, विशति निविशते इति । एवमादयो व्यभि-  
चारा न युक्ताः अन्यार्थस्यान्यार्थेन सम्बन्धाभावात् । ततो यथालिङ्गं यथासंख्यं यथा-  
साधनादि च न्याय्यमभिधानमिति ।

नानार्थसमभिरोहणात्समभिरूढः । इन्दनादिन्द्रः पूर्दारणात्पुरन्दरः शकनाच्छक्र  
इति भिन्नार्थवाचकत्वान्नैते एकार्थवर्तिनः । न पर्यायशब्दाः सन्ति भिन्नपदानामेकार्थ-

कथन करनेको पुरुषव्यभिचार कहते हैं । जैसे, 'एहि मन्ये रथेन यास्यसि नहि यास्यसि यातस्ते  
पिता' आओ, तुम समझते हो कि मैं रथसे जाऊंगा परंतु अब न जाओगे, तुम्हारा पिता  
चला गया । यहां पर 'मन्यसे' के स्थानपर 'मन्ये' यह उत्तमपुरुषका और 'यास्यामि' के  
स्थानपर 'यास्यसि' यह मध्यमपुरुषका प्रयोग हुआ है । इसलिये पुरुषव्यभिचार है ।

उपसर्गके निमित्तसे परस्मैपदके स्थानपर आत्मनेपद और आत्मनेपदके स्थानपर  
परस्मैपदके कथन कर देनेको उपग्रहव्यभिचार कहते हैं । जैसे, 'रमते' के स्थानपर 'विरमति'  
'तिष्ठति' के स्थानपर 'संतिष्ठते' और विशतिके स्थानपर 'निविशते' का प्रयोग किया  
जाता है ।

इसतरह जितने भी लिंग आदि व्यभिचार ऊपर दे आये हैं वे सभी अयुक्त हैं, क्योंकि,  
अन्य अर्थका अन्य अर्थके साथ संबन्ध नहीं हो सकता है । इसलिये समान लिंग, समान  
संख्या और समान साधन आदिका कथन करना ही उचित है ।

शब्दभेदसे जो नाना अर्थोंमें अभिरूढ होता है उसे समभिरूढ नय कहते हैं । जैसे,  
'इन्दनात्' अर्थात् परम ऐश्वर्यशाली होनेके कारण इन्द्र 'पूर्दारणात्' अर्थात् नगरोंका विभाग  
करनेवाला होनेके कारण पुरन्दर और 'शकनात्' अर्थात् सामर्थ्यवाला होनेके कारण शक्र । ये  
तीनों शब्द भिन्नार्थवाचक होनेसे इन्हें एकार्थवर्ती नहीं समझना चाहिये । इस नयकी दृष्टिमें  
पर्यायवाची शब्द नहीं होते हैं, क्योंकि, भिन्न पदोंका एक पदार्थमें रहना स्वीकार कर लेनेमें

एवमापि अस्मद्युष्मत्साधनाभेदेऽप्येकार्थत्वप्रसंगान् । त. श्लो. वा. पृ. २७३. तथा पुरुषभेदेऽपि नैकान्तिकं तद् वस्तु  
इति, 'एहि मन्ये' इत्यादि । इति च प्रयोगो न युक्तः, अपि तु 'एहि मन्यसे यथाहं रथेन यास्यामि' इत्यनेनैव  
परभावेनैतन्निर्देष्टव्यम् । स. त. पृ. ३१३. 'प्रहासे च मन्योपपदे मन्यतेरुत्तम एकवच ' पा. १, ४, १०६. 'एहि  
मन्ये रथेन यास्यसि, नहि यास्यसि यातस्ते पिता' इति प्रहासे यथाप्राप्तमेव प्रतिपत्तिः नात्र प्रसिद्धार्थविपर्यासे  
किञ्चिन्नियन्धनमस्ति, 'रथेन यास्यसि, इति भावगमनाभिधानात् प्रहासो गम्यते' । 'नहि यास्यसि' इति बहिर्गमनं  
प्रतिषिध्यते । अनेकस्मिन्नपि प्रहासितरि च प्रत्येकमेव परिहास इति अभिधानवशाद् 'मन्ये' इति एकवचनमेव ।  
लौकिकश्च प्रयोगोऽनुसर्तव्य इति न प्रकारान्तरकल्पना न्याया । 'त्रीणि त्रीणि अन्य-युष्मदस्मदि' हैम. ३, ३, १७.

१ स. सि. १, ३३. त. रा. वा. १, ३३. पर्यायशब्दभेदेन भिन्नार्थस्याधिरोहणात् । नयः समभिरूढः  
स्यात्पूर्ववच्चास्य निश्चयः ॥ त. श्लो. वा. १, ३३, ७६. नानार्थान् समेत्यामिपुरुषेण रूढः समभिरूढः । प्र. क. मा.  
पृ. २०६. तथाविधस्य तस्यापि वस्तुनः क्षणवृत्तिनः । वृत्ते समभिरूढस्तु संज्ञाभेदेन भिन्नताम् ॥ स. त. टी. पृ. ३१३.  
२ प्रतिपु 'न्येते' इति पाठः ।

वृत्तिविरोधात् । नाविरोधः पदानामेकत्वापत्तेरिति । नानार्थस्य भावः नानार्थतां तां समभिरूढत्वात्समभिरूढः ।

एवं भेदे भवनादेवम्भूतः<sup>१</sup> । न पदानां समासोऽस्ति भिन्नकालवर्तिनां भिन्नार्थवर्तिनां चैकत्वविरोधात् । न परस्परव्यपेक्षाप्यस्ति वर्णार्थसंख्याकालादिभिर्भिन्नानां पदानां भिन्नपदापेक्षायोगात् । ततो न वाक्यमप्यस्तीति सिद्धम् । ततः पदमेकमेकार्थस्य वाचकमित्यध्यवसायः एवंभूतनयः<sup>२</sup> । एतस्मिन्नये एको गोशब्दो नानार्थे न वर्तते एकस्यैकस्वभावस्य बहुषु वृत्तिविरोधात् । पदगतवर्णभेदाद्वाच्यभेदस्याध्यवसायकोऽप्येवम्भूतः ।

विरोध आता है । यदि भिन्न पदोंकी एक पदार्थमें वृत्ति हो सकती है इसमें कोई विरोध नहीं है, ऐसा मान लिया जावे तो समस्त पदोंको एकत्वकी आपत्ति आ जावेगी । इससे यह तात्पर्य निकला कि जो नय शब्दभेदसे अर्थमें भेद स्वीकार करता है उसे समभिरूढ नय कहते हैं । नाना पदार्थोंके भाव अर्थात् विशेषताको नानार्थता कहते हैं । और उस नानार्थताके प्रति जो अभिरूढ है उसे समभिरूढ नय कहते हैं ।

एवंभेद अर्थात् जिस शब्दका जो वाच्य है वह तद्रूप क्रियासे परिणत समयमें ही पाया जाता है । उसे जो विषय करता है उसे एवंभूत नय कहते हैं । इस नयकी दृष्टिसे पदोंका समास नहीं हो सकता है, क्योंकि, भिन्न भिन्न कालवर्ती और भिन्न भिन्न अर्थवाले शब्दोंमें एकपनेका विरोध है । इसीतरह शब्दोंमें परस्पर सापेक्षता भी नहीं है, क्योंकि, वर्ण, अर्थ, संख्या और कालादिकके भेदसे भेदको प्राप्त हुए पदोंके दूसरे पदोंकी अपेक्षा नहीं बन सकती है । जब कि एक पद दूसरे पदकी अपेक्षा नहीं रखता है तो इस नयकी दृष्टिमें वाक्य भी नहीं बन सकता

१ ' नानार्थसमभिरूढणात्समभिरूढः ' इति पाठमभिलक्ष्य निरुक्तेः सङ्गतिश्चिन्या ।

२ येनात्मना भूतस्तेनैवाध्यवसाययतीति एवंभूतः । स. सि. १, ३३. त. रा. वा. १, ३३. तत्क्रियापरिणामोऽर्थस्तथैवेति विनिश्चयात् । एवंभूतेन नीयेत क्रियान्तरपराङ्मुखः । त. श्लो. वा. १, ३३, ७५. एवमित्थं विवक्षितक्रियापरिणामप्रकारेण भूतं परिणतमर्थं योऽभिप्रेति स एवम्भूतो नयः । ( क्रियाश्रयेण भेदग्ररूपणमित्थम्भावोऽत्र । टिप्पणी ) प्र. क. मा. पृ. २०६. एकस्यापि ध्वनेर्वाच्यं सदा तन्नोपपद्यते । क्रियाभेदेन भिन्नत्वादेवंभूतोऽभिमन्यते ॥ स. त. टी. पृ. ३१४.

३ एवंभवनादेवंभूतः । अस्मिन्नये न पदानां समासोऽस्ति. स्वरूपतः कालभेदेन च भिन्नानामेकत्वविरोधात् । न पदानामेककालवृत्तिः समासः क्रमोत्पन्नानां क्षणक्षयिणां तदनुपपत्तेः । नैकार्थे वृत्तिः समासः, भिन्नपदानामेकार्थे वृत्त्यनुपपत्तेः । न वर्णसमासोऽप्यस्ति, तत्रापि पदसमासोक्तदोषप्रसंगात् । तत एक एव वर्णः एकार्थवाचक इति पदगतवर्णमात्रार्थः एकार्थः इत्येवंभूताभिप्रायवान् एवंभूतनयः । जयध. अ. पृ. २९. यत्क्रियाविशिष्टशब्देनोच्यते, तामेव क्रियां कुर्वद्भस्त्वेवंभूतमुच्यते । एवंशब्देनोच्यते चेष्टाक्रियादिकः प्रकारः, तमेवंभूतं प्राप्तमिति कृत्वा ततश्चैवंभूतवस्तुप्रतिपादको नयोऽप्युपचारादेवंभूतः । अथवा एवंशब्देनोच्यते चेष्टाक्रियादिकः प्रकारः, तद्विशिष्टस्यैव वस्तुनोऽप्युपगमात्तमेवंभूतः प्राप्त एवंभूत इत्युपचारमन्तरेणापि व्याख्यायते स एवंभूतो नयः । अ. रा. कोप. ( एवंभूत ) .

एवम्भूते समुत्पन्नत्वात् । एवमेते संक्षेपेण नयाः सप्तविधाः, अवान्तरभेदेन पुनरसंख्येयाः । एते च पुनर्व्यवहर्तृभिरवश्यमवगन्तव्याः अन्यथार्थप्रतिपादनावगमानुपपत्तेः । उक्तं च—

णत्थि णएहि विट्ठणं सुत्तं अत्थो व्व जिणवरमदग्धि ।

तो णय-वादे णिउणा मुणिणो सिद्धंतिया होत्ति<sup>१</sup> ॥ ६८ ॥

तम्हा अहिगय-सुत्तेण अत्थ-संपायणग्धि जइयव्वं ।

अत्थ-गई वि य णय-वाद-गहण-लीणा दुरहियम्मो ॥ ६९ ॥

एवं णय-परूवणा गदा । अणुगमं वत्तइस्सामो—

एत्तो इमेसिं चोदसण्हं जीव-समासाणं मग्गणट्टदाए तत्थ  
इमाणि चोदस चेष ट्ठाणाणि णायव्वाणि भवंति ॥ २ ॥

है यह बात सिद्ध हो जाती है । इसलिये एक पद एक ही अर्थका वाचक होता है । इसप्रकारके विषय करनेवाले नयको एवंभूतनय कहते हैं । इस नयकी दृष्टिमें एक गो शब्द नाना अर्थोंमें नहीं रहता है, क्योंकि, एकस्वभाववाले एक पदका अनेक अर्थोंमें रहना विरुद्ध है । अथवा, पदमें रहनेवाले वर्णोंके भेदसे वाच्यभेदका निश्चय करानेवाला भी एवंभूतनय है, क्योंकि, यह नय इसी रूपमें उत्पन्न होता है । इसतरह ये नय संक्षेपसे सात प्रकारके और अवान्तर भेदोंसे असंख्यात प्रकारके समझना चाहिये । व्यवहारकुशल लोगोंको इन नयोंका स्वरूप अवश्य समझ लेना चाहिये । अन्यथा, अर्थात् नयोंके स्वरूपको समझे बिना पदार्थोंके स्वरूपका प्रतिपादन और उसका ज्ञान अथवा पदार्थोंके स्वरूपके प्रतिपादनका ज्ञान नहीं हो सकता है । कहा भी है—

‘जिनेन्द्रभगवान्के मतमें नयवादके बिना सूत्र और अर्थ कुछ भी नहीं कहा गया है । इसलिये जो मुनि नयवादमें निपुण होते हैं वे सब्बे सिद्धान्तके ज्ञाता समझने चाहिये । अतः जिसने सूत्र अर्थात् परमागमको भलेप्रकार जान लिया है उसे ही अर्थसंपादनमें अर्थात् नय और प्रमाणके द्वारा पदार्थके परिज्ञान करनेमें प्रयत्न करना चाहिये, क्योंकि, पदार्थोंका परिज्ञान भी नयवादरूपी जंगलमें अन्तर्निहित है अतएव दुरधिगम्य अर्थात् जाननेके लिये कठिन है ॥ ६८, ६९ ॥ इसतरह नयप्ररूपणाका वर्णन समाप्त हुआ ।

अब अनुगमका निरूपण करते हैं ।

इस द्रव्यश्रुत और भावश्रुतरूप प्रमाणसे इन चौदह गुणस्थानोंके अन्वेषणरूप प्रयोजनके होने पर ये चौदह ही मार्गणास्थान जानने योग्य हैं ॥ २ ॥

१ नत्थि णएहि विट्ठणं सुत्तं अत्थो य जिणमए किंचि । आसज्ज उ सोयारं नए नयविसारओ वूआ ॥

आ. नि. ६६१.

१ सुत्तं अत्थनिर्मेणं न सुत्तमेत्तेण अत्थपडिमेत्ती । अत्थगई उण णयवायगहणलीणा दुरंभिग्गम्मा ॥ तम्हा अहिगयसुत्तेण अत्थसंपायणग्धि जइयव्वं । आयरियधीरहत्था हंदि महाणं विलंबेन्ति ॥ स. त. ३, ६४, ६५.

‘एतो’ एतस्मादित्यर्थः । कस्मात्, प्रमाणात् । कुत एतदवगम्यते ? प्रमाणस्य जीवस्थानस्याप्रमाणादवतारविरोधात् । नाजलात्मकहिमवतो निपतजलात्मकगङ्गाया व्यभिचारः अवयविनोऽवयवस्यात्र वियोगापायस्य विवक्षित्वात् । नावयविनोऽवयवो भिन्नो विरोधात् । तदपि प्रमाणं द्विविधं द्रव्यभावप्रमाणभेदान् । द्रव्यप्रमाणात् संख्येया-

‘एतो’ अर्थात् इससे ।

शंका—यहां पर ‘एतद्’ पदसे किसका ग्रहण किया है ?

सामधान—यहां पर ‘एतद्’ पदसे प्रमाणका ग्रहण किया है, इसलिये ‘इससे’ अर्थात् ‘प्रमाणसे’ ऐसा अभिप्राय समझना चाहिये ।

शंका--यह कैसे जाना, कि यहां पर ‘एतो’ पदका ‘प्रमाणसे’ यह अर्थ लिया गया है ?

समाधान—क्योंकि, प्रमाणरूप जीवस्थानका अप्रमाणसे अवतार अर्थात् उत्पत्ति नहीं हो सकती है, इससे यह जाना जाता है कि यहां पर ‘एतो’ इस पदमें स्थित ‘एतत्’ शब्दसे प्रमाणका ग्रहण किया गया है ।

यहां पर यदि कोई यह कहे कि कार्यमें कारणानुकूल ही गुणधर्म पाये जाते हैं, क्योंकि, वह कार्य है । इस अनुमानमें जो कार्यत्वरूप हेतु है, वह प्रमाणरूप कारणसे उत्पन्न हुए प्रमाणात्मक जीवस्थानरूप साध्यमें पाया जाता है, और अजलस्वरूप हिमवान्से उत्पन्न हुई जलात्मक गंगानदीरूप विपक्षमें भी पाया जाता है । अतएव इस कार्यत्वरूप हेतुके पक्षमें रहते हुए भी विपक्षमें चले जानेके कारण व्यभिचार दोष आता है । अतः यह कहना कि प्रमाणरूप जीवस्थानकी उत्पत्ति प्रमाणसे ही हुई है, संगत नहीं है । इस शंकाको मनमें निश्चय करके आचार्य आगे उत्तर देते हैं कि इसतरह अजलात्मक हिमवान्से निकलती हुई जलात्मक गंगानदीसे भी व्यभिचार दोष नहीं आता है, क्योंकि, यहां पर अवयवीसे वियोगापायरूप अर्थात् अवयवीसे संयोगको प्राप्त हुआ अवयव विवक्षित है । इसका कारण यह है कि अवयवीसे अवयव भिन्न नहीं है, क्योंकि, अवयवीसे अवयवको सर्वथा भिन्न मान लेनेमें विरोध आता है ।

विशेषार्थ—यद्यपि हिमवान् पर्वत अजलात्मक है । परंतु उस पर्वतके जिस भागसे गंगा नदी निकली है, वह भाग जलमय ही है । इसलिये यहां पर हिमवान् पर्वतसे उसका जलात्मक अवयव ग्रहण करना चाहिये । इससे, जो पहले व्यभिचार दोष दे आये हैं वह दोष भी नहीं आता है, क्योंकि, यहां पर हिमवान् पर्वतका जलात्मक भाग ही ग्रहण किया गया है, और उससे गंगा नदी निकली है । अतएव इसे विपक्ष न समझकर सपक्ष ही समझना चाहिये । इसतरह सिद्ध हो जाता है कि प्रमाणस्वरूप जीवस्थानकी उत्पत्ति प्रमाणसे ही हुई है ।

द्रव्यप्रमाण और भावप्रमाणके भेदसे वह प्रमाण दो प्रकारका है । द्रव्यप्रमाणकी अपेक्षा शब्द, प्रमातृ और प्रमेयके आलम्बनसे क्रमशः संख्यात, असंख्यात और अनंतरूप द्रव्यजीव-

संख्येयानन्तात्मकद्रव्यजीवस्थानस्यावतारः । भावप्रमाणं पञ्चविधम्, आभिनिबोहियभाव-  
प्रमाणं, सुदभावप्रमाणं ओहिभावप्रमाणं मणपञ्जवभावप्रमाणं केवलभावप्रमाणं चेदि ।

तत्थ आभिनिबोहियणाणं णाम पंचिदिय-णोइंदिएहि मदिणाणावरण-खयोवसमेण  
य जणिदोवग्गेहावाय-धारणाओ सद-परिस-रस-रूव-गंध-दिट्ठ-सुदाणुभूद-विसयाओ बहु-  
बहुविह-खिप्पाणिस्सिदाणुत्त-धुवेदर-भेदेण ति-सय-छत्तीसाओ । सुदणाणं णाम मदि-पुव्वं  
मदिणाण-पडिगहियमत्थं मोत्तूणणत्थमिह वावदं सुदणाणावरणीय-क्खयोवसम-जणिदं ।  
ओहिणाणं णाम दव्व-क्खेत्त-काल-भाव-वियप्पियं पोग्गल-दव्वं पच्चक्खं जाणदि ।  
दव्वोदो जहण्णेण जाणंतो एय जीवस्स ओरालिय-सरीर-संचयं लोगागास-पदेस-भेत्ते  
खंडे कदे तत्थेय-खंडं जाणदि । उक्कस्सेणेग-परमाणुं जाणदि । दोण्हमंतरालमजहण्णमणु-  
क्कस्सोही जाणदि । खेत्तदो जहण्णेणंगुलस्स असंखेज्जदि-भागं जाणदि । उक्कस्सेण असं-  
खेज्ज-लोगभेत्त-खेत्तं जाणदि । दोण्हमंतरालमजहण्णमणुक्कस्सोही जाणदि । कालदो

स्थानका अवतार हुआ है । भावप्रमाणके पांच भेद हैं, आभिनिबोधिकभावप्रमाण, श्रुतभाव-  
प्रमाण, अवधिभावप्रमाण, मनःपर्ययभावप्रमाण और केवलभावप्रमाण ।

उनमें पांच द्रव्येन्द्रिय और द्रव्यमनके निमित्तसे तथा मतिज्ञानावरण कर्मके क्षयोप-  
शमसे पैदा हुआ, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणारूप, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गन्ध और  
दृष्ट, श्रुत तथा अनुभूत पदार्थको विषय करनेवाला और बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिःसृत अनुक्त,  
ध्रुव, एक, एकविध, अक्षिप्र, निःसृत, उक्त और अध्रुवके भेदसे तिनसौ छत्तीस भेदरूप  
आभिनिबोधिक मतिज्ञान होता है ।

जिस ज्ञानमें मतिज्ञान कारण पड़ता है, जो मतिज्ञानसे ग्रहण किये गये पदार्थको  
छोड़कर तत्संबन्धित दूसरे पदार्थमें व्यापार करता है और श्रुतज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमसे  
उत्पन्न होता है उसे श्रुतज्ञान कहते हैं ।

द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके विकल्पसे अनेक प्रकारके पुद्गलद्रव्यको जो प्रत्यक्ष  
जानता है उसे अवधिज्ञान कहते हैं । यह ज्ञान द्रव्यकी अपेक्षा जघन्यरूपसे जानता हुआ एक  
जीवके औदारिक शरीरके संवयके लोकाकाशके प्रदेशप्रमाण खण्ड करने पर उनमेंसे एक खण्ड  
तकको जानता है । उत्कृष्टरूपसे, अर्थात् उत्कृष्ट अवधिज्ञान एक परमाणुतकको जानता है ।  
अजघन्य और अनुत्कृष्ट अर्थात् मध्यम अवधिज्ञान, जघन्य और उत्कृष्टके अन्तरालगत द्रव्य-  
भेदोंको जानता है । क्षेत्रकी अपेक्षा अवधिज्ञान जघन्यसे अंगुल, अर्थात् उत्सेधांगुलके असंख्या-  
तर्वे भागतक क्षेत्रको जानता है । उत्कृष्टसे असंख्यात लोकप्रमाणतक क्षेत्रको जानता है ।  
अजघन्य और अनुत्कृष्ट ( मध्यम ) अवधिज्ञान जघन्य और उत्कृष्टके अन्तरालगत क्षेत्रभेदोंको  
जानता है । अवधिज्ञान कालकी अपेक्षा जघन्यसे आवलीके असंख्यातर्वे भागप्रमाण भूत और  
भविष्यन् पर्यायोंको जानता है । उत्कृष्टसे असंख्यात लोकप्रमाण समयोंमें स्थित अतीत और



जहण्णेण आवलियाए असंखेज्जदि-भागे भूदं भविस्सं च जाणदि । उक्कस्सेण असंखेज्ज-  
लोगमेत्त-समएसु अदीदमणागयं च जाणदि । दोण्हं पि विच्चालमजहण्ण-अणुक्कस्सोही  
जाणदि । भावदो पुव्व-णिरूविद-दव्वस्स सत्तिं जाणदि ।

मणपज्जवणाणं णाम पर-मणो-गयाइं मुत्ति-दव्व्वाइं तेण मणेण सह पच्चक्खं जाणदि ।  
दव्वदो जहण्णेण एग-समय-ओरालिय-सरीर-णिज्जरं जाणदि ; उक्कस्सेण एग-समय-  
पडिबद्धस्स कम्मइय-दव्वस्स अणंतिम-भागं जाणदि । खेत्तदो जहण्णेण गाउव-पुधत्तं ।  
उक्कस्सेण माणुस-खेत्तस्संतो जाणदि, णो वहिद्धा । कालदो जहण्णेण दो तिण्णि भव-

अनागत पर्यायोंको जानता है । अजघन्य और अनुत्कृष्ट ( मध्यम ) अवधिज्ञान, जघन्य और  
उत्कृष्टके अन्तरालगत कालभेदोंको जानता है । भावकी अपेक्षा अवधिज्ञान द्रव्यप्रमाणसे पहले  
निरूपण किये गये द्रव्यकी शक्तिको जानता है ।

जो दूसरोंके मनोगत मूर्तोंके द्रव्योंको उस मनके साथ प्रत्यक्ष जानता है उसे मनः-  
पर्ययज्ञान कहते हैं । मनःपर्ययज्ञान द्रव्यकी अपेक्षा जघन्यरूपसे एक समयमें होनेवाले  
औदारिकशरीरके निर्जरारूप द्रव्यतकको जानता है । उत्कृष्टरूपसे कार्माणद्रव्यके अर्थात् आठ  
कर्मोंके एक समयमें बंधे हुए समयप्रवद्धरूप द्रव्यके अनन्त भागोंमेंसे एक भागतकको जानता  
है । क्षेत्रकी अपेक्षा जघन्यरूपसे गव्यूतिपृथक्त्व, अर्थात् दो, तीन कोस तक क्षेत्रको जानता है,  
और उत्कृष्टरूपसे मनुष्यक्षेत्रके भीतर तक जानता है; मनुष्यक्षेत्रके बाहिर नहीं जानता है ।  
( यहाँपर मनुष्यक्षेत्रसे प्रयोजन विष्कम्भरूप मनुष्यक्षेत्रसे है, वृत्तरूप मनुष्यक्षेत्रसे नहीं है । )  
कालकी अपेक्षा जघन्यरूपसे दो, तीन भवोंको ग्रहण करता है, और उत्कृष्टरूपसे असंख्यात

१ णोक्कमुदालसंचं मच्चिमजोगच्चियं सविस्सचयं । लोयविभत्तं जाणदि अवरोही दव्वदो णियमा ॥  
सुद्धिमणिगोढअपज्जत्तयस्स जादस्स तदियसमयम्मिह । अवरोगाहणमाणं जहण्णयं ओहिखेत्त तु ॥ आवलिअसंखभागं  
तीदंभविस्सं च कालदो अवरो । ओही जाणदि भावे कालअसंखेज्जभागं तु ॥ सव्वावहिस्स एको परमागू होदि  
णिच्चियप्पो सो । गंगामहाणइस्स पवाहो व्व धुवो हवे हारो ॥ परमोहिदव्वमेदा जेत्तियमेत्ता हु तेत्तिया होंति ।  
तस्सेव खेत्तकालवियप्पा विसया असंखगुणिककमा ॥ आवलिअसंखभागा जहण्णदव्वस्स होंति पज्जाया ।  
कालस्स जहण्णादो असंखगुणहीणमेत्ता हु ॥ सव्वोहि ति कम्मो आवलिअसंखभागगुणिककमा । दव्व्वाणं  
भावणं पदसंखा सरिसगा होंति ॥ गो. जी. ३७७, ३७८, ३८२, ४१५, ४१६, ४२२, ४२३.  
तथ दव्वओ णं ओहिनाणी जहण्णेणं अणंताइं रूविदव्व्वाइं जाणइ पासइ, उक्कोसेणं सव्वाइं रूविदव्व्वाइं जाणइ  
पासइ । खित्तओ णं ओहिनाणी जहण्णेणं अंगुलस्स असंखिज्जइभागं जाणइ पासइ, उक्कोसेणं असंखिज्जाइं  
अलोगे लोगप्पमाणमित्ताइं खंडाइं जाणइ पासइ । कालओ ण ओहिनाणी जहण्णेणं आवलिआए असंखिज्जइभागं जाणइ  
पासइ, उक्कोसेणं असंखिज्जाओ उस्सप्पिणीओ अवसप्पिणीओ अईयमणागयं च कालं जाणइ पासइ । भावओ णं  
ओहिनाणी जहण्णेणं अणंते भावे जाणइ पासइ, उक्कस्सेणं वि अणंते भावे जाणइ पासइ, सव्वभावाणमणंतभागं  
जाणइ पासइ । न. सू. १६.

गंहणाणि । उक्त्सेण असंखेज्जाणि भव-ग्गहणाणि जाणदि' । केवलणाणं णाम, सव्व-  
दव्वणि अदीदाणागय-वड्डमाणाणि सपज्जयाणि पच्चकखं जाणदि ।

एत्थ किमाभिणिवोहिय-पमाणादो, किं सुद-पमाणादो किमोहि-पमाणादो, किं  
मणपज्जव-पमाणादो, किं केवल-पमाणादो ? एवं पुच्छा सव्वेसिं । एवं पुच्छिदे णो  
आभिणिवोहिय-पमाणादो, णो ओहि-पमाणादो, णो मणपज्जव-पमाणादो । गंथं पडुच्च  
सुद-पमाणादो, अत्थदो केवल-पमाणादो ।

भवोंको ग्रहण करता है, अर्थात् जानता है । भावकी अपेक्षा मनःपर्यय ज्ञान द्रव्यप्रमाणसे पहले  
निरूपण किये गये द्रव्यकी शक्तिको जानता है ।

जो अतीत, अनागत और वर्तमान पर्यायोंसहित संपूर्ण द्रव्योंको प्रत्यक्ष जानता है उसे  
केवलज्ञान कहते हैं ।

यहांपर क्या आभिनिबोधिक प्रमाणसे प्रयोजन है, क्या श्रुतप्रमाणसे प्रयोजन है, क्या  
अवधिप्रमाणसे प्रयोजन है, क्या मनःपर्ययप्रमाणसे प्रयोजन है, अथवा क्या केवलप्रमाणसे  
प्रयोजन है ? इसतरह सबके विषयमें पृच्छा करनी चाहिये, और इसतरह पूंछे जानेपर,  
यहांपर न तो आभिनिबोधिकप्रमाणसे प्रयोजन है, न अवधिप्रमाणसे प्रयोजन है, और न  
मनःपर्ययप्रमाणसे प्रयोजन है, किंतु ग्रन्थकी अपेक्षा श्रुतप्रमाणसे और अर्थकी अपेक्षा केवल-

१ अत्र भावापेक्षया मनःपर्ययज्ञानस्य त्रिवयो नोपलभ्यते । अत्रं दव्वपुरालियसरारणिज्जिण्णसमयवद्वं  
तु । चर्त्तिसदियणिज्जिण्णं उक्त्सेण उज्जमदिस्स हवे ॥ मणदव्ववग्गमाणमणंतिमभागेण उज्जमउक्त्सेणं । खंदिदमेत्तं होदि  
हु विउलमदिस्सावरं दव्वं ॥ अट्टणहं कम्माणं समयवद्वं त्रिस्ससोवचयं । धुवहारेणिगिवारं मजिदे विदियं हवे दव्वं ॥  
तच्चिदियं कम्माणमसंखेज्जाणं च समयसंखसमं । धुवहारेणवहरिदे होदि हु उक्त्सेयं दव्वं ॥ गाउयपुधत्तमवरं उक्त्सेणं  
होदि जोयणपुधत्तं । विउलमदिस्स य अवरं तस्स पुधत्तं वरं खु णरलोयं ॥ णरलोए त्ति य वयणं विक्खंमणियामयं ण  
वट्टस्स । जम्हा तग्घणपदरं मणपज्जवखेत्तमुदिट्ठं ॥ दुगतिगमवा हु अवरं सत्तड्डमवा हवंति उक्त्सेणं । उडणवमवा हु  
अवरमसंखेज्जं विउलउक्त्सेणं ॥ आवलिअसंखभागं अवरं च वरं च वरमसंखगुणं । ततो असंखगुणिदं असंखलोणं तु  
विउलमदी ॥ गो. जी. ४५१-४५८. तत्थ दव्वओ णं उज्जुमई णं अणंते अणंतपएसिए खंथे जाणइ पासइ, तं चेव  
विउलमई अम्महियतराए विउलतराए विमुद्धतराए वितिमिरतराए जाणइ पासइ । खेत्तओ णं उज्जुमई अ जहन्नेणं  
अंगुलस्स असंखेज्जयमागं, उक्कोसेणं अहे जाव इमीसे रयणप्प भाए पुटवीए उवरिमहेट्टिल्ले खुड्डापपरं उड्डं जाव जोइसस्स  
उवरिमत्तले, तिरियं जाव अंतोमगुस्सखिते अड्डाइज्जेसु दीवसमुद्देसु पन्नरससु कम्मभूमिसु तीसाए अकम्मभूमिसु लप्पन्नाए  
अंतरदीवगेसु सन्निपंच्चिआणं पज्जत्तयाणं मणोगए भावे जाणइ पासइ । तं चेव विउलमई अड्डाइज्जेहिमंगुलेहिं  
अम्महिअतरं विउलतरं विमुद्धतरं वितिमिरतराणं खेतं जाणइ पासइ । कालओ णं उज्जुमई जहन्नेणं पलिओवमस्स  
असंखिज्जइभागं, उक्कोसेण वि पलिओवमस्स असंखिज्जइभागं अतीयमणागयं वा कालं जाणइ पासइ । तं चेव  
विउलमई अम्महियतराणं विउलतराणं विमुद्धतराणं वितिमिरतराणं जाणइ पासइ । भावओ णं उज्जुमई जहन्नेणं अणंते  
भावे जाणइ पासइ, उक्कोसेणं सव्वभावाणं अणंतमागं जाणइ पासइ । तं चेव विउलमई अम्महियतराणं विउलतराणं  
विमुद्धतराणं वितिमिरतराणं जाणइ पासइ । नं. सू. १८.

एत्थ पुञ्जाणुपुञ्जीए गणिज्जमाणे दब्ब-भाव-सुदं पडुच्च विदियादो, अत्थं पडुच्च पंचमादो केवलाणादो । पच्छाणुपुञ्जीए गणिज्जमाणे दब्ब-भाव-सुदं पडुच्च चउत्थादो सुद-पमाणादो । अत्थं पडुच्च पठमादो केवलादो । जत्थतत्थाणुपुञ्जीए गणिज्जमाणे सुदणाणादो केवलाणादो य । सुदणाणमिदि गुणणामं, अक्खर-पद-संघाद-पडिवत्ति-यादीहि संखेज्जमत्थदो अणंतं । एदस्स तदुभयवत्तव्वदा ।

अत्थाहियारो दुविहो, अंगवाहिरो अंगपइट्ठो चेदि । तत्थ अंगवाहिरस्स चोदस अत्थाहियारा । तं जहा, सामाइयं चउवीसत्थओ वंदणा पडिकमणं वेणइयं किदियम्मं दसवेयालियं उत्तरज्झयणं कप्पववहारो कप्पाकप्पियं महाकप्पियं पुंडरीयं महापुंडरीयं णिसिहियं चेदि । तत्थ जं सामाइयं तं णाम-ट्टवणा-दब्ब-क्खेत्त-काल-भावेसु समत्तं-विहाणं वणणेदि । चउवीसत्थओ चउवीसण्हं तित्थयराणं वंदण-विहाणं तण्णाम-संठाणुस्सेह-पंच-महाकल्लाण-चोत्तीस-अइसय-सरुवं तित्थयर-वंदणाए सहलत्तं च वणणेदि ।

प्रमाणसे प्रयोजन है, ऐसा उत्तर देना चाहिये ।

यहांपर पूर्वानुपूर्वीसे गणना करनेपर द्रव्यश्रुत और भावश्रुतकी अपेक्षा तो दूसरे श्रुतप्रमाणसे प्रयोजन है और अर्थकी अपेक्षा पांचवे केवलज्ञानप्रमाणसे प्रयोजन है । पश्चादानुपूर्वीसे गणना करनेपर द्रव्यश्रुत और भावश्रुतकी अपेक्षा चौथे श्रुतप्रमाणसे प्रयोजन है और अर्थकी अपेक्षा प्रथम केवलप्रमाणसे प्रयोजन है । यथातथानुपूर्वीसे गणना करनेपर श्रुतप्रमाण और केवलप्रमाण इन दोनोंसे प्रयोजन है ।

श्रुतज्ञान यह सार्थक नाम है । वह अक्षर, पद, संघात और प्रतिपत्ति आदिकी अपेक्षा संख्यातभेदरूप है और अर्थकी अपेक्षा अनन्त है ।

तीन वक्तव्यताओंमेंसे इस श्रुतप्रमाणकी तदुभयवक्तव्यता (स्वसमय-परसमयवक्तव्यता) जानना चाहिये ।

अर्थाधिकार दो प्रकारका है, अंगबाह्य और अंगप्रविष्ट । उन दोनोंमेंसे, अंगबाह्यके चौदह अर्थाधिकार हैं । वे इसप्रकार हैं, सामायिक, चतुर्विंशतिस्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, वैनयिक, कृतिकर्म, दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, कल्पव्यवहार, कल्प्याकल्प्य, महाकल्प्य, पुण्डरीक, महापुण्डरीक और निषिद्धिका । उनमेंसे, सामायिक नामका अंगबाह्य अर्थाधिकार नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव इन छह भेदों द्वारा समताभावके विधानका वर्णन करता है । चतुर्विंशतिस्तव अर्थाधिकार उस उस कालसंबन्धी चौबीस तीर्थंकरोंकी वन्दना करनेकी विधि, उनके नाम, संस्थान, उत्सेध, पांच महाकल्याणक, चौतीस अतिशयोंके स्वरूप और तीर्थंकरोंकी वन्दनाकी सफलताका वर्णन करता है ।

वंदणा एग-जिण-जिणालय-विसय-वंदणाए णिरवज्ज-भावं वण्णेइ । पडिक्कमणं कालं पुरिसं च अस्सिऊण सत्तविह-पडिक्कमणाणि वण्णेइ । वेणइयं णाण-दंसण-चरित्त-तवोवयार-विणए वण्णेइ । किदियम्मं अरहंत-सिद्ध-आइरिय-बहुसुद-साहूणं पूजा-विहाणं वण्णेइ । दसवेयालियं आयार-गोयरै-विहिं वण्णेइ । उत्तरज्झयणं उत्तर-पदाणि वण्णेइ । कप्प-

वन्दना नामका अर्थाधिकार एक जिनेन्द्रदेवसंबन्धी और उन एक जिनेन्द्रदेवके अवलम्बनसे जिनालयसंबन्धी वन्दनाका निरवद्यभावसे अर्थात् प्रशस्तरूपसे सांगोपांग वर्णन करता है। ( प्रमादकृत दैवसिक आदि दोषोंका निराकरण जिसके द्वारा किया जाता है उसे प्रतिक्रमण कहते हैं। वह दैवसिक, रात्रिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक, सांवत्सरिक, ऐर्यापथिक और औत्तमार्थिकके भेदसे सात प्रकारका है। ) इन सात प्रकारके प्रतिक्रमणोंका प्रतिक्रमण नामका अर्थाधिकार दुःषमादि काल और छह संहननसे युक्त स्थिर तथा अस्थिर स्वभाववाले पुरुषोंका आश्रय लेकर वर्णन करता है। वैनियक नामका अर्थाधिकार ज्ञानविनय, दर्शनविनय चारित्रविनय, तपविनय और उपचारविनय इसतरह इन पांच प्रकारकी विनयोंका वर्णन करता है। कृतिकर्म नामका अर्थाधिकार अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधुकी पूजाविधिका वर्णन करता है। विशिष्ट कालको विकाल कहते हैं। उसमें जो विशेषता होती है उसे वैकालिक कहते हैं। वे वैकालिक दश हैं। उन दश वैकालिकोंका दशवैकालिक नामका अर्थाधिकार वर्णन

१ प्रतिक्रम्यते प्रमादकृतदैवसिकादिदोषो निराक्रियते अनेनेति प्रतिक्रमणम् । तच्च दैवसिकरात्रिकपाक्षिक-चातुर्मासिकसांवत्सरिकैर्यापथिकौत्तमार्थिकभेदात्सप्तविधम् । भरतादिक्षेत्रं दुःषमादिकालं पदसंहननसमन्वितस्थिरास्थिरादि-पुरुषभेदांश्च आश्रित्य तत्प्रतिपादकं शास्त्रमपि प्रतिक्रमणम् । गो. जी., जी. प्र., टी. ३६७.

२ कृतेः क्रियायाः कर्म विधानं अस्मिन् वर्णयत इति कृतिकर्म । तच्च अहंस्तिद्धाचार्यबहुश्रुतसाध्वादिनव-देवतावंदनानिमित्तमात्माधीनताप्रादाक्षिण्यत्रिवारत्रिनतिचतुःशिरोद्वादशावर्तादिलक्षणनित्यनैमित्तिकक्रियाविधानं च वर्ण-यति । गो. जी., जी. प्र., टी. ३६७.

३ आचारो मोक्षार्थमनुष्ठानविशेषस्तस्य गोचरो विषय आचारगोचरः ( आचा० ७ अ. १ ड. ) आचारश्च ज्ञानादिविषयः पञ्चधा, गोचरश्च शिक्षाचर्येत्याचारगोचरं ज्ञानाचारादिके शिक्षाचर्यायां च ( नं. ) XXआचारः श्रुत-ज्ञानादिविषयमनुष्ठानं कालाध्ययनादि, गोचरो शिक्षाटनम्, एतयोः समाहारद्वन्द्वः आचारगोचरम् ( भ. २ श. १ ड. ) अमि. रा. को. ( आयारगोयर )

४ विशिष्टाः काला विकालास्तेषु भवानि वैकालिकानि दश वैकालिकानि वर्णयन्तेऽस्मिन्निति दशवैकालिकम् । तच्च मुनिजनानां आचरणगोचरविधिं पिण्डशुद्धिलक्षणं च वर्णयति । गो. जी., जी. प्र., टी. ३६७. तेषु दशाध्ययनेषु किमि-त्याह, पढे धम्मपसंसा सो य इहेव जिणसासणम्हि ति । विइए धिइए सका काउं जे एस धम्मो त्ति ॥ तइए आयारकहा उ खुड्डिया आयसंजमोवाओ । तह जीवसंजमो वि य होइ चउत्थम्मि अज्झयणे ॥ मिक्खविसोही तवसंजमंस्स गुणकारिया उ पंचमए । छेहे आयारकहा महई जोग्गा महयणस्स ॥ वयणविभत्ती पुण सत्तमम्मि पणिहाणमड्डमे भणियं । णवमे विणओ दसमे समाणियं एस मिक्खु त्ति ॥ अमि. रा. को. ( दसवेयालिय )

५ उत्तराणि अधीयंते पठ्यंते अस्मिन्निति उत्तराध्ययनम् । तच्च चतुर्विधोपसर्गाणां द्वाविंशतिपरीषहाणां च

ववहारो साहूणं जोगमाचरणं अकल्प-सेवणाए पायच्छित्तं च वण्णेइ । कप्पाकप्पियं साहूणं जं कप्पदि जं च ण कप्पदि तं सव्वं वण्णेदि । महाकप्पियं काल-संघडणाणि अस्सिऊण साहु-पाओग्ग-दव्व-खेत्तादीणं वण्णणं कुणइ । पुंडरीयं चउव्विह-देवेसुववाद-कारण-अणुट्टाणाणि वण्णेइ । महापुंडरीयं सयल्लिंद-पडिइंदे उप्पत्ति-कारणं वण्णेइ । गिसि-हियं बहुविह-पायच्छित्त-विहाण-वण्णणं कुणइ' ।

करता है । तथा वह मुनियोंकी आचारविधि और गोचरविधिका भी वर्णन करता है । जिसमें अनेक प्रकारके उत्तर पढ़नेको मिलते हैं उसे उत्तराध्ययन अर्थाधिकार कहते हैं । इसमें चार प्रकारके उपसर्गोंको कैसे सहन करना चाहिये? वाईस प्रकारके परीपहोंके सहन करनेकी विधि क्या है? इत्यादि प्रश्नोंके उत्तरोंका वर्णन किया गया है । कल्पव्यवहार साधुओंके योग्य आचरणका और अयोग्य आचरणके होने पर प्रायश्चित्तविधिका वर्णन करता है । कल्प्य नाम योग्यका है और व्यवहार नाम आचारका है । कल्प्याकल्प्य द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षा मुनियोंके लिये यह योग्य है और यह अयोग्य है, इसतरह इन सबका वर्णन करता है । महाकल्प्य काल और संहननका आश्रयकर साधुओंके योग्य द्रव्य और क्षेत्रादिकका वर्णन करता है । [ इसमें, उत्कृष्ट संहननादि-विशिष्ट द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावका आश्रय लेकर प्रवृत्ति करनेवाले जिनकल्पी साधुओंके योग्य त्रिकालयोग आदि अनुष्ठानका और स्थविरकल्पी साधुओंकी दीक्षा, शिक्षा, गणपोषण, आत्मसंस्कार, सल्लेखना आदिका विशेष वर्णन है । ] पुण्डरीक भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क और कल्पवासी इन चार प्रकारके देवोंमें उत्पत्तिके कारणरूप दान, पूजा, तपश्चरण, अकाम-निर्जरा, सम्यग्दर्शन, और संयम आदि अनुष्ठानोंका वर्णन करता है । महापुण्डरीक समस्त इन्द्र और प्रतीन्द्रोंमें उत्पत्तिके कारणरूप तपोविशेष आदि आचरणका वर्णन करता है । प्रमादजन्य दोषोंके निराकरण करनेको निषिद्धि कहते हैं, और इस निषिद्धि अर्थात् बहुत प्रकारके प्रायश्चित्तके प्रतिपादन करनेवाले शास्त्रको निषिद्धिका कहते हैं ।

सहनविधानं तत्फलं एवं प्रश्ने एवमुत्तरमित्युत्तरविधानं च वर्णयति । गो. जी., जी. प्र., टी. ३६७. कम उत्तरं पगयं आयाारस्सेव उवरिमाईं तु । तम्हा उ उत्तरा खलु अञ्जयणा हांति णायन्ना ॥ अमि. रा. को. ( उत्तरञ्जयण ) कानि तान्युत्तरपदानीति चेदुच्यते छतीं उत्तरञ्जयणा पण्णत्ता, तं जहा-१ विणयसुयं २ परीसहो ३ चारंगिज्जं ४ असंखयं ५ अकाममरणिज्जं ६ पुरिसविज्जा ७ उरन्मिज्जं ८ काविलियं ९ नमिपव्वज्जा १० दुमपत्तयं ११ बहुसुयपूजा १२ हरिणुसिज्जं १३ चित्तसंभूयं १४ उसुयारिज्जं १५ सामिक्खुणं १६ समाहिट्टाणाइं १७ पावसमणिज्ज १८ संजइज्जं १९ मिया-चारिया २० अणाहपव्वज्जा २१ समुदुपालिज्जं २२ रहनेमिज्जं २३ गोयमकेमिज्जं २४ समितीओ २५ जत्तित्जं २६ सामायारी २७ खलुंकिज्जं २८ मोक्खमग्गई २९ अप्पमाओ ३० तवोमग्गो ३१ चरणविही ३२ पमायट्टाणाइं ३३ कम्मपयडी ३४ लेसञ्जयणं ३५ अणगारमग्गो ३६ जीवाजीवविमत्ती य । सम. सू. ३६.

१ निषेधनं प्रमाददोषनिराकरणं निषिद्धिः संज्ञायां कप्रत्यये निषिद्धिका । तच्च प्रमाददोषविशुद्धवर्ध-  
नदुप्रकारं प्रायश्चित्तं वर्णयति । गो. जी., जी. प्र., टी. ३६८.

अंगप्रविष्टस्स अत्थाधियारो वारसविहो । तं जहा, आयारो सूदयदं ठाणं समवायो वियाहपण्णत्ती णाहधम्मकहा उवासयज्झयणं अंतयडदसा अणुत्तरोववादिदसा पण्हवायरणं विवागसुत्तं दिट्ठिवादो चेदि । एत्थायारंगमट्टारह-पद-सहस्सेहि १८०००—

कथं चरे कथं चिहे कथमासे कथं सए ।

कथं भुंजेज भासेज कथं पावं ण बज्झई ॥ ७० ॥

जदं चरे जदं चिहे जदमासे जदं सए ।

जदं भुंजेज भासेज एवं पावं ण बज्झई ॥ ७१ ॥

एवमादियं मुणीणमायारं वण्णेदिं ।

सूदयदं णाम अंगं छत्तीस-पय-सहस्सेहि ३६००० णाणविणय-पण्णावणा-कप्पाकप्प-च्छेदोवट्टावण-व्यवहारधम्मक्रियारियाओ परूवेइ ससमय-परसमय-सरूवं च परूवेइ ।

अंगप्रविष्टके अर्थाधिकार वारह प्रकारके हैं । वे ये हैं, आचार, सूत्रकृत, स्थान, समवाय, व्याख्याप्रज्ञप्ति, नाथधर्मकथा, उपासकाध्ययन, अंतःकृद्दशा, अनुत्तरौपपादिकदशा, प्रश्नव्याकरण, विपाकसूत्र और दृष्टिवाद । इनमेंसे, आचारांग अठारह हजार पदोंके द्वारा—

किसप्रकार चलना चाहिये ? किसप्रकार खड़े रहना चाहिये ? किसप्रकार बैठना चाहिये ? किसप्रकार शयन करना चाहिये ? किसप्रकार भोजन करना चाहिये ? किसप्रकार संभाषण करना चाहिये और किसप्रकार पापकर्म नहीं बंधता है ? (इसतरह गणधरके प्रश्नोंके अनुसार) यत्नसे चलना चाहिये, यत्नपूर्वक खड़े रहना चाहिये, यत्नसे बैठना चाहिये, यत्नपूर्वक शयन करना चाहिये, यत्नपूर्वक भोजन करना चाहिये, यत्नसे संभाषण करना चाहिये । इसप्रकार आचरण करनेसे पापकर्मका बंध नहीं होता है ॥ ७०-७१ ॥ इत्यादि रूपसे मुनियोंके आचारका वर्णन करता है ।

सूत्रकृतांग छत्तीस हजार पदोंके द्वारा ज्ञानविनय, प्रज्ञापना, कल्प्याकल्प्य, छेदोपस्थापना और व्यवहारधर्मक्रियाका प्ररूपण करता है । तथा यह स्वसमय और परसमयका भी निरूपण

१ मूलाचा. १०१२, १०१३. दशवे. ४. ७, ८.

२ आयारे णं समणाणं आयार-गोयर-विणय-वेणइय-ट्टाण-गमण-चंक्रमण-पमाण-जोग-जुंजण-भासा-सामिति-शुत्ती-सेज्जीवहि-भत्त-पाण-उगम-उपायण-एसणा-विसोहि-सुद्धासुद्धागहण-वय-णियम-तत्रोवहाण-सुप्पसंथमाहिज्जइ । सम. सू. १३६.

३ सुअगडे णं ससमया सूइज्जंति, परसमया सूइज्जंति, ससमयपरसमया सूइज्जंति X X । सूअगडे णं जीवाजीव-गुण-पापासव-संवर-णिज्जरण-बंध-मोक्खावसाणा पयत्था सूइज्जंति समणाणं अचिरकाल-पव्वइयाणं कुसमय-मोह-मोहमइ-मोहियाणं सदेह-जाय-सहजजुद्धि-परिणाम-समइयाण पावकरमलिन-मइ-गुण-विसोहणत्थं असीअस्स किरि-यावाइयसयस्स चउरोसीए अकिरियावार्हणं सत्तट्ठीए अण्णाणियवार्हणं वत्तीसाए वेणइयवार्हणं तिण्हं तेवट्ठीणं अण-दिट्ठियसयाणं वूहं किच्चा ससमए ठाविज्जंति XXX । सम. सू. १३७.

ठाणं णामं अंगं वायालीस-पद-सहस्रसेहि ४२००० एगादि-एगुत्तर-ट्टाणाणि वण्णेदि' ।  
तस्सोदाहरणं—

एको चैत्र महप्पो सो दुवियप्पो ति-लक्खणो भणित्थो ।

चदु-संकमणा-जुत्तो पंचग-गुण-प्पहाणो य ॥ ७२ ॥

छक्कावक्कम-जुत्तो कमसो सो सत्त-भंगि-सध्मावो ।

अट्टासवो णवट्टो जीवो दस-टाणियो भणियो' ॥ ७३ ॥

करता है । स्थानांग व्यालीस हजार पदोंके द्वारा एकको आदि लेकर उत्तरोत्तर एक एक अधिक स्थानोंका वर्णन करता है । उसका उदाहरण—

महात्मा अर्थात् यह जीव द्रव्य निरन्तर चैतन्यरूप धर्मसे उपयुक्त होनेके कारण उसकी अपेक्षा एक ही है । ज्ञान और दर्शनके भेदसे दो प्रकारका है । कर्मफलचेतना, कर्मचेतना और ज्ञानचेतनासे लक्ष्यमान होनेके कारण तीन भेदरूप है । अथवा उत्पाद, व्यय और भ्रौव्यके भेदसे तीन भेदरूप है । चार गतियोंमें परिभ्रमण करनेकी अपेक्षा इसके चार भेद हैं । आदयिक आदि पांच प्रधान गुणोंसे युक्त होनेके कारण इसके पांच भेद हैं । भवान्तरमें संक्रमणके समय पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर और नीचे इसतरह छह संक्रमलक्षण अपक्रमोंसे युक्त होनेकी अपेक्षा छह प्रकारका है । अस्ति, नास्ति इत्यादि सात भंगोंसे युक्त होनेकी अपेक्षा सात प्रकारका है । ज्ञानावरणादि आठ प्रकारके कर्मोंके आश्रयसे युक्त होनेकी अपेक्षा आठ प्रकारका है । अथवा ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंका तथा आठ गुणोंका आश्रय होनेकी अपेक्षा आठ प्रकारका है । जीवादि नौ प्रकारके पदार्थोंको विषय करनेवाला, अथवा जीवादि नौ प्रकारके पदार्थोंरूप परिणमन करनेवाला, होनेकी अपेक्षा नौ प्रकारका है । पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, प्रत्येकवनस्पतिकायिक, साधारणवनस्पतिकायिक, द्वीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजाति, चतुरिन्द्रियजाति और पंचेन्द्रियजातिके भेदसे दश स्थानगत होनेकी अपेक्षा दश प्रकारका कहा गया है ॥ ७२-७३ ॥

१ ठाणे णं दव्व-गुण-खेत्त-काल-पञ्जव-पयत्थाणं XX एकविह्वत्तध्वयं दुविह जावें दसविह्वत्तध्वयं जीवाणं पोमलाणं य लोगट्टाईं च णं परुवणया आघविज्जंति XX । सम. सू. १३८.

२ पञ्चा. ७१, ७२. संग्रहणयेन एक एवात्मा । व्यवहारणयेन संसारी मुक्तश्चेति द्विविकल्पः । उत्पादव्यय-भ्रौव्ययुक्त इति त्रिलक्षणः । कर्मवशात् चतुर्गतिषु संक्रामतीति चतुःसंक्रमणयुक्तः । औपशमिकक्षायिकक्षायोपशमिकौ-दयिकपारिणामिकभेदेन पंचविशिष्टधर्मप्रधानः । पूर्वदक्षिणपश्चिमोत्तरोर्ध्वाधोगतिभेदेन संसारावस्थायां षट्कोपक्रमयुक्तः । स्यादस्ति स्यात्नास्ति XX इत्यादिसप्तभंगीसद्भावेऽप्युपयुक्तः । अष्टविधकर्माश्रययुक्तत्वादष्टास्रवः । नवजीवाजीवास्रव-बंधसंवरनिर्जरासोक्षपुण्यपापरूपा अर्थाः पदार्थाः विषयाः यस्य स नवार्थः । पृथिव्यसेजोवायुप्रत्येकसाधारणद्वित्रिचतुः-पंचेन्द्रियभेदाद् दशस्थानकः । गो. जी., जी. प्र., टी. ३५६.

समवायो णाम अंगं चउसट्ठि-सहस्सब्भहिय-एग-लक्ख-पदेहि १६४००० सव्व-  
पयत्थाणं समवायं वण्णेदिं । सो वि समवायो चउच्चिहो, दव्व-खेत्त-काल-भावसमवायो  
चेदि । तत्थ दव्वसमवायो धम्मत्थिय-अधम्मत्थिय-लोगागास-एगजीवपदेसा च समा ।  
खेत्तदो सीमंतणिरय-माणुसखेत्त-उडुविमाण-सिद्धिखेत्तं च समा । कालदो समयो  
समएण मुहुत्तो मुहुत्तेण समो । भावदो केवलणणं केवलदंसणेण समं णेयप्पमाणं णाण-  
मेत्त-चेयणोवलंभादो । वियाहपण्णती णाम अंगं दोहि लक्खेहि अट्ठावीस-सहस्सेहि  
पदेहि २२८००० किमत्थि जीवो, किं णत्थि जीवो, इच्चेवमाइयाइं सट्ठि-त्रायरण-सह-  
स्साणि परूवेदिं । णाहधम्मकहा णाम अंगं पंच-लक्ख-छप्पण सहस्स-पदेहि ५५६०००

समवाय नामका अंग एक लाख चौसठ हजार पदोंके द्वारा संपूर्ण पदार्थोंके समवायका  
वर्णन करता है, अर्थात् सादृश्यसामान्यसे द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षा जीवादि  
पदार्थोंका ज्ञान कराता है। वह समवाय चार प्रकारका है, द्रव्यसमवाय, क्षेत्रसमवाय, काल-  
समवाय और भावसमवाय। उनमेंसे, द्रव्यसमवायकी अपेक्षा धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय,  
लोकाकाश और एक जीवके प्रदेश समान हैं। क्षेत्रसमवायकी अपेक्षा प्रथमनरकके प्रथम  
पटलका सीमन्तक नामका इन्द्रक बिल, ढाई द्वीपप्रमाण मनुष्यक्षेत्र, प्रथमस्वर्गके प्रथम पटलका  
ऋजु नामका इन्द्रक विमान और सिद्धक्षेत्र समान हैं। कालकी अपेक्षा एक समय एक समयके  
बराबर है और एक मुहूर्त एक मुहूर्तके बराबर है। भावकी अपेक्षा केवलज्ञान केवलदर्शनके  
समान ज्ञेयप्रमाण है, क्योंकि, ज्ञानप्रमाण ही चेतनाशक्तिकी उपलब्धि होती है। व्याख्या-  
प्रज्ञप्ति नामका अंग दो लाख अट्ठाईस हजार पदोंद्वारा क्या जीव है? क्या जीव नहीं है?  
इत्यादिक रूपसे सौठ हजार प्रश्नोंका व्याख्यान करता है। नाथधर्मकथा अथवा ज्ञातृधर्मकथा  
नामका अंग पांच लाख छप्पन हजार पदोंद्वारा सूत्रपौरुषी अर्थात् सिद्धान्तोक्त विधिसे

१ समवाएणं एकाइयाणं एगट्ठाणं एगुत्तरियपरिवुट्ठीए दुवालसंगस्स य गणिपिडगस्स पल्लवग्गे समणु-  
गाइज्जइ, ठाणगसयस्स वारसविहवित्थरस्स सुयणाणस्स जगजीवहियस्स भगवओ समातेणं समयारे आहिज्जति ।  
तत्थ य णाणाविहप्पगारा जीवाजीवा य वण्णिया वित्थरेण अवरे वि अ बहुविहा विसेसा नरग-तिरिय-मणुअ-सुरगणाणं  
आहारस्सासलेसाआवाससंखआययप्पमाणउववायचवणउग्गहणोवहिवेयणविहाणउवओगजोगइंदियकसाय विविहा य  
जीवजोणी विक्खंभुस्सेहपरिरयप्पमाणं विहिविसेसा य मंदरादाणं महीधराणं कुलगरतिथगराणहराणं सम्मत्तभरहाहिवान  
चक्कीणं चैव चकहरहलहराण य वासाण य णिग्गमा य समाए एणु अण्णे य एवमाइ एत्थ वित्थरेणं अत्था समा-  
हिज्जति ×× । सम. सू. १२९.

२ वियाहेणं नाणाविहसुरनरिंदरायरिसिविविहसंसइअपुच्छियाणं जिणेणं वित्थरेणं भासियाणं दव्वगुणखेत्तकाल-  
पज्जवपदेसपरिणामजहच्छिद्धियभावअणुगमाणिकखेवणयप्पमाणसुनिउणोवक्कमविविहप्पकारपगडपयासियाणं ××× छत्तीस  
सहस्समणूणयाणं वागरणाणं दंसणाओ ××× पण्णविज्जति । सम. सू. १४०.

३ नाथः त्रिलोकेश्वरानां स्वामी तीर्थकरपरमभद्रारकः तस्य धर्मकथा जीवादिवस्तुस्वभावकथनं, प्रातिकर्मक्षया-



सुत्त-पेरिसीसु' तित्थयराणं धम्म-देसणं गणहरदेवस्स जाद-संसयस्स संदेह-छिदण-विहाणं,  
बहुविह-कहाओ उवकहाओ च वणणेदि । उवासयज्झयणं णाम अंगं एकारस-लख-  
सत्तरि-सहस्स-पदेहि ११७००००—

दंसण-वद-सामाइय-पोसह-सच्चित्त-राइभत्ते य ।

वम्हारंभ-परिगह-अणुमण-उद्धि-देसविरदी य ॥ ७४ ॥

इदि एकारस-विह-उवासगाणं लखणं तेसिं चैव वदारोवण-विहाणं तेसिमाचरणं  
च वणणेदि । अंतयडदसा णाम अंगं तेवीस-लख-अट्ठावीस-सहस्स-पदेहि २३२८०००

स्वाध्यायकी प्रस्थापना हो इसलिये, तीर्थकरोंकी धर्मदेशनाका, सन्देहको प्राप्त गणधरदेवके  
सन्देहको दूर करनेकी विधिका तथा अनेक प्रकारकी कथा और उपकथाओंका वर्णन करता है।  
उपासकाध्ययन नामका अंग ग्यारह लाख सत्तर हजार पदोंके द्वारा दर्शनिक, व्रतिक,  
सामायिकी, प्रोवधोपवासी, सच्चित्तविरत, रात्रिभुक्तिविरत, ब्रह्मचारी, आरम्भविरत, परिग्रह-  
विरत, अनुमतिविरत और उद्धिष्टविरत इन ग्यारह प्रकारके श्रावकोंके लक्षण, उन्हींके व्रत  
धारण करनेकी विधि और उनके आचरणका वर्णन करता है। अन्तकृद्दशा नामका अंग तेवीस  
लाख अट्ठाईस हजार पदोंके द्वारा एक एक तीर्थकरके तीर्थमें नानाप्रकारके दारुण उपसर्गोंको  
सहनकर और प्रतिहार्य अर्थात् अतिशय विशेषोंको प्राप्तकर निर्वाणको प्राप्त हुये दश दश अन्त-

नन्तरकेवलज्ञानसहोत्पन्नतीर्थकरत्वपुण्यातिशयविजृम्भितमहिम्नः तीर्थकरस्य पूर्वाह्नमध्याह्नपराह्णार्धरात्रेषु पट्पट्टिका-  
काष्ठपर्यंत द्वादशगणसमामध्ये स्वभावतो दिव्यध्वनिरुद्गच्छति अन्यकालेऽपि गणधरशक्रचक्रधरप्रश्नानन्तरं चोद्भवति ।  
एवं समुद्भूतो दिव्यध्वनिः समस्तासन्नश्रोत्रुगणाद्युद्भिद्य उत्तमज्ञमादिलक्षणं रत्नत्रयात्मकं वा धर्मं कथयति । अथवा  
ज्ञातुर्गणधरदेवस्य जिज्ञासमानस्य प्रश्नानुसारेण तद्गुतरवाक्यरूपा धर्मकथा तत्पृष्टास्तित्वनास्तित्वादिस्वरूपकथनम् ।  
अथवा ज्ञातृणां तीर्थकरगणधरशक्रचक्रधरादीनां धर्मानुबंधिकयोपकथाकथनं नाथधर्मकथा ज्ञातृधर्मकथा नाम वा षष्ट-  
संगम् । गो. जी., जी. प्र., टी. ३५६. गायधम्मकहासु णं गायणं णगराई उज्जाणाई चेइयाई वणखंडा रायाणो  
अम्मापियरो समोसरणाई धम्मायरिया धम्मकहाओ इहलोइयपरलोइअइड्डिविसेसा भोगपरिच्चाया पच्चज्जाओ  
सुयपरिगहातवोवहाणाई परियागा संलेहणाओ भत्तपच्चक्खाणाई पाओवगमणाई देवलोगगमणाई सुकूलपच्चायाई पुण-  
वोहिलामा अंतकिरियाओ य आघविज्जंति XX । सम. सू. १४१.

१ सुत्तपेरिसी-सूत्रपौरुपी सिद्धान्तोक्तविधिना स्वाध्यायप्रस्थापनम् । अभि. रा. कौ.

२ गो. जी. ४७७.

३ उवासगदसासु णं उवासयाणं रिद्धिविसेसा परिसा । वित्थरधम्मसवणाणि त्रीहिलाभ-अभिगम-सम्मत्त-  
विस्सुद्धया थिरत्तं मूलगुण-उत्तरगुणाइयारा ठिईविसेसा य बहुविसेसा पडिमाभिगहग्गहण-पालणा उवसग्गाहियासणा  
णिरुवसग्गा य तत्रा य विचित्ता सीलव्वयगुणवेरमणपच्चक्खाणपोसहोववासा अपच्छिमभारणंतिया य संलेहणाओसणाहिं  
अप्याणं जह य भावइत्ता XX कम्पवरविमाणुत्तमेसु अणुभवन्ति XX अर्णोवमाईं सीक्खाईं । एते अन्ने य एवमाइ-  
अथा वित्थरेण य XX आघविज्जंति । सम. सू. १४२.

एकेकम्हि य तित्थे दारुणे बहुविहोवसग्गे सहिऊण पाडिहेरं लडूण णिन्वाणं गदे दस दस वण्णेदि । उक्तं च तत्त्वार्थभाष्ये—संसारस्यान्तः कृतो यैस्तेऽन्तकृतः नमि-मतङ्ग सोमिल-रामपुत्र-सुदर्शन-यमलीक-वलीक-किष्किविल-पालम्वाएपुत्रा इति एते दश वर्द्धमान-तीर्थकर-तीर्थे । एवमृपभादीनां त्रयोविंशतेस्तीर्थेष्वन्येऽन्ये, एवं दश दशानगाराः दारु-णानुपसर्गाभिर्जित्य कृत्स्नकर्मक्षयादन्तकृतो दशास्यां वर्ण्यन्त इति अन्तकृद्दशा । अणुत्तरो-ववादिदसा णाम अंगं वाणउदि-लक्ख-चोयाल-सहस्स-पदेहि ९२४४००० एकेकम्हि य तित्थे दारुणे बहुविहोवसग्गे सहिऊण पाडिहेरं लडूण अणुत्तर-विमाणं गदे दस दस वण्णेदि । उक्तं च तत्त्वार्थभाष्ये—उपपादो जन्म प्रयोजनमेपां त इमे औपपादिकाः,

कृतकेवलियोंका वर्णन करता है, तत्त्वार्थभाष्यमें भी कहा है—

जिन्होंने संसारका अन्त किया उन्हें अन्तकृतकेवली कहते हैं । वर्द्धमान तीर्थकरके तीर्थमें नमि, मतंग, सोमिल, रामपुत्र, सुदर्शन, यमलीक, वलीक, किष्किविल, पालम्ब; अष्टपुत्र ये दश अन्तकृतकेवली हुए हैं । इसीप्रकार ऋषभदेव आदि तेवीस तीर्थकरोंके तीर्थमें और दूसरे दश दश अनगार दारुण उपसर्गोंको जीतकर संपूर्ण कर्मोंके क्षयसे अन्तकृतकेवली हुए । इन सबकी दशाका जिसमें वर्णन किया जाता है उसे अन्तकृद्दशा नामका अंग कहते हैं ।

अनुत्तरौपपादिकदशा नामका अंग दानवे लाख चवालीस हजार पदोंद्वारा एक एक तीर्थमें नानाप्रकारके दारुण उपसर्गोंको सहकर और प्रातिहार्य अर्थात् अतिशयविशेषोंको प्राप्त करके पांच अनुत्तर विमानोंमें गये हुए दश दश अनुत्तरौपपादिकोंका वर्णन करता है । तत्त्वार्थभाष्यमें भी कहा है—

उपपादजन्म ही जिनका प्रयोजन है उन्हें औपपादिक कहते हैं । विजय, वैजयन्त,

१ “ संसारस्यान्तः कृतो यैस्तेऽन्तकृतः नमिमतंगसोमिलरामपुत्रसुदर्शनयमवाल्मीकवलीकनिष्कंबलपालंबष्ट-पुत्रा इत्येते दश वर्द्धमानतीर्थकरतीर्थे । ” त. रा. वा. पृ. ५१. ‘ वलीक ’ स्थाने ‘ वलिक ’ पाठः ‘ किष्किविल ’ स्थाने ‘ किष्कविल ’ पाठः । गो. जी, जी. प्र., टी. ३५७. “ अंतगडदसाणं दस अज्झयणा पणत्ता । तं जहा, णमि १ मातंगे २ सोमिले ३ रामयुत्ते ४ सुदंसणे ५ चेव । जमाली ६ त भगाली त ७ किंकेमे ८ पच्छतेतिय ९ ॥ फाले अंबडपुत्ते त १० एमेते दस आहिता ॥ एतानि च नमीत्यादिकान्यन्तकृत्साधुनामानि अन्तकृद्दशाङ्गधम्मवर्गेऽध्य-यनसंग्रहे नोपलभ्यन्ते, यतस्तत्राभिधीयते—‘ गीयम १ समुद् २ सागर ३ गंभीरे ४ चेव होइ धिमिए ५ य । अयले ६ कपिं ७ खड्डु अक्खोम ८ पसेणइ ९ त्रिणइ १० ॥ ततो वाचनान्तरापेक्षाणि इमानीति संभावयामः । न च जन्मान्तरनामापेक्षया एतानि भविष्यन्तीति वाच्यं, जन्मान्तराणां तत्र अनभिधीयमानत्वादिति । स्था. सू. ७५४. ( टीका ).

२ अंतगडदसाणं अंतगडाणं नगराई XX समोसरणा धम्मायरिया, धम्मकहा X X पच्चज्जाओ, XX जियपरीसहाणं चउच्चिहकम्मक्खयम्मि जह केवलस्स लंभो परियाओ, जत्तिओ य जह पालिओ णिणिहिं पायोवगओ य जां जहिं जत्तियाणि भत्ताणि छेअइत्ता अंतगडे णिणिवरो X X मोक्खसुखं च पत्ता एए अने य एवसाइअत्था तित्थारणं परुवेइ । सम. सू. १४३.

विजय-त्रैजयन्त-जयन्तापराजित-सर्वार्थसिद्धारूपाणि पंचानुत्तराणि । अनुत्तरेष्वौपपादिकाः अनुत्तरौपपादिकाः, ऋषिदास-धन्य-सुनक्षत्र-कार्तिकेयानन्द-नन्दन-शालिभद्राभय-वारिषेण-चिलातपुत्रा इत्येते दश वर्द्धमानतीर्थकरतीर्थे । एवमृषभदीनां त्रयोविंशतेस्तीर्थेष्वन्येऽन्ये एवं दश दशानगाराः दारुणानुपसर्गाच्चिर्जित्य विजयाद्यनुत्तरेषूत्पन्नाः इत्येवमनुत्तरौपपादिकाः दशास्यां वर्ण्यन्त इत्यनुत्तरौपपादिकदशां । पण्हायरणं णाम अंगं तेणउदिलक्ख-सोलह-सहस्स-पदेहि ९३१६००० अक्खेवणी णिक्खेवणी संवेयणी णिव्वेयणी

जयन्त, अपराजित और सर्वार्थसिद्धि ये पांच अनुत्तर विमान हैं । जो अनुत्तरोंमें उपपादजन्मसे पैदा होते हैं, उन्हें अनुत्तरौपपादिक कहते हैं । ऋषिदास, धन्य, सुनक्षत्र, कार्तिकेय, आनन्द, नन्दन, शालिभद्र, अभय वारिषेण और चिलातपुत्र ये दश अनुत्तरौपपादिक वर्द्धमान तीर्थकरके तीर्थमें हुए हैं । इसीतरह ऋषभनाथ आदि तेर्वास तीर्थकरोंके तीर्थमें अन्य दश दश महासाधु दारुण उपसर्गोंको जितकर विजयादिक पांच अनुत्तरोंमें उत्पन्न हुए । इसतरह अनुत्तरोंमें उत्पन्न होनेवाले दश साधुओंका जिसमें वर्णन किया जावे उसे अनुत्तरौपपादिकदशा नामका अंग कहते हैं ।

प्रश्नव्याकरण नामका अंग तेरानवे लाख सोलह हजार पदोंके द्वारा आपेक्षणी, विक्षेपणी, संवेदनी और निर्वेदनी इन चार कथाओंका तथा ( भूत, भविष्यत् और वर्तमानकाल-संबन्धी धन, धान्य, लाभ, अलाभ, जीवित, मरण, जय और पराजय संबन्धी प्रश्नोंके पूछनेपर उनके ) उपायका वर्णन करता है ।

१ ' कार्तिकेय नन्द ' इति पाठः । त. रा. वा. पृ. ५१. ' कार्तिकेय नन्द ' इति पाठः गां. जी., जी. प्र., टी. ३५७.

२ अणुत्तरोववाइयदसासु णं अणुत्तरोववाइयाणं × × × तित्थकरसमोसरणाइ परमंगज्जगाहियाणि जिणात्तिसेसा य बहुविसेसा जिणसीसाणं चैव समणगणपवरगंधहत्थीणं × × अणगारमहरिसाणं वण्णओ××अवसेसकम्मत्रिसयविरत्ता नरा जहा अब्भुवेत्ति धम्मपुरालं संजमं तवं चावि बहुविहप्पगारं जह वड्ढणि वासाणि अणुचरित्ता आराहियनाणदंसणचरित्तजोगा ×× जे य जहिं जत्तियाणि मत्ताणि छेअइत्ता लद्धूण य समाहिमुत्तमज्झाणजोगजुत्ता उववन्ना मुणिवरोत्तमा जह अणुत्तरेसु पावंति जह अणुत्तरं तत्थ त्रिसयसोक्खं तओ य चुआ कमेण काहिंति संजया जहा य अंतकिरियं एए अवे य एवमाइअत्था वित्थरेण ×× आषविज्जंति सम. सू. १४४. ईसिदासे य १ धण्णे त २ सुणक्खत्ते य ३ कात्तिते ४ । सट्ठाणे ५ सालिभदे त ६, आणदे ७ तेतली ८ तित । दसन्नमदे ९ अत्तिमुत्ते. १० एमेते दस आहिया ॥ ' अणुत्तरो ' इत्यादि, इह च त्रयो वर्गास्तत्र तृतीयवर्गे दृश्यमानाध्ययनैः कैश्चित्सह साम्यमस्ति, न सर्वैः । यतस्तत्र तु दृश्यते ' धन्यश्च सुनक्षत्रः ऋषिदासश्चाख्यातः पेरुको रामपुत्रश्चन्द्रमाः प्रोष्टक इति ॥ १ ॥ पेढालुपुत्रोऽनगारः पोट्टिलश्च विहल्लः दशम उक्तः, एवमेते आख्याता दश ॥ २ ॥ तदेवमिहापि वाचनान्तरापेक्षयाऽध्ययनविभाग उक्तो न पुनरुपलभ्यमानवाचनापेक्षयेति । स्था. सू. ७५५. ( टीका )

चेदि चउच्चिहाओ कहाओ वण्णेदि<sup>१</sup> । तत्थ अवखेवणी<sup>२</sup> णाम छद्द्व-णव-पयत्थाणं सरुव्वं दिगंतर-समयांतर-णिराकरणं सुद्धिं करेती परूवेदि । विक्खेवणी<sup>३</sup> णाम पर-समएण स-समयं दूसंती पच्छा दिगंतर-सुद्धिं करेती स-समयं थावंती छद्द्व-णव-पयत्थे परूवेदि । संवेयणी<sup>४</sup> णाम पुण्ण-फल-संकहा । काणि पुण्ण-फलाणि ? तित्थयर-गणहर-रिसि-चक्खवट्ठि-वलदेव-वासुदेव-सुर-विज्जाहरिद्धीओ । णिव्वेयणी<sup>५</sup> णाम पाव-फल-संकहा । काणि पाव-फलाणि ? णिरय-तिरिय-कुमाणुस-जोणीसु जाइ-जरा-मरण-वाहि-वेयणा-दालिदादीणि । संसार-सरीर-भोगेसु वेरगुप्पाइणी णिव्वेयणी णाम । उक्तं च—

जो नाना प्रकारकी एकान्त दृष्टियोंका और दूसरे समयोंका निराकरणपूर्वक शुद्धि करके छह द्रव्य और नौ प्रकारके पदार्थोंका प्ररूपण करती है उसे आक्षेपणी कथा कहते हैं । जिसमें पहले परसमयके द्वारा स्वसमयमें दोष बतलाये जाते हैं । अनन्तर परसमयकी आधारभूत अनेक एकान्त दृष्टियोंका शोधन करके स्वसमयकी स्थापना की जाती है और छह द्रव्य नौ पदार्थोंका प्ररूपण किया जाता है उसे विक्षेपणी कथा कहते हैं । पुण्यके फलका वर्णन करनेवाली कथाको संवेदनी कथा कहते हैं ।

शंका — पुण्यके फल कौनसे हैं ?

समाधान—तीर्थंकर, गणधर, ऋषि, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, देव और विद्या-धरोंकी ऋद्धियां पुण्यके फल हैं ।

पापके फलका वर्णन करनेवाली कथाको निर्वेदनी कथा कहते हैं ।

शंका — पापके फल कौनसे हैं ?

समाधान—नरक, तिर्यंच और कुमानुषकी योनियोंमें जन्म, जरा, मरण, व्याधि, वेदना और दारिद्र आदिकी प्राप्ति पापके फल हैं ।

अथवा, संसार, शरीर और भोगोंमें वैराग्यको उत्पन्न करनेवाली कथाको निर्वेदनी कथा कहते हैं । कहा भी है—

१ प्रथस्य दूतवाक्यनष्टमुष्टिचिंतादिरूपस्यार्थश्चिकालगोचरो धनधान्यादिलाभालाभसुखदुःखजीवितमरणजय-पराजयादिरूपां व्याक्रियते व्याख्यायते यस्मिस्तत्प्रश्रव्याकरणम् । अथवा शिष्यप्रश्नानुरूपतया अवक्षेपणी विक्षेपणी संवेजनी निर्वेजनी चेति कथा चतुर्विधा व्याक्रियन्ते यस्मिस्तत्प्रश्रव्याकरणं नाम । गो. जी., जी. प्र., टी. ३५७.

२ प्रथमानुयोगकरणानुयोगचरणानुयोगद्रव्यानुयोगरूपपरमागमपदार्थानां तीर्थंकरादिवृत्तान्तलोकसंस्थानदेश-सकलयतिधर्मपंचास्तिकायादानां परमताशंकारहितं कथनमाक्षेपणी कथा । गो. जी., जी. प्र., टी. ३५७.

३ प्रमाणनयात्मकयुक्तियुतहेतुन्वादिबलेन सर्वथैकान्तादिपरसमयार्थनिराकरणरूपा विक्षेपणी कथा ।

गो. जी., जी. प्र., टी. ३५७.

४ रत्नत्रयात्मकधर्मानुष्ठानफलभूततीर्थंकराद्यैश्वर्यप्रभावतेजोवीर्यज्ञानसुखादिवर्णनारूपा संवेजनी कथा ।

गो. जी., जी. प्र., टी. ३५७.

५ संसारशरीरभोगरागजनितदुष्कर्मफलनारकादिदुःखदुष्कूलविरूपांगदारिद्र्यापमानदुःखादिवर्णनाद्वारेण वैराग्य-

आक्षेपणीं तद्विधानभूतां विक्षेपणीं तद्वदिगन्तशुद्धिम् ।

संवेगिनीं धर्मफलप्रपञ्चां निर्वेगिनीं चाह कथां विरागाम् ॥ ७५ ॥

एत्थ विक्खेवणी णाम कहा जिण-वयणमयाणंतस्स ण कहेयव्वां, अगहिद-स-समय-सव्भावो पर-समय-संकहाहि वाउलिद-चित्तो मा मिच्छत्तं गच्छेज्ज त्ति तेण तस्स विक्खेवणीं मोत्तूण सेसाओ तिणिण वि कहाओ कहेयव्वाओ । तदो गहिद-समयस्स उवलद्ध-पुण्ण-पावस्स जिण-सासणे अट्ठि-मज्जाणुरत्तस्सं जिण-वयण-णिच्चिदिगिच्छस्स भोग-

तत्त्वोंका निरूपण करनेवाली आक्षेपणी कथा है । तत्त्वसे दिशान्तरको प्राप्त हुई दृष्टियोंका शोधन करनेवाली अर्थात् परमतकी एकान्त दृष्टियोंका शोधन करके स्वसमयकी स्थापना करनेवाली विक्षेपणी कथा है । विस्तारसे धर्मके फलका वर्णन करनेवाली संवेगिनी कथा है और वैराग्य उत्पन्न करनेवाली निर्वेगिनी कथा है ।

इन कथाओंका प्रतिपादन करते समय जो जिनवचनको नहीं जानता है, अर्थात् जिसका जिनवचनमें प्रवेश नहीं है, ऐसे पुरुषको विक्षेपणी कथाका उपदेश नहीं करना चाहिये, क्योंकि, जिसने स्वसमयके रहस्यको नहीं जाना है और परसमयकी प्रतिपादन करनेवाली कथाओंके सुननेसे व्याकुलित चित्त होकर वह मिथ्यात्वको स्वीकार न कर लेवे, इसलिये स्वसमयके रहस्यको नहीं जाननेवाले पुरुषको विक्षेपणी कथाका उपदेश न देकर शेष तीन कथाओंका उपदेश देना चाहिये । उक्त तीन कथाओंद्वारा जिसने स्वसमयको भलीभांति समझ लिया है, जो पुण्य और पापके स्वरूपको जानता है, जिसतरह मज्जा अर्थात् हृदियोंके भ्रममें रहनेवाला

कथनरूपा निर्वेजनी कथा । गो. जी , जी. प्र., टी. ३५७.

१ आक्षिप्यते मोहात्तत्त्वं प्रलाकृत्यते श्रोताऽनयेत्याक्षेपणी । चतुर्विधा सा आचारक्खेवणी, व्यवहारक्खेवणी, पण्णत्तिकेवणी, दिट्ठिवायक्खेवणी । आचारां लोचान्नानादिः, व्यवहारःकथंचिदापन्नदापव्यपोहाय प्रायश्चित्तलक्षणः, प्रज्ञप्तिश्च संशयापन्नस्य मधुरवचनैः प्रज्ञापना, दृष्टिवादश्च श्रोत्रपेक्षया सूक्ष्मजावादिभावकथनम् । विज्जाचरणं च तत्रो य पुरिसकारो य समिइ गुत्तोओ । उवइस्सइ खन्नु जहियं कहाइ अक्खेवणीइरसां ॥ अभि. रा. को. ( अक्खेवणी ).

२ विक्षिप्यते सन्मार्गात्कुमार्गे कुमार्गाद्वा सन्मार्गे श्रोताऽनयेति विक्षेपणी । सा चउच्चिहा पण्णत्ता । तं जहा, ( १ ) ससमयं कहेत्ता परसमयं कहेइ । ( २ ) परसमयं कहेत्ता ससमयं ठावित्ता भवइ । ( ३ ) सन्मावायं कहेइ, सन्मावायं कहेत्ता मिच्छावायं कहेइ । ( ४ ) मिच्छावायं कहेत्ता सन्मावायं ठावइत्ता भवइ ॥ जा ससमयवज्जा खुलु होइ कहा लोगवेयसंजुत्ता । परसमयाणं च कहा एसा विक्खेवणी णाम ॥ अभि. रा. को. [ विक्खेवणी ].

३ आक्खेवणी कहा सा विज्जाचरणमुवदिस्सदे जःथ । ससमयपरसमयगदा कथा दु विक्खेवणी णाम ॥ संवेयणी पुण कहा णाण चरित्तं तवर्वाणियइट्ठिगदा । णिच्चेयणी पुण कहा सरारभोगे भवोवे य ॥ मूलारा. ६५६, ६५७.

४ वेणइयस्स पढमया कहा उ अक्खेवणी कहेयव्वा । तो ससमयगहियत्थे कहिज्ज विक्खेवणी पच्छा ॥ अक्खेवणी अक्खित्ता ज जीवा ते लमंति सम्भत्त । विक्खेवणीए भज्जां गादतराणं च मिच्छत्तं ॥ अभि. रा. को. [ धम्मकहा ].

५ भावाणुरागपेमाणुरागमज्जाणुरागरत्तो वा । धम्माणुरागरत्तो य होइ जिणसासणे णिच्चं ॥ मूलारा. ७३७.

रइ-विरदस्स तव-सील-णियम-जुत्तस्स पच्छा विक्खेवणी कहा कहेयव्वा । एसा अकहा वि  
पण्णवर्यंतस्स परूवर्यंतस्स तदा कहा होदि' । तम्हा पुरिसंतरं पप्प समणेण कहा कहेयव्वा ।  
पण्हादो हद-णट्ट-मुट्ठि-चिंता-लाहालाह-सुह-दुक्ख-जीविय-मरण-जय-पराजय-णाम-दव्वायु-  
संखं च परूवेदि । विवागसुत्तं<sup>१</sup> णाम अंगं एग-कोडि-चउ।सीदि-लक्ख-पदेहि  
१८४०००२० पुण्ण-पाव-कम्मणं विवायं वण्णेदि । एकारसंगणं सव्व-पद-समासो  
चत्तारि कोडीओ पण्णारह-लक्खा-वे-सहस्सं च ४१५०२००० । दिट्ठिवादो<sup>२</sup> णाम अंगं  
वारसमं । तस्य दृष्टिवादस्य स्वरूपं निरूप्यते । कौत्कल-काणेविट्ठि-कौशिक-हरिश्मश्रु-  
मांधपिक-रोमश-हारित-मुण्ड-अश्वलायनादीनां क्रियावाद-दृष्टीनामशीतिशतम्, मरीचि-

रस हट्टीसे संसक्त होकर ही शरीरमें रहता है, उसीतरह जो जिनशासनमें अनुरक्त है, जिन-  
वचनमें जिसको किसीप्रकारकी विचिकित्सा नहीं रही है, जो भोग और रतिसे विरक्त है और  
जो तप, शील और नियमसे युक्त है ऐसे पुरुषको ही पश्चात् विक्षेपणी कथाका उपदेश देना  
चाहिये । प्ररूपण करके उत्तमरूपसे ज्ञान करानेवालेके लिये यह अंकथा भी तब कथारूप हो  
जाती है । इसलिये योग्य पुरुषको प्राप्त करके ही साधुको कथाका उपदेश देना चाहिये । यह  
प्रश्नव्याकरण नामका अंग प्रश्नके अनुसार हत, नष्ट, मुष्टि, चिंता, लाभ, अलाभ, सुख, दुःख,  
जीवित, मरण, जय, पराजय, नाम, द्रव्य, आयु और संख्याका भी प्ररूपण करता है । विपाक-  
सूत्र नामका अंग एक करोड़ चौरासी लाख पदोंके द्वारा पुण्य और पापरूप कर्मोंके फलोंका  
वर्णन करता है । ग्यारह अंगोंके कुल पदोंका जोड़ चार करोड़ पन्द्रह लाख दो हजार पद है ।  
दृष्टिवाद नामका वारहवां अंग है । आगे उसके स्वरूपका निरूपण करते हैं । दृष्टिवाद नामके  
अंगमें कौत्कल, काणेविट्ठि, कौशिक, हरिश्मश्रु, मांधपिक, रोमश, हारित, मुण्ड और अश्वलायन  
आदि क्रियावादियोंके एकसौ अस्सी मतोंका, मरीचि, कपिल, उत्क, गार्ग्य, व्याघ्रभूति,

अस्थीनि च कीकसानि मिञ्जा च तन्मध्यवर्ती धातुरस्थिमिञ्जास्ताः प्रेमानुरागेण सर्वज्ञप्रवचनप्रीतिरूपकुसुम्भादिरागेण  
रक्ता इव रक्ता येषां ते तथा । अथवाऽस्थिमिञ्जासु जिनशासनगतप्रेमानुरागेण रक्ता ये ते अट्टिमिजपेम्माणुरागरत्ता ।  
भग. २. ५. १०६ ( टीका )

१ परसमओ उमयं वा सम्मदिट्ठिरस ससमओ जेणं ॥ तो सव्वञ्जयणाइं ससमयवत्तन्निययाइं ॥ मिच्छत्त-  
सयसमूहं सम्मत्तं जं च तदुवगारम्मि । वट्टइ परसिद्धंतो तो तस्स तओ ससिद्धंतो ॥ वि. भा, ९५६, ९५७.

२ शुभाशुभकर्मणां तत्रिमंदमध्यमविकल्पशान्तिरूपानुभागस्य द्रव्यक्षेत्रकालभावाश्रयफलदानपरिणतिरूपः उदयो  
विपाकः, तं सूत्रयति वर्णयतीति विपाकसूत्रम् । गो. जी., जी. प्र., टी. ३५७. विवागसुए णं सुक्कडदुक्कडाणं कम्मणं  
फलविवागे आषविञ्जंति । XX । सम. सू. १४६.

३ दृष्टीनां त्रिपद्युत्तरत्रिशतसंख्यानां मिथ्यादर्शनानां वादोऽनुवादः, तन्निराकरणं च यस्मिन् क्रियते तद्दृष्टि-  
पादं नाम । गो. जी., जी. प्र., टी. ३६०. दिट्ठिवाए णं सव्वगावपरूवणया आषविञ्जंति । रो रगाराओ पंचविहे,

कपिलोलूक-गार्ग्य-व्याघ्रभूति-वाद्बलि-माठर-मौद्गल्यायनादीनामक्रियावाददृष्टीनां चतुर-  
शीतिः, शाकल्य-वल्कल-कुथुमि-सात्यमुग्नि-नारायण-कण्व-माध्यंदिन-मोद-पैप्पलाद-वादरा-  
यण-स्वेषकृदैतिकायन-वसु-जैमिन्यादीनामज्ञानिकदृष्टीनां सप्तषष्टिः, वशिष्ठ-पाराशर-जतु-  
कर्ण-वाल्मीकि-रोमहर्षणी-सत्यदत्त-व्यासैलापुत्रौपमन्यवैन्द्रदत्तायस्थूणादीनां वैनयिक-  
दृष्टीनां द्वात्रिंशत् । एषां दृष्टिशतानां त्रयाणां त्रिषष्ट्युत्तराणां प्ररूपणं निग्रहश्च दृष्टिवादे  
क्रियते ।

एत्थ किमायारादो, एवं पुच्छा सव्वेसिं । णो आयारादो, एवं वारणा सव्वेसिं,  
दिट्ठिवादादो । तस्स उवक्को पंचविहो, आणुपुव्वी णामं पमाणं वत्तव्वदा अत्थाहियारो  
चेदि । तत्थ आणुपुव्वी ति विहा, पुव्व्वाणुपुव्वी पच्छाणुपुव्वी जत्थतत्थाणुपुव्वी चेदि ।

वाद्बलि, माठर और मौद्गल्यायन आदि अक्रियावादियोंके चौरासी मतोंका, शाकल्य, वल्कल,  
कुथुमि, सात्यमुग्नि, नारायण, कण्व, माध्यंदिन, मोद, पैप्पलाद, वादरायण स्वेषकृत्, ऐतिकायन  
वसु और जैमिनी आदि अज्ञानवादियोंके सरसठ मतोंका तथा वशिष्ठ, पाराशर, जतुकर्ण,  
वाल्मीकि, रोमहर्षणी, सत्यदत्त, व्यास, एलापुत्र, औपमन्यु, ऐन्द्रदत्त और अयस्थूण आदि  
वैनयिकवादियोंके बत्तीस मतोंका वर्णन और निराकरण किया गया है । ऊपर कहे हुए क्रिया-  
वादी आदिके कुल भेद तीनसौ त्रेसठ होते हैं ।

इस शास्त्रमें क्या आचारांगसे प्रयोजन है, क्या सूत्रकृतांगसे प्रयोजन है, इसतरह  
बारह अंगोंके विषयमें पृच्छा करनी चाहिये । और इसतरह पूछे जाने पर यहाँ पर न तो  
आचारांगसे प्रयोजन है, न सूत्रकृतांग आदिसे प्रयोजन है इसतरह सबका निषेध करके यहाँ  
पर दृष्टिवाद अंगसे प्रयोजन है ऐसा उत्तर देना चाहिये । उसका उपक्रम पांच प्रकारका है,  
आनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता और अर्थाधिकार । इनसेसे, पूर्वानुपूर्वी, पश्चादानुपूर्वी और  
यथातथानुपूर्वीके भेदसे आनुपूर्वी तीन प्रकारकी है । यहाँ पूर्वानुपूर्वीसे गिनने पर बारहवें

परिकम्भं सुत्ताइं पुव्वगयं अणुओगो तूलिया । परिकम्भे सत्तविहे XXX । सुत्ताइं अट्टासीति भवंतीति मक्खायाइंXXX ।  
पुव्वगयं चउदसविहं पच्चत्तं । अणुओगे दुवेहे पच्चत्ते XXX । जण्णं आइञ्जाणं चउण्हं पुव्व्वाणं तूलियाओ, सेसाइं  
पुव्व्वाइं अतूलियाइं सेत्तं तूलियाओ । सम. सू. १४७.

१ कौकलकण्डेविद्धिकौशिकहरिश्मश्रुमांछयिकरोमसहारीतमुंडाश्रलायलादीनां क्रियावाददृष्टीनामशीतिशतं ।  
मरीचकुमारकपिलोत्रकगार्ग्यव्याघ्रभूतिवाद्बलिमाठरमौद्गल्यायनादीनामक्रियावाददृष्टीनां चतुरशीतिः । शकल्यवाल्कल-  
कुथुमिसात्यमुग्निनारायणकठमाध्यंदिनमोदपैप्पलादवादरायणां वष्टीकृदैरिकायनवसुजैमिन्यादीनामज्ञानकृदृष्टीनां सप्तषष्टिः ।  
वशिष्ठपाराशरजतुकर्णवाल्मीकिरोमर्षिसत्यदत्तव्यासैलापुत्रौपमन्यवैन्द्रदत्तायस्थूणादीनां वैनयिकदृष्टीनां द्वात्रिंशत् ।  
त. रा. वा. पृ. ५१. 'काणेविद्धि' स्थाने 'कण्डेविद्धि', 'मांछपिक' स्थाने 'माधंपिक', 'कण्व' स्थाने 'कठ',  
'स्वेषकृत्' स्थाने 'स्त्रिष्विक्य', 'जतुकर्ण' स्थाने 'जतुक्कर्ण', 'अयस्थूण' स्थाने 'अगस्त्य' पाठा  
उपलभ्यन्ते । गो. जी., जी. प्र., टी. ३६०.

एत्थ पुञ्जाणुपुञ्जीए गणिज्जमाणे वारसमादो, पञ्जाणुपुञ्जीए गणिज्जमाणे पढमादो, जत्थतत्थाणुपुञ्जीए गणिज्जमाणे दिट्ठिवायादो । णामं, दिट्ठीओ वददीदि दिट्ठिवादं ति गुणणामं । पमाणं, अक्खर-पद-संघाद-पडिवत्ति-अणियोगद्वारेहि संखेज्ज अत्थदो अणंतं । वत्तव्वदा, तदुभयवत्तव्वदा । तस्स पंच अत्थाहियारा हवंति, परियम्मं-सुत्तं-पढमाणियोग-पुञ्जगयं-चूलियां चेदि । जं तं परियम्मं तं पंचविहं । तं जहा, चंदपण्णत्ती खरपण्णत्ती जंजूदीवपण्णत्ती दीवसायरपण्णत्ती वियाहपण्णत्ती चेदि । तत्थ चंदपण्णत्ती णाम छत्तीस-लक्ख-पंच-पद-सहस्सेहि ३६०५००० चंदायु-परिवारिद्धि-गइ-विंबुस्सेह-वण्णणं कुणइ ।

अंगसे, पश्चादानुपूर्वासे गिनने पर पहलेसे और यथातथानुपूर्वासे गिनने पर दृष्टिवाद अंगसे प्रयोजन है ।

नाम—इसमें अनेक दृष्टियोंका वर्णन किया गया है, इसलिये इसका 'दृष्टिवाद' यह गौण्यनाम है ।

प्रमाण—अक्षर, पद, संघात, प्रतिपत्ति और अनुयोग आदिकी अपेक्षा संख्यातप्रमाण और अर्थकी अपेक्षा अनन्तप्रमाण है ।

वक्तव्यता—इसमें तदुभयवक्तव्यता है ।

उस दृष्टिवादके पांच अधिकार हैं, परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका । उनमेंसे, चन्द्रप्रज्ञप्ति, सूर्यप्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति, द्वीपसागरप्रज्ञप्ति और ध्याख्याप्रज्ञप्ति इसतरह परिकर्मके पांच भेद हैं ।

चन्द्रप्रज्ञप्ति नामका परिकर्म छत्तीस लाख पांच हजार पदोंके द्वारा चन्द्रमाकी आयु,

१ परितः सर्वतः कर्माणि गणितकरणसूत्राणि यस्मिन् तत्परिकर्म । गो. जी., जी. प्र., टी. ३६१.

२ सूत्रयति कुदृष्टिदर्शनानीति सूत्रम् । जीवः अवंधकः अकर्ता निर्गुणः अमोक्ता स्वप्रकाशकः परप्रकाशकः अस्त्रेव जीवः नास्त्रेव जीवः इत्यादिक्रियाक्रियाज्ञानविनयकुदृष्टीनां मिथ्यादर्शनानि पूर्वपक्षतया कथयति । गो. जी., जी. प्र., टी. ३६१.

३ प्रथमं मिथ्यादृष्टिमत्रतिकमच्युत्पन्नं वा प्रतिपाद्यमाश्रित्य प्रवृत्तोऽनुयोगोऽधिकारः प्रथमानुयोगः । चतुर्विंशतितीर्थकरद्रादशचक्रवर्तिनयत्रलदेवनववासुदेवप्रतिवासुदेवरूपत्रियष्टिशलाकापुरुषपुराणानि वर्णयति । गो. जी., जी. प्र., टी. ३६२.

४ इह तीर्थकरस्तीर्थप्रवर्तनकाले गणधरान् सकलश्रुतार्थविगाहनसमर्थानधिकृत्य पूर्वं पूर्वगतं सूत्रार्थं भाषते, ततस्तानि पूर्वाण्युच्यन्ते । गणधराः पुनः सूत्ररचनां विदधतः आचारादिक्रमेण विदधति स्थापयन्ति वा । अन्ये तु ध्याचक्षते, पूर्वं पूर्वगतसूत्रार्थमर्हन् भाषते गणधरा अपि पूर्वं पूर्वगतसूत्रं विरचयन्ति पश्चादाचारादिकम् ।

न. सू. पृ. २४०.

५ सूदृश्याणं विशेषपरुश्रिया चूलिया णाम । धवला. अ. पृ. ५७३. दृष्टिवादे परिकर्मसूत्रपूर्वानुयोगेऽनुक्तार्थ-सग्रहपरा ग्रन्थपद्धतयः । नं. सू. पृ. २४६.

६ चन्द्रप्रज्ञप्तिः चन्द्रस्य विमानायुःपरिवारक्रद्धिगमनहानिवृद्धिसकलार्थचतुर्धाशग्रहणादीन् वर्णयति ।

गो. जी., जी. प्र., टी. ३६२.



सूर-पण्णत्तीं पंच-लक्ष-तिण्ण-सहस्सेहि ५०३००० सूरस्सायु-भोगोवभोग-परिवारिद्धि-  
गइ-विंबुस्सेह-दिण-किरणुज्जोव-वण्णणं कुणइ । जंबूदीवंपण्णत्ती तिण्ण-लक्ष-पंचवीस-पद-  
सहस्सेहि ३२५००० जंबूदीवे णाणाविह-मणुयाणं भोग-कम्म-भूमियाणं अण्णेसिं च  
पव्वद-दह-णइ-वेइयाणं वस्सावासाकट्टिम-जिगहरादीणं वण्णणं कुणइ । दीवसायरपण्णत्तीं  
वावण्ण-लक्ष-छत्तीस-पद-सहस्सेहि ५२३६००० उद्धार-पल्ल-पमाणेण दीव-सायर-पमाणं  
अण्णं पि दीव-सायरंतवभूदत्थं बहु-भेयं वण्णेदि । वियाहपण्णत्तीं गाम चउरासीदि-लक्ष  
छत्तीस-पद-सहस्सेहि ८४३६००० रूवि-अजीव-दव्वं अरूवि-अजीव-दव्वं भव्वासिद्धिय-  
अभवसिद्धिय-रासिं च वण्णेदि । सुत्तं अट्टासीदि-लक्ष-पदेहि ८८००००० अवंधओ  
अवलेवओ अकत्ता अभोत्ता णिग्गुणो सव्वगओ अणुमेत्तो णत्थि जीवो जीवो चैव  
अत्थि पुढावियादीणं समुदएण जीवो उप्पज्जइ णिचेयणो णाणेण विणा सचेयणो

परिवार, ऋद्धि, गति और विम्बकी उंचाई आदिका वर्णन करता है। सूर्यप्रज्ञप्ति नामका परि-  
कर्म पांच लाख तीन हजार पदोंके द्वारा सूर्यकी आयु, भोग, उपभोग, परिवार, ऋद्धि, गति,  
बिम्बकी उंचाई, दिनकी हानि-वृद्धि, किरणोंका प्रमाण और प्रकाश आदिका वर्णन करता  
है। जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति नामका परिकर्म तीन लाख पच्चीस हजार पदोंके द्वारा जम्बूद्वीपस्थ  
भोगभूमि और कर्मभूमिमें उत्पन्न हुए नानाप्रकारके मनुष्य तथा दूसरे तिर्यंच आदिका और  
पर्वत, द्रह, नदी, वेदिका, वर्ष, आवास, अकृत्रिम जिनालय आदिका वर्णन करता है। द्वीप-  
सागरप्रज्ञप्ति नामका परिकर्म बावन लाख छत्तीस हजार पदोंके द्वारा उद्धारपर्यसे द्वीप और  
समुद्रोंके प्रमाणका तथा द्वीपसागरके अन्तर्भूत नानाप्रकारके दूसरे पदार्थोंका वर्णन करता है।  
व्याख्याप्रज्ञप्ति नामका परिकर्म चौरासी लाख छत्तीस हजार पदोंके द्वारा रूपी अजीवद्रव्य  
अर्थात् पुद्गल, अरूपी अजीवद्रव्य अर्थात् धर्म, अधर्म, आकाश और काल, भव्यासिद्ध और  
अभव्यासिद्ध जीव, इन सबका वर्णन करता है,

दृष्टिवाद अंगका सूत्र नामका अर्थाधिकार अठारसी लाख पदोंके द्वारा जीव अवन्धक ही  
है, अवलेपक ही है, अकर्ता ही है, अभोक्ता ही है, निर्गुण ही है, अणुप्रमाण ही है, जीव  
नास्तिस्वरूप ही है, जीव अस्तिस्वरूप ही है, पृथिवी आदिक पांच भूतोंके समुदायरूपसे  
जीव उत्पन्न होता है, चेतना रहित है, ज्ञानके विना भी सचेतन है, नित्य ही है, अनित्य ही है,

१ सूर्यप्रज्ञप्तिः सूर्यस्यायुर्मंडलपरिवारऋद्धिगमनप्रमाणग्रहणादीन् वर्णयति । गो. जी., जी. प्र., टी. ३६२.

२ जम्बूद्वीपप्रज्ञप्तिः जम्बूद्वीपगतमेरुकुलशैलहृदवर्षकुंडवेदिकावनखंडं चेत्यंतरावासमहानद्यादीन् वर्णयति ।

गो. जी., जी. प्र., टी. ३६२.

३ द्वीपसागरप्रज्ञप्तिः अस्त्वेत्यादिद्वीपसागराणां स्वरूपं तत्रस्थितज्योतिर्वाग्निभावनावासेषु विद्यमानाकृत्रिमजिन-  
भवनादीन् वर्णयति । गो. जी., जी. प्र., टी. ३६२.

४ रूप्यरूपिजीवाजीवद्रव्याणां भव्याभव्यमेदप्रमाणलक्षणानां अनंतरसिद्धपरम्परासिद्धानां अन्वयवृत्तानां च  
वर्णनं करोति । गो. जी., जी. प्र., टी. ३६२.

णिच्चो अणिच्चो अप्पेति वण्णेदि । तेरासियं<sup>१</sup> णियदिवादं<sup>२</sup> विण्णाणवादं<sup>३</sup> सह्वादं<sup>४</sup> पहाणवादं<sup>५</sup> दब्बवादं<sup>६</sup> पुरिसवादं<sup>७</sup> च वण्णेदि । उत्तं च—

इत्यादि रूपसे क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानवादी आरै विनयवादीयोंके तीन्सौ त्रेसठ मतोंका पूर्वपक्षरूपसे वर्णन करता है । इसमें त्रैराशिकवाद, नियतिवाद, विज्ञानवाद, शब्दवाद, प्रधानवाद, द्रव्यवाद, और पुरुषवादका भी वर्णन है । कहा भी है—

१ तेरासिय ( त्रैराशिकः ) गोशालप्रवर्तिता आर्जाधिकाः पाक्षण्डिनस्त्रैराशिका उच्यन्ते । कस्मादिति चंदुच्यते, इह ते सर्व वस्तु न्यात्मकमिच्छन्ति । तद्यथा, जीवोऽजीवो जीवाजीवश्च, लोका अलोका लोकालोकाश्च, सदसत्सदसन् । नयचिन्तायामपि त्रिविधं नयमिच्छन्ति । तद्यथा, द्रव्यास्तिकं पर्यायास्तिकसुभयास्तिकं च । ततस्त्रिभिर्नाशिमिधरन्तीति त्रैराशिकाः । नं. सू. पृ. २३९.

२ णियतिवाद ( देववादः ) जत्तु जदा जेण जहा जस्स य णियमेण हीदि तत्तु तदा । तेण तहा तस्स ह्वे इदि वादो णियदिवादो दु ॥ गो. क. ८८२. ये तु नियतिवादिनस्ते ह्येवमाहुः, नियतिर्नाम तत्वान्तरमस्ति यद्वादादेतं भावाः संवेदपि नियतेनैव रूपेण प्रादुर्भावमश्नुवते, नान्यथा । तथाहि, यद्यदा यतो भवति तच्चदा तत एव नियतेनैव रूपेण भवदुपलभ्यते, अन्यथा कार्यमात्रव्यवस्था प्रतिनियतव्यवस्था च न भवेत् नियामकाभावात् । तत एव कार्यनैयत्यतः प्रतीयमानाभेनां नियतिं को नाम प्रमाणपथकुशलो वाधितुं क्षमते ? मा प्रापदन्यत्रापि प्रमाणपथव्याघातप्रसङ्गः । अभि. रा. को. ( णियइ ).

३ विण्णाणवाद ( विज्ञानाद्वैतवादः ) प्रतिभासमानस्याशेषस्य वस्तुनो ज्ञानस्वरूपान्तःप्रविष्टत्वप्रसिद्धेः संवेदनमेव पारमार्थिकं तन्त्रम् । तथाहि, यदवभासते तज्ज्ञानमेव यथा सुखादि, अवभासन्ते च भावा इति । × × × तथा यद्वेद्यते तद्वि ज्ञानादभिन्नम् यथा विज्ञानस्वरूपम्, वेद्यन्ते च नीलादय इत्यतोऽपि विज्ञानाद्वैतसिद्धिरिति । न्या. कु. च. पृ. ११९. बाह्यार्थनिरपेक्षं ज्ञानाद्वैतमेव ये बौद्धविशेषा मन्वते ते विज्ञानवादिनः । तेषां राद्धान्तो विज्ञानवादः । अभि. रा. को. ( विण्णाणवाद ).

४ सह्वाद ( शब्दब्रह्मवादः ) सकलं योगजमयोगजं वा प्रत्यक्षं शब्दब्रह्मोल्लेख्येवावभासते. बाह्याध्यात्मिकार्थे-पूप्यमानस्यास्य शब्दानुविद्धत्वेनैवोत्पत्तेः, तत्संस्पर्शवैकल्ये प्रत्ययानां प्रकाशमानताया दुर्घटत्वात् । वाग्म्यता हि शास्वती प्रत्यवमर्शनी च, तदभावे तेषां नापरं रूपमवशिष्यते । न्या. कु. च. पृ. १३९, १४०.

५ पहाणवाद [ प्रधानवादः ] सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रधानम् । प्रधानस्य वादः प्रधानवादः सांख्यवाद इत्यर्थः । सांख्यानां हि पुमर्यापेक्षप्रकृतिपरिणाम एव लोकः । अभि. रा. को. [ पहाणकड ].

६ दब्बवाद [ द्रव्यैकान्तवादी नित्यवादः ] यत्कापिलं दर्शनं सांख्यमतं एतद् द्रव्यास्तिकनयस्य वक्तव्यम् । तदुक्तम्, जं काविलं दरिसणं एयं दब्बद्वियस्स वत्तव्वं । स. त. ३, ४८.

७ पुरिसवाद [ पौरुषवादः ] आलसद्धो णिसच्छाहो फलं किंचिं ण भुंजदे । थणक्खीरादिपाणं वा पउरुसेण विणा ण हि ॥ गो. क. ८९०. अथवा, पुरिसवाद पुरुषाद्वैतवादः—एको चेव महप्पा पुरिसो देवो य सव्ववावी य । सव्वंगनिगूढो वि य सवेयणो निग्गुणो परमो ॥ गो. क. ८८१. पुरुष एवैकः सकललोकस्थितिसर्गप्रलयहेतुः प्रलयेऽप्यलुप्तज्ञानातिशयशक्तिरिति । तथा चोक्तम्, ऊर्णनाम इवांशूनां चन्द्रकान्त इवान्मसाम् । प्ररोहणाभिव उक्षः स हेतुः सर्वजन्मिनाम् ॥ इति । तथा ' पुरुष एवेदं सर्वं यद् भूतं यच्च मान्यम् ' इत्यादि मन्वानानां वादः पुरुषवादः ।

अभि. रा. को. [ पुरिसवाइ ].

अट्टासी<sup>१</sup>-अहियारेसु चउण्हमहिंयाराणमत्थि णिंदेसो ।  
 पढमो अवंधयाणं विदियो तेरासियाण वोद्धवो ॥ ७६ ॥  
 तदियो य णियइ-पक्खे हवइ चउत्थो ससमयम्मि ॥

पढमाणियोगो पंच-सहस्स-पदेहि ५००० पुराणं वण्णेदि । उत्तं च—

बारसविहं पुराणं जगैदिहं जिणवरेहि सव्वेहिं ।  
 तं सव्वं वण्णेदि ह्नु जिणवंसे रायवंसे य ॥ ७७ ॥  
 पढमो अरहंताणं विदियो पुण चक्कवट्ठि-वंसो दु ।  
 विज्जहराण तदियो चउत्थयो वासुदेवाणं ॥ ७८ ॥  
 चारण-वंसो तह पंचमो दु छट्ठो य पण्ण-समणाणं ।  
 सत्तमओ कुरुवंसो अहमओ तह य हरिवंसो ॥ ७९ ॥  
 णवमो य इक्खयाणं दसमो वि य कासियाण वोद्धवो ।  
 वार्हणेकारसमो बारसमो णाह-वंसो दु ॥ ८० ॥

पुव्वगयं पंचाणउदि-क्रोडि-पण्णास-लक्ख-पंच-पदेहि ९५५०००००५ उप्पाय-

इस सूत्र नामक अर्थाधिकारके अट्टासी अधिकारोंमेंसे चार अधिकारोंका नामनिर्देश मिलता है । उनमें पहला अधिकार अवन्धकोंका दूसरा त्रैराशिकवादियोंका, तीसरा नियति-वादका समझना चाहिये । तथा चौथा अधिकार स्वसमयका प्ररूपक है ॥ ७६ ॥

दृष्टिवाद अंगका प्रथमानुयोग अर्थाधिकार पांच हजार पदोंके द्वारा पुराणोंका वर्णन करता है । कहा भी है—

जिनेन्द्रदेवने जगतमें बारह प्रकारके पुराणोंका उपदेश दिया है । अतः वे समस्त पुराण जिनवंश और राजवंशोंका वर्णन करते हैं । पहला अरिहंत अर्थात् तीर्थंकरोंका, दूसरा चक्रवर्तियोंका, तीसरा विद्याधरोंका, चौथा नारायण, प्रतिनारायणोंका, पांचवां चारणोंका, छठवां प्रज्ञाश्रमणोंका वंश है । इसीतिरह सातवां कुरुवंश, आठवां हरिवंश, नववां इक्ष्वाकुवंश, दशवां काश्यपवंश, ग्यारहवां वादियोंका वंश और बारहवां नाथवंश है ॥ ७७-८० ॥

दृष्टिवाद अंगका पूर्वगत नामका अर्थाधिकार पंचानवे करोड़ पचास लाख और पांच

१ सुत्ताइं अट्टासीति भवति । तं जहा, उज्जुगं परिणयापरिणयं बहुभंगियं विप्पच्चइयं विनयचरियं अणंतरं परंपरं समाणं संजूहं [ मासाणं ] समिन्नं अहाच्चयं [ अहव्यायं नन्धा ] सोवत्थि [ वत्तं यं ] णंदावत्तं बहुलं पुट्टापुट्टं वियावत्तं एवंभूयं दुआवत्तं वत्तमाणप्पयं समभिरूढं सव्वओभइं पणाम [ पस्सासं नन्धा ] दुपडिग्गहं इच्चेयाइं वावीसं ताइं छिण्णछेअणइआइं ससमयसुत्तपरिवाडीए इच्चेआइं वावीसं सुत्ताइं अच्छिन्नछेयनइयाइं आजीवियसुत्तपरिवाडीए इच्चेआइं वावीसं सुत्ताइं तिकणइयाइं तेरासियसुत्तपरिवाडीए, इच्चेआइं वावीसं सुत्ताइं चउक्कणइयाइं ससमयसुत्तपरिवाडीए एवामेव सपुव्वावरेणं अट्टासीति सुत्ताइं भवति । सम. सू. १४७.

२ ' जं दिट्ठं ' इति पाठः प्रतिभाति ।

वय-ध्रुवत्तादीणं वण्णणं कुणइ । चूलिया पंचविहा, जलगया थलगया मायागया रूवगया आगासगया चेदि । तत्थ जलगया दो-कोडि-णव-लक्ख-एऊण-णवुइ-सहस्स-वे-सद्-पदेहि २०९८९२०० जलगमण-जलस्थंभण-कारण-मंत-तंत-तवच्छरणाणि वण्णेदि' । थलगया णाम तेत्तिएहि चेष पदेहि २०९८९२०० भूमि-गमण-कारण-मंत-तंत-तवच्छरणाणि वत्थु-विज्जं भूमि-संवंधमण्णं पि सुहासुह-कारणं वण्णेदि' । मायागया तेत्तिएहि चेष पदेहि २०९८९२०० इंद-जालं वण्णेदि' । रूवगया तेत्तिएहि चेष पदेहि २०९८९२०० सीह-हय-हरिणादि-रूवायारेण परिणमण-हेटु-मंत-तंत-तवच्छरणाणि चित्त-कह-लेप्प-लेण-कम्मादि-लक्खणं च वण्णेदि' । आयासगया णाम तेत्तिएहि चेष पदेहि २०९८९२०० आगास-गमण-णिमित्त-मंत-तंत-तवच्छरणाणि वण्णेदि' । चूलिया-सन्व-पद-समासो दस-

पदों द्वारा उत्पाद, न्यय और ध्रौव्य आदिका वर्णन करता है ।

जलगता, स्थलगता, मायागता, रूपगता और आकाशगताके भेदसे चूलिका पांच प्रकारकी है । उनमेंसे, जलगता चूलिका दो करोड़ नौ लाख नवासी हजार दोसौ पदोंद्वारा जलमें गमन और जलस्तम्भनके कारणभूत मन्त्र, तन्त्र और तपश्चर्यारूप अतिशय आदिका वर्णन करती है । स्थलगता चूलिका उतने ही २०९८९२०० पदोंद्वारा पृथिवीके भीतर गमन करनेके कारणभूत मन्त्र, तन्त्र, और तपश्चरणरूप आश्चर्य आदिका तथा वास्तुविद्या और भूमि-संवन्धी दूसरे शुभ-अशुभ कारणोंका वर्णन करती है । मायागता चूलिका उतने ही २०९८९२०० पदोंद्वारा (मायारूप) इन्द्रजाल आदिके कारणभूत मन्त्र, तन्त्र और तपश्चरणका वर्णन करती है । रूपगता चूलिका उतने ही २०९८९२०० पदोंद्वारा सिंह, घोड़ा और हरिणादिके स्वरूपके आकाररूपसे परिणमन करनेके कारणभूत मन्त्र, तन्त्र और तपश्चरणका तथा चित्र-कर्म, काष्ठकर्म, लेप्यकर्म और लेनकर्म आदिके लक्षणका वर्णन करती है । आकाशगता चूलिका उतने ही २०९८९२०० पदोंद्वारा आकाशमें गमन करनेके कारणभूत मन्त्र, तन्त्र और तपश्चरणका वर्णन करती है । इन पांचों ही चूलिकाओंके पदोंका जोड़ दस करोड़ उनचास लाख

१ जलगता चूलिका जलस्तम्भनजलगमनाग्निस्तम्भाग्निमक्षणान्यासनाग्निप्रवेशनादिकारणमंत्रतंत्रतपश्चरणादीन् वर्णयति । गो. जी., जी. प्र., टी. ३६२.

२ स्थलगता चूलिका मेरुकुलशैलभूम्यादिषु प्रवेशनशीघ्रगमनादिकारणमंत्रतंत्रतपश्चरणादीन् वर्णयति ।

गो. जी., जी. प्र., टी. ३६२.

३ मायागता चूलिका मायारूपेन्द्रजालविक्रियाकारणमंत्रतंत्रतपश्चरणादीन् वर्णयति ।

गो. जी., जी. प्र., टी. ३६२.

४ रूपगता चूलिका सिंहकरितुरगरुनरतरुहरिणशशकवृषभव्याघ्रादिरूपपरावर्तनकारणमंत्रतंत्रतपश्चरणादीन् चित्रकाष्ठलेप्योःखननादिलक्षणयातुवाद्रसवादखन्यावादादींश्च वर्णयति । गो. जी., जी. प्र., टी. ३६२.

५ आकाशगता चूलिका आकाशगमनकारणमंत्रतंत्रतपश्चरणादीन् वर्णयति । गो. जी., जी. प्र., टी. ३६२.

कोडीओ एगुण-पंचास-लक्ख छायाल सहस्स-पदाणि १०४९४६००० ।

एत्थ किं परियम्मादो, किं सुत्तादो ? एवं पुच्छा सव्वेसिं । णो परियम्मादो, णो सुत्तादो, एवं वारणा सव्वेसिं । पुव्वगयादो । तस्स उव्वकमो पंचविहो, आणुपुव्वी णासं प्रमाणं वत्तव्वदा अत्थाहियारो चेदि । तत्थाणुपुव्वी तिविहा, पुव्वानुपुव्वी पच्छाणुपुव्वी जत्थतत्थाणुपुव्वी चेदि । एत्थ पुव्वानुपुव्वीए गणिज्जमाणे चउत्थादो, पच्छाणुपुव्वीए गणिज्जमाणे विदियादो, जत्थतत्थाणुपुव्वीए गणिज्जमाणे पुव्वगयादो । पुव्वानं गयं पत्त-पुव्व-सरूवं वा पुव्वगयमिदि गुणणामं । अक्खर-पद-संघाद-पडिवत्ति-अणियोगद्दारेहि संखेज्जं, अत्थदो पुण अणंतं । वत्तव्वदा ससमयवत्तवदा । अत्थाधियारो चोद्दसविहो । तं जहा, उत्पादपूर्वं अग्रायणीयं वीर्यानुप्रवादं अस्तिनास्तिप्रवादं ज्ञानप्रवादं सत्यप्रवादं आत्मप्रवादं कर्मप्रवादं प्रत्याख्याननामधेयं विद्यानुप्रवादं कल्याणनामधेयं प्राणावायं क्रियाविशालं लोकविन्दुसारमिति ।

तत्थ उत्पादपुव्वं दसण्हं वत्थूणं १० वे-सद-पाहुडाणं २०० कोडि-पदेहि

छयालीस हजार पद है ।

इस जीवस्थान शास्त्रमें क्या परिकर्मसे प्रयोजन है ? क्या सूत्रसे प्रयोजन है ? इसतरह सबके विषयमें पृच्छा करनी चाहिये । यहां पर परिकर्मसे प्रयोजन नहीं है, सूत्रसे प्रयोजन नहीं है इसतरह सबका निषेध करके यहां पर पूर्वगतसे प्रयोजन है ऐसा उत्तर देना चाहिये । उसका उपक्रम पांच प्रकारका है, अनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता और अर्थाधिकार । उनमेंसे, पूर्वानुपूर्वी, पश्चादानुपूर्वी और यथातथानुपूर्वीके भेदसे आनुपूर्वी तीन प्रकारकी है । यहां पूर्वानुपूर्वीसे गिनने पर चौथे भेदसे, पश्चादानुपूर्वीसे गिननेपर दूसरे भेदसे और यथातथानुपूर्वीसे गिनने पर पूर्वगतसे प्रयोजन है । जो पूर्वको प्राप्त हो, अथवा जिसने पूर्वके स्वरूपको प्राप्त कर लिया हो उसे पूर्वगत कहते हैं । इसतरह 'पूर्वगत' यह गौण्यनाम है । वह अक्षर, पद, संघात, प्रतिपत्ति और अनुयोगद्धारकी अपेक्षा संख्यात और अर्थकी अपेक्षा अनन्त-प्रमाण है । तीनों वक्तव्यताओंमेंसे यहां स्वसमयवक्तव्यता समझना चाहिये । अर्थाधिकारके चौदह भेद हैं । वे ये हैं, उत्पादपूर्व, अग्रायणीयपूर्व, वीर्यानुप्रवादपूर्व, अस्तिनास्तिप्रवादपूर्व, ज्ञानप्रवादपूर्व, सत्यप्रवादपूर्व, आत्मप्रवादपूर्व, कर्मप्रवादपूर्व, प्रत्याख्यानपूर्व, विद्यानुप्रवादपूर्व, कल्याणवादपूर्व, प्राणावायपूर्व, क्रियाविशालपूर्व और लोकविन्दुसारपूर्व ।

उनमेंसे, उत्पादपूर्व दश वस्तुगत दोसौ प्राभृतींके एक करोड़ पदोंद्वारा जीव, काल

१ वस्तुनः द्रव्यस्योत्पादव्ययधौव्याद्यनेकधर्मपूरकमुत्पादपूर्वम् । तच्च, जीवादिद्रव्याणां नानानयविषयक्रम-यौगपद्यसंभावितोत्पादव्ययधौव्याणि त्रिकालगोचराणि नवधर्मा भवन्ति । तत्परिणतं द्रव्यमपि नवविधम्, उत्पन्नं उत्पद्यमानं उत्पत्त्यमानं नष्टं नश्यत् नक्ष्यत् स्थितं तिष्ठत् स्थास्यदिति नवप्रकारा भवन्ति । उत्पादादीनां प्रत्येकं नवविधत्त्वसंभवादेकाशीतिविकल्पधर्मपरिणतद्रव्यवर्णनं करोति । गो. जी., जी. प्र., टी. ३६६.

१००००००० जीव-काल-पोग्गलाणमुत्पाद-वयं-धुवत्तं वण्णेइ । अग्गेणियं णाम पुव्वं चोद्दसहं वत्थूणं १४ वे-सयासीदि-पाहुडाणं २८० छण्णउइ-लक्ख-पदेहि ९६०००००० अंगाणमग्गं वण्णेइ । वीरियाणुपवादं णाम पुव्वं अट्टण्णं वत्थूणं ८ सट्ठि-सयं-पाहुडाणं १६० सत्तरि-लक्ख-पदेहि ७०००००० अप्प-विरियं पर-विरियं उभय-विरियं खेत्तं-विरियं भव-विरियं तव-विरियं वण्णेइ । अत्थिणत्थिपवादं णाम पुव्वं अट्टारसहं वत्थूणं १८ सट्ठि-ति-सद-पाहुडाणं ३६० सट्ठि-लक्ख-पदेहि ६०००००० जीवाजीवाणं अत्थि-णत्थित्तं वण्णेदि । तं जहा, जीवः स्वद्रव्यक्षेत्रकालभावैः स्यादस्ति, परद्रव्यक्षेत्रकालभावैः स्यान्नास्ति, ताभ्यामक्रमेणादिष्टः स्यादवक्तव्यः, प्रथमद्वितीयधर्माभ्यां क्रमेणादिष्टः स्यादस्ति च नास्ति च, प्रथमतृतीयधर्माभ्यां क्रमेणादिष्टः स्यादस्ति चावक्तव्यश्च, द्वितीयतृतीयधर्माभ्यां क्रमेणादिष्टः स्यान्नास्ति चावक्तव्यश्च, प्रथमद्वितीयतृतीयधर्मैः

और पुद्गल द्रव्यके उत्पाद, व्यय और ध्रौव्यका वर्णन करता है। (अत्र अर्थात् द्वादशांगोंमें प्रधानभूत वस्तुके अयन अर्थात् ज्ञानको अग्रायण कहते हैं, और उसका कथन करना जिसका प्रयोजन हो उसे अग्रायणीयपूर्व कहते हैं।) यह पूर्व चौदह वस्तुगत दोसौ अस्सी प्राभूतोंके छयानवे लाख पदों द्वारा अंगोंके अत्र अर्थात् प्रधानभूत पदार्थोंका कथन करता है। वीर्यानुप्रवादपूर्व आठ वस्तुगत एकसौ साठ प्राभूतोंके सत्तर लाख पदों द्वारा आत्मवीर्य, परवीर्य, उभयवीर्य, क्षेत्रवीर्य, भववीर्य और तपवीर्यका वर्णन करता है। अस्तिनास्तिप्रवादपूर्व अट्टारह वस्तुगत तीनसौ साठ प्राभूतोंके साठ लाख पदोंद्वारा जीव और अजीवके अस्तित्व और नास्तित्वधर्मका वर्णन करता है। जैसे, जीव, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभावकी अपेक्षा कथंचित् अस्तिरूप है। परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभावकी अपेक्षा कथंचित् नास्तिरूप है। जिससमय वह स्वद्रव्यचतुष्टय और परद्रव्यचतुष्टयद्वारा अक्रमसे अर्थात् युगपत् विवक्षित होता है उससमय स्यादवक्तव्यरूप है। स्वद्रव्यादिरूप प्रथमधर्म और परद्रव्यादिरूप द्वितीयधर्मसे जिससमय क्रमसे विवक्षित होता है उससमय कथंचित् अस्ति-नास्तिरूप है। स्यादस्तिरूप प्रथम धर्म और स्यादवक्तव्यरूप तृतीय धर्मसे जिससमय विवक्षित होता है उससमय कथंचित् अस्ति-अवक्तव्यरूप है। स्यान्नास्तिरूप द्वितीय धर्म और स्यादवक्तव्यरूप तृतीय धर्मसे जिससमय क्रमसे विवक्षित होता है उससमय कथंचित् नास्ति-अवक्तव्यरूप है। स्यादस्तिरूप प्रथम

१ अत्रस्य द्वादशांगेषु प्रधानभूतस्य वस्तुनः अयनं ज्ञानं अग्रायणं, तत्प्रयोजनमग्रायणीयम् । तच्च सप्तशतं-सुनयदुर्णयपंचात्तिकायपद्द्रव्यसप्ततत्त्वत्रयपदार्थादीन् वर्णयति । अत्र परिमाणं तस्यायनं गमनं परिच्छेदनमित्यर्थः । तस्मै हितमग्रायणीयं, सर्वद्रव्यादिपरिमाणपरिच्छेदकारिणि भावार्थः । नं. सू. पृ. २४१.

२ वीर्यस्य जीवादिबस्तुसामर्थ्यानुबन्धनमनुवर्णनमस्मिन्निति वीर्यानुप्रवादं नाम तृतीयं पूर्वम् । तच्च आत्मवीर्यपरवीर्योभयवीर्यक्षेत्रवीर्यकालवीर्यभाववीर्यतपोवीर्यादिसमस्तद्रव्यगुणपर्यायवर्षाणि वर्णयति ।

गो. जी., जी. प्र., टी. ३६६.

३ अस्ति नास्ति इत्यादिधर्माणां प्रवादः परूपणमस्मिन्निति अस्तिनास्तिप्रवादं नाम चतुर्थं पूर्वम् ।

गो. जी., जी. प्र., टी. ३६६.

क्रमेणादिष्टः स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्यश्च जीव इति । एवमजीवाद्योऽपि वक्तव्याः ।  
 णाणपवादं णाम पुत्रं वारसण्हं वत्थूणं १२ वि-सद-चालीस-पाहुडाणं २४० एगूण-  
 कोडि-पदेहि ९९९९९९ पंच णाणाणि तिण्णि अण्णाणाणि वण्णेदि' । दव्वड्डिय-पज्ज-  
 वड्डिय-णयं पडुच्च अणादिअणिहण-अणादिसणिहण-सादिअणिहण-सादिसणिहणाणि  
 वण्णेदि, णाणं णाणसरूवं च वण्णेदि ।

सच्चपवादं पुत्रं वारसण्हं वत्थूणं १२ दु-सय-चालीस-पाहुडाणं २४० छ-  
 अहिय-एग-कोडि-पदेहि १००००००६ वाग्गुप्तिः वाक्संस्कारकारणं प्रयोगो द्वादशधा  
 भाषा वक्तारश्च अनेकप्रकारं सृपाभिधानं दशप्रकारश्च सत्यसद्भावो यत्र निरूपितस्तत्स-  
 त्यप्रवादम् । व्यलीकनिवृत्तिर्वाचां संयमत्वं वा वाग्गुप्तिः । वाक्संस्कारकारणानि शिरः-  
 कण्ठादीन्यष्टौ स्थानानि । वाक्प्रयोगः शुभेतरलक्षणः सुगमः । अभ्याख्यानकलह-  
 पैशुन्यावद्भ्रमप्रलापरत्यरत्युपधिनिवृत्त्यप्रणतिमोपसम्यग्मिथ्यादर्शनात्मिका भाषा द्वादशधा ।  
 अयमस्य कर्तेति अनिष्टकथनमभ्याख्यानम् । कलहः प्रतीतः । पृष्ठनो दोषाविष्करणं

धर्म, स्यान्नास्तिरूप द्वितीय धर्म और स्यादवक्तव्यरूप तृतीय धर्मसे जिससमय क्रमसे विवक्षित  
 होता है उससमय कथंचित् अस्ति-नास्ति-अवक्तव्यरूप जीव है । इसीतरह अजीवादिकका भी  
 कथन करना चाहिये । ज्ञानप्रवादपूर्व वारह वस्तुगत दोसौ चालीस प्राभृतीके एककम एक  
 करोड़ पदोंद्वारा पांच ज्ञान और तीन अज्ञानोंका वर्णन करता है । तथा द्रव्यार्थिकनय और  
 पर्यायार्थिकनयकी अपेक्षा अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त, सादि-अनन्त और सादि-सान्तरूप  
 विकल्पोका तथा इसीतरह ज्ञान और ज्ञानके स्वरूपका वर्णन करता है । सत्यप्रवादपूर्व वारह  
 वस्तुगत दोसौ चालीस प्राभृतीके एक करोड़ छह पदोंद्वारा वचनगुप्ति, वाक्संस्कारके कारण,  
 वचनप्रयोग, वारह प्रकारकी भाषा, अनेक प्रकारके वक्ता, अनेक प्रकारके असत्यवचन और  
 दश प्रकारके सत्यवचन इन सबका वर्णन करता है । असत्य नहीं बोलनेको अथवा वचन-  
 संयम अर्थात् मौनके धारण करनेको वचनगुप्ति कहते हैं । मस्तक, कण्ठ, हृदय, जिह्वाका मूल,  
 दांत, नासिका, तालु और ओठ ये आठ वचनसंस्कारके कारण हैं । शुभ और अशुभ लक्षणरूप  
 वचनप्रयोगका स्वरूप सरल है । अभ्याख्यानवचन, कलहवचन, पैशुन्यवचन, अवद्भ्रमप्रलापवचन,  
 सतिवचन, अरतिवचन, उपधिवचन, निवृत्तिवचन, अप्रणतिवचन, मोपवचन, सम्यग्दर्शनवचन  
 और मिथ्यादर्शनवचनके भेदसे भाषा वारह प्रकारकी है । यह इसका कर्ता है इसतरह अनिष्ट  
 कथन करनेको अभ्याख्यानभाषा कहते हैं । कलहका अर्थ स्पष्ट ही है । ( परस्पर विरोधके

१ ज्ञानानां प्रवादः प्ररूपणमस्मिन्निति ज्ञानप्रवादम् । तच्च मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलानि पंच  
 सम्यग्ज्ञानानि । कुमतिकुश्रुतविभंगाख्यानि त्रीण्यज्ञानानि स्वरूपसंख्यात्रिपयफलानि आश्रित्य तेषां प्रामाण्याप्रामाण्य-  
 विभागं च वर्णयति । गो. जी., जी. प्र., टी. ३६६.

२ इत आरभ्य सत्यप्रवादवर्णनान्तं यावत् समग्रपाठोऽविकलरूपेण तत्त्वार्थराजवार्तिके पृ. ५२ पंक्ति ८ तः  
 आरभ्य २८ तमपंक्तिपर्यन्तः शब्दश उपलभ्यते ।

पैशुन्यम् । धर्मार्थकाममोक्षासम्बद्धा वागवद्भ्रमप्रलापः । शब्दादिविषयेषु रत्युत्पादिका रतिवाक् । तेष्वेवारत्युत्पादिकारतिवाक् । यां वाचं श्रुत्वा परिग्रहार्जनरक्षणादिष्वासज्यते सोपधिवाक् । वणिग्व्यवहारे यामवधार्य निकृतिप्रवणः आत्मा भवति स निकृतिवाक् । यां श्रुत्वा तपोविज्ञानाभ्यां केष्वपि न प्रणमति साप्रणतिवाक् । यां श्रुत्वा स्तेये प्रवर्तते सा मोषवाक् । सम्यग्मार्गोपदेष्ट्री सम्यग्दर्शनवाक् । तद्विपरीता मिथ्यादर्शनवाक् । वक्तारश्चाविष्कृतवक्तृपर्यायाः द्वीन्द्रियादयः । द्रव्यक्षेत्रकालभावाश्रयमनेकप्रकारमनृतम् । दशविधः सत्यसद्भावः नाम-रूप-स्थापना-प्रतीत्य-संवृति-संयोजना-जनपद-देश-भाव-समय-सत्यभेदेन । तत्र सचेतनेतरद्रव्यस्यासत्यप्यर्थे संव्यवहारार्थं संज्ञाकरणं तन्नामसत्यम्, यथेन्द्र इत्यादि । यदर्थासन्निधानेऽपि रूपमात्रेणोच्यते तद्रूपसत्यम्, यथा चित्रपुरुषादि-ष्वासत्यपि चैतन्योपयोगादावर्थपुरुष इत्यादि । असत्यप्यर्थे यत्कार्यार्थं स्थापितं द्यूताक्षा-

वदनेवाले वचनोंको कलहवचन कहते हैं ।) पीछेसे दोष प्रगट करनेको पैशुन्यवचन कहते हैं । धर्म, अर्थ, काम और मोक्षके संबन्धसे रहित वचनोंको अबद्भ्रमप्रलापवचन कहते हैं । इन्द्रियोंके शब्दादि विषयोंमें राग उत्पन्न करनेवाले वचनोंको रतिवचन कहते हैं । इन्द्रियोंके शब्दादि विषयोंमें अरतिको उत्पन्न करनेवाले वचनोंको अरतिवचन कहते हैं । जिस वचनको सुनकर परिग्रहके अर्जन और रक्षण करनेमें आसक्ति उत्पन्न होती है उसे उपधिवचन कहते हैं । जिस वचनको अवधारण करके जीव वाणिज्यमें उगनेरूप प्रवृत्ति करनेमें समर्थ होता है उसे निकृतिवचन कहते हैं । जिस वचनको सुनकर तप और ज्ञानसे अधिक गुणवाले पुरुषोंमें भी जीव नम्रीभूत नहीं होता है उसे अप्रणतिवचन कहते हैं । जिस वचनको सुनकर चौर्यकर्ममें प्रवृत्ति होती है उसे मोषवचन कहते हैं । समीचीन मार्गका उपदेश देनेवाले वचनको सम्यग्दर्शनवचन कहते हैं । मिथ्यामार्गका उपदेश देनेवाले वचनको मिथ्यादर्शन वचन कहते हैं । जिनमें वक्तृपर्याय प्रगट हो गई है ऐसे द्वीन्द्रियसे आदि लेकर सभी जीव वक्ता हैं । द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षा असत्य अनेक प्रकारका है । नामसत्य, रूपसत्य, स्थापनासत्य, प्रतीत्यसत्य, संवृतिसत्य, संयोजनासत्य, जनपदसत्य, देशसत्य, भावसत्य और समयसत्यके भेदसे सत्यवचन दश प्रकारका है ।

मूल पदार्थके नहीं रहने पर भी सचेतन और अचेतन द्रव्यके व्यवहारके लिये जो संज्ञा की जाती है उसे नामसत्य कहते हैं । जैसे, ऐश्वर्यादि गुणोंके न होने पर भी किसीकी नाम 'इन्द्र' ऐसा रखना नामसत्य है । पदार्थके नहीं होने पर भी रूपकी मुख्यतासे जो वचन कहे जाते हैं उसे रूपसत्य कहते हैं । जैसे, चित्रलिखित पुरुष आदिमें चैतन्य और उपयोगादिकके नहीं रहने पर भी 'अर्थपुरुष' इत्यादि कहना रूपसत्य है । मूल पदार्थके नहीं रहने पर भी कार्यके लिये जो द्यूतसंबन्धी अक्ष ( पांसा ) आदिमें स्थापना की जाती है उसे स्थापनासत्य



दिपु तत् स्थापनासत्यम् । साधनादीनौपशमिकादीन् भावान् प्रतीत्य यद्वचस्तत्प्रतीत्य-  
सत्यम् । यल्लोके संवृत्याश्रितं वचस्तत्संवृतिसत्यम्, यथा पृथिव्याद्यनेककारणत्वेऽपि  
सति पङ्के जातं पङ्कजमित्यादि । धूपचूर्णवासानुलेपनप्रघर्षादिपु पद्ममकरहंससर्वतोभद्रक्रौञ्च-  
व्यूहादिपु इतरेतरद्रव्याणां<sup>१</sup> यथाविभागविधिसन्निवेशविर्भावकं यद्वचस्तत्संयोजना-  
सत्यम् । द्वात्रिंशज्जनपदेष्वायानार्यभेदेषु धर्मार्थकाममोक्षाणां प्रापकं यद्वचस्तज्जनपद-  
सत्यम् । ग्रामनगरराजगणपाखण्डजातिकुलादिधर्माणां व्यपदेश्य यद्वचस्तद्देशसत्यम् ।  
छद्मस्थज्ञानस्य द्रव्ययाथात्म्यादर्शनेऽपि संयतस्य संयतासंयतस्य वा स्वगुणपरिपालनार्थं  
प्रासुकमिदमप्रासुकमिदमित्यादि यद्वचस्तद्भावसत्यम् । प्रतिनियतपद्मयद्रव्यपर्यायाणा-  
मागमगम्यानां याथात्म्याविष्करणं यद्वचस्तत्समयसत्यम् ।

आदपवादं सोलसण्हं वत्थूणं १६ वीसुत्तर-ति-सय-पाहुडाणं ३२० छव्वीस-कोडि-  
पदेहि २६०००००००० आदं वण्णेदि वेदे ति वा विण्हु ति वा भोत्ते ति वा बुद्धे ति  
वा इच्चादि-सरूवेण । उत्तं च—

जीवो कत्ता य वत्ता य प्राणी भोत्ता य पोगलो ।

वेदो विण्हु सयंभू य सरीरी तह माणवो ॥ ८१ ॥

कहते हैं । सादि और अनादिरूप औपशमिक आदि भावोंकी अपेक्षा जो वचन बोला जाता है  
उसे प्रतीत्यसत्य कहते हैं । लोकमें जो वचन संवृति अर्थात् कल्पनाके आश्रित बोले जाते हैं  
उन्हें संवृतिसत्य कहते हैं । जैसे, पृथिवी आदि अनेक कारणोंके रहने पर भी जो पंक अर्थात्  
कीचड़में उत्पन्न होता है उसे पंकज कहते हैं इत्यादि । धूपके सुगन्धी चूर्णके अनुलेपन और  
प्रघर्षणके समय, अथवा पद्म, मकर, हंस, सर्वतोभद्र और क्रौञ्च आदिरूप व्यूहरचनाके समय  
सचेतन अथवा अचेतन द्रव्योंके विभागानुसार विधिपूर्वक रचनाविशेषके प्रकाशक जो वचन  
हैं उन्हें संयोजनासत्य कहते हैं । आर्य और अनार्यके भेदसे वत्तीस देशोंमें धर्म, अर्थ, काम  
और मोक्षके प्राप्त करनेवाले वचनको जनपदसत्य कहते हैं । ग्राम, नगर, राजा, गण,  
पाखण्ड, जाति और कुल आदिके धर्मोंके उपदेश करनेवाले जो वचन हैं उन्हें देशसत्य कहते  
हैं । छद्मस्थोंका ज्ञान यद्यपि द्रव्यकी यथार्थताका निश्चय नहीं कर सकता है तो भी अपने गुण  
अर्थात् धर्मके पालन करनेके लिये यह प्रासुक है, यह अप्रासुक है इत्यादि रूपसे जो संयत  
और श्रावकके वचन हैं उन्हें भावसत्य कहते हैं । आगमगम्य प्रतिनियत छह प्रकारकी द्रव्य  
और उनकी पर्यायोंकी यथार्थताके प्रगट करनेवाले जो वचन हैं उन्हें समयसत्य कहते हैं ।

आत्मप्रवादपूर्व सोलह वस्तुगत तीसरी वीस प्राभृतीके छव्वीस करोड़ पदोंद्वारा जीव  
वेत्ता है, विण्णु है, भोक्ता है, बुद्ध है, इत्यादि रूपसे आत्माका वर्णन करता है । कहा भी है—

जीव कर्ता है, वत्ता है, प्राणी है, भोक्ता है, पुद्गलरूप है, वेत्ता है, विण्णु है, स्वयंभू है,

असंखेज्ज-गुणसेठीए खवण-हेदु-परिणामे उज्झिऊणणे परिणामा द्विदि-अणुभाग-खंडय-घादस्स कारणभूदा अत्थि, तेसिं णिरूवय-सुत्ताभावादो । 'कज्ज-गाणत्तादो कारण-गाणत्तमणुमाणिज्जदि' इदि एदमवि ण घडदे, एयादो मोग्गरादो बहु-क्रोडि-कवालोलंभा । तत्थ वि होदु णाम मोग्गरो एओ, ण तस्स सत्तीणमेयत्तं, तदो एय-कखप्परुप्पत्ति-प्पसंगादो इदि चे तो कखहि एत्थ वि भवदु णाम द्विदिकंडयघाद-अणुभाग-कंडयघाद-द्विदिवंधोसरण-गुणसंकम-गुणसेठी-द्विदि-अणुभागबंध-परिणामाणं णाणत्तं तो वि एग-समय-संठिय-णाणा-जीवाणं सरिसा चेव, अण्णहा अणियाट्टि-विसेसणाणु-ववत्तीदो । जइ एवं, तो सव्वेसिमणियट्ठीणमेय-समयमिह वट्टमाणाणं द्विदि-अणुभाग-घादाणं सरिसत्तं पावेदि त्ति चे ण एस दोसो, इट्टत्तादो । पढम-द्विदि-अणुभाग-खंडयाणं

भूत परिणामोंको छोड़कर अन्य कोई भी परिणाम स्थितिकाण्डकघात और अनुभागकाण्डकघातके कारणभूत नहीं हैं, क्योंकि, उन परिणामोंका निरूपण करनेवाला सूत्र (आगम) नहीं पाया जाता है ।

शंका — अनेक प्रकारके कार्य होनेसे उनके साधनभूत अनेक प्रकारके कारणोंका अनुमान किया जाता है ? अर्थात् नवें गुणस्थानमें प्रतिसमय असंख्यातगुणी कर्मनिर्जरा, स्थितिकाण्डकघात आदि अनेक कार्य देखे जाते हैं, इसलिये उनके साधनभूत परिणाम भी अनेक प्रकारके होने चाहिये ।

समाधान — यह कहना भी नहीं बनता है, क्योंकि, एक मुद्गरसे अनेक प्रकारके कपालरूप कार्यकी उपलब्धि होती है ।

शंका — वहां पर मुद्गर एक भले ही रहा आवे, परंतु उसकी शक्तियोंमें एकपना नहीं बन सकता है । यदि मुद्गरकी शक्तियोंमें भी एकपना मान लिया जावे तो उससे एक कपालरूप कार्यकी ही उत्पत्ति होगी ?

समाधान — यदि ऐसा है तो यहां पर भी स्थितिकाण्डकघात, अनुभागकाण्डकघात, स्थितिवन्धापसरण, गुणसंक्रमण, गुणश्रेणीनिर्जरा, शुभप्रकृतियोंके स्थितिवन्ध और अनुभागवन्धके कारणभूत परिणामोंमें नानापना रहा आवे, तो भी एक समयमें स्थित नाना जीवोंके परिणाम सदृश ही होते हैं, अन्यथा उन परिणामोंके 'अनिवृत्ति' यह विशेषण नहीं बन सकता है ।

शंका — यदि ऐसा है, तो एक समयमें स्थित संपूर्ण अनिवृत्तिकरण गुणस्थानवालोंके स्थितिकाण्डकघात और अनुभागकाण्डकघातकी समानता प्राप्त हो जायगी ?

समाधान — यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, यह बात तो हमें इष्ट ही है ।

शंका — प्रथम-स्थितिकाण्डक और प्रथम-अनुभागकाण्डकोंकी समानताका नियम तो नहीं पाया जाता है, इसलिये उक्त कथन घटित नहीं होता है ?

स्वयम्भूः । शरीरमेयस्स अत्थि त्ति शरीरी<sup>१</sup> । मनुः ज्ञानं, तत्र भव इति मानवः<sup>२</sup> । सजण-  
संबंध-मित्त-वग्गादिसु संजदि त्ति सत्ता<sup>३</sup> । चउग्गइ-संसारे जायदि जणयदि त्ति जंतू<sup>४</sup> ।  
माणो एयस्स अत्थि त्ति माणी<sup>५</sup> । माया अत्थि त्ति मायी<sup>६</sup> । जोगो अत्थि त्ति जोगी<sup>७</sup> ।  
अइसण्ह-देह-पमाणेण संकुडदि त्ति संकुडो<sup>८</sup> । सव्वं लोगागासं वियापदि त्ति असंकुडो<sup>९</sup> ।  
क्षेत्रं स्वस्वरूपं जानातीति क्षेत्रज्ञैः । अट्ट-कम्मवभंतरो त्ति अंतरप्पा ।

इसलिये विण्णु है । स्वतः ही उत्पन्न हुआ है, इसलिये स्वयम्भू है । संसार अवस्थामें इसके  
शरीर पाया जाता है, इसलिये शरीरी है । मनु ज्ञानको कहते हैं । उसमें यह उत्पन्न हुआ है,  
इसलिये मानव है । स्वजनसंबन्धी मित्र आदि वर्गमें आसक्त रहता है, इसलिये सत्ता है । चार  
गतिरूप संसारमें उत्पन्न होता है, इसलिये जन्तु है । इसके मानकषाय पाई जाती है, इसलिये  
मानी है । इसके मायाकषाय पाई जाती है, इसलिये मायी है । इसके तीन योग होते हैं, इसलिये  
योगी है । अतिसूक्ष्म देह मिलनेसे संकुचित होता है इसलिये संकुट है । संपूर्ण लोकाकाशको  
व्याप्त करता है, इसलिये असंकुट है । लोकालोकरूप क्षेत्रको और अपने स्वरूपको जानता है,  
इसलिये क्षेत्रज्ञ है । आठ कर्मोंके भीतर रहता है इसलिये अन्तरात्मा है ।

१ यद्यपि व्यवहारेण कर्मवशाद् भवे भवे भवति परिणमति, तथापि निश्चयेन स्वयं स्वस्मिन्नेव ज्ञानदर्शन-  
स्वरूपेणैव भवति परिणमति इति स्वयम्भूः । गो. जी., जी. प्र., टी. ३६६.

२ व्यवहारेण औदारिकादिशरीरमस्यास्तीति शरीरी, निश्चयेनाशरीरः । गो. जी., जी. प्र., टी. ३६६.

३ व्यवहारेण मानवादिपर्यायपरिणतो मानवः उपलक्षणान्धारकः तिर्यङ् देवश्च । निश्चयेन मनो ज्ञाने भवः  
मानवः । गो. जी., जी. प्र., टी. ३६६.

४ व्यवहारेण स्वजनमित्रादिपरिग्रहेषु सजतीति सत्ता, निश्चयेनासत्ता । गो. जी., जी. प्र., टी. ३६६.

५ व्यवहारेण चतुर्गतिसंसारे नानायोनिषु जायत इति जंतुः संसारीत्यर्थः । निश्चयेनाजन्तुः । गो. जी.,  
जी. प्र., टी. ३६६.

६ व्यवहारेण मानोऽहंकारोऽस्यास्तीति मानी, निश्चयेनामानी । गो. जी., जी. प्र., टी. ३६६.

७ व्यवहारेण माया वंचना अस्यास्तीति मायी, निश्चयेनामायी । गो. जी., जी. प्र., टी. ३६६.

८ व्यवहारेण योगः कायवाङ्मनःकर्मास्यास्तीति योगी, निश्चयेनायोगी । गो. जी., जी. प्र., टी. ३६६.

९, १० व्यवहारेण सूक्ष्मनिगोदलब्ध्यपर्याप्तकसर्वजघन्यशरीरप्रमाणेन संकुटति संकुचितप्रदेशो भवतीति संकुटः,  
समुद्घातं सर्वलोकं व्याप्नोतीति असंकुटः । निश्चयेन प्रदेशसंहारविसर्पणामावादनुभयः किंचिद्गुणचरमशरीरप्रमाण  
इत्यर्थः । गो. जी., जी. प्र., टी. ३६६.

११ नयद्वयेन क्षेत्रं लोकालोकं स्वस्वरूपं च जानातीति क्षेत्रज्ञः । गो. जी., जी. प्र., टी. ३६६.

१२ व्यवहारेण अष्टकर्माभ्यन्तरवर्तिस्वभावत्वान्, निश्चयेन चैतन्याभ्यन्तरवर्तिस्वभावत्वाच्च अन्तरात्मा ।  
गो. जी., जी. प्र., टी. ३६६.

कम्मपवादं गाम पुच्चं वीसण्हं वत्थूणं २० चत्तारि-सय-पाहुडाणं ४०० एग-कोडि-असीदि-लक्ख-पदेहि १८०००००० अट्टविहं कम्मं वण्णेदि । पच्चक्खाण-गामधेयं तीसण्हं वत्थूणं ३० छस्सय-पाहुडाणं ६०० चउरासीदि-लक्ख-पदेहि ८४०००००० दव्व-भाव-परिमियापरिमिय-पच्चक्खाणं उववासविहिं पंच समिदीओ तिण्णि गुत्तीओ च परूवेदि । विज्जाणुवादं गाम पुच्चं पण्हारसण्हं वत्थूणं १५ तिण्णि-सय-पाहुडाणं ३०० एग-कोडि-दस-लक्ख-पदेहि ११०००००० अंगुष्ठप्रसेनादीनां अल्पविद्यानां सप्तशतानि रोहिण्यादीनां महाविद्यानां पञ्चशतानि अन्तरिक्षभौमाङ्गस्वरस्वमलक्षणव्यञ्जनछिन्नान्यष्टौ महानिमित्तानि च कथयति । कंछाण-गामधेयं गाम पुच्चं दसण्हं वत्थूणं १० वि-सद-पाहुडाणं २०० छव्वीस-कोडि-पदेहि २६००००००० रविशशिनक्षत्रतारागणानां चारोपपादगति-विपर्ययफलानि शकुनव्याहृतमर्हद्गलदेववासुदेवचक्रधरादीनां गर्भावतरणादिमहाकल्याणानि

कर्मप्रवादपूर्व वीसवस्तुगत चारसौ प्राभृतोंके एक करोड़ अस्सी लाख पदोंद्वारा आठ प्रकारके कर्मोंका वर्णन करता है । प्रत्याख्यानपूर्व तीस वस्तुगत छहसौ प्राभृतोंके चौरासी लाख पदोंद्वारा द्रव्य, भाव आदिकी अपेक्षा परिमितकालरूप और अपरिमितकालरूप प्रत्याख्यान, उपवासविधि, पांच समिति और तीन गुप्तियोंका वर्णन करता है । विद्यानुवादपूर्व पन्द्रह वस्तुगत तीनसौ प्राभृतोंके एक करोड़ दश लाख पदोंद्वारा अंगुष्ठप्रसेना आदि सातसौ अल्प विद्याओंका, रोहिणी आदि पांचसौ महाविद्याओंका, और अन्तरिक्ष, भौम, अंग, स्वर, स्वम, लक्षण, व्यंजन, चिन्ह इन आठ महानिमित्तोंका वर्णन करता है । कल्याणवादपूर्व दश वस्तुगत दोसौ प्राभृतोंके छव्वीस करोड़ पदोंद्वारा सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र और तारागणोंके चारक्षेत्र, उपपादस्थान, गति, चक्रगति तथा उनके फलोंका, पक्षीके शब्दोंका और अरिहंत अर्थात् तीर्थंकर, बलदेव, वासुदेव और चक्रवर्ती आदिके गर्भा-

१ कर्मणः प्रवादः प्ररूपणमस्मिन्निति कर्मप्रवादमष्टमं पूर्वं । तच्च मूलोत्तरोत्तरप्रकृतिभेदमिदं बहुविकल्पबंधोदयो-र्दारणमन्त्राद्यवस्थं ज्ञानावरणादिकर्मस्वरूपं समवधानेर्यापथतपस्याधाकर्मादि वर्णयति । गो. जी., जी. प्र., टी. ३६६.

२ प्रत्याख्यायते निषिध्यते सावचमस्मिन्ननेनेति वा प्रत्याख्यानं नवमं पूर्वम् । तच्च नामस्थापनाद्रव्यक्षेत्रकाल भावानाश्रित्य पुरुषसंहननत्रलाघनुसारेण परिमितकालं अपरिमितकालं वा प्रत्याख्यानं सावचवस्तुनिवृत्ति उपवासविधि तद्भा-वनांगं पंचसमितित्रिगुण्यादिकं च वर्णयति । गो. जी., जी. प्र., टी. ३६६.

३ यया विद्यांगुष्ठे देवतावतारः कियते सा अंगुष्ठप्रसेना विद्योच्यते । अभि. रा. को. ( अंगुष्ठप्रसेनी )

४ विद्यानां अनुवादः अनुक्रमेण वर्णनं यस्मिन् तद्विद्यानुवादं दशमं पूर्वम् । गो. जी., जी. प्र., टी. ३६६.

५ कल्याणानां वादः प्ररूपणमस्मिन्निति कल्याणवादमेकादशं पूर्वम् । तच्च तीर्थंकरचक्रधरबलदेववासुदेवप्रति-वासुदेवार्दानां गर्भावतरणकल्याणादिमहोत्सवान् तत्कारणतीर्थकरत्वादिपुण्यविशेषहेतुषोडशभावनातपोविशेषाद्यनुष्ठानानि चन्द्रसूर्यग्रहनक्षत्रचारग्रहणशकुनादिफलादि च वर्णयति । गो. जी., जी. प्र., टी. ३६६. एकादशमबन्धं, बन्धं नाम निष्फलं न विद्यते-बन्धं यत्र तदबन्धं, किमुतं भवति ? यत्र सर्वेऽपि ज्ञानतपःसंयमादयः शुभफला सर्वे च प्रमादयोऽ-शुभफला वर्णयन्ते तदबन्धं नाम, तस्य पदपरिमाणं पङ्क्तिशक्तिः पदकोट्यः । नं. सू. पृ. २४१.

च कथयति । प्राणावायं गाम पुवं दसण्हं वत्थूहं १० वि-सद-पाहुडाणं २०० तेरस-  
कोडि-पदेहि १३०००००००० कायचिकित्साद्यष्टाङ्गमायुर्वेदं भूतिकर्म जाङ्गुलिप्रक्रमं प्राणा-  
पानविभागं च विस्तरेण कथयति । किरियाविशालं गाम पुवं दसण्हं वत्थूणं १० वि-सद-  
पाहुडाणं २०० णव-कोडि-पदेहि ९०००००००० लेखादिकाः द्वासप्ततिकलाः स्रैणोश्चतुः-  
षष्टिगुणान् शिल्पानि काव्यगुणदोषक्रियां छन्दोविचितिक्रियां च कथयति । लोक-  
विन्दुसारं गाम पुवं दसण्हं वत्थूणं १० वि-सय-पाहुडाणं वारह-कोडि-पण्णास-लक्ख-  
पदेहि १२५००००००० अष्टौ व्यवहारान् चत्वारि वीजानि मोक्षगमनक्रियाः मोक्षसुखं  
च कथयति । सयल-वत्थु-समासो पंचाणउदि-सदं १९५ सयल-पाहुड-समासो तिण्णि-  
सहस्सा णवय-सया ३९०० ।

वतार आदि महाकल्याणकोका वर्णन करता है । प्राणावायुपूर्व दश वस्तुगत दोसौ प्राभृतोंके  
तेरह करोड़ पदोंद्वारा शरीरचिकित्सा आदि अष्टांग आयुर्वेद, भूतिकर्म, अर्थात् शरीर आदिकी  
रक्षाके लिये किये गये भस्मलेपन सूत्रबंधनादि कर्म, जाङ्गुलिप्रक्रम (विषविद्या) और प्राणायामके  
भेद-प्रभेदोंका विस्तारसे वर्णन करता है । क्रियाविशालपूर्व दश वस्तुगत दोसौ प्राभृतोंके नौ  
करोड़ पदोंद्वारा लेखनकला आदि बहत्तर कलाओंका, स्त्रीसंबन्धी चौसठ गुणोंका, शिल्पकलाका  
काव्यसंबन्धी गुण-दोषाधिकी और छन्दनिर्माणकलाका वर्णन करता है । लोकविन्दु-  
सारपूर्व दश वस्तुगत दोसौ प्राभृतोंके वारह करोड़ पचास लाख पदोंद्वारा आठ प्रकारके  
व्यवहारोंका, चार प्रकारके बीजोंका, मोक्षको ले जानेवाली क्रियाका और मोक्षसुखका वर्णन  
करता है । इन चौदह पूर्वोंमें संपूर्ण वस्तुओंका जोड़ एकसौ पञ्चानवे है, और संपूर्ण प्राभृतोंका  
जोड़ तीन हजार नौसौ है ।

१ शरीरभाण्डकरक्षार्थं भस्मसूत्रादिना यत्परिवेष्टनकरणं तद् भूतिकर्म । उक्तं च ' भूर्इए मट्टियाइ व सुत्तेण व  
होइ भूइकम्मं तु । वसहीसरीरमंडयरक्खा अभिओगमाईआ । प्र. सा. पू. पृ. १८१.

२ प्राणानां आवादः प्ररूपणमास्मिन्निति प्राणावादं द्वादशं पूर्वम् । तच्च कायचिकित्साद्यष्टाङ्गमायुर्वेदं भूतिकर्म  
जाङ्गुलिकप्रक्रमं इलापिंगलासुपुष्पादित्रहुप्रकारप्राणापानविभागं दशप्राणानां उपकारकापकारकद्रव्याणि गत्याद्यनुसारेण  
वर्णयति । गो. जी., जी. प्र., टी. ३६६.

३ क्रियादिभिः चतुःशतैः विज्ञानैः शोभमानं वा क्रियाविशालं त्रयोदशं पूर्वम् । तच्च संगीत-  
शास्त्रं छंदोलंकारादिद्वासप्ततिकलाः चतुःषष्टिस्त्रीगुणान् शिल्पादिविज्ञानानि चतुरशीतिगर्भाधानादिकाः अष्टोत्तरशतं सम्य-  
ग्दर्शनादिकाः पंचविंशतिं देवत्रयं दानादिकाः नियन्त्रैमित्तिकाः क्रियाश्च वर्णयति । गो. जी., जी. प्र., टी. ३६७.

४ त्रिलोकविन्दुसारं इति पाठः । त्रिलोकानां विन्दवः अवयवाः सारं च वर्णयन्तेऽस्मिन्निति त्रिलोकविन्दुसारं ।  
तच्च त्रिलोकस्वरूपं षट्त्रिंशत्परिकर्माणि अष्टौ व्यवहारान् चत्वारि वीजानि मोक्षस्वरूपं तद्गमनकारणक्रियाः मोक्षसुख-  
स्वरूपं च वर्णयति ॥ गो. जी., जी. प्र., टी. ३६३. यत्राष्टौ व्यवहाराश्चत्वारि वीजानि परिकर्मराशिक्रियाविभागश्च  
सर्वश्रुतसंपदुपदिष्टा तत्खलु 'लोकविन्दुसारम्' । तं. रा. वा. पृ. ५३.

एत्थ किमुप्पायपुव्वादो, किमग्गेणियादो ? एवं पुच्छा सव्वेसिं । णो उप्पाय-  
पुव्वादो, एवं वारणा सव्वेसिं । अग्गेणियादो । तस्स अग्गेणियस्स पंचविहो उवक्कमो,  
आणुपुव्वी णामं पमाणं वत्तव्वदा अत्थाहियारो चेदि । आणुपुव्वी तिविहा, पुव्व्वाणुपुव्वी-  
पच्छाणुपुव्वी जत्थतत्थाणुपुव्वी चेदि । एत्थ पुव्व्वाणुपुव्वीए गणिज्जमाणे त्रिदियादो,  
पच्छाणुपुव्वीए गणिज्जमाणे तेरसमादो, जत्थतत्थाणुपुव्वीए गणिज्जमाणे अग्गेणियादो ।  
अंगाणमग्ग-पदं वण्णेदि त्ति अग्गेणियं गुणणामं । अक्खर-पद-संघाद-पडिवत्ति-अणि-  
योगद्वारेहि संखेज्जमत्थदो अणंतं । वत्तव्वः ससमयवत्तव्वदा ।

अत्थाधियारो चोद्दसविहो । तं जहा, पुव्वंते अवरंते धुवे अद्भुवे चयणलद्धी अद्भुवमं-  
पणिधिकप्पे अट्ठे भोम्मावयादीए सव्वट्ठे कप्पणिज्जाणे तीदे अणागय-काले सिज्झए  
वज्झए त्ति चोद्दस वत्थूणि । एत्थ किं पुव्वत्तादो, किं अवरत्तादो ? एवं पुच्छा सव्वेसिं  
कायव्वा । णो पुव्वत्तादो णो अवरत्तादो, एवं वारणा सव्वेसिं कायव्वा । चयणलद्धीदो ।

इस जीवस्थान शास्त्रमें क्या उत्पादपूर्वसे प्रयोजन है, क्या अग्रायणीयपूर्वसे प्रयोजन  
है? इसतरह सबके विषयमें पृच्छा करनी चाहिये। यहां पर न तो उत्पादपूर्वसे प्रयोजन है, और  
न दूसरे पूर्वसे प्रयोजन है इसतरह सबका निषेध करके यहां पर अग्रायणीयपूर्वसे प्रयोजन है,  
इसतरहका उत्तर देना चाहिये ।

उस अग्रायणीयपूर्वके पांच उपक्रम हैं, आनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता और अर्था-  
धिकार । पूर्वानुपूर्वी, पश्चादानुपूर्वी और यथातथानुपूर्वीके भेदसे आनुपूर्वी तीन प्रकारकी है ।  
यहां पर पूर्वानुपूर्वीसे गिनती करने पर दूसरेसे, पश्चादानुपूर्वीसे गिनती करने पर तेरहवेंसे  
और यथातथानुपूर्वीसे गिनती करने पर अग्रायणीयपूर्वसे प्रयोजन है । अंगोंके अग्र अर्थात्  
प्रधानभूत पदार्थोंका वर्णन करनेवाला होनेके कारण 'अग्रायणीय' यह गौण्यनाम है । अक्षर,  
पद, संघात, प्रतिपत्ति और अनुयोगरूप द्वारोंकी अपेक्षा संख्यात और अर्थकी अपेक्षा अनन्तरूप  
है । इसमें स्वसमयका ही कथन किया गया है, इसलिये स्वसमयवक्तव्यता है ।

अग्रायणीयपूर्वके अर्थाधिकार चौदह प्रकारके हैं । वे इसप्रकार हैं, पूर्वान्त अपरान्त  
ध्रुव, अध्रुव, चयनलब्धि, अर्धोपम, प्रणधिकल्प, अर्थ, भौम, वतादिक, सर्वार्थ, कल्पनिर्याण,  
अतीतकालमें सिद्ध और वद्ध, अनागतकालमें सिद्ध और वद्ध । इनमेंसे यहां पर क्या पूर्वान्तसे  
प्रयोजन है, क्या अपरान्तसे प्रयोजन है? इसतरह सबके विषयमें पृच्छा करनी चाहिये । यहां  
पर पूर्वान्तसे प्रयोजन नहीं, अपरान्तसे प्रयोजन नहीं; इत्यादि रूपसे सबका निषेध कर देना  
चाहिये । किन्तु चयनलब्धिसे यहां पर प्रयोजन है इसप्रकार उत्तर देना चाहिये । चयनलब्धिका

१ पूर्वान्तं अपरान्तं ध्रुवमध्रुवचयनलब्धिनामानि । अध्रुवं सप्रणिधिं चाप्यर्थं भौमावयाथं (ः?) च ॥  
सर्वार्थकल्पनायं ज्ञानमतीतं त्वनागतं कालम् । सिद्धिमुपाध्यं च तथा त्तुर्दशं वस्तूनि द्वितीयस्य ॥ द. म. पृ. ८-९.

तस्स उक्कमो पंचविहो, आणुपुव्वी णामं पमाणं वत्तव्वदा अत्थाहियारो चेदि । तत्थ आणुपुव्वी तिविहा, पुव्व्वाणुपुव्वी पच्छाणुपुव्वी जत्थतत्थाणुपुव्वी चेदि । एत्थ पुव्व्वाणुपुव्वीए गणिज्जमाणे पंचमादो, पच्छाणुपुव्वीए गणिज्जमाणे दसमादो, जत्थ-तत्थाणुपुव्वीए गणिज्जमाणे चयणलद्धीदो । णामं चयण-विहिं लद्धि-विहिं च वण्णेदि तेण चयणलद्धि ति गुणणामं । पमाणमक्खर-पद-संघाद-पडिपत्ति-अणियोगद्दारेहि संखेज्जमत्थदो अणंतं । वत्तव्वदा ससमयवत्तव्वदा । अत्थाहियारो वीसदिविहो । एत्थ किं पढम-पाहुडादो, किं विदिय-पाहुडादो ? एवं पुच्छा सव्वेसिं णेयव्वा । णो पढम-पाहुडादो णो विदिय-पाहुडादो, एवं वारणा सव्वेसिं णेयव्वा । चउत्थ-पाहुडादो । तस्स उक्कमो पंचविहो, आणुपुव्वी णामं पमाणं वत्तव्वदा अत्थाहियारो चेदि । तत्थ आणुपुव्वी तिविहा, पुव्व्वाणुपुव्वी पच्छाणुपुव्वी जत्थतत्थाणुपुव्वी चेदि । पुव्व्वाणुपुव्वीए गणिज्जमाणे चउत्थादो, पच्छाणुपुव्वीए गणिज्जमाणे सत्तारसमादो, जत्थतत्थाणुपुव्वीए गणिज्जमाणे कम्मपयडिपाहुडादो । णामं कम्माणं पयडि-सरूवं वण्णेदि तेण कम्म-पयडिपाहुडे ति गुणणामं । वेयणकसिणपाहुडे ति वि तस्स विदियं णाममत्थि ।

उपक्रम पांच प्रकारका है, आनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता और अर्थाधिकार । पूर्वानुपूर्वी, पश्चादानुपूर्वी और यथातथानुपूर्वीके भेदसे आनुपूर्वी तीन प्रकारकी है । उन तीनोंमेंसे, यहां पर पूर्वानुपूर्वीसे गिनती करने पर पांचवें अर्थाधिकारसे, पश्चादानुपूर्वीसे गिनती करने पर दशवें अर्थाधिकारसे और यथातथानुपूर्वीसे गिनती करने पर चयनलद्धि नामके अर्थाधिकारसे प्रयोजन है । यह अर्थाधिकार चयनविधि और लद्धिविधिका वर्णन करता है, इसलिये चयनलद्धि यह गौण्यनाम है । अक्षर, पद, संघात, प्रतिपत्ति और अनुयोगरूपःद्वारोंकी अपेक्षा संख्यात तथा अर्थकी अपेक्षा अनन्तप्रमाण है । स्वसमयका कथन करनेवाला होनेके कारण यहां पर स्वसमयवक्तव्यता है । चयनलद्धिके अर्थाधिकार वीस प्रकारके हैं । उनमेंसे यहां क्या प्रथम प्राभृतसे प्रयोजन है, क्या दूसरे प्राभृतसे प्रयोजन है ? इसतरह सबके विषयमें पृच्छा करनी चाहिये । यहां पर प्रथम प्राभृतसे प्रयोजन नहीं है, दूसरे प्राभृतसे प्रयोजन नहीं है, इसप्रकार सबका निषेध कर देना चाहिये । किन्तु यहां पर चौथे प्राभृतसे प्रयोजन है, ऐसा उत्तर देना चाहिये ।

उसका उपक्रम पांच प्रकारका है, आनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता और अर्थाधिकार । उनमेंसे, पूर्वानुपूर्वी, पश्चादानुपूर्वी और यथातथानुपूर्वीके भेदसे आनुपूर्वी तीन प्रकारकी है । यहां पर पूर्वानुपूर्वीसे गिनती करने पर चौथे प्राभृतसे, पश्चादानुपूर्वीसे गिनती करने पर सत्रहवें प्राभृतसे और यथातथानुपूर्वीसे गिनती करने पर कर्मप्रकृतिप्राभृतसे प्रयोजन है । यह कर्मोंकी प्रकृतियोंके स्वरूपका वर्णन करता है, इसलिये कर्मप्रकृतिप्राभृत यह गौण्यनाम है । इसका 'वेदनाकृतप्राभृत' यह दूसरा नाम भी है । कर्मोंके उदयको वेदना कहते हैं । उसका यह

वेयणा कम्माणमुदयो तं कसिणं गिरवसेसं वण्णेदि, अदो वेयणकसिणपाहुडमिदि एदमवि गुणणाममेव । पमाणमक्खर-पय-संघाय-पडिवत्ति-अणियोगद्वारेहि संखेज्ज-मत्थदो अणंतं । वत्तव्वं ससमयो । अत्थाहियारो चउवीसदिविहो । तं जहा, कदी वेदणाए फासे कम्मे पयडी सुबंधणे णिवंधणे पक्कमे उवक्कमे उदए मोक्खे संकमे लेस्सा लेस्सायम्मे लेस्सापरिणामे सादमसादे दीहे रहस्से भवधारणीए पोग्गलत्ता णिधत्त-मणिधत्तं णिकाचिदमणिकाचिदं कम्मट्टिदी पच्छिमक्खंधे' त्ति । अप्पावहुगं च सव्वत्थ, जेण चउवीसण्हमणियोगद्वाराणं साहारणो तेण पुह अहियारो ण होदि त्ति । एत्थ किं कदीदो, किं वेयणादो ? एवं पुच्छा सव्वत्थ कायव्वा । णो कदीदो णो वेयणादो, एवं वारणा सव्वेसिं णेयव्वा । बंधणादो । तस्स उवक्कमो पंचविहो, आणुपुव्वी णामं पमाणं वत्तव्वदा अत्थाहियारो चेदि । तत्थ आणुपुव्वी तिविहा, पुव्व्वाणुपुव्वी पच्छाणुपुव्वी जत्थतत्थाणुपुव्वी चेदि । तत्थ पुव्व्वाणुपुव्वीए गणिज्जमाणे छट्ठादो, पच्छाणुपुव्वीए

निरवशेषरूपसे वर्णन करता है, इसलिये वेदनाकृत्त्वप्राभृत यह भी गौण्यनाम है । यह अक्षर, पद, संघात, प्रतिपत्ति और अनुयोगरूप द्वारोंकी अपेक्षा संख्यातप्रमाण और अर्थकी अपेक्षा अनन्तप्रमाण है । स्वसमयका ही कथन करनेवाला होनेके कारण इसमें स्वसमयवक्तव्यता है ।

कर्मप्रकृतिप्राभृतके अर्थाधिकार चौबीस प्रकारके हैं वे इसप्रकार हैं । कृति, वेदना, स्पर्श, कर्म, प्रकृति, सुबन्धन, निबन्धन, प्रक्रम, उपक्रम, उदय, मोक्ष, संक्रम, लेश्या, लेश्याकर्म लेश्यापरिणाम, सातअसात, दीर्घहस्व, भवधारणीय, पुद्गलत्व, निधत्त-अनिधत्त, निकाचित अनिकाचित, कर्मस्थिति और पश्चिमस्कंध । इन चौबीस अधिकारोंमें अल्पबहुत्व लगा लेना चाहिये, क्योंकि, चौबीस ही अधिकारोंमें अल्पबहुत्व साधारण अर्थात् समानरूपसे है । इसलिये अल्पबहुत्वनामका पृथक् अधिकार नहीं हो सकता है ।

यहां पर क्या कृतिसे प्रयोजन है, क्या वेदनासे प्रयोजन है ? इसतरह सब अधिकारोंके विषयमें पूछना चाहिये । यहां पर न तो कृतिसे प्रयोजन है, न वेदनासे ही प्रयोजन है, इसतरह सबका निषेध कर देना चाहिये । किंतु बन्धन अधिकारसे प्रयोजन है, इसतरह उत्तर देना चाहिये । उस बन्धन नामके अधिकारका उपक्रम पांच प्रकारका है, आनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता और अर्थाधिकार । उनमेंसे, पूर्वानुपूर्वी, पश्चादानुपूर्वी और यथातथानुपूर्वीके भेदसे आनुपूर्वी तीन प्रकारकी है । उन तीनोंमेंसे, पूर्वानुपूर्वीसे गिननेपर

१ पंचमवस्तुचतुर्थप्राभृतकस्यानुयागनामानि । कृतिवेदने तथैव स्पर्शनकर्म प्रकृतिमेव ॥ बंधननिबंधन-प्रक्रमानुपक्रममथाभ्युदयमोक्षौ । संक्रमलेश्ये च तथा लेश्यायाः कर्मपरिणामौ ॥ सातमसातं दीर्घं हस्वं भवधारणीय-संज्ञं च । पुरुपुद्गलात्मनाम च निधत्तमनिधत्तमभिन्नौमि ॥ सनिकाचितमनिकाचितमथ कर्मस्थितिकेपश्चिमस्कंधौ । अल्पबहुत्वं च यजे तद्द्वाराणां चतुर्विंशम् ॥ द. म. पृ. ९



गणिज्जमाणे एगूणवीसदिमादो, जत्थतत्थाणुपुञ्जीए गणिज्जमाणे वंधणादो । णामं वंध-वण्णणादो वंधणो त्ति गुणणामं । पमाणमक्खर-पय-संघाद-पडिवत्ति-अणियो-गदारेहि संखेज्जमतथदो अणंतं । वत्तव्वदा ससमयवत्तव्वदा । अत्थाधियारो चउच्चिहो । तं जहा, वंधो वंधगो वंधाणिज्जं वंधविधानं चेदि । एत्थ किं वंधादो ? एवं पुच्छा सव्वेसिं कायव्वा । णो वंधादो णो वंधाणिज्जादो । वंधगादो वंधविधानादो च । एत्थ वंधगे त्ति अहियारस्स एकारसं अणियोगदाराणि । तं जहा, एगजीवेण सामित्तं एगजी-वेण कालो एगजीवेण अंतरं णाणाजीवेहि भंगविचयो दव्वपमाणाणुगमो खेत्ताणुगमो पोसणाणुगमो णाणाजीवेहि कालाणुगमो णाणाजीवेहि अंतराणुगमो भागाभागाणु-गमो अप्पावहुगाणुगमो चेदि । एत्थ किं एगजीवेण सामित्तादो ? एवं पुच्छा सव्वेसिं । णो एगजीवेण सामित्तादो, एवं वारणा सव्वेसिं । पंचमादो । दव्वपमाणादो दव्वपमाणा-णुगमो णिग्गदो ।

छटे अधिकारसे, पश्चादानुपूर्वीसे गिननेपर उन्नीसवें अधिकारसे और यथातथानुपूर्वीसे गिननेपर बन्धन नामके अधिकारसे प्रयोजन है । यह बन्धन नामका अधिकार बन्धका वर्णन करता है, इसलिये इसका 'बन्धन' यह गौण्यनाम है । यह अक्षर, पद, संघात, प्रतिपत्ति और अनुयोगरूप द्वारोंकी अपेक्षा संख्यातप्रमाण और अर्थकी अपेक्षा अनन्तप्रमाण है । स्वसमयका वर्णन करनेवाला होनेसे इसमें स्वसमयवक्तव्यता है ।

इसके अर्थाधिकार चार प्रकारके हैं, बन्ध, बन्धक, बन्धनीय और बन्धविधान । यहांपर क्या बन्धसे प्रयोजन है ? इत्यादि रूपसे चारों अधिकारोंके विषयमें पृच्छा करनी चाहिये । यहांपर बन्धसे प्रयोजन नहीं है और बन्धनीयसे भी प्रयोजन नहीं है, किन्तु बन्धक और बन्धविधानसे यहांपर प्रयोजन है ।

इन बन्ध आदि चार अधिकारोंमेंसे बन्धक इस अधिकारके ग्यारह अनुयोगद्वार है । वे इसप्रकार हैं, एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्वानुगम, एक जीवकी अपेक्षा कालानुगम, एक जीवकी अपेक्षा अन्तरानुगम, नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचयानुगम, द्रव्यप्रमाणानुगम, क्षेत्रानुगम, स्पर्शनानुगम, नाना जीवोंकी अपेक्षा कालानुगम, नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तरानुगम, भागाभागाणुगम और अल्पबहुत्वानुगम । यहांपर क्या एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्वानुगमसे प्रयोजन है ? इत्यादि रूपसे ग्यारह अनुयोगद्वारोंके विषयमें पृच्छा करनी चाहिये । यहांपर एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्वानुगमसे प्रयोजन नहीं है, इत्यादि रूपसे सबका निषेध भी कर देना चाहिये । किन्तु यहां पांचवे द्रव्यप्रमाणानुगमसे प्रयोजन है, इसप्रकार उत्तर देना चाहिये ।

इस जीवस्थान शास्त्रमें जो द्रव्यप्रमाणानुगम नामका अधिकार है, वह इस बन्धक नामके अधिकारके द्रव्यप्रमाणानुगम नामके पांचवे अधिकारसे निकला है ।

बंधविहाणं चउच्चिहं । तं जहा, पयडिवंधो द्विदिवंधो अणुभागबंधो पदेसबंधो चेदि । तत्थ जो सो पयडिवंधो सो दुविहो, मूलपयडिवंधो उत्तरपयडिवंधो चेदि । तत्थ जो सो मूलपयडिवंधो सो थप्पो । जो सो उत्तरपयडिवंधो सो दुविहो, एगेगुत्तरपयडिवंधो अन्वोगाढउत्तरपयडिवंधो चेदि । तत्थ जो सो एगेगुत्तरपयडिवंधो तस्स चउवांस अणियोगद्वाराणि णादच्चाणि भवंति । तं जहा, समुक्कित्तणा सन्धबंधो णोसन्धबंधो उक्कस्सबंधो अणुक्कस्सबंधो जहणबंधो अजहणबंधो सादियबंधो अणादियबंधो ध्रुवबंधो अध्रुवबंधो बंधसामित्तविचयो बंधकालो बंधतरं बंधसण्णियासो णाणाजीवेहि भंगविचयो भागाभागाणुगमो परिमाणानुगमो खेत्तानुगमो पोसणानुगमो कालानुगमो अंतरानुगमो भावानुगमो अप्पावहुत्तानुगमो चेदि । एदेसु समुक्कित्तणादो पयडिसमुक्कित्तणा द्वाणसमुक्कित्तणा तिण्णि महादंडया णिग्गया । तेवीसदिमादो भावो णिग्गदो । जो सो अन्वोगाढउत्तरपयडिवंधो सो दुविहो, भुजगारबंधो पयडिद्वाणबंधो चेदि । जो सो भुजगारबंधो तस्स अद्द अणियोगद्वाराणि सो थप्पो । जो सो पयडिद्वाणबंधो तत्थ इमाणि अद्द अणियोगद्वाराणि । तं जहा, संतपरूवणा दन्धपमानानुगमो खेत्तानुगमो पोसणानुगमो कालानुगमो अंतरानुगमो भावानुगमो अप्पावहुत्तानुगमो चेदि । एदेसु अद्दसु अणियोगद्वारेसु छ अणियोगद्वाराणि णिग्गयाणि । तं जहा, संतपरूवणा

बन्धविधान चार प्रकारका है, प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध, और प्रदेशबन्ध । उन चार प्रकारके बन्धमेंसे मूलप्रकृतिबन्ध और उत्तरप्रकृतिबन्धके भेदसे प्रकृतिबन्ध दो प्रकारका है । उनमेंसे, मूलप्रकृतिबन्धका वर्णन स्थगित करके उत्तरप्रकृतिबन्धके भेदोंका वर्णन करते हैं । वह उत्तरप्रकृतिबन्ध दो प्रकारका है, एकैकोत्तरप्रकृतिबन्ध और अन्वोगाढ उत्तरप्रकृतिबन्ध । उनमेंसे जो एकैकोत्तरप्रकृतिबन्ध है उसके चौबीस अनुयोगद्वार होते हैं । वे इसप्रकार हैं, समुत्कीर्तन, सर्वबन्ध, नोसर्वबन्ध, उत्कृष्टबन्ध, अनुत्कृष्टबन्ध, जघन्यबन्ध, अजघन्यबन्ध, सादियबन्ध, अनादियबन्ध, ध्रुवबन्ध, अध्रुवबन्ध, बन्धसामित्तविचय, बन्धकाल, बन्धान्तर, बन्धसात्रिकर्ष, नाना जीवोंकी अपेक्षा शंगविचय, भागाभागानुगम, परिमाणानुगम, क्षेत्रानुगम, स्पर्शनानुगम, कालानुगम, अन्तरानुगम, भावानुगम, और अल्पबहुत्वानुगम । इन चौबीस अधिकारोंमें जो समुत्कीर्तन नामका अधिकार है उसमेंसे प्रकृतिसमुत्कीर्तना, स्थानसमुत्कीर्तना और तीन महादण्डक निकले हैं और तेवीसवें भावानुगमसे भावानुगम निकला है ।

जो अन्वोगाढ उत्तरप्रकृतिबन्ध है वह दो प्रकारका है, भुजगारबन्ध और प्रकृतिस्थानबन्ध । उनमेंसे, भुजगारबन्धके आठ अनुयोगद्वारोंके वर्णनको स्थगित करके प्रकृतिस्थानबन्धमें जो आठ अनुयोगद्वार होते हैं उनका वर्णन करते हैं । वे इसप्रकार हैं, सत्प्ररूपणा, द्रव्यप्रमाणानुगम, क्षेत्रानुगम, स्पर्शनानुगम, कालानुगम, अन्तरानुगम, भावानुगम और अल्पबहुत्वानुगम । इन आठ अनुयोगद्वारोंमेंसे छह अनुयोगद्वार निकले हैं । वे इसप्रकार हैं, सत्प्ररूपणा, क्षेत्रप्ररूपणा,

खेत्तपरूवणा पोसणपरूवणा कालपरूवणा अंतरपरूवणा अप्पावहुगपरूवणा चेदि । एदाणि छ पुविच्छाणि दोणि एकदो मेलिदे जीवद्वानस्स अट्ट अणियोगदाराणि हवंति । पयडिद्वानबंधे वुत्त-संतादि-छ-अणियोगदाराणि पयडिद्वानबंधस्स वुत्ताणि । पुणो जीवद्वानस्स संतादि-छ-अणियोगदाराणि चोदसण्हं गुणद्वानाणं वुत्ताणि । कथं तेहिंतो एदाण-मवदारो ति ? ण एस दोसो, एदस्स पयडिद्वानस्स बंधया मिच्छाइट्ठी अत्थि । एदस्स पयडिद्वानस्स बंधया मिच्छाइट्ठी एवदि खेत्ते । एदस्स पयडिद्वानस्स बंधएहि मिच्छाइट्ठीहि एवदियं खेत्तं पोसिदं । एदस्स पयडिद्वानस्स बंधया मिच्छाइट्ठी तं मिच्छत्त-गुणमच्छंता जहण्णेण एत्तियं कालमुक्कस्सेण एत्तियं कालमच्छंति । ताणमंतर-कालो जहण्णुक्कस्सेण एत्तिओ होदि । एवं सेसगुणद्वानं च भणिऊण पुणो ताणम-प्पावहुगं उत्तं । तेण तेहि पयडिद्वानमिह उत्त-छहि अणियोगदारोहि सह एगत्तं ण विरुज्झदे ।

स्पर्शनप्ररूपणा, कालप्ररूपणा, अन्तरप्ररूपणा और अल्पबहुत्वप्ररूपणा । ये छह और बन्धक अधिकार के ग्यारह अधिकार हैं, उनमेंके द्रव्यप्रमाणानुगममेंसे निकला हुआ द्रव्यप्रमाणानुगम तथा एकोत्तरप्रकृतिबन्धके जो चौबीस अधिकार हैं उनमेंके तेवीसवें भावानुगममेंसे निकला हुआ भावप्रमाणानुगम, इसतरह इन सबको एक जगह मिला देने पर जीवस्थानके आठ अनुयोगद्वार हो जाते हैं ।

शंका—प्रकृतिस्थानबन्धमें जो छह अनुयोगद्वार कहे गये हैं, वे प्रकृतिस्थानबन्ध-संबन्धी कहे गये हैं । और जीवस्थानके जो सत्प्ररूपणा आदि छह अनुयोगद्वार हैं वे गुण-स्थानसंबन्धी कहे गये हैं । ऐसी हालतमें प्रकृतिस्थानबन्धसंबन्धी छह अनुयोगद्वारोंमेंसे जीव-स्थानसंबन्धी छह अनुयोगद्वारोंका अवतार कैसे हो सकता है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, इस प्रकृतिस्थानके बन्धक मिथ्यादृष्टि जीव हैं । मिथ्यादृष्टि जीव इतने क्षेत्रमें इस प्रकृतिस्थानके बन्धक होते हैं । इस प्रकृतिस्थानके बन्धक मिथ्यादृष्टि जीवोंने इतना क्षेत्र स्पर्श किया है । इस प्रकृतिस्थानके बन्धक मिथ्यादृष्टि जीव उस मिथ्यात्व गुणस्थानको नहीं छोड़ते हुए जघन्यकी अपेक्षा इतने कालतक और उत्कृष्टकी अपेक्षा इतने कालतक मिथ्यात्व गुणस्थानमें रहते हैं । इस प्रकृतिस्थानके बन्धक मिथ्यादृष्टि जीवोंका जघन्य अन्तरकाल इतना और उत्कृष्ट अन्तरकाल इतना होता है । इसीतरह शेष गुणस्थानोंका कथन करके फिर उनका अल्पबहुत्व कहा गया है । इसलिये उस प्रकृति-स्थानमें कहे गये छह अनुयोगद्वारोंके साथ जीवस्थानमें कहे गये छह अनुयोगद्वारोंका एकत्व अर्थात् समानता विरोधको प्राप्त नहीं होती है ।

विशेषार्थ—प्रकृतिस्थानबन्धमें सदादि छह अनुयोगोंका प्रकृतिस्थानकी अपेक्षा कथन है और इस जीवस्थानमें प्रकृतिस्थानके बन्धक मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थानोंकी अपेक्षा सदादि-छह अनुयोगोंका कथन है । इसलिये प्रकृतिस्थानके छह अनुयोगोंमेंसे जीवस्थानके छह अनु-योगोंकी उत्पत्ति विरोधको प्राप्त नहीं होती है ।

एत्थतण-द्व्वाणियोगस्स वि किं ण गहणं कीरदि त्ति उत्ते ण; मिच्छाइट्ठि-  
आदि-गुणट्ठाणेहि विणा एयस्स बंधट्ठाणस्स बंधया जीवा एत्तिया इदि सामण्णेण वुत्त-  
त्तादो । बंधगे उत्त-द्व्वाणियोगस्स गहणं कीरदि, तत्थ बंधगा मिच्छाइट्ठी एत्तिया  
सासणादिया एत्तिया इदि उत्तत्तादो । कथमजोगि-गुणट्ठाणस्स अवंधगस्स दव्व-संखा  
परुविज्जदि त्ति ण एस दोसो, भूद-पुव्व-गइमास्सिऊण तस्स भणण-संभवादो । जीव-  
पयडि-संत-बंधमस्सिऊण उत्तमिदि वा । एवं भावस्स वि वत्तव्वं । एवं जीवट्ठाणस्स  
अट्ठ-अणियोगदार-परुवणं कदं ।

प्रकृतिस्थान अधिकारमें कहे गये द्रव्यानुयोगका ग्रहण इस जीवस्थानमें क्यों नहीं  
किया है । अर्थात् प्रकृतिस्थान अधिकारके सदादि छह अनुयोगोंमेंसे जिसप्रकार जीवस्थानके  
सदादि छह अनुयोगद्वारोंकी उत्पत्ति बतलाई है, उसीप्रकार प्रकृतिस्थानाधिकारके द्रव्यानु-  
योगमेंसे जीवस्थानके द्रव्यानुयोगकी उत्पत्तिका कथन क्यों नहीं किया गया है । इसप्रकार की  
शंका करने पर आचार्य उत्तर देते हैं कि ऐसी शंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि, प्रकृति-  
स्थानके द्रव्यानुयोग अधिकारमें मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थानोंकी अपेक्षाके विना ' इस बन्ध-  
स्थानके बन्धक जीव इतने हैं ' ऐसा केवल सामान्यरूपसे कथन किया गया है । और बन्धक  
अधिकारके द्रव्यानुयोग प्रकरणमें इस प्रकृतिस्थानके बन्धक मिथ्यादृष्टि जीव इतने हैं, सासादन  
सम्यग्दृष्टि जीव इतने हैं ऐसा विशेषरूपसे कथन किया गया है । इसलिये बन्धक अधिकारमें  
कहे गये द्रव्यानुयोगका ग्रहण इस जीवस्थानमें किया है । अर्थात् बन्धक अधिकारके द्रव्यानुगम  
प्रकरणसे जीवस्थानका द्रव्यप्रमाणानुगम प्रकरण निकला है ।

शंका — अयोगी गुणस्थानमें कर्मप्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता है, इसलिये उनके कर्म-  
प्रकृतिबन्धकी अपेक्षा द्रव्यसंख्या कैसे कही जावेगी ?

समाधान — यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, भूतपूर्व न्यायका आश्रय लेकर अयोगी  
गुणस्थानमें भी द्रव्यसंख्याका कथन संभव है । अर्थात् जो जीव पहले मिथ्यादृष्टि आदि  
गुणस्थानोंमें प्रकृतिस्थानोंके बन्धक थे वे ही अयोगी हैं । इसलिये अयोगी गुणस्थानमें भी  
द्रव्यसंख्याका प्रतिपादन किया जा सकता है । अथवा, जीवके सत्वरूप प्रकृतिबन्धका आश्रय  
लेकर अयोगी गुणस्थानमें द्रव्यसंख्याका प्ररूपण किया गया है ।

भावानुगमका कथन भी इसीप्रकार समझ लेना चाहिये ।

विशेषार्थ — जीवस्थानकी भावप्ररूपणा प्रकृतिस्थानके भावानुगममेंसे न निकल कर  
एकैकोत्तरप्रकृतिबन्धके जो चौबीस अधिकार हैं उनके तेवसिवें भावानुगममेंसे निकली है ।  
इसका कारण यह है कि प्रकृतिस्थानके भावानुगममें भावोंका सामान्यरूपसे कथन है और  
एकैकोत्तरप्रकृतिस्थानके भावानुगममें भावोंका विशेषरूपसे कथन है । इसतरह जीवस्थानके  
आठ अनुयोगद्वारोंका निरूपण किया ।

तदो द्विदिवंधो दुविहो, मूलपयडिद्विदिवंधो उत्तरपयडिद्विदिवंधो चेदि । तत्थ जो सो मूलपयडिद्विदिवंधो सो थप्पो । जो सो उत्तरपयडिद्विदिवंधो तस्स चउवीस अणियोगद्दाराणि । तं जहा, अद्दाल्लेदो सव्वबंधो णोसव्वबंधो उक्कस्सबंधो अणुक्कस्सबंधो जहण्णबंधो अजहण्णबंधो सादियबंधो अणादियबंधो ध्रुवबंधो अद्दुवबंधो वंधसामित्तविचयो वंधकालो वंधंतरं वंधसण्णियासो गाणाजीवेहि भंगविचयो भागाभागानुगमो परिमाणानुगमो खेत्तानुगमो पोसणानुगमो कालानुगमो अंतरानुगमो भावानुगमो अप्पावहुगणानुगमो चेदि । तत्थ अद्दाल्लेदो दुविहो, जहण्णद्विद्विअद्दाल्लेदो उक्कस्सद्विद्विअद्दाल्लेदो चेदि । जहण्णद्विद्विअद्दाल्लेदादो जहण्णाद्विदी णिग्गदा । उक्कस्सद्विद्विअद्दाल्लेदादो उक्कस्सद्विदी णिग्गदा । पुणो सुत्तादो सम्मत्तुप्पत्ती णिग्गया । वियाहपण्णत्तीदो गदिरागदी णिग्गदा । संपहि पुव्वं उत्तपयडिसमुक्कित्तणा द्वाणसमुक्कित्तणा तिण्णि महादंडया एदाणं पंचण्हसुवरि संपहि पुव्वुत्त-जहण्णद्विद्विअद्दाल्लेदं उक्कस्सद्विद्विअद्दाल्लेदं सम्मत्तुप्पत्तिं गदिरागदिं च पक्खित्ते चूलियाए णव अहियारा भवंति । एदं सव्वमवि मणेण अवहारिय ' एत्तो ' इदि उत्तं भयवदा पुप्फयंतेण ।

स्थितिवन्ध दो प्रकारका है, मूलप्रकृतिस्थितिवन्ध और उत्तरप्रकृतिस्थितिवन्ध । उनमेंसे मूलप्रकृतिस्थितिवन्धका वर्णन स्थगित करके जो उत्तरप्रकृतिस्थितिवन्धके चौबीस अनुयोगद्वार हैं उनका कथन करते हैं । वे इसप्रकार हैं, अर्धच्छेद, सर्ववन्ध, नोसर्ववन्ध, उत्कृष्टवन्ध, अनुत्कृष्टवन्ध, जघन्यवन्ध, अजघन्यवन्ध, सादिवन्ध, अनादिवन्ध, ध्रुववन्ध, अध्रुववन्ध, वन्ध-स्वामित्वविचय, वन्धकाल, वन्धान्तर, वन्धसन्निकर्ष, नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचय, भागा-भागानुगम, परिमाणानुगम, क्षेत्रानुगम, स्पर्शनानुगम, कालानुगम, अन्तरानुगम, भावानुगम और अल्पवहुत्वानुगम । इनमें, अर्धच्छेद दो प्रकारका है, जघन्यस्थिति-अर्धच्छेद और उत्कृष्ट-स्थिति-अर्धच्छेद । इनमें जघन्यस्थिति-अर्धच्छेदसे जघन्यस्थिति निकली है और उत्कृष्टस्थिति-अर्धच्छेदसे उत्कृष्टस्थिति निकली है । सूत्रसे सम्प्रकृत्योत्पत्ति नामका अधिकार निकला है और व्याख्याप्रज्ञप्तिसे गति-आगति नामका अधिकार निकला है ।

अब नौ चूलिकाओंका उत्पत्तिक्रम बताते हैं, पहले जो एकैकोत्तरप्रकृति अधिकारके समुत्कीर्तना नामके प्रथम अधिकारसे प्रकृतिसमुत्कीर्तना, स्थानसमुत्कीर्तना और तीन महा-दण्डकोंके निकलनेका उल्लेख कर आये हैं, उन पाचोंमें अभी कहे गये जघन्यस्थिति-अर्धच्छेद, उत्कृष्टस्थिति-अर्धच्छेद, सम्प्रकृत्योत्पत्ति और गति-आगति इन चार अधिकारोंके मिला देने पर चूलिकाके नौ अधिकार हो जाते हैं । इस समस्त कथनको मनमें निश्चय करके भगवान् पुष्प-दन्तने ' एत्तो ' इत्यादि सूत्र कहा ।

‘ इमेसि ’ एतेषाम् । न च प्रत्यक्षनिर्देशोऽनुपपन्नः आगमाहितसंस्कारस्याचार्य-  
स्यापरोक्षचतुर्दशभावजीवसमासस्य तदविरोधात् । जीवाः समस्यन्ते एष्विति जीव-  
समासाः । चतुर्दश च ते जीवसमासाश्च चतुर्दशजीवसमासाः । तेषां चतुर्दशानां  
जीवसमासानां चतुर्दशगुणस्थानानामित्यर्थः । तेषां मार्गणा गवेपणमन्वेपणमित्यर्थः ।  
मार्गणा एवार्थः प्रयोजनं मार्गणार्थस्तस्य भावो मार्गणार्थता तस्यां मार्गणार्थतायाम् ।  
तस्यामिति तत्र । ‘ इमानि ’ इत्यनेन भावमार्गणास्थानानि प्रत्यक्षीभूतानि निर्दिश्यन्ते ।  
नार्थमार्गणस्थानानि तेषां देशकालस्वभावविप्रकृतानां प्रत्यक्षतानुपपत्तेः । तानि च  
मार्गणस्थानानि चतुर्दशैव भवन्ति, मार्गणस्थानसंख्याया न्यूनाधिकभावप्रतिषेधफल  
एवकारः । किं मार्गणं नाम ? चतुर्दश जीवसमासाः सदादिविशिष्टाः मार्ग्यन्तेऽस्मिन्ननेन  
वेति मार्गणम् । उक्तं च —

‘ एत्तो ’ इत्यादि सूत्रमें जो ‘ इमेसि ’ पद आया है उससे जो प्रत्यक्षीभूत पदार्थकों  
निर्देश होता है वह अनुपपन्न नहीं है, क्योंकि, जिनकी आत्मा आगमाभ्याससे संस्कृत है ऐसे  
आचार्यके भावरूप चौदह जीवसमास प्रत्यक्षीभूत हैं । अतएव ‘ इमेसि ’ इस पदके प्रयोग  
करनेमें कोई विरोध नहीं आता है । अनन्तानन्त जीव और उनके भेद-प्रभेदोंका जिनमें संग्रह किया  
जाय उन्हें जीवसमास कहते हैं । वे जीवसमास चौदह होते हैं । उन चौदह जीवसमासोंसे  
यहां पर चौदह गुणस्थान विवक्षित हैं । अर्थात् जीवसमासका अर्थ यहां पर गुणस्थान लेना  
चाहिये । मार्गणा, गवेपणा और अन्वेपण ये तीनों शब्द एकार्थवाची हैं । मार्गणारूप प्रयोजनको  
मार्गणार्थ कहते हैं । मार्गणार्थ अर्थात् मार्गणारूप प्रयोजनके भाव अर्थात् विशेषताको मार्ग-  
णार्थता कहते हैं । उस मार्गणारूप प्रयोजनकी विवक्षा होने पर, यहां पर इसी अर्थमें ‘ तत्थ ’  
यह पद आया है । ‘ इमानि ’ इस पदसे प्रत्यक्षीभूत भावमार्गणास्थानोंका ग्रहण करना चाहिये ।  
द्रव्यमार्गणाओंका ग्रहण नहीं किया गया है, क्योंकि, द्रव्यमार्गणाएं देश, काल और स्वभावकी  
अपेक्षा दूरवर्ती हैं । अतएव अल्पज्ञानियोंको उनका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो सकता है । वे मार्गणा-  
स्थान भी चौदह ही होते हैं । यहां सूत्रमें जो ‘ एव ’ पद दिया है उसका फल या प्रयोजन  
मार्गणास्थानकी संख्याके न्यूनाधिकभावका निषेध करना है ।

शंका --- मार्गणा किसे कहते हैं ?

समाधान — सत्, संख्या आदि अनुयोगद्वारासे युक्त चौदह जीवसमास जिसमें या  
जिसके द्वारा खोजे जाते हैं उसे मार्गणा कहते हैं । कहा भी है—

१ कथमियं ‘ जीवसमास ’ इति संज्ञा गुणस्थानस्य जाता ? इति चेज्जीवाः समस्यन्ते संक्षिप्यन्ते एष्विति  
जीवसमासाः । अथवा जीवाः सम्यगासते एष्विति जीवसमासा इत्यत्र प्रकरणमामध्येन गुणस्थानान्येव जीवसमास-  
शब्देनोच्यन्ते । गो. जी., जी. प्र., टी. १०.

जाहि. व जासु. व जीवा मग्गिज्जंते जहा तथा दिट्ठा । . .

ताओ चौदस जाणे सुदणाणे मग्गणा होंति' ॥ ८३ ॥

तं जहा ॥ ३ ॥

'तच्छब्दः पूर्वप्रक्रान्तपरामर्शी' इति न्यायात् 'तत्' मार्गणविधानं । 'जहा' यथेति यावत् । एवं पृष्टवतः शिष्यस्य सन्देहापोहनार्थमुत्तरसूत्रमाह—

गइ इंदिए काए जोगे वेदे कषाए णाणे संजमे दंसणे लेस्सा भविय सम्मत सण्णि आहारए चेदि ॥ ४ ॥

गताविन्द्रिये काये योगे वेदे कषाये ज्ञाने संयमे दर्शने लेश्यायां भव्ये सम्यक्त्वे संज्ञिनि आहारे च जीवसमाप्ताः मृग्यन्ते । 'च' शब्दः प्रत्येकं परिसमाप्यते समुच्चयार्थः । 'इति' शब्दः समाप्तौ वर्तते । सप्तमीनिर्देशः किमर्थः ? तेषामधिकरणत्वप्रतिपादनार्थः ।

श्रुतज्ञान अर्थात् द्रव्यश्रुतरूप परमागममें जीव पदार्थ जिसप्रकार देखे गये हैं उसी-प्रकारसे वे जिन नारकत्वादि पर्यायोंके द्वारा अथवा जिन नारकत्वादिरूप पर्यायोंमें खोजे जाते हैं उन्हें मार्गणा कहते हैं । और वे चौदह होती हैं ऐसा जानो ॥ ८३ ॥

वे चौदह मार्गणास्थान कौनसे हैं ? ॥ ३ ॥

'तत्' शब्द पूर्व प्रकरणमें आये हुए अर्थका परामर्शक होता है' इस न्यायके अनुसार 'तत्' इस शब्दसे मार्गणाओंके भेदोंका ग्रहण करना चाहिये । 'जहा' इस पदका अर्थ 'जैसे' होता है । वे जैसे ? इसतरह पूछनेवाले शिष्यके सन्देहको दूर करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं ।

गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संज्ञी और आहार ये चौदह मार्गणाएं हैं और इनमें जीव खोजे जाते हैं ॥ ४ ॥

गतिमें, इन्द्रियमें, कायमें, योगमें, वेदमें, कषायमें, ज्ञानमें, संयममें, दर्शनमें, लेश्यामें, भव्यत्वमें, सम्यक्त्वमें, संज्ञीमें और आहारमें जीवसमाप्तोंका अन्वेषण किया जाता है । इस सूत्रमें 'च' शब्द समुच्चयार्थक है, इसलिये प्रत्येक पदके साथ उसका संबन्ध कर लेना चाहिये । और 'इति' शब्द समाप्तिरूप अर्थमें है । जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि मार्गणाएं चौदह ही होती हैं ।

१ गो. जी. १४१. गत्यादिमार्गणा यदा एकजीवस्य नारकत्वादिपर्यायस्वरूपा विवक्षितास्तदा 'याभिः' इतीत्थंभूतलक्षणे तृतीया विभक्तिः । यदा एकद्रव्यं प्रति पर्यायाणामधिकरणता विवक्ष्यते तदा 'यासु' इत्यधिकरणे सप्तमी विभक्तिः, विवक्षावशात्कारकप्रवृत्तिरिति न्यायस्य सद्भावात् । जी. प्र. टी. श्रुतं ज्ञायतेऽनेनेति श्रुतज्ञानं, वर्णपदवाक्यरूपं द्रव्यश्रुतं शुद्धशिष्यप्रशिष्यपत्न्यरया द्रव्यागमस्य अविच्छिन्नप्रवाहेण प्रवर्तमानत्वान् । तत्र 'यथा दृष्टास्तथा जानीहि' इति वचनेन शास्त्रकारस्य कालदोषात्प्रमादाद्वा यत्स्खलितं तन्मुक्त्वा परमागमानुसारेण व्याख्यातारः अध्येतारो वाविरुद्धमेव वस्तुस्वरूपं गृह्णन्तीति प्रदर्शितमाचार्यैः । सं. प्र. टी.

तृतीयानिर्देशोऽप्यविरुद्धः स कथं लभ्यते ? न, देशामर्शकत्वान्निर्देशस्य । यत्र च गत्यादौ विभक्तिर्न श्रूयते तत्रापि ' आइ-मज्झंत-वण्ण-सर-लोवो ' इति लुप्ता विभक्तिरित्यभ्यूह्यम् । अहवा ' लेस्ता-भविय-सम्मत्त-सण्णि-आहारए ' चेदि एकपदत्वान्नावयवविभक्तयः श्रूयन्ते ।

अथं स्याज्जगति चतुर्भिर्मार्गणा निष्पाद्यमानोपलभ्यते । तद्यथा, मृगयिता मृग्यं मार्गणं मार्गणोपाय इति । नात्र ते सन्ति, ततो मार्गणमनुपपन्नमिति । नैष दोषः, तेषामप्यत्रोपलम्भात् । तद्यथा, मृगयिता भव्यपुण्डरीकः तत्त्वार्थश्रद्दालुर्जीवः, चतुर्दशगुण-

शंका -- सूत्रमें गति आदि प्रत्येक पदके साथ सप्तमी विभक्तिका निर्देश क्यों किया गया है ?

सामधान—उन गति आदि मार्गणाओंको जीवोंका आधार बतानेके लिये सप्तमी विभक्तिका निर्देश किया है ।

इसीतरह सूत्रमें प्रत्येक पदके साथ तृतीया विभक्तिका निर्देश भी हो सकता है, इसमें कोई विरोध नहीं आता है ।

शंका—जब कि प्रत्येक पदके साथ सप्तमी विभक्ति पाई जाती है तो फिर तृतीया विभक्ति कैसे संभव है ?

समाधान—ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि, इस सूत्रमें प्रत्येक पदके साथ जो सप्तमी विभक्तिका निर्देश किया है वह देशामर्शक है, इसलिये तृतीया विभक्तिका भी ग्रहण हो जाता है ।

सूत्रोक्त गति आदि जिन पदोंमें विभक्ति नहीं पायी जाती है, वहां पर भी ' आइमज्झंत-वण्णसरलोवो ' अर्थात् आदि, मध्य और अन्तके वर्ण और स्वरका लोप हो जाता है । इस प्राकृतव्याकरणके सूत्रके नियमानुसार विभक्तिका लोप हो गया है ऐसा समझना चाहिये । अथवा ' लेस्ताभवियसम्मत्तसण्णिआहारए ' यह एक पद समझना चाहिये । इसलिये लेश्या आदि प्रत्येक पदमें विभक्तियां देखनेमें नहीं आती हैं ।

शंका—लोकमें अर्थात् व्यावहारिक पदार्थोंका विचार करते समय भी चार प्रकारसे अन्वेषण देखा जाता है । वे चार प्रकार ये हैं, मृगयिता, मृग्य, मार्गण और मार्गणोपाय । परंतु यहां लोकोत्तर पदार्थके विचारमें वे चारों प्रकार तो पाये नहीं जाते हैं, इसलिये मार्गणाका कथन करना नहीं बन सकता है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, इस प्रकरणमें भी वे चारों प्रकार पाये जाते हैं । वे इसप्रकार हैं, जीवादि पदार्थोंका श्रद्धान करनेवाला भव्यपुण्डरीक मृगयिता

१ ननु लोके व्यावहारिकपदार्थस्य विचारे कश्चिन्मृगयिता किञ्चिन् मृग्यं कापि मार्गणा कश्चिन्मार्गणोपाय इति चतुष्टयमस्ति । अत्र लोकोत्तरेऽपि तद् वक्तव्यमिति चेदुच्यते, मृगयिता भव्यवरपुंडरीकः गुरुः शिष्यो वा । मृग्याः गुणस्थानादिविशिष्टाः जीवाः, मार्गणा गुरुशिष्ययोजितत्वविचारणा । मार्गणोपायाः गतीन्द्रियादयः पंच भावविशेषाः करणाधिकरणरूपाः सन्तीति लोकव्यवहारानुसारेण लोकोत्तरव्यवहारोऽपि वर्तते । गो. जी., मं. प्र., टी. १४१.



विशिष्टजीवा मृग्यं, मृग्यस्याधारतामास्कंदन्ति मृगयितुः करणतामादधानानि वा गत्यादीनि मार्गणम्, विनेयोपाध्यायादयो मार्गणोपाय इति । सूत्रे शेषत्रितयं परिहृतमिति मार्गणमेवोक्तमिति चेन्न, तस्य देशामर्शकत्वात्, तन्नान्तरीयकत्वाद्वा ।

गम्यत इति गतिः । नातिव्याप्तिदोषः सिद्धैः प्राप्यगुणाभावात् । न केवलज्ञानादयः प्राप्यास्तथात्मकैकस्मिन् प्राप्यप्रापकभावविरोधात् । कपायादयो हि प्राप्याः औपाधिकत्वात् । गम्यत इति गतिरित्युच्यमाने गमनक्रियापरिणतजीवप्राप्यद्रव्यादी-

अर्थात् लोकोत्तर पदार्थोंका अन्वेषण करनेवाला है । चौदह गुणस्थानोंसे युक्त जीव मृग्य अर्थात् अन्वेषण करने योग्य है । जो मृग्य अर्थात् चौदह गुणस्थानविशिष्ट जीवोंके आधारभूत हैं, अथवा अन्वेषण करनेवाले भव्य जीवको अन्वेषण करनेमें अत्यन्त सहायक कारण हैं ऐसी गति आदिक मार्गणा हैं । शिष्य और उपाध्याय आदिक मार्गणाके उपाय हैं ।

शंका—इस सूत्रमें मृगयिता, मृग्य और मार्गणोपाय इन तीनोंको छोड़कर केवल मार्गणाका ही उपदेश क्यों दिया गया है ?

समाधान—यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि, गति आदि मार्गणावाचक पद देशामर्शक हैं, इसलिये इस सूत्रमें कहीं गई मार्गणाओंसे तत्संबन्धी शेष तीनोंका ग्रहण हो जाता है । अथवा मार्गणा पद शेष तीनोंका अविनाभावी है, इसलिये भी केवल मार्गणाका कथन करनेसे शेष तीनोंका ग्रहण हो जाता है ।

जो प्राप्त की जाय उसे गति कहते हैं । गतिका ऐसा लक्षण करनेसे सिद्धोंके साथ अतिव्याप्ति दोष भी नहीं आता है, क्योंकि, सिद्धोंके द्वारा प्राप्त करने योग्य गुणोंका अभाव है । यदि केवलज्ञानादि गुणोंको प्राप्त करने योग्य कहा जावे, सो भी नहीं बन सकता, क्योंकि, केवलज्ञानस्वरूप एक आत्मामें प्राप्य-प्रापकभावका विरोध है । उपाधिजन्य होनेसे कपायादिक भावोंको ही प्राप्त करने योग्य कहा जा सकता है । परंतु वे सिद्धोंमें पाये नहीं जाते हैं, इसलिये सिद्धोंके साथ तो अतिव्याप्ति दोष नहीं आता है ।

शंका—जो प्राप्त की जाय उसे गति कहते हैं । गतिका ऐसा लक्षण करने पर गमनरूप क्रियामें परिणत जीवके द्वारा प्राप्त होने योग्य द्रव्यादिकको भी गति यह संज्ञा प्राप्त हो जावेगी, क्योंकि, गमनक्रियापरिणत जीवके द्वारा द्रव्यादिक ही प्राप्त किये जाते हैं ?

१ 'गम्यत इति गतिः' एवमुच्यमाने गमनक्रियापरिणतजीवप्राप्यद्रव्यादीनामापे गतिव्यपदेशः स्यात् ? तन्न, गतिनामकर्मोदयोत्पन्नजीवपर्यायस्यैव गतित्वाभ्युपगमात् । गमनं वा गतिः । एवं सति आसारात्मादिगमनस्यापि गतित्वं प्रसञ्च्यते । तन्न, भवाद् भवसंक्रातेरेव विवक्षितत्वात् । गमनहेतुर्वा गतिरित्यापे भण्यमाने शकटादेरापि गतित्वं प्राप्नोति । तन्न, भवांतरगमनहेतौर्गतित्वात्कर्मणो गतित्वाभ्युपगमात् । जी. प्र., टी. अत्र मार्गणा-प्रकरणे गतिनामकर्म न गृह्यते, वध्यमाणनारकादिगतिप्रपंचस्य नारकादिपर्यायेष्वेव संभवान् । गो. जी., सं. प्र., टी. १४६.

नामपि गतिव्यपदेशः स्यादिति चेन्न, गतिकर्मणः समुत्पन्नस्यात्मपर्यायस्य ततः कथञ्चिद्भेदादविरुद्धप्राप्तितः प्राप्तकर्मभावस्य गतित्वाभ्युपगमे पूर्वोक्तदोषानुपपत्तेः । भवाद्भवसंक्रान्तिर्वा गतिः । सिद्धगतिस्तद्विपर्यासात् । उक्तं च—

गइ-कम्म-विणिव्वत्ता जा चेद्वा सा गई मुणेयव्वा ।

जीवा हु चाउरंगं गच्छंति ति य गई होई ॥ ८४ ॥

प्रत्यक्षनिरतानीन्द्रियाणि । अक्षणीन्द्रियाणि । अक्षमक्षं प्रति वर्तत इति प्रत्यक्षं विषयोऽक्षजो बोधो वा । तत्र निरतानि व्यापृतानि इन्द्रियाणि । शब्दस्पर्शरसरूपगन्ध-ज्ञानावरणकर्मणां क्षयोपशमाद् द्रव्येन्द्रियनिबन्धनादिन्द्रियाणीति यावत् । भावेन्द्रिय-कार्यत्वाद् द्रव्यस्येन्द्रियव्यपदेशः । नेयमदृष्टपरिकल्पना कार्यकारणोपचारस्य जगति

समाधान—ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि, गति नामकर्मके उदयसे जो आत्माके पर्याय उत्पन्न होती है वह आत्मसे कथंचित् भिन्न है अतः उसकी प्राप्ति अविरुद्ध है । और इसीलिये प्राप्तिरूप क्रियाके कर्मपनेको प्राप्त नारकादि आत्मपर्यायके गतिपना माननेमें पूर्वोक्त दोष नहीं आता है ।

अथवा, एक भवसे दूसरे भवमें जानेको गति कहते हैं । ऊपर जो गतिनामा नामकर्मके उदयसे प्राप्त होनेवाली पर्यायविशेषको अथवा एक भवसे दूसरे भवमें जानेको गति कह आये हैं, ठीक इससे विपरीतस्वभाववाली सिद्धगति होती है । कहा भी है—

गतिनामा नामकर्मके उदयसे जो जीवकी चेष्टाविशेष उत्पन्न होती है उसे गति कहते हैं । अथवा, जिसके निमित्तसे जीव चतुर्गतिमें जाते हैं उसे गति कहते हैं ॥ ८४ ॥

जो प्रत्यक्षमें व्यापार करती हैं उन्हें इन्द्रियां कहते हैं । जिसका खुलासा इसप्रकार है, अक्ष इन्द्रियको कहते हैं, और जो अक्ष अक्षके प्रति अर्थात् प्रत्येक इन्द्रियके प्रति रहता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं । जो कि इन्द्रियोंका विषय अथवा इन्द्रियजन्य ज्ञानरूप पड़ता है । उस इन्द्रिय-विषय अथवा इन्द्रिय-ज्ञानरूप प्रत्यक्षमें जो व्यापार करती हैं उन्हें इन्द्रियां कहते हैं । वे इन्द्रियां शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गन्ध नामके ज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमसे और द्रव्येन्द्रियोंके निमित्तसे उत्पन्न होती हैं । क्षयोपशमरूप भावेन्द्रियोंके होने पर ही द्रव्येन्द्रियोंकी उत्पत्ति होती है, इसलिये भावेन्द्रियां कारण हैं और द्रव्येन्द्रियां कार्य हैं और इसलिये द्रव्येन्द्रियोंको भी इन्द्रिय यह संज्ञा प्राप्त है । अथवा, उपयोगरूप भावेन्द्रियोंकी उत्पत्ति द्रव्येन्द्रियोंके निमित्तसे होती है, इसलिये भावेन्द्रियां कार्य हैं और द्रव्येन्द्रियां कारण हैं । इसलिये भी द्रव्येन्द्रियोंको इन्द्रिय यह संज्ञा प्राप्त है । यह कोई अदृष्टकल्पना नहीं है, क्योंकि, कार्यगत धर्मका कारणमें और कारणगत धर्मका कार्यमें उपचार जगत्में प्रसिद्धरूपसे पाया जाता है ।

१ गइउदयजपञ्जाया चउगइगमणस्स हेउ वा हु गई । पारयतिरिक्खमाणुसदेवगइ ति य हवे चदुधा ॥

गो. जी. १४६.

सुप्रसिद्धस्योपलम्भात् । इन्द्रियवैकल्यमनोऽनवस्थानानध्यवसायालोकाद्यभावावस्थायां क्षयोपशमस्य प्रत्यक्षविषयव्यापाराभावात्तत्रात्मनोऽनिन्द्रियत्वं स्यादिति चेन्न, गच्छतीति गौरिति व्युत्पादितस्य गोशब्दस्यागच्छद्वोपदार्थेऽपि प्रवृत्त्युपलम्भात् । भवतु तत्र रूढिबललाभादिति चेदत्रापि तललाभादेवास्तु, न कश्चिदोषः । 'विशेषाभावतस्तेषां सङ्करव्यतिकररूपेण व्यापृतिः व्याप्नोतीति चेन्न, प्रत्यक्षे 'नीतिनियमिते रतानीति प्रतिपादनात् । सङ्करव्यतिकराभ्यां व्यापृतिनिराकरणाय स्वविषयनिरतानीन्द्रियाणि इति वा वक्तव्यम् । स्वेषां विषयः स्वविषयस्तत्र निश्चयेन निर्णयेन रतानीन्द्रियाणि । संशयविपर्य-

शंका—इन्द्रियोंकी विकलता, मनकी चंचलता, और अनध्यवसायके सद्भावमें तथा प्रकाशादिकके अभावरूप अवस्थामें क्षयोपशमका प्रत्यक्ष-विषयमें व्यापार नहीं हो सकता है, इसलिये उस अवस्थामें आत्माके अनिन्द्रियपना प्राप्त हो जायगा ?

समाधान—ऐसा नहीं है, क्योंकि, जो गमन करती है उसे गौ कहते हैं। इसतरह 'गौ' शब्दकी व्युत्पत्ति हो जाने पर भी नहीं गमन करनेवाले गौ पदार्थमें भी उस शब्दकी प्रवृत्ति पाई जाती है।

शंका—भले ही गोपदार्थमें रूढिके बलसे गमन नहीं करती हुई अवस्थामें भी गो-शब्दकी प्रवृत्ति होओ। किंतु इन्द्रियवैकल्यादिरूप अवस्थामें आत्माके इन्द्रियपना प्राप्त नहीं हो सकता है ?

समाधान—यदि ऐसा है तो आत्मामें भी इन्द्रियोंकी विकलता आदि कारणोंके रहने पर रूढिके बलसे इन्द्रिय शब्दका व्यवहार मान लेना चाहिये। ऐसा मान लेनेमें कोई दोष नहीं आता है।

शंका—इन्द्रियोंके नियामक विशेष कारणोंका अभाव होनेसे उनका संकर और व्यतिकररूपसे व्यापार होने लगेगा। अर्थात् या तो वे इन्द्रियां एक दूसरी इन्द्रियके विषयको ग्रहण करेंगी या समस्त इन्द्रियोंका एक ही साथ व्यापार होगा ?

समाधान—ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि, इन्द्रियां अपने नियमित विषयमें ही रत हैं, अर्थात् व्यापार करती हैं, ऐसा पहले ही कथन कर आये हैं। इसलिये संकर और व्यतिकर दोष नहीं आता है।

अथवा, संकर और व्यतिकरद्वारा विषयमें व्यापाररूप दोषके निराकरण करनेके लिये इन्द्रियां अपने अपने विषयमें रत हैं, ऐसा लक्षण कहना चाहिये। अपने अपने विषयको स्वविषय कहते हैं। उसमें जो निश्चयसे अर्थात् अन्य इन्द्रियके विषयमें प्रवृत्ति न करके केवल अपने विषयमें ही रत हैं उन्हें इन्द्रिय कहते हैं।

१ इत आरभ्य 'इन्द्रिय' शब्दस्य व्याख्यानं यावत्समग्रपाठः गो. जीवकांडस्य 'मदि आवरण' इत्यादि १६५ तमगाथायाः जीवतत्वप्रदीपिकाटीकया प्रायेण समानः ।

२ सर्वेषां युगपत्प्राप्तिः सङ्करः । परस्परविषयगमनं व्यतिकरः । न्या. कु. च. पृ. ३६०.

३ 'नीति' इति पाठो नास्ति । गो. जी., जी. प्र., टी. १६५.

यावस्थायां निर्णयात्मकरतेरभावात्तत्रात्मनोऽनिन्द्रियत्वं स्यादिति चेन्न, रूढिवललाभा-  
दुभयत्र प्रवृत्त्यविरोधात् । अथवा स्ववृत्तिरतानीन्द्रियाणि । संशयविपर्ययनिर्णयादौ वर्तनं  
वृत्तिः, तस्यां स्ववृत्तौ रतानीन्द्रियाणि । निर्व्यापारावस्थायां नेन्द्रियव्यपदेशः स्यादिति  
चेन्न, उक्तोत्तरत्वात् । अथवा स्वार्थनिरतानीन्द्रियाणि । अर्थत-इत्यर्थः, स्वैऽर्थे च निरतानी-  
न्द्रियाणि, निरवद्यत्वान्नात्र वक्तव्यमस्ति । अथवा इन्दनादाधिपत्यादिन्द्रियाणि' । उक्तं च—  
अहमिदा जह देवा अविसेसं अहमहं ति मण्णता ।

ईसंति एक्कमेकं इंदा इव इंदिए जाणं ॥ ८५ ॥

शंका—संशय और विपर्ययरूप ज्ञानकी अवस्थामें निर्णयात्मक रति अर्थात् प्रवृत्तिका  
अभाव होनेसे उस अवस्थामें आत्माको अनिन्द्रियपनेकी प्राप्ति हो जावेगी ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, रूढिके बलसे निर्णयात्मक और अनिर्णयात्मक इन  
दोनों अवस्थाओंमें इन्द्रिय शब्दकी प्रवृत्ति माननेमें कोई विरोध नहीं आता है ।

अथवा, अपनी अपनी वृत्तिमें जो रत हैं उन्हें इन्द्रियां कहते हैं । इसका खुलासा  
इसप्रकार है । संशय और विपर्ययज्ञानके निर्णय आदिके करनेमें जो प्रवृत्ति होती है उसे वृत्ति  
कहते हैं । उस अपनी अपनी वृत्तिमें जो रत हैं उन्हें इन्द्रियां कहते हैं ।

शंका—जब इन्द्रियां अपने विषयमें व्यापार नहीं करती हैं तब उन्हें व्यापाररहित  
अवस्थामें इन्द्रिय संज्ञा प्राप्त नहीं हो सकेगी ?

समाधान—ऐसा नहीं कहना, क्योंकि, इसका उत्तर पहले दे आये हैं कि रूढिके  
बलसे ऐसी अवस्थामें भी इन्द्रिय-व्यवहार होता है ।

अथवा, जो अपने अर्थमें निरत हैं उन्हें इन्द्रियां कहते हैं । 'अर्थते' अर्थात् जो निश्चित  
किया जाय उसे अर्थ कहते हैं । उस अपने विषयरूप अर्थमें जो व्यापार करती हैं उन्हें इन्द्रियां  
कहते हैं । इन्द्रियांका यह लक्षण निर्दोष होनेके कारण इस विषयमें अधिक वक्तव्य कुछ भी  
नहीं है । अर्थात् इन्द्रियांका यह लक्षण इतना स्पष्ट है कि पूर्वोक्त दोषोंको यहां अवकाश ही  
नहीं है ।

अथवा, अपने अपने विषयका स्वतन्त्र आधिपत्य करनेसे इन्द्रियां कहलाती हैं ।  
कहा भी है—

जिसप्रकार त्रैवेयकादिमें उत्पन्न हुए अहमिन्द्र देव मैं सेवक हूं अथवा स्वामी हूं इत्यादि

१ यद्विन्द्रस्यात्मनो लिङ्गं यदि वेन्द्रेण कर्मणा । सृष्टं जुष्टं तथा दृष्टं दत्तं वेति तद्विन्द्रियम् ॥  
गो. जी., जी. प्र., टी. १६४. इंदो जीवो सच्चोवलद्विमोगपरमेसरत्तणओ । सोत्ताइमेयमिंदियमिह तल्लिणाइ मावाओ ॥  
वि. भा. ३५६०. 'इदि' परमेश्वर्यं 'इदितो तुम्' इन्दनादिन्द्र आत्मा ( जीवः ) सर्वविषयोपलब्धि ( ज्ञान )  
मोगलक्षणपरमेश्वर्ययोगात् तस्य लिङ्गं चिन्हमविनामाविलिङ्गसत्तासूचनान् प्रदर्शनादुपलम्भनाद् व्यञ्जनाच्च जीवस्य  
लिङ्गमिन्द्रियम् । अमि. रा. को. ( इंदिय )

२ गो. जी. १६४. यथा त्रैवेयकादिजाता अहमिन्द्रदेवा अहमहमिति स्वामिभृत्यादिविशेषण्यं मन्यमाना

चीयत इति कायः । नेष्टकादिचयेन व्यभिचारः पृथिव्यादिकर्मभिरिति विशेषणात् । औदारिकादिकर्मभिः पुद्गलविपाकिभिश्चीयत इति चेन्न, पृथिव्यादिकर्मणां सहकारिणामभावे ततश्चयनानुपपत्तेः । कर्मणशरीरस्थानां जीवानां पृथिव्यादिकर्मभिश्चितनोर्कर्मपुद्गलाभावादकायत्वं स्यादिति चेन्न, तच्चयनहेतुर्कर्मणस्तत्रापि सत्त्वतस्तद्व्यपदेशस्य न्याय्यत्वात् । अथवा आत्मप्रवृत्त्युपचितपुद्गलपिण्डः कायः । अत्रापि स दोषो न निर्वायत

विशेषभावसे रहित अपनेको मानते हुए एक एक होकर अर्थात् कोई किसीकी आज्ञा आदिके पराधीन न होते हुए स्वयं स्वामीपनेको प्राप्त होते हैं, उसीप्रकार इन्द्रियां भी अपने अपने स्पर्शादिक विषयका ज्ञान उत्पन्न करनेमें समर्थ हैं और दूसरी इन्द्रियोंकी अपेक्षासे रहित हैं, अतएव अहमिन्द्रोंकी तरह इन्द्रियां जानना चाहिये ।

जो संचित किया जाता है उसे काय कहते हैं। यहां पर जो संचित किया जाता है उसे काय कहते हैं ऐसी व्याप्ति बना लेने पर कायको छोड़कर ईंट आदिके संचयरूप विपक्षमें भी यह व्याप्ति घटित हो जाती है, अतएव व्यभिचार दोष आता है। ऐसी शंका मनमें निश्चय करके आचार्य कहते हैं कि इसतरह ईंट आदिके संचयके साथ व्यभिचार दोष भी नहीं आता है, क्योंकि, पृथिवी आदि कर्मोंके उदयसे इतना विशेषण जोड़कर ही 'जो संचित किया जाता है' उसे काय कहते हैं ऐसी व्याख्या की गई है ।

शंका—पुद्गलविपाकी औदारिक आदि कर्मोंके उदयसे जो संचित किया जाता है उसे काय कहते हैं, कायकी ऐसी व्याख्या क्यों नहीं की गई है ?

समाधान—ऐसा नहीं है, क्योंकि, सहकारीरूप पृथिवी आदि नामकर्मके अभाव रहने पर केवल औदारिक आदि नामकर्मके उदयसे नोर्कर्मवर्गणाओंका संचय नहीं हो सकता है ।

शंका—कर्मणकाययोगमें स्थित जीवके पृथिवी आदिके द्वारा संचित हुए नोर्कर्मपुद्गलका अभाव होनेसे अकायपना प्राप्त हो जायगा ?

समाधान—ऐसा नहीं समझना चाहिये, क्योंकि, नोर्करूप पुद्गलोंके संचयका कारण पृथिवी आदि कर्मसहकृत औदारिकादि नामकर्मका उदय कर्मणकाययोगरूप अवस्थामें भी पाया जाता है, इसलिये उस अवस्थामें भी कायपनेका व्यवहार बन जाता है ।

अथवा, योगरूप आत्माकी प्रवृत्तिसे संचित हुए औदारिकादिरूप पुद्गलपिण्डको काय कहते हैं ।

शंका—कायका इसप्रकारका लक्षण करने पर भी पहले जो दोष दे आये हैं, वह दूर नहीं होता है। अर्थात् इसतरह भी जीवके कर्मणकाययोगरूप अवस्थामें अकायपनेकी प्राप्ति होती है ।

एकैके भूत्वा आज्ञादिमिरपरतन्त्राः सन्तः ईशते प्रभवन्ति स्वामिभावं श्रयन्ति, तथा स्पर्शनादीन्द्रियाण्यपि स्पर्शादिस्वस्वविषयेषु ज्ञानमुत्पादयितुमीशते, परानपेक्षया प्रभवन्ति, ततः कारणादहमिन्द्रा इव इन्द्रियाणि इति । जी. प्र. टी.

न ग्रहणयोग्यश्चेन्न, तस्यैव स्थूलकार्याकारेण परिणतौ योग्यत्वोपलम्भात् । के त एकेन्द्रियाः ? पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतयः । एतेषां स्पर्शनमेकमेवेन्द्रियमस्ति, न शेषाणीति कथमवगम्यत इति चेन्न, स्पर्शनेन्द्रियवन्त एत इति प्रतिपादकार्षोपलम्भात् । क्व तत्सूत्रमिति चेत्कथ्यते—

जाणदि पस्सदि भुंजदि सेवदि पस्सिदिण्ण एक्केण ।

कुणदि य तस्सामित्तं थावरु एहंदिओ तेण ॥ १३५ ॥

‘वनस्पत्यन्तानामेकम्’ इति तत्त्वार्थसूत्राद्वा । अस्यार्थः, अयमन्तशब्दोऽनेकार्थवाचकः, क्वचिदवयवे, यथा वस्त्रान्तो वसनान्त इति । क्वचित्सामीप्ये, यथा उदकान्तं गतः, उदकसमीपं गत इति । क्वचिदवसाने वर्तते, यथा संसारान्तं गतः, संसारावसानं

शंका—परमाणुमें रहनेवाला स्पर्श तो इन्द्रियोंद्वारा कभी भी ग्रहण करने योग्य नहीं है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, जब परमाणु स्थूल कार्यरूपसे परिणत होते हैं, तब तद्गत धर्मोंकी इन्द्रियोंद्वारा ग्रहण करनेकी योग्यता पाई जाती है ।

शंका—वे एकेन्द्रिय जीव कौन कौनसे हैं ?

समाधान—पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, और वनस्पति, ये पांच एकेन्द्रिय जीव हैं ।

शंका—इन पांचोंके एक स्पर्शन इन्द्रिय ही होती है, शेष इन्द्रियां नहीं होतीं, यह कैसे जाना ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, पृथिवी आदि एकेन्द्रिय जीव एक स्पर्शन-इन्द्रियवाले होते हैं, इसप्रकार कथन करनेवाला आर्ष-वचन पाया जाता है ।

शंका—यह आर्ष-वचन कहां पाया जाता है ?

समाधान—वह आर्ष-वचन यहां कहा जाता है—

क्योंकि, स्थावर जीव एक स्पर्शन इन्द्रियके द्वारा ही जानता है, देखता है, खाता है, सेवन करता है और उसका स्वामीपना करता है, इसलिये उसे एकेन्द्रिय स्थावर जीव कहा है ॥ १३५ ॥

अथवा, ‘वनस्पत्यन्तानामेकम्’ तत्त्वार्थसूत्रके इस वचनसे जाना जाता है कि उनके एक स्पर्शन इन्द्रिय ही होती है । अब इस सूत्रका अर्थ करते हैं, अन्त शब्द अनेक अर्थोंका वाचक है । कहीं पर अवयवरूप अर्थमें आता है, जैसे, ‘वस्त्रान्तः’ अर्थात् वस्त्रका अवयव । कहीं पर समीपताके अर्थमें आता है, जैसे ‘उदकान्तं गतः’ अर्थात् जलके समीप गया । कहीं पर अवसानरूप अर्थमें आता है, जैसे, ‘संसारान्तं गतः’ अर्थात् संसारके अन्तको प्राप्त हुआ ।

कपायेण व्यभिचारस्तस्य कर्मादानहेतुत्वाभावात् । अथवात्मप्रवृत्तेः कर्मादाननिवन्धनवीर्यो-  
त्पादो योगः । अथवात्मप्रदेशानां सङ्कोचविकोचो योगः । उक्तं च—

मणसा वचसा काएण चावि जुत्तस्स विरिय-परिणामो ।

जीवस्स प्पणियोओ जोगो त्ति जिणेहि णिद्धिओ' ॥ ८८ ॥

वेद्यत इति वेदः । अष्टकर्मोदयस्य वेदव्यपदेशः प्राप्नोति वेद्यत्वं प्रत्यविशेषादिति  
चेन्न, ' सामान्यचोदनाश्च विशेषेष्ववतिष्ठन्ते ' इति विशेषावगतेः ' रूढितन्त्रा व्युत्पत्तिः '  
इति वा । अथवात्मप्रवृत्तेः सम्प्रोहोत्पादो वेदः । अत्रापि मोहोदयस्य सकलस्य वेदव्यप-

आत्मधर्मकी मुख्यता होनेसे यद्यपि संयोगको प्राप्त होनेवाले वस्त्रादिकका निराकरण हो  
जायगा फिर भी कषायका निराकरण नहीं हो सकता है, क्योंकि, कषाय आत्माका धर्म है  
और संयोगको भी प्राप्त होता है । इसलिये जो जो संयोगको प्राप्त हो उसे योग कहते हैं यह  
व्याप्ति कषायमें भी घटित होती है, अतएव कषायके साथ व्यभिचार दोष आ जाता है । ऐसी  
शंकाको मनमें धारण करके आचार्य कहते हैं कि इसतरह कषायके साथ भी व्यभिचार दोष  
नहीं आता है, क्योंकि, कषाय कर्मोंके ग्रहण करनेमें कारण नहीं पड़ती है । अथवा, प्रदेश-  
परिस्पन्दरूप आत्माकी प्रवृत्तिके निमित्तसे कर्मोंके ग्रहण करनेमें कारणभूत वीर्यकी उत्पत्तिको  
योग कहते हैं । अथवा, आत्माके प्रदेशोंके संकोच और विस्ताररूप होनेको योग कहते हैं ।  
कहा भी है—

मन, वचन और कायके निमित्तसे होनेवाली क्रियासे युक्त आत्माके जो वीर्यविशेष  
उत्पन्न होता है उसे योग कहते हैं । अथवा, जीवके प्रणियोग अर्थात् परिस्पन्दरूप क्रियाको  
योग कहते हैं । ऐसा जिनेन्द्रदेवने कथन किया है ॥ ८८ ॥

जो वेदा जाय, अनुभव किया जाय उसे वेद कहते हैं ।

शंका—वेदका इसप्रकारका लक्षण करने पर आठ कर्मोंके उदयको भी वेद  
संज्ञा प्राप्त हो जायगी, क्योंकि, वेदनकी अपेक्षा वेद और आठ कर्म दोनों ही समान हैं ।  
जिसतरह वेद वेदनरूप है, उसीतरह ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंका उदय भी वेदनरूप है ?

समाधान—ऐसा नहीं समझना चाहिये, क्योंकि सामान्यरूपसे की गई कोई भी  
प्ररूपणा अपने विशेषोंमें पाई जाती है, इसलिये विशेषका ज्ञान हो जाता है । अथवा, सौदिक  
शब्दोंकी व्युत्पत्ति रूढिके आधीन होती है, इसलिये वेद शब्द पुरुषवेदादिमें रूढ होनेके  
कारण ' वेद्यते ' अर्थात् जो वेदा जाय इस व्युत्पत्तिसे वेदका ही ग्रहण होता है, ज्ञानावरणादि  
आठ कर्मोंके उदयका नहीं ।

१ पुगलविवाइदेहोदण्ण मणवयणकायजुत्तस्स । जीवस्स जा हु सत्ती कम्मगामकारणं जोगो । गो. जी.  
२१६. मणसा वयसा काएण चावि जुत्तस्स विरियपरिणामो । जीवस्स अप्पणिज्जो स जोगसत्तो जिणक्खाओ ॥ तेओ-  
जोगेण जहा रत्तत्ताई घडस्स परिणामो । जीवकरणप्पओए विरियमवि तहप्पपरिणामो ॥ जोगो विरियं धामो उच्चाह  
परकमो तथा चेद्वा । सत्ती सामत्थं ति य जोगस्स ह्वंति पज्जाया ॥ स्था. सू. पृ. १०१.

देशः स्यादिति चेन्न, अत्रापि रूढिवशाद्देनाम्नां कर्मणामुदयस्यैव वेदव्यपदेशात् । अथवा-  
त्मप्रवृत्तेर्मैथुनसम्मोहोत्पादो वेदः । उक्तं च—

वेदस्सुदीरणाए वालत्तं पुण णियच्छदे वहुसो ।

थी-पुं-णवुंसए वि य वेए त्ति तओ हवइ वेओ<sup>१</sup> ॥ ८९ ॥

सुखदुःखवहुशस्यकर्मक्षेत्रं कृपन्तीति कपायाः । 'कृपन्तीति कपायाः' इति  
किमिति न व्युत्पादितः कपायशब्दश्चेन्न, ततः संशयोत्पत्तेः प्रतिपत्तिगौरवभयाच्च ।  
उक्तं च—

अथवा, आत्मप्रवृत्ति अर्थात् आत्माकी चैतन्यरूप पर्यायमें सम्मोह अर्थात् राग-द्वेषरूप  
चित्तविक्षेपके उत्पन्न होनेको मोह कहते हैं। यहांपर मोह शब्द वेदका पर्यायवाची है।

शंका— इसप्रकारके लक्षणके करने पर भी संपूर्ण मोहके उदयको वेद संज्ञा प्राप्त  
हो जावेगी, क्योंकि, वेदकी तरह शेष मोह भी व्यामोहको उत्पन्न करता है ?

समाधान—ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि, रूढिके बलसे वेद नामके कर्मके  
उदयको ही वेद संज्ञा प्राप्त है।

अथवा, आत्मप्रवृत्ति अर्थात् आत्माकी चैतन्यरूप पर्यायमें मैथुनरूप चित्तविक्षेपके  
उत्पन्न होनेको वेद कहते हैं। कहा भी है—

वेदकर्मकी उदीरणासे यह जीव नाना प्रकारके बालभाव अर्थात् चांचल्यको प्राप्त  
होता है और स्त्रीभाव, पुरुषभाव तथा नपुंसकभावका वेदन करता है, इसलिये उस वेदकर्मके  
उदयसे प्राप्त होनेवाले भावको वेद कहते हैं ॥ ८९ ॥

सुख, दुःखरूपी नाना प्रकारके धान्यको उत्पन्न करनेवाले कर्मरूपी क्षेत्रको जो कर्षण  
करती है, अर्थात् फल उत्पन्न करनेके योग्य करती है, उन्हें कपाय कहते हैं।

शंका—यहां पर कपाय शब्दकी, 'कृपन्तीति कपायाः' अर्थात् जो कसें उन्हें कपाय  
कहते हैं, इसप्रकारकी व्युत्पत्ति क्यों नहीं की ?

समाधान—'जो कसें उन्हें कपाय कहते हैं' कपाय शब्दकी इसप्रकारकी व्युत्पत्ति  
करने पर कपनेवाले किसी भी पदार्थको कपाय माना जायगा। अतः कपायोंके स्वरूप समझनेमें  
संशय उत्पन्न हो सकता है, इसलिये जो कसें उन्हें कपाय कहते हैं इसप्रकारकी व्युत्पत्ति नहीं  
की गई। तथा, उक्त व्युत्पत्तिसे कपायोंके स्वरूपके समझनेमें कठिनता जायगी, इस  
भीतिसे भी 'जो कसें उन्हें कपाय कहते हैं' कपाय शब्दकी इसप्रकारकी व्युत्पत्ति नहीं की गई।  
कहा भी है—

१ पुरिसिच्छिसंदवेदोदयेण पुरिसिच्छिसंदओ भावै। णामोदयेण दञ्जे पाएण समा कहिं विसमा ॥ वेदस्सुदीर-  
णाणु परिणामस्स य हवेज्ज संमोहो । संमोहेण ण जाणादि जीवो हि गुणं व दोसं वा ॥गो. जी. २७१, २७२.

२ प्रतिपु 'मेओ' इति पाठः ।



सुह-दुःख-सुवहु-सस्सं कम्म-क्खेत्तं कसेदि जीवस्स ।

संसार-दूर-मेरं तेण कसायो ति णं वेत्ति' ॥ ९० ॥

भूतार्थप्रकाशकं ज्ञानम् । मिथ्यादृष्टीनां कथं भूतार्थप्रकाशकमिति चेन्न, सम्यग्-  
मिथ्यादृष्टीनां प्रकाशस्य समानतोपलम्भात् । कथं पुनस्तेऽज्ञानिन इति चेन्न, मिथ्या-  
त्वोदयात्प्रतिभासितेऽपि वस्तुनि संशयविपर्ययानध्यवसायानिवृत्तितस्तेषामज्ञानितोक्तेः ।  
एवं सति दर्शनावस्थायां ज्ञानाभावः स्यादिति चेन्नैप दोषः, इष्टत्वात् । कालसूत्रेण सह

सुख, दुःख आदि अनेक प्रकारके धान्यको उत्पन्न करनेवाले तथा जिसकी संसाररूप  
मर्यादा अत्यन्त दूर है ऐसे कर्मरूपी क्षेत्रको जो कर्षण करती हैं उन्हें कपाय कहते हैं ॥ ९० ॥

सत्यार्थका प्रकाश करनेवाली शक्तिविशेषको ज्ञान कहते हैं ।

शंका—मिथ्यादृष्टियोंका ज्ञान भूतार्थका प्रकाशक कैसे हो सकता है ?

समाधान - ऐसा नहीं है, क्योंकि, सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टियोंके प्रकाशमें समानता  
पाई जाती है ।

शंका—यदि दोनोंके प्रकाशमें समानता पाई जाती है, तो फिर मिथ्यादृष्टि जीव  
अज्ञानी कैसे हो सकते हैं ?

समाधान—यह शंका ठीक नहीं है, क्योंकि, मिथ्यात्वकर्मके उदयसे वस्तुके प्रति-  
भासित होनेपर भी संशय, विपर्यय और अनध्यवसायकी निवृत्ति नहीं होनेसे मिथ्यादृष्टियोंको  
अज्ञानी कहा है ।

शंका—इसतरह मिथ्यादृष्टियोंको अज्ञानी मानने पर दर्शनोपयोगकी अवस्थामें ज्ञानका  
अभाव प्राप्त हो जायगा ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, दर्शनोपयोगकी अवस्थामें ज्ञानोपयोगका  
अभाव इष्ट ही है ।

शंका—यदि ऐसा मान लिया जावे तो इस कथनका कालानुयोगमें आये हुए 'एगजीवं

१ गो. जी. २८२. अत्र मिथ्यादर्शनादिजीवसंक्षेपपरिणामरूपं वीजं प्रकृतिस्त्रितयनुभागप्रदेशभेदकर्मबन्धन-  
लक्षणे क्षेत्रे उन्वा क्रोधादिकपायनामा जीवस्य श्रुत्यः पुनरपि कालादिसामग्रीलब्धिसप्तपञ्चदुःखदुःखलक्षणबहुविधधान्यानि  
अनाधानिधनसंसारदूरसामानि यथा सुफलितानि भवन्ति तथा उपर्युपरि कृपति इति 'कृपि विलेखने' इत्यस्य  
धातोर्विलेखनार्थं गृहीत्वा निरुक्तिपूर्वकं कपायशब्दस्यार्थनिरूपणं आचार्येण कृतमिति । जी. प्र. टी, कल्पतेऽस्मिन्  
प्राणी पुनः पुनरावृत्तिभावमनुभवति कपोपलकन्यमाणकनकवदिति । कपः संसारः तस्मिन्नासमन्तादयन्ते गच्छन्त्येभिर-  
सुमन्त इति कपायाः । यद्वा कपाया इव कपाया, यथा हि तुवारिकादिकपायकल्पिते वाससि मञ्जिष्ठादिरागः क्षिप्यति  
चिरं चावतिष्ठते तथैतत्कल्पिते आत्मानि कर्म संबन्धते चिरं स्थितिकं च जायते, तदायत्वाचलित्यतेः । अभि. रा. को.

२ कल्पदेवान् कालानुयोगद्वारो बोद्धव्यः । तत्र चैकानेकजीवापेक्षया ज्ञानादिसार्गणानां कालः प्रतिपादितः ।

( कसाय )

विरोधः किन्न भवेदिति चेन्न, तत्र क्षयोपशमस्य प्राधान्यात् । विपर्ययः कथं भूतार्थ-  
प्रकाशक इति चेन्न, चन्द्रमस्युपलभ्यमानद्वित्वस्यान्यत्र सत्त्वतस्तस्य भूतत्वोपपत्तेः ।  
अथवा सद्भावविनिश्चयोपलम्भकं ज्ञानम् । एतेन संशयविपर्ययानध्यवसायावस्थासु  
ज्ञानाभावः प्रतिपादितः स्यात्, शुद्धनयविवक्षायां तत्त्वार्थोपलम्भकं ज्ञानम् । ततो  
मिथ्यादृष्टयो न ज्ञानिन इति सिद्धं द्रव्यगुणपर्यायाननेन जानातीति ज्ञानम् । अभिन्नस्य  
कथं करणत्वमिति चेन्न, सर्वथा भेदाभेदे च स्वरूपहानिप्रसङ्गादनेकान्ते स्वरूपोपलब्धेर्न तस्य

पडुच्च अणादिओ अपज्जवसिदो ' इत्यादि सूत्रके साथ विरोध क्यों नहीं प्राप्त हो जायगा ?  
अर्थात् कालानुयोगमें ज्ञानका काल एक जीवकी अपेक्षा अनादि-अनन्त आदि आया है । और  
यहां पर दर्शनोपयोगकी अवस्थामें ज्ञानका अभाव बतलाया है, इसलिये यह कथन परस्पर  
विरुद्ध है । अतः दर्शनोपयोगकी अवस्थामें ज्ञानका अभाव कैसे माना जा सकता है, क्योंकि,  
इस कथनका कालानुयोगके सूत्रसे विरोध आता है ?

समाधान—ऐसी शंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि, कालानुयोगमें जो ज्ञानकी अपेक्षा  
कालका कथन किया है, वहां क्षयोपशमकी प्रधानता है ।

शंका—विपर्ययज्ञान ( मिथ्याज्ञान ) सत्यार्थका प्रकाशक कैसे हो सकता है ?

समाधान—ऐसी शंका ठीक नहीं, क्योंकि, चन्द्रमामें पाये जानेवाले द्वित्वका दूसरे  
पदार्थोंमें सत्त्व पाया जाता है, इसलिये उस ज्ञानमें भूतार्थता बन जाती है ।

अथवा, सद्भाव अर्थात् वस्तु-स्वरूपका निश्चय करानेवाले धर्मको ज्ञान कहते हैं ।  
ज्ञानका इसप्रकारका लक्षण करनेसे संशय, विपर्यय और अनध्यवसायरूप अवस्थामें ज्ञानका  
( सम्यग्ज्ञानका ) अभाव प्रतिपादित हो जाता है । कारण कि, शुद्ध-निश्चयनयकी विवक्षामें  
वस्तु-स्वरूपका उपलम्भ करानेवाले धर्मको ही ज्ञान कहा है । इसलिये मिथ्यादृष्टी जीव ज्ञानी  
नहीं हो सकते हैं । इसप्रकार जिसके द्वारा द्रव्य, गुण और पर्यायोंको जानते हैं उसे ज्ञान  
कहते हैं यह बात सिद्ध हो जाती है ।

शंका—ज्ञान तो आत्मासे अभिन्न है, इसलिये वह पदार्थोंके जाननेके प्रति साधकतम  
कारण कैसे हो सकता है ?

समाधान—ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि, साधकतम कारणरूप ज्ञानको आत्मासे  
सर्वथा भिन्न अथवा अभिन्न मान लेने पर आत्माके स्वरूपकी हानिका प्रसंग आता है, और  
कथंचित् भिन्न अथवा अभिन्नस्वरूप अनेकान्तके मान लेने पर वस्तुस्वरूपकी उपलब्धि होती है,  
इसलिये आत्मासे कथंचित् भेदरूप ज्ञानको जाननेरूप क्रियाके प्रति साधकतम कारण मान

तत्र प्रतिपादितानि च सूत्राणि कालसूत्राणि ज्ञेयानि । प्रकृते च ' णाणाणुवादेण मदिअण्णाणिसुदअण्णाणीसु  
मिच्छादिट्ठी ओषं ( कालानु. सू. २६३. ) ओषेण मिच्छादिट्ठी केवचिरं कालादो होंति ? णाणाजीवं पडुच्च सव्वद्धा  
( कालानु. सू. २१०. ) एगजीवं पडुच्च अणादिओ अपज्जवसिदो, अणादिओ सपज्जवसिदो, सादिओ सपज्जवसिदो ।

( कालानु. सू. ३. ) छ. जी. का. सू.

करणत्वाविरोध इति । उक्तं च—

जाणइ तिकाळ-सहिण् दब्ब-गुणे पज्जए य बहु-भेए ।

पच्चक्खं च परोक्खं अणेण णाणे त्ति णं वेत्ति ॥ ९१ ॥

संयमनं संयमः । न द्रव्ययमः संयमस्तस्य 'सं' शब्देनापादितत्वात् । यमेन समितयः सन्ति, ताखसतीपु संयमोऽनुपपन्न इति चेन्न, 'सं' शब्देनात्मशात्कृताशेषसमितित्वात् । अथवा व्रतसमितिकपायदण्डेन्द्रियाणां धारणानुपालननिग्रहत्यागजयाः संयमः ।

उक्तं च—

लेनेमें कोई विरोध नहीं आता है ।

विशेषार्थ—यदि धर्मको धर्मसे सर्वथा भिन्न माना जावे तो दोनोंकी स्वतन्त्र सत्ता सिद्ध हो जानेके कारण यह धर्म है और यह धर्मों है अथवा यह धर्म इस धर्मका है, इसप्रकारका व्यवहार ही नहीं बन सकता है । इसलिये निश्चित धर्मके अभावमें वस्तुके विनाशका प्रसंग आता है । और यदि धर्मको धर्मसे सर्वथा अभिन्न माना जावे तो धर्म और धर्मों इसप्रकारका भेदरूप व्यवहार नहीं बन सकता है, क्योंकि, सर्वथा अभेद मानने पर इन दोनोंसे किसी एकका ही अस्तित्व सिद्ध होगा । उनमेंसे यदि केवल धर्मका ही अस्तित्व मान लिया जावे, तो उसके लिये आधार चाहिये, क्योंकि, कोई भी धर्म आधारके विना नहीं रह सकता है । और यदि केवल धर्मोंका अस्तित्व मान लिया जावे तो धर्मके विना उसकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं सिद्ध हो सकती है । इसलिये धर्मको धर्मसे कथंचित् भिन्न और कथंचित् अभिन्न ही मानना चाहिये । इसतरह अनेकान्तके मानने पर ही धर्म-धर्मों व्यवस्था बन सकती है और धर्म-धर्मों व्यवस्थाके सिद्ध हो जाने पर ज्ञानको साधकतम कारण माननेमें किसी भी प्रकारका विरोध नहीं आता है । कहा भी है—

जिसके द्वारा जीव त्रिकालविषयक समस्त द्रव्य, उनके गुण और उनकी अनेक प्रकारकी पर्यायोंको प्रत्यक्ष और परोक्षरूपसे जाने उसको ज्ञान कहते हैं ॥ ९१ ॥

संयमन करनेको संयम कहते हैं । संयमका इसप्रकारका लक्षण करने पर द्रव्य-यम अर्थात् भावचारित्रशून्य द्रव्यचारित्र संयम नहीं हो सकता है, क्योंकि, संयम शब्दमें ग्रहण किये गये 'सं' शब्दसे उसका निराकरण कर दिया है ।

शंका—यहां पर यमसे समितियोंका ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि, समितियोंके नहीं होने पर संयम नहीं बन सकता है ?

समाधान—ऐसी शंका ठीक नहीं है, क्योंकि, संयममें दिये गये 'सं' शब्दसे संपूर्ण समितियोंका ग्रहण हो जाता है ।

अथवा, पांच व्रतोंका धारण करना, पांच समितियोंका पालन करना, क्रोधादि कषायोंका निग्रह करना, मन, वचन और कायरूप तीन दण्डोंका त्याग करना और पांच इन्द्रियोंके विषयोंका जीतना संयम है । कहा भी है—

त्रय-समिइ-कसायाणं दंडाण तहिंदियाण पंचण्हं ।

धारण-पालण-णिग्गह-चाग-जया संजमो भणिओ' ॥ ९२ ॥

दृश्यतेऽनेनेति दर्शनम् । नाक्ष्णालोकेन चातिप्रसङ्गस्तयोरनात्मधर्मत्वात् । दृश्यते ज्ञायतेऽनेनेति दर्शनमित्युच्यमाने ज्ञानदर्शनयोरविशेषः स्यादिति चेन्न, अन्तर्बहिर्मुखयोश्चित्प्रकाशयोर्दर्शनज्ञानव्यपदेशभाजोरेकत्वविरोधात् । किं तच्चैतन्यमिति चेन्निकालगोचरानन्तपर्यायात्मकस्य जीवस्वरूपस्य स्वक्षयोपशमवशेन संवेदनं चैतन्यम् । स्वतो व्यतिरिक्त-

अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इन पांच महाव्रतोंका धारण करना; ईर्या, भापा, एषणा, आदाननिक्षेप, उत्सर्ग इन पांच समितियोंका पालना; क्रोध, मान, माया, और लोभ इन चार कषायोंका निग्रह करना; मन, वचन और कायरूप तीन दण्डोंका त्याग करना और पांच इन्द्रियोंका जय; इसको संयम कहते हैं ॥ ९२ ॥

जिसके द्वारा देखा जाय अर्थात् अवलोकन किया जाय उसे दर्शन कहते हैं । दर्शनका इसप्रकारका लक्षण करने पर चक्षु इन्द्रिय और आलोक भी देखनेमें सहकारी होनेसे उनमें दर्शनका लक्षण चला जाता है, इसलिये अतिप्रसङ्ग दोष आता है । शङ्काकारकी इसप्रकारकी शङ्काको मनमें निश्चय करके आचार्य कहते हैं कि इसतरह चक्षु इन्द्रिय और आलोकके साथ अतिप्रसंग दोष भी नहीं आता है, क्योंकि, चक्षु इन्द्रिय और आलोक आत्माके धर्म नहीं हैं । यहां चक्षुसे द्रव्य चक्षुका ही ग्रहण करना चाहिये ।

शंका—जिसके द्वारा देखा जाय, जाना जाय उसे दर्शन कहते हैं । दर्शनका इसप्रकार लक्षण करने पर ज्ञान और दर्शनमें कोई विशेषता नहीं रह जाती है, अर्थात् दोनों एक हो जाते हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, अन्तर्मुख चित्प्रकाशको दर्शन और बहिर्मुख चित्प्रकाशको ज्ञान माना है, इसलिये इन दोनोंके एक होनेमें विरोध आता है ।

शंका—वह चैतन्य क्या वस्तु है ?

समाधान—त्रिकालविषयक अनन्तपर्यायरूप जीवके स्वरूपका अपने अपने क्षयोपशमके अनुसार जो संवेदन होता है उसे चैतन्य कहते हैं ।

शंका—अपनेसे भिन्न बाह्य पदार्थोंके ज्ञानको प्रकाश कहते हैं, इसलिये अन्तर्मुख

१ गो. जी. ४६५.

२ उत्तरज्ञानोत्पत्तिनिमित्तं यत्प्रयत्नं तद्रूपं यत्स्वस्यात्मनः परिच्छेदनमवलोकनं तद्दर्शनं भण्यते । तदनन्तरं यद् बहिर्विषये विकल्परूपेण पदार्थग्रहणं तज्ज्ञानमिति वार्तिकम् । यथा कोऽपि पुरुषो घटविषयविकल्पं कुर्वन्नास्ते, पश्चात्पटपरिज्ञानार्थं चित्ते जाते सति घटविकल्पाद् व्यावृत्त्य यत्स्वरूपे प्रथममवलोकनं परिच्छेदनं करोति तद्दर्शनमिति । तदनन्तरं पटोऽयमिति निश्चयं यद् बहिर्विषयरूपेण पदार्थग्रहणविकल्पं करोति तद् ज्ञानं भण्यते । वृ. द्र. सं. पृ. ८१-८२.

बाह्यार्थावगतिः प्रकाश इत्यन्तर्वहिर्मुखयोश्चित्प्रकाशयोर्जानात्यनेनात्मानं बाह्यमर्थमिति च ज्ञानमिति सिद्धत्वादेकत्वम्, ततो न ज्ञानदर्शनयोर्भेद इति चेन्न, ज्ञानादिव दर्शनात् प्रतिकर्मव्यवस्थाभावात् । तर्ह्यस्त्वन्तर्बाह्यसामान्यग्रहणं दर्शनम्, विशेषग्रहणं ज्ञानमिति चेन्न, सामान्यविशेषात्मकस्य वस्तुनो विक्रमेणोपलम्भात् । सोऽप्यस्तु न कश्चिद्विरोध इति चेन्न, 'हंदि दुवे णत्थि उवजोगा' इत्यनेन सह विरोधात् । अपि च न ज्ञानं प्रमाणं सामान्यव्यतिरिक्तविशेषस्यार्थक्रियाकर्तृत्वं प्रत्यसमर्थत्वतोऽवस्तुनो ग्रहणात् । न तस्य ग्रहणमपि सामान्यव्यतिरिक्ते विशेषे ह्यवस्तुनि कर्तृकर्मरूपाभावात् । तत एव न दर्शनमपि

.....  
चैतन्य और बहिर्मुख प्रकाशके होने पर जिसके द्वारा यह जीव अपने स्वरूपको और पर पदार्थोंको जानता है उसे ज्ञान कहते हैं । इसप्रकारकी व्याख्याके सिद्ध हो जानेसे ज्ञान और दर्शनमें एकता आ जाती है, इसलिये उनमें भेद सिद्ध नहीं हो सकता है ?

सामधान—ऐसा नहीं है, क्योंकि, जिसतरह ज्ञानके द्वारा यह घट है, यह पट है, इत्यादि विशेषरूपसे प्रतिनियत कर्मकी व्यवस्था होती है उसतरह दर्शनके द्वारा नहीं होती है, इसलिये इन दोनोंमें भेद है ।

शंका—यदि ऐसा है तो अन्तरंग सामान्य और बहिरंग सामान्यको ग्रहण करनेवाला दर्शन है तथा अन्तर्बाह्य विशेषको ग्रहण करनेवाला ज्ञान है, ऐसा मान लेना चाहिये ?

समाधान—ऐसा नहीं है, क्योंकि, सामान्य और विशेषात्मक वस्तुका क्रमके विना ही ग्रहण होता है ।

शंका—यदि सामान्यविशेषात्मक वस्तुका क्रमके विना ही ग्रहण होता है तो वह भी रहा आओ, ऐसा मान लेनेमें कोई विरोध नहीं आता है ?

समाधान—ऐसा नहीं है, क्योंकि, 'छद्मस्थोंके दोनों उपयोग एक साथ नहीं होते हैं' इस कथनके साथ पूर्वोक्त कथनका विरोध आता है ।

दूसरी बात यह है, कि सामान्यको छोड़कर केवल विशेष अर्थक्रिया करनेमें असमर्थ है । और जो अर्थक्रिया करनेमें असमर्थ होता है वह अवस्तरूप पड़ता है, अतएव उसका ग्रहण करनेवाला होनेके कारण ज्ञान प्रमाण नहीं हो सकता है । तथा केवल विशेषका ग्रहण भी तो नहीं हो सकता है, क्योंकि, सामान्यरहित, अवस्तरूप केवल विशेषमें कर्ताकर्मरूप व्यवहार नहीं बन सकता है । इसतरह केवल विशेषको ग्रहण करनेवाले ज्ञानमें प्रमाणता सिद्ध नहीं होनेसे केवल सामान्यको ग्रहण करनेवाले दर्शनको भी प्रमाण नहीं मान सकते हैं । अर्थात्, जब कि सामान्यरहित विशेष और विशेषरहित सामान्य वस्तरूपसे सिद्ध ही नहीं होते हैं तो केवल विशेषको ग्रहण करनेवाला ज्ञान और केवल सामान्यको ग्रहण करनेवाला दर्शन प्रमाण कैसे माने जा सकते हैं ?

प्रमाणम् । अस्तु प्रमाणाभाव इति चेन्न, प्रमाणाभावे सर्वस्याभावप्रसङ्गात् । अस्तु चेन्न, तथानुपलम्भात् । ततः सामान्यविशेषात्मकवाह्यार्थग्रहणं ज्ञानं, तदात्मकस्वरूपग्रहणं दर्शनमिति सिद्धम् । तथा च ' जं सामण्णं गहणं तं दंसणं ' इति वचनेन विरोधः स्यादिति चेन्न, तत्रात्मनः सकलवाह्यार्थसाधारणत्वतः सामान्यव्यपदेशभाजो ग्रहणात् । तदपि कथमवसीयत इति चेन्न, ' भावाणं णेव कट्टु आयारं ' इति वचनात् । तद्यथा, भावानां वाह्यार्थानामाकारं प्रतिकर्मव्यवस्थामकृत्वा यद् ग्रहणं तद्दर्शनम् । अस्यैवार्थस्य पुनरपि

शंका—यदि ऐसा है, तो प्रमाणका अभाव ही क्यों नहीं मान लिया जाय ?

समाधान—यह ठीक नहीं है, क्योंकि, प्रमाणका अभाव मान लेने पर प्रमेय, प्रमाता आदि सभीका अभाव मानना पड़ेगा ।

शंका—यदि प्रमेयादि सभीका ही अभाव होता है तो होओ ?

समाधान—यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि, प्रमेयादिका अभाव देखनेमें नहीं आता है, किन्तु उनका सद्भाव ही दृष्टिगोचर होता है । अतः सामान्यविशेषात्मक वाह्य पदार्थको ग्रहण करनेवाला ज्ञान है और सामान्यविशेषात्मक आत्मरूपको ग्रहण करनेवाला दर्शन है, यह सिद्ध हो जाता है ।

शंका—उक्त प्रकारसे दर्शन और ज्ञानका स्वरूप मान लेने पर ' वस्तुका जो सामान्य ग्रहण होता है उसको दर्शन कहते हैं ' परमागमके इस वचनके साथ विरोध आता है ?

समाधान—ऐसा नहीं है, क्योंकि, आत्मा संपूर्ण वाह्य पदार्थोंमें साधारणरूपसे पाया जाता है, इसलिये उक्त वचनमें सामान्य संज्ञाको प्राप्त आत्माका ही सामान्य पदसे ग्रहण किया गया है ।

शंका—यह कैसे जाना जाय कि यहां पर सामान्य पदसे आत्माका ही ग्रहण किया है ?

समाधान—ऐसी शंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि, ' पदार्थोंके आकार अर्थात् भेदको नहीं करके ' इस वचनसे उक्त कथनकी पुष्टि हो जाती है । इसीको स्पष्ट करते हैं, भावोंके, अर्थात् वाह्य पदार्थोंके, आकाररूप प्रतिकर्मव्यवस्थाको नहीं करके, अर्थात् भेदरूपसे प्रत्येक पदार्थको ग्रहण नहीं करके, जो ( सामान्य ) ग्रहण होता है उसको दर्शन कहते हैं । फिर भी इसी अर्थको दृढ़ करनेके लिये कहते हैं कि ' यह अमुक पदार्थ है, यह अमुक पदार्थ

१ यथात्मग्राहकं दर्शनं भण्यते तर्हि ' जं सामण्णं गहणं भावाणं तदंसणं ' इति गाथायः कथं घटते ? तत्रोत्तरं, सामान्यग्रहणमात्मग्रहणं तद्दर्शनम् । कस्मादिति चेन्, आत्मा वस्तुपरिच्छिन्ति कुर्वन्निदं जानामीदं न जानामीति विशेषपक्षपातं न करोति, किन्तु सामान्येन वस्तु परिच्छिन्नात्, तेन कारणेन सामान्यशब्देनात्मा भण्यते ।

दृढीकरणार्थमाह, 'अविसेसिऊण अट्टे' इति, अर्थानविशेष्य यद् ग्रहणं तद्दर्शनमिति' । न बाह्यार्थगतसामान्यग्रहणं दर्शनमित्याशङ्कनीयं तस्यावस्तुनः कर्मत्वाभावात् । न च तदन्तरेण विशेषो ग्राह्यत्वमास्कन्दतीत्यतिप्रसङ्गान् । सत्येवमनध्यवसायो दर्शनं स्यादिति चेन्न, स्वाध्यवसायस्यानध्यवासितवाह्यार्थस्य दर्शनत्वात् । दर्शनं प्रमाणमेव अविसेवादित्वान्, प्रतिभासः प्रमाणञ्चाप्रमाणञ्च विसंवादाविसंवादोभयरूपस्य तत्रोपलम्भान् । आलोकनवृत्तिर्वा दर्शनम् । अस्य गमनिका, आलोकन इत्यालोकनमात्मा, वर्तनं वृत्तिः, आलो-

हे' इत्यादि रूपसे पदार्थोंकी विशेषता न करके जो ग्रहण होता है उसे दर्शन कहते हैं । इस कथनसे यदि कोई ऐसी आशङ्का करे कि बाह्य पदार्थोंमें रहनेवाले सामान्यको ग्रहण करना दर्शन है, तो उसकी ऐसी आशङ्का करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि, विशेषकी अपेक्षा-रहित केवल सामान्य अवस्तुस्वरूप है, इसलिये वह दर्शनके विषयभावको (कर्मपनेको) नहीं प्राप्त हो सकता है । उसीप्रकार सामान्यके बिना केवल विशेष भी ज्ञानके द्वारा ग्राह्य नहीं हो सकता है, क्योंकि, अवस्तुरूप केवल विशेष अथवा केवल सामान्यका ग्रहण मान लिया जावे तो अतिप्रसङ्ग दोष आता है ।

शंका—दर्शनके लक्षणको इसप्रकारका मान लेने पर अनध्यवसायको दर्शन मानना पड़ेगा ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, बाह्यार्थका निश्चय न करते हुए भी स्वरूपका निश्चय करनेवाला दर्शन है, इसलिये वह अनध्यवसायरूप नहीं है । ऐसा दर्शन अविसेवादी होनेके कारण प्रमाण ही है । और अनध्यवसायरूप जो प्रतिभास है वह प्रमाण भी है और अप्रमाण भी है, क्योंकि, उसमें विसंवाद और अविसेवाद ये दोनों रूप पाये जाते हैं । ( जैसे, मार्गमें चलते हुए नृणस्पर्शके होने पर 'कुछ है' यह ज्ञान निश्चयात्मक है, और 'क्या है' यह ज्ञान अनिश्चयात्मक है; इसलिये अनध्यवसायको उभयरूप कहा है । )

अथवा, आलोकन अर्थात् आत्माके व्यापारको दर्शन कहते हैं । इसका अर्थ यह है, कि जो अवलोकन करता है उसे आलोकन या आत्मा कहते हैं । और वर्तन अर्थात् व्यापारको वृत्ति कहते हैं । तथा आलोकन अर्थात् आत्माकी वृत्ति अर्थात् वेदनरूप व्यापारको

१ यदा कोऽपि परसमयां पृच्छति जेनागमे दर्शनं ज्ञानं चेति गुणद्वयं जीवस्य कथ्यते तत्कथं वदत इति । तदा तेषामात्मग्राहकं दर्शनमिति कथिते सति ते न जानन्ति । पश्चाद्वाचार्यस्तेषां प्रतीत्यर्थं स्थूलव्याख्यानेन त्रिहिविधं यत्सामान्यपरिच्छेदनं तस्य सत्त्वावलोकनदर्शनसंज्ञा स्थापिता, यच्च शुक्लमिदमित्यादिविशेषपरिच्छेदनं तस्य ज्ञानसंज्ञा स्थापितेति दोषो नास्ति । सिद्धान्ते पुनः स्वसमयव्याख्यानं मुख्यवृत्त्या । तत्र सूक्ष्मव्याख्याने क्रियमाणे सत्त्वाचार्यैरात्म-ग्राहकं दर्शनं व्याख्यातमित्यत्रापि दोषो नास्ति । वृ. द्र. सं. पृ. ८३.

कनस्य वृत्तिरालोकनवृत्तिः स्वसंवेदनं, तद्दर्शनमिति लक्ष्यनिर्देशः । प्रकाशवृत्तिर्वा दर्शनम् । अस्य गमनिका, प्रकाशो ज्ञानम्, तदर्थमात्मनो वृत्तिः प्रकाशवृत्तिस्तद्दर्शनम् । विषयविषयि-संपातात् पूर्वावस्था दर्शनमित्यर्थः । उक्तं च —

जं सामण्णं गहणं भावाणं णेव कट्टु आयारं ।

अविसेसिऊण अत्थे दंसणमिदि भण्णदे समए ॥ ९३ ॥

लिम्पतीति लेख्या । न भूमिलेपिकयाऽतिव्याप्तिदोषः कर्मभिरात्मानमित्यध्या-हारापेक्षित्वात् । अथवात्मप्रवृत्तिसंश्लेषणकरी लेख्या । नात्रातिप्रसङ्गदोषः प्रवृत्तिशब्दस्य कर्मपर्यायत्वात् । अथवा कपायानुरञ्जिता कायवाङ्मनोयोगप्रवृत्तिलेख्या । ततो न केवलः

आलोकनवृत्ति या स्वसंवेदन कहते हैं, और उसीको दर्शन कहते हैं । यहां पर दर्शन इस शब्दसे लक्ष्यका निर्देश किया है । अथवा, प्रकाश-वृत्तिको दर्शन कहते हैं । इसका अर्थ इसप्रकार है कि प्रकाश ज्ञानको कहते हैं और उस ज्ञानके लिये जो आत्माका व्यापार होता है उसे प्रकाशवृत्ति कहते हैं, और वही दर्शन है । अर्थात् विषय और विषयीके योग्य देशमें होनेकी पूर्वावस्थाको दर्शन कहते हैं । कहा भी है—

सामान्यविशेषात्मक बाह्य पदार्थोंको अलग अलग भेदरूपसे ग्रहण नहीं करके जो सामान्य ग्रहण अर्थात् स्वरूपमात्रका अवभासन होता है उसको परमागममें दर्शन कहा है ॥ ९३ ॥

जो लिम्पन करती है उसे लेख्या कहते हैं । यहां पर जो लिम्पन करती है यह लक्षण भूमिलेपिका ( जिसके द्वारा जमीन लीपी जाती है ) में चला जाता है, इसलिये लक्ष्यभूत लेख्याको छोड़कर लक्षणके अलक्ष्यमें चले जानेके कारण अतिव्याप्ति दोष आता है । ऐसी शंकाको मनमें उठाकर आचार्य कहते हैं कि इसप्रकार लेख्याका लक्षण करने पर भी अतिव्याप्ति दोष नहीं आता है, क्योंकि, इस लक्षणमें 'कर्मोंसे आत्माको' इतने अध्याहारकी अपेक्षा है । इसका यह तात्पर्य है, कि जो कर्मोंसे आत्माको लिप्त करती है उसको लेख्या कहते हैं । अथवा, जो आत्मा और प्रवृत्ति अर्थात् कर्मका संबन्ध करनेवाली है उसको लेख्या कहते हैं । इसप्रकार लेख्याका लक्षण करने पर अतिप्रसंग दोष भी नहीं आता है, क्योंकि, यहां पर प्रवृत्ति शब्द कर्मका पर्यायवाची ग्रहण किया है । अथवा, कषायसे अनुरंजित काययोग, वचन-योग और मनोयोगकी प्रवृत्तिको लेख्या कहते हैं । इसप्रकार लेख्याका लक्षण करने पर केवल

१. गो. जी. ४८२. भावानां सामान्यविशेषात्मकबाह्यपदार्थानां आकारं भेदग्रहणमकृत्वा यत्सामान्यग्रहणं स्वरूपमात्रावभासनं तद्दर्शनमिति परभागमे भण्यते । वस्तुस्वरूपमात्रग्रहणं कथं ? अर्थात् बाह्यपदार्थान् अविशेष्य-जातिक्रियाग्रहणविकारैरविकल्प्य स्वपरसत्तावभासनं दर्शनमित्यर्थः । जी. प्र. टी. भावाणं सामण्णविसेसयाणं सरुवमेत्तं जं । वण्णणहीणगहणं जीवेण य दंसणं होदि ॥ गो. जी. ४८३.

२. कपायोदयरञ्जिता योगप्रवृत्तिलेख्या । स. सि., २, ६.



कषायो लेश्या, नापि योगः, अपि तु कषायानुविद्धा योगप्रवृत्तिलेश्येति सिद्धम् । ततो न-वीतरागाणां योगो लेश्येति न प्रत्यवस्थेयं तन्त्रत्वाद्योगस्य, न कषायमन्त्रं विशेषण-त्वतस्तस्य प्राधान्याभावात् । उक्तं च—

लिपदि अर्प्याकीरदि एदाए णियय-पुण्ण-पावं च ।

जीवो ति होइ लेस्सा लेस्सा-गुण-जाणय-क्खादां ॥ ९४ ॥

निर्वाणपुरस्कृतो भव्यः । उक्तं च—

सिद्धत्तणस्स जोगा जे जीवा ते हवंति भवसिद्धा ।

ण उ मल-विगमे णियमो ताणं कणगोवलाणमिवं ॥ ९५ ॥

कषाय और केवल योगको लेश्या नहीं कह सकते हैं किन्तु कषायानुविद्ध योगप्रवृत्तिको ही लेश्या कहते हैं, यह बात सिद्ध हो जाती है । इससे बारहवें आदि गुणस्थानवर्ती वीतरागियोंके केवल योगको लेश्या नहीं कह सकते हैं ऐसा निश्चय नहीं कर लेना चाहिये, क्योंकि, लेश्यामें योगकी प्रधानता है । कषाय प्रधान नहीं है, क्योंकि, वह योगप्रवृत्तिका विशेषण है । अतएव उसकी प्रधानता नहीं हो सकती है । कहा भी है—

जिसके द्वारा जीव पुण्य और पापसे अपनेको लिप्त करता है, उनके आधीन करता है उसको लेश्या कहते हैं, ऐसा लेश्याके स्वरूपको जाननेवाले गणधरदेव आदिने कहा है ॥९५॥

जिसने निर्वाणको पुरस्कृत किया है, अर्थात् जो सिद्धिपद प्राप्त करनेके योग्य है, उसको भव्य कहते हैं । कहा भी है—

जो जीव सिद्धत्व, अर्थात् सर्व कर्मसे रहित मुक्तिरूप अवस्था पानेके योग्य हैं उन्हें भव्यसिद्ध कहते हैं । किन्तु उनके कनकोपल अर्थात् स्वर्णपाषाणके समान मलका नाश होनेमें नियम नहीं है ।

विशेषार्थ—सिद्धत्वकी योग्यता रखते हुए भी कोई जीव सिद्ध अवस्थाको प्राप्त कर लेते हैं और कोई जीव सिद्ध अवस्थाको नहीं प्राप्त कर सकते हैं । जो भव्य होते हुए भी सिद्ध अवस्थाको नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उनके लिये यह कारण बतलाया है कि जिसप्रकार स्वर्णपाषाणमें सोना रहते हुए भी उसका अलग किया जाना निश्चित नहीं है, उसीप्रकार सिद्ध-अवस्थाकी योग्यता रखते हुए भी तदनुकूल सामग्रिके नहीं मिलनेसे सिद्ध-पदकी प्राप्ति नहीं होती है ।

१ गो. जी. ४८९. किन्तु ' णिययपुण्णपावं च ' इत्यत्र ' णियअपुण्णपुण्णं च ' पाठः ।

२ गो. जी. ५५८. किन्तु ' सिद्धत्तणस्स ' इति स्थाने ' भवत्तणस्स ' इति पाठः ।

३ भण्णइ भव्वो जोगो न य जोगत्तेण सिद्धइ सव्वो । जह जोगम्मि वि दलिए सव्वत्थ न कीरए पडिमा ॥ जह वा स एव पासाणकणगजोगो विओगजोगोऽवि । न वि जुञ्जइ सव्वोच्चिय स विजुञ्जइ जस्स संपत्ती ॥ किं पुण जा संपत्ती सा जोगस्सेव न उ अजोगस्स । तह जो भोक्खो नियमा सो भव्वाणं न इयरोसिं ॥

वि. मा. २३१३, -२३१५.

तद्विपरीतोऽभव्यः । सुगममेतत् ।

प्रशमसंवेगानुकम्पास्तिक्याभिव्यक्तिलक्षणं सम्यक्त्वम् । सत्येवमसंयतसम्यग्दृष्टिगुणस्याभावः स्यादिति चेत्सत्यमेतत् शुद्धनये समाश्रयिमाणे । अथवा तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम् । अस्य गमनिकोच्यते, आप्तागमपदार्थस्तत्त्वार्थस्तेषु श्रद्धानमनुरक्ततां सम्यग्दर्शनमिति लक्ष्यनिर्देशः । कथं पौरस्त्येन लक्षणेनास्य लक्षणस्य न विरोधश्चैव दोषः, शुद्धाशुद्धनयसमाश्रयणात् । अथवा तत्त्वरुचिः सम्यक्त्वं अशुद्धतरनयसमाश्रयणात् । उक्तं च—

जिन्होंने निर्वाणको पुरस्कृत नहीं किया है उन्हें अभव्य कहते हैं । इसका अर्थ सरल है ।

प्रशम, संवेग, अनुकम्पा और आस्तिक्यकी प्रगटता ही जिसका लक्षण है उसको सम्यक्त्व कहते हैं ।

शंका—इसप्रकार सम्यक्त्वका लक्षण मान लेने पर असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानका अभाव हो जायगा ?

समाधान—यह कहना शुद्ध निश्चयनयके आश्रय करने पर ही सत्य कहा जा सकता है ।

अथवा, तत्त्वार्थके श्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहते हैं । इसका अर्थ यह है कि आप्त आगम और पदार्थको तत्त्वार्थ कहते हैं । और उनके विषयमें श्रद्धान अर्थात् अनुरक्ति करनेको सम्यग्दर्शन कहते हैं । यहाँ पर सम्यग्दर्शन लक्ष्य है । तथा आप्त, आगम और पदार्थका श्रद्धान लक्षण है ।

शंका—पहले कहे हुए सम्यक्त्वके लक्षणके साथ इस लक्षणका विरोध क्यों न माना जाय ? अर्थात् पहले लक्षणमें प्रशमादि गुणोंकी अभिव्यक्तिको सम्यक्त्व कह आये हैं और इस लक्षणमें आप्त आदिके विषयमें श्रद्धाको सम्यक्त्व कहा है । इसलिये ये दोनों लक्षण भिन्न भिन्न अर्थको प्रगट करते हैं, इन दोनोंमें अविरोध कैसे हो सकता है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, शुद्ध और अशुद्ध नयकी अपेक्षासे ये दोनों लक्षण कहे गये हैं । अर्थात् पूर्वोक्त लक्षण शुद्धनय की अपेक्षासे है और तत्त्वार्थश्रद्धान रूप लक्षण अशुद्धनयकी अपेक्षासे है, इसलिये इन दोनों लक्षणोंके कथनमें दृष्टिभेद होनेके कारण कोई विरोध नहीं आता है ।

अथवा तत्त्वरुचिको सम्यक्त्व कहते हैं । यह लक्षण अशुद्धतर नयकी अपेक्षा जानना चाहिये । कहा भी है—

१ प्रशमसंवेगानुकम्पास्तिक्याभिव्यक्तिलक्षणं प्रथमं ॥ रागादीनामनुद्वेकः प्रशमः । संसाराङ्गीरुता संवेगः । सर्वप्राणिषु मैत्री अनुकम्पा । जीवाद्योऽर्था यथास्वभावैः सन्तीति मतिरास्तिक्यम् । एतैरभिव्यक्तलक्षणं प्रथमं सराग-सम्यक्त्वमित्युच्यते । त. रा. वा. १, २, ३०.

२ प्रतिषु ' श्रद्धानमुक्तता ' इति पाठः ।

छ-पंच-णव-विहाणं अत्याणं जिणवरोवइद्राणं ।

आणाए हिगमेण व सदहणं होइ सम्मत्तं ॥ ९६ ॥

सम्यक् जानातीति संज्ञं मनः, तदस्यास्तीति संज्ञी । नैकेन्द्रियादिनातिप्रसङ्गः  
तस्य मनसोऽभावात् । अथवा शिक्षाक्रियोपदेशालापग्राही संज्ञी । उक्तं च—

सिक्खा-किरियुवदेसालावगाही मणोवलंवेण ।

जो जीवो सो सण्णी तव्विवरीदो असण्णी हुं ॥ ९७ ॥

शरीरप्रायोग्यपुद्गलपिण्डग्रहणमाहारः । सुगममेतत् । उक्तं च—

आहरदि सरीराणं तिण्हं एगदर-वगणाओ जं ।

भासा-मणत्स णियदं तम्हा आहारओ भणिओ ॥ ९८ ॥

जिनेन्द्र भगवान्के द्वारा उपदेश दिये गये छह द्रव्य, पांच अस्तिकाय और नव पदा-  
र्थोंका आज्ञा अर्थात् आप्तवचनके आश्रयसे अथवा अधिगम अर्थात् प्रमाण, नय, निक्षेप और  
निराकिरूप अनुयोगद्वारोंसे श्रद्धान करनेको सम्यक्त्व कहते हैं ॥ ९६ ॥

जो भलीप्रकार जानता है उसको संज्ञ अर्थात् मन कहते हैं । वह मन जिसके पाया  
जाता है उसको संज्ञी कहते हैं । यह लक्षण एकेन्द्रियादिकमें चला जायगा, इसलिये अतिप्रसंग  
द्रोप आजायगा यह बात भी नहीं है, क्योंकि, एकेन्द्रियादिकके मन नहीं पाया जाता है ।  
अथवा, जो शिक्षा, क्रिया, उपदेश और आलापको ग्रहण करता है उसको संज्ञी कहते हैं ।  
कहा भी है—

जो जीव मनके अवलम्बनसे शिक्षा, क्रिया, उपदेश और आलापको ग्रहण करता है  
उसे संज्ञी कहते हैं । और जो इन शिक्षा आदिको ग्रहण नहीं कर सकता है उसको असंज्ञी  
कहते हैं ॥ ९७ ॥

औदारिकादि शरीरके योग्य पुद्गलपिण्डके ग्रहण करनेको आहार कहते हैं । इसका  
अर्थ सरल है । कहा भी है—

औदारिक, वैक्रियक और आहारक इन तीन शरीरोंमेंसे उद्यको प्राप्त हुए किसी

१ गो. जी. ५६१. आणाए आज्ञया प्रमाणादिमिर्विना ईषनिर्णयलक्षणया । अहिगमेण अधिगमंण  
प्रमाणनयआप्तवचनाश्रयेण निक्षेपनिरुत्पन्नानुयोगद्वारैः विशेषनिर्णयलक्षणेन । जी. प्र. टी.

२ हिताहितविधिनियेधात्मिका शिक्षा । करचरणचालनादिरूपा क्रिया । चर्मपुत्रिकादिनोपदिश्यमानवय-  
विधानादिरूपदेशः । श्लोकादिपाठ आलापः । तद्ग्राही मनोऽवलंबेन यो मनुष्यः उक्षगजराजकीरादिजीवः स संज्ञा नाम ।  
गो. जी., जी. प्र., टी. ६६२.

३ गो. जी. ६६१. मीमंसादि जो पुवं कज्जमकज्जं च तच्चमिदरं च । सिक्खादि णामेपेदि य समणो  
अमणो य विवरीदो ॥ गो. जी. ६६१.

४ गो. जी. ६६५. तत्र च ' भासामणत्स ' स्थाने ' भासामणण ' इति पाठः । उदयावण्णसरीरोदएण  
तद्देहवयणचिचाणं । णोकम्मवगणणं गहणं आहारयं णाम ॥ गो. जी. ६६४.

तद्विपरीतोऽनाहारः । उक्तं च—

विभेह-गइमावण्णा केवल्लिणो समुहदा अजोगी य ।

सिद्धा य अणाहारा रोसा आहारया जीवा ॥ ९९ ॥

अन्विष्यमाणगुणस्थानानामनुयोगद्वारप्ररूपणार्थमुत्तरसूत्रमाह—

एदेसिं चैव चोहसण्हं जीवसमासाणं परूवणट्टदाए तत्थ इमाणि  
अट्ट अणियोगद्वाराणि णायव्वाणि भवंति ॥ ५ ॥

‘ तत्थ इमाणि अट्ट अणियोगद्वाराणि ’ एतदेवालं शेषस्य नान्तरीयकत्वादिति चंचप दोषः, मन्दबुद्धिसत्त्वानुग्रहार्थत्वात् । अनुयोगो नियोगो भाषा विभाषा वार्तिके-  
त्यर्थः । उक्तं च—

एक शरीरके योग्य तथा भाषा और मनके योग्य पुद्गलवर्गणाओंको जो नियमसे ग्रहण-  
करता है उसको आहारक कहते हैं ॥ ९८ ॥

आहारिक आदि शरीरके योग्य पुद्गलपिण्डके ग्रहण नहीं करनेको अनाहार कहते हैं ।  
कहा भी है—

विग्रहगतिको प्राप्त होनेवाले चारों गतिके जीव, प्रतर और लोकपूरण समुदातको प्राप्त  
हुए सयोगिकेवली तथा अयोगिकेवली और सिद्ध ये नियमसे अनाहारक होते हैं । शेष जीवोंको  
आहारक समझना चाहिये ॥ ९९ ॥

अन्वेषण किये जानेवाले गुणस्थानोंके अट्ट अनुयोगद्वारोंके प्ररूपण करनेके लिये  
आगंका सूत्र कहते हैं—

इत ही चोहह जीवसमासांके ( गुणस्थानोंके ) निरूपण करने रूप प्रयोजनके होनेपर  
वहां आगे कहे जानेवाले ये अट्ट अनुयोगद्वार समझना चाहिये ॥ ५ ॥

शंका — ‘ तत्थ इमाणि अट्ट अणियोगद्वाराणि ’ इतना सूत्र बनाना ही पर्याप्त था,  
क्योंकि, सूत्रका शेष भाग इसका अविनाभावी है । अतएव उसका स्वर्थ ग्रहण हो जाता है ।  
उसे सूत्रमें निहित करनेकी कोई आवश्यकता नहीं थी ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, मन्दबुद्धि प्राणियोंके अनुग्रहके लिये शेष  
भागको सूत्रमें ग्रहण किया गया है ।

अनुयोग, नियोग, भाषा, विभाषा और वार्तिक ये पांचों पर्यायवाची नाम हैं ।  
कहा भी है—

१ प्रतरलोकपूरणसमुदातपरिणतसयोगिजिनाः । गो. जी., जी. प्र., टी. ६६६.

२ गो. जी. ६६६.

३ तत्रानुयोगजनमनुयोगः, किं तन् ? श्रुतं निजाभिधेयसम्बन्धनं, अथवा योग इति व्यापार उच्यते,  
तत्रानुरूपोऽनुकूलो वा योगो, यथा वदशब्देन वदो गण्यते, अथवा वा योगो अणुयोग इत्येवमादि । तथा निश्चितो योगो

अणियोगो य णियोगो भास-विभासा य वट्टिया चैय ।

एदे अणिओअस्स दु णामा एयट्टआ पंच<sup>१</sup> ॥ १०० ॥

सूई मुद्दा पडिहो संभवदल-वट्टिया चैय ।

अणियोग-णिरुत्तीए दिहंता होंति पंचेय<sup>२</sup> ॥ १०१ ॥

एते अष्टावधिकाराः अवश्यं ज्ञातव्याः भवन्त्यन्यथा जीवसमासावगमानुपपत्ते-

अनुयोग, नियोग, भाषा, विभाषा और वार्त्तिक ये पांच अनुयोगके एकार्थवाची नाम जानना चाहिये ॥ १०० ॥

अनुयोगकी निरुक्तिमें सूची, मुद्रा, प्रतिघ, संभवदल और वार्त्तिका ये पांच दृष्टान्त होते हैं ॥ १०१ ॥

विशेषार्थ—अनुयोगकी निरुक्तिमें जो पांच दृष्टान्त दिये हैं वे लकड़ी आदिके कामको लक्ष्यमें रखकर दिये गये प्रतीत होते हैं। जैसे, लकड़ीसे किसी वस्तुको तैयार करनेके लिये पहले लकड़ीके निरुपयोगी भागको निकालनेके लिये उसके ऊपर एक रेखामें डोरा डाला जाता है, इसे सूचीकर्म कहते हैं। अनन्तर उस डोरासे लकड़ीके ऊपर चिन्ह कर दिया जाता है, इसे मुद्राकर्म कहते हैं। इसके बाद लकड़ीके निरुपयोगी भागको छांटकर निकाल दिया जाता है, इसे प्रतिघ या प्रतिघातकर्म कहते हैं। फिर उस लकड़ीके कामके लिये उपयोगी जितने भागोंकी आवश्यकता होती है उतने भाग कर लिये जाते हैं इसे संभवदलकर्म कहते हैं। और अन्तमें वस्तु तैयार करके उसके ऊपर ब्रश आदिसे पालिश कर दिया जाता है, यही वार्त्तिकाकर्म है। इसतरह इन पांच कर्मोंसे जैसे विवक्षित वस्तु तैयार हो जाती है, उसीप्रकार अनुयोग शब्दसे भी आगमानुकूल संपूर्ण अर्थका ग्रहण होता है। नियोग, भाषा, विभाषा और वार्त्तिक ये चारों अनुयोग शब्दके द्वारा प्रगट होनेवाले अर्थको ही उत्तरोत्तर विशद करते हैं, अतएव वे अनुयोगके ही पर्यायवाची नाम हैं ॥ १०१ ॥

ये आठ अधिकार अवश्य ही जानने योग्य हैं, क्योंकि, इनके परिज्ञानके बिना जीव-

नियोगो यथा घटध्वनिना घट एवोच्यते नान्य इत्येवमादि । भाषणं भाषा, व्यक्तीकरणमित्यर्थः, तद्यथा, घटनाद् घटः, चेष्टावानित्यर्थः । विविधा भाषा विभाषा, यथा घटः कुटः कुम्भ इत्येवमादि । 'वार्त्तिकं' वृत्तौ भवं वार्त्तिकं, अशेषपर्यायकथनमित्यर्थः । अनुयोगस्य पुनरमूनि एकार्थिकानि पञ्चेति । वि. भा., को. वृ. १३९२.

१ आ. नि. १२५.

२ कट्टे पोत्थे चित्ते सिरिघारेण वोंड-देसिए चैव । भासगविभासए वा वित्तीकरणे य आहरणा ( नि. १२९ ) पदमो रूवागारं थूलवयवोवदंसणं वीओ । तहओ सव्वावयवे निद्वेसि सव्वहा कुणइ ॥ कट्टसमाणं सुत्तं तदत्थरूवेग-भासणं भासा । थूलत्थाण विभासा सव्वेसि वत्तियं नेयं ॥ वि. भा. १४३३-१४३५. प्रथमः काष्ठे रूपकारो रूपमा-विर्भावयति, 'डउलेइ' ति भाणियं होइ । तथा द्वितीयस्तु स्थूलावयवोपदर्शनं, 'वड्डेइ' ति भाणियं होइ । तृतीयस्तु सर्वथा सर्वानवयवान्निर्दोषान् करोति, चीरयतोत्येवमाद्युक्तं भवतीति दृष्टान्तगाथार्थः । वि. भा., को. वृ. १४३४.

रिति श्रुतवतः शिष्यस्य तन्निर्देशविषयसंशयः समुत्पद्यत इति जातनिश्चयः पृच्छासूत्रमाह—

तं जहा ॥ ६ ॥

अव्यक्तत्वात्तदिति नपुंसकलिङ्गनिर्देशः । 'तद्' अष्टानामनुयोगद्वाराणां निर्देशः । यथेति पृच्छा । एवं पृष्ठवतः शिष्यस्य संदेहापोहनार्थमुत्तरसूत्रमाह—

संतपरूवणा द्रव्यप्रमाणाणुगमो खेत्ताणुगमो फोसणाणुगमो  
कालाणुगमो अंतराणुगमो भावाणुगमो अप्पाबहुगाणुगमो चेदि ॥७॥

अद्वणमणियोगद्वाराणमाइम्मि किमिदि संतपरूवणा चेय उच्चदे ? ण, संताणि-  
योगो सेसाणियोगद्वाराणं जेण जोणीभूदो तेण पढमं संताणियोगो चेव भण्णदे ।

समासोंका ज्ञान नहीं हो सकता है। ऐसा नुननेवाले शिष्यको उन आठ अनुयोगद्वारोंके नामके विषयमें संशय उत्पन्न हो सकता है। इसप्रकारका निश्चय होने पर आचार्य पृच्छासूत्रको कहते हैं—

वे आठ अधिकार कौनसे हैं ॥ ६ ॥

कहा जानेवाला विषय अव्यक्त होनेसे 'सामान्ये नपुंसकम्' इस नियमको ध्यानमें रखकर आचार्यने 'तद्' यह नपुंसकलिङ्ग निर्देश किया है, जो कि आगे कहे जानेवाले उन आठों ही अनुयोगद्वारोंका निर्देश करता है। 'यथा' यह पद पृच्छाको प्रगट करता है। अर्थात् वे आठ अनुयोगद्वार कौनसे हैं? इसप्रकार पूछनेवाले शिष्यके संदेहको दूर करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

सत्परूवणा, द्रव्यप्रमाणाणुगम, क्षेत्राणुगम, स्पर्शानुगम, कालाणुगम, अंतराणुगम,  
भावानुगम और अप्पाबहुत्वाणुगम ये आठ अनुयोगद्वार होते हैं ॥ ७ ॥

शंका—आठ अनुयोगद्वारोंके आदिमें सत्परूवणा ही क्यों कही गई है ?

समाधान—ऐसा नहीं कहना, क्योंकि, सत्परूवणारूप अनुयोगद्वार जिस कारणसे शेष अनुयोगद्वारोंका योनिभूत (मूलकारण) है, उसीकारण सबसे पहले सत्परूवणाका ही निरूपण किया है।

१ सत्त्वं ध्व्यभिचारि सर्वपदार्थविषयत्वात्, न हि कश्चित् पदार्थः सत्तां व्यभिचरति ×× सर्वेषां च विचारिणांमास्ति त्वं मूलं तेन हि निश्चितस्य वस्तुन उत्तरा विंता युज्यते अतस्तस्यादौ वचनं क्रियते । सतः परिणामोपलब्धेः संख्योपदेशः । निश्चितसंख्यस्य निशासविप्रतियत्तेः क्षेत्राभिधानम् । अवस्थाविशेषस्य वैचित्र्याच्चिकालविषयोप-  
श्लेषनिश्चयार्थं स्वर्शनम् । स्थितिमतोऽवधिपरिच्छेदार्थं कालोपादानम् । अनुपहतवोर्यस्य न्यग्भावे पुनरुद्भूतिदर्शनात्तद्वचनम्  
( अंतरवचनम् ) । परिणामप्रकारनिर्णयार्थः भाववचनम् । संख्यातावन्यतमनिश्चयेऽभ्यन्योन्यविशेषप्रतिपत्त्यर्थमल्पबहुत्व-  
वचनम् । त. रा. वा. पृ. ३०.

संतपरूवणाणंतरं किमिदि दव्वपमाणाणुगमो उच्चदे ? ण, णिय-संखा-गुणिदोगाहण-  
खेत्तं खेत्तं उच्चदे दि । एदं चेव अदीद-फुसणेण सह फोसणं उच्चदे । तदो दो वि अहि-  
यारा संखा-जोणिणो । णाणेग-जीवे अस्सिऊण उच्चमाण-कालंतर-परूवणा वि संखा-जोणी ।  
इदं थोवमिदं च बहुवमिदि भण्णमाण-अप्पावहुगं पि संखा-जोणी । तेण एदाणमाइमिह  
दव्वपमाणाणुगमो भण्ण-जोगो । एत्थ भावो किमिदि ण उच्चदे ? ण, तस्स बहु-  
वण्णणादो । कथं भावो बहु-वण्णणीयो ? ण, कम्म-कम्मोदय-परूवणाहि विणा  
तस्स परूवणाभावादो । छ-वड्ढि-हाणि-ट्टिय-भाव-संखमंतरेण भाव-वण्णणाणुववत्तीदो वा ।  
वट्टमाण-फासं वण्णेदि खेत्तं । फोसणं पुण अदीदं वट्टमाणं च वण्णेदि । अवगय-वट्टमाण-  
फासो सुहेण दो वि पच्छ जाणदु त्ति पोसणपरूवणादो होदु णाम पुट्ठं खेत्तस्स

शंका—सत्प्ररूपणाके वाद द्रव्यप्रमाणानुगमका कथन क्यों किया गया है ?

समाधान—यह शंका भी ठीक नहीं है, क्योंकि, अपनी अपनी संख्यासे गुणित  
अवगाहनारूप क्षेत्रको ही क्षेत्रानुगम कहते हैं । और अपनी अपनी संख्यासे गुणित अवगा-  
हनारूप क्षेत्र ही भूतकालीन स्पर्शके साथ स्पर्शानुगम कहा जाता है । इसलिये इन  
दोनों ही अधिकारोंका संख्याधिकार ( द्रव्यप्रमाणानुगम ) योनिभूत है । उसीप्रकार नाना  
जीव और एक जीवकी अपेक्षा वर्णन की जानेवाली कालप्ररूपणा और अन्तरप्ररूपणाका  
भी संख्याधिकार योनिभूत है । तथा यह अल्प है, यह बहुत है, इसप्रकार कहे जानेवाले  
अल्पबहुत्वानुयोगद्वारका भी संख्याधिकार योनिभूत है । इसलिये इन सबके आदिमें द्रव्य-  
प्रमाणानुगमका ही कथन करना योग्य है ।

शंका—यहां भावप्ररूपणाका वर्णन क्यों नहीं किया गया है ?

समाधान—उसका वर्णन करने योग्य विषय बहुत है, इसलिये यहां भावप्ररूपणाका  
वर्णन नहीं किया गया है ।

शंका—यह कैसे जाना जावे कि भावप्ररूपणा बहुवर्णनीय है ?

समाधान—ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि, कर्म और कर्मोदयके निरूपणके  
विना भावानुयोगद्वारका निरूपण नहीं हो सकता है, इसलिये भाव बहुवर्णनीय है यह  
समझना चाहिये । अथवा, षड्गुणी हानि और षड्गुणी वृद्धिमें स्थित भावकी संख्याके विना  
भावप्ररूपणाका वर्णन नहीं हो सकता है, इसलिये भी यहां भावप्ररूपणाका वर्णन नहीं किया  
गया है ।

शंका—क्षेत्रानुयोग वर्तमानकालीन स्पर्शका वर्णन करता है । और स्पर्शानुयोग  
अतीत और वर्तमानकालीन स्पर्शका वर्णन करता है । जिसने वर्तमानकालीन स्पर्शको जान  
लिया है वह अनन्तर सरलतापूर्वक अतीत और वर्तमानकालीन स्पर्शको जान लेवे, इसलिये

परूवणा, ण पुण कालंतरेहिंतो ? इदि ण, अणवगय-खेत्त-फोसणस्स त्कालंतर-जाणणुवाया-भावादो । ण च संतमत्थमागमो ण परूवेइ तस्स अत्थावयत्तप्पसंगादो । णेदाणि त्कालंतरं पडिवज्जदीदि चेण्ण, तप्पढणे विरोहाभावादो । तहा भावप्पावहुगाणं पि परूवणा खेत्त-फोसणाणुगममंतरेण ण तच्चिसया होंति त्ति पुव्वमेव खेत्त-फोसण-परूवणां कायव्वा । सेसाहियारेसु संतेसु ते मोत्तूण किमइं कालो पुव्वमेव उच्चदे ? ण ताव अंतरपरूवणा एत्थ भणण-जोग्गा काल-जोणित्तादो । ण भावो वि तस्स तदो हेट्ठिम-अहियार-जोणित्तादो । ण अप्पावहुगं पि तस्स वि सेसाणियोग-जोणित्तादो । परिसेसादो कालो चैव तत्थ परूवणा-जोगो त्ति । भावप्पावहुगाणं जोणित्तादो पुव्वमेवंतरपरूवणा

स्पर्शन प्ररूपणाके पहले क्षेत्रप्ररूपणाका वर्णन रहा आवे इसमें कोई आपत्ति नहीं, परंतु काल और अन्तरप्ररूपणाके पहले क्षेत्रप्ररूपणाका वर्णन संभव नहीं है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, जिसने क्षेत्र और स्पर्शनको नहीं जाना है उससे तत्संबन्धी काल और अन्तरके जाननेका कोई भी उपाय नहीं प्राप्त हो सकता है । और आगम, जिस प्रकारसे वस्तु-व्यवस्था है, उसीप्रकारसे प्ररूपण नहीं करे यह हो नहीं सकता है । यदि ऐसा नहीं माना जावे तो उस आगमको अर्थापदत्व अर्थात् अनर्थकपदत्वका प्रसंग प्राप्त हो जायगा ।

शंका— तो भी क्षेत्र और स्पर्शनप्ररूपणाके पश्चात् काल और अन्तरप्ररूपणाका कथन प्राप्त नहीं होता है ?

समाधान—ऐसा नहीं है, क्योंकि, क्षेत्र और स्पर्शनके बाद काल और अन्तर-प्ररूपणाके कथन करनेमें कोई विरोध नहीं आता है ।

उसीप्रकार भाव और अल्पबहुत्वकी भी प्ररूपणा क्षेत्र और स्पर्शनानुगमके विना क्षेत्र और स्पर्शनको विषय करनेवाली नहीं हो सकती है, इसलिये इन सबके पहले ही क्षेत्र और स्पर्शनानुगमका कथन करना चाहिये ।

शंका—अन्तरादि शेष अधिकारोंके रहते हुए भी उन्हें छोड़कर कालाधिकारका कथन पहले क्यों किया गया है ?

समाधान—यहांपर ( स्पर्शनप्ररूपणाके पश्चात् ) अन्तरप्ररूपणाका कथन तो किया नहीं जा सकता है, क्योंकि, अन्तरप्ररूपणाका मूल-आधार ( योनि ) कालप्ररूपणा ही है । स्पर्शनप्ररूपणाके बाद भावप्ररूपणाका भी वर्णन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि, कालप्ररूपणासे नीचेका अधिकार ( अन्तराधिकार ) भावप्ररूपणाका योनिरूप है । उसीप्रकार स्पर्शनप्ररूपणाके बाद अल्पबहुत्वप्ररूपणाका भी कथन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि, शेषानुयोग ( भावानुयोग ) अल्पबहुत्वप्ररूपणाका योनिरूप है । इसप्रकार जब स्पर्शनप्ररूपणाके पश्चात् अन्तर, भाव और अल्पबहुत्व इनमेंसे किसीका भी प्ररूपण नहीं हो सकता था तब परिशेष-न्यायसे वहां पर काल ही प्ररूपणाके योग्य है यह बात सिद्ध हो जाती है ।



उत्ता । अप्पावहुग-जोणित्तादो पुव्वमेव भावपरूवणा उच्चदे । सुत्ते तहा परूवणा किमिदि ण दिस्सदे ? ण, सुत्तस्सत्थ-सूयणमेत्त-वावारादो । तहाइरिया किमिदि ण वक्खणंति ? ण, अवधारणसमत्थाणं सिस्साणं संपहि अभावादो तहोवएसाभावादो वा । अत्थित्तं भणदि संताणियोगो । संताणियोगमिह जमत्थित्तं उच्चं तस्स पमाणं परूवेदि दच्चवाणियोगो । तेहितो अवगय-संत-पमाणं वड्डमाणोगाहणं परूवेदि खेत्ताणियोगो । पुणो तेहितो-वलद्ध-संत-पमाण-खेत्ताणं अदीद-काल-विसिद्ध-फासं परूवेदि फोसणाणुगमो । तेहितो अवगय-संत-पमाण-खेत्त-फोसणाणं द्विदिं परूवेदि कालाणियोगो । तेसिं चैव विरहं परूवेदि अंतराणियोगो । तेसिं चैव भावं परूवेदि भावाणियोगो । तेसिं चैव थोव-वहुत्तं वणोदि अप्पावहुगमिदि । उच्चं च—

अत्थित्तं पुण संतं अत्थित्तस्स य तहेव परिमाणं ।

पच्चुप्पणं खेत्तं अदीद-पटुप्पणणं फुसणं ॥ १०२ ॥

भावप्ररूपणा और अल्पबहुत्वप्ररूपणाकी योनि होनेसे इन दोनोंके पहले ही अन्तरप्ररूपणाका उल्लेख किया है। तथा अल्पबहुत्वकी योनि होनेसे इसके पहले ही भावप्ररूपणाका कथन किया है।

शंका—सूत्रमें प्ररूपणाओंका वर्णन इसप्रकार क्यों नहीं दिखाई देता है ?

समाधान—यह कोई बात नहीं, क्योंकि, सूत्रका कार्य अर्थकी सूचना करना मात्र है।

शंका—यदि ऐसा है तो दूसरे आचार्य उक्त प्रकारसे प्ररूपणाओंका व्याख्यान क्यों नहीं करते हैं ?

समाधान—ऐसा भी नहीं कहना चाहिये, क्योंकि, एक तो आजकल विस्तृत व्याख्यानरूप तत्त्वार्थके अवधारण करनेमें समर्थ शिष्योंका अभाव है, और दूसरे उक्तप्रकारके उपदेशका अभाव है। इसलिये आचार्योंने उक्त प्रकारसे प्ररूपणाओंका व्याख्यान नहीं किया।

सत्प्ररूपणा पदार्थोंके अस्तित्वका कथन करती है। सत्प्ररूपणामें जो पदार्थोंका अस्तित्व कहा गया है उनके प्रमाणका वर्णन द्रव्यानुयोग करता है। इन दोनों अनुयोगोंके द्वारा जाने हुए अस्तित्व और संख्या-प्रमाणरूप द्रव्योंकी वर्तमान अवगाहनाका निरूपण क्षेत्रानुयोग करता है। उक्त तीनों अनुयोगोंके द्वारा जाने हुए सत्, संख्या और क्षेत्ररूप द्रव्योंके अतीत-कालोंविशिष्ट वर्तमान स्पर्शका स्पर्शानुयोग वर्णन करता है। पूर्वोक्त चारों अनुयोगोंके द्वारा जाने गये सत्, संख्या, क्षेत्र और स्पर्शरूप द्रव्योंकी स्थितिका वर्णन कालानुयोग करता है। जिन पदार्थोंके अस्तित्व, संख्या, क्षेत्र, स्पर्श और स्थितिका ज्ञान हो गया है उनके अन्तरकालका वर्णन अन्तरानुयोग करता है, उन्हींके भावोंका वर्णन भावानुयोग करता है और उन्हींके अल्पबहुत्वका वर्णन अल्पबहुत्वानुयोग करता है। कहा भी है—

अस्तित्वका प्रतिपादन करनेवाली प्ररूपणाको सत्प्ररूपणा कहते हैं। जिन पदार्थोंके

कालो द्विदि-अवधरणं अंतरं विरहो य सुण्ण-कालो य ।...

भावो खट्ट परिणामो स-गाम-सिद्धं खु अप्पवहुं ॥ १०३ ॥

प्रथमानुयोगस्वरूपनिरूपणार्थं सूत्रमाह—

संतपरूवणदाए' दुविहो णिहेसो ओघेण आदेसेण' य ॥ ८ ॥

चतुर्दशजीवसमासानामित्यनुवर्तते, तेनैवमाभिसम्बन्धः क्रियते चतुर्दशजीव-  
समासानां सत्प्ररूपणायामिति । सत्सत्त्वमित्यर्थः । कथम्? अन्तर्भावितभावत्वात् । प्ररूपणा-  
निरूपणा प्रज्ञापनेति यावत् । चतुर्दशजीवसमाससत्त्वप्ररूपणायामित्यर्थः । सच्छब्दोऽस्ति  
शोभनवाचकः, यथा सदभिधानं सत्यमित्यादि । अस्ति अस्तित्ववाचकः, सति सत्ये

अस्तित्वका ज्ञान हो गया है ऐसे पदार्थोंके परिमाणका कथन करनेवाली संख्याप्ररूपणा  
है । वर्तमान क्षेत्रका वर्णन करनेवाली क्षेत्रप्ररूपणा है । अतीतस्पर्श और वर्तमानस्पर्शका  
वर्णन करनेवाली स्पर्शनप्ररूपणा है । जिसमें पदार्थोंकी जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिका वर्णन  
हो उसे कालप्ररूपणा कहते हैं । जिसमें विरहकाल अथवा शून्यकालका कथन हो उसे अन्तर-  
प्ररूपणा कहते हैं । जो पदार्थोंके परिणामोंका वर्णन करे वह भावप्ररूपणा है । तथा अल्प-  
बहुत्वप्ररूपणा अपने नामसे ही सिद्ध है ॥ १०२-१०३ ॥

अब पहले सदनुयोगके स्वरूपका निरूपण करनेके लिये सूत्र कहते हैं ।

सत्प्ररूपणामं ओघ अर्थात् सामान्यकी अपेक्षासे और आदेश अर्थात् विशेषकी  
अपेक्षासे इसतरह दो प्रकारका कथन है ॥ ८ ॥

इस सूत्रमें 'चतुर्दशजीवसमासानाम्' इस पदकी अनुवृत्ति होती है, इसलिये उस  
पदके साथ ऐसा संबन्ध कर लेना चाहिये कि 'चौदह जीवसमासोंकी सत्प्ररूपणामं' ।  
यहां पर सत्का अर्थ सत्व है ।

शंका—यहां सत्का अर्थ सत्व करनेका क्या कारण है ?

समाधान—क्योंकि, सत्में भावरूप अर्थ अन्तर्भूत है, इसलिये यहां पर सत्का अर्थ  
सत्व लिया गया है ।

प्ररूपणा, निरूपणा और प्रज्ञापना ये सब पर्यायवाची नाम हैं । इसलिये 'संतपरूवण-  
दाए' इसपदका अर्थ यह हुआ कि चौदह जीवसमासोंके सत्वके निरूपण करनेमें । 'सत्'  
शब्द शोभन अर्थात् सुन्दर अर्थका भी वाचक है । जैसे, सदभिधानं अर्थात् शोभनरूप कथनको

१ संतंति विञ्जमाणं एयस्स पयस्स जा परूवणया । गइयाइएसु वत्थुसु संतपयपरूवणा सा उ । जीवस्स  
च जं संतं जम्हा तं तेहिं तेषु वा पयति । तो संतस्स पयाइं ताइं तेषु परूवणया ॥ वि. भा. ४०७-४०८.

२ संखेओ ओघो ति य गुणसण्णा सा च मोहजोगमवा । वित्थारादेसो ति य मग्गणसण्णा सकम्ममवा ॥

गो. जी. ३.

व्रतीत्यादि । अत्रास्तित्ववाचको ग्राह्यः । निर्देशः प्ररूपणं विवरणं व्याख्यानमिति यावत् । स द्विविधो द्विप्रकारः, ओघेन आदेशेन च । ओघेन सामान्येनाभेदेन प्ररूपणमेकः । अपरः आदेशेन भेदेन विशेषेण प्ररूपणमिति । न च प्ररूपणायास्तृतीयः प्रकारोऽस्ति सामान्यविशेषव्यतिरिक्तस्यानुपलम्भात् । विशेषव्यतिरिक्तसामान्याभावादादेशप्ररूपणाया एव ओघावगतिः स्यादिति न द्विविधं व्याख्यानमिति चेन्न, संक्षेपविस्तररुचिद्रव्यपर्यायार्थिकसत्वानुग्रहार्थत्वात् । जीवसमास इति किम् ? जीवाः सम्यगासतेऽस्मिन्निति जीवसमासः । कासते ? गुणेषु । के गुणाः ? औदयिकौपशमिकक्षायिकक्षायोपशमिक-

सत्य कहते हैं । कहीं पर 'सत्' शब्द अस्तित्ववाचक भी पाया जाता है । जैसे, यह सत्यके अस्तित्व अर्थात् सद्भावमें व्रती है । इनमेंसे यहां पर 'सत्' शब्द अस्तित्ववाचक ही लेना चाहिये ।

निर्देश, प्ररूपण, विवरण और व्याख्यान ये सब पर्यायवाची नाम हैं । वह निर्देश ओघ और आदेशकी अपेक्षा दो प्रकारका है । ओघ, सामान्य या अभेदसे निरूपण करना पहली ओघप्ररूपणा है, और आदेश, भेद या विशेषरूपसे निरूपण करना दूसरी आदेश-प्ररूपणा है । इन दो प्रकारकी प्ररूपणाओंको छोड़कर वस्तुके विवेचनका और कोई तीसरा प्रकार संभव नहीं है, क्योंकि, वस्तुमें सामान्य और विशेष धर्मको छोड़कर और कोई तीसरा धर्म नहीं पाया जाता है ।

शंका— विशेषको छोड़कर सामान्य स्वतन्त्र नहीं पाया जाता है, इसलिये आदेशप्ररूपणाके कथनसे ही सामान्यप्ररूपणाका ज्ञान हो जायगा । अतएव दो प्रकारका व्याख्यान करना आवश्यक नहीं है ?

समाधान—यह आशंका ठीक नहीं है, क्योंकि, जो संक्षेप-रुचिवाले शिष्य होते हैं वे द्रव्यार्थिक अर्थात् सामान्यप्ररूपणासे ही तत्त्वको जानना चाहते हैं । और जो विस्तर-रुचिवाले होते हैं वे पर्यायार्थिक अर्थात् विशेषप्ररूपणाके द्वारा तत्त्वको समझना चाहते हैं, इसलिये इन दोनों प्रकारके प्राणियोंके अनुग्रहके लिये यहां पर दोनों प्रकारकी प्ररूपणाओंका कथन किया है ।

शंका—जीवसमास किसे कहते हैं ?

समाधान—जिसमें जीव भलेप्रकार रहते हैं अर्थात् पाये जाते हैं उसे जीवसमास कहते हैं ?

शंका—जीव कहां रहते हैं ?

समाधान—गुणोंमें जीव रहते हैं ।

शंका—वे गुण कौनसे हैं ?

समाधान—औदयिक, औपशमिक, क्षायिक क्षायोपशमिक और पारिणामिक ये पांच

पारिणामिका इति गुणाः । अस्य गमनिका, कर्मणामुदयादुत्पन्नो गुणः औदयिकः, तेषामुपशमादौपशमिकः, क्षयात्क्षायिकः, तत्क्षयादुपशमाच्चोत्पन्नो गुणः क्षायोपशमिकः । कर्मोदयोपशमक्षयक्षयोपशममन्तरेणोत्पन्नः पारिणामिकः । गुणसहचरितत्वादात्मापि गुणसंज्ञां प्रातिलभते । उक्तं च—

जेहि दु लखिजंते उदयादिषु संभवेहि भावेहि ।

जीवा ते गुण-सण्णा णिदिह्वा सव्वदरिसीहि' ॥ १०४ ॥

ओघनिर्देशार्थमुत्तरसूत्रमाह—

ओघेण अत्थि मिच्छादृष्टी' ॥ ९ ॥

यथोद्देशस्तथा निर्देश इति न्यायात् ओघाभिधानमन्तरेणापि ओघोऽवगम्यते

प्रकारके गुण अर्थात् भाव हैं । इनका खुलासा इस प्रकार है । जो कर्मोंके उदयसे उत्पन्न होता है उसे औदयिक भाव कहते हैं । जो कर्मोंके उपशमसे उत्पन्न होता है उसे औपशमिक भाव कहते हैं । जो कर्मोंके क्षयसे उत्पन्न होता है उसे क्षायिक भाव कहते हैं । जो वर्तमान समयमें सर्वघाती स्पर्धकोंके उदयाभावी क्षयसे और अनागत कालमें उदयमें आनेवाले सर्वघाती स्पर्धकोंके सद्वस्थारूप उपशमसे उत्पन्न होता है उसे क्षायोपशमिक भाव कहते हैं । जो कर्मोंके उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशमकी अपेक्षाके बिना जीवके स्वभावमात्रसे उत्पन्न होता है उसे पारिणामिक भाव कहते हैं । इन गुणोंके साहचर्यसे आत्मा भी गुणसंज्ञाको प्राप्त होता है । कहा भी है—

दर्शनमोहनीय आदि कर्मोंके उदय, उपशम आदि अवस्थाओंके होने पर उत्पन्न हुए जिन परिणामोंसे युक्त जों जीव देखे जाते हैं उन जीवोंको सर्वज्ञदेवने उसी गुणसंज्ञावाला कहा है ॥ १०४ ॥

अब ओघ अर्थात् गुणस्थान प्ररूपणाका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—  
सामान्यसे गुणस्थानकी अपेक्षा मिथ्यादृष्टि जीव हैं ॥ ९ ॥

शंका—‘ उद्देशके अनुसार ही निर्देश होता है ’ इस न्यायके अनुसार ‘ ओघ ’ इस शब्दके कहे बिना भी ‘ ओघ ’ का ज्ञान हो ही जाता है, इसलिये उसका सूत्रमें फिरसे

१ गो. जी. ८. अनेन गुणशब्दनिरुक्तिप्रधानसूत्रेण मिथ्यात्वादयोऽयोगिकेर्वालावपर्यस्ता जीवपरिणामविशेषाः त एव गुणस्थानानीति प्रतिपादितम् । जी. प्र. टी.

२ ननु यदि मिथ्या दृष्टिस्ततः कथं तस्य गुणस्थानसंभवः । गुणा हि ज्ञानादिरूपास्तत्कथं ते दृष्टौ विपर्यस्तायां भवेयुरिति ? उच्यते, इह यद्यपि सर्वथातिप्रबलमिथ्यात्वमोहनीयोदयादर्हत्प्रणीतजीवाजीवादिवस्तुप्रतिपातिरूपा दृष्टि-रसुमतो विपर्यस्ता भवति, तथापि काचिन्मनुष्यपशवादिप्रतिपत्तिरविपर्यस्ता, ततो निगोदावस्थायांमपि तथाभूताव्यक्त-स्पर्शमात्रप्रतिपत्तिरविपर्यस्ता भवति अन्यथाऽजीवत्वप्रसंगात् । अमि. रा. को. ( मिच्छादृष्टिगुणद्वान ) .

तस्येह पुनरुच्चारणमनर्थकमिति न, तस्य दुर्मेधोजनानुग्रहार्थत्वात् । सर्वसत्त्वानुग्रह-  
कारिणो हि जिनाः नीरागत्वात् । सन्ति मिथ्यादृष्टयः । मिथ्या वितथा व्यलीका असत्या  
दृष्टिर्दर्शनं विपरीतैकान्तविनयसंशयाज्ञानरूपमिथ्यात्वकर्मोदयजनिता येषां ते मिथ्या-  
दृष्टयः ।

जावदिया वयण-वहा तावदिया चेव होंति णय-वादा ।

जावदिया णय-वादा तावदिया चेव पर-समया' ॥ १०५ ॥

इति वचनात्त मिथ्यात्वपञ्चकनियमोऽस्ति किन्तूपलक्षणमात्रमेतदभिहितं पञ्चविधं  
मिथ्यात्वमिति । अथवा मिथ्या वितथं, तत्र दृष्टिः रुचिः श्रद्धा प्रत्ययो येषां ते मिथ्या-  
दृष्टयः । उक्तं च—

मिच्छन्तं वेयंतो जीवो विवरीय-दंसणो होइ ।

ण य धम्मं रोचेदि हु मधुरं खु रसं जहा जरिदो' ॥ १०६ ॥

उच्चारण करना निष्प्रयोजन है ?

समाधान—ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि, अल्पबुद्धि या मूढ़जनोंके अनुग्रह-  
के लिये सूत्रमें 'ओघ' शब्दका उल्लेख किया है । जिनदेव संपूर्ण प्राणियोंका अनुग्रह  
करनेवाले होते हैं, क्योंकि, वे वीतराग हैं ।

'मिथ्यादृष्टि जीव हैं' यहां पर मिथ्या, वितथ, व्यलीक और असत्य ये एकार्थ-  
वाची नाम हैं । दृष्टि शब्दका अर्थ दर्शन या श्रद्धान है । इससे यह तात्पर्य हुआ कि जिन  
जीवोंके विपरीत, एकान्त, विनय, संशय और अज्ञानरूप मिथ्यात्व कर्मके उदयसे उत्पन्न हुई  
मिथ्यारूप दृष्टि होती है उन्हें मिथ्यादृष्टि जीव कहते हैं ।

'जितने भी वचन-मार्ग हैं उतने ही नय-वाद अर्थात् नय के भेद होते हैं और  
जितने नय-वाद हैं उतने ही पर-समय ( अनेकान्त-वाह्य-मत ) होते हैं ॥ १०५ ॥

इस वचनके अनुसार मिथ्यात्वके पांच ही भेद हैं यह कोई नियम नहीं समझना  
चाहिये, किंतु मिथ्यात्व पांच प्रकारका है यह कहना उपलक्षणमात्र है । अथवा, मिथ्या  
शब्दका अर्थ वितथ और दृष्टि शब्दका अर्थ रुचि, श्रद्धा या प्रत्यय है । इसलिये जिन जीवोंकी  
रुचि असत्यमें होती है उन्हें मिथ्यादृष्टि कहते हैं । कहा भी है—

मिथ्यात्व प्रकृतिके उदयसे उत्पन्न होनेवाले मिथ्यात्वभावका अनुभव करनेवाला जीव  
विपरीत-श्रद्धावाला होता है । जिसप्रकार पित्तज्वरसे युक्त जीवको मधुर रस भी अच्छा मालूम

१ गाथेयं पूर्वमपि ६७ गाथाङ्केन आगता ।

२ एवं स्थूलांशाश्रयेण मिथ्यात्वस्य पंचविधत्वं कथितं सूक्ष्मांशाश्रयेणासंख्यातलोकमात्रिकल्पसंभवात्  
तत्र व्यवहारानुपपत्तेः । गो. जी., जी. प्र., टी. १५.

३ गो. जी. १७.

तं मिच्छंत्तं जहमसद्वहणं तच्चाणं होइ अत्थाणं ।

संसइदमभिग्गहियं अणभिग्गहिदं ति तं तिविहं ॥ १०७ ॥

इदानीं द्वितीयगुणस्थाननिरूपणार्थं सूत्रमाह—

**सासणसम्माइट्ठी' ॥ १० ॥**

आसादनं सम्यक्त्वविराधनम्, सह आसादनेन वर्तत इति सासादनो विनाशित-  
सम्यग्दर्शनोऽप्राप्तमिथ्यात्वकर्मोदयजनितपरिणामो मिथ्यात्वाभिमुखः सासादनं इति  
भण्यते । अथ स्यान्न मिथ्यादृष्टिरयं मिथ्यात्वकर्मण उदयाभावात्, न सम्यग्दृष्टिः सम्यग्-  
रुचेरभावात्, न सम्यग्मिथ्यादृष्टिरुभयविषयरुचेरभावात् । न च चतुर्थी दृष्टिरस्ति

.....  
नहीं होता है उसीप्रकार उसे यथार्थ धर्म अच्छा मालूम नहीं होता है ॥ १०६ ॥

जो मिथ्यात्व कर्मके उदयसे तत्त्वार्थके विषयमें अश्रद्धान उत्पन्न होता है, अथवा  
विपरित श्रद्धान होता है, उसको मिथ्यात्व कहते हैं । उसके संशयित, अभिगृहीत और  
अभिगृहीत इसप्रकार तीन भेद हैं ॥ १०७ ॥

अब दूसरे गुणस्थानके कथन करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

सामान्यसे सासादनसम्यग्दृष्टि जीव हैं ॥ १० ॥

सम्यक्त्वकी विराधनाको आसादन कहते हैं । जो इस आसादनसे युक्त है उसे  
सासादन कहते हैं । अनन्तानुबन्धी किसी एक कषायके उदयसे जिसका सम्यग्दर्शन  
नष्ट हो गया है, किंतु जो मिथ्यात्व कर्मके उदयसे उत्पन्न हुए मिथ्यात्वरूप परिणामोंको नहीं  
प्राप्त हुआ है फिर भी मिथ्यात्व गुणस्थानके अभिमुख है उसे सासादन कहते हैं ।

शंका—सासादन गुणस्थानवाला जीव मिथ्यात्वकर्मका उदय नहीं होनेसे मिथ्या-  
दृष्टि नहीं है, समीचीन रुचिका अभाव होनेसे सम्यग्दृष्टि भी नहीं है, तथा इन दोनोंको विषय  
करनेवाली सम्यग्मिथ्यात्वरूप रुचिका अभाव होनेसे सम्यग्मिथ्यादृष्टि भी नहीं है । इनके

.....  
१ असनं क्षेपणं सम्यक्त्वविराधनं, तेन सह वर्तते यः स सासन इति निरुक्त्या सासन इत्याख्या यस्मासौ  
सासनाख्यः । गौ. जी., मं. प्र., टी. १९.

२ आर्य औपशामिकसम्यक्त्वलाभलक्षणं सादयति अपनयतीत्यासादनम् अनन्तानुबन्धिकषायवेदनम् । पृषो-  
दरादित्वाथशब्दलोपः, कृद्वहुलामिति कर्तर्यनट् । सति ह्यस्मिन् परमानन्दरूपानन्तसुखफलो निःश्रेयसतरुबीजभूतः  
औपशामिकसम्यक्त्वलाभो जघन्यतः समयमात्रेण उत्कर्षतः षड्भिरावलिकाभिरपगच्छतीति, ततः सह आसादनेन वर्तत इति  
सासादनः । XXX सास्वादनमिति वा पाठः । तत्र सह सम्यक्त्वलक्षणरसास्वादनेन वर्तत इति सास्वादनः । यथा हि,  
मुक्तक्षीरात्रविषयव्यलीकचित्तः पुरुषस्तद्गमनकाले क्षीरात्ररसमास्वादयति तथैषोऽपि मिथ्यात्वाभिमुखतया सम्यक्त्वस्योपरि  
व्यलीकचित्तः सम्यक्त्वमुद्रहन् तद्रसमास्वादयति । ततः स चासौ सम्यग्दृष्टिश्च तस्य गुणस्थानं सास्वादनसम्यग्दृष्टि-  
गुणस्थानम् । अभि. रा. को. ( सासणसम्मादिट्ठिगुणद्वान )

सम्यग्सम्यग्भयदृष्ट्यालम्बनवस्तुव्यतिरिक्तवस्त्वनुपलम्भात् । ततोऽसन् एष गुण इति न, विपरीताभिनिवेशतोऽसदृष्टत्वात् । तर्हि मिथ्यादृष्टिर्भवत्वयं नास्य सासादनव्यपदेश इति चेन्न, सम्यग्दर्शनचारित्रप्रतिबन्धनन्तानुबन्ध्युदयोत्पादितविपरीताभिनिवेशस्य तत्र सत्त्वाद्भवति मिथ्यादृष्टिरपि तु मिथ्यात्वकर्मोदयजनितविपरीताभिनिवेशाभावात् न तस्य मिथ्यादृष्टिव्यपदेशः, किन्तु सासादन इति व्यपदिश्यते । किमिति मिथ्यादृष्टिरिति

अतिरिक्त और कोई चौथी दृष्टि है नहीं, क्योंकि, समीचीन, असमीचीन और उभयरूप दृष्टिके आलम्बनभूत वस्तुके अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु पाई नहीं जाती है । इसलिये सासादन गुणस्थान असत्स्वरूप ही है । अर्थात् सासादन नामका कोई स्वतन्त्र गुणस्थान नहीं मानना चाहिये ?

समाधान—ऐसा नहीं है, क्योंकि सासादन गुणस्थानमें विपरीत अभिप्राय रहता है, इसलिये उसे असदृष्टि ही समझना चाहिये ।

शंका—यदि ऐसा है तो इसे मिथ्यादृष्टि ही कहना चाहिये, सासादन संज्ञा देना उचित नहीं है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, सम्यग्दर्शन और स्वरूपाचरण चारित्रका प्रतिबन्ध करनेवाली अनन्तानुबन्धी कपायके उदयसे उत्पन्न हुआ विपरीताभिनिवेश दूसरे गुणस्थानमें पाया जाता है, इसलिये द्वितीय गुणस्थानवर्ती जीव मिथ्यादृष्टि है । किन्तु मिथ्यात्वकर्मके उदयसे उत्पन्न हुआ विपरीताभिनिवेश वहां नहीं पाया जाता है, इसलिये उसे मिथ्यादृष्टि नहीं कहते हैं, केवल सासादनसम्यग्दृष्टि कहते हैं ।

विशेषार्थ—विपरीताभिनिवेश दो प्रकारका होता है, अनन्तानुबन्धीजनित और मिथ्यात्वजनित । उनमेंसे दूसरे गुणस्थानमें अनन्तानुबन्धीजनित विपरीताभिनिवेश ही पाया जाता है, इसलिये इसे मिथ्यात्वगुणस्थानसे स्वतन्त्र गुणस्थान माना है ।

१ यदि तत्परिचिस्तदा सम्यग्दृष्टिरेवासौ, यद्यतत्परिचिस्तदा मिथ्यादृष्टिरेवासौ, यद्युभयरुचिस्तदा सम्यग्मिथ्यादृष्टिरेवासौ, यद्यनुभयरुचिस्तदा आत्माभावः स्यात् । गो. जी., मं. प्र., टी. १९.

२ मनु सम्यग्दर्शनघातकस्यानंतानुबन्धिनः कथं दर्शनमोहत्वाभावः ? इति चेत् न, तस्य चारित्रघातकतीव्रतमानुभागागमहिम्ना चारित्रमोहत्वस्यैव युक्तत्वात् । तर्हि तस्मान् सम्यग्दर्शनविनाशः ? इति चेत्, अनन्तानुबन्ध्युदये सति पञ्चावलिरूपस्तोककालव्यवधानेऽपि मिथ्यात्वकर्मोदयाभिमुख्ये सत्येव सम्यग्दर्शनविनाशसंभवान् । अतएव मिथ्यात्वोदयनिर्पेक्षतया सासादनत्वं भवतीति पारिणामिकभावत्वमुक्तम् । परिणामः स्वभावः तस्माद्भवः पारिणामिक इति व्युत्पत्तेः । नन्वेवं कथमनन्तानुबन्ध्यन्यतमोदयान्नाशितसम्यक्त्व इत्युच्यते ? इति चेत् न, मिथ्यात्वोदयाभिमुख्ये सति अनन्तानुबन्ध्युदयस्य सम्यग्दर्शनविनाशसंभवेन तदुदयात्तद्विनाश इति वचनाविरोधात् । किं बहुना अनन्तानुबन्धिनः सम्यक्त्वविनाशसामर्थ्यशक्तिसंभवेऽपि मिथ्यात्वोदयाभिमुख्ये सत्येव तत्सामर्थ्यव्यक्तिरिति सिद्धो नः सिद्धान्तः । गो. जी., मं. प्र., टी. १९.

न व्यपदिश्यते चेन्न, अनन्तानुबन्धिनां द्विस्वभावत्वप्रतिपादनफलत्वात् । न च दर्शन-  
मोहनीयस्योदयादुपशमात्क्षयात्क्षयोपशमाद्वा सासादनपरिणामः प्राणिनामुपजायते येन  
मिथ्यादृष्टिः सम्यग्दृष्टिः सम्यग्मिथ्यादृष्टिरिति चोच्येत । यस्माच्च विपरीताभिनि-  
वेशोऽभूदनन्तानुबन्धिनो, न तद्दर्शनमोहनीयं तस्य चारित्रावरणत्वात् । तस्योभयप्रतिबन्ध-  
कत्वादुभयव्यपदेशो न्याय्य इति चेन्न, इष्टत्वात् । सूत्रे तथाऽनुपदेशोऽप्यर्पितनयापेक्षः ।  
विवक्षितदर्शनमोहोदयोपशमक्षयक्षयोपशमन्तरेणोत्पन्नत्वात्पारिणामिकः सासादनगुणः ।

शंका—ऊपरके कथनानुसार जब वह मिथ्यादृष्टि ही है तो फिर उसे मिथ्यादृष्टि  
संज्ञा क्यों नहीं दी गई है ?

समाधान—ऐसा नहीं है, क्योंकि, सासादन गुणस्थानको स्वतन्त्र कहनेसे अनन्ता-  
नुबन्धी प्रकृतियोंकी द्विस्वभावताका कथन सिद्ध हो जाता है ।

विशेषार्थ—सासादन गुणस्थानको स्वतन्त्र माननेका फल जो अनन्तानुबन्धीकी  
द्विस्वभावता बतलाई गई है, वह द्विस्वभावता दो प्रकारसे हो सकती है। एक तो अनन्ता-  
नुबन्धी कषाय सम्यक्त्व और चारित्र इन दोनोंकी प्रतिबन्धक मानी गई है, और यही उसकी  
द्विस्वभावता है। इसी कथनकी पुष्टि यहां पर सासादन गुणस्थानको स्वतन्त्र मानकर की  
गई है। दूसरे, अनन्तानुबन्धी जिसप्रकार सम्यक्त्वके विघातमें मिथ्यात्वप्रकृतिका काम करती  
है, उसप्रकार वह मिथ्यात्वके उत्पादमें मिथ्यात्वप्रकृतिका काम नहीं करती है। इसप्रकारकी  
द्विस्वभावताको सिद्ध करनेके लिये सासादन गुणस्थानको स्वतन्त्र माना है।

दर्शनमोहनीयके उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशमसे जीवोंके सासादनरूप परिणाम  
तो उत्पन्न होता नहीं है जिससे कि सासादन गुणस्थानको मिथ्यादृष्टि, सम्यग्दृष्टि अथवा  
सम्यग्मिथ्यादृष्टि कहा जाता। तथा जिस अनन्तानुबन्धीके उदयसे दूसरे गुणस्थानमें जो  
विपरीताभिनिवेश होता है, वह अनन्तानुबन्धी दर्शनमोहनीयका भेद न होकर चारित्रका  
आवरण करनेवाला होनेसे चारित्रमोहनीयका भेद है। इसलिये दूसरे गुणस्थानको मिथ्यादृष्टि  
न कहकर सासादनसम्यग्दृष्टि कहा है।

शंका—अनन्तानुबन्धी सम्यक्त्व और चारित्र इन दोनोंका प्रतिबन्धक होनेसे उसे  
उभयरूप ( सम्यक्त्वचारित्रमोहनीय ) संज्ञा देना न्यायसंगत है ?

समाधान—यह आरोप ठीक नहीं, क्योंकि, यह तो हमें इष्ट ही है, अर्थात् अनन्तानु-  
बन्धीको सम्यक्त्व और चारित्र इन दोनोंका प्रतिबन्धक माना ही है। फिर भी परमागममें मुख्य  
नयकी अपेक्षा इसतरहका उपदेश नहीं दिया है।

सासादन गुणस्थान विवक्षित कर्मके अर्थात् दर्शनमोहनीयके उदय, उपशम, क्षय  
और क्षयोपशमके बिना उत्पन्न होता है, इसलिये वह पारिणामिक है। और सासादनासहित



सासादनश्चासौ सम्यग्दृष्टिश्च सासादनसम्यग्दृष्टिः । विपरीताभिनिवेशदूषितस्य तस्य कथं सम्यग्दृष्टित्वमिति चेन्न, भूतपूर्वगत्या तस्य तद्व्यपदेशोपपत्तेरिति । उक्तं च—

सम्मत्त-रयण-पव्वय-सिहरादो मिच्छ-भूमि-समभिमुहो ।

णासिय-सम्मत्तो सो सासण-णामो मुणेयव्वो' ॥ १०८ ॥

व्यामिश्ररुचिगुणप्रतिपादनार्थं सूत्रमाह—

**सम्मामिच्छाद्वी' ॥ ११ ॥**

दृष्टिः श्रद्धा रुचिः प्रत्यय इति यावत् । समीचीना च मिथ्या च दृष्टिर्यस्यासौ सम्यग्मिथ्यादृष्टिः । अथ स्यादेकस्मिन् जीवे नाक्रमेण समीचीनासमीचीनदृष्ट्योरस्ति संभवो विरोधात् । न क्रमेणापि सम्यग्मिथ्यादृष्टिगुणयोरेवान्तर्भावादिति । अक्रमेण

सम्यग्दृष्टि होनेके कारण उसे सासादनसम्यग्दृष्टि कहते हैं ।

शंका—सासादन गुणस्थान विपरीत अभिप्रायसे दूषित है, इसलिये उसके सम्यग्दृष्टि-पना कैसे बन सकता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, पहले वह सम्यग्दृष्टि था, इसलिये भूतपूर्व न्यायकी अपेक्षा उसके सम्यग्दृष्टि संज्ञा बन जाती है । कहा भी है—

सम्यग्दर्शनरूपी रत्तागिरिके शिखरसे गिरकर जो जीव मिथ्यात्वरूपी भूमिके अभिमुख है, अतएव जिसका सम्यग्दर्शन नष्ट हो चुका है परंतु मिथ्यादर्शनकी प्राप्ति नहीं हुई है, उसे सासन या सासादनगुणस्थानवर्ती समझना चाहिये ॥ १०८ ॥

अब सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानके प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

सामान्यसे सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव हैं ॥ ११ ॥

दृष्टि, श्रद्धा, रुचि और प्रत्यय ये पर्यायवाची नाम हैं । जिस जीवके समीचीन और मिथ्या दोनों प्रकारकी दृष्टि होती है उसको सम्यग्मिथ्यादृष्टि कहते हैं ।

शंका—एक जीवमें एकसाथ सम्यक् और मिथ्यारूपदृष्टि संभव नहीं है, क्योंकि, इन दोनों दृष्टियोंका एक जीवमें एकसाथ रहनेमें विरोध आता है । यदि कहा जावे कि ये दोनों दृष्टियां क्रमसे एक जीवमें रहती हैं तो उनका सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि नामके स्वतन्त्र

१ गो. जी. २०.

२ लब्धेनौपशमिकसम्यक्त्वेन औषधिविशेषकल्पेन भदनकोद्रवस्थानीयं मिथ्यात्वमोहनीयं कर्म शोधयित्वा त्रिधा करोति, शुद्धमर्धशुद्धमविशुद्धं चेति । तत्र त्रयाणां पुञ्जानां मध्ये यदार्थविशुद्धः पुञ्ज उदेति तदा तदुदयाज्जीव-स्यार्थविशुद्धं जिनप्रणीततत्त्वश्रद्धानं भवति, तेन तदासौ सम्यग्मिथ्यादृष्टिगुणस्थानमन्तर्गृह्यतकालं स्पृशति । अभि. रा. को. ( सम्मामिच्छादिदृष्टिगुणद्वारण )

सम्यग्मिथ्यारुच्यात्मको जीवः सम्यग्मिथ्यादृष्टिरिति प्रतिजानीमहे । न विरोधोऽप्यनेकान्ते आत्मनि भूयसां धर्माणां सहानवस्थानलक्षणविरोधासिद्धेः । नात्मनोऽनेकान्तत्वमसिद्धमनेकान्तमन्तरेण तस्यार्थक्रियाकर्तृत्वानुपपत्तेः । अस्त्वेकस्मिन्नात्मनि भूयसां सहावस्थानं प्रत्यविरुद्धानां संभवो नाशेषाणामिति चेत्क एवमाह समस्तानामप्यवस्थितिरिति चैतन्याचैतन्यभव्याभव्यादिधर्माणामप्यक्रमेणैकात्मन्यवस्थितिप्रसङ्गात् । किन्तु येषां धर्माणां नात्यन्ताभावो यस्मिन्नात्मनि तत्र कदाचित्कचिदक्रमेण तेषामस्तित्वं प्रतिजानीमहे । अस्ति चानयोः श्रद्धयोः क्रमेणैकस्मिन्नात्मनि संभवस्ततोऽक्रमेण तत्र कदाचित्तयोः संभवेन भवितव्यमिति । न चैतत्काल्पनिकं पूर्वस्वीकृतदेवतापरित्यागेनार्हन्नपि देव इत्यभिप्रायवतः पुरुषस्योपलम्भात् । पंचसु गुणेषु कोऽयं गुण इति चेत्क्षायोपशमिकः ।

गुणस्थानोंमें ही अन्तर्भाव मानना चाहिये । इसलिये सम्यग्मिथ्यादृष्टि नामका तीसरा गुणस्थान नहीं बनता है ?

समाधान—युगपत् समीचीन और असमीचीन श्रद्धावाला जीव सम्यग्मिथ्यादृष्टि है ऐसा मानते हैं । और ऐसा माननेमें विरोध भी नहीं आता है, क्योंकि, आत्मा अनेक-धर्मात्मक है, इसलिये उसमें अनेक धर्मोंका सहानवस्थानलक्षण विरोध असिद्ध है । अर्थात् एक साथ अनेक धर्मोंके रहनेमें कोई बाधा नहीं आती है । यदि कहा जाय कि आत्मा अनेक धर्मात्मक है यह बात ही असिद्ध है । सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि, अनेकान्तके विना उसके अर्थक्रियाकारीपना नहीं बन सकता है ।

शंका—जिन धर्मोंका एक आत्मामें एकसाथ रहनेमें विरोध नहीं है, वे रहें, परंतु संपूर्ण धर्म तो एकसाथ एक आत्मामें रह नहीं सकते हैं ?

समाधान—कौन ऐसा कहता है कि परस्पर विरोधी और अविरोधी समस्त धर्मोंका एकसाथ एक आत्मामें रहना संभव है ? यदि संपूर्ण धर्मोंका एकसाथ रहना मान लिया जावे तो परस्पर विरुद्ध चैतन्य-अचैतन्य, भव्यत्व-अभव्यत्व आदि धर्मोंका एकसाथ एक आत्मामें रहनेका प्रसंग आ जायगा । इसलिये संपूर्ण परस्पर विरोधी धर्म एक आत्मामें रहते हैं, अनेकान्तका यह अर्थ नहीं समझना चाहिये । किंतु अनेकान्तका यह अर्थ समझना चाहिये कि जिन धर्मोंका जिस आत्मामें अत्यन्त अभाव नहीं है वे धर्म उस आत्मामें किसी काल और किसी क्षेत्रकी अपेक्षा युगपत् भी पाये जा सकते हैं, ऐसा हम मानते हैं । इसप्रकार जब कि समीचीन और असमीचीनरूप इन दोनों श्रद्धाओंका क्रमसे एक आत्मामें रहना संभव है, तो कदाचित् किसी आत्मामें एकसाथ भी उन दोनोंका रहना बन सकता है । यह सब कथन काल्पनिक नहीं है, क्योंकि, पूर्व स्वीकृत अन्य देवताके अपरित्यागके साथ साथ अरिहंत भी देव है ऐसी सम्यग्मिथ्यारूप श्रद्धावाला पुरुष पाया जाता है ।

शंका—पांच प्रकारके भावोंमेंसे तीसरे गुणस्थानमें कौनसा भाव है ?

१ यथा कस्यचित् मित्रं प्रति मित्रत्वं, चैत्रं प्रथमित्रत्वमित्युभयात्मकत्वमविरुद्धं लोके दृश्यते तथा कस्य-

कथं मिथ्यादृष्टेः सम्यग्मिथ्यात्वगुणं प्रतिपद्यमानस्य तावदुच्यते । तद्यथा, मिथ्यात्व-  
कर्मणः सर्वघातिस्पर्द्धकानामुदयक्षयात्तस्यैव सत उदयाभावलक्षणोपशमात्सम्यग्मिथ्यात्व-  
कर्मणः सर्वघातिस्पर्द्धकोदयाच्चोत्पद्यत इति सम्यग्मिथ्यात्वगुणः क्षायोपशमिकः । सतापि  
सम्यग्मिथ्यात्वोदयेन औदयिक इति किमिति न व्यपदिश्यत इति चेन्न, मिथ्या-  
त्वोदयादिवातःसम्यक्त्वस्य निरन्वयविनाशानुपलम्भात् । सम्यग्दृष्टेर्निरन्वयविनाशाकारिणः  
सम्यग्मिथ्यात्वस्य कथं सर्वघातित्वमिति चेन्न, सम्यग्दृष्टेः साकल्यप्रतिबन्धितामपेक्ष्य  
तस्य तथोपदेशात् । मिथ्यात्वक्षयोपशमादिवानन्तानुबन्धिनामपि सर्वघातिस्पर्द्धकक्षयो-  
पशमाज्ञातमिति सम्यग्मिथ्यात्वं किमिति नोच्यत इति चेन्न, तस्य चारित्रप्रतिबन्धक-

समाधान—तीसरे गुणस्थानमें क्षायोपशमिक भाव है ।

शंका—मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानको प्राप्त होनेवाले जीवके  
क्षायोपशमिक भाव कैसे संभव है ?

समाधान—वह इसप्रकार है, कि वर्तमान समयमें मिथ्यात्वकर्मके सर्वघाती स्पर्द्धकों-  
का उदयाभावी क्षय होनेसे, सत्तामें रहनेवाले उसी मिथ्यात्व कर्मके सर्वघाती स्पर्द्धकोंका  
उदयाभावलक्षण उपशम होनेसे और सम्यग्मिथ्यात्वकर्मके सर्वघाती स्पर्द्धकोंके उदय होनेसे  
सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थान पैदा होता है, इसलिये वह क्षायोपशमिक है ।

शंका—तीसरे गुणस्थानमें सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतिके उदय होनेसे वहां औदयिक भाव  
क्यों नहीं कहा है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, मिथ्यात्वप्रकृतिके उदयसे जिसप्रकारं सम्यक्त्वका निरन्वय  
नाश होता है, उसप्रकार सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिके उदयसे सम्यक्त्वका निरन्वय नाश नहीं  
पाया जाता है, इसलिये तीसरे गुणस्थानमें औदयिक भाव न कहकर क्षायोपशमिकभाव  
कहा है ।

शंका—सम्यग्मिथ्यात्वका उदय सम्यग्दर्शनका निरन्वय विनाश तो करता नहीं है,  
फिर उसे सर्वघाती क्यों कहा ?

समाधान—ऐसी शंका ठीक नहीं, क्योंकि, वह सम्यग्दर्शनकी पूर्णताका प्रतिबन्ध  
करता है, इस अपेक्षासे सम्यग्मिथ्यात्वको सर्वघाती कहा है ।

शंका—जिसतरह मिथ्यात्वके क्षयोपशमसे सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानकी उत्पत्ति  
वतलाई है उसीप्रकार वह अनन्तानुबन्धी कर्मके सर्वघाती स्पर्द्धकोंके क्षयोपशमसे होता है,  
ऐसा क्यों नहीं कहा ?

चित्पुरुषस्य अर्हदादिश्रद्धानापेक्षया सम्यक्त्वं, अनाप्तादिश्रद्धानापेक्षया मिथ्यात्वं च युगपदेव विषयभेदेन संभवतीति  
सम्यग्मिथ्यादृष्टित्वमविरुद्धमेव दृश्यते । गो. जी. सं. प्र., टी. २२.

१ प्रतिष्ठा 'दिवत' इति पाठः ।

त्वात् । ये त्वनन्तानुबन्धि क्षयोपशमादुत्पत्तिं प्रतिजानते तेषां सासादनगुण औदयिकः स्यात्, न चैवमनभ्युपगमात् । अथवा, सम्यक्त्वकर्मणो देशघातिस्पर्धकानामुदयक्षयेण तेषामेव सतामुदयाभावलक्षणोपशमेन च सम्यग्मिथ्यात्वकर्मण सर्वघातिस्पर्धकोदयेन च सम्यग्मिथ्यात्वगुण उत्पद्यत इति क्षायोपशमिकः । सम्यग्मिथ्यात्वस्य क्षायोपशमिकत्वमेवमुच्यते बालजनव्युत्पादनार्थम् । वस्तुतस्तु सम्यग्मिथ्यात्वकर्मणो निरन्वयेनाप्तागमपदार्थविषयरुचिहननं प्रत्यसमर्थस्योदयात्सदसद्विषयश्रद्धोत्पद्यत इति क्षायोपशमिकः सम्यग्मिथ्यात्वगुणः । अन्यथोपशमसम्यग्दृष्टौ सम्यग्मिथ्यात्वगुणं प्रतिपन्ने सति सम्यग्मिथ्यात्वस्य क्षायोपशमिकत्वमनुपपन्नं तत्र सम्यक्त्वमिथ्यात्वानन्तानुबन्धिनामुदयक्षयाभावात् । तत्रोदयाभावलक्षण उपशमोऽस्तीति चेन्न, तस्योपशमिकत्वप्रसङ्गात् ।

समाधान—नहीं, क्योंकि, अनन्तानुबन्धी कपाय चारित्रिका प्रतिबन्ध करती है, इसलिये यहां उसके क्षयोपशमसे तृतीय गुणस्थान नहीं कहा गया है ।

जो आचार्य अनन्तानुबन्धी कर्मके क्षयोपशमसे तीसरे गुणस्थानकी उत्पत्ति मानते हैं, उनके मतसे सासादन गुणस्थानको औदयिक मानना पड़ेगा । पर ऐसा नहीं है, क्योंकि, दूसरे गुणस्थानको औदयिक नहीं माना गया है ।

अथवा, सम्यक्प्रकृतिकर्मके देशघाती स्पर्धकोंका उदयक्षय होनेसे, सत्तामें स्थित उन्हीं देशघाती स्पर्धकोंका उदयाभावलक्षण उपशम होनेसे और सम्यग्मिथ्यात्व कर्मके सर्वघाती स्पर्धकोंके उदय होनेसे सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थान उत्पन्न होता है, इसलिये वह क्षायोपशमिक है । यहां इसतरह जो सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानको क्षायोपशमिक कहा है वह केवल सिद्धान्त के पाठका प्रारम्भ करनेवालोंके परिज्ञान करानेके लिये ही कहा है । वास्तवमें तो सम्यग्मिथ्यात्व कर्म निरन्वयरूपसे आप्त, आगम और पदार्थ-विषयक श्रद्धाके नाश करनेके प्रति असमर्थ है, किंतु उसके उदयसे सत्-समीचीन और असत्-असमीचीन पदार्थको युगपत् विषय करनेवाली श्रद्धा उत्पन्न होती है, इसलिये सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थान क्षायोपशमिक कहा जाता है । यदि इस गुणस्थानमें सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतिके उदयसे सत् और असत् पदार्थको विषय करनेवाली मिश्र रुचिरूप क्षयोपशमता न मानी जावे तो उपशमसम्यग्दृष्टिके सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानको प्राप्त होने पर उस सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानमें क्षयोपशमपना नहीं बन सकता है, क्योंकि, उपशम सम्यक्त्वसे तृतीय गुणस्थानमें आये हुए जीवके ऐसी अवस्थामें सम्यक्प्रकृति, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी इन तीनोंका उदयाभावी क्षय नहीं पाया जाता है ।

शंका—उपशम सम्यक्त्वसे आये हुए जीवके तृतीय गुणस्थानमें सम्यक्प्रकृति, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी इन तीनोंका उदयाभावरूप उपशम तो पाया जाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, इसतरह तो तीसरे गुणस्थानमें औपशमिक भाव मानना पड़ेगा ।

अस्तु चेन्न, तथाप्रतिपादंकस्यार्पस्याभावात् । अपि च यद्येवं क्षयोपशम इष्येत, मिथ्यात्वमपि क्षायोपशमिकं सम्यक्त्वसम्यग्मिथ्यात्वयोरुदयप्राप्तस्पर्धकानां क्षयात्सता-  
मुदयाभावलक्षणोपशमान्मिथ्यात्वकर्मणः सर्वघातिस्पर्धकोदयाच्च मिथ्यात्वगुणस्य प्रादु-  
र्भावोपलम्भादिति । उक्तं च—

दहि-गुडमिव वामिस्सं पुहभावं णेव कारिटुं सक्कं ।

एवं मिस्सयभावो सम्मामिच्छे त्ति णायव्वो' ॥ १०९ ॥

सम्यग्दृष्टिगुणनिरूपणार्थमुत्तरसूत्रमाह—

असंजदसम्माइट्ठी' ॥ १२ ॥

शंका—तो तीसरे गुणस्थानमें औपशमिक भाव भी मान लिया जावे ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, तीसरे गुणस्थानमें औपशमिक भावका प्रतिपादन करने-  
वाला कोई आर्पवाक्य नहीं है । अर्थात् आगममें तीसरे गुणस्थानमें औपशमिक भाव नहीं  
बताया है ।

दूसरे, यदि तीसरे गुणस्थानमें मिथ्यात्व आदि कर्मोंके क्षयोपशमसे क्षयोपशम  
भाव की उत्पत्ति मान ली जावे तो मिथ्यात्व गुणस्थानको भी क्षायोपशमिक मानना पड़ेगा,  
क्योंकि, सादि मिथ्यादृष्टिकी अपेक्षा मिथ्यात्व गुणस्थानमें भी सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मि-  
थ्यात्व कर्मके उदय अवस्थाको प्राप्त हुए स्पर्धकोंका क्षय होनेसे, सत्तामें स्थित उन्हींका  
उदयाभाव लक्षण उपशम होनेसे तथा मिथ्यात्व कर्मके सर्वघाती स्पर्धकोंके उदय होनेसे  
मिथ्यात्व गुणस्थानकी उत्पत्ति पाई जाती है । इतने कथनसे यह तात्पर्य समझना चाहिये  
कि तीसरे गुणस्थानमें मिथ्यात्व सम्यक्प्रकृति और अनन्तानुबन्धीके क्षयोपशमसे क्षायो-  
पशमिक भाव न होकर केवल मिश्र प्रकृतिके उदयसे मिश्रभाव होता है । कहा भी है—

जिसप्रकार दही और गुड़को मिला देने पर उनको अलग अलग नहीं किया जा  
सकता है, किंतु मिले हुए उन दोनोंका रस मिश्रभावको प्राप्त हो जाता है, उसीप्रकार एक  
ही कालमें सम्यक्त्व और मिथ्यात्वरूप मिले हुए परिणामोंको मिश्र गुणस्थान कहते हैं, ऐसा  
समझना चाहिये ॥ १०९ ॥

अब सम्यग्दृष्टि गुणस्थानके निरूपण करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

सामान्यसे असंयतसम्यग्दृष्टि जीव होते हैं ॥ १२ ॥

१ गो. जी. २२. यथा नालिकेरद्वीपवासिनः क्षुधादितस्यापीहागतस्यौदनादिकेऽनेकविधे दौकिते तस्योपरि  
न रुचिः नापि निन्दा, यतस्तेन स ओदनादिक आहारो न कदाचित् दृष्टो नापि श्रुतः, एवं सम्यग्मिथ्यादृष्टेरपि  
जीवादिपदार्थानामपरि न च रुचिर्नापि निन्देति । नं. सू. पृ. १०६.

२ वंशं अविरहं जाणंतो रागदोसदुक्खं च । विरहसुहं इच्छंतो विरहं काउं च असमत्थो ॥ एस असंजय-

समीची दृष्टिः श्रद्धा यस्यासौ सम्यग्दृष्टिः, असंयतश्चासौ सम्यग्दृष्टिश्च, असंयत-सम्यग्दृष्टिः । सो वि सम्माइट्ठी तिविहो, खइयसम्माइट्ठी वेदयसम्माइट्ठी उवसम-सम्माइट्ठी चेदि । दंसण-चरण-गुण-घाइ चत्तारि अणंताणुवंधि-पयडीओ, मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तमिदि तिण्णि दंसणमोह-पयडीओ च एदासिं सत्तण्हं णिरवसेस-क्खएण खइयसम्माइट्ठी उच्चइ । एदासिं सत्तण्हं पयडीणमुवसमेण उवसमसम्माइट्ठी होइ । सम्मत्त-सण्णिद-दंसणमोहणीय-भेय-कम्मस्स उदएण वेदयसम्माइट्ठी णाम । तत्थ खइय-सम्माइट्ठी ण कयाइ वि मिच्छत्तं गच्छइ, ण कुणइ संदेहं पि, मिच्छत्तुवभवं दट्ठूण णो विम्हयं जायदि' । एरिसो चेय उवसमसम्माइट्ठी, किंतु परिणाम-पच्चएण मिच्छत्तं गच्छइ, सासणगुणं पि पडिवज्जइ, सम्मामिच्छत्तगुणं पि डुकइ, वेदगसम्मत्तं पि सामिल्लियइ । जो पुण वेदयसम्माइट्ठी सो सिथिल-सद्धणो थेरस्स लद्धि-ग्गहणं व सिथिलग्गाहो

जिसकी दृष्टि अर्थात् श्रद्धा समीचीन होती है उसे सम्यग्दृष्टि कहते हैं, और संयमरहित सम्यग्दृष्टिको असंयतसम्यग्दृष्टि कहते हैं । वे सम्यग्दृष्टि जीव तीन प्रकारके हैं, क्षायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि और औपशमिकसम्यग्दृष्टि । सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र गुणका घात करनेवालीं चार अनन्तानुबन्धी प्रकृतियां, और मिथ्यात्व, सम्प्रगिमिथ्यात्व तथा सम्यक्प्रकृतिमिथ्यात्व ये तीन दर्शनमोहनीयकी प्रकृतियां, इसप्रकार इन सात प्रकृतियोंके सर्वथा विनाशसे जीव क्षायिकसम्यग्दृष्टि कहा जाता है । तथा पूर्वोक्त सात प्रकृतियोंके उपशमसे जीव उपशमसम्यग्दृष्टि होता है । तथा जिसकी सम्प्रकृत्व संज्ञा है ऐसी दर्शनमोहनीय कर्मकी भेदरूप प्रकृतिके उदयसे यह जीव वेदकसम्यग्दृष्टि कहलाता है । उनमें क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव कभी भी मिथ्यात्वको प्राप्त नहीं होता है, किसी प्रकारके संदेहको भी नहीं करता है और मिथ्यात्वजन्य अतिशयोंको देखकर विस्मयको भी प्राप्त नहीं होता है । उपशम सम्यग्दृष्टि जीव भी इसीप्रकारका होता है, किंतु परिणामोंके निमित्तसे उपशम सम्यक्त्वको छोड़कर मिथ्यात्वको जाता है, कभी सासादन गुणस्थानको भी प्राप्त करता है, कभी सम्प्रगिमिथ्यात्व गुणस्थानको भी पहुंच जाता है और कभी वेदकसम्यक्त्वसे मेल कर लेता है । तथा जो वेदकसम्यग्दृष्टि जीव है वह शिथिलश्रद्धानी होता है, इसलिये वृद्ध पुरुष जिसप्रकार अपने हाथमें लकड़ीको शिथिलतापूर्वक पकड़ता है, उसीप्रकार वह भी तत्त्वार्थके विषयमें शिथिलग्राही होता है,

सम्मो निंदतो पावकम्मकरणं च । अहिगयजीवाजीवो अवलियदिट्ठी वलियमोहो । अमि. रा. को. (अविरयसम्मादिट्ठि)

१ वयणेहिं वि हेदुहिं वि इंदियमयआणएहिं रुवेहिं । वीमच्छुग्गुच्छाहिं य तेलोकेण विं ण चालेज्जो ॥ गो. जी. ६४७.

२ दंसणमोहवसमदो उप्पज्जइ जं पयत्थसद्धरणं । उवसमसम्मत्तणिणं पसण्णमलपंकतीयसमं । गो. जी. ६५०.

कुहेउ-कुदिद्वंतेहि झडिदि विराहओ' । पंचसु गुणेषु के गुणे अस्सिउण असंजदसम्माइदि-  
गुणस्सुप्पत्ती जादेत्ति पुच्छिदे उच्चदे, सत्त-पयडि-क्खएणुप्पण-सम्मत्तं खइयं । तेसिं  
चेव सत्तहं पयडीणुवसमेणुप्पण-सम्मत्तमुवसमियं । सम्मत्त-देसवाइ-वेदयसम्मत्तुदएणु-  
प्पण-वेदयसम्मत्तं खओवसमियं । मिच्छत्ताणंताणुबंधीणं सव्ववाइ-फहयाणं उदय-क्खएण  
तेसिं चेव संतोवसमेण अहवा सम्मामिच्छत्त-सव्ववाइ-फहयाणं उदय-क्खएण तेसिं चेव  
संतोवसमेण उहयत्थ सम्मत्त-देसवाइ-फहयाणमुदएणुप्पज्जइ जदो तदो वेदयसम्मत्तं  
खओवसमियमिदि केसिंचि आइरियाणं वक्खणं तं किमिदि णोच्छिज्जदि, इदि चेत्तण,  
पुव्वं उत्तुत्तरादो । ' असंजद ' इदि जं सम्मादिद्विस्स विसेसण-वयणं तमंतदीवयत्तादो

अतः कुहेतु और कुदृष्टान्तसे उसे सम्यक्त्वकी विराधना करनेमें देर नहीं लगती है ।

पांच प्रकारके भावोंमेंसे किन किन भावोंके आश्रयसे असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानकी  
उत्पत्ति होती है । इसप्रकार पूछने पर आचार्य उत्तर देते हैं, कि सात प्रकृतियोंके क्षयसे  
जो सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है वह क्षायिक है, उन्हीं सात प्रकृतियोंके उपशमसे उत्पन्न  
हुआ सम्यक्त्व उपशमसम्यग्दर्शन होता है और सम्यक्त्वका एकदेश घातरूपसे वेदन कराने-  
वाली सम्यक्प्रकृतिके उदयसे उत्पन्न होनेवाला वेदकसम्यक्त्व क्षायोपशमिक है ।

शंका—मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीके उदयमें आनेवाले सर्वघाती स्पर्द्धकोंके  
उदयाभावी क्षयसे तथा आगामी कालमें उदयमें आनेवाले उन्हींके सर्वघाती स्पर्द्धकोंके  
सद्वस्थारूप उपशमसे अथवा सम्यग्मिथ्यात्वके उदयमें आनेवाले सर्वघाती स्पर्द्धकोंके उदया-  
भावी क्षयसे, आगामी कालमें उदयमें आनेवाले उन्हींके सद्वस्थारूप उपशमसे तथा इन  
दोनों ही अवस्थाओंमें सम्यक्प्रकृतिमिथ्यात्वके देश घाती स्पर्द्धकोंके उदयसे जब क्षयोपशमरूप  
सम्यक्त्व उत्पन्न होता है तब उसे वेदक सम्यग्दर्शन कहते हैं । ऐसा कितने ही आचार्योंका  
मत है उसे यहां पर क्यों नहीं स्वीकार किया है ?

समाधान—यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि, इसका उत्तर पहले दे चुके हैं ।

विशेषार्थ—जिसप्रकार मिश्र गुणस्थान की उत्पत्ति सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतिके उदयकी  
मुख्यतासे बतला आये हैं, उसीप्रकार यहां पर भी सम्यक्प्रकृतिके उदयकी मुख्यता समझना  
चाहिये । यदि इस सम्यक्त्वमें सम्यक्प्रकृतिके उदयकी मुख्यता न मान कर केवल मिथ्या-  
त्वादिके क्षयोपशमसे ही इसकी उत्पत्ति मानी जावे तो सादि मिथ्यादृष्टिकी अपेक्षा सम्यक्-  
प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिके उदयाभाव क्षय और सद्वस्थारूप उपशमसे तथा  
मिथ्यात्वप्रकृतिके उदयसे मिथ्यात्व गुणस्थानको भी क्षायोपशमिक मानना पड़ेगा । क्योंकि,  
वहां पर भी क्षयोपशमका लक्षण घटित होता है । इसलिये इस सम्यक्त्वकी उत्पत्ति क्षयोप-  
शमकी प्रधानतासे न मानकर सम्यक्प्रकृतिके उदयकी प्रधानतासे समझना चाहिये ।

सूत्रमें सम्यग्दृष्टिके लिये जो असंयत विशेषण दिया गया है, वह अन्तर्दीपक है, इस-

हेट्टिल्लाणं सयल-गुणद्वानाणमसंजदत्तं परुवेदि । उवरि असंजमभावं किण्ण परुवेदि त्ति ।  
उत्ते ण परुवेदि, उवरि सव्वत्थ संजमासंजम-संजम-विसेसणोवलंभादो त्ति । उत्तं च—

सम्माइही जीवो उवइहं पवयणं तु सदहदि ।

सदहदि असव्वभावं अजाणमाणो गुरु-णियोगा' ॥ ११० ॥

णो इंदिएसु विरदो णो जीये थावरे तसे चावि ।

जो सदहदि जिणुत्तं सम्माइही अविरदो सो' ॥ १११ ॥

एदं सम्माइहे-वयणं उवरिम-सव्व-गुणद्वानेसु अणुवइइ गंगा-णई-पवाहो व्व ।  
देसविरइ-गुणद्वान-परुवणइमुत्तर-सुत्तमाह—

**संजदासंजदा ॥ १३ ॥**

संयताश्च ते असंयताश्च संयतासंयताः । यदि संयतः, नासावसंयतः । अथासंयतः,

लिये वह अपनेसे नीचेके भी समस्त गुणस्थानोंके असंयतपनेका निरूपण करता है ।

वह असंयत पद ऊपर अर्थात् पांचवें आदि गुणस्थानोंमें असंयमभावका प्ररूपण क्यों नहीं करता है इसप्रकारकी शंकाके होने पर आचार्य उत्तर देते हैं कि पांचवें आदि गुणस्थानोंमें वह असंयत पद असंयमभावका प्ररूपण नहीं करता है, क्योंकि, ऊपर सब जगह संयमासंयम और संयम विशेषण ही पाया जाता है । कहा भी है—

सम्यग्दृष्टि जीव जिनेन्द्र भगवान्के द्वारा उपदिष्ट प्रवचनका तो श्रद्धान करता ही है, किंतु किसी तत्वको नहीं जानता हुआ गुरुके उपदेशसे विपरीत अर्थका भी श्रद्धान कर लेता है ॥ ११० ॥

जो इन्द्रियोंके विषयोंसे तथा त्रस और स्थावर जीवोंकी हिंसासे विरक्त नहीं है, किंतु जिनेन्द्रदेवद्वारा कथित प्रवचनका श्रद्धान करता है वह अविरतसम्यग्दृष्टि है ॥ १११ ॥

इस सूत्रमें जो सम्यग्दृष्टि पद है, वह गंगा नदीके प्रवाहके समान ऊपरके समस्त गुणस्थानोंमें अनुवृत्तिको प्राप्त होता है । अर्थात् पांचवें आदि समस्त गुणस्थानोंमें सम्यग्दर्शन पाया जाता है ।

अत्र देशविरति गुणस्थानके प्ररूपण करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

सामान्यसे संयतासंयत जीव होते हैं ॥ १३ ॥

जो संयत होते हुए भी असंयत होते हैं उन्हें संयतासंयत कहते हैं ।

शंका—जो संयत होता है वह असंयत नहीं हो सकता है, और जो असंयत

१ गो. जी. २७.

२ गो. जी. २९. 'अपिशब्देनानुकापादिशुणसद्धानाधिरपराधहिंसा न करीतीति सूच्यते । सं. ग. टी.



नासौ संयत इति विरोधान्नायं गुणो घटत इति चेदस्तु गुणानां परस्परपरिहारलक्षणो विरोधः इष्टत्वात्, अन्यथा तेषां स्वरूपहानिप्रसङ्गात् । न गुणानां सहानवस्थानलक्षणो विरोधः सम्भवति, सम्भवेद्वा न वस्तुवस्ति तस्यानेकान्तनिवन्धनत्वात् । यदर्थक्रियाकारि तद्वस्तु । सा च नैकान्ते एकानेकाभ्यां प्राप्तनिरूपितानवस्थाभ्यामर्थक्रियाविरोधात् । न चैतन्या-चैतन्याभ्यामनेकान्तस्तयोर्गुणत्वाभावात् । सहभुवो हि गुणाः, न चानयोः सहभूतिरस्ति असति विवन्धर्यनुपलम्भात् । भवति च विरोधः समाननिवन्धनत्वे सति । न चात्र विरोधः संयमासंयमयोरेकद्रव्यवर्तिनोस्त्रसस्थावरनिवन्धनत्वात् । औदयिकादिषु पंचसु गुणेषु कं गुणमाश्रित्य संयमासंयमगुणः समुत्पन्न इति चेत्क्षायोपशमिकोऽयं गुणः अप्रत्याख्याना-

होता है वह संयत नहीं हो सकता है, क्योंकि, संयमभाव और असंयमभावका परस्पर विरोध है । इसलिये यह गुणस्थान नहीं बनता है ।

समाधान—विरोध दो प्रकारका है, परस्परपरिहारलक्षण विरोध और सहानवस्था-लक्षण विरोध । इनमेंसे एक द्रव्यके अनन्त गुणोंमें परस्परपरिहारलक्षण विरोध इष्ट ही है, क्योंकि, यदि गुणोंका एक दूसरेका परिहार करके अस्तित्व नहीं माना जावे तो उनके स्वरूपकी हानिका प्रसंग आता है । परंतु इतने मात्रसे गुणोंमें सहानवस्थालक्षण विरोध संभव नहीं है । यदि नाना गुणोंका एकसाथ रहना ही विरोधस्वरूप मान लिया जावे तो वस्तुका अस्तित्व ही नहीं बन सकता है, क्योंकि, वस्तुका सद्भाव अनेकान्त-निमित्तक ही होता है । जो अर्थक्रिया करनेमें समर्थ है वह वस्तु है । परंतु वह अर्थक्रिया एकान्तपक्षमें नहीं बन सकती है, क्योंकि, अर्थक्रियाको यदि एकरूप माना जावे तो पुनः पुनः उसी अर्थक्रियाकी प्राप्ति होनेसे, और यदि अनेकरूप माना जावे तो अनवस्था दोष आनेसे एकान्तपक्षमें अर्थक्रियाके होनेमें विरोध आता है ।

ऊपरके कथनसे चैतन्य और अचैतन्यके साथ भी अनेकान्त दोष नहीं आता है, क्योंकि, चैतन्य और अचैतन्य ये दोनों गुण नहीं हैं । जो सहभावी होते हैं उन्हें गुण कहते हैं । परंतु ये दोनों सहभावी नहीं हैं, क्योंकि बंधरूप अवस्थाके नहीं रहने पर चैतन्य और अचैतन्य ये दोनों एकसाथ नहीं पाये जाते हैं । दूसरे विरुद्ध दो धर्मोंकी उत्पत्तिका कारण यदि समान अर्थात् एक मान लिया जावे तो विरोध आता है, परंतु संयमभाव और असंयमभाव इन दोनोंको एक आत्मामें स्वीकार कर लेने पर भी कोई विरोध नहीं आता है, क्योंकि, उन दोनोंकी उत्पत्तिके कारण भिन्न भिन्न हैं । संयमभावकी उत्पत्तिका कारण त्रस-हिंसासे विरतिभाव है और असंयमभावकी उत्पत्तिका कारण स्थावरहिंसासे अविरतिभाव है । इसलिये संयतासंयत नामका पांचवां गुणस्थान बन जाता है ।

शंका—औदयिक आदि पांच भावोंमेंसे किस भावके आश्रयसे संयमासंयम भाव पैदा होता है ?

समाधान—संयमासंयम भाव क्षायोपशमिक है, क्योंकि, अप्रत्याख्यानावरणीय

वरणीयस्य सर्वघातिस्पर्द्धकानामुदयक्षयात् सतां चोपशमात् प्रत्याख्यानावरणीयोदया-  
दप्रत्याख्यानोत्पत्तेः । संयमासंयमधाराधिकृतसम्यक्त्वानि कियन्तीति चेत्क्षायिकक्षायोप-  
शमिकौपशमिकानि त्रीण्यपि भवन्ति पर्यायेण नान्यन्तरेणाप्रत्याख्यानस्योत्पत्तिविरोधात् ।  
सम्यक्त्वमन्तरेणापि देशयतयो दृश्यन्त इति चेन्न, निर्गतमुक्तिकाङ्क्षानिवृत्तविषयपिपा-  
सस्याप्रत्याख्यानानुपपत्तेः । उक्तं च—

जो तस-वहाउ विरओ अविरओ तह य थावर-वहाओ ।

एक-समयंभि जीवो विरयाविरओ जिणेकर्मई ॥ ११२ ॥

संयतानामादिगुणस्थाननिरूपणार्थमुत्तरसूत्रमाह—

प्रमत्तसंजदा ॥ १४ ॥

प्रकर्षेण मत्ताः प्रमताः, सं सम्यग् यताः विरताः संयताः । प्रमत्ताश्च ते संयताश्च

कषायके वर्तमान कालिक सर्वघाती स्पर्द्धकोंके उदयाभावी क्षय होनेसे, और आगामी कालमें उदयमें आने योग्य उन्हींके सद्वस्थारूप उपशम होनेसे तथा प्रत्याख्यानावरणीय कषायके उदयसे संयमासंयमरूप अप्रत्याख्यान-चारित्र उत्पन्न होता है ।

शंका—संयमासंयमरूप देशचारित्रकी धारासे संबन्ध रखनेवाले कितने सम्यग्-दर्शन होते हैं ?

समाधान—क्षायिक, क्षायोपशमिक और औपशमिक ये तीनोंमेंसे कोई एक सम्यग्दर्शन विकल्पसे होता है, क्योंकि, उनमेंसे किसी एकके विना अप्रत्याख्यान चारित्रका प्रादुर्भाव ही नहीं हो सकता है ।

शंका—सम्यग्दर्शनके विना भी देशसंयमी देखनेमें आते हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, जो जीव मोक्षकी आकांक्षासे रहित हैं और जिनकी विषय-पिपासा दूर नहीं हुई है, उनके अप्रत्याख्यानसंयमकी उत्पात्ति नहीं हो सकती है । कहा भी है—

जो जीव जिनेन्द्रदेवमें अद्वितीय श्रद्धाको रखता हुआ एक ही समयमें ब्रसजीवोंकी हिंसासे विरत और स्थावर जीवोंकी हिंसासे अविरत होता है, उसको विरताविरत कहते हैं ॥ ११२ ॥

अब संयतोंके प्रथम गुणस्थानके निरूपण करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

सामान्यसे प्रमत्तसंयत जीव होते हैं ॥ १४ ॥

प्रकर्षसे मत्त जीवोंको प्रमत्त कहते हैं, और अच्छी तरहसे विरत या संयमको प्राप्त जीवोंको संयत कहते हैं । जो प्रमत्त होते हुए भी संयत होते हैं उन्हें प्रमत्तसंयत कहते हैं ।

१ गो. जी. ३१. 'च' शब्देन प्रयोजनं विना स्थावरवधमपि न करोतीति व्याख्येयो भवति ।  
जी. प्र. टी.

प्रमत्तसंयताः । यदि प्रमत्ताः न संयताः स्वरूपासंवेदनात् । अथ संयताः न प्रमत्ताः संयमस्य प्रमादपरिहाररूपत्वादिति नैप दोषः, संयमो नाम हिंसानृतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहेभ्यो विरतिः गुप्तिसमित्यनुरक्षितः, नासौ प्रमादेन विनाश्यते तत्र तस्मान्मलोत्पत्तेः । संयमस्य मलोत्पादक एवात्र प्रमादो विवक्षितो न तद्विनाशक इति कुतोऽवसीयत इति चेत् संयमाविनाशान्यथानुपपत्तेः । न हि मन्दतमः प्रमादः क्षणक्षयी संयमविनाशकोऽसति विबन्धर्यनुपलब्धेः । प्रमत्तवचनमन्तदीपकत्वाच्छेपातीतसर्वगुणेषु प्रमादास्तित्वं सूचयति । पञ्चसु गुणेषु कं गुणमाश्रित्यायं प्रमत्तसंयत गुण उत्पन्नश्चेत्संयमापेक्षया क्षायोपशमिकः । कथम् ? प्रत्याख्यानावरणसर्वघातिस्पर्धकोदयक्षयात्तेषामेव सतामुद्रयाभावलक्षणोपशमात्

शंका— यदि छटवें गुणस्थानवर्ती जीव प्रमत्त हैं तो संयत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि, प्रमत्त जीवोंको अपने स्वरूपका संवेदन नहीं हो सकता है । यदि वे संयत हैं तो प्रमत्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि, संयमभाव प्रमादके परिहारस्वरूप होता है ।

समाधान— यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, हिंसा, असत्य, स्तेय, अब्रह्म और परिग्रह इन पांच पापोंसे विरतिभावको संयम कहते हैं जो कि तीन गुप्ति और पांच सामितियोंसे अनुरक्षित है । वह संयम वास्तवमें प्रमादसे नष्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि, संयममें प्रमादसे केवल मलकी ही उत्पत्ति होती है ।

शंका— छटवें गुणस्थानमें संयममें मल उत्पन्न करनेवाला ही प्रमाद विवक्षित है, संयमका नाश करनेवाला प्रमाद विवक्षित नहीं है, यह बात कैसे निश्चय की जाय ?

समाधान— छटवें गुणस्थानमें प्रमादके रहते हुए संयमका सद्भाव अन्यथा बन नहीं सकता है, इसलिये निश्चय होता है कि यहाँ पर मलको उत्पन्न करनेवाला प्रमाद ही अभीष्ट है । दूसरे छटवें गुणस्थानमें होनेवाला स्वरूपकालवर्ती मन्दतम प्रमाद संयमका नाश भी नहीं कर सकता है, क्योंकि, सकलसंयमका उत्कटरूपसे प्रतिबन्ध करनेवाले प्रत्याख्यानावरणके अभावमें संयमका नाश नहीं पाया जाता ।

यहाँ पर प्रमत्त शब्द अन्तदीपक है, इसलिये वह छटवें गुणस्थानसे पहलेके संपूर्ण गुणस्थानोंमें प्रमादके अस्तित्वको सूचित करता है ।

शंका— पांच भावोंमेंसे किस भावका आश्रय लेकर यह प्रयत्तसंयत गुणस्थान उत्पन्न होता है ?

समाधान— संयमकी अपेक्षा यह गुणस्थान क्षायोपशमिक है ।

शंका— प्रमत्तसंयत गुणस्थान क्षायोपशमिक किस प्रकार है ?

समाधान— क्योंकि, वर्तमानमें प्रत्याख्यानावरणके सर्वघाती स्पर्धकोंके उदयक्षय होनेसे और आगामी कालमें उदयमें आनेवाले सत्तामें स्थित उन्हींके उदयमें न आनेरूप उपशमसे तथा संज्वलन कषायके उदयसे प्रत्याख्यान (संयम) उत्पन्न होता है, इसलिये

संज्वलनोदयाच्च प्रत्याख्यानसमुत्पत्तेः । संज्वलनोदयात्संयमो' भवतीत्यौदयिक व्यपः देशोऽस्य किं न स्यादिति चेन्न, ततः संयमस्योत्पत्तेरभावात् । क्व तद् व्याप्रियत इति चेत्प्रत्याख्यानावरणसर्वघातिस्पर्द्धकोदयक्षयसमुत्पन्नसंयममलोत्पादने तस्य व्यापारः । संयमनिवन्धनसम्यक्त्वापेक्षया क्षायिकक्षायोपशमिकौपशमिकगुणनिवन्धनः । सम्यक्त्वमन्तरेणापि संयमोपलम्भनार्थः सम्यक्त्वानुवर्तनेनेति चेन्न, आप्तागमपदार्थेष्वनुत्पन्नश्रद्धस्य त्रिमूढालीढचेतसः संयमानुपपत्तेः । द्रव्यसंयमस्य नात्रोपादानमिति कुतोऽवगम्यत इति चेत्सम्यक् ज्ञात्वा श्रद्धाय यतः संयत इति व्युत्पत्तितस्तदवगतेः । उक्तं च—

.....  
क्षायोपशमिक है ।

शंका—संज्वलन कषायके उदयसे संयम होता है, इसलिये उसे औदयिक नामसे क्यों नहीं कहा जाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, संज्वलन कषायके उदयसे संयमकी उत्पत्ति नहीं होती है ।

शंका—तो संज्वलनका व्यापार कहां पर होता है ?

समाधान—प्रत्याख्यानावरण कषायके सर्वघाती स्पर्द्धकोंके उदयाभावी क्षयसे ( और सदवस्थारूप उपशमसे ) उत्पन्न हुए संयममें मलके उत्पन्न करनेमें संज्वलनका व्यापार होता है ।

संयमके कारणभूत सम्यग्दर्शनकी अपेक्षा तो यह गुणस्थान क्षायिक, क्षायोपशमिक और औपशमिक भावनिमित्तक है ।

शंका—यहां पर सम्यग्दर्शनपद की जो अनुवृत्ति बतलाई है उससे क्या यह तात्पर्य निकलता है कि सम्यग्दर्शनके बिना भी संयमकी उपलब्धि होती है ?

समाधान—ऐसा नहीं है, क्योंकि आप्त, आगम और पदार्थोंमें जिस जीवके श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई, तथा जिसका चित्त तीन मूढताओंसे व्याप्त है, उसके संयमकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है ।

शंका—यहां पर द्रव्यसंयमका ग्रहण नहीं किया है, यह कैसे जाना जाय ?

समाधान—क्योंकि, भलेप्रकार जानकर और श्रद्धान कर जो यमसहित है उसे संयत कहते हैं । संयत शब्दकी इसप्रकार व्युत्पत्ति करनेसे यह जाना जाता है कि यहां पर द्रव्यसंयमका ग्रहण नहीं किया है । कहा भी है—

.....  
१ विवक्त्रिखदस्स संजमस्स खओवसमित्तपडुप्पायणमेत्तफलत्तादो कथं संजलणणोकसायाणं चारित्तविरोहीणं चारित्तकारयत्तं ? देसघादित्तेण सपडिवक्खणुणविणिम्मूलणसत्तिविरहियाणमुदयो विज्जमाणो वि णं स कञ्जकारओ त्ति संजमहेदुत्तेण विवक्त्रिखयत्तादो, वत्थुदो दु कञ्ज पडुप्पाएदि मलजणणपमादो वि यं । गो. जी., जी. प्र., टी. ३२.

वत्तावत्त-पमाए जो वसइ पमत्तसंजदो होइ ।

सयल-गुण-सील-कलिओ महव्वई चित्तलायरणो<sup>१</sup> ॥ ११३ ॥

त्रिकहा तथा कसाथा इंदिय-णिद्धा तहेंव पणयो य ।

चदु-चदु-पणगेगेगं होंति पमादा य पणरसा<sup>२</sup> ॥ ११४ ॥

क्षायोपशमिकसंयमेषु शुद्धसंयमोपलक्षितगुणस्थाननिरूपणार्थमुत्तरसूत्रमाह—

**अप्रमत्तसंजदा ॥ १५ ॥**

प्रमत्तसंयताः पूर्वोक्तलक्षणाः, न प्रमत्तसंयताः अप्रमत्तसंयताः पञ्चदशप्रमाद-  
रहितसंयता इति यावत् । शेषाशेषसंयतानामत्रैवान्तर्भावाच्छेषसंयतगुणस्थानानामभावः  
स्यादिति चेन्न, संयतानामुपरिष्ठात्प्रतिपद्यमानविशेषणाविशिष्टानामस्तप्रमादानामिह

जो व्यक्त अर्थात् स्वसंवेद्य और अव्यक्त अर्थात् प्रत्यक्षज्ञानियोंके ज्ञानद्वारा जानने योग्य प्रमादमें वास करता है, जो सम्यक्त्व, ज्ञानादि संपूर्ण गुणोंसे और ब्रतोंके रक्षण करनेमें समर्थ ऐसे शीलोंने युक्त है, जो (देशसंयतकी अपेक्षा) महाव्रती है और जिसका आचरण प्रमादमिश्रित है, अथवा चित्रल सारंगको कहते हैं, इसलिये जिसका आचरण सारंगके समान शबलित अर्थात् अनेक प्रकारका है, अथवा, चित्तमें प्रमादको उत्पन्न करनेवाला जिसका आचरण है उसे प्रमत्तसंयत कहते हैं ॥ ११३ ॥

स्त्रीकथा, भक्तकथा, राष्ट्रकथा और अविनिपालकथा ये चार विकथाएं; क्रोध, मान, माया और लोभ ये चार कषायें; स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र ये पांच इन्द्रियां; निद्रा और प्रणय इसप्रकार प्रमाद पन्द्रह प्रकारका होता है ॥ ११४ ॥

अब क्षायोपशमिक संयमोंमें शुद्ध संयमसे उपलक्षित गुणस्थानके निरूपण करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

सामान्यसे अप्रमत्तसंयत जीव होते हैं ॥ १५ ॥

प्रमत्तसंयतोंका स्वरूप पहले कह आये हैं, जिनका संयम प्रमाद सहित नहीं होता है उन्हें अप्रमत्तसंयत कहते हैं, अर्थात् संयत होते हुए जिन जीवोंके पन्द्रह प्रकारका प्रमाद नहीं पाया जाता है, उन्हें अप्रमत्तसंयत समझना चाहिये ।

शंका—वाकीके संपूर्ण संयतोंका इसी अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें अन्तर्भाव हो जाता है, इसलिये शेष संयतगुणस्थानोंका अभाव हो जायगा ?

समाधान—ऐसा नहीं है, क्योंकि, जो आगे चलकर प्राप्त होनेवाले अपूर्वकरणदि

१ गो. जी. ३३. चित्रं प्रमादमिश्रं लातीति चित्रलं, चित्रलं आचरणं यस्यासौ चित्रलाचरणः । अथवा चित्रलः सारंगः, तद्वत् शबलितं आचरणं यस्यासौ चित्रलाचरणः । अथवा चित्रं लातीति चित्तलं, चित्तलं आचरणं यस्यासौ चित्तलाचरणः । जी. प्र. टी.

२ गो. जी. ३४.

ग्रहणात् । तत्कथमवगम्यत इति चेन्न, उपरिष्ठात्तनसंयतगुणस्थाननिरूपणान्यथानुपपत्तितस्तदवगतेः । एषोऽपि गुणः क्षायोपशमिकः प्रत्याख्यानावरणीय-कर्मणः सर्वघातिस्पर्द्धकोदयक्षयात्तेषामेव सतां पूर्ववदुपशमात् संज्वलनोदयाच्च प्रत्याख्यानोत्पत्तेः । संयमनिबन्धनसम्यक्त्वापेक्षया सम्यक्त्वप्रतिबन्धककर्मणां क्षय-क्षयोपशमोपशमजगुणनिबन्धनः । उक्तं च—

गण्डासेस-पमाओ वय-गुण-सीलोलि-मंडिओ णाणी ।

अणुवसमओ अक्खवओ ज्ञाण-णिलीणो हु अपमत्तो' ॥ ११५ ॥

चारित्रमोहोपशमकक्षपकेषु प्रथमगुणस्थाननिरूपणार्थमुत्तरसूत्रमाह—

**अपूर्वकरण-प्रविष्ट-शुद्धि-संजदेसु अत्थि उवसमा खवा ॥ १६ ॥**

विशेषणोंसे विशेषता अर्थात् भेदको प्राप्त नहीं होते हैं और जिनका प्रमाद नष्ट हो गया है ऐसे संयतोंका ही यहां पर ग्रहण किया है। इसलिये आगेके समस्त संयतगुणस्थानोंका इसमें अन्तर्भाव नहीं होता है।

शंका—यह कैसे जाना जाय कि यहां पर आगे प्राप्त होनेवाले अपूर्वकरणादि विशेषणोंसे भेदको प्राप्त होनेवाले संयतोंका ग्रहण नहीं किया गया है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, यदि यह न माना जाय, तो आगेके संयत-गुणस्थानोंका निरूपण बन नहीं सकता है, इसलिये यह मालूम पड़ता है कि यहां पर अपूर्वकरणादि विशेषणोंसे रहित केवल अप्रमत्त संयत-गुणस्थानका ही ग्रहण किया गया है।

वर्तमान समयमें प्रत्याख्यानावरणिय कर्मके सर्वघाती स्पर्द्धकोंके उदयक्षय होनेसे और आगामी कालमें उदयमें आनेवाले उन्हींके उदयाभावलक्षण उपशम होनेसे तथा संज्वलन कपायके मन्द उदय होनेसे प्रत्याख्यानकी उत्पात्ति होती है, इसलिये यह गुणस्थान भी क्षायोपशमिक है। संयमके कारणभूत सम्यक्त्वकी अपेक्षा, सम्यक्त्वके प्रतिबन्धक कर्मोंके क्षय, क्षयोपशम और उपशमसे यह गुणस्थान उत्पन्न होता है, इसलिये क्षायिक, क्षायोपशमिक और औपशमिक भी है। कहा भी है—

जिसके व्यक्त और अव्यक्त सभी प्रकारके प्रमाद नष्ट हो गये हैं, जो व्रत, गुण और शीलोंने मण्डित है, जो निरन्तर आत्मा और शरीरके भेद-विज्ञानसे युक्त है, जो उपशम और क्षपक श्रेणीपर आरूढ़ नहीं हुआ है और जो ध्यानमें लवलीन है, उसे अप्रमत्तसंयत कहते हैं ॥ ११५ ॥

अब आगे चारित्रमोहनीयका उपशम करनेवाले या क्षपण करनेवाले गुणस्थानोंमेंसे प्रथम गुणस्थानके निरूपण करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं।

अपूर्वकरण-प्रविष्ट-शुद्धि संयतोंमें सामान्यसे उपशमक और क्षपक ये दोनों प्रकारके

करणाः परिणामाः, न पूर्वाः अपूर्वाः । नानाज्जापेक्षया प्रतिसमयमादितः क्रमप्रवृद्धासंख्येयलोकपरिणामस्यास्य गुणस्यान्तर्विचक्षितसमयवर्तिप्राणिना व्यतिरिच्यान्य-समयवर्तिप्राणिभिरप्राप्या अपूर्वा अत्रतनपरिणामैरसमाना इति यावत् । अपूर्वाश्च ते करणाश्चापूर्वकरणाः । एतेनापूर्वविशेषणेन अधःप्रवृत्तपरिणामव्युदासः कृत इति दृष्टव्यः, तत्रतनपरिणामानामपूर्वत्वाभावात् । अपूर्वशब्दः प्रागप्रतिपन्नार्थवाचको नासमानार्थ-वाचक इति चेन्न, पूर्वसमानशब्दयोरेकार्थत्वात् । तेषु प्रविष्टा शुद्धिर्येषां ते अपूर्वकरण-प्रविष्टशुद्धयः । के ते ? संयताः । तेषु संयतेषु ' अत्थि ' सन्ति । नदीस्रोतोन्ध्यायेन

जीव होते हैं ॥ १६ ॥

करण शब्दका अर्थ परिणाम है, और जो पूर्व अर्थान् पहले नहीं हुए उन्हें अपूर्व कहते हैं । इसका तात्पर्य यह है, कि नाना जीवोंकी अपेक्षा आदिसे लेकर प्रत्येक समयमें क्रमसे बढ़ते हुए असंख्यात-लोक-प्रमाण परिणामवाले इस गुणस्थानके अन्तर्गत विचक्षित समयवर्ती जीवोंको छोड़कर अन्य समयवर्ती जीवोंके द्वारा अप्राप्य परिणाम अपूर्व कहलाते हैं । अर्थात् विचक्षित समयवर्ती जीवोंके परिणामोंसे भिन्न समयवर्ती जीवोंके परिणाम असमान अर्थात् विलक्षण होते हैं । इसतरह प्रत्येक समयमें होनेवाले अपूर्व परिणामोंको अपूर्वकरण कहते हैं । इसमें दिये गये अपूर्व विशेषणसे अधःप्रवृत्त-परिणामोंका निराकरण किया गया है ऐसा समझना चाहिये, क्योंकि, जहां पर उपरितन समयवर्ती जीवोंके परिणाम अंशस्तन समयवर्ती जीवोंके परिणामोंके साथ सदृश भी होते हैं और विसदृश भी होते हैं ऐसे अधःप्रवृत्तमें होनेवाले परिणामोंमें अपूर्वता नहीं पाई जाती है ।

शंका—अपूर्व शब्द पहले कभी नहीं प्राप्त हुए अर्थका वाचक है, असमान अर्थका वाचक नहीं है, इसलिये यहां पर अपूर्व शब्दका अर्थ असमान या विसदृश नहीं हो सकता है ?

समाधान—ऐसा नहीं है, क्योंकि पूर्व और समान ये दोनों शब्द एकार्थवाची हैं, इसलिये अपूर्व और असमान इन दोनों शब्दोंका अर्थ भी एक ही समझना चाहिये । ऐसे अपूर्व परिणामोंमें जिन जीवोंकी शुद्धि प्रविष्ट हो गई है, उन्हें अपूर्वकरण-प्रविष्ट-शुद्धि जीव कहते हैं ।

शंका—वे अपूर्वकरणरूप परिणामोंमें विशुद्धिको प्राप्त करनेवाले कौन होते हैं ?

समाधान—वे संयत ही होते हैं, अर्थात् संयतोंमें ही अपूर्वकरण गुणस्थानवाले जीवोंका सद्भाव होता है । और उन संयतोंमें उपशमक और क्षपक जीव होते हैं ।

शंका—नदीस्रोत-न्ध्यायसे ' सन्ति ' इस पदकी अनुवृत्ति चली आती है, इसलिये

१ अपूर्वमपूर्वा क्रिया गच्छतीत्यपूर्वकरणम् । तत्र च प्रथमसमय एव स्थितिघातसघातगुणश्रेणिगुणसंक्रमाः अन्यत्र स्थितिवन्धः इत्येते पन्नाप्यधिकारा यौगपद्येन पूर्वमप्रवृत्ताः प्रवर्तन्ते इत्यपूर्वकरणम् । अभि. रा. को. (अपुञ्चकरण)

सन्तीत्यनुवर्तमाने पुनरिह तदुच्चारणमनर्थकमिति चेन्न, अस्यान्यार्थत्वात् । कथम् ? स गुणस्थानसत्त्वप्रतिपादकः, अयं तु संयतेषु क्षपकोपशमकभावयोर्भेदधिकरण्यप्रतिपादनार्थ इति । अपूर्वकरणानामन्तः प्रविष्टशुद्धयः क्षपकोपशमकसंयताः, सर्वे संभूय एको गुणः ' अपूर्वकरण ' इति । किमिति नामनिर्देशो न कृतश्चेन्न, सामर्थ्यलभ्यत्वात् । अक्षपकानुपशमकानां कथं तद्व्यपदेशश्चेन्न, भाविनि भूतवदुपचारतस्तत्सिद्धेः । सत्येवमतिप्रसङ्गः

उसका फिरसे इस सूत्रमें ग्रहण करना निरर्थक है ?

समाधान—ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पर ' सन्ति ' पदका दूसरा ही अर्थ लिया गया है ।

शंका—वह दूसरा अर्थ किसप्रकारका है ?

समाधान—पहले जो ' सन्ति ' पद आया है वह गुणस्थानोंके अस्तित्वका प्रतिपादक है, और यह संयतोंमें क्षपक और उपशमक भावके भिन्न भिन्न अधिकरणपनेके बतानेके लिये है ।

जिन्होंने अपूर्वकरणरूप परिणामोंमें विशुद्धिको प्राप्त कर लिया है ऐसे क्षपक और उपशमक संयमी जीव होते हैं, और ये सब मिलकर एक अपूर्वकरण गुणस्थान बनता है ।

शंका—तो फिर यहां पर इसप्रकार नामनिर्देश क्यों नहीं किया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, यह बात तो सामर्थ्यसे ही प्राप्त हो जाती है। अर्थात् अपूर्वकरण को प्राप्त हुए उन सब क्षपक और उपशमक जीवोंके परिणामोंमें अपूर्वपनेकी अपेक्षा समानता पाई जाती है, इसलिये वे सब मिलकर एक अपूर्वकरण गुणस्थान होता है यह अपने आप सिद्ध है ।

शंका—आठवें गुणस्थानमें न तो कर्मोंका क्षय ही होता है और न उपशम ही, फिर इस गुणस्थानवर्ती जीवोंको क्षपक और उपशमक कैसे कहा जा सकता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, भावी अर्थमें भूतकालीन अर्थके समान उपचार कर लेनेसे आठवें गुणस्थानमें क्षपक और उपशमक व्यवहारकी सिद्धि हो जाती है

शंका—इसप्रकार मानने पर तो अतिप्रसंग दोष प्राप्त हो जायगा ?

१ इदं गुणस्थानकमन्तर्मुहूर्तकालग्रमाणं भवति । तत्र च प्रथमसमयेऽपि ये प्रपन्नाः प्रपद्यन्ते प्रपत्स्यन्ते च तदपेक्षया जघन्यादीन्सुकृष्टान्यसंख्येयलोकाकाशप्रदेशप्रमाणाध्यवसायस्थानानि लभ्यन्ते, प्रतिपत्तृणां बहुत्वादध्यवसायानां च त्रिविधत्वादिति भावनीयम् । ननु यदि कालत्रयापेक्षा क्रियते तदैतद् गुणस्थानकं प्रोतपन्नानामनन्तान्यव्यवसायस्थानानि कस्मान्न भवन्ति अनन्तजीवैरस्य प्रतिपन्नत्वादनन्तैरेव च प्रतिपत्स्यमानत्वादिति । सत्यम्, स्यादेवं यदि तत्रप्रतिपत्तृणां सर्वेषां पृथक् पृथक् भिन्नान्येवाध्यवसायस्थानानि स्युः, तच्च नास्ति, बहूनामेकाध्यवसायस्थानवर्तित्वात् । × × युगपदेतद् गुणस्थानत्रविष्टानां च परस्परमध्यवसायस्थानव्यावृत्तिलक्षणा निवृत्तिरित्यतीति निवृत्तिगुणस्थानकमप्येतदुच्यते ॥ अभि. रा. को. [ अपुव्वकरणगुणद्वान ]



स्यादिति चेन्न, असति प्रतिबन्धरि मरणे' नियमेन चारित्रमोहक्षपणोपशमकारिणां तदुन्मुखानामुपचारभाजापुपलम्भात् । क्षपणोपशमननिबन्धनत्वाद् भिन्नपरिणामानां कथमेकत्वमिति चेन्न, क्षपकोपशमकपरिणामानामपूर्वत्वं प्रति साम्यात्तदेकत्वोपपत्तेः । पञ्चसु गुणेषु कोऽत्रतनगुणश्चेत्क्षपकस्य क्षायिकः, उपशमकस्यौपशमिकः । कर्मणां क्षयोपशमाभ्यामभावे कथं तयोस्तत्र सत्त्वमिति चेन्नैप दोषः, तयोस्तत्र सत्त्वस्योपचारनिबन्धनत्वात् । सम्यक्त्वापेक्षया तु क्षपकस्य क्षायिको भावः दर्शनमोहनीयक्षयमविधाय क्षपकश्रेण्यारोहणानुपपत्तेः । उपशमकस्यौपशमिकः क्षायिको वा भावः, दर्शनमोहोपशम-

समाधान—नहीं, क्योंकि, प्रतिबन्धक मरणके अभावमें नियमसे चारित्रमोहका उपशम करनेवाले तथा चारित्रमोहका क्षय करनेवाले अतएव उपशमन और क्षपणके सम्मुख हुए और उपचारसे क्षपक या उपशमक संज्ञाको प्राप्त होनेवाले जीवोंके आठवें गुणस्थानमें भी क्षपक या उपशमक संज्ञा बन जाती है ।

विशेषार्थ—क्षपकश्रेणीमें तो मरण होता ही नहीं है, इसलिये वहां प्रतिबन्धक मरणका सर्वथा अभाव होनेसे क्षपकश्रेणीके आठवें गुणस्थानवाला आगे चलकर नियमसे चारित्रमोहनीयका क्षय करनेवाला है । अतः क्षपकश्रेणीके आठवें गुणस्थानवर्ती जीवके क्षपक संज्ञा बन जाती है । तथा उपशमश्रेणीस्थ आठवें गुणस्थानके पहले भागमें तो मरण नहीं होता है । परंतु द्वितीयादिक भागोंमें मरण संभव है, इसलिये यदि ऐसे जीवके द्वितीयादिक भागोंमें मरण न हो तो वह भी नियमसे चारित्रमोहनीयका उपशम करता है । अतः इसके भी उपशमक संज्ञा बन जाती है ।

शंका—पांच प्रकारके भावोंमेंसे इस गुणस्थानमें कौनसा भाव पाया जाता है ?

समाधान—क्षपकके क्षायिक और उपशमकके औपशमिक भाव पाया जाता है ।

शंका—इस गुणस्थानमें न तो कर्मोंका क्षय ही होता है और न उपशम ही होता है, ऐसी अवस्थामें यहां पर क्षायिक या औपशमिक भावका सद्भाव कैसे हो सकता है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, इस गुणस्थानमें क्षायिक और औपशमिक भावका सद्भाव उपचारसे माना गया है ।

सम्यग्दर्शनकी अपेक्षा तो क्षपकके क्षायिकभाव होता है, क्योंकि, जिसने दर्शनमोहनीयका क्षय नहीं किया है वह क्षपक श्रेणीपर नहीं चढ़ सकता है । और उपशमकके औपशमिक या क्षायिकभाव होता है, क्योंकि, जिसने दर्शनमोहनीयका उपशम अथवा क्षय

१ उपशमश्रेण्यारोहकोपूर्वकरणस्य प्रथमभागे मरणं नास्तीति आगमः । जी. प्र. मरण्णाम्नि णियद्दीपटो णिदा तंहेव पयला य ' गो. क. ९९. अतो नियमेन अग्रियमाणाः प्रथमभागवर्तिनोऽपूर्वकरणाः, द्वितीयादिमागेषु च आयुपि सति जीवंतोऽपूर्वकरणाः उपशमश्रेण्यां चारित्रमोहं उपशमयन्ति अतएवोपशमका इच्युच्यन्ते । गो. जी., सं. प्र., टी. ५५.

भयाभ्यां विनोपशमश्रेण्यारोहणानुपलम्भात् । उक्तं च—

मिष्ण-समय-द्विएहि दु जीवेहि ण होइ सञ्चदा सरिसो ।

करणेहि एक-समय-द्विएहि सरिसो विसरिसो य' ॥ ११६ ॥

एदाहि गुणद्वाने विसरिस-समय-द्विएहि जीवेहि ।

पुञ्जमपत्ता जम्हा होंति अपुञ्जा हु परिणामाँ ॥ ११७ ॥

तारिस-परिणाम-द्विय-जीवा हु जिणेहि गलिय-तिमिरेहि ।

मोहस्स पुञ्जकरणा खवणुवसमणुञ्जया भणियौ ॥ ११८ ॥

इदानीं वादरकपायेषु चरमगुणस्थानप्रतिपादनार्थमाह—

**अणियद्वि-वादर-सांपराइय-पविट्ट-सुद्धि-संजदेसु अत्थि उवसमा  
खवा ॥ १७ ॥**

समानसमयावस्थितजीवपरिणामानां निर्भेदेन वृत्तिः निवृत्तिः । अथवा निवृत्ति-

नहीं किया है, वह उपशमश्रेणीपर नहीं चढ़ सकता है । कहा भी है—

अपूर्वकरण गुणस्थानमें भिन्न-समयवर्ती जीवोंके परिणामोंकी अपेक्षा कभी भी सदृशता नहीं पाई जाती है, किंतु एक-समयवर्ती जीवोंके परिणामोंकी अपेक्षा सदृशता और विसदृशता दोनों ही पाई जाती हैं ॥ ११६ ॥

इस गुणस्थानमें विसदृश अर्थात् भिन्न-भिन्न समयमें रहनेवाले जीव, जो पूर्वमें कभी भी नहीं प्राप्त हुए थे ऐसे अपूर्व परिणामोंको ही धारण करते हैं, ( इसलिये इस गुणस्थानका नाम अपूर्वकरण है । ) ॥ ११७ ॥

पूर्वोक्त अपूर्व परिणामोंको धारण करनेवाले जीव मोहनीय कर्मकी शेष प्रकृतियोंके क्षपण अथवा उपशमन करनेमें उद्यत होते हैं, ऐसा अज्ञानरूपी अन्धकारसे सर्वथा रहित जिनेन्द्रदेवने कहा है ॥ ११८ ॥

अब वादर-कपायवाले गुणस्थानोंमें अन्तिम गुणस्थानके प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

अनिवृत्ति-वादर-सांपरायिक-प्रविष्ट-शुद्धि संयतोंमें उपशमक भी होते हैं और क्षपक भी होते हैं ॥ १७ ॥

समान-समयवर्ती जीवोंके परिणामोंकी भेदरहित वृत्तिको निवृत्ति कहते हैं । अथवा

१ गो. जी. ५२.

२ गो. जी. ५१.

३ गो. जी. ५४.

४ निवृत्तिर्व्यावृत्तिः परिणामानां विसदृशभावेन परिणतिरित्यनर्थान्तरम् । जयध. अ. पृ. १०७४.

व्यावृत्तिः, न विद्यते निवृत्तिर्येषां तेऽनिवृत्तयः । अपूर्वकरणाश्च तादृक्षाः केचित्सन्तीति तेषामप्ययं व्यपदेशः प्राप्नोतीति चेन्न, तेषां नियमाभावात् । समानसमयस्थितजीव-परिणामानामिति कथमधिगम्यत इति चेन्न, 'अपूर्वकरण' इत्यनुवर्तनादेव द्वितीयादि-समयवर्तिजीवैः सह परिणामापेक्षया भेदसिद्धेः । साम्परायाः कषायाः, वादराः स्थूलाः, वादराश्च ते साम्परायाश्च वादरसाम्परायाः । अनिवृत्तयश्च ते वादरसाम्परायाश्च अनिवृत्ति-वादरसाम्परायाः । तेषु प्रविष्टा शुद्धिर्येषां संयतानां तेऽनिवृत्तिवादरसाम्परायप्रविष्ट-शुद्धिसंयताः । तेषु सन्ति उपशमकाः क्षपकाश्च । ते सर्वे एको गुणोऽनिवृत्तिरिति । यावन्तः परिणामास्तावन्त एव गुणाः किन्न भवन्तीति चेन्न, तथा व्यवहारानुपपत्तितो

निवृत्ति शब्दका अर्थ व्यावृत्ति भी है । अतएव जिन परिणामोंकी निवृत्ति अर्थात् व्यावृत्ति नहीं होती है उन्हें ही अनिवृत्ति कहते हैं ।

शंका — अपूर्वकरण गुणस्थानमें भी तो कितने ही परिणाम इसप्रकारके होते हैं, अतएव उन परिणामोंको भी अनिवृत्ति संज्ञा प्राप्त होनी चाहिये ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, उनके निवृत्तिरहित होनेका कोई नियम नहीं है ।

शंका — इस गुणस्थानमें जो जीवोंके परिणामोंकी भेदरहित वृत्ति बतलाई है, वह समान-समयवर्ती जीवोंके परिणामोंकी ही विवक्षित है यह कैसे जाना ?

समाधान — 'अपूर्वकरण' पदकी अनुवृत्तिसे ही यह सिद्ध होता है, कि इस गुण-स्थानमें प्रथमादि समयवर्ती जीवोंका द्वितीयादि समयवर्ती जीवोंके साथ परिणामोंकी अपेक्षा भेद है । ( अतएव इससे यह तात्पर्य निकल आता है कि 'अनिवृत्ति' पदका सम्बन्ध एकसमयवर्ती परिणामोंके साथ ही है । )

सांपराय शब्दका अर्थ कषाय है, और वादर स्थूलको कहते हैं, इसलिये स्थूल-कषायोंको वादर-सांपराय कहते हैं । और अनिवृत्तिरूप वादर सांपरायको अनिवृत्तिवादरसांपराय कहते हैं । उन अनिवृत्तिवादरसांपरायरूप परिणामोंमें जिन संयतोंकी विशुद्धि प्रविष्ट हो गई है उन्हें अनिवृत्तिवादरसांपरायप्रविष्टशुद्धिसंयत कहते हैं । ऐसे संयतोंमें उपशमक और क्षपक दोनों प्रकारके जीव होते हैं । और उन सब संयतोंका मिलकर एक अनिवृत्तिकरण गुणस्थान होता है ।

शंका — जितने परिणाम होते हैं, उतने ही गुणस्थान क्यों नहीं होते हैं ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, जितने परिणाम होते हैं, उतने ही गुणस्थान यदि माने

१ युगपदेतद् गुणस्थानकं प्रतिपन्नानां बहूनामपि जीवानामन्योन्यमध्यवसायस्थानस्य व्यावृत्तिर्नास्त्यस्येति अनिवृत्तिः । समकालमेतद् गुणस्थानकरूढस्यापारस्य यदध्यवसायस्थानं विवक्षितोऽन्योऽपि कश्चिच्चद्वयैवेत्यर्थः । संपरैति पर्यटति संसारमनेनेति संपरायः कषायोदयः । × × तत्र चान्तर्मुहूर्ते यावन्तः समयास्तत्प्रविष्टानां तावन्त्ये-वाध्यवसायस्थानानि भवन्ति । एकसमयप्रविष्टानामेकस्यैवाध्यवसायस्थानस्यानुवर्तनादिति । अग्निः रा. की. ( अणि-यद्विवादरसांपरायगुणहाण )

द्रव्यार्थिकनयसमाश्रयणात् । बादरग्रहणमन्तदीपकत्वाद् गताशेषगुणस्थानानि बादर-  
कषायाणीति प्रज्ञापनार्थम्, 'सति संभवे व्यभिचारे च विशेषणमर्थवद्भवति' इति  
न्यायात् । संयतग्रहणमनर्थकमिति चेन्नैष दोषः, संयमस्य पञ्चस्वपि गुणेषु सम्भव एव न  
व्यभिचार इत्यस्यान्यस्याधिगमोपायस्याभावतस्तदुक्तेः । आद्यं संयतग्रहणमनुवर्तते,  
ततस्तदवसीयत इति चेत्तर्हस्तु जडजनानुग्रहार्थमिति । यद्येवमुपशान्तकषायादिष्वपि  
संयतग्रहणमस्त्विति चेन्न, सकषायत्वेन संयतानामसंयतैः साधर्म्यमस्तीति मन्दधियामधः  
संशयोत्पत्तिसम्भवात् । नोपशान्तकषायादिषु मन्दधियामप्यारेकोत्पद्यते । क्षीणोपशान्त-  
कषायाः संयताः, भावतोऽसंयतैस्संयतानां साधर्म्याभावात् । काश्चित्प्रकृतीरुपशमयति,

जाय तो व्यवहार ही नहीं चल सकता है, इसलिये द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा नियत-संख्यावाले  
ही गुणस्थान कहे गये हैं ।

सूत्रमें जो 'बादर' पदका ग्रहण किया है, वह अन्तदीपक होनेसे पूर्ववर्ती समस्त  
गुणस्थान बादरकषाय हैं इस बातका ज्ञान करानेके लिये ग्रहण किया है, ऐसा समझना  
चाहिये, क्योंकि, जहां पर विशेषण संभव हो अर्थात् लागू पड़ता हो और न देने पर व्यभि-  
चार आता हो, ऐसी जगह दिया गया विशेषण सार्थक होता है, ऐसा न्याय है ।

शंका — इस सूत्रमें संयत पदका ग्रहण करना व्यर्थ है ?

समाधान — यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, संयम पांचों ही गुणस्थानोंमें संभव है,  
इसमें कोई व्यभिचार दोष नहीं आता है, इसप्रकार जाननेका दूसरा कोई उपाय नहीं होनेसे  
यहां संयम पदका ग्रहण किया है ।

शंका — 'पमत्तसंजदा' इस सूत्रमें ग्रहण किये गये संयत पदकी यहां अनुवृत्ति  
होती है, और उससे ही उक्त अर्थका ज्ञान भी हो जाता है, इसलिये फिरसे इस पदका ग्रहण  
करना व्यर्थ है ?

समाधान — यदि ऐसा है, तो संयत पदका यहां पुनः प्रयोग मन्दबुद्धि जनोंके  
अनुग्रहके लिये समझना चाहिये ।

शंका — यदि ऐसा है, तो उपशान्तकषाय आदि गुणस्थानोंमें भी संयत पदका  
ग्रहण करना चाहिये ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, दशवें गुणस्थानतक सभी जीव कषायसहित होनेके  
कारण, कषायकी अपेक्षा संयतोंकी असंयतोंके साथ सदृशता पाई जाती है, इसलिये नीचेके  
दशवें गुणस्थानतक मन्दबुद्धि-जनोंको संशय उत्पन्न होनेकी संभावना है । अतः संशयके  
निवारणके लिये संयत विशेषण देना आवश्यक है । किंतु ऊपरके उपशान्तकषाय आदि गुण-  
स्थानोंमें मन्दबुद्धि-जनोंको भी शंका उत्पन्न नहीं हो सकती है, क्योंकि, वहां पर संयत क्षीण-  
कषाय अथवा उपशान्तकषायही होते हैं, इसलिये भावोंकी अपेक्षा भी संयतोंकी असंयतोंसे  
सदृशता नहीं पाई जाती है । अतएव वहां पर संयत विशेषण देना आवश्यक नहीं है ।

काश्चिदुपरिष्ठादुपशमयिष्यतीति औपशमिकोऽयं गुणः । काश्चित् प्रकृतीः क्षपयति काश्चिदुपरिष्ठात् क्षपयिष्यतीति क्षायिकश्च । सम्यक्त्वापेक्षया चारित्रमोहक्षपकस्य क्षायिक एव गुणस्तत्रान्यस्यासम्भवात् । उपशमकस्यौपशमिकः क्षायिकश्चोभयोरपि तत्राविरोधात् । क्षपकोपशमकयोर्द्वित्वं किमिति नेष्यत इति चेन्न, गुणनिबन्धनानिवृत्तिपरिणामानां साम्यप्रदर्शनार्थं तदेकत्वोपपत्तेः । उक्तं च—

एकस्मि काल-समए संठाणादीहिं जह णिवट्ठंति ।

ण णिवट्ठंति तह च्चिय परिणामेहिं मिहो जे हु ॥११९ ॥

होति अणियट्ठिणो ते पडिसमयं जेस्सिमेक्कपरिणामा ।

विमलयर-ज्ञाण-हुयवह-सिहाहि णिद्व-कम्म-त्रणा ॥ १२० ॥

इस गुणस्थानमें जीव मोहकी कितनी ही प्रकृतियोंका उपशमन करता है, और कितनी ही प्रकृतियोंका आगे उपशम करेगा, इस अपेक्षासे यह गुणस्थान औपशमिक है । और कितनी ही प्रकृतियोंका क्षय करता है, तथा कितनी ही प्रकृतियोंका आगे क्षय करेगा, इस दृष्टिसे क्षायिक भी है । सम्यग्दर्शनकी अपेक्षा चारित्रमोहका क्षय करनेवालेके यह गुणस्थान क्षायिकभावरूप ही है, क्योंकि, क्षपकश्रेणीमें दूसरा भाव संभव ही नहीं है । तथा चारित्र-मोहनीयका उपशम करनेवालेके यह गुणस्थान औपशमिक और क्षायिक दोनों भावरूप है, क्योंकि, उपशमश्रेणीकी अपेक्षा वहां पर दोनों भाव संभव हैं ।

शंका—क्षपकका स्वतन्त्र गुणस्थान और उपशमकका स्वतन्त्र गुणस्थान, इसतरह अलग अलग दो गुणस्थान क्यों नहीं कहे गये हैं?

समाधान—नहीं, क्योंकि, इस गुणस्थानके कारणभूत अनिवृत्तिरूप परिणामोंकी समानता दिखानेके लिये उन दोनोंमें एकता बन जाती है । अर्थात् उपशमक और क्षपक इन दोनोंके अनिवृत्तिरूप परिणामोंकी अपेक्षा समानता है । कहा भी है—

अन्तर्मुहूर्तमात्र अनिवृत्तिकरणके कालमेंसे किसी एक समयमें रहनेवाले अनेक जीव जिसप्रकार शरीरके आकार, वर्ण आदि बाह्यरूपसे, और ज्ञानोपयोग आदि अन्तरंग रूपसे परस्पर भेदको प्राप्त होते हैं, उसप्रकार जिन परिणामोंके द्वारा उनमें भेद नहीं पाया जाता है उनको अनिवृत्तिकरण परिणामवाले कहते हैं । और उनके प्रत्येक समयमें उत्तरोत्तर अनन्तगुणी विशुद्धिसे बढ़ते हुए एकसे ही ( समान विशुद्धिको लिये हुए ) परिणाम पाये जाते हैं ।

१ नरकद्विकं तिर्यग्द्विकं विकलत्रयं स्ज्ञानशुद्धित्रयमुद्योतः आतपः एकेन्द्रियं साधारणं सूक्ष्मं स्थावरं चेति षोडश अग्रत्याख्यानप्रत्याख्यानकषाया अष्टौ, क्रमेण षट्शतद्वेदः स्त्रीवेदो नोकषायपट्टं, पुंवेदः संज्वलनक्रोधः संज्वलनमानः संज्वलनमाया एताः स्थूले अनिवृत्तिकरणे [ सत्त्व- ] व्युच्छिन्ना भवन्ति । गो. क., जी. प्र., टी. ३३८-३३९.

२ संस्थानवर्णावगाहनलिंगादिभिर्बहिर्गैर्ज्ञानदर्शनादिभिश्चान्तरंगैः । गो. जी., सं. प्र., टी. ५६.

३ गो. जी. ५७,

इदानीं कुशीलेपु पाश्चात्यगुणप्रतिपादनार्थमुत्तरसूत्रमाह—

**सुहुम-सांपराइय-पविट्ट-सुद्धि-संजदेसु अत्थि उवसमा खवा ॥१८॥**

सूक्ष्मश्चासौ साम्परायश्च सूक्ष्मसाम्परायः । तं प्रविष्टा शुद्धिर्येषां संयतानां  
ते सूक्ष्मसाम्परायप्रविष्टशुद्धिसंयताः । तेषु सन्ति उपशमकाः क्षपकाश्च । सर्वे त एको  
गुणः सूक्ष्मसाम्परायत्वं प्रत्यभेदात् । अपूर्वं इत्यनुवर्तते अनिवृत्तिरिति च । ततस्ताभ्यां  
सूक्ष्मसाम्परायो' विशेषयितव्यः । अन्यथातीतगुणेभ्यस्तस्याधिक्यानुपपत्तेः । प्रकृतीः

तथा वे अत्यन्त निर्मल ध्यानरूप अग्निकी शिखाओंसे कर्म-वनको भस्म करनेवाले होते  
हैं ॥ ११९, १२० ॥

अब कुशील जातिके मुनियोंके अन्तिम गुणस्थानके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका  
सूत्र कहते हैं—

सूक्ष्म-सांपराय-प्रविष्ट-शुद्धि-संयतोंमें उपशमक और क्षपक दोनों होते हैं ॥ १८ ॥

सूक्ष्म कपायको सूक्ष्मसांपराय कहते हैं । उसमें जिन संयतोंकी शुद्धिने प्रवेश किया  
है उन्हें सूक्ष्म-सांपराय-प्रविष्ट-शुद्धि-संयत कहते हैं । उनमें उपशमक और क्षपक दोनों होते हैं ।  
और सूक्ष्मसांपरायकी अपेक्षा उनमें भेद नहीं होनेसे उपशमक और क्षपक इन दोनोंका एक  
ही गुणस्थान होता है । इस गुणस्थानमें अपूर्व और अनिवृत्ति इन दोनों विशेषणोंकी अनुवृत्ति  
होती है । इसलिये ये दोनों विशेषण भी सूक्ष्म-सांपराय-शुद्धि-संयतके साथ जोड़ लेना चाहिये ।  
अन्यथा पूर्ववर्ती गुणस्थानोंसे इस गुणस्थानकी कोई भी विशेषता नहीं बन सकती है ।

विशेषार्थ — यदि दशवें गुणस्थानमें अपूर्व विशेषणकी अनुवृत्ति नहीं होगी तो उसमें  
प्रतिसमय अपूर्व अपूर्व परिणामोंकी सिद्धि नहीं हो सकेगी । और अनिवृत्ति विशेषणकी अनुवृत्ति  
नहीं मानने पर एक समयवर्ती जीवोंके परिणामोंमें समानता और कर्मोंके क्षपण और उप-  
शमनकी योग्यता सिद्ध नहीं होगी । इसलिये पूर्व गुणस्थानोंसे इसमें सर्वथा भिन्न जातिके ही  
परिणाम होते हैं इस बातके सिद्ध करनेके लिये अपूर्व और अनिवृत्ति इन दो विशेषणोंकी अनुवृत्ति  
कर लेना चाहिये । इसप्रकार इस गुणस्थानमें अपूर्वता, अनिवृत्तिपना और सूक्ष्मसांपरायपनारूप  
विशेषता सिद्ध हो जाती है ।

१ संञ्चलनलीभस्य अगूनसंख्येयतमस्य खण्डसासंख्येयानि खण्डानि वेदयमानोऽनुभवन् उपशमकः क्षपको  
वा भवति । सोऽन्तर्मुहूर्त कालं यावत्सूक्ष्मसंपरायो भण्यते । ×× सुहुमसंपराइयं जो वच्चति सो सुहुमसंपरागो । सुहुमं  
नाम धोव । कई थोवं ? आउयमोहाणिञ्जवज्जाओ छ कम्मपयडीओ सिदिरुवंधणवद्दाओ अप्पकालट्टितिकाओ महाणु-  
भावाओ अप्पदेसगाओ सुहुमसंपरागस्स वज्जाति । एव थोवं संपराइयं कम्मं तं स वज्जाति । सुहुमो संपरागो वा जस्स  
सो सुहुमसंपरागो, सो य असंखेज्जसमइओ अंतोमुहुत्तिओ विसुञ्जाणाणपरिणामो वा पडियत्तमाणपरिणामो वा भवति  
पि । अमि. रा. को. [ सुहुमसंपराय ]

काश्चित्क्षयति क्षयिष्यति क्षयिताश्चेति क्षायिकगुणः । काश्चिदुपशमयति उपशमयिष्यति उपशमिताश्चेत्यौपशमिकगुणः । सम्यग्दर्शनापेक्षया क्षयकः क्षायिकगुणः, उपशमकः औपशमिकगुणः क्षायिकगुणो वा द्वाभ्यामपि सम्यक्त्वाभ्यामुपशमश्रेण्यारोहणसम्भवात् । संयतग्रहणस्य पूर्ववत्साफल्यमुपदेशष्टव्यम् । उक्तं च —

पुत्रापुत्रवय-फडय-अणुभागादो अणंत-गुण-हीणे ।

लोहाणुम्हि द्वियओ हंद सुहुम-सांपराओ सो ॥ १२१ ॥

साम्प्रतमुपशमश्रेण्यन्तगुणप्रतिपादनार्थमुत्तरसूत्रमाह—

**उपशान्त-कषाय-वीतराय-छद्मस्था ॥ १९ ॥**

उपशान्तः कषायो येषां त उपशान्तकषायाः । वीतो विनष्टो रागो येषां ते वीतरागाः । छद्म ज्ञानह्णावरणे, तत्र तिष्ठन्तीति छद्मस्थाः । वीतरागाश्च ते छद्मस्थाश्च वीतरागछद्मस्थाः । एतेन सरागछद्मस्थनिराकृतिरवगन्तव्या । उपशान्तकषायाश्च ते वीत-

इस गुणस्थानमें जीव कितनी ही प्रकृतियोंका क्षय करता है, आगे क्षय करेगा और पूर्वमें क्षय कर चुका, इसलिये इसमें क्षायिकभाव है । तथा कितनी ही प्रकृतियोंका उपशम करता है, आगे उपशम करेगा और पहले उपशम कर चुका, इसलिये इसमें औपशमिक भाव है । सम्यग्दर्शनकी अपेक्षा क्षयक श्रेणीवाला क्षायिकभावसहित है । और उपशमश्रेणीवाला औपशमिक तथा क्षायिक इन दोनों भावोंसे युक्त है, क्योंकि, दोनों ही सम्यक्त्वोंसे उपशम-श्रेणीका चढ़ना संभव है । इस सूत्रमें ग्रहण किये गये संयत पदकी पूर्ववत् अर्थात् अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें बतलाई गई संयत पदकी सफलताके समान सफलता समझ लेना चाहिये । कहा भी है—

पूर्वस्पर्द्धक और अपूर्वस्पर्द्धकके अनुभागसे अनन्तगुणे हीन अनुभागवाले सूक्ष्म-लोभमें जो स्थित है उसे सूक्ष्मसांपराय गुणस्थानवर्ती जीव समझना चाहिये ॥ १२१ ॥

अब उपशमश्रेणीके अन्तिम गुणस्थानके प्रतिपादनार्थ आगेका सूत्र कहते हैं—

सामान्यसे उपशान्त-कषाय-वीतराग-छद्मस्थ जीव होते हैं ॥ १९ ॥

जिनकी कषाय उपशान्त हो गई है उन्हें उपशान्तकषाय कहते हैं । जिनका राग नष्ट हो गया है उन्हें वीतराग कहते हैं । छद्म ज्ञानावरण और दर्शनावरणको कहते हैं, उनमें जो रहते हैं उन्हें छद्मस्थ कहते हैं । जो वीतराग होते हुए भी छद्मस्थ होते हैं उन्हें वीतरागछद्मस्थ कहते हैं । इसमें आये हुए वीतराग विशेषणसे दशम गुणस्थान तकके सरागछद्मस्थोंका निराकरण समझना चाहिये । जो उपशान्तकषाय होते हुए भी वीतरागछद्मस्थ होते हैं उन्हें

१ सूक्ष्मसांपराये सूक्ष्मसंज्वलनलोभः गो. क., जी. प्र., टी. ३३९.

२ पुत्रापुत्रवय-फडयवांदरसुहुमगयकिद्विअणुभागा । हीणकमाणंतगुणेणवराद् वरं च हेट्टस ॥ गो. जी. ५९.

रागछन्नस्थाश्च उपशान्तकपायवीतरागछन्नस्थाः । एतेनोपरितनगुणव्युदांसोऽवगन्तव्यः ।  
एतस्योपशमिताशेषकपायत्वादौपशमिकः, सम्यक्त्वापेक्षया क्षायिकः औपशमिको वा  
गुणः । उक्तं च—

सकया-हृदं जलं वा सरए सरवाणियं व णिगमलयं ।

सयलोवसंत-मोहो उवसंत-कसायओ होई ॥ १२२ ॥

निर्ग्रन्थगुणप्रतिपादनार्थमुत्तरसूत्रमाह—

क्षीण-कसाय-वीयराय-छट्टुमत्था ॥ २० ॥

क्षीणः कपायो येषां ते क्षीणकपायाः । क्षीणकपायाश्च ते वीतरागाश्च क्षीणकपाय-

उपशान्त-कपाय-वीतराग-छन्नस्थ कहते हैं । इससे ( उपशान्तकपाय विशेषणसे ) आगेके गुण-  
स्थानोंका निराकरण समझना चाहिये ।

इस गुणस्थानमें संपूर्ण कपायें उपशान्त हो जाती हैं, इसलिये इसमें औपशमिक भाव  
है । तथा सम्यग्दर्शनकी अपेक्षा औपशमिक और क्षायिक दोनों भाव हैं । कहा भी है—

निर्मली फलसे युक्त निर्मल जलकी तरह, अथवा शरद् ऋतुमें होनेवाले सरोवरके  
निर्मल जलकी तरह, संपूर्ण मोहनीय कर्मके उपशमसे उत्पन्न होनेवाले निर्मल परिणामोंको  
उपशान्तकपाय गुणस्थान कहते हैं ॥ १२२ ॥

अब निर्ग्रन्थगुणस्थानके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

सामान्यसे क्षीण-कपायां-वीतराग-छन्नस्थ जीव होते हैं ॥ २० ॥

जिनकी कपाय क्षीण हो गई है उन्हें क्षीणकपाय कहते हैं । जो क्षीणकपाय होते हुए

१ अस्मिंश्च गुणस्थानेऽष्टाविंशतिरपि मोहनीयप्रकृतयः उपशान्ता ज्ञातव्याः । उपशान्तकपायश्च जघन्यनेकं  
समयं भवति, उत्कथेण त्वन्तर्मुद्गृतं कालं यावन् । तत ऊर्ध्वं नियमादसौ प्रतिपतति । प्रतिपतश्च द्वेषा, भवक्षयेण अद्धा-  
क्षयेण च । तत्र भवक्षयो म्रियमाणस्य, अद्धाक्षय उपशान्ताद्धायां समाप्तायाम् । अद्धाक्षयेण च प्रतिपतति यथैवारूढस्तथैव  
प्रतिपतति यत्र यत्र बन्धोदयोदीरणा व्यवच्छिन्नास्तत्र तत्र प्रतिपतता सता ते आरभ्यन्त इति यावन् । ×× यः पुनर्भ-  
वक्षयेण प्रतिपतति स प्रथमसमय सर्वाण्यपि बन्धनादीनि करणानि प्रवर्तयतीति विशेषः । अमि. रा. को. । ( उवसंत-  
कसायवीयरागच्छउमत्थगुणद्वान )

२ गो. जी. ६१. परं च तत्र प्रथमचरणे ' कदक-फल-शुद-जलं वा ' इति पाठः ।

३ क्षीणा अभावमापन्नाः कपाया यस्य स क्षीणकपायः । तच्चान्येऽपि गुणस्थानकेषु क्षपकश्रेणिद्वारोक्तयुक्त्वां  
कापि क्रियतामपि कपायाणां क्षीणत्वसंभवान्-क्षीणकपायव्यपदेशः संभवति । ततस्तद्व्यवच्छेदार्थं वीतरागग्रहणं,  
क्षीणकपायवीतरागत्वं च केवलिनोऽप्यस्तीति तद्व्यवच्छेदार्थं छन्नस्थग्रहणम् । यद्वा छन्नस्थस्य रागोऽपि भवतीति  
तदपनोदार्थं वीतरागग्रहणं । वीतरागश्चासौ छन्नस्थश्च वीतरागछन्नस्थः स चोपशान्तकपायोऽप्यस्तीति तद्व्यवच्छेदार्थं  
क्षीणकपायग्रहणम् । अमि. रा. को. [ क्षीणकसायवीयरायछन्नस्थ ]



वीतरागाः । छन्नानि आवरणे तिष्ठन्तीति छन्नस्थाः । क्षीणकपायवीतरागाश्च ते छन्नस्थाश्च  
क्षीणकपायवीतरागछन्नस्थाः । छन्नस्थग्रहणमन्तदीपकत्वाद्तीताशेषगुणानां सावरणत्वस्य  
सूचकमित्यवगन्तव्यम् । क्षीणकपाया हि वीतरागा एव व्यभिचाराभावाद्गीतरागग्रहण-  
समर्थकमिति चेन्न, नामादिक्षीणकपायविनिवृत्तिकलत्वात् । पञ्चसु गुणेषु कस्मादस्य  
प्रादुर्भाव इति चेद् द्रव्यभावद्वैविध्यादुभयात्मकमोहनीयस्य निरन्वयविनाशात्क्षायिकगुण-  
निबन्धनः । उक्तं च —

णिस्सेस-खीण-मोहो फालियामल-भायणुदय-समचित्तो ।

खीण-कसायो भण्णइ गिग्गयो' वीथराएहिं ॥ १२३ ॥

स्नातकगुणप्रतिपादनार्थमुत्तरसूत्रमाह —

सजोगकेवली ॥ २१ ॥

वीतराग होते हैं उन्हें क्षीणकपायवीतराग कहते हैं । जो छन्न अर्थात् ज्ञानावरण और दर्शना-  
वरणमें रहते हैं उन्हें छन्नस्थ कहते हैं । जो क्षीणकपाय वीतराग होते हुए छन्नस्थ होते हैं  
उन्हें क्षीण-कपाय-वीतराग-छन्नस्थ कहते हैं । इस सूत्रमें आया हुआ छन्नस्थ पद अन्तर्दीपक है,  
इसलिये उसे पूर्ववर्ती समस्त गुणस्थानोंके सावरणपनेका सूचक समझना चाहिये ।

शंका — क्षीणकपाय जीव वीतराग ही होते हैं, इसमें किसी प्रकारका भी व्यभिचार  
नहीं आता, इसलिये सूत्रमें वीतराग पदका ग्रहण करना निष्फल है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, नाम, स्थापना आदि रूप क्षीणकपायकी निवृत्ति करना  
यही इस सूत्रमें वीतराग पदके ग्रहण करनेका फल है । अर्थात् इस गुणस्थानमें नाम,  
स्थापना और द्रव्यरूप क्षीणकपायका ग्रहण नहीं है, किंतु भावरूप क्षीणकपायोंका ही ग्रहण  
है, इस बातके प्रगट करनेके लिये सूत्रमें वीतराग पद दिया है ।

शंका — पांच प्रकारके भावोंमेंसे किस भावसे इस गुणस्थानकी उत्पत्ति होती है ?

समाधान — मोहनीय कर्मके दो भेद हैं, द्रव्यमोहनीय और भावमोहनीय । इस  
गुणस्थानके पहले दोनों प्रकारके मोहनीय कर्मोंका निरन्वय ( सर्वथा ) नाश हो जाता है, अतएव  
इस गुणस्थानकी उत्पत्ति क्षायिक गुणसे है । कहा भी है —

जिसने संपूर्ण अर्थात् प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बन्धरूप मोहनीय कर्मको  
नष्ट कर दिया है, अतएव जिसका चित्त स्फटिकमणिके निर्मल भाजनमें रखे हुए जलके  
समान निर्मल है, ऐसे निर्ग्रन्थको वीतरागदेवने क्षीणकपायगुणस्थानवर्ती कहा है ॥ १२३ ॥

अब स्नातकोंके गुणस्थानके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं —

सामान्यसे सजोगकेवली जीव होते हैं ॥ २१ ॥

१ अन्नान्ते स्वयन्ति संसारकारणं कर्मबन्धामिति ग्रन्थाःपरिग्रहाः मिथ्यात्ववेदादयः अन्तरंगाश्रतुर्दश, बहि-  
रंगाश्च क्षेत्रादयो दश, तेभ्यो निष्क्रान्तः सर्वात्मना निवृत्तो निर्ग्रन्थ इति । गो. जी., गं. प्र., टी. ६२.

केवलं केवलज्ञानम् । कथं नामैकदेशात्सकलनाम्ना प्रतिपद्यमानस्यार्थस्यावगम इति चेन्न, बलदेवशब्दवाच्यस्यार्थस्य तदेकदेशेदेवशब्दादपि प्रतीयमानस्योपलम्भात् । न च दृष्टेऽनुपपन्नता अव्यवस्थापत्तेः । केवलमसहायमिन्द्रियालोकमनस्कारनिरपेक्षम्, तदेवामस्तीति केवलिनः । मनोवाक्कायप्रवृत्तिर्योगः, योगेन सह वर्तन्त इति सयोगाः । सयोगाश्च ते केवलिनश्च सयोगकेवलिनः । सयोगग्रहणमधस्तनसकलगुणानां सयोगत्व-प्रतिपादकमन्तदीपकत्वात् । क्षपिताशेषघातिकर्मत्वान्निःशक्तीकृतवेदनीयत्वान्नष्टाष्टकर्मव-यवपष्टिकर्मत्वाद्वा क्षायिकगुणः । उक्तं च—

केवलणाण-दिवायर-किरण-कलात्र-प्पणासि-अण्णाणो' ।

णव-केवल-लद्दुगम-सुजणिय-परमप्प-ववण्णो' ॥ १२४ ॥

केवल पदसे यहां पर केवलज्ञानका ग्रहण किया है ।

शंका—नामके एकदेशके कथन करनेसे संपूर्ण नामके द्वारा कहे जानेवाले अर्थका बोध कैसे संभव है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, बलदेव शब्दके वाच्यभूत अर्थका, उसके एकदेशरूप 'देव' शब्दसे भी बोध होना पाया जाता है । और इसतरह प्रतीति-सिद्ध बातमें, 'यह नहीं बन सकता है' इसप्रकार कहना निष्फल है, अन्यथा सब जगह अव्यवस्था हो जायगी ।

जिसमें इन्द्रिय, आलोक और मनकी अपेक्षा नहीं होती है उसे केवल अथवा असहाय कहते हैं । वह केवल अथवा असहाय ज्ञान जिनके होता है, उन्हें केवली कहते हैं । मन, वचन और कायकी प्रवृत्तिको योग कहते हैं । जो योगके साथ रहते हैं उन्हें सयोग कहते हैं । इसतरह जो सयोग होते हुए केवली हैं उन्हें सयोगकेवली कहते हैं । इस सूत्रमें जो सयोग पदका ग्रहण किया है वह अन्तदीपक होनेसे नीचेके संपूर्ण गुणस्थानोंके सयोगपनेका प्रतिपादक है । चारों घातिया कर्मोंके क्षय कर देनेसे, वेदनीय कर्मके निःशक्त कर देनेसे, अथवा आठों ही कर्मोंके अवयवरूप साठ उत्तर-कर्म-प्रकृतियोंके नष्ट कर देनेसे इस गुणस्थानमें क्षायिक भाव होता है ।

विशेषार्थ—यद्यपि अरहंत परमेष्ठिके चारों घातिया कर्मोंकी सेतालीस, नामकर्मकी तेरह और आयुकर्मकी तीन, इसतरह त्रैसठ प्रकृतियोंका अभाव होता है । फिर भी यहां साठ कर्मप्रकृतियोंका अभाव बतलाया है । इसका ऐसा अभिप्राय समझना चाहिये कि आयुकी तीन प्रकृतियोंके नाशके लिये प्रयत्न नहीं करना पडता है । मुक्तिको प्राप्त होनेवाले जीवके एक मनुष्यायुको छोड़कर अन्य आयुकी सत्ता ही नहीं पाई जाती है, इसलिये यहां पर आयुकर्मकी तीन प्रकृतियोंकी अविचक्षा करके साठ प्रकृतियोंका नाश बतलाया गया है । कहा भी है—

जिसका केवलज्ञानरूपी सूर्यकी किरणोंके समूहसे अज्ञानरूपी अन्धकार सर्वथा नष्ट

१ अनेन सयोगमट्टारकस्य भव्यलोकोपकारकत्वलक्षणपरार्थसंपत्प्रणीता । गो. जी., जी. प्र., टी. ६३.

२ [अनेन पदेन] भगवदहंत्परमेष्ठिनोऽनन्तज्ञानादिलक्षणस्वार्थसंपत् प्रदर्शिता । गो. जी., जी. प्र., टी. ६३.

असहाय-गाण-दंसण-सहिओ इदि केवली हु जोएण ।

जुत्तो त्ति सजोगो इदि अणाइ-णिहणारिसे उत्तो' ॥ १२५ ॥

साम्प्रतमन्त्यस्य गुणस्य स्वरूपनिरूपणार्थमर्हन्मुखोद्गतार्थं . गणधरदेवग्रथित-  
शब्दसन्दर्भं प्रवाहरूपतयानिधनतामापन्नमशेषदोषव्यतिरिक्तत्वादकलङ्कमुत्तरसूत्रं पुष्पदन्त-  
भट्टारकः प्राह—

## अयोगकेवली ॥ २२ ॥

न विद्यते योगो यस्य स भवत्ययोगः । केवलमस्यास्तीति केवली । अयोगश्चासौ  
केवली च अयोगकेवली । केवलीत्यनुवर्तमाने पुनः केवलिग्रहणं न कर्तव्यमिति चेन्नैप  
दोषः, समनस्केषु ज्ञानं सर्वत्र सर्वदा मनोनिवन्धनत्वेन प्रतिपन्नं प्रतीयते च । सति चैवं  
नायोगिनां केवलज्ञानमस्ति तत्र मनसोऽसत्त्वादिति विप्रतिपन्नस्यशिष्यस्य तदस्तित्व-

हो गया है, और जिसने नव केवल-लब्धियोंके प्रगट होनेसे 'परमात्मा' इस संज्ञाको प्राप्त कर  
लिया है, वह इन्द्रिय आदिकी अपेक्षा न रखनेवाले ऐसे असहाय ज्ञान और दर्शनसे युक्त  
होनेके कारण केवली, तीनों योगोंसे युक्त होनेके कारण सयोगी और घाति-कर्मोंसे रहित  
होनेके कारण जिन कहा जाता है, ऐसा अनादिनिधन आर्पण कहा है ॥ १२४, १२५ ॥

अब पुष्पदन्त भट्टारक अन्तिम गुणस्थानके स्वरूपके निरूपण करनेके लिये, अर्थ-  
रूपसे अरहंत-परमेष्ठीके मुखसे निकले हुए, गणधरदेवके द्वारा श्रुते गये शब्द-रचनावाले,  
प्रवाहरूपसे कभी भी नाशको नहीं प्राप्त होनेवाले और संपूर्ण दोषोंसे रहित होनेके कारण  
निर्दोष, ऐसे आगेके सूत्रको कहते हैं—

सामान्यसे अयोगकेवली जवि होते हैं ॥ २२ ॥

जिसके योग विद्यमान नहीं है उसे अयोग कहते हैं । जिसके केवलज्ञान पाया जाता  
है उसे केवली कहते हैं । जो योग रहित होते हुए केवली होता है उसे अयोगकेवली कहते हैं ।

शंका—पूर्वसूत्रसे केवली पदकी अनुवृत्ति होने पर इस सूत्रमें फिरसे केवली  
पदका ग्रहण नहीं करना चाहिये ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, समनस्क जीवोंके सर्व-देश और  
सर्व-कालमें मनके निमित्तसे उत्पन्न होता हुआ ज्ञान प्रतीत होता है, इसप्रकारके नियमके  
मान लेने पर, अयोगियोंके केवलज्ञान नहीं होता है, क्योंकि, वहां पर मन नहीं पाया जाता  
है । इसप्रकार विवादग्रस्त शिष्यको अयोगियोंमें केवलज्ञानके अस्तित्वके प्रतिपादनके लिये

१ गो. जी. ६४.

२ योगः अस्यास्तीति योगी, न योगी अयोगी, अयोगी केवलिजिनः इत्यनुवर्तमान् अयोगी चासौ  
केवलिजिनश्च अयोगिकेवलिजिनः । गो. जी., जी. प्र., टी १९.

प्रतिपादनफलत्वात् । कथं वचनात्तदस्तित्वमवगम्यत इति चेच्चक्षुषा स्तम्भादेरस्तित्वं कथमवगम्यते ? तत्प्रमाणत्वान्यथानुपपत्तेश्चक्षुषा समुपलब्धमस्तीति चेत्तर्ह्यत्रापि वचनस्य प्रामाण्यान्यथानुपपत्तेः समस्ति वचने वाच्यमिति समानमेतत् । वचनस्य प्रामाण्यमसिद्धं तस्य क्वचिद् विसंवाददर्शनादिति चेन्न, चक्षुषोऽपि प्रामाण्यमसिद्धं तस्य क्वचिद्विसंवाददर्शनत्वं प्रति ततोऽविशेषात् । यदविसंवादि चक्षुस्तत्प्रमाणमिति चेन्न, सर्वेषामपि चक्षुषां सर्वत्र सर्वदा अविसंवादस्यानुपलम्भात् । यत्र यदाविसंवादः समुपलभ्यते चक्षुषस्तत्र तदा तस्य प्रामाण्यमिति चेद्यदि क्वचित्कदाचिदविसंवादिनश्चक्षुषोऽपि प्रामाण्यमिष्यते दृष्टादृष्टविषये सर्वत्र सर्वदाविसंवादिनो वचनस्य प्रामाण्यं किमिति नेष्यते ?

इस सूत्रमें फिरसे केवली पदका ग्रहण किया ।

शंका—इस सूत्रमें केवली इस वचनके ग्रहण करनेमात्रसे अयोगी-जिनके केवल-ज्ञानका अस्तित्व कैसे जाना जाता है ?

समाधान—यदि यह पूछते हो तो हम भी पूछते हैं कि चक्षुसे स्तम्भ आदिके अस्तित्वका ज्ञान कैसे होता है ? यदि कहा जाय, कि चक्षु-ज्ञानमें अन्यथा प्रमाणता नहीं आ सकती, इसलिये चक्षुद्वारा गृहीत स्तम्भादिकका अस्तित्व है, ऐसा मान लेते हैं । तो हम भी कह सकते हैं, कि अन्यथा वचनमें प्रमाणता नहीं आ सकती है, इसलिये वचनके रहने पर उसका वाच्य भी विद्यमान है, ऐसा भी क्यों नहीं मान लेते हो, क्योंकि, दोनों बातें समान हैं ।

शंका—वचनकी प्रमाणता असिद्ध है, क्योंकि, कहीं पर वचनमें विसंवाद देखा जाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, इस पर तो हम भी ऐसा कह सकते हैं, कि चक्षुकी प्रमाणता असिद्ध है, क्योंकि, वचनके समान चक्षुमें भी कहीं पर विसंवाद प्रति होता है ।

शंका—जो चक्षु अविसंवादी होता है उसे ही हम प्रमाण मानते हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, किसी भी चक्षुका सर्व-देश और सर्व-कालमें अविसंवादी-पना नहीं पाया जाता है ।

शंका—जिस देश और जिस कालमें चक्षुके अविसंवाद उपलब्ध होता है, उस देश और उस कालमें उस चक्षुमें प्रमाणता रहती है ?

समाधान—यदि किसी देश और किसी कालमें अविसंवादी चक्षुके प्रमाणता मानते हो तो प्रत्यक्ष और परोक्ष विषयमें सर्व-देश और सर्व-कालमें अविसंवादी ऐसे विवक्षित वचनको प्रमाण क्यों नहीं मानते हो ।

अदृष्टविषये क्वचिद्विसंवादोपलम्भान्न तस्य सर्वत्र सर्वदा प्रामाण्यमिति चेन्न, तत्र वचनस्या-  
पराधाभावात्तत्स्वरूपानवगन्तुः पुरुषस्य तत्रापराधोपलम्भात् । न ह्यन्यदोषैरन्यः  
परिगृह्यते अव्यवस्थापत्तैः । वक्तुरेव तत्रापराधो न वचनस्येति कथमवगम्यत इति  
चेन्न, तस्यान्यस्य वा तत एव प्रवृत्तस्य पश्चादर्थप्राप्त्युपलम्भात् । अप्रतिपन्नविसंवादा-  
विसंवादस्यास्य वचनस्य प्रामाण्यं कथमवसीयत इति चेन्नैप दोषः, आर्षावयवेन प्रतिपन्ना-  
विसंवादेन सहार्षावयवस्यावयविद्वारेणापन्नैकत्वतस्तत्सत्यत्वावगतेः । इक्षुदण्डवन्नानारसः

शंका— किसी परोक्ष-विषयमें विसंवाद पाया जाता है, इसलिये सर्व-देश और सर्व-कालमें वचनमें प्रमाणता नहीं आ सकती है ?

समाधान—यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि, उसमें वचनका अपराध नहीं है, किंतु परोक्ष-विषयके स्वरूपको नहीं समझनेवाले पुरुषका ही उसमें अपराध पाया जाता है। कुछ दूसरेके दोषसे दूसरा तो पकड़ा नहीं जा सकता है, अन्यथा अव्यवस्था प्राप्त हो जायगी।

शंका— परोक्ष-विषयमें जो विसंवाद उत्पन्न होता है, इसमें वक्ताका ही दोष है वचनका नहीं, यह कैसे जाना ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, उसी वचनसे पुनः अर्थके निर्णयमें प्रवृत्ति करनेवाले उसी अथवा किसी दूसरे पुरुषके दूसरी बार अर्थकी प्राप्ति बराबर देखी जाती है। इससे ज्ञात होता है कि जहां पर तत्त्व-निर्णयमें विसंवाद उत्पन्न होता है वहां पर वक्ताका ही दोष है, वचनका नहीं।

शंका— जिस वचनकी विसंवादिता या अविसंवादिताका निर्णय नहीं हुआ उसकी प्रमाणताका निश्चय कैसे किया जाय ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, जिसकी अविसंवादिताका निश्चय हो गया है ऐसे आर्षके अवयवरूप वचनके साथ विवक्षित आर्षके अवयवरूप वचनके भी अवयवीकी अपेक्षा एकपना बन जाता है, इसलिये विवक्षित अवयवरूप वचनकी सत्यताका ज्ञान हो जाता है।

विशेषार्थ—जितने भी आर्ष-वचन हैं वे सब आर्षके अवयव हैं, इसलिये आर्षमें प्रमाणता, होनेसे उसके अवयवरूप सभी वचनोंमें प्रमाणता आ जाती है।

शंका—जिसप्रकार गन्ना नाना रसवाला होता है, उसके ऊपरके भागमें भिन्न प्रकारका रस पाया जाता है, मध्यके भागमें भिन्न प्रकारका और नीचेके भागमें भिन्न प्रकारका रस पाया जाता है, उसीप्रकार अवयवरूप आर्ष-वचनको भी अनेक प्रकारका मान

किन्न स्यादिति चेन्न, वाच्यवाचकभेदेन तस्य नानात्वाभ्युपगमात् । तद्वत्सत्यासत्यकृत-  
भेदोऽपि तस्यास्त्विति चेन्न, अवयविद्वारेणैकस्य प्रवाहरूपेणापौरुषेयस्यागमस्यासत्यत्व-  
विरोधात् । अथवा न तावदयं वेदः स्वस्यार्थं स्वयमाचष्टे सर्वेषामपि तदवगमप्रसङ्गात् ।  
अस्तु चेन्न चैवं, तथानुपलम्भात् ।

अथान्ये व्याचक्षते, तेषां तदर्थविषयपरिज्ञानमस्ति वा नेति विकल्पद्वयावतारः ?  
न द्वितीयविकल्पस्तदर्थवगमरहितस्य व्याख्यातृत्वविरोधात् । अविरोधे वा सर्वः सर्वस्य  
व्याख्यातास्त्वज्ञत्वं प्रत्यविशेषात् । प्रथमविकल्पेऽसौ सर्वज्ञो वा स्यादसर्वज्ञो वा ? न  
द्वितीयविकल्पः, ज्ञानविज्ञानविरहादप्राप्तप्रामाण्यस्य व्याख्यातृवचनस्य प्रामाण्याभावात् ।  
लेना चाहिये ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, वाच्य-वाचकके भेदसे उसमें नानापना माना ही गया है ।

शंका— जिसप्रकार वाच्य-वाचकके भेदसे आर्ष-वचनोंमें भेद माना जाता है, उसी-  
प्रकार वचनोंमें सत्य-असत्यकृत भी भेद मान लेना चाहिये ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, अवयवीरूपसे प्रवाह-क्रमसे आये हुए अपौरुषेय  
एक आगममें असत्यपना स्वीकार करनेमें विरोध आता है ।

अथवा, यह वेद ( आगम ) अपने वाच्यभूत अर्थको स्वयं नहीं कहता है । यदि वह  
स्वयं कहने लगे तो सभीको उसका ज्ञान हो जानेका प्रसंग आ जायगा, इसलिये भी वक्ताके  
द्रोपसे वचनमें द्रोष मानना चाहिये ।

शंका— यदि सभीको वेदका ज्ञान स्वयं हो जाय तो इसमें क्या हानि है ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, इसप्रकारकी उपलब्धि नहीं होती है ।

कोई लोग ऐसा व्याख्यान करते हैं कि वक्ताओंको वेदके वाच्यभूत विषयका परि-  
ज्ञान है या नहीं ? इसतरह दो विकल्प उत्पन्न होते हैं । इनमेंसे दूसरा विकल्प तो बन  
नहीं सकता है, क्योंकि जो वेदके अर्थ-ज्ञानसे रहित है, उसको वेदका व्याख्याता माननेमें  
विरोध आता है । यदि कहो कि इसमें कोई विरोध नहीं है, तो सबको संपूर्ण शास्त्रोंका  
व्याख्याता हो जाना चाहिये, क्योंकि, अज्ञपना सभीके बराबर है । यदि प्रथम विकल्प लेते  
हो कि वक्ताको वेदके अर्थका ज्ञान है, तो वह वक्ता सर्वज्ञ है कि असर्वज्ञ ? इनमेंसे दूसरा  
विकल्प तो माना नहीं जा सकता, क्योंकि, ज्ञान-विज्ञानसे रहित होनेके कारण जिसने स्वयं  
प्रमाणताको प्राप्त नहीं किया ऐसे व्याख्याताके वचन प्रमाणरूप नहीं हो सकते हैं ।

१ अकृत्रिमाम्नायो न स्वयं स्वार्थं प्रकाशयितुमीशस्तदर्थविप्रतिपत्त्यभावानुषंगीदिति तद्व्याख्यातानुमन्तव्यः ।  
रा च यदि सर्वज्ञो वीतरागश्च स्यात्तदाम्नायस्य तत्परतंत्रतया प्रवृत्तैः किमकृत्रिमत्वकारणं पोष्यते । तद्व्याख्यातुर-  
सर्वज्ञत्वे रागित्वे वाश्रीयमाणे तन्मूलस्य सूत्रस्य नैव प्रमाणता युक्ता तस्य विप्रलम्भनात् । त. श्लो. वा. पृ. ७.

२ स पुरुषोऽसर्वज्ञो रागादिमांश्च यदि तदा तद्व्याख्यानादर्थनिश्चयानुपपत्तिरयथार्थाभिधानशंकनात् ।  
सर्वज्ञो वीतरागश्च न सोऽनेदानामिष्टो यतस्तदर्थनिश्चयः स्यादिति । त. श्लो. वा. पृ. ८.

भवतु तस्य तद्वचनस्य चाप्रामाण्यम्, नागमस्य पुरुषव्यापारनिरपेक्षत्वादिति चेन्न, व्याख्यातारमन्तरेण स्वार्थाप्रतिपादकस्य तस्य व्याख्यात्रधीनवाच्यवाचकभावस्य पुरुषव्यापारनिरपेक्षत्वविरोधात् । तस्मादागमः पुरुषेच्छातोऽर्थप्रतिपादक इति प्रतिपत्तव्यम् । तथा च 'वक्तृप्रामाण्याद्वचनप्रामाण्यम्' इति न्यायादप्रमाणपुरुषव्याख्यातार्थ आगमोऽप्रमाणतां कथं नास्कन्देत् ? तस्माद् विगतदोषावरणत्वात् प्राप्ताशेषवस्तुविषयबोधस्तस्य व्याख्यातेति प्रतिपत्तव्यम्, अन्यथास्यापौरुषेयत्वस्यापि पौरुषेयवदप्रामाण्यप्रसङ्गात् । असर्वज्ञानां व्याख्यातृत्वाभावे आर्षसन्ततेर्विच्छेदस्यार्थशून्याया वचनपद्धतेरार्पत्वाभावादिति चेन्न, इष्टत्वात् । नाप्यर्षसन्ततेर्विच्छेदो विगतदोषावरणार्हद्व्याख्यातार्थस्यार्पस्य चतुरमलबुद्धयतिशयोपेतनिर्दोषगणभृद्वधारितस्य ज्ञानविज्ञानसम्पन्नगुरुपर्वक्रमेणायत्स्याविनष्टप्राक्तनवाच्यवाचकभावस्य विगतदोषावरणनिष्प्रतिपक्षसत्यस्वभावपुरुषव्याख्यात-

शंका—असर्वज्ञ वक्ता और उसके वचनको अप्रमाणता भले ही मान ली जाय, परंतु आगममें अप्रमाणता नहीं मानी जा सकती, क्योंकि, आगम पुरुषके व्यापारकी अपेक्षासे रहित है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, व्याख्याताके बिना वेद स्वयं अपने विषयका प्रतिपादक नहीं है, इसलिये उसका वाच्य-वाचकभाव व्याख्याताके आधीन है । अतएव वेदमें पुरुष व्यापारकी निरपेक्षता नहीं बन सकती है । इसलिये आगम पुरुषकी इच्छासे अर्थका प्रतिपादक है, ऐसा समझना चाहिये । दूसरे 'वक्ताकी प्रमाणतासे वचनमें प्रमाणता आती है' इस न्यायके अनुसार अप्रमाणभूत पुरुषके द्वारा व्याख्यान किया गया आगम अप्रमाणताको कैसे प्राप्त नहीं होगा, अर्थात् अवश्य प्राप्त होगा ? इसलिये जिसने, संपूर्ण भावकर्म और द्रव्यकर्मको दूर कर देनेसे संपूर्ण वस्तु-विषयक ज्ञानको प्राप्त कर लिया है, वही आगमका व्याख्याता हो सकता है, ऐसा समझना चाहिये । अन्यथा पौरुषेयत्व-रहित इस आगमको भी पौरुषेय आगमके समान अप्रमाणताका प्रसंग आ जायगा ।

शंका—असर्वज्ञको व्याख्याता नहीं मानने पर भी आर्ष-परंपराके विच्छेदको या अर्थ-शून्य वचन-रचनाको आर्षपना प्राप्त नहीं हो सकता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, वैसा तो हम मानते ही हैं । अर्थात् आर्ष-परंपराके विच्छेदको या अर्थशून्य वचन-रचनाको हमारे यहां आगमरूपसे प्रमाण नहीं माना है ।

दूसरे हमारे यहां आर्ष-परंपराका विच्छेद भी नहीं है, क्योंकि, जिसका दोष और आवरणसे रहित अरहंत परमेष्ठीने अर्थरूपसे व्याख्यान किया है, जिसको चार निर्मल बुद्धिरूप अतिशयसे युक्त और निर्दोष गणधरदेवने धारण किया है, जो ज्ञान-विज्ञान संपन्न गुरुपरंपरासे चला आ रहा है, जिसका पहलेंका वाच्य-वाचकभाव अभी तक नष्ट नहीं हुआ है और जो दोषावरणसे रहित तथा निष्प्रतिपक्ष सत्य-स्वभाववाले पुरुषके द्वारा व्याख्यात होनेसे श्रद्धाके

त्वेन श्रद्धाप्यमानस्योपलम्भात् । अप्रमाणमिदानीन्तन आगमः आरातीयपुरुषव्याख्या-  
तार्थत्वादिति चेन्न, ऐदंयुगीनज्ञानविज्ञानसम्पन्नतया प्राप्तप्रामाण्यैराचार्यैर्व्याख्यातार्थ-  
त्वान् । कथं छद्मस्थानां सत्यवादित्वमिति चेन्न, यथाश्रुतव्याख्यातृणां तदविरोधात् ।  
प्रमाणीभूतगुरुपर्वक्रमेणायातोऽयमर्थ इति कथमवसीयत इति चेन्न, दृष्टविषये सर्वत्राविसंवा-  
दात्, अदृष्टविषयेऽप्यविसंवादिनागमभावेनैकत्वे सति सुनिश्चितासम्भवद्वाधकप्रमाणत्वात्,  
ऐदंयुगीनज्ञानविज्ञानसम्पन्नभूयसामाचार्याणामुपदेशाद्वा तदवगतेः । न च भूयांसः  
साधवो विसंवदन्ते तथान्यत्रानुपलम्भात् । प्रमाणपुरुषव्याख्यातार्थत्वात् स्थितं वचनस्य  
प्रामाण्यम् । ततो मनसोऽभावेऽप्यस्ति केवलज्ञानमिति सिद्धम् । अथवा न केवलज्ञानं

योग्य है ऐसे आगमकी आज भी उपलब्धि होती है ।

शंका—आधुनिक आगम अप्रमाण है, क्योंकि, अर्चाचीन पुरुषोंने इसके अर्थका  
व्याख्यान किया है ?

समाधान—यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि, इस कालसंबन्धी ज्ञान-विज्ञानसे  
सहित होनेके कारण प्रमाणताको प्राप्त आचार्योंके द्वारा इसके अर्थका व्याख्यान किया गया  
है, इसलिये आधुनिक आगम भी प्रमाण है ।

शंका—छद्मस्थानोंके सत्यवादीपना कैसे माना जा सकता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, श्रुतके अनुसार व्याख्यान करनेवाले आचार्योंके प्रमाणता  
माननेमें कोई विरोध नहीं है ।

शंका—आगमका यह विवक्षित अर्थ प्रामाणिक गुरुपरंपराके क्रमसे आया हुआ है,  
यह कैसे निश्चय किया जाय ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, प्रत्यक्षभूत विषयमें तो सब जगह विसंवाद उत्पन्न नहीं  
होनेसे निश्चय किया जा सकता है । और परोक्ष विषयमें भी, जिसमें परोक्ष-विषयका वर्णन  
किया गया है वह भाग अविस्वादी आगमके दूसरे भागोंके साथ आगमकी अपेक्षा एकताको  
प्राप्त होने पर, अनुमानादि प्रमाणोंके द्वारा बाधक प्रमाणोंका अभाव सुनिश्चित होनेसे उसका  
निश्चय किया जा सकता है । अथवा, आधुनिक ज्ञान-विज्ञानसे युक्त अनेक आचार्योंके उपदेशसे  
उसकी प्रमाणता जानना चाहिये । और बहुतसे साधु इस विषयमें विसंवाद नहीं करते हैं,  
क्योंकि, इसतरहका विसंवाद कहीं पर भी नहीं पाया जाता है । अतएव आगमके अर्थके  
व्याख्याता प्रामाणिक पुरुष हैं इस बातके निश्चित हो जानेसे आर्ष-वचनकी प्रमाणता भी सिद्ध  
हो जाती है । और आर्ष-वचनकी प्रमाणताके सिद्ध हो जानेसे मनके अभावमें भी केवलज्ञान  
होता है यह बात भी सिद्ध हो जाती है ।

अथवा, केवलज्ञान मनसे उत्पन्न होता हुआ न तो किसीने उपलब्ध किया और न

१ यथा बाधुना चोस्मदादीनां प्रलक्षादिति न तद्विधकं तथान्यत्रान्यद्वान्येषां च विशेषाणावादिति सिद्धं  
सुनिश्चितासम्भवद्वाधकत्वस्य तथ्यता साधयति । त. श्लो. वा. पृ. ७.



मनसः समुत्पद्यमानमुपलब्धं श्रुतं वा, येनैपारेकोत्पद्येत । क्षायोपशमिको हि बोधः क्वचिन्मनस उत्पद्यते । मनसोऽभावाद्भवतु तस्यैवाभावः, न केवलस्य तस्मात्तस्योत्पत्तेरभावात् । सयोगस्य केवलिनः केवलं मनसः समुत्पद्यमानं समुपलभ्यत इति चेन्न, स्वावरणक्षयादुत्पन्नस्याक्रमस्य पुनरुत्पत्तिविरोधात् । ज्ञानत्वान्मत्यादिज्ञानवत्कारकमपेक्षते केवलमिति चेन्न, क्षायिकक्षायोपशमिकयोः साधर्म्याभावात् । प्रतिक्षणं विवर्तमानानर्थानपरिणामि केवलं कथं परिछिनत्तीति चेन्न, ज्ञेयसमविपरिवर्तिनः केवलस्य तद्विरोधात् । ज्ञेयपरतन्त्रतया विपरिवर्तमानस्य केवलस्य कथं पुनर्नैवोत्पत्तिरिति चेन्न, केवलोपयोगसामान्यापेक्षया तस्योत्पत्तेरभावात् । विशेषापेक्षया च नेन्द्रियालोकमनोभ्यस्तदुत्पत्तिर्विगतावरणस्य तद्विरोधात् । केवलमसहायत्वान्न तत्सहायमपेक्षते

किसीने सुना ही, जिससे कि यह शंका उत्पन्न हो सके । क्षायोपशमिक ज्ञान अवश्य ही कहीं पर ( संज्ञी पंचेन्द्रियोंमें ) मनसे उत्पन्न होता है । इसलिये अयोगकेवलीके मनका अभाव होनेसे क्षायोपशमिक ज्ञानका ही अभाव सिद्ध होगा, न कि केवलज्ञानका, क्योंकि, अयोगकेवलियोंके मनसे केवलज्ञानकी उत्पत्ति नहीं होती है ।

शंका—सयोगकेवलीके तो केवलज्ञान मनसे उत्पन्न होता हुआ उपलब्ध होता है ?

समाधान—यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि, जो ज्ञान ज्ञानावरण कर्मके क्षयसे उत्पन्न है और जो अक्रमवर्ती है, उसकी मनसे पुनः उत्पत्ति मानना विरुद्ध है ।

शंका—जिसप्रकार मति आदि ज्ञान, स्वयं ज्ञान होनेसे अपनी उत्पत्तिमें कारककी अपेक्षा करते हैं, उसीप्रकार केवलज्ञान भी ज्ञान है, अतएव उसे भी अपनी उत्पत्तिमें कारककी अपेक्षा करनी चाहिये ।

समाधान—नहीं, क्योंकि, क्षायिक और क्षायोपशमिक ज्ञानमें साधर्म्य नहीं पाया जाता है ।

शंका—अपरिवर्तनशील केवलज्ञान प्रत्येक समयमें परिवर्तनशील पदार्थोंको कैसे जानता है ?

समाधान—ऐसी शंका ठीक नहीं है, क्योंकि, ज्ञेय पदार्थोंको जाननेके लिये तदनुकूल परिवर्तन करनेवाले केवलज्ञानके ऐसे परिवर्तनके मान लेनेमें कोई विरोध नहीं आता है ।

शंका—ज्ञेयकी परतन्त्रतासे परिवर्तन करनेवाले केवलज्ञानकी फिरसे उत्पत्ति क्यों नहीं मानी जाय ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, केवलज्ञानरूप उपयोग-सामान्यकी अपेक्षा केवलज्ञानकी पुनः उत्पत्ति नहीं होती है । विशेषकी अपेक्षा उसकी उत्पत्ति होते हुए भी वह ( उपयोग ) इन्द्रिय, मन और आलोकसे उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि, जिसके ज्ञानावरणादि कर्म नष्ट हो गये हैं ऐसे केवलज्ञानमें इन्द्रियादिककी सहायता माननेमें विरोध आता है ।

दूसरी बात यह है कि केवलज्ञान स्वयं असहाय है, इसलिये वह इन्द्रियादिकोंकी

स्वरूपहानिप्रसङ्गात् । प्रमेयमपि मैवमैक्षिष्टासहायत्वादिति चेन्न, तस्य तत्स्वभावत्वात् । न हि स्वभावाः परपर्यनुयोगार्हाः अव्यवस्थापत्तेरिति । पञ्चसु गुणेषु कोऽत्र गुण इति चेत्क्षीणाशेषघातिकर्मत्वान्निरस्यमानाघातिकर्मत्वाच्च क्षायिको गुणः । उक्तं च—

सेलेसि<sup>३</sup> संपतो गिरुद्ध-णिस्सेस-आसवो जीवो ।

कम्म-रय-त्रिप्पमुक्को गय-जेगो केवली होई<sup>४</sup> ॥ १२६ ॥

मोक्षस्य सोपानीभूतानि चतुर्दश गुणस्थानानि प्रतिपाद्य संसारातीतगुणप्रतिपादनार्थमाह—

सहायताकी अपेक्षा नहीं करता है, अन्यथा ज्ञानके स्वरूपकी हानिका प्रसंग आ जायगा ।

शंका—यदि केवलज्ञान असहाय है तो वह प्रमेयको भी मत जाने ?

समाधान—ऐसा नहीं है, क्योंकि, पदार्थोंको जानना उसका स्वभाव है । और वस्तुके स्वभाव दूसरोंके प्रश्नोंके योग्य नहीं हुआ करते हैं । यदि स्वभावमें भी प्रश्न होने लगे तो फिर वस्तुओंकी व्यवस्था ही नहीं बन सकेगी ।

शंका—पांच प्रकारके भावोंमेंसे इस गुणस्थानमें कौनसा भाव है ?

समाधान—संपूर्ण घातिया कर्मोंके क्षीण हो जानेसे और थोड़े ही समयमें अघातिया कर्मोंके नाशको प्राप्त होनेवाले होनेसे इस गुणस्थानमें क्षायिक भाव है । कहा भी है—

जिन्होंने अठारह हजार शीलके स्वामीपनेको प्राप्त कर लिया है, अथवा जो मेरुके समान निष्कम्प अवस्थाको प्राप्त हो चुके हैं, जिन्होंने संपूर्ण आश्रवका निरोध कर दिया है, जो नूतन बंधनेवाले कर्म-रजसे रहित हैं, और जो मन, वचन तथा काय योगसे रहित होते हुए केवलज्ञानसे विभूषित हैं उन्हें अयोगकेवली परमात्मा कहते हैं ॥ १२६ ॥

मोक्षके सोपानीभूत चौदह गुणस्थानोंका प्रतिपादन करके अब संसारसे अतीत गुणस्थानके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

१ विशेषजिज्ञासुभिः अष्टसहस्री पृ. २३६-२३७. प्रमेयकमलमार्तण्डः पृ. ११२-११६. दृष्टव्यः ।

२ प्रतिपु ' माक्षिष्ट ' इति पाठः ।

३ शिलामिनिर्वृतः शिलानां वाऽयमिति शैलस्तेपामीशः शैलेशो मेरुः शैलेशस्यैवं, स्थिरता-साम्यात् परमशुक्लध्याने वर्तमानः शैलेशीमानभिधीयते, अमेदोपचारात् स एव शैलेशी, मेरुस्त्रिप्रकम्पो यस्यामवस्थायां सा शैलेश्यवस्था । अथवा पूर्वमस्थिरतयाऽशैलेशो भूत्वा पश्चात्स्थिरतयैव यस्यामवस्थायां शैलेशानुकारी भवति स सा । अथवा सेलेसी होई XX सोऽतिथिरताए सेलेव्व इसीति स ऋषिः स्थिरतया शैल इव भवति । अथवा सेलेसी भण्णइ सेलेसी होइ मागधदेशीसाषया से-सो अलेसीभवति तस्यामवस्थायां, अकारलोपात् । अथवा सेलेसो-निश्चयतः शीलं समाधानं, स च सर्वसंवरस्तस्येशः, तस्य शैलेशस्य याऽवस्था सा शैलेशी अवस्थोच्यते । वि. मा. क्रो. वृ. पृ. ८६६.

४ गो. जी. ६५. तत्र ' सीलेसि ' इति पाठः । शीलानां अष्टादशसहस्रसंख्यानां ऐशं ईश्वरत्वं स्वामित्वं संप्राप्तः । सं. प्र. टी. . . .

## सिद्धा चेदि ॥ २३ ॥

सिद्धाः निष्ठिताः निष्पन्नाः कृतकृत्याः सिद्धसाध्या इति यावत् । निराकृताशेष-  
कर्माणो बाह्यार्थनिरपेक्षानन्तानुपमसहजाप्रतिपक्षसुखाः निरुपलेपाः अविचलितस्वरूपाः  
सकलावगुणातीताः निःशेषगुणनिधानाः चरमदेहात्किञ्चिन्न्यूनस्वदेहाः कोशविनिर्गत-  
सायकोपमाः लोकशिखरनिवासिनः सिद्धाः । उक्तं च—

अद्विविह-कम्म-विजुदा सीदीभूदा गिरंजणा णिच्चा ।

अद्व-गुणा किदकिच्चा लोयग-णिवासिणो सिद्धा ॥ १२७ ॥

सव्वत्थ अत्थि च्चि संबंधो कायव्वो । 'च' सद्दो समुच्चयट्ठो । 'इदि' सद्दो एत्तिया-  
णि च्चव गुणट्ठाणाणि च्चि गुणट्ठाणाणं समत्ति-वाचओ ।

सामान्यसे सिद्ध जीव होते हैं ॥ २३ ॥

सिद्ध, निष्ठित, निष्पन्न, कृतकृत्य और सिद्धसाध्य ये एकार्थवाची नाम हैं । जिन्होंने  
समस्त कर्मोंका निराकरण कर दिया है, जिन्होंने बाह्य प्रदार्थोंकी अपेक्षा रहित, अनन्त,  
अनुपम, स्वाभाविक और प्रतिपक्षरहित सुखको प्राप्त कर लिया है, जो निर्लेप हैं, अचल  
स्वरूपको प्राप्त हैं, संपूर्ण अवगुणोंसे रहित हैं, सर्व गुणोंके निधान हैं, जिनका स्वदेह अर्थात्  
आत्माका आकार चरम शरीरसे कुछ न्यून है, जो कोशसे निकले हुए वाणके समान विनिःसंग  
हैं और लोकके अग्रभागमें निवास करते हैं उन्हें सिद्ध कहते हैं । कहा भी है—

जो ज्ञानाचरणादि आठ कर्मोंसे सर्वथा मुक्त हैं, सुनिर्वृत (सब प्रकारकी शीतलतासे  
युक्त) हैं, निरंजन हैं, नित्य हैं, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, अव्यावाध, अवगाहन, सूक्ष्मत्व और  
अगुरुलघु इन आठ गुणोंसे युक्त हैं, कृतकृत्य हैं और लोकके अग्रभागमें निवास करते हैं  
उन्हें सिद्ध कहते हैं ॥ १२७ ॥

'अत्थि मिच्छाइट्ठी' इस सूत्रसे लेकर 'सिद्धा चेदि' इस सूत्र पर्यन्त सब जगह  
'अस्ति' पदका संबन्ध कर लेना चाहिये । 'सिद्धा चेदि' इस सूत्रमें आया हुआ 'च'  
शब्द समुच्चयरूप अर्थका वाचक है और 'इति' शब्द, गुणस्थान इतने ही होते हैं इससे  
कम या अधिक नहीं, इसप्रकार गुणस्थानोंकी समाप्तिका वाचक है ।

१. गो. जी. ६८ 'अद्विविहकम्मविजुदा' अनेन संसारिजिवस्य मुक्तिर्नास्तीति याज्ञिकमतं, सर्वदा कर्ममल्लर-  
स्पृष्टत्वेन सदा मुक्त एव सदैवेश्वर इति सदाशिवमतं च अप्राप्तं । 'सीदीभूदा' अनेन मुक्तौ आत्मनः सुखाभावं  
वदन् सांख्यमतमपाकृतं । 'गिरंजणा' अनेन मुक्तात्मनः पुनः कर्माजनसंसर्गेण संसारोऽस्तीति वदन् मस्करीदर्शनं  
प्रत्याख्यातं । 'णिच्चा' अनेन प्रतिक्षणं त्रिनश्वरचित्पर्याया एव एकसंतानवर्तिनः परमार्थतो  
नित्यद्रव्यं नेति वदतीति बौद्धप्रत्ययस्या प्रतिव्यूढा । 'अद्वगुणा' अनेन ज्ञानादिगुणानामत्यन्तोच्छित्तिरात्मनो  
मुक्तिरिति वदन्त्रैयायिकवैशेषिकाभिप्रायः प्रत्युक्तः । 'किदकिच्चा' अनेन ईश्वरः सदा मुक्तोऽपि जगन्निर्माणे कृता-  
दरत्वेनाकृतकृत्य इति वददीश्वरसृष्टिवादाकृतम् निराकृतम् । 'लोयगणिवासिणो' अनेन आत्मनः ऊर्ध्वगमनस्वाभाव्यात्  
मुक्तावस्थायां क्वचिदपि विश्रामाभावान् उपर्युपरि गमनामिति वदन् मांडलिकमतम् प्रत्यस्तं । जी. प्र. टी.

चौदसहं गुणद्वानाणं ओष-परुवणं काऊण आदेश-परुवणं सुत्तमाह—

आदेशेण गदियाणुवादेण अत्थि गिरयगदी तिरिक्खगदी  
मणुसगदी देवगदी सिद्धगदी चेदि ॥ २४ ॥

आदेशग्रहणं सामर्थ्यलभ्यमिति न वाच्यमिति चेन्न, स्पष्टीकरणार्थत्वात् । गति-  
रुक्तलक्षणा, तस्याः वदनं वादः । प्रसिद्धस्याचार्यपरम्परागतस्यार्थस्य अनु पश्चाद् वादोऽनु-  
वादः । गतेरनुवादो गत्यनुवादः, तेन गत्यनुवादेन । हिंसादिष्वसदनुष्ठानेषु व्यापृताः  
निरतास्तेषां गतिर्निरतगतिः । अथवा नरान् प्राणिनः कायति पातयति खलीकरोति इति  
नरकः कर्म, तस्य नरकस्यापत्यानि<sup>१</sup> नारकास्तेषां गतिर्नारकगतिः । अथवा यस्या उदयः  
सकलाशुभकर्मणामुदयस्य सहकारिकारणं भवति सा नरकगतिः । अथवा द्रव्यक्षेत्रकाल-

चौदह गुणस्थानोंका सामान्य प्ररूपण करके अब विशेष प्ररूपणके लिये आगेका सूत्र  
कहते हैं—

आदेश-प्ररूपणाकी अपेक्षा गत्यनुवादसे नरकगति, तिर्यचगति, मनुष्यगति, देवगति  
और सिद्धगति है ॥ २४ ॥

शंका—आदेश पदका ग्रहण सामर्थ्य-लभ्य है, इसलिये इस सूत्रमें उसका फिरसे  
ग्रहण नहीं करना चाहिये ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, स्पष्टीकरण करनेके लिये आदेश पदका सूत्रमें ग्रहण  
किया है ।

गतिका लक्षण पहले कह आये हैं । उसके कथन करनेको वाद कहते हैं । आचार्य-परं-  
परासे आये हुए प्रसिद्ध अर्थका तदनुसार कथन करना अनुवाद है । इसतरह गतिका  
आचार्य-परंपराके अनुसार कथन करना गत्यनुवाद है, उससे अर्थात् गत्यनुवादसे नरकगति  
आदि गतियां होती हैं । जो हिंसादिक असमीचीन कार्योंमें व्यापृत हैं उन्हें निरत कहते हैं,  
और उनकी गतिको निरतगति कहते हैं । अथवा, जो नर अर्थात् प्राणियोंको काता हैं  
अर्थात् गिराता है, पीसता है उसे नरक कहते हैं । नरक यह एक कर्म है । इससे जिनकी  
उत्पत्ति होती है उनको नारक कहते हैं, और उनकी गतिको नारकगति कहते हैं ।  
अथवा, जिस गतिका उदय संपूर्ण अशुभ कर्मोंके उदयका सहकारी-कारण है उसे नरकगति  
कहते हैं । अथवा, जो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावमें तथा परस्परमें रत नहीं हैं, अर्थात्

१ अधस्तनसन्दर्भेण गो. जीवकाण्डस्य गा. १४७ तमस्य जी. प्र. टीका प्रायेण समाना ।

२ प्रतिपु 'अपत्य' इति पाठः ।

भावेष्वन्योन्येषु च विरताः नरताः, तेषां गतिर्नरतगतिः<sup>१</sup> । उक्तं च—

णं रमंति जदो णिच्चं दव्वे खेत्ते य काळ-भावे य ।

अण्णोण्णेहि य जम्हा तम्हा ते णारया भणिया<sup>२</sup> ॥ १२८ ॥

सकलतिर्यक्पर्यायोत्पत्तिनिमित्ता तिर्यग्गतिः । अथवा तिर्यग्गतिकर्मोदयापादित-  
तिर्यक्पर्यायकलापस्तिर्यग्गतिः । अथवा तिरो वक्रं कुटिलमित्यर्थः, तदञ्चन्ति व्रजन्तीति  
तिर्यञ्चः । तिरश्चां गतिः तिर्यग्गतिः । उक्तं च—

तिरियंति कुडिल-भावं सुवियड-सण्णा णिगिट्टमण्णाणा ।

अच्चंत-पाव-ब्रहुला तम्हा तेरिच्छया णाम<sup>३</sup> ॥ १२९ ॥

अशेषमनुष्यपर्यायनिष्पादिका मनुष्यगतिः । अथवा मनुष्यगतिकर्मोदयापादित-  
मनुष्यपर्यायकलापः कार्ये कारणोपचारान्मनुष्यगतिः । अथवा मनसा निपुणाः मनसा

प्रीति नहीं रखते हैं उन्हें नरत कहते हैं, और उनकी गतिको नरतगति कहते हैं ।  
कहा भी है—

जिस कारणसे द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावमें जो स्वयं तथा परस्परमें कर्मा भी प्रीतिको  
प्राप्त नहीं होते, इसलिये उनको नरत कहते हैं ॥ १२८ ॥

समस्त जातिके तिर्यच्चोमें उत्पत्तिका जो कारण है उसे तिर्यच्चगति कहते हैं । अथवा,  
तिर्यग्गति कर्मके उदयसे प्राप्त हुए तिर्यच-पर्यायोंके समूहको तिर्यग्गति कहते हैं । अथवा,  
तिरस्, वक्र और कुटिल ये एकार्थवाची नाम हैं, इसलिये यह अर्थ हुआ कि जो कुटिलभावको  
प्राप्त होते हैं उन्हें तिर्यच कहते हैं, और उनकी गतिको तिर्यच्चगति कहते हैं । कहा भी है—

जो मन, वचन और कायकी कुटिलताको प्राप्त हैं, जिनकी आहारादि संज्ञाएं सुव्यक्त  
हैं, जो निकृष्ट अज्ञानी हैं और जिनके अत्यधिक पापकी बहुलता पाई जावे उनको तिर्यच  
कहते हैं ॥ १२९ ॥

जो मनुष्यकी संपूर्ण पर्यायोंमें उत्पन्न कराती है उसे मनुष्यगति कहते हैं । अथवा,  
मनुष्यगति नामकर्मके उदयसे प्राप्त हुए मनुष्य-पर्यायोंके समूहको मनुष्यगति कहते हैं । यह  
लक्षण कार्यमें कारणके उपचारसे किया गया है । अथवा, जो मनसे निपुण हैं, या मनसे

१ नरकगतिसम्बन्धयन्त्रपानादिद्रव्ये तद्भूतलरूपक्षेत्रे समयादिस्वायुरवसानकाले चित्पर्यायरूपभावे । गो. जी.,  
जी. प्र., टी. १४७.

२ अथवा निर्गतोऽयः पुण्यं एभ्यस्ते निरयाः तेषां गतिः निरयगतिः । गो. जी., जी. प्र., टी. १४७.

३ गो. जी. १४७.

४ गो. जी. १४८. यस्मात्कारणात् ये जीवाः सुविवृतसंज्ञाः अगृहाहारादिप्रकटसंज्ञायुताः, प्रभावसुखद्युति-  
लेख्याविशुद्ध्यादिभिरर्थायस्त्वान्निकृष्टाः, हेयोपादेयज्ञानादिमिर्विहीनत्वादज्ञानाः, नित्यनिगोदविवक्षया अत्यन्तपापबहुलाः  
तस्मात् कारणात्ते जीवाः तिरोभावं कुटिलभावं मायापरिणामं अचंति गच्छंति इति तिर्यचो भणिता भवन्ति । जी. प्र. टी.

५ प्रतिष्ठु ' कार्यकारण ' इति पाठः ।

उत्कटा इति वा मनुष्याः, तेषां गतिः मनुष्यगतिः । उक्तं च —

मण्णंति जदो णिच्चं मणेण णिउणा मणुक्कडा जम्हा ।

मणु-उच्चमवा य सव्वे तम्हा ते माणुसा भणिया<sup>१</sup> ॥ १३० ॥

अणिमाद्यष्टगुणावष्टम्भत्रलेन दीव्यन्ति क्रीडन्तीति देवाः । देवानां गतिर्देवगतिः । अथवा देवगतिनामकर्मोदयोऽणिमादिदेवाभिधानप्रत्ययव्यवहारनिवन्धनपर्यायोत्पादको देवगतिः । देवगतिनामकर्मोदयजनितपर्यायो वा देवगतिः कार्ये कारणोपचारात् । उक्तं च —

दिव्वंति जदो णिच्चं गुणेहि अट्टहि य दव्व-भावेहि ।

भासंत-दिव्व-काया तम्हा ते वणिया देवा<sup>२</sup> ॥ १३१ ॥

सिद्धिः स्वरूपोपलब्धिः सकलगुणैः स्वरूपनिष्ठा सा एव गतिः सिद्धिगतिः ।

उत्कटा अर्थात् सूक्ष्म-विचार आदि सातिशय उपयोगसे युक्त हैं उन्हें मनुष्य कहते हैं, और उनकी गतिको मनुष्यगति कहते हैं । कहा भी है—

जिसकारण जो सदा हेय-उपादेय आदिका विचार करते हैं, अथवा, जो मनसे गुण-द्रोषादिकका विचार करनेमें निपुण हैं, अथवा, जो मनसे उत्कटा अर्थात् दूरदर्शन, सूक्ष्म-विचार, चिरकाल धारण आदि रूप उपयोगसे युक्त हैं, अथवा, जो मनुकी सन्तान हैं, इसलिये उन्हें मनुष्य कहते हैं ॥ १३० ॥

जो अणिमा आदि आठ ऋद्धियोंकी प्राप्तिके बलसे क्रीड़ा करते हैं उन्हें देव कहते हैं, और देवोंकी गतिको देवगति कहते हैं । अथवा, जो अणिमादि ऋद्धियोंसे युक्त 'देव' इस-प्रकारके शब्द, ज्ञान और व्यवहारमें कारणभूत पर्यायका उत्पादक है ऐसे देवगति नामकर्मके उदयको देवगति कहते हैं । अथवा, देवगति नामकर्मके उदयसे उत्पन्न हुई पर्यायको देवगति कहते हैं । यहां कार्यमें कारणके उपचारसे यह लक्षण किया गया है । कहा भी है—

क्योंकि वे द्रव्य और भावरूप अणिमादि आठ दिव्य गुणोंके द्वारा निरन्तर क्रीड़ा करते हैं, और उनका शरीर प्रकाशमान तथा दिव्य है, इसलिये उन्हें देव कहते हैं ॥ १३१ ॥

आत्म-स्वरूपकी प्राप्ति अर्थात् अपने संपूर्ण गुणोंसे आत्म-स्वरूपमें स्थित होनेको सिद्धि कहते हैं । ऐसी सिद्धिस्वरूप गतिको सिद्धिगति कहते हैं । (यद्यपि सूत्रमें सिद्धगति पाठ है

१ गो. जी. १४९. द्वितीयो यस्मान्छन्दोऽनर्थकः लब्धपर्याप्तकमनुष्याणां पूर्वोक्तमनुष्यलक्षणामावेऽपि मनुष्यगतिनामायुःकर्मोदयजनितत्वमात्रेणैव मनुष्यत्वमाचार्यस्येष्टं ज्ञापयति । अनर्थकानि वचनानि किंचिदिष्टं ज्ञाप-यन्त्याचार्यस्य इति न्यायात् । मं. प्र. टी.

२ अणिमा महिमा चैव गरिमा लघिमा तथा । प्राप्तिः प्राकाम्यमीशत्वं वशित्वं चाष्ट सिद्धयः ॥

३ प्रतिपु 'कार्यकारण' इति पाठः ।

४ गो. जी. १५१. तत्र 'दव्वभावेहि' इति स्थाने 'दिव्वभावेहि' इति पाठः ।

उक्तं च—

जाइ-जरा-मरण-भया संजोय-वियोय-दुखल-सण्णाओ' ।

रोगादिया य जिस्से ण संति सा होइ सिद्धगई ॥ १३२ ॥

सर्वत्रास्तीत्यभिसम्बन्धः कर्तव्यः । प्रतिज्ञावाक्यत्वाद्देतुप्रयोगः कर्तव्यः, प्रतिज्ञामात्रतः साध्यसिद्धयनुपपत्तेरिति चेन्नेदं प्रतिज्ञावाक्यं प्रमाणत्वात्, न हि प्रमाणं प्रमाणान्तरमपेक्षतेऽनवस्थापत्तेः । नास्य प्रामाण्यमसिद्धमुक्तोत्तरत्वात् ।

साम्प्रतं मार्गणैकदेशगतेरस्तित्वमभिधाय तत्र जीवसमासान्वेषणाय सूत्रमाह—

णेरइया चउ-ट्टाणेषु अत्थि मिच्छाइट्ठी सासणसम्माइट्ठी  
सम्माभिच्छाइट्ठी असंजदसम्माइट्ठि ति ॥ २५ ॥

फिर भी टीकाकारने सिद्धिगति पाठको लेकर निरुक्ति की है । ) कहा भी है—

जिसमें जन्म, जरा, मरण, भय, संयोग, वियोग, दुख, आहारादि संज्ञाएं और रोगादिक नहीं पाये जाते हैं उसे सिद्धगति कहते हैं ॥ १३२ ॥

सूत्रमें आये हुए अस्ति पदका प्रत्येक गतिके साथ संबन्ध कर लेना चाहिये ।

शंका—‘नरकगति है, तिर्यचगति है’ इत्यादि प्रतिज्ञा वाक्य होनेसे इनके अस्तित्वकी सिद्धिके लिये हेतुका प्रयोग करना चाहिये, क्योंकि, केवल प्रतिज्ञा-वाक्यसे साध्यकी सिद्धि नहीं हो सकती है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, ‘नरकगति है’ इत्यादि वचन प्रतिज्ञावाक्य न होकर प्रमाणवाक्य ( आगमप्रमाण ) हैं । जो स्वयं प्रमाणस्वरूप होते हैं वे दूसरे प्रमाणकी अपेक्षा नहीं करते हैं । यदि स्वयं प्रमाण होते हुए भी दूसरे प्रमाणोंकी अपेक्षा की जावे तो अनवस्थादोष आ जाता है । और इन वचनोंकी स्वयं प्रमाणता भी अस्तिद्ध नहीं है, क्योंकि, इस विषयमें पहले ही उत्तर दिया जा चुका है कि यह उपदेश सर्वज्ञके मुख-कमलसे प्रगट होकर आचार्यपरंपरासे चला आ रहा है, इसलिये प्रमाण ही है ।

मार्गणाके एकदेशरूप गतिका सद्भाव बताकर अब उसमें जीवसमासोंके अन्वेषणके लिये सूत्र कहते हैं—

मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि इन चार गुणस्थानोंमें नारकी होते हैं ॥ २५ ॥

१ कर्मवशाज्जीवस्य भवे भवे स्वशरीरपर्यायोत्पत्तिर्जातिः । जातस्य तथाविधशरीरपर्यायस्य वयोहान्या विशरणं जरा । स्वायुःक्षयात्तथाविधशरीरपर्यायप्राण-यागो मरण । अनर्थाशंकया अपकारकेभ्यः पलायनेच्छा भयं । क्लेशकारणानिष्टद्रव्यसंगमः संयोगः । सुखकारणेष्टद्रव्यापायो वियोगः । एतेभ्यः समुत्पन्नानि आत्मनो निमग्नरूपाणि दुःखानि । शेषास्तिस्रः आहारादिवाञ्छारूपाः संज्ञाः । गो. जी., सं. प्र., टी. १५२.

२ गो. जी. १५२.

नारकग्रहणं मनुष्यादिनिराकरणार्थम् । चतुर्ग्रहणं पञ्चादिसंख्यापोहनार्थम् । अग्निग्रहणं प्रतिपत्तिगौरवनिरासार्थम् । नारकाश्चतुर्षु स्थानेषु सन्तीत्यस्मात्सामान्यवचनात्संशयो मा जनीति तदुत्पत्तिनिराकरणार्थं मिथ्यादृष्ट्यादिगुणानां नामनिर्देशः । अस्तु मिथ्यादृष्टिगुणे तेषां सत्त्वं मिथ्यादृष्टिषु तत्रोत्पत्तिनिमित्तमिथ्यात्वस्य सत्त्वात् । नेतरेषु गुणेषु तेषां सत्त्वं तत्रोत्पत्तिनिमित्तस्य मिथ्यात्वस्यासत्त्वादिति चेन्न, आयुषो बन्धमन्तरेण मिथ्यान्वाविरतिक्रपायाणां तत्रोत्पादनसामर्थ्याभावात् । न च बद्धस्यायुषः सम्यक्त्वान्निरन्वयविनाशः आर्षविरोधात् । न हि बद्धायुषः सम्यक्त्वं संयममिव न प्रतिपद्यन्ते ष्ट्रविरोधात् । सम्यग्दृष्टीनां बद्धायुषां तत्रोत्पत्तिरस्तीति सन्ति तत्रासंयतसम्यग्दृष्टयः, न सासादनगुणवतां तत्रोत्पत्तिस्तद्गुणस्य तत्रोत्पत्त्या सह विरोधात् । तर्हि कथं तद्वतां

मनुष्यादिके निराकरण करनेके लिये सूत्रमें नारक पदका ग्रहण किया है । पांच आदि संख्याओंके निराकरण करनेके लिये 'चतुर्' पदका ग्रहण किया है । जाननेमें कठिनाई न पड़े इसलिये 'अस्ति' पदका ग्रहण किया है । नारकी चार गुणस्थानोंमें होते हैं, इस सामान्य वचनसे संशय न हो जाय कि वे चार गुणस्थान कौन कौनसे हैं, इसलिये इस संशयको दूर करनेके लिये मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थानोंका नाम-निर्देश किया है ।

शंका— मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें नारकियोंका सत्त्व रहा आवे, क्योंकि, वहां पर नारकियोंमें उत्पत्तिका निमित्त कारण मिथ्यादर्शन पाया जाता है । किंतु दूसरे गुणस्थानोंमें नारकियोंका सत्त्व नहीं पाया जाना चाहिये, क्योंकि, अन्य गुणस्थानसहित नारकियोंमें उत्पत्तिका निमित्त कारण मिथ्यात्व नहीं माना गया है ?

समाधान— ऐसा नहीं है, क्योंकि, नरकायुके बन्ध विना मिथ्यादर्शन, अविरति और कृपायकी नरकमें उत्पन्न करानेकी सामर्थ्य नहीं है । और पहले बंधी हुई आयुका पीछेसे उत्पन्न हुए सम्यग्दर्शनसे निरन्वय नाश भी नहीं होता है, क्योंकि, ऐसा मान लेने पर आर्षसे विरोध आता है । जिन्होंने नरकायुका बन्ध कर लिया है ऐसे जीव जिसप्रकार संयमको प्राप्त नहीं हो सकते हैं उसीप्रकार सम्यक्त्वको प्राप्त नहीं होते हैं, यह बात भी नहीं है, क्योंकि, ऐसा मान लेने पर भी सूत्रसे विरोध आता है ।

शंका— जिन जीवोंने पहले नरकायुका बन्ध किया और जिन्हें पीछेसे सम्यग्दर्शन उत्पन्न हुआ ऐसे बद्धायुक्त सम्यग्दृष्टियोंकी नरकमें उत्पत्ति होती है, इसलिये नरकमें असंयतसम्यग्दृष्टि भले ही पाये जावें, परंतु सासादन गुणस्थानवालोंकी ( मरकर ) नरकमें उत्पत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि सासादन गुणस्थानका नरकमें उत्पत्तिके साथ विरोध है । इसलिये सासादन गुणस्थानवालोंका नरकमें सद्भाव कैसे पाया जा सकता है ?

१ भक्तारि वि खेनाई आउगवंधेण होइ सम्भत्त । अणुवदमहच्यवाइ ण लहइ देवाउगं सोत्तु । गो. क. ३३४.

२ ण सासणो पारयापुण्णे । गो. जी. १२.८. गिरयं सासणसुरागो ण गच्छदि ति । गो. क. २६२.



तत्र सत्त्वमिति चेन्न, पर्याप्तनरकगत्या सहापर्याप्तया इव तस्य विरोधाभावात् । किमित्यपर्याप्तया विरोधश्चेत्स्वभावोऽयं, न हि स्वभावाः परपर्यनुयोगार्हाः । तर्ह्यन्यास्त्रिपि गतिष्वपर्याप्तकालेऽस्य सत्त्वं मा भूत्तेन तस्य विरोधादिति चेन्न, नारकापर्याप्तकालेनेव शेषापर्याप्तपर्यायैः सह विरोधासिद्धेः<sup>१</sup> । सम्यग्मिथ्यात्वगुणस्य पुनः सर्वदा सर्वत्रापर्याप्ताद्वाभिर्विरोधस्तत्र तस्य सत्त्वप्रतिपादकार्पाभावात् । किमित्यागमे तत्र तस्य सत्त्वं नोक्तमिति चेन्न, आगमस्यातर्कगोचरत्वात् । कथं पुनस्तयोस्तत्र सत्त्वमिति चेन्न, परिणामप्रत्ययेन तदुत्पत्तिसिद्धेः । तर्हि सम्यग्दृष्टयोऽपि तथैव सन्तीति चेन्न, इष्टत्वात् ।

समाधान—नहीं, क्योंकि, जिसप्रकार नरकगतिमें अपर्याप्त अवस्थाके साथ सासादन गुणस्थानका विरोध है, उसप्रकार पर्याप्त-अवस्था सहित नरकगतिके साथ सासादन गुणस्थानका विरोध नहीं है । अर्थात् नारकियोंके पर्याप्त अवस्थामें दूसरा गुणस्थान उत्पन्न हो सकता है । यदि कहो कि नरकगतिमें अपर्याप्त अवस्थाके साथ दूसरे गुणस्थानका विरोध क्यों है ? तो उसका यह उत्तर है, कि यह नारकियोंका स्वभाव है, और स्वभाव दूसरेके प्रदनेके योग्य नहीं होते हैं ।

शंका—यदि ऐसा है, तो अन्य गतियोंके अपर्याप्त कालमें भी सासादन गुणस्थानका सद्भाव मत होओ, क्योंकि, अपर्याप्त कालके साथ सासादन गुणस्थानका विरोध है ?

समाधान—यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि, जिसतरह नारकियोंके अपर्याप्त कालके साथ सासादन गुणस्थानका विरोध है, उसतरह शेष गतियोंके अपर्याप्त कालके साथ सासादन गुणस्थानका विरोध नहीं है । केवल सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानका तो सदा ही सभी गतियोंके अपर्याप्त कालके साथ विरोध है, क्योंकि, अपर्याप्त कालमें सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानका अस्तित्व बतानेवाले आगमका अभाव है ।

शंका—आगममें अपर्याप्त कालमें मिश्र गुणस्थानका सत्त्व क्यों नहीं बताया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, आगम तर्कका विषय नहीं है ।

शंका—तो फिर सासादन और मिश्र इन दोनों गुणस्थानोंका नरकगतिमें सत्त्व कैसे संभव है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, परिणामोंके निमित्तसे नरकगतिकी पर्याप्त अवस्थामें उनकी उत्पत्ति बन जाती है ।

शंका—तो फिर सम्यग्दृष्टि भी उसीप्रकार होते हैं, ऐसा मानना चाहिये ? अर्थात्

१ [ येरुइया ] सासणसम्भाइडिसम्भामिच्छाइडिडिणे णियमा पज्जसा । जी. सं. सू. ८०.

२ तिक्खिा XX संयुस्सा XX देवा मिच्छाइडि-सासणसम्भाइडि-असंजदसन्माइडिडिणे सिया पज्जसा सिया अपज्जसा । जी. सं. सू. ८४, ८९, ९४.

३ गरणं मरणंतसमुग्धादो वि य ण मिससमि । गो. जी. २४.

सासादनस्येव सम्यग्दृष्टेरपि तत्रोत्पत्तिर्मा भूदिति चेन्न, प्रथमपृथिव्युत्पत्तिं प्रति निषेधा-  
भावात् । प्रथमपृथिव्यामिव द्वितीयादिषु पृथिवीषु सम्यग्दृष्टयः किन्नोत्पद्यन्त इति  
चेन्न, सम्यक्त्वस्य तत्रतन्यापर्याप्ताद्भया सह विरोधात् । नोपरिमगुणानां तत्र सम्भव-  
स्तेषां संयमासंयमसंयमपर्यायेण सहात्र विरोधात् ।

तिर्यग्गतौ गुणस्थानान्वेषणार्थमुत्तरसूत्रमाह—

तिरिक्त्वा पंचसु टाणेषु अत्थि मिच्छाद्दृष्टी सासणसम्माद्दृष्टी  
सम्मामिच्छाद्दृष्टी असंजदसम्माद्दृष्टी संजदासंजदा ति ॥ २६ ॥

तिर्यग्ग्रहणं शेषगतिनिराकरणार्थम् । पञ्चसु गुणस्थानेषु सन्तीति वचनं  
पडादिसंख्याप्रतिषेधफलम् । मिथ्यादृष्ट्यादिगुणानां नामनिर्देशः सामान्यवचनतः

नरकगतिमें पर्याप्त अवस्थामें सम्यग्दर्शनकी भी उत्पत्ति मानना चाहिये ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, यह बात तो हमें इष्ट ही है, अर्थात् सातों  
पृथिवियोंकी पर्याप्त अवस्थामें सम्यग्दृष्टियोंका सद्भाव माना गया है ।

शंका—जिसप्रकार सासादनसम्यग्दृष्टि नरकमें उत्पन्न नहीं होते हैं, उसीप्रकार  
सम्यग्दृष्टियोंकी मरकर नरकमें उत्पत्ति नहीं होनी चाहिये ?

समाधान—सम्यग्दृष्टि मरकर प्रथम पृथिवीमें उत्पन्न होते हैं, इसका आगममें  
निषेध नहीं है ।

शंका—जिसप्रकार प्रथम पृथिवीमें सम्यग्दृष्टि उत्पन्न होते हैं, उसीप्रकार द्वितीयादि  
पृथिवियोंमें सम्यग्दृष्टि जीव क्यों उत्पन्न नहीं होते हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, द्वितीयादि पृथिवियोंकी अपर्याप्त अवस्थाके साथ  
सम्यग्दर्शनका विरोध है, इसलिये सम्यग्दृष्टि द्वितीयादि पृथिवियोंमें उत्पन्न नहीं होते हैं ।

इन चार गुणस्थानोंके अतिरिक्त ऊपरके गुणस्थानोंका नरकमें सद्भाव नहीं है,  
क्योंकि, संयमासंयम और संयम-पर्यायके साथ नरकगतिमें उत्पत्ति होने का विरोध है ।

अब तिर्यच्च गतिमें गुणस्थानोंके अन्वेषण करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—  
मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि और संयता-  
संयत इन पांच गुणस्थानोंमें तिर्यच्च होते हैं ॥ २६ ॥

शेष गतियोंके निराकरण करनेके लिये 'तिर्यग्' पदका ग्रहण किया है । छह गुण-  
स्थान आदिके निवारण करनेके लिये 'पांच गुणस्थानोंमें होते हैं' यह पद दिया है । 'तिर्यच्च

१ हेट्टिमल्लपुट्टवीणं जोइसिवणभवणसव्वइत्थीणं । पुण्णिदरे ण हि सम्मो ॥ गो. जी. १२८.

२ तिर्यग्गतौ तान्येव संयतासंयतस्थानाधिकानि सन्ति । स. सि. १८.

समुत्पद्यमानसंशयनिरोधार्थः । वद्वायुरसंयतसम्यग्दृष्टिसासादनानामिव न सम्यग्मिथ्यादृष्टिसंयतासंयतानां च तत्रापर्याप्तकाले सम्भवः समस्ति तत्र तेन तयोर्विरोधात् । अथ स्यात्तिर्यञ्चः पञ्चविधाः, तिर्यञ्चः पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चः पञ्चेन्द्रियपर्याप्ततिर्यञ्चः पञ्चेन्द्रियपर्याप्ततिरिश्च्यः पञ्चेन्द्रियापर्याप्ततिर्यञ्च इति । तत्र न ज्ञायते क्वेमानि पञ्च गुणस्थानानि सन्तीति ? उच्यते, न तावदपर्याप्तपञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चु पञ्च गुणाः सन्ति, लब्ध्यपर्याप्तेषु मिथ्यादृष्टिव्यतिरिक्तशेषगुणासम्भवात् । तत्कुतोऽवगम्यत इति चेत् 'पञ्चिन्द्रिय-तिरिक्ख-अपञ्चत्त-मिच्छाइट्ठी दव्व-पमाणेण केवडिया, असंखेज्जा' इदि, तत्रैकस्यैव मिथ्यादृष्टिगुणस्य संख्यायाः प्रति-

पांच गुणस्थानोंमें होते हैं' इस सामान्य वचनसे संशय उत्पन्न हो सकता है कि वे पांच गुणस्थान कौन कौन हैं, इसलिये इस संशयको दूर करनेके लिये मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थानोंका नाम-निर्देश किया है ।

जिसप्रकार वद्वायुष्क असंयतसम्यग्दृष्टि और सासादन गुणस्थानवालोंका तिर्यञ्चगतिके अपर्याप्तकालमें सद्भाव संभव है, उसप्रकार सम्यग्मिथ्यादृष्टि और संयतासंयतोंका तिर्यञ्चगतिके अपर्याप्तकालमें सद्भाव संभव नहीं है, क्योंकि, तिर्यञ्चगतिमें अपर्याप्त कालके साथ सम्यग्मिथ्यादृष्टि और संयतासंयतका विरोध है ।

शंका — तिर्यञ्च पांच प्रकारके होते हैं, सामान्य-तिर्यञ्च, पंचेन्द्रिय-तिर्यञ्च, पंचेन्द्रिय-पर्याप्त-तिर्यञ्च, पंचेन्द्रिय-पर्याप्त-तिर्यञ्चनी और पंचेन्द्रिय-अपर्याप्त-तिर्यञ्च । परंतु यह जाननेमें नहीं आया कि इन पांच भेदोंमेंसे किस भेदमें पूर्वोक्त पांच गुणस्थान होते हैं ?

समाधान—उक्त शंका पर उत्तर देते हैं कि अपर्याप्त-पंचेन्द्रिय-तिर्यञ्चोंमें तो पांच गुणस्थान होते नहीं हैं, क्योंकि, लब्ध्यपर्याप्तकोंमें एक मिथ्यादृष्टि गुणस्थानको छोड़कर शेष गुणस्थान ही असंभव हैं ।

शंका — यह कैसे जाना कि लब्ध्यपर्याप्तक पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चोंमें पहला ही गुणस्थान होता है ?

समाधान— 'पंचेन्द्रिय-तिर्यञ्च-अपर्याप्त-मिथ्यादृष्टि जीव द्रव्यप्रमाणकी अपेक्षा कितने हैं' इसप्रकारकी शंका होने पर द्रव्यप्रमाणानुगममें उत्तर दिया कि 'असंख्यात' हैं । इसतरह द्रव्यप्रमाणानुगममें लब्ध्यपर्याप्तक-पंचेन्द्रिय-तिर्यञ्चोंके एक ही मिथ्यादृष्टि-गुणस्थानकी संख्याका प्रतिपादन करनेवाला आर्षवचन मिलता है । इससे पता चलता है कि लब्ध्यपर्याप्तकोंके एक मिथ्यादृष्टि-गुणस्थान ही होता है, और शेष चार प्रकारके तिर्यञ्चोंमें पांचों ही गुणस्थान होते हैं । यदि शेषके चार भेदोंमें पांच गुणस्थान न माने जाय, तो उन चार प्रकारके तिर्यञ्चोंमें पांच गुणस्थानोंकी संख्या आदिके प्रतिपादन करनेवाले द्रव्यानुयोग

पादकार्पात् । शेषेषु पञ्चापि गुणस्थानानि सन्ति, अन्यथा तत्र पञ्चानां गुणस्थानानां संगत्यादिप्रतिपादकद्रव्याद्यार्पस्याप्रामाण्यप्रसङ्गात् । अत्र पञ्चविधास्तिर्यञ्चः किन्न निरूपिता इति चेन्न, ' आकृष्टाशेषविशेषविषयं सामान्यम् ' इति द्रव्यार्थिकनयावलम्बनात् । तिरश्चीष्वपर्याप्ताद्धायां मिथ्यादृष्टिसासादना एव सन्ति, न शेषास्तत्र तन्निरूपकार्पाभावात् । भवतु नाम सम्यग्मिथ्यादृष्टिसंयतासंयतानां तत्रासंत्वं पर्याप्ताद्धाया-भेदेति नियमोपलम्भात् । कथं पुनरसंयतसम्यग्दृष्टीनामसत्त्वमिति न, तत्रासंयतसम्यग्दृष्टीनामुत्पत्तेरभावात् । तत्कृतोऽवगम्यत इति चेत्—

लघु हेदिनासु पुढवीसु जोइस-वण-भवण-सञ्च-इत्थीसु ।

गदेसु समुण्जइ सम्माइही दु जो जीवो ॥ १३३ ॥ इत्यार्पात् ।

आदि आगममें अप्रमाणताका प्रसंग आजायगा ।

शंका—सूत्रमें तिर्यञ्चसामान्यके स्थानपर पांच प्रकारके तिर्यञ्चोंका निरूपण क्यों नहीं किया ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, ' अपनेमें संभव संपूर्ण विशेषोंको विषय करनेवाला सामान्य होता है ' इस न्यायके अनुसार द्रव्यार्थिक अर्थात् सामान्य नयके अवलम्बनसे संपूर्ण भेदोंका तिर्यञ्च-सामान्यमें अन्तर्भाव कर लिया है, अतएव पांचों भेदोंका अलग अलग निरूपण नहीं किया, किन्तु तिर्यञ्च इतना सामान्य पद दिया है ।

तिर्यञ्चनियोंके अपर्याप्तकालमें मिथ्यादृष्टि और सासादन ये दो गुणस्थानवाले ही होते हैं, शेष तीन गुणस्थानवाले नहीं होते हैं, क्योंकि, तिर्यञ्चनियोंके अपर्याप्त-कालमें शेष तीन गुणस्थानोंका निरूपण करनेवाले आगमका अभाव है ।

शंका—तिर्यञ्चनियोंके अपर्याप्तकालमें सम्यग्मिथ्यादृष्टि और संयतासंयत इन दो गुणस्थानवालोंका अभाव रहा आवे, क्योंकि, ये दो गुणस्थान पर्याप्त-कालमें ही पाये जाते हैं, ऐसा नियम मिलता है । परंतु उनके अपर्याप्त-कालमें असंयतसम्यग्दृष्टि जीवोंका अभाव कैसे माना जा सकता है ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, तिर्यञ्चनियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टियोंकी उत्पत्ति नहीं होती है, इसलिये उनके अपर्याप्त-कालमें चौथा गुणस्थान नहीं पाया जाता है ।

शंका— यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान— ' जो सम्यग्दृष्टि जीव होता है, वह प्रथम पृथिवीके बिना नीचेकी छह पृथिवियोंमें; ज्योतिषी, व्यन्तर और भवनवासी देवोंमें; और सर्व प्रकारकी स्त्रियोंमें उत्पन्न नहीं होता है ' ॥ १३३ ॥

१ पंचिदियतिरिक्खजोणिणां मिच्छाइद्विसाणसम्माइद्विद्वाने सिया पज्जत्तियाओ सिया अपज्जत्तियाओ जी. सं. सू. ८७.

२ सम्मामिच्छाइद्विसंजदसम्माइद्विसंजदासंजदद्वाने णियमा पज्जत्तियाओ । जी. सं. सू. ८८.

मनुष्यगतौ गुणस्थानान्वेषणार्थमुत्तरसूत्रमाह —

मणुस्सा चोदससु गुणद्वानेषु अत्थि मिच्छाइट्टी, सासणसम्मा-  
इट्टी, सम्मामिच्छाइट्टी, असंजदसम्माइट्टी, संजदासंजदा, पमत्तसंजदा,  
अप्पमत्तसंजदा, अपुच्चकरण-पविट्टु-सुद्धि-संजदेसु अत्थि उवसमा  
खवा, अणियट्टि-वादर-सांपराइय-पविट्टु-सुद्धि-संजदेसु अत्थि उवसमा  
खवा, सुहुम-सांपराइय-पविट्टु-सुद्धि-संजदेसु अत्थि उवसमा खवा,  
उवसंत-कसाय-वीयराय-छट्टुमत्था, खीण-कसाय-वीयराय-छट्टुमत्था,  
सजोगिकेवली, अजोगिकेवलि ति ॥ २७ ॥

एयस्स सुत्तस्स अत्थो पुच्चं उत्तो ति णेदाणिं वुच्चदे जाणिद-जाणावणे फला-  
भावादो । पुच्चमवुत्तमुवसामण-खवण-विहिं एत्थ संबद्धमुवसामण-खवण-सरूव-जाणा-  
वणदं संखेवदो भणिस्सामो । तं जहा, तत्थ ताव उवसामण-विहिं वत्तइस्सामो ।  
अणंताणुवंधि-क्रोध-माण-माया-लोभ-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-मिच्छत्तमिदि एदाओ सत्त-  
पयडीओ असंजदसम्माइट्टि-प्पहुडि जाव अप्पमत्तसंजदो ति ताव एदेसु जो वा सो वा

इस आर्ष-वचनसे जानते हैं कि असंयतसम्यग्दृष्टि जीव तिर्यचनियोंमें उत्पन्न नहीं होते हैं ।

अब मनुष्यगतिमें गुणस्थानोंके अन्वेषण करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि, संयतासंयत,  
प्रमत्तसंयत, अप्रमत्तसंयत, अपूर्वकरण-प्रविष्ट-विशुद्धि-संयतोंमें उपशमक और क्षपक, अनि-  
वृत्तिवादरसांपराय-प्रविष्ट-विशुद्धि-संयतोंमें उपशमक और क्षपक, सूक्ष्मसांपराय-प्रविष्ट-विशुद्धि-  
संयतोंमें उपशमक और क्षपक, उपशांतकपाय-वीतराग-छद्मस्थ, क्षीणकपाय-वीतराग-  
छद्मस्थ, सयोगिकेवली और अयोगिकेवली इसतरह इन चौदह गुणस्थानोंमें मनुष्य पाये  
जाते हैं ॥ २७ ॥

इस सूत्रका अर्थ पहले कहा जा चुका है इसलिये अब नहीं कहते हैं, क्योंकि,  
जिसका ज्ञान हो गया है उसका फिरसे ज्ञान करानेमें कोई विशेष फल नहीं है । पहले  
उपशमन और क्षपणविधिका स्वरूप नहीं कहा है, इसलिये उपशमक और क्षपकके स्वरूपका  
ज्ञान करानेके लिये यहां पर संबन्ध-प्राप्त उपशमन और क्षपणविधिको संक्षेपसे कहते  
हैं । वह इसप्रकार है । उसमें भी पहले उपशमनविधिको कहते हैं—

अनन्तानुवन्धी-क्रोध, मान, माया और लोभ, सम्यक्प्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व तथा

उवसामेदि' । सरूवं छुडिय अण्ण-पयडि-सरूवेणच्छणमणंताणुबंधीणमुवसमो' । दंसण-  
तियस्स उदयाभावो उवसमो' तेसिमुवसंताणं पि ओकडुक्कडुण-पर-पयडि-संकमाणमत्थि-  
त्तादो । अपुव्वकरणे ण एकं पि कम्ममुवसमदि । किंतु अपुव्वकरणो पडिसमय-  
मणंतगुण-विसोहीए वडुंतो अंतोमुहुत्तेगंतोमुहुत्तेण एक्केकं द्विदि-खंडयं घादंतो संखेज्ज-  
सहस्साणि द्विदि-खंडयाणि घादेदि, तत्तियमेत्ताणि द्विदि-बंधोसरणाणि करोदि । एक्केकं

मिथ्यात्व इन सात प्रकृतियोंका असंयतसम्यग्दृष्टिसे अप्रमत्तसंयत गुणस्थानतक इन चार  
गुणस्थानोंमें रहनेवाला कोई भी जीव उपशम करनेवाला होता है । अपने स्वरूपको छोड़कर  
अन्य प्रकृतिरूपसे रहना अनन्तानुबन्धीका उपशम है । और उदयमें नहीं आना ही दर्शन-  
मोहनीयकी तीन प्रकृतियोंका उपशम है, क्योंकि, उत्कर्षण, अपकर्षण और परप्रकृतिरूपसे  
संक्रमणको प्राप्त और उपशान्त हुई उन तीन प्रकृतियोंका अस्तित्व पाया जाता है । अपूर्वकरण  
गुणस्थानमें एक भी कर्मका उपशम नहीं होता है । किंतु अपूर्वकरण गुणस्थानवाला जीव प्रत्येक  
समयमें अनन्तगुणी विद्युद्धिसे बढ़ता हुआ एक एक अन्तर्मुहूर्तमें एक एक स्थिति-खण्डका घात  
करना हुआ संख्यात हजार स्थिति-खण्डोंका घात करता है । और उतने ही स्थिति-बंधापर-

१. वेदगसन्माइट्टी जीवो XX अणंताणुबंधी विसंजोइय अंतोमुहुत्तं अधापवत्तो होदूण पुणो पमत्तगुणं पडि-  
वच्चिन्न अत्तादभर दिसांगभजसामित्तिआदाणि कग्गाणि अंतोमुहुत्तं वंधिय दंसणमोहणीयमुवसामेदि । धवला अ. पृ. ४३६.  
वेदगसन्माइट्टी अणंताणुबंधी आविसंजोइदूण कसाए उवसामेदुं णो उवट्टादि । आविसंजोइदाणंताणुबंधिचउकस्स  
वेदगसन्माइट्टिस्स कसायोंवसामणाणिवंधणदंसणमाहोवसामणादिकिरियाए पवुत्ताए असंभवादो । जयध. अ. पृ. १००२.  
उवसामचरियाभिइहा वेदगसन्मो अणं विजाइत्ता । अंतोमुहुत्तकालं अधापवत्तो पमतो य ॥ ल. क्ष. २०५. णत्थि अणं  
उवसमणे । गो. क. ३९१. ' गिरयतिरियाउ दोण्णि वि पढमकसायाणि दसणतियाणि । हीणा एदे णेया मंगे  
एकंक्का हांति ॥ गो. क. ३८४. ' इति वचनादुपशमश्रेण्यां १४६ प्रकृतिसत्त्वस्थानस्य सद्भावादनन्तानुबन्धिचतुष्कस्य  
सत्तापि विभाष्यते, ततो ज्ञायते यद् द्वितीयोपशमसम्यक्त्वमनन्तानुबन्धिन उपशमेनापि भवति । अविरतसम्य-  
ग्दृष्टिदर्शनरतप्रमत्तचतंत्रयतानामन्यतमोऽनन्तानुबन्धुपशमना विकर्षुः XX यथाप्रवृत्तकरणमपूर्वकरणं च करोति ।  
क. प्र. पृ. २६७. वेदगसन्मदिट्टी चरित्तमोहुवसमाए चिट्ठतो । अजउ देसजई वा विरतो वा विसोहि-  
अट्टाए । क. प्र. उप. २७. चारित्रमोहर्नायस्योपशमना क्षीणसप्तकस्य वैमानिकेष्वेव वद्धायुष्कस्य  
भवति । अवद्धायुष्कस्तु क्षपकश्रेणिमारोहाति । यस्तु वेदकसम्यग्दृष्टिः सन्नुपशमश्रेणिं प्रतिपद्यते सोऽनियतो  
वद्धायुष्कांश्चवद्धायुष्कां वा । स च केपाश्विनमतेनानन्तानुबन्धिनो विसंयोइय चतुर्विंशतिसत्कर्मा सन्  
प्रतिपद्यते । केपाश्विनमतेनोपशमस्यापि, ततो विसंयोजितानन्तानुबन्धिकयाय उपशमितानंतानुबन्धिकयायो वा  
सन् दर्शनत्रितयमुपशमयति । अथवा X आदो दर्शनमोहनीयं क्षपयित्वा उपशमश्रेणिं प्रतिपद्यते, अथवा दर्शनमोहनीयं  
प्रथमतमुपशमस्यापि प्रतिपद्यते । कथमुपशमन्यत्वत आह-श्रामण्ये संयमे स्थित्वा । पं. सं. पृ. १७६.

२ तत एभिप्रिभिरपि कर्णयथोक्तक्रमेणानन्तानुबन्धिनः कयायानुपशमयति । XX एवमेकीयमतेनानन्तानु-  
बन्धिनामुपशमोऽभिहितः, अन्ये त्वनन्तानुबन्धिनां विसंयोजनामेवामिदधति । आन्चा. पृ. २७१.

३ करणपरिणामेहि निस्सत्ताकयस्स दंसणमोहणीयस्स उदयपज्ञाएण विणा अवट्टाणमुवसमो चि । जयध.

द्विदि-खंडय-कालवन्तरे संखेज्ज-सहस्साणि अणुभाग-खंडयाणि घादेदि । पडिसमयम-संखेज्जगुणाए सेठीए पदेस-णिज्जरं करेदि । जे अप्पसत्थ-कम्मसे ण वंधदि तेसिं पदेसग्ग मसंखेज्ज-गुणाए सेठीए अण्ण-पयडीसु वज्जमाणियासु संकामेदि । पुणो अपुव्वकरणं वोलेऊण अणियट्ठि-गुणद्वानं पत्तिसिउणंतोमुहुत्तमणेणेव विहाणेणच्छिय वारस-कसाय-णव-णोकसायाणमंतरं अंतोमुहुत्तेण करेदि । अंतरे कदे पढम-समयादो उवरि अंतोमुहुत्तं गंतूण असंखेज्ज-गुणाए सेठीए णउंसय-वेदमुवसामेदि । उवसमो णाम किं ? उदय-उदीरण-ओकडुकडुण-परपयाडिसंकम-द्विदि-अणुभाग-कंडयघादेहि विगा अञ्जणमुवसमो । तदो अंतोमुहुत्तं गंतूण णउंसयवेदमुवसामिद-विहाणेणित्थिवेदमुवसामेदि । तदो अंतोमुहुत्तं

.....  
 णोंको करता है । तथा एक एक स्थिति-खण्डके कालमें संख्यात हजार अनुभाग-खण्डोंका घात करता है । और प्रतिसमय असंख्यात-गुणित-श्रेणीरूपसे प्रदेशोंकी निर्जरा करता है । तथा जिन अप्रशस्त प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता है, उनकी कर्मवर्गोंको उस समय बंधनेवाली अन्य प्रकृतियोंमें असंख्यातगुणित श्रेणीरूपसे संक्रमण कर देता है । इसतरह अपूर्वकरण गुणस्थानको उल्लंघन करके और अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें प्रवेश करके, एक अन्तर्मुहूर्त पूर्वोक्त विधिसे रहता है । तत्पश्चात् एक अन्तर्मुहूर्त कालके द्वारा वारह कपाय और नौ नोकपाय इनका अन्तर ( करण ) करता है । ( नीचेके व ऊपरके निपेकोंको छोड़कर बीचके कितने ही निपेकोंके द्रव्यको अन्य निपेकोंके द्रव्यमें निक्षेपण करके बीचके निपेकोंके अभाव करनेको अन्तरकरण कहते हैं । ) अन्तरकरणविधिके हो जाने पर प्रथम समयसे लेकर ऊपर अन्तर्मुहूर्त जाकर असंख्यातगुणी श्रेणीके द्वारा नपुंसकवेदका उपशम करता है ।

शंका—उपशम किसे कहते हैं ?

समाधान—उदय, उदीरण, उत्कर्षण, अपकर्षण, परप्रकृतिसंक्रमण, स्थिति-काण्डक-घात और अनुभाग-काण्डकघातके बिना ही कर्मोंके सत्तामें रहनेको उपशम कहते हैं ।

तदनन्तर एक अन्तर्मुहूर्त जाकर नपुंसकवेदकी उपशमविधिके समान ही स्त्रीवेदका

.....  
 अ. पु. १५४. दर्शनमोहस्य प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशानामुपशमेन उदयायोग्यभावेन जावः उपशान्तः उपशमसम्य-  
 ग्दष्टिर्भवति । ल. क्ष. सं. टी. १०२.

१ अंतरं विरहो सुण्णभावो त्ति एयट्ठो तस्स करणमन्तरकरणं । हेट्ठा उवरिं च केत्तियाओ द्विदीओ मोत्तूण मच्चिद्वानं द्विदीणं अंतोमुहुत्तपमाणं णिसेगे सुण्णत्तसंपादनमंतरकरणादि । जयध. अ. प्र. १००९.

२ आत्मानि कर्मणः स्वशक्तेः कारणवशादनुद्भूतिरुपशमः । यथा कतकादिद्रव्यसंस्वन्धादम्भसि पङ्कस्योप-  
 शमः । स. सि. २. १. कर्मणोऽनुद्भूतस्ववोर्यवृत्तितोपशमोऽधःप्रापितपङ्कवत् । त. रा. २. १. १. अनुद्भूतस्वसामर्थ्य-  
 वृत्तितोपशमो मतः । कर्मणां पुंसि तोयादावधःप्रापितपङ्कवत् ॥ त. श्लो. वा. २. १. २. उपशमिता नाम यथा  
 रेणुनिकरः सलिलविन्दुनिवहैरभिषिच्यामिषिच्य दुघणादिभिर्निःकुट्टितो निस्पन्दो भवति तथा कर्मरेणुनिःस्रोऽपि विशोधि-  
 सलिलप्रवाहेण परिषिच्य परिषिच्यानिवृत्तिकरणरूपद्रुघणनिःकुट्टितः संक्रमणोदयोदीरानिधितानि कवनाकरणानाम योग्यो  
 भवति । क. प्र. पू. २६७.

गंतूण तेणेव विहिणा छण्णोकसाए पुरिसवेद-चिराण-संत-कम्मणेण सह जुगवं उवसामेदि । तत्तो उवरि समऊण-दो-आवलियाओ गंतूण पुरिसवेद-णवक-बंधमुवसामेदि । तत्तो अंतोमुहुत्तमुवरि गंतूण पडिसमयमसंखेज्जाए गुणसेठीए अपच्चक्खाण-पच्चक्खाणावरण-सण्णिदे दोण्णि वि कोधे कोध-संजलण-चिराण-संतकम्मणेण सह जुगवमुवसामेदि । तत्तो उवरि दो आवलियाओ समऊणाओ गंतूण कोध-संजलण-णवक-बंधमुवसामेदि । तदो अंतोमुहुत्तं गंतूण तेसिं चेव दुविहं माणमसंखेज्जाए गुणसेठीए माणसंजलण-चिराण-संत-कम्मणेण सह जुगवं उवसामेदि । तदो समऊण-दो-आवलियाओ गंतूण माणसंजलण-मुवसामेदि । तदो पडिसमयमसंखेज्जगुणाए सेठीए उवसामंतो अंतोमुहुत्तं गंतूण दुविहं मायं माया-संजलण-चिराण-संत-कम्मणेण सह जुगवं उवसामेदि । तदो दो आवलियाओ समऊणाओ गंतूण माया-संजलणमुवसामेदि । तदो समयं पडि असंखेज्जगुणाए सेठीए पंदेसमुवसामंतो अंतोमुहुत्तं गंतूण लोभ-संजलण-चिराण-संत-कम्मणेण सह पच्चक्खाणा-पच्चक्खाणावरण-दुविहं लोभं लोभ-वेदगद्दाए विदिय-ति-भागे सुहुमकिट्ठीओ करंतो

उपशम करता है । फिर एक अन्तर्मुहूर्त जाकर उसी विधिसे पुरुषवेदके ( एक समय कम दो आवलीमात्र नवकसमयप्रवद्धोंको छोड़कर बाकीके संपूर्ण ) प्राचीन सत्तामें स्थित कर्मके साथ छद्म नोकप्रायका उपशम करता है । इसके आगे एक समय कम दो आवली काल बिता कर पुरुषवेदके नवक समयप्रवद्धका उपशम करता है । इसके पश्चात् प्रत्येक समयमें असंख्यातगुणी श्रेणीके द्वारा संज्वलनक्रोधके एक समय कम दो आवलीमात्र नवक समयप्रवद्धको छोड़कर पहलेके सत्तामें स्थित कर्मोंके साथ अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान क्रोधोंका एक अन्तर्मुहूर्तमें एकसाथ ही उपशम करता है । इसके पश्चात् एक समय कम दो आवलीमें क्रोधसंज्वलनके नवक-समयप्रवद्धका उपशम करता है । तत्पश्चात् प्रतिसमय असंख्यातगुणी श्रेणीके द्वारा संज्वलनमानके एक समय कम दो आवलीमात्र नवक-समयप्रवद्धको छोड़कर प्राचीन सत्तामें स्थित कर्मोंके साथ अप्रत्याख्यान-प्रत्याख्यानमानका एक अन्तर्मुहूर्तमें उपशम करता है । इसके पश्चात् एक समयकम दो आवलीमात्र कालमें संज्वलनमानके नवक-समयप्रवद्धका उपशम करता है । तदनन्तर प्रतिसमय असंख्यात गुणित श्रेणीरूपसे उपशम करता हुआ, माया-संज्वलनके नवक-समयप्रवद्धको छोड़कर प्राचीन सत्तामें स्थित कर्मोंके साथ अप्रत्याख्यान-प्रत्याख्यान मायाका अन्तर्मुहूर्तमें उपशम करता है । तत्पश्चात् एक समय कम दो आवलीमात्र कालमें माया संज्वलनके नवक-समयप्रवद्धका उपशम करता है । तत्पश्चात् प्रत्येक समयमें असंख्यातगुणी श्रेणीरूपसे कर्मप्रदेशोंका उपशम करता हुआ, लोभवेदकके दूसरे त्रिभागमें सूक्ष्मकृष्टिको करता हुआ संज्वलनलोभके नवक-समयप्रवद्धको छोड़कर प्राचीन सत्तामें स्थित कर्मोंके साथ प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान इन दोनों लोभोंका एक अन्तर्मुहूर्तमें उपशम करता



उवसामेदि । सुहुमकिट्टिं मोत्तूण अवसेसो वादरलोभो फहयं गदो सव्वो णवक-  
वंधुच्छिट्ठावलिय-वज्जो अणियट्टि-चरिम-समए उवसंतो<sup>१</sup> । णवुंसयवेदप्पहुडि जाव वादर-  
लोभ-संजलणो त्ति ताव एदासिं पयडीणमणियट्टी उवसामगो होदि । तदो णंतर-समए  
सुहुमकिट्टि-सरुवं लोभं वेदंतो णट्ट-अणियट्टि-सण्णो सुहुमसांपराइओ होदि । तदो सो  
अप्पणो चरिम-समए लोह-संजलणं सुहुमकिट्टि-सरुवं णिस्सेसमुवसामिय उवसंत-कसाय-  
वीदराग-छदुमत्थो होदि<sup>२</sup> । एसा मोहणीयस्स उवसामण-विही ।

है। इसतरह सूक्ष्मकृष्टिगत लोभको छोड़कर और एक समय कम दो आचलीमात्र नचक-समयप्रवद्ध तथा उच्छिष्टावली मात्रानिपेकोको छोड़कर शेष स्पर्द्धकगत संपूर्ण वादरलोभ अनिवृत्तिकरणके चरम समयमें उपशान्त हो जाता है। इसप्रकार नपुंसकवेदसे लेकर जब तक वादर-संज्वलन-लोभ रहता है तबतक अनिवृत्तिकरण गुणस्थानवाला जीव इन पूर्वोक्त प्रकृतियोंका उपशम करनेवाला होता है। इसके अनन्तर समयमें जो सूक्ष्मकृष्टिगत लोभका अनुभव करता है और जिसने अनिवृत्ति इस संज्ञाको नष्ट कर दिया है, ऐसा जीव सूक्ष्मसांपराय गुणस्थानवर्ती होता है। तदनन्तर वह अपने कालके चरम समयमें सूक्ष्मकृष्टिगत संपूर्ण लोभ-संज्वलनका उपशम करके उपशान्तकषाय-वीतराग-छद्मस्थ होता है। इसप्रकार मोहनीयकी उपशमन-विधिका वर्णन समाप्त हुआ।

विशेषार्थ—लब्धिसार आदि ग्रन्थोंमें द्वितीयोपशम सम्यक्त्वकी उत्पत्ति अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें ही बतलाई है, किन्तु यहां पर उपशमन विधिके कथनमें उसकी उत्पत्ति असंयत-सम्यग्दृष्टिसे लेकर अप्रमत्तसंयत गुणस्थानतक किसी भी एक गुणस्थानमें बतलाई गई है। धवलामें प्रतिपादित इस मतका उल्लेख श्वेताम्बर संप्रदायमें प्रचलित कर्मप्रकृति आदि ग्रंथोंमें देखनेमें आता है।

तथा अनन्तानुबन्धीके अन्य प्रकृतिरूपसे संक्रमण होनेको ग्रन्थान्तरोंमें विसंयोजना कहा है, और यहां पर उसे उपशम कहा है। यद्यपि यह केवल शब्द भेद है, और स्वयं वीरसेन स्वामीको द्वितीयोपशम सम्यक्त्वमें अनन्तानुबन्धीका अभाव इष्ट है। फिर भी उसे विसंयोजना शब्दसे न कहकर उपशम शब्दके द्वारा कहनेसे उनका यह अभिप्राय रहा हो कि द्वितीयोपशम सम्यग्दृष्टि जीव कदाचित् मिथ्यात्व गुणस्थानको प्राप्त होकर पुनः अनन्तानुबन्धीका बन्ध करने लगता है, और जिन कर्मप्रदेशोंका उसने अन्य

१ (यत्र) स्थितिसत्त्वमावलिमात्रमवशिष्यते तदुच्छिष्टावलिसंज्ञम् । ल. क्ष. ११३.

२ ल. क्ष. २९५. संज्वलनवादरलोभस्य प्रथमस्थितौ उच्छिष्टावलिमात्रेऽवशिष्टे उपशमनावलिचरमसमये लोभत्रयद्रव्यं सर्वमप्युपशमितं भवति । तत्र सूक्ष्मकृष्टिगतद्रव्यं समयोनद्रवावलिमात्रसमयप्रवद्धनचक्रबन्धद्रव्यं उच्छिष्टावलिमात्रनिकेयद्रव्यं च नोपशमयति । एतद्द्रव्यत्रयं भुक्त्वा लोभत्रयस्य सर्वमपि सत्त्वद्रव्यमुपशमितमित्यर्थः । सं. टी.

३ विशेषनिष्ठासुभिर्लब्धिसारस्य चारित्रोपशमनविधिरवलोकनीयः । ल. क्ष. २०५-३५१.

खवण-विहिं वत्तइस्सामो । खवणं णामं किं ? अट्ठण्हं कम्मणं मूलत्तर-भेय-

प्रकृतिरूपसे संक्रमण किया था उनका फिरसे अनन्तानुबन्धीरूपसे संक्रमण हो सकता है। इस प्रकार यद्यपि द्वितीयोपशम सम्यक्त्वमें अनन्तानुबन्धीकी सत्ता नहीं रहती है, फिर भी उसका पुनः सद्भाव होना संभव है। अतः द्वितीयोपशम सम्यक्त्वमें अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना न कह कर उपशम शब्दका प्रयोग किया हो।

अथवा, द्वितीयोपशम सम्यक्त्वकी उत्पत्ति कोई आचार्य तो अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनासे मानते हैं, और दूसरे आचार्य अनन्तानुबन्धीके उपशमसे मानते हैं। इस प्रकार दो मत हैं। अनन्तानुबन्धीके उपशमका उक्त प्रकारसे लक्षण बांधते समय संभव है कि धवलाकारकी दृष्टि उक्त दोनों मतों पर रही हो।

उपशमन और क्षपण विधिमें सर्वत्र एक समय कम दो आवलीमात्र नवक-समय-प्रवद्धका उल्लेख आया है। और वहीं पर यह भी बतलाया है कि इनका प्राचीन सत्तामें स्थित कर्मोंके साथ उपशमन या क्षपण न होकर अनन्तर उतने ही कालमें एक एक निषेकके क्रमसे उपशम या क्षय होता है। इसका यह अभिप्राय है कि जिन कर्मप्रकृतियोंकी बन्ध, उदय और सत्त्व-व्युच्छित्ति एकसाथ होती है, उनके बन्ध और उदय-व्युच्छित्तिके कालमें एक समय कम दो आवलीमात्र नवक-समयप्रवद्ध रह जाते हैं, जिनकी सत्त्व-व्युच्छित्ति अनन्तर होती है। वह इस प्रकार है कि विवाक्षित ( पुरुषवेद आदि ) प्रकृतिके उपशमन या क्षपण होनेके दो आवली काल अवशिष्ट रह जाने पर द्विचरमावलीके प्रथम समयमें बंधे हुए द्रव्यका, बन्धावलीको व्यतीत करके चरमावलीके प्रथम समयसे लेकर प्रत्येक समयमें एक एक फालिका उपशम या क्षय होता हुआ चरमावलीके अन्त समयमें संपूर्णरीतिसे उपशम या क्षय होता है। तथा द्विचर-मावलीके द्वितीय समयमें जो द्रव्य बंधता है, उसका चरमावलीके द्वितीय समयसे लेकर अन्त समयतक उपशम या क्षय होता हुआ अन्तिम फालिको छोड़कर सबका उपशम या क्षय होता है। इसीप्रकार द्विचरमावलीके तृतीयादि समयमें बंधे हुए द्रव्यका बन्धावलीको व्यतीत करके चरमावलीके तृतीयादि समयसे लेकर एक एक फालिका उपशम या क्षय होता हुआ क्रमसे दो आदि फालिरूप द्रव्यको छोड़कर शेष सबका उपशम या क्षय होता है। तथा चरमावलीके प्रथमादि समयोंमें बंधे हुए द्रव्यका उपशम या क्षय नहीं होता है, क्योंकि, बंधे हुए द्रव्यका एक आवली तक उपशम नहीं होता, ऐसा नियम है। इसप्रकार चरमावलीका संपूर्ण द्रव्य और द्विचरमावलीका एक समयकम आवलीमात्र द्रव्य उपशम या क्षय रहित रहता है, जिसका प्राचीन सत्तामें स्थित कर्मके उपशम या क्षय हो जानेके पश्चात् ही उपशम या क्षय होता है।

अब क्षपणविधिको कहते हैं—

शंका — क्षय किसे कहते हैं ?

समाधान—जिनके मूलप्रकृति और उत्तरप्रकृतिके भेदसे प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध और प्रदेशबन्ध अनेक प्रकारके हो जाते हैं, ऐसे आठ कर्मोंका जीवसे जो अत्यन्त

भिण्ण-पयडि-ट्टिदि-अणुभाग-पदेसाणं जीवादां जो णिस्सेम-विणासो नं स्वयणं णाम' । अणंताणुवंधि-क्रोध-माण-माया-लोभ-मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्त-ममत्तमिदि एदाओ मन्-पयडीओ असंजदसम्माइड्डी संजदासंजदां वा पमतमंजदां वा अप्पमतमंजदां वा खवेदि' । किमकमेण किं कमेण खवेदि ? ण, पुण्वमणंताणुवंधि-चउकं तिण्णि वि करणाणि काऊण अणियट्टि-करण-चरिम-ममए अकमेण खवेदि । पच्छा पुणो वि तिण्णि करणाणि काऊण अधापवत्त-अपुण्वकरणाणि दो वि वाळाविय अणियट्टिकरणदाए संखेजे भागे गंतूण मिच्छत्तं खवेदि । तदा अंतोमुहुत्तं गंतूण सम्मामिच्छत्तं खवेदि । तदा अंतोमुहुत्तं गंतूण सम्मतं खवेदि' । तदा अधापवत्तकरणं कमेण काऊणंतोमुहुत्तंण अपुण्वकरणो होदि । सो ण एकं पि कम्मं क्ववेदि, किंतु समयं पडि अगंस्वेज्ज-गुण-सरूवेण पदेस-णिज्जरं करेदि । अंतोमुहुत्तेण एकेकं ट्टिदि-कंडयं वादेतो अप्पणो कालवन्तरे संखेज्ज-सहस्साणि ट्टिदि-कंडयाणि वादेदि । तत्तियाणि चैव ट्टिदि-बंधोत्तरणाणि वि

विनाश हो जाना है उसे क्षपण (क्षय) कहते हैं । अनन्तानुबन्धी-क्रोध, मान, माया और लोभ, तथा मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्प्रकृति, इन सात प्रकृतियोंका असंयतसंयत, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत अथवा अप्रमत्तसंयत जीव नाश करना है ।

शंका—इन सात प्रकृतियोंका क्या युगपत् नाश करना है या क्रमसे ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, तीन करण करके अनिवृत्तिकरणके चरम समयमें पहले अनन्तानुबन्धी-चारका एक साथ क्षय करना है । तत्पश्चात् फिरसे तीन करण करके, उनमें से अधःकरण और अपूर्वकरण इन दोनों को उद्धृत करके अनिवृत्तिकरणके संख्यातभाग व्यतीत हो जाने पर मिथ्यात्वका क्षय करता है । इसके अनन्तर अन्तर्मुहूर्त व्यतीतकर सम्यग्मिथ्यात्वका क्षय करता है । तत्पश्चात् अन्तर्मुहूर्त व्यतीतकर सम्यक्प्रकृतिका क्षय करता है ।

इसतरह क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव सातिशय अप्रमत्त गुणस्थानको प्राप्त होकर जिस समय क्षपणविधिका प्रारम्भ करता है, उससमय अधःप्रवृत्तकरणको करके क्रमसे अन्तर्मुहूर्तमें अपूर्वकरण गुणस्थानवाला होता है । वह एक भी कर्मका क्षय नहीं करता है, किंतु प्रत्येक समयमें असंख्यातगुणितरूपसे कर्म-प्रदेशोंकी निर्जरा करता है । एक एक अन्तर्मुहूर्तमें एक एक स्थितिकाण्डकका घात करता हुआ अपने कालके भीतर संख्यात-हजार स्थितिकाण्ड-कोंका घात करता है । और उतने ही स्थितिबन्धापसरण करता है । तथा उनसे संख्यात-हजार-

१ क्षय आत्यन्तिकी निवृत्तिः । यथा तस्मिन्नेवाभसि शुधिमाजनान्तरसंक्रान्ते पङ्क्त्याग्यन्ताभावः । स. सि. २. १. त. रा. वा. २. १. २. त. श्लो. वा. २. १. ३.

२ पढमकसायचउकं इत्तो मिच्छत्तमीसम्मत्तं । अविरयसग्गे देसे पमत्ति अपमत्ति खीअत्ति । क. जं. ६. ७८.

३ अयदचउकं तु अणं अणियट्टिकरणचरिमहि । जुगवं संजोगित्ता पुणो वि अणियट्टिकरणपवहुमानं ॥ बोलिय-कमसो मिच्छं मिसं सम्मं खवेदि-कमे । गो. क. ३६५, ३६६.

करेदि । तेहिंतो संखेज्ज-सहस्स-गुणे अणुभाग-कंडय-वादे करेदि ' एक्काणुभाग-कंडय-उत्कीरण-कालादो एकं द्विदि-कंडय-उत्कीरण-कालो संखेज्ज-गुणो ' ति सुत्तादो । एवं कारुण अणियट्ठि-गुणट्ठाणं पविसिय तत्थ वि अणियट्ठि-अट्ठाए संखेज्जे भागे अपुव्व-करण-विहाणेण गमिय अणियट्ठि-अट्ठाए संखेज्जदि-भागे सेसे थीणगिद्वि-तियं गिरयगइ-तिरिक्खगइ-एइंदिय-वीइंदिय-तेइंदिय-चउरिंदियजादि-गिरयगइ-तिरिक्खगइपाओग्गाणु-पुन्निव-आदावुज्जोव-थावर-सुहुम-साहारणा ति एदाओ सोलस पयडीओ खवेदि । तदो अंतोमुहुत्तं गंतूण पच्चखाणापच्चखाणावरण-कोध-माण-माया-लोभे अक्कमेण खवेदि' । एसा संत-कम्म-पाहुड-उवएसो । कसाय-पाहुड-उवएसो पुण अट्ठ-कसाएसु खीणेषु पच्छा अंतोमुहुत्तं गंतूण सोलस-कम्माणि खविज्जंति' ति । एदे दो वि उवएसो सच्चमिदि के वि भणंति, तण्ण वडदे, विरुद्धत्तादो सुत्तादो । दो वि पमाणाइं ति वयणमवि ण वडदे, ' पमाणेण पमाणाविरोहिणा होदव्वं ' इदि णायादो । णाणा-जीवाणं

गुणे अनुभागकाण्डकोंका घात करना है, क्योंकि, एक अनुभागकाण्डके उत्कीरण-कालसे एक स्थितिकाण्डकका उत्कीरण-काल संख्यातगुणा है, ऐसा सूत्र-वचन है । इसप्रकार अपूर्वकरण गुणस्थानसंबन्धी क्रियाको करके और अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें प्रविष्ट होकर, वहाँ पर भी अनिवृत्तिकरण कालके संख्यात भागोंको अपूर्वकरणके समान स्थितिकाण्डक-घात आदि विधिसे विताकर अनिवृत्तिकरणके कालमें संख्यातभाग शेष रहने पर स्थानगृद्धि, निद्रा-निद्रा, प्रचला-प्रचला, नरकगति, निर्ध्वगति, एकेन्द्रियजाति, द्वीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजाति, चतुरिन्द्रियजाति, नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्वा, तिर्गचगतिप्रायोग्यानुपूर्वा, आनाप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म और साधारण इन सोलह प्रकृतियोंका क्षय करता है । फिर अन्तर्मुहूर्त व्यतीतकर प्रत्याख्यानावरण और अप्रत्याख्यानावरणसम्बन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ इन आठ प्रकृतियोंका एकसाथ क्षय करता है । यह सत्कर्मप्राभृतका उपदेश है । किंतु कपायप्राभृतका उपदेश तो इसप्रकार है कि पहले आठ कपायोंके क्षय होजाने पर पीछेसे एक अन्तर्मुहूर्तमें पूर्वाक्त सोलह कर्म प्रकृतियां क्षयको प्राप्त होती हैं । ये दोनों ही उपदेश सत्य हैं, ऐसा कितने ही आचार्योंका कहना है । किंतु उनका ऐसा कहना घटित नहीं होता है, क्योंकि, उनका ऐसा कहना सूत्रसे विरुद्ध पड़ता है । तथा दोनों कथन प्रमाण हैं, यह वचन भी घटित नहीं होता है, क्योंकि, ' एक प्रमाणको दूसरे प्रमाणका विरोधी नहीं होना चाहिये ' ऐसा न्याय है ।

१ गिरयतिरिक्खदु भियलं थीणतिगुञ्जोव ताव एइंदी । साहरणसुहुमथावर सोलं मज्झं कसायइं ॥ गो. क. ३३८. अणियट्ठिवाये थीणगिद्वितिये गिरयतिरियनामाओ । संखेज्जइमे सेसे तप्पाउग्गाओ खीअंति ॥ इत्तो हणइ कसायइंगंमि XX क. अं. ७८, ७९.

२ तदो अट्ठकसायट्ठिदिसंखेज्जयपुधत्तेण संकामिज्जंति । जयध. अ. पृ. १०७८. तदो द्विदिसंखेज्जयपुधत्तेण अपच्छिमे द्विदिसंखेज्ज उक्खिणे एइंसि सोलसपहं कम्माणं द्विदिसंतकम्मसावलियव्वंमतरं सेसं । जयध. अ. पृ. १०७९. XX खवगा

णाणाविह-सत्ति-संभवाविरोहादो । केसिं चि जीवाणं णट्टेसु अट्टसु कसाएसु पच्छा सोलस-कम्म-क्खवण-सत्ती समुप्पज्जदि ति तेण पच्छा सोलस-कम्म-क्खयो होदि , ' कारण-कम्माणुसारी कज्ज-कमो ' ति णायादो । केसिं चि जीवाणं पुव्वं सोलस-कम्म-क्खवण-सत्ती समुप्पज्जदि, पच्छा अट्ट-कसाय-क्खवण-सत्ती उप्पज्जदि ति णट्टेसु सोलस-कम्मेसु पच्छा अंतोमुहुत्ते अदिकंते अट्ट कसाया णस्संति । तदो ण दोण्हं उवएसणं विरोहो ति के वि आइरिया भंणंति, तण्ण घडदे । किं कारणं ? जेण अणियट्ठिणो णाम जे के वि एग-समए वट्टमाणा ते सव्वे वि अदीदाणागद-वट्टमाण-कालेसु समाण-परिणामा, तदो चेय ते समाण-गुणसेट्ठि-णिज्जरा वि । अह भिण्ण-परिणामा वुच्चंति तो क्वंवि ण ते अणियट्ठिणो, भिण्ण-परिणामत्तादो अपुव्वकरणे इव । ण च कम्म-क्खंधाणं

शंका—नाना जीवोंके नाना-प्रकारकी शक्तियां संभव हैं, इसमें कोई विरोध नहीं आता है । इसलिये कितने ही जीवोंके आठ कर्मायोंके नष्ट हो जानेपर तदनन्तर सोलह कर्मोंके क्षय करनेकी शक्ति उत्पन्न होती है । अतः उनके आठ कर्मायोंके क्षय हो जानेके पश्चात्, सोलह कर्मोंका क्षय होता है । क्योंकि, 'जिस क्रमसे कारण मिलते हैं उसी क्रमसे कार्य होता है' ऐसा न्याय है । तथा कितने ही जीवोंके पहले सोलह कर्मोंके क्षयकी शक्ति उत्पन्न होती है, और तदनन्तर आठ कर्मायोंके क्षयकी शक्ति उत्पन्न होती है । इसलिये पहले सोलह कर्म-प्रकृतियां नष्ट होती हैं, और इसके पीछे एक अन्तर्मुहूर्तके व्यतीत होने पर आठ कर्मायें नष्ट होती हैं । इसलिये पूर्वोक्त दोनों उपदेशोंमें कोई विरोध नहीं आता है, ऐसा कितने ही आचार्य कहते हैं ?

समाधान—परंतु उनका ऐसा कहना घटित नहीं होता है, क्योंकि, अनिवृत्तिकरण गुणस्थानवाले जितने भी जीव हैं, वे सब अतीत, वर्तमान और भविष्य काल सम्बन्धी किसी एक समयमें विद्यमान होते हुए भी समान-परिणामवाले ही होते हैं, और इसीलिये उन जीवोंकी गुणश्रेणी-निर्जरा भी समानरूपसे ही पाई जाती है । और यदि एक-समयस्थित अनिवृत्तिकरण गुणस्थानवालोंको विसदृश परिणामवाला कहा जाता है, तो जिस-प्रकार एक समयस्थित अपूर्वकरण गुणस्थानवालोंके परिणाम विसदृश होते हैं, अतएव उन्हें अनिवृत्ति यह संज्ञा प्राप्त नहीं हो सकती है, उसीप्रकार इन परिणामोंको भी अनिवृत्तिकरण यह संज्ञा प्राप्त नहीं हो सकेगी । और असंख्यातगुणी-श्रेणीके द्वारा कर्मस्कन्धोंके क्षयके कारण-

पुव्वं खवित्तु अट्टा य । पच्छा सोलादीणं खवणं इदि केहिं णिदिट्ठं । गो. क, ३९१. प्रत्याख्यानाप्रत्याख्यानाएकमन्तयेदं गुणे नवमे । तस्मिन्वर्षक्षपिते क्षपयेदिति षोडश प्रकृतीः ॥ XXX अर्धदग्धेन्धनो वह्निर्देहेत्याप्येन्धनान्तरम् । क्षपकोऽपि तथान्त्रान्तः क्षपयेत्प्रकृतीः पराः ॥ कषायाएकशेषं च क्षपयित्वाऽन्तयेन् कर्मान् । छविर्खाविदहास्यादिपट्टूपूरुपवेदकान् ॥ एष सूत्रादेशः । अन्ये पुनराहुः, षोडश कर्माण्येव पूर्वं क्षपयितुमारभते. केवलमपान्तरालेऽपि कषागान् श्रवणनि. पञ्चान षोडश कर्माणीति कर्मग्रन्थवृत्तौ ॥ लो. प्र., प्र. भा. पृ. ६८,

असंख्येज्ज-गुणसेठीए खवण-हेदु-परिणामे उज्झिऊणण्णे परिणामा द्विदि-अणुभाग-खंडय-घादस्स कारणभूदा अत्थि, तेसिं गिरुवय-सुत्ताभावादो । 'कज्ज-गाणत्तादो कारण-गाणत्तमणुमाणिज्जदि' इदि एदमवि ण घडदे, एयादो मोग्गारादो बहु-कोडि-कवालोलंभा । तत्थ वि होदु णाम मोग्गरो एओ, ण तस्स सत्तीणमेयत्तं, तदो एय-कखप्परुप्पत्ति-प्पसंगादो इदि चे तो कखहि एत्थ वि भवदु णाम द्विदिकंडयघाद-अणुभाग-कंडयघाद-द्विदिवंधोसरण-गुणसंक्रम-गुणसेठी-द्विदि-अणुभागबंध-परिणामाणं णाणत्तं तो वि एग-समय-संठिय-णाणा-जीवाणं सरिसा चव, अण्णहा अणियद्वि-विसेसणाणु-ववत्तीदो । जइ एवं, तो सव्वेसिमणियद्वीणमेय-समयमिह वट्टमाणाणं द्विदि-अणुभाग-घादाणं सरिसत्तं एवेदि त्ति चे ण एस दोसो, इट्टत्तादो । पढम-द्विदि-अणुभाग-खंडयाणं

भूत परिणामोंको छोड़कर अन्य कोई भी परिणाम स्थितिकाण्डकघात और अनुभागकाण्डकघातके कारणभूत नहीं हैं, क्योंकि, उन परिणामोंका निरूपण करनेवाला सूत्र (आगम) नहीं पाया जाता है ।

शंका—अनेक प्रकारके कार्य होनेसे उनके साधनभूत अनेक प्रकारके कारणोंका अनुमान किया जाता है? अर्थात् नवें गुणस्थानमें प्रतिसमय असंख्यातगुणी कर्मनिर्जरा, स्थितिकाण्डकघात आदि अनेक कार्य देखे जाते हैं, इसलिये उनके साधनभूत परिणाम भी अनेक प्रकारके होने चाहिये ।

समाधान—यह कहना भी नहीं बनता है, क्योंकि, एक मुद्गरसे अनेक प्रकारके कपालरूप कार्यकी उपलब्धि होती है ।

शंका—वहाँ पर मुद्गर एक भले ही रहा आवे, परंतु उसकी शक्तियोंमें एकपना नहीं बन सकता है । यदि मुद्गरकी शक्तियोंमें भी एकपना मान लिया जावे तो उससे एक कपालरूप कार्यकी ही उत्पत्ति होगी ?

समाधान—यदि ऐसा है तो यहाँ पर भी स्थितिकाण्डकघात, अनुभागकाण्डकघात, स्थितिवन्धापसरण, गुणसंक्रमण, गुणश्रेणीनिर्जरा, शुभप्रकृतियोंके स्थितिवन्ध और अनुभागवन्धके कारणभूत परिणामोंमें नानापना रहा आवे, तो भी एक समयमें स्थित नाना जीवोंके परिणाम सदृश ही होते हैं, अन्यथा उन परिणामोंके 'अनिवृत्ति' यह विशेषण नहीं बन सकता है ।

शंका—यदि ऐसा है, तो एक समयमें स्थित संपूर्ण अनिवृत्तिकरण गुणस्थानवालोंके स्थितिकाण्डकघात और अनुभागकाण्डकघातकी समानता प्राप्त हो जायगी ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, यह बात तो हमें इष्ट ही है ।

शंका—प्रथम-स्थितिकाण्डक और प्रथम-अनुभागकाण्डकोंकी समानताका नियम तो नहीं पाया जाता है, इसलिये उक्त कथन घटित नहीं होता है ?

सरिसत्त-णियमो<sup>१</sup> णत्थि, तदो णेदं घडदि त्ति चे स दोसो ण दोसो, हद-सेस-ट्टिदि-अणुभागाणं एय-समाण-णियम-इंसणादो । ण च थोव-ट्टिदि-अणुभाग-विरोहि-परिणामो तदो अवंमहिय-ट्टिदि-अणुभागाणमविरोहित्तमल्लियइ<sup>३</sup> अण्णत्थ तह अदंसणादो । ण च अणियंट्टिम्हि पदेस-बंधो एय-समयम्हि वट्टमाण-सव्व-जीवाणं सरिसो तस्स जोग-कारणत्तादो । ण च तेसिं सव्वेसिं जोगस्स सरिसत्तणे णियमो अत्थि लोग-पूरणम्हि ट्टिय-केवलीणं<sup>३</sup> व तहा पडिवायय-सुत्ताभावादो । तदो सरिस-परिमाणत्तादो सव्वेसिमणियट्टीणं समाण-समय-संट्टियाणं ट्टिदि-अणुभागघादत्त-बंधोसरण-गुणसेट्ठि-

समाधान—यह भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि, प्रथमस्थितिके अवशिष्ट रहे हुए खण्डका और उसके अनुभागखण्डका अनिवृत्तिकरण गुणस्थानवाले प्रथम समयमें ही घात कर देते हैं, अतएव उनके द्वितीयादि समयोंमें स्थितिकाण्डकोंका और अनुभागकाण्डकोंका एक-प्रमाण नियम देखा जाता है। दूसरे, अल्प-स्थिति और अल्प-अनुभागरूप विरोधी परिणाम उससे अधिक स्थिति और अधिक अनुभागोंके अविरोधीपनेको प्राप्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि, प्रथमस्थितिके अतिरिक्त द्वितीयादि स्थितियोंमें वैसा विरोध देखनेमें नहीं आता है। परंतु इस कथनसे अनिवृत्तिकरणके एक समयमें स्थित संपूर्ण जीवोंके प्रदेशबन्ध सदृश होता है ऐसा नहीं समझ लेना चाहिये, क्योंकि, प्रदेशबन्ध योगके निमित्तसे होता है। परंतु अनिवृत्तिकरणके एक समयवर्ती संपूर्ण जीवोंके योगकी सदृशताका कोई नियम नहीं पाया जाता है। जिसप्रकार लोकपूरण समुदायमें स्थित केवलियोंके योगकी समानताका प्रतिपादक परमाणु है, उस-प्रकार अनिवृत्तिकरणमें योगकी समानताका प्रतिपादक परमाणुका अभाव है। इसलिये समान (एक) समयमें स्थित संपूर्ण अनिवृत्तिकरण गुणस्थानवाले जीवोंके सदृश परिणाम होनेके कारण स्थितिकाण्डकघात, अनुभागकाण्डकघात, बन्धापसरण, गुणश्रेणीनिर्जरा और

१ तिकालगोयराणं सव्वेसिमणियट्टिकरणं समाणसमए वट्टमाणं सरिसपरिणामत्तादो पढमट्टिदिखंडं पि तेसिं सरिसमेवेत्ति णावहारियव्वं कित्तु तत्थ जहण्णक्कस्सविथंप्पसंभवादो । जयध. अ. प्र. १०७४. वादरपढमे पढमं ठिदिखंडं विसरिसं तु विदियादि । ठिदिखंडं समाणं सव्वस्स समाणकालम्हि । पल्लस्स संखभागं अवरं तु वरं तु संखभागहियं । धादादिमट्टिदिखंडो सेसा सव्वस्स सरिसा हु । ल. क्ष. ४१२, ४१३.

२ 'उपसपेरल्लिअः' हेम ८, ४, १३९.

३ ल. क्ष. ६२६. लोगे पुण्णे एका वग्गणा जोगस्स त्ति समजोगो त्ति णायव्वो । लोगपूरणसमुग्घादे वट्टमाणस्सेदस्स केवलिणो लोगमेत्तासेसजीवपदेसेसु जोगाविभागपल्लिच्छेदा वड्डिहाणीहिं विणा सरिसा चैय होदूण परिणमंति तेण सव्वे जीवपदेसा अण्णोण्णं सरिसधणियसरूत्तेण परिणदा संता एया वग्गणा जादा तदो समजोगो त्ति एसो तदवत्थाए णायव्वो । जोगसत्तीए सव्वजीवपदेसेसु सरिसभावं मोत्तूणं विसरिसभावाणुवलंभादो त्ति वुत्तं होइ । जयध. अ. पृ. १२३९.

णिज्जरा-संकमाणं सरिसत्तणं सिद्धं । समाण-समय-संठिय-सव्वाणियट्ठीणं ट्ठिदि-अणुभाग-  
 म्बडएसु सरितं णिवदंतेसु घादिदावत्तेस-ट्ठिदि-अणुभागेषु सरिसत्तणेण चिद्धमाणेषु  
 अप्पणो पसत्थापसत्थत्तणं पयडीसु अ छद्माणेषु कथं पयडि विणासस्स विवज्जासो ?  
 तम्हा दोण्हं वयणाणं मज्जे एकमेव सुत्तं होदि, जदो ' जिणा ण अण्णहा-वाइणो ' तदो  
 तच्चयणाणं विप्पडिसेहो इदि चे सच्चमेयं, किंतु ण तच्चयणाणि एयाइं आइल्लु-  
 आइरिय-वयणाइं, तदो एयाणं विरोहस्सत्थि संभवो इदि । आइरिय कहियाणं संतकम्म-  
 कप्पायपाहुडाणं कथं सुत्तत्तणमिदि चे ण, तित्थयर-कहियत्थाणं गणहरदेव-कय-गंध-  
 रयणाणं वारहंगाणं आइरिय-परंपराए णिरंतरमागयाणं जुग-सहावेग बुद्धीसु ओहट्ठंतीसु  
 भायणाभावेण पुणो ओहट्ठिय आगयाणं पुणो सुट्ठु-बुद्धीणं खयं दट्ठुण तित्थ-वोच्चेद-  
 भएण वज्ज-भीरुहि गहिदत्थेहि आइरिएहि पोत्थएसु चडावियाणं असुत्तत्तण-विरोहादो ।

संकमणमें भी समानता सिद्ध हो जाती है ।

शंका— इसतरह समान समयमें स्थित संपूर्ण अनिवृत्तिकरण गुणस्थानवालोंके स्थितित्त्वंड और अनुभागखंडोंके समानताको प्राप्त होने पर, घात करनेके पश्चात् शेष रहे हुए स्थिति और अनुभागोंके समानरूपसे विद्यमान रहने पर और प्रकृतियोंके अपना अपना प्रशस्त और अप्रशस्तपनाके छोड़ देने पर अर्थात् सभी कार्योंके समानरूपसे रहने पर व्युच्छिन्न होनेवाली प्रकृतियोंके विनाशमें विपर्यास कैसे हो सकता है ? अर्थात् किन्हीं जीवोंके पहले आठ कपायके नष्ट हो जाने पर सोलह प्रकृतियोंका नाश होता है, और किन्हीं जीवोंके पहले सोलह प्रकृतियोंके नष्ट हो जाने पर पश्चात् आठ कपायोंका नाश होता है, यह बात कैसे संभव हो सकती है ? इसलिये दोनों प्रकारके वचनोंमेंसे कोई एक वचन ही सूत्ररूप हो सकता है, क्योंकि, जिन अन्यथावादी नहीं होते । अतः उनके वचनोंमें विरोध नहीं होना चाहिये ।

समाधान— यह कहना सत्य है कि उनके वचनोंमें विरोध नहीं होना चाहिये, परंतु ये जिनेन्द्रदेवके वचन न होकर उनके पश्चात् आचार्योंके वचन हैं, इसलिये उन वचनोंमें विरोध होना संभव है ।

शंका— तो फिर आचार्योंके द्वारा कहे गये सत्कर्मप्राभृत और कपायप्राभृतको सूत्रपना कैसे प्राप्त हो सकता है ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, जिनका अर्थरूपसे तीर्थकरोंने प्रतिपादन किया है, और गणधरदेवने जिनकी ग्रन्थ-रचना की ऐसे बारह अंग आचार्य-परंपरासे निरन्तर चले आ रहे हैं । परंतु कालके प्रभावसे उत्तरोत्तर बुद्धिके क्षीण होने पर और उन अंगोंको धारण करनेवाले योग्य पात्रके अभावमें वे उत्तरोत्तर क्षीण होते हुए आ रहे हैं । इसलिये जिन आचार्योंने आगे श्रेष्ठ बुद्धिवाले पुरुषोंका अभाव देखा, जो अत्यन्त पापभीरु थे और जिन्होंने गुरुपरंपरासे श्रुनार्थ ग्रहण किया था उन आचार्योंने तीर्थविच्छेदके भयसे उस समय अविशिष्ट रहे हुए अंग-संघन्धी अर्थको पोथियोंमें लिपिबद्ध किया, अतएव उनमें असूत्रपना नहीं आ सकता है ।



जदि एत्रं, तो एयाणं पि वयणाणं तदवयवत्तादो सुत्तत्तणं पावदि त्ति चे भवदु दोण्हं मज्जे एकस्स सुत्तत्तणं, ण दोण्हं पि परोप्पर-विरोहादो । उस्सुत्तं लिहंता आइरिया कथं वज्ज-भीरुणो? इदि चे ण एस दोसो, दोण्हं मज्जे एकस्सेव संगहे कीरमाणे वज्ज-भीरुत्तं णिवट्टति? दोण्हं पि संगहं करंताणमाइरियाणं वज्ज-भीरुत्ताविणासादो । दोण्हं वयणाणं मज्जे कं वयणं सच्चमिदि चे सुदकेवली केवली वा लाणदि, ण अण्णो, तहा णिणया-भावादो । वट्टमाण-कालाइरिएहि वज्ज-भीरुहि दोण्हं पि संगहो कायच्चो, अण्णहा वज्ज-भीरुत्त-विणासादो त्ति ।

तदो अंतोमुहुत्तं गंतूण चउसंजलण-गवणोक्कसायाणमंतरं करेदि । सोदयाण-मंतोमुहुत्त-मेत्तिं पढम-ट्टिदिं अणुदयाणं समउणावलिय-मेत्तिं पढम-ट्टिदिं करेदि । तदो

शंका— यदि ऐसा है, तो इन दोनों ही वचनोंको द्वादशांगका अद्ययव होनेसे सूत्रपना प्राप्त हो जायगा ?

समाधान— दोनोंमेंसे किसी एक वचनको सूत्रपना भले ही प्राप्त होओ, किंतु दोनोंको सूत्रपना नहीं प्राप्त हो सकता है, क्योंकि, उन दोनों वचनोंमें परस्पर विरोध पाया जाता है ।

शंका— उत्सूत्र लिखनेवाले आचार्य पापभीरु कैसे माने जा सकते हैं ?

समाधान— यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, दोनों प्रकारके वचनोंमेंसे किसी एक ही वचनके संग्रह करने पर पापभीरुता निकल जाती है, अर्थात् उच्छृंखलता आ जाती है । अन्य एव दोनों प्रकारके वचनोंका संग्रह करनेवाले आचार्योंके पापभीरुता नष्ट नहीं होती है, अर्थात् बनी रहती है ।

शंका— दोनों प्रकारके वचनोंमेंसे किस वचनको सत्य माना जाय ?

समाधान— इस बातको तो केवली या श्रुतकेवली ही जान सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जान सकता । अतः इससमय उसका निर्णय नहीं हो सकता है, इसलिये पापभीरु वर्तमान-कालके आचार्योंको दोनोंका ही संग्रह करना चाहिये, अन्यथा पापभीरुताका चिनाश हो जायगा ।

तत्पश्चात् आठ कषाय या सोलह प्रकृतियोंके नाश होनेपर एक अन्तर्मुहूर्त जाकर चार संज्वलन और नौ नो-कषायोंका अन्तरकरण करता है । अन्तरकरण करनेके पहले चार संज्वलन और नौ नो-कषायसंबन्धी तीन वेदोंमेंसे जिन दो प्रकृतियोंका उदय रहता है उनकी प्रथमस्थिति अन्तर्मुहूर्तमात्र स्थापित करता है, और अनुदयरूप ग्यारह प्रकृतियोंकी प्रथमस्थिति एक समयकम आवलीमात्र स्थापित करता है । तत्पश्चात् अन्तरकरण करके एक अन्तर्मुहूर्त

१ सं. प्रती ' णिवट्टिति ', अ. क. प्रती: ' णिवट्टिति ' इति पाठः ।

२ संजलणं एकं वेदाणकं उदेदि तदोण्हं । सोणं पढमट्टिदि उवेदि अंतोमुहुत्तआवलियं । ल. क्ष. ४३४.

अंतरकरणं काऊण पुणो अंतोमुहुत्ते गदे णवुंसय-वेदं खवेदि । तदो अंतोमुहुत्तं गंतूणित्थि-  
वेदं खवेदि । तदो अंतोमुहुत्तं गंतूण छण्णोकसाए पुरिसवेद-चिराण-संत-कम्मेण सह  
सवेद-दुचरिम-समए जुगवं खवेदि । तदो दो-आवलिय-मेत्त-कालं गंतूण पुरिसवेदं  
खवेदि । तदो अंतोमुहुत्तमुवरि गंतूण कोध-संजलणं खवेदि । तदो अंतोमुहुत्तमुवरि गंतूण  
माण-संजलणं खवेदि । तदो अंतोमुहुत्तं गंतूण माया-संजलणं खवेदि । तदो अंतोमुहुत्तं  
गंतूण सुहुम-सांपराइय-गुणट्ठाणं पडिवज्जदि । सो वि सुहुम-सांपराइओ अप्पणो चरिम-  
समए लोभ-संजलणं खवेदि । तदो से काले खीण-कसाओ होदूण अंतोमुहुत्तं गमियं  
अप्पणो अट्ठाए दु-चरिम-समए णिहा-पयलाओ दो वि अक्कमेण खवेदि । तदो से काले  
पंचणाणावरणीय-चहुदंसणावरणीय-पंचअंतराइयमिदि चोहसपयडीओ अप्पणो चरिम-  
समए खवेदि । एदेसु सट्ठि-कम्मेसु खीणेषु सजोगिजिणो होदि । सजोगिकेवली ण  
किंचि कम्मं खवेदि । तदो कमेण विहरिय जोग-णिरोहं-काऊण अजोगिकेवली  
होदि । सो वि अप्पणो दु-चरिम-समए अणुदयवेदणीय-देवगदि-पंचशरीर-पंच-  
शरीरसंघाद-पंचशरीरबंधन-छस्संठाण-तिण्णिअंगोवंग-छस्संघडण-पंचवण्ण-दोगंध-पंचरस-

जाने पर नपुंसकवेदका क्षय करता है । तदनन्तर एक अन्तर्मुहूर्त जाकर स्त्रीवेदका क्षय करता  
है । फिर एक अन्तर्मुहूर्त जाकर सवेद-भागके द्विचरम समयमें पुरुषवेदके पुरातन सत्त्वरूप  
कर्मोंके साथ छह नो-कषायका एकसाथ क्षय करता है । तदनन्तर एक समय कम दो आंवली-  
मात्र कालके व्यतीत होने पर पुरुषवेदका क्षय करता है । तत्पश्चात् एक अन्तर्मुहूर्त ऊपर  
जाकर क्रोध-संज्वलनका क्षय करता है । इसके पीछे एक अन्तर्मुहूर्त ऊपर जाकर मान-संज्व-  
लनका क्षय करता है । इसके पीछे एक अन्तर्मुहूर्त ऊपर जाकर माया-संज्वलनका क्षय करता  
है । पुनः एक अन्तर्मुहूर्त ऊपर जाकर सूक्ष्मसांपराय गुणस्थानको प्राप्त होता है । वह सूक्ष्म-  
सांपराय गुणस्थानवाला जीव भी अपने गुणस्थानके अन्तिम समयमें लोभ-संज्वलनका क्षय  
करता है । तदनन्तर उसी कालमें क्षीणकषाय गुणस्थानको प्राप्त करके और अन्तर्मुहूर्त बिताकर  
अपने कालके द्विचरम समयमें निद्रा और प्रचला इन दो प्रकृतियोंका एकसाथ क्षय करता है ।  
इसके पीछे अपने कालके अन्तिम समयमें पांच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पांच अन्तराय  
इन चौदह प्रकृतियोंका क्षय करता है । इसतरह इन साठ कर्म-प्रकृतियोंके क्षय हो जाने पर  
यह जीव संयोगकेवली जिन होता है । संयोगी जिन किसी भी कर्मका क्षय नहीं करते हैं ।  
इसके पीछे विहार करके और क्रमसे योगनिरोध करके वे अयोगी केवली होते हैं । वे भी  
अपने कालके द्विचरम समयमें वेदनीयकी दोनों प्रकृतियोंमेंसे अनुदयरूप कोई एक देवगति,  
पांच शरीर, पांच शरीरोंके संघात, पांच शरीरोंके बन्धन, छह संस्थान, तीन आंगोपांग, छह

१ ' समऊण ' इत्यधिकेन पाठेन भाव्यम् । समऊण दोण्णिआवल्लिपमाणसमयप्पवद्धणवन्नंधो । ल. क्ष. ४६१.

२ अणियट्ठिगुणट्ठाणे मायाराहिदं च ट्ठाणमिच्छंति । ट्ठाणा भंगपमाणा केई एवं परुवेति ॥ गो. कः ३९२.

अट्टफास-देवगदिपाओग्गाणुपुन्वि-अगुरुगलहुग-उववाद्-परघाद्-उस्सास-दोविहायगदी-  
अप्यज्जत्त-पत्तेय-थिर-अथिर-सुभ-असुभ-दुभग-सुस्सर-दुस्सर-अणदेज्ज-अजसगिन्ति-णिमिण-  
णीचागोदाणि त्ति एदाओ वाहत्तरि पयडीओ खवेदि । तदो से काले सोदय-  
वेदणीय-मणुसाउ-मणुसगइ-पंचिदियजादि-मणुसगइपाओग्गाणुपुन्वी-तस-वाद्दर-पज्जत्त-  
सुभग-आदेज्ज-जसगिन्ति-तित्थयर-उच्चागोदाणि त्ति एदाओ तेरह पयडीओ खवेदि,  
अहवा मणुसगइपाओग्गाणुपुन्वीए सह अजोगि-दुचरिम-समए तेहत्तरि पयडीओ  
बारह चरिम-समए । उप्पायाणुच्छेदादो तदो उवरिम-समए णीरयो णिम्मलो सिद्धो  
होदि । तत्थ जे कम्म-क्खवणम्हि वावदा ते जीवा खवगा उच्चंति । जे पुण तेसिं चेव

संहनन, पांच वर्ण, दो गन्ध, पांच रस, आठ स्पर्श, देवगति-प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात  
परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त-विहायोगति, अप्रशस्त-विहायोगति, अपर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, अस्थिर,  
शुभ, अशुभ, दुर्भग, सुस्वर, दुःस्वर, अनादेय, अयशस्कीर्ति, निर्माण और नीच-गोत्र, इन  
बहत्तर प्रकृतियोंका क्षय करते हैं । इसके पीछे अपने कालके अन्तिम समयमें दोनों वेदनीयमेंसे  
उदयागत कोई एक वेदनीय, मनुष्यायु, मनुष्यगति, पंचेन्द्रियजाति मनुष्यगति-प्रायोग्यानुपूर्वी,  
त्रस, बादर, पर्याप्त, सुभग, आदेय, यशस्कीर्ति, तीर्थंकर और उच्च-गोत्र, इन तेरह प्रकृतियोंका  
क्षय करते हैं । अथवा, मनुष्यगति-प्रायोग्यानुपूर्वीके साथ अयोगि-केवलीके द्विचरम सम  
यमें तेहत्तर प्रकृतियोंका और चरम समयमें बारह प्रकृतियोंका क्षय करते हैं ।  
इसतरह संसारकी उत्पत्तिके कारणोंका विच्छेद हो जानेसे इसके आगेके समयमें कर्म-  
रजसे रहित निर्मल-दशाको प्राप्त सिद्ध हो जाते हैं । इनमेंसे जो जीव कर्म-क्षपणमें व्यापार  
करते हैं उन्हें क्षपक कहते हैं, और जो जीव कर्मोंके उपशमन करनेमें व्यापार करते हैं उन्हें

१ वाहत्तरि पयडीओ दुचरिमगे तेरसं च चरिमम्हि ल. क्ष. ३४४. XX द्विसप्ततिः कर्माणि स्वरूपसत्तामाधि-  
कृत्य क्षयमुपगच्छन्ति, चरमसमये स्तित्रुफसंक्रमेणोदयवतीसु मध्ये संक्रम्यमाणत्वात् । चरमसमये चान्यतरवेदनीयमनुष्य-  
त्रिकपंचेन्द्रियजातित्रसदुभगादेययशःकीर्तिपर्याप्तवादरार्थंकरोच्चैर्गौरूपानां त्रयोदशप्रकृतानां सत्ताव्यवच्छेदः । अन्य  
त्वाहुः—' मनुष्यानुपूर्व्या द्विचरसमये व्यवच्छेद उदयाभावान्, उदयवतीनां हि स्तित्रुफसंक्रामाभावान् स्वरूपेण चरम-  
समये दलिकं दृश्यत एवेति युक्तस्तासां चरमसमये सत्ताव्यवच्छेदः । आनुपूर्व्याणां च चतसृणामपि क्षेत्रविपाकतयाऽपान्त-  
रालगतावेवादेय इति न भवस्थस्य तदुदयसंभवः इत्ययोग्यवस्थाद्विचरमसमय एव मनुष्यानुपूर्व्याः सत्ताव्यवच्छेदः ।  
तन्मते द्विचरमसमये त्रिसप्ततेः, चरमसमये च द्वादशानां सत्ताव्यवच्छेदः । क. प्र. य. उ. टी. पु. ६४. X X त्रयो-  
दशैताः प्रकृतीः क्षपयित्वान्तिमे क्षणे । अयोगिकेवली सिद्धशैवेर्मूलगतकल्पः ॥ मतान्तरेऽत्रानुपूर्वी क्षिपत्युपान्तिमक्षणे ।  
ततस्त्रिसप्ततिं तत्र द्वादशान्त्ये क्षणे क्षिपेत् ॥ लो. प्र. १, १२७५, १२७६.

२ वीच्छेदो दुविहो उप्पादाणुच्छेदो अणुप्पादाणुच्छेदो चेदि । उत्पादः सत्त्वं, अनुच्छेदो विनाशः अभावः  
निरूपित इति यावत् । उत्पाद एव अनुच्छेदः उत्पादानुच्छेदः भाव एव अभाव इति यावत् । एसो दव्वट्टियणयव्यव-  
हारो । अनुत्पादः असत्त्वं, अनुच्छेदो विनाशः । अनुत्पाद एव अनुच्छेदः असतः अभाव इति यावत् । सतः  
असत्त्वाविरोधान् । एसो पञ्जवट्टियणयव्यवहारो । धवला अ. पृ. ५७७.

उवसामणम्मिह वावदा ते उवसामगा ।

गदि-मग्गणावयव-देवगदिम्मिह गुण-मग्गणट्ठं सुत्तमाह—

देवा चटुसु द्वाणेषु अत्थि मिच्छाइट्ठी सासणसम्माइट्ठी सम्मा-  
मिच्छाइट्ठी असंजदसम्माइट्ठि ति' ॥ २८ ॥

देवाश्चतुर्षु स्थानेषु सन्ति । कानि तानीति चेन्मिथ्यादृष्टिः सासादनसम्यग्दृष्टिः  
सम्यग्मिथ्यादृष्टिः असंयतसम्यग्दृष्टिश्चेति । प्रागुक्तार्थत्वान्नैतेषां गुणस्थानानामिह  
स्वरूपमुच्यते ।

उपशमक कहते हैं ।

विशेषार्थ—चौदहवें गुणस्थानमें अधिकसे अधिक पचासी प्रकृतियोंकी सत्ता रहती  
है । उनमेंसे बहत्तर प्रकृतियोंका उपान्त्य समयमें और उदयागत बारह तथा मनुष्यगत्यानुपूर्वी  
इसप्रकार तेरह प्रकृतियोंका अन्त समयमें क्षय होता है । सर्वार्थसिद्धि, राजवार्तिक, गोमट्टसार  
आदि ग्रन्थोंमें इसी एक मतका उल्लेख मिलता है । किंतु ऊपर मनुष्यगत्यानुपूर्वीका उपान्त्य  
समयमें भी क्षय बतलाया गया है, जिसका उल्लेख कर्मप्रकृति आदि ग्रन्थोंमें भी मिलता है ।  
तथा उसकी पुष्टिके लिये इसप्रकार समर्थन भी किया गया है कि अनुदयप्राप्त प्रकृतियोंका  
स्तितुकसंक्रमणके द्वारा उदयागत बारह प्रकृतियोंमें ही उपान्त्य समयमें संक्रमण हो जाता  
है । अतः मनुष्यगत्यानुपूर्वीका भी उपान्त्य समयमें ही सत्त्वनाश हो जाता है,  
क्योंकि, मनुष्यगत्यानुपूर्वीका उदय केवल विग्रहगतिके गुणस्थानोंमें ही होता है, शेषमें  
नहीं । इसप्रकार दूसरे आचार्योंके मतानुसार उपान्त्य समयमें मनुष्यगत्यानुपूर्वी-सहित तेहत्तर  
और अन्त समयमें बारह प्रकृतियोंका सत्त्व नाश होता है ।

अत्र गतिमार्गणाके अवयवरूप देवगतिमें गुणस्थानोंके अन्वेषण करनेके लिये आगेका  
सूत्र कहते हैं—

मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि, इन चार  
गुणस्थानोंमें देव पाये जाते हैं ॥ २८ ॥

देव चार गुणस्थानोंमें पाये जाते हैं ।

शंका—वे चार गुणस्थान कौनसे हैं ?

समाधान—मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि,  
इसप्रकार देवोंके चार गुणस्थान होते हैं ।

इन गुणस्थानोंका स्वरूप पहले कह आये हैं, इसलिये यहाँ पर उनका स्वरूप पुनः  
नहीं कहते हैं ।

अथ स्याद्यासु याभिर्वा जीवाः सृग्यन्ते ताः मार्गणा इति प्राङ् मार्गणाशब्दस्य निरुक्तिरुक्ता, आर्षे चेतसु गुणस्थानेषु नारकाः सन्ति, तिर्यञ्चः सन्ति, मनुष्याः सन्ति, देवाः सन्तीति गुणस्थानेषु अन्विष्यन्ते, अतस्तद्द्रव्याख्यानमार्षविरुद्धमिति नैष दोषः, 'णिरय-गईए णेरईएसु मिच्छाइङ्गी दव्वपमाणेण केवडियां' इत्यादिभगवद्-भूतवलि-भट्टारकमुखकमलविनिर्गतगुणसंख्यादिप्रतिपादकसूत्राश्रयेण तन्निरुक्तेरवतारात् । कथमनयोर्भूतवलिपुष्पदन्तवाक्ययोर्न विरोध इति चेन्न विरोधः । कथमिदं तावत् ? निरूप्यते । न तावदसिद्धेन असिद्धे वासिद्धस्यान्वेषणं सम्भवति विरोधात् । नापि सिद्धे सिद्धस्यान्वेषणं तत्र तस्यान्वेषणे फलाभावात् । ततः सामान्याकारेण सिद्धानां जीवानां गुणसत्त्वद्रव्यसंख्यादिविशेषरूपेणासिद्धानां त्रिकोटिपरिणामात्मकानादिवन्धनवद्भ्रजानदर्शनलक्षणात्मास्तित्वान्यथानुपपत्तितः सामान्याकारेणावगतानां गत्यादीनां मार्गणानां च विशेषतोऽनवगतानामिच्छातः आधाराधेयभावो भवतीति नोभयवाक्ययोर्विरोधः ।

शंका— जिनमें अथवा जिनके द्वारा जीवोंका अन्वेषण किया जाता है उन्हें मार्गणा कहते हैं, इसप्रकार पहले मार्गणा शब्दकी निरुक्ति कह आये हैं । और आर्षमें तो इतने गुणस्थानोंमें नारकी होते हैं, इतनेमें तिर्यच होते हैं, इतनेमें मनुष्य होते हैं और इतनेमें देव होते हैं, इसप्रकार गुणस्थानोंमें मार्गणाओंका अन्वेषण किया जा रहा है । इसलिये उक्त प्रकारसे मार्गणाकी निरुक्ति करना आर्षविरुद्ध है ?

समाधान— यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, 'नरकगतिमें नारकियोंमें मिथ्यादृष्टि द्रव्यप्रमाणसे कितने हैं', इत्यादि रूपसे भगवान् भूतवलि भट्टारकके मुख-कमलसे निकले हुए गुणस्थानोंका अवलम्बन लेकर संख्या आदिके प्रतिपादक सूत्रोंके आश्रयसे उक्त निरुक्तिका अवतार हुआ है ।

शंका— तो भूतवलि और पुष्पदन्तके इन वचनोंमें विरोध क्यों न माना जाय ?

समाधान— उनके वचनोंमें विरोध नहीं है । यदि पूछो किसप्रकार, तो आगे इसी बातका निरूपण करते हैं । असिद्धके द्वारा अथवा असिद्धमें असिद्धका अन्वेषण करना तो संभव नहीं है, क्योंकि, इसतरह अन्वेषण करनेमें तो विरोध आता है । उसीप्रकार सिद्धमें सिद्धका अन्वेषण करना भी उचित नहीं है, क्योंकि, सिद्धमें सिद्धका अन्वेषण करने पर कोई फल निष्पन्न नहीं होता है । इसलिये स्वरूपसामान्यकी अपेक्षा सिद्ध, किंतु गुण, सत्व, द्रव्य, संख्या आदि विशेषरूपसे असिद्ध जीवोंका अर्थात् जीवस्थानोंका और उत्पाद, व्यय और त्रैव्यरूपसे परिणमनशील अनादि-कालीन वन्धनसे बंधे हुए, तथा ज्ञान और दर्शन लक्षण स्वरूप आत्माके अस्तित्वकी सिद्धि अन्यथा, अर्थात् गत्यादिकके अभावमें, हो नहीं सकती है, इसलिये सामान्यरूपसे जानी गई और विशेषरूपसे नहीं जानी गई ऐसी गति आदि मार्गणा-

अतीतसूत्रोक्तार्थविशेषप्रतिपादनार्थमुत्तरसूत्रचतुष्टयमाह —

तिरिक्खा सुद्धा एइंदियप्पहुडि जाव असण्णि-पंचिंदिया  
त्ति ॥ २९ ॥

एकमिन्द्रियं येषां त एकेन्द्रियाः । प्रभृतिरादिः, एकेन्द्रियान् प्रभृति कृत्वा, अध्याहृतेन कृत्वेत्यनेनाभिसम्बन्धादस्य नपुंसकता । असंज्ञिन्श्च ते पञ्चेन्द्रियाश्च असंज्ञि-पञ्चेन्द्रियाः । यत्परिमणामस्येति यावत् । यावदसंज्ञिपञ्चेन्द्रियाः शुद्धास्तिर्यञ्चः । किमित्येतदुच्यते इति चेन्न, अन्यथामुष्यां गतावेकेन्द्रियादयोऽसंज्ञिपञ्चेन्द्रियपर्यन्ताः वर्तन्त इत्यवगमोपायांभावतस्तदवजिगमयिष्यायै एतत्प्रतिपादनात् ।

असाधारणतिरश्चः प्रतिपाद्य साधारणतिरश्चां प्रतिपादनार्थमुत्तरसूत्रमाह—

ओंका इच्छासे आधार-आधेयभाव बन जाता है। अर्थात् जब सामान्यरूपसे जाने गये गुणस्थान विवक्षित होते हैं तब वे आधार-भावको प्राप्त हो जाते हैं और मार्गणाएं आधेयपनेको प्राप्त होती हैं। उसीप्रकार जब सामान्यरूपसे जानी गई मार्गणाएं विवक्षित होती हैं तब वे आधारभावको प्राप्त हो जाती हैं और गुणस्थान आधेयपनेको प्राप्त होते हैं। इसलिये भूतबलि और पुण्यदन्त आचार्योंके वचनोंमें कोई विरोध नहीं समझना चाहिये।

अब पूर्व सूत्रोंमें कहे गये अर्थके विशेष प्रतिपादन करनेके लिये आगेके चार सूत्र कहते हैं—

एकेन्द्रियसे लेकर असंज्ञी पंचेन्द्रिय तकके जीव शुद्ध तिर्यच होते हैं ॥ २९ ॥

जिनके एक ही इन्द्रिय होती है उन्हें एकेन्द्रिय कहते हैं । प्रभृतिका अर्थ आदि है । 'एकेन्द्रियको आदि करके' इसप्रकारके अर्थमें, अध्याहृत 'कृत्वा' इस पदके साथ 'एकेन्द्रिय-प्रभृति' इस पदका संबन्ध होनेसे इस पदको नपुंसक-लिंग कहा है । जो असंज्ञी होते हुए पंचेन्द्रिय होते हैं उन्हें असंज्ञी-पंचेन्द्रिय कहते हैं । जिसका जितना परिमाण होता है, उसके उस परिमाणको प्रगट करनेके लिये 'यावत्' शब्दका प्रयोग होता है । इसप्रकार असंज्ञी पंचेन्द्रिय तकके जीव शुद्ध तिर्यच होते हैं ।

शंका—इसप्रकारका सूत्र क्यों कहा ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, यदि उक्त सूत्र नहीं कहते तो 'इस (तिर्यच) गतिमें ही एकेन्द्रियको आदि लेकर असंज्ञी पंचेन्द्रियतकके जीव होते हैं' इस बातके जाननेके लिये कोई दूसरा उपाय नहीं था । अतः उक्त बातको जतानेके लिये ही उक्त सूत्रका प्रतिपादन किया गया है ।

असाधारण (शुद्ध) तिर्यचोंका प्रतिपादन कर अब साधारण (मिश्र) तिर्यचोंके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

तिरिक्खा मिस्सा सण्णि-मिच्छाइट्टि-प्पहुडि जाव संजदासंजदा  
त्ति ॥ ३० ॥

संज्ञिमिथ्यादृष्टिप्रभृति यावत्संयतासंयतास्तावत्तिर्यञ्चो मिश्राः । न तिरश्चामन्यैः सह मिश्रणमवगम्यते, कथं ? न तावत्संयोगोऽस्यार्थः तस्योपरितनगुणेऽपि सत्त्वात् । नैकत्वाप्रतिरर्थः द्वयोरेकस्याभावतो द्वित्वादिनिबन्धनमिश्रतानुपपत्तेरिति । न प्रथमविकल्पोऽनभ्युपगमात् । न द्वितीयविकल्पोक्तदोषोऽपि गुणकृतसादृश्यमाश्रित्य तिरश्चां मनुष्यगतिजीवैर्मिश्रभावाभ्युपगमात् । तद्यथा, मिथ्यादृष्टिसासादनसम्यग्दृष्टिसम्यग्मिथ्यादृष्ट्यसंयतसम्यग्दृष्टिगुणैर्गतित्रयगतजीवसाम्यात्तैस्ते मिश्राः, संयमासंयमगुणेन मनुष्यैः सह साम्यात्तिर्यञ्चो मनुष्यैः सहैकत्वमापन्ना इति ततो न दोषः । स्यान्मतं, गतिनिरूपणायामियन्तो गुणाः अस्यां गतौ सन्ति न सन्तीति निरूपणयैवमवसीयतेऽस्याः

संज्ञी-पंचेन्द्रिय मिथ्यादृष्टिसे लेकर संयतासंयत-गुणस्थानतक तिर्यंच मिश्र होते हैं ॥३०॥

संज्ञी-मिथ्यादृष्टिसे लेकर संयतासंयत तक तिर्यंच मिश्र हैं ।

शंका—तिर्यंचोंका किसी भी गतिवाले जीवोंके साथ मिश्रण समझमें नहीं आता, क्योंकि, इस मिश्रणका अर्थ संयोग तो हो नहीं सकता है ? यदि मिश्रणका अर्थ अन्य गतिवाले जीवोंके साथ संयोग ही लिया जाय, तो ऐसा संयोग तो छटवें आदि ऊपरके गुणस्थानोंमें भी पाया जाता है । और दो वस्तुओंका एकरूप हो जाना भी इस मिश्रणका अर्थ नहीं हो सकता है ? यदि मिश्रणका अर्थ दो वस्तुओंका एकरूप हो जाना ही माना जाय, तो जब भिन्न भिन्न सत्तावाले दो पदार्थ एकरूप होंगे, तब दोमेंसे किसी एकका अभाव हो जानेसे द्वित्वादिके निमित्तसे पैदा होनेवाली मिश्रता नहीं बन सकती है ?

समाधान—प्रथम विकल्पसंबन्धी दोष तो यहां पर लागू हो नहीं सकता, क्योंकि, यहां पर मिश्र शब्दका अर्थ दो पदार्थोंके संयोगरूप स्वीकार नहीं किया है । उसीतरह दूसरे विकल्पमें दिया गया दोष भी यहां पर लागू नहीं होता है, क्योंकि, यहां पर गुणकृत सामनताकी अपेक्षा तिर्यंचोंका मनुष्यगतिके जीवोंके साथ मिश्रभाव स्वीकार किया है । आगे इसीको स्पष्ट करते हैं—

तिर्यंचोंकी मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि, और असंयतसम्यग्दृष्टि-रूप-गुणोंकी अपेक्षा तो तीन गतिमें रहनेवाले जीवोंके साथ समानता है, इसलिये तीन गतिवाले जीवोंके साथ तिर्यंच जीव चौथे गुणस्थानतक मिश्र कहलाते हैं । और संयमासंयमगुणकी अपेक्षा तिर्यंचोंकी मनुष्योंके साथ समानता होनेसे तिर्यंच मनुष्योंके साथ एकत्वको प्राप्त हुए । इसलिये पांचवें गुणस्थानतक मनुष्योंके साथ तिर्यंचोंको मिश्र कहनेमें पूर्वोक्त दोष नहीं आता है ।

शंका—गति-मार्गणाकी प्ररूपणा करने पर 'इस गतिमें इतने गुणस्थान होते हैं, और

गत्याः अनया गत्या सह गुणद्वारेण योगोऽस्ति नास्तीति, ततः पुनरिदं निरूपणमनर्थक-  
मिति न, तस्य दुर्मेधसामपि स्पष्टीकरणार्थत्वात् । 'प्रतिपाद्यस्य बुभुत्सितार्थविषय-  
निर्णयोत्पादनं वक्तृवचसः फलम्' इति न्यायात् । अथवा न तिरश्चां मिथ्यात्वादि-  
र्मनुष्यादिमिथ्यात्वादिभिः समानः तिर्यङ्मनुष्यादिभ्यतिरिक्तमिथ्यात्वादेरभावात् ।  
नापि तिर्यगादीनामेकत्वं चतुर्गतेरभावप्रसङ्गात् । न चाभावो मनुष्येभ्यो व्यतिरिक्त-  
तिरश्चापुपलम्भादिति पर्यायनयैकान्तावष्टम्भवलेन केचिद् विप्रतिपन्नाः । न मिथ्यात्वादयः  
पर्यायाः जीवद्रव्याद्भिन्नाः कोपादसेरिव तेषां तस्मात्पृथगनुपलम्भादस्येमे इति सम्बन्धा-  
नुपपत्तेश्च । ततस्तस्मात्तेषामभेदः । तथा च न गतिभेदो नापि गुणभेदः इति द्रव्यनयै-  
कान्तावष्टम्भवलेन केचिद्विप्रतिपन्नास्तदभिप्रायकदर्थनार्थं वास्य सूत्रस्यावतारः । नाभि-

इतने नहीं' इसप्रकारके निरूपण करनेसे ही यह जाना जाता है कि इस गतिकी इस गतिके  
साथ गुणस्थानोंकी अपेक्षा समानता है, इसकी इसके साथ नहीं । इसलिये फिरसे इसका कथन  
करना निष्फल है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, अल्पबुद्धिवाले शिष्योंको भी विषयका स्पष्टीकरण हो  
जावे, इसलिये इस कथनका यहां पर निरूपण किया है, क्योंकि, शिष्यको जिज्ञासित-अर्थ  
संबन्धी निर्णय उत्पन्न करा देना ही वक्ताके वचनोंका फल है, ऐसा न्याय है ।

अथवा, तिर्यचोंके मिथ्यात्वादि भाव मनुष्यादि तीन गतिसंबन्धी जीवोंके मिथ्यात्वादि  
भावोंके समान नहीं हैं, क्योंकि, तिर्यच और मनुष्यादिकको छोड़कर मिथ्यात्वादि  
भावोंका स्वतन्त्र सद्भाव नहीं पाया जाता है । इसलिये जब कि तिर्यचादिकोंमें परस्पर  
भेद है, तो तदाश्रित भावोंमें भी भेद होना संभव है । यदि कहा जाय कि  
तिर्यचादिकोंमें परस्पर एकता अर्थात् अभेद है, सो भी कहना नहीं बन सकता  
है, क्योंकि, तिर्यचादिकोंमें परस्पर अभेद माननेपर चारों गतियोंके अभावका  
प्रसंग आजायगा । परंतु चारों गतियोंका अभाव माना नहीं जा सकता है, क्योंकि, मनुष्योंसे  
अतिरिक्त तिर्यचोंकी उपलब्धि होती है । इसप्रकार पर्यायार्थिकनयको ही एकान्तसे आश्रय  
करके कितने ही लोग विवादग्रस्त हैं । इसीप्रकार मिथ्यात्वादि पर्यायों जीवद्रव्यसे भिन्न नहीं  
हैं, क्योंकि, जिसप्रकार तरवार म्यानसे भिन्न उपलब्ध होती है, उसप्रकार मिथ्यात्वादिकी  
जीवद्रव्यसे पृथक् उपलब्धि नहीं होती है । और यदि भिन्न मान ली जावें तो ये मिथ्यात्वादिक  
पर्यायों इस जीव-द्रव्यकी हैं, इसप्रकार संबन्ध भी नहीं बनता है । इसलिये इन मिथ्यात्वादिक  
पर्यायोंका जीव-द्रव्यसे अभेद है । इसप्रकार जब मिथ्यात्वादिक पर्यायोंका जीवसे भेद सिद्ध  
नहीं होता है, तो गतियोंका भेद भी सिद्ध नहीं हो सकता है और न गुणस्थानोंका भेद ही  
सिद्ध होता है । इसप्रकार केवल द्रव्यार्थिक नयको ही एकान्तसे आश्रय करके कितने ही लोग  
विवादमें पड़े हुए हैं । इसलिये इन दोनों एकान्तियोंके अभिप्रायके खण्डन करनेके लिये



प्रायद्वयं घटते तथाप्रतिभासनात् । न च प्रमाणानुसार्थभिप्रायः साधुरव्यवस्थापत्तेः । न च जीवाद्वैते द्वैते वा प्रमाणमस्ति कृत्स्नस्यैकत्वादेशादेरिव सत्तातोऽप्यन्यतो भेदात् । न प्रमेयस्यापि सत्त्वमपेक्षितप्रमाणव्यापारस्य तस्य प्रमाणाभावे सत्त्वायोगात् । प्रमाणं वस्तुनो न कारकमतो न तद्विनाशाद्वस्तुविनाश इति चेन्न, प्रमाणाभावे वचनाभावतः सकलव्यवहारोच्छित्तिप्रसङ्गात् । अस्तु चेन्न, वस्तुविषयविधिप्रतिषेधयोरप्यभावासङ्गनात् । अस्तु चेन्न, तथानुपलम्भात् । ततो विधिप्रतिषेधात्मकं वस्तुव्यवहारीकत्वमप्यन्यथोक्त-दोषानुपपन्नात् । ततः सिद्धं गुणद्वारेण जीवानां सादृश्यं विशेषरूपेणासादृश्यमिति । गुण-स्थानमार्गणासु जीवसमासान्वेषणार्थं वा ।

तिरिक्त्वा 'मिस्सा' इत्यादि प्रकृत सूत्रका अवतार हुआ है । उक्त दोनों प्रकारके एकान्तरूप, अभिप्राय घटित नहीं होते हैं, क्योंकि, सर्वथा एकान्तरूपसे वस्तु-स्वरूपकी प्रतीति नहीं होती है । और प्रमाणसे प्रतिकूल अभिप्राय ठीक नहीं माना जा सकता, अन्यथा सब जगह अव्यवस्था प्राप्त हो जावेगी । तथा जीवाद्वैत ( जीव और मनुष्यादि पर्यायके सर्वथा अभेद ), या जीव-द्वैत ( जीव और मनुष्यादि पर्यायके सर्वथा भेद ) के माननेमें कोई प्रमाण नहीं है । यदि जीवा-द्वैतवादको प्रमाण मानते हैं तो नरक तिर्यच आदि सभी पर्यायोंको एकताकी आपत्ति आजाती है । और यदि जीव-द्वैतवादको प्रमाण मानते हैं तो देशभेद आदिकी तरह वस्तुका सत्ताकी अपेक्षा पर पदार्थसे भी भेद सिद्ध हो जाता है । इसप्रकार द्वैतवाद या अद्वैतवादमें प्रमाण नहीं मिलनेसे प्रमेयका भी सत्त्व सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि, प्रमाणके व्यापारकी अपेक्षा रखनेवाले प्रमेयका प्रमाणके अभावमें सद्भाव नहीं बन सकता है ।

शंका— प्रमाण वस्तुका कारण ( उत्पादक ) नहीं है, इसलिये प्रमाणके विनाशसे वस्तुका विनाश नहीं माना जा सकता है ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, प्रमाणके अभाव होने पर वचनकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती है, और उसके विना संपूर्ण लोकव्यवहारके विनाशका प्रसंग आता है ।

शंका— यदि लोकव्यवहार विनाशको प्राप्त होता है, तो हो जाओ ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, ऐसा मानने पर वस्तु-विषयक विधि-प्रतिषेधका भी अभाव प्राप्त हो जायगा ।

शंका— यह भी हो जाओ ?

समाधान— ऐसा भी नहीं है, क्योंकि, वस्तुका विधि-प्रतिषेधरूप व्यवहार देखा जाता है । इसलिये विधि-प्रतिषेधात्मक वस्तु स्वीकार कर लेना चाहिये । अन्यथा ऊपर कहे हुए संपूर्ण दोष प्राप्त हो जावेंगे । इसलिये यह सिद्ध हुआ कि गुणोंकी मुख्यतासे जीवोंके परस्पर समानता है, और विशेष ( पर्याय ) की मुख्यतासे परस्पर भिन्नता है ।

अथवा, गुणस्थानों और मार्गणाओंमें जीवसमासोंके अन्वेषण करनेके लिये यह सूत्र

इदानीं मनुष्याणां गुणद्वारेण सादृश्यासादृश्यप्रतिपादनार्थमाह—

मणुस्सा मिस्सा मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव संजदासंजदा ति ॥ ३१ ॥

आदितश्चतुर्षु गुणस्थानेषु ये मनुष्यास्ते मिथ्यात्वादिभिश्चतुर्भिर्गुणैस्त्रिगतिजीवैः  
समानाः संयमासंयमेन तिर्यग्भिः ।

तेण परं सुद्धा मणुस्सा ॥ ३२ ॥

शेषगुणानां मनुष्यगतिव्यतिरिक्तगतिष्वसम्भवाच्छेषगुणा मनुष्येष्वेव सम्भवन्ति  
उपरितनगुणैर्मनुष्याः न कैश्चित्समाना इति यावत् । देवनरकगत्योः सादृश्यमसादृश्यं  
वा किमिति नोक्तमिति चेन्न, आभ्यामेव प्ररूपणाभ्यां मन्दमेधसामपि तदवगमो-  
त्पत्तेरिति ।

इन्द्रियमार्गणायां गुणस्थानान्वेषणार्थमुत्तरसूत्रमाह—

इंदियाणुवादेण अत्थि एइंदिया बीइंदिया तीइंदिया चदुरिंदिया  
पंचिंदिया अणिंदिया चेदि ॥ ३३ ॥

रचा गया है ।

अब मनुष्योंकी गुणस्थानोंके द्वारा समानता और असमानताके प्रतिपादन करनेके  
लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

मिथ्यादृष्टियोंसे लेकर संयतासंयततकके मनुष्य मिश्र हैं ॥ ३१ ॥

प्रथम गुणस्थानसे लेकर चार गुणस्थानोंमें जितने मनुष्य हैं वे मिथ्यात्वादि चार  
गुणस्थानोंकी अपेक्षा तीन गतिके जीवोंके साथ समान हैं और संयमासंयमगुणस्थानकी  
अपेक्षा तिर्यचोंके साथ समान हैं ।

पांचवें गुणस्थानसे आगे शुद्ध ( केवल ) मनुष्य हैं ॥ ३२ ॥

प्रारम्भके पांच गुणस्थानोंको छोड़कर शेष गुणस्थान मनुष्यगतिके विना अन्य तीन  
गतियोंमें नहीं पाये जाते हैं, इसलिये शेष गुणस्थान मनुष्योंमें ही संभव हैं । अतः छठवें आदि  
ऊपरके गुणस्थानोंकी अपेक्षा मनुष्य अन्य तीन गतिके किन्हीं जीवोंके साथ समानता नहीं  
रखते हैं । यह इस सूत्रका तात्पर्य समझना चाहिये ।

शंका—देव और नरकगतिके जीवोंकी अन्य गतिके जीवोंके साथ समानता और  
असमानताका कथन क्यों नहीं किया ?

समाधान—अलग कथन करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि, तिर्यच और  
मनुष्यसंबन्धी प्ररूपणाओंके द्वारा ही मन्दबुद्धि जनकोंको भी देव और नारकियोंकी दूसरी गति-  
वाले जीवोंके साथ सदृशता और असदृशताका ज्ञान हो जाता है ।

अब इन्द्रियमार्गणामें गुणस्थानोंके अन्वेषणके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

इन्द्रियमार्गणाकी अपेक्षा एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय और  
अनिन्द्रिय जीव होते हैं ॥ ३३ ॥

इन्द्रनादिन्द्रः आत्मा, तस्येन्द्रस्य लिङ्गमिन्द्रियम् । इन्द्रेण सृष्टिमिति वा इन्द्रियम् । तद् द्विविधं, द्रव्येन्द्रियं भावेन्द्रियं चेति । निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम्, निर्वर्त्यत इति निर्वृत्तिः, कर्मणा या निर्वर्त्यते निष्पाद्यते सा निर्वृत्तिरित्युपदिश्यते । सा निर्वृत्तिद्विविधा बाह्याभ्यन्तरभेदात् । तत्र लोकप्रमितानां विशुद्धानामात्मप्रदेशानां प्रतिनियत-चक्षुरादीन्द्रियसंस्थानेनावस्थितानामुत्सेधाङ्गुलस्यसंख्येयभागप्रमितानां वा वृत्तिरभ्यन्तरा निर्वृत्तिः ।

आह, चक्षुरादीनामिन्द्रियाणां क्षयोपशमो हि नाम स्पर्शनेन्द्रियस्येव किमु सर्वात्म-प्रदेशेषूपजायते, उत प्रतिनियतोऽपि ? किं चातः, न सर्वात्मप्रदेशेषु स्वसर्वावयवैः रूपाद्युपलब्धिप्रसङ्गात् । अस्तु चेन्न, तथानुपलम्भात् । न प्रतिनियतात्मावयवेषु, वृत्तेः ' सिया

इन्द्रन अर्थात् ऐश्वर्यशाली होनेसे यहां इन्द्र शब्दका अर्थ आत्मा है, और उस इन्द्रके लिंग ( चिन्ह ) को इन्द्रिय कहते हैं। अथवा जो इन्द्र अर्थात् नामकर्मसे रची जावे उसे इन्द्रिय कहते हैं। वह इन्द्रिय दो प्रकारकी है, द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय। निर्वृत्ति और उपकरणको द्रव्येन्द्रिय कहते हैं। जो निर्वृत्त होती है अर्थात् कर्मके द्वारा रची जाती है उसे निर्वृत्ति कहते हैं। बाह्य-निर्वृत्ति और आभ्यन्तर-निर्वृत्तिके भेदसे वह निर्वृत्ति दो प्रकारकी है। उनमें, प्रतिनियत चक्षु आदि इन्द्रियोंके आकाररूपसे परिणत हुए लोकप्रमाण अथवा उत्सेधाङ्गुलके असंख्यातव्य भागप्रमाण विशुद्ध आत्मप्रदेशोंकी रचनाको आभ्यन्तर निर्वृत्ति कहते हैं।

शंका — जिसप्रकार स्पर्शन-इन्द्रियका क्षयोपशम संपूर्ण आत्मप्रदेशोंमें उत्पन्न होता है, उसीप्रकार चक्षु आदि इन्द्रियोंका क्षयोपशम क्या संपूर्ण आत्मप्रदेशोंमें उत्पन्न होता है, या प्रतिनियत आत्मप्रदेशोंमें ? आत्माके संपूर्ण प्रदेशोंमें क्षयोपशम होता है, यह तो माना नहीं जा सकता है, क्योंकि, ऐसा मानने पर आत्माके संपूर्ण अवयवोंसे रूपादिककी उपलब्धिका प्रसंग आ जायगा। यदि कहा जाय, कि संपूर्ण अवयवोंसे रूपादिककी उपलब्धि होती ही है, सो यह भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि, सर्वांगसे रूपादिका ज्ञान होता हुआ पाया नहीं जाता। इसलिये सर्वांगमें तो क्षयोपशम माना नहीं जा सकता है। और यदि आत्माके प्रतिनियत अवयवोंमें

१ इन्द्रतीति इन्द्र आत्मा, तस्य ज्ञस्वभावस्य तदावरणक्षयोपशमे सति स्वयमर्थान् गृहीतुमसमर्थस्य यदधो-पलब्धिनिमित्तं लिंगं तदिन्द्रस्य लिंगमिन्द्रियमित्युच्यते । अथवा लीनमर्थं गमयतीति लिंगम् । आत्मनः सूक्ष्मस्यास्ति-त्वाधिगमे लिंगमिन्द्रियम् । अथवा ' इन्द्र ' इति नामकर्मोच्यते, तेन सृष्टिमिन्द्रियमिति । स. सि. १, १४.

२ भावः चित्परिणामः, तदात्मकमिन्द्रियं भावेन्द्रियम् । गो. जी., जी. प्र., टी. १६५.

३ जातिनामकर्मोदयसहकारि देहनामकर्मोदयजनितं निर्वृत्त्युपकरणरूपं देहचिन्हं द्रव्येन्द्रियम् ।

गो. जी., जी. प्र., टी. १६५.

४ त. सू. २, १७. ५ त. रा. वा. पु. ९०

६ उत्सेधाङ्गुलसंख्येयभागप्रमितानां शुद्धानामात्मप्रदेशानां प्रतिनियतचक्षुरादीन्द्रियसंस्थानेनावस्थितानां वृत्ति-रभ्यन्तरा निर्वृत्तिः । स. सि. २, १७. त. रा. वा. २. १७.

७ अ. क. प्रत्योः ' न ' इति पाठः नास्ति, ' नोपलम्भात् । न ' इति च स्थाने ' नोपलम्भान ' इति पाठः ।

द्विया, सिया अद्विया, सिया द्वियाद्विया” इति वेदनासूत्रतोऽवगतभ्रमणेषु जीवप्रदेशेषु प्रचलत्सु सर्वजीवानामान्ध्यप्रसङ्गादिति नैप दोषः, सर्वजीवावयवेषु क्षयोपशमस्योत्पत्त्यभ्युपगमात् । न सर्वावयवैः रूपाद्युपलब्धिरपि तत्सहकारिकारणवाह्यनिर्वृत्तेशेषजीवावयवव्यापित्वाभावात् । कर्मस्कन्धैः सह सर्वजीवावयवेषु भ्रमत्सु तत्समवेतशरीरस्यापि तद्वद्भ्रमो भवेदिति

चक्षु आदि इन्द्रियोंका क्षयोपशम माना जाय, सो भी कहना नहीं बनता है, क्योंकि, ऐसा मान लेने पर 'आत्मप्रदेश चल भी है, अचल भी है और चलाचल भी है' इसप्रकार वेदनाप्राभृतके सूत्रसे आत्मप्रदेशोंका भ्रमण अवगत हो जाने पर, जीवप्रदेशोंकी भ्रमणरूप अवस्थामें संपूर्ण जीवोंको अन्धपनेका प्रसंग आ जायगा, अर्थात् उस समय चक्षु आदि इन्द्रियों रूपादिको ग्रहण नहीं कर सकेंगी ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, जीवके संपूर्ण प्रदेशोंमें क्षयोपशम की उत्पत्ति स्वीकार की है । परंतु ऐसा मान लेने पर भी, जीवके संपूर्ण प्रदेशोंके द्वारा रूपादिकी उपलब्धिका प्रसंग भी नहीं आता है, क्योंकि, रूपादिके ग्रहण करनेमें सहकारी कारणरूप वाह्य-निर्वृत्ति जीवके संपूर्ण प्रदेशोंमें नहीं पाई जाती है ।

विशेषार्थ—ऊपर अभ्यन्तर निर्वृत्तिकी रचना दो प्रकारसे बतला आये हैं । प्रथम, लोकप्रमाण आत्मप्रदेशोंकी इन्द्रियाकार रचनाको अभ्यन्तर निर्वृत्ति कहा है । दूसरे, उत्सेधांगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण आत्मप्रदेशोंकी इन्द्रियाकार रचनाको अभ्यन्तर निर्वृत्ति कहा है । इसप्रकार अभ्यन्तर निर्वृत्तिकी रचना दो प्रकारसे बतलानेका यह अभिप्राय प्रतीत होता है कि स्पर्शन-इन्द्रिय सर्वांग होती है, इसलिये स्पर्शनेन्द्रियसंबन्धी अभ्यन्तर निर्वृत्ति भी सर्वांग होगी । इस अपेक्षासे लोकप्रमाण आत्मप्रदेशोंकी इन्द्रियाकार रचना अभ्यन्तर निर्वृत्ति कहलाती है, यह कथन बन जाता है और शेष इन्द्रियसंबन्धी अभ्यन्तर निर्वृत्ति उत्सेधांगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण बन जाती है । अथवा, 'सर्वजीवावयवेषु क्षयोपशमस्योत्पत्त्यभ्युपगमात्' अर्थात् जीवके संपूर्ण अवयवोंमें क्षयोपशमकी उत्पत्ति स्वीकार की है, ऊपर कहे गये इस वचनके अनुसार प्रत्येक इन्द्रियावरण कर्मका क्षयोपशम सर्वांग होता है, इसलिये पांचों इन्द्रियोंकी अभ्यन्तर निर्वृत्ति सर्वांग होना संभव है । किंतु इतनी विशेषता समझ लेना चाहिये कि स्पर्शनेन्द्रियकी अभ्यन्तर निर्वृत्तिको छोड़कर शेष इन्द्रियसंबन्धी अभ्यन्तर निर्वृत्ति उत्सेधांगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण आत्मप्रदेशोंमें ही व्यक्त होती है ।

शंका—कर्मस्कन्धोंके साथ जीवके संपूर्ण प्रदेशोंके भ्रमण करने पर, जीवप्रदेशोंसे

१ वे. वे. सु. ५-७. स्थितास्थितवचनात् । ×× तत्र सर्वकालं जीवाद्यमध्यमप्रदेशाः निरपवादाः सर्वजीवानां स्थिता एव । केवलिनमपि अयोगिनां सिद्धानां च सर्वप्रदेशाः स्थिता एव । व्यायामदुःखपरितापोद्रेकपरिणतानां जीवानां यथात्ताद्यमध्यप्रदेशवर्जितानां इतरे प्रदेशाः अस्थिता एव । शेषाणां प्राणिनां स्थिताश्चास्थिताश्चेति वचनात् । त. रा. वा. ५. ८. १४.

२ प्रतिपु 'मान्य' इति पाठः ।

चेन्न, तद्भ्रमणावस्थायां तत्समवायाभावात् । शरीरेण समवायाभावे मरणमादौकत इति चेन्न, आयुषः क्षयस्य मरणहेतुत्वात् । पुनः कथं संघटत इति चेन्नानाभेदोपसंहृतजीवप्रदेशानां पुनः संघटनोपलम्भात्, द्वयोर्मूर्तयोः संघटने विरोधाभावाच्च, तत्संघटनहेतुकर्मोदयस्य कार्यवैचित्र्यादवगतवैचित्र्यस्य सत्त्वाच्च । द्रव्येन्द्रियप्रमितजीवप्रदेशानां न भ्रमणमिति किन्नेष्यत इति चेन्न, तद्भ्रमणमन्तरेणाशुभ्रमज्जीवानां भ्रमद्भूम्यादिदर्शनानुपपत्तेः इति । तेष्व्वात्मप्रदेशेषु इन्द्रियव्यपदेशभाक्षु यः प्रतिनियतसंस्थानो नामकर्मोदयापादितावस्थाविशेषः पुद्गलप्रचयः स बाह्या निर्वृत्तिः । मसूरिकाकारा अङ्गुलस्यासंख्येयभागप्रमिता चक्षुरिन्द्रियस्य बाह्यनिर्वृत्तिः । यवनालिकाकारा अङ्गुलस्यासंख्येयभागप्रमिता श्रोत्रस्य बाह्या निर्वृत्तिः ।

समवायसंबन्धको प्राप्त शरीरका भी जीवप्रदेशोंके समान भ्रमण होना चाहिये ?

समाधान—ऐसा नहीं है, क्योंकि, जीवप्रदेशोंकी भ्रमणरूप अवस्थामें शरीरका उनसे समवायसंबन्ध नहीं रहता है ।

शंका—भ्रमणके समय शरीरके साथ जीवप्रदेशोंका समवायसंबन्ध नहीं मानने पर मरण प्राप्त हो जायगा ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, आयु-कर्मके क्षयको मरणका कारण माना है ।

शंका—तो जीवप्रदेशोंका शरीरके साथ फिरसे समवायसंबन्ध कैसे बन जाता है ?

समाधान—इसमें भी कोई बाधा नहीं है, क्योंकि, जिन्होंने नाना अवस्थाओंका उपसंहार कर लिया है, ऐसे जीवोंके प्रदेशोंका शरीरके साथ फिरसे समवायसंबन्ध उपलब्ध होता हुआ देखा ही जाता है । तथा, दो मूर्त पदार्थोंके संबन्ध होनेमें कोई विरोध भी नहीं आता है । अथवा, जीवप्रदेश और शरीर संघटनके हेतुरूप कर्मोदयके कार्यकी विचित्रतासे यह सब होता है । और जिसके अनेक प्रकारके कार्य अनुभवमें आते हैं ऐसे कर्मका सत्त्व पाया ही जाता है ।

शंका—द्रव्येन्द्रिय-प्रमाण जीवप्रदेशोंका भ्रमण नहीं होता, ऐसा क्यों नहीं मान लेते हो ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, यदि द्रव्येन्द्रिय-प्रमाण जीवप्रदेशोंका भ्रमण नहीं माना जावे, तो अत्यन्त द्रुतगतिसे भ्रमण करते हुए जीवोंको भ्रमण करती हुई पृथिवी आदिका ज्ञान नहीं हो सकता है । इसलिये आत्मप्रदेशोंके भ्रमण करते समय द्रव्येन्द्रिय प्रमाण आत्मप्रदेशोंका भी भ्रमण स्वीकार कर लेना चाहिये । इसतरह इन्द्रिय-व्यपदेशको प्राप्त होनेवाले उन आत्म-प्रदेशोंमें, जो प्रतिनियत आकारवाला और नामकर्मके उदयसे अवस्था-विशेषको प्राप्त पुद्गल-है उसे बाह्य-निर्वृत्ति कहते हैं । मसूरके समान आकारवाली और घनांगुलके असंख्यातव-चक्षु इन्द्रियकी बाह्य-निर्वृत्ति होती है । यवकी नालीके सामान आकारवाली और

अतिमुक्तकपुष्पसंस्थाना अङ्गुलस्यासंख्येयभागप्रमिता घ्राणनिर्वृत्तिः । अर्धचन्द्राकारा क्षुरप्राकारा वाङ्गुलस्य संख्येयभागप्रमिता रसननिर्वृत्तिः । स्पर्शनेन्द्रियनिर्वृत्तिरनियत-संस्थाना । सा जघन्येन अङ्गुलस्यासंख्येयभागप्रमिता सूक्ष्मशरीरेषु, उत्कर्षेण संख्येयघनाङ्गुल-प्रमिता महामत्स्यादित्रसजीवेषु । सर्वतः स्तोकाश्चक्षुषः प्रदेशाः, श्रोत्रेन्द्रियप्रदेशाः संख्येयगुणाः, घ्राणेन्द्रियप्रदेशा विशेषाधिकाः, जिह्वायामसंख्येयगुणाः, स्पर्शने संख्येय-गुणाः । उक्तं च—

घनांगुलके असंख्यातवें भाग-प्रमाण श्रोत्र-इन्द्रियकी बाह्य-निर्वृत्ति होती है । कदम्बके फूलके समान आकारवाली और घनांगुलके असंख्यातवें भाग-प्रमाण घ्राण-इन्द्रियकी बाह्य-निर्वृत्ति होती है । अर्ध-चन्द्र अथवा खुरपाके समान आकारवाली और घनांगुलके असंख्यातवें भाग-प्रमाण रसना इन्द्रियकी बाह्य-निर्वृत्ति होती है । स्पर्शन-इन्द्रियकी बाह्य-निर्वृत्ति अनियत आकारवाली होती है । वह जघन्य-प्रमाणकी अपेक्षा घनांगुलके असंख्यातवें भाग-प्रमाण सूक्ष्मनिगोदिया लब्धपर्याप्तक जीवके ( तीन मोड़ेसे उत्पन्न होनेके तृतीय समयवर्ती ) शरीरमें पाई जाती है, और उत्कृष्ट प्रमाणकी अपेक्षा संख्यात घनांगुल-प्रमाण महामत्स्य आदि त्रस-जीवोंके शरीरमें पाई जाती है । चक्षु-इन्द्रियके अवगाहनारूप प्रदेश सबसे कम हैं । उनसे संख्यात-गुणे श्रोत्र-इन्द्रियके प्रदेश हैं । उनसे अधिक घ्राण-इन्द्रियके प्रदेश हैं । उनसे असंख्यातगुणे जिह्वा-इन्द्रियमें प्रदेश हैं । और उनसे संख्यातगुणे स्पर्शन-इन्द्रियमें प्रदेश हैं ।

विशेषार्थ — ऊपर इन्द्रियोंकी अवगाहना बतला कर जो चक्षु आदि इन्द्रियोंके प्रदेशोंका प्रमाण बतलाया गया है, वह इन्द्रियोंकी अवगाहनाके तारतम्यका ही बोधक जानना चाहिये । अर्थात् चक्षु इन्द्रिय अपनी अवगाहनासे जितने आकाश-प्रदेशोंको रोकती है, उससे संख्यात-गुणे आकाश-प्रदेशोंको व्याप्त कर श्रोत्रेन्द्रिय रहती है । उससे विशेष अधिक आकाशप्रदेशोंको घ्राण-इन्द्रिय व्याप्त करती है । उससे असंख्यातगुणे आकाशप्रदेशोंको व्याप्त कर जिह्वा-इन्द्रिय रहती है और उससे संख्यातगुणे आकाश-प्रदेशोंको व्याप्त कर स्पर्शन-इन्द्रिय रहती है । गोमट्टसार जीवकाण्डकी 'अंगुलअसंखभाग' इत्यादि गाथासे इसी कथनकी पुष्टि होती है । अवगाहनाके समान इन्द्रियाकार आत्मप्रदेशोंकी रचनामें भी यह क्रम लागू हो सकता है । परंतु राजवार्तिकमें 'स्पर्शनरसनघ्राणचक्षुःश्रोत्राणि' इस सूत्रकी व्याख्या करते हुए रसना-इन्द्रियसे स्पर्शन-इन्द्रियके प्रदेश अनन्तगुणे अधिक बतलाये हैं । यह कथन इन्द्रियोंकी अव-गाहना और इन्द्रियाकार आत्मप्रदेशोंकी रचनामें किसी भी प्रकारसे घटित नहीं होता है, क्योंकि, एक जीवके अवगाहनरूप क्षेत्र और आत्मप्रदेश अनन्तप्रमाण या अनन्तगुणे संभव ही नहीं हो सकते । संभव है वहां पर बाह्यनिर्वृत्तिके प्रदेशोंकी अपेक्षासे उक्त कथन किया गया हो । कहा भी है—

१ सूक्ष्मनिगोदअपञ्जतयस्स जादस्स तदियसमयन्नि । अंगुलअसंखभागं जहणमुक्तस्यं मच्छे ॥ गो. जी. १७३.

२ 'स्पर्शनेऽनन्तगुणाः' इति पाठः त. रा. वा. २. १९. ५.

जव-णालिया मसूरी चंदद्वइमुत्त-फुल्ल-तुल्लाई ।

इंदिय-संटाणाई पसं पुण णेय-संटाणं ॥ १३४ ॥

उपक्रियतेऽनेनेत्युपकरणम्, येन निर्वृत्तेरुपकारः क्रियते तदुपकरणम् । तद् द्विविधं बाह्याभ्यन्तरभेदात् । तत्राभ्यन्तरं कृष्णशुक्लमण्डलम् । बाह्यमक्षिपत्रपक्षमद्रयादि । एवं शेषेन्द्रियेषु ज्ञेयम् । लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियम्<sup>१</sup> । इन्द्रियनिर्वृत्तिहेतुः क्षयोपशमविशेषो लब्धिः<sup>२</sup> । यत्सन्निधानादात्मा द्रव्येन्द्रियनिर्वृत्तिं प्रति व्याप्रियते स ज्ञानावरणक्षयोपशमविशेषो लब्धिरिति विज्ञायते । तदुक्तनिमित्तं प्रतीत्योत्पद्यमानः आत्मनः परिणामः उपयोग<sup>३</sup> इत्यपदिश्यते । तदेतदुभयं भावेन्द्रियम् । उपयोगस्य तत्फलत्वादिन्द्रियव्यपदेशानुपपत्ति-

श्रोत्र-इन्द्रियका आकार यवकी नालीके समान है, चक्षु-इन्द्रियका मगूरके समान, रसना-इन्द्रियका आधे चन्द्रमाके समान, घ्राण-इन्द्रियका कदम्बके फूलके समान आकार है और स्पर्शन-इन्द्रिय अनेक आकारवाली है ॥ १३४ ॥

जिसके द्वारा उपकार किया जाता है, अर्थात् जो निर्वृत्तिका उपकार करता है उसे उपकरण कहते हैं। वह बाह्य-उपकरण और अभ्यन्तर-उपकरणके भेदसे दो प्रकारका है। उनमेंसे कृष्ण और शुक्ल मण्डल नेत्र-इन्द्रियका अभ्यन्तर-उपकरण है, और दोनों पलकें तथा दोनों नेत्ररोम ( बरोनी ) आदि उसके बाह्य-उपकरण हैं । इसीप्रकार शेष इन्द्रियोंमें जानना चाहिये ।

लब्धि और उपयोगको भावेन्द्रिय कहते हैं। इन्द्रियकी निर्वृत्तिका कारणभूत जो क्षयोपशम-विशेष है उसे लब्धि कहते हैं। अर्थात् जिसके सन्निधानसे आत्मा द्रव्येन्द्रियकी रचनामें व्यापार करता है, ऐसे ज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशम-विशेषको लब्धि कहते हैं। और उस पूर्वोक्त निमित्तके आलम्बनसे उत्पन्न होनेवाले आत्माके परिणामको उपयोग कहते हैं।

१ चक्खु सोदं घाणं जिब्भायारं मसूरजवणाली । अतिमुत्तखुरप्पसमं फासं तु अण्यसंटाणं ॥ गो. जी. १७१.

२ पाठोऽयं त. रा. वा. २. १७. वा. ५-७ व्याख्यया समानः ।

३ त. सू. २. १८.

४ अर्थग्रहणशक्तिर्लब्धिः । लघी. स्व. वि. १. ५. । गो. जी., जी. प्र., टी. १६५. लम्भनं लब्धिः । कः पुनरसौ ? ज्ञानावरणक्षयोपशमविशेषः । स. सि. २. १८. इन्द्रियनिर्वृत्तिहेतुः क्षयोपशमविशेषो लब्धिः । त. रा. वा. २. १८. १. स्वार्थसंविद्योग्यतेव च लब्धिः । त. श्लो. वा. २. १८. आवरणक्षयोपशमप्राप्तिरूपा अर्थग्रहणशक्तिर्लब्धिः । स्या. रत्ना. पृ. ३४४.

५ अर्थग्रहणव्यापार उपयोगः । गो. जी., जी. प्र., टी. १६५. उपयोगः पुनः अर्थग्रहणव्यापारः । लघी. स्व. वि. १. ५. यत्सन्निधानादात्मा द्रव्येन्द्रियनिर्वृत्तिं प्रति व्याप्रियते तन्निमित्त आत्मनः परिणाम उपयोगः । स. सि. २. १८. । त. रा. वा. २. १८. २. उपयोगः प्रणिधानम् । त. भा. २. १९. उपयोगस्तु रूपादिग्रहणव्यापारः । स्या. रत्ना. पृ. ३४४.

६ उपयोगस्य फलत्वादिन्द्रियव्यपदेशानुपपत्तिरिति चेन्न, कारणधर्मस्य कार्यानुवृत्तेः । त. रा. वा. २. १८. ३.

रिति चेन्न, कारणधर्मस्य कार्यानुवृत्तेः । कार्यं हि लोके कारणमनुवर्तमानं दृष्टं, यथा घटाकारपरिणतं विज्ञानं घट इति । तथेन्द्रियनिवृत्त उपयोगोऽपि इन्द्रियमित्यपदिश्यते । इन्द्रस्य लिङ्गमिन्द्रेण सृष्टमिति वा य इन्द्रियशब्दार्थः स क्षयोपशमे प्राधान्येन विद्यत इति तस्येन्द्रियव्यपदेशो न्याय्य इति । तेन इन्द्रियेण अनुवादः इन्द्रियानुवादः, तेन सन्ति एकेन्द्रियाः । एकमिन्द्रियं येषां त एकेन्द्रियाः । किं तदेकमिन्द्रियम् ? स्पर्शनम् । वीर्यान्तरायस्पर्शनेन्द्रियावरणक्षयोपशमाङ्गोपाङ्गनामलाभावष्टम्भात्स्पृशत्यनेनेति स्पर्शनं करणकारके । इन्द्रियस्य स्वातन्त्र्यविवक्षायां कर्तृत्वं च भवति । यथा पूर्वोक्तहेतुसन्निधाने सति स्पृशतीति स्पर्शनम् । कोऽस्य विषयः ? स्पर्शः । कोऽस्यार्थः ? उच्यते, यदा वस्तु

इसप्रकार लब्धि और उपयोग ये दोनों भावेन्द्रियां हैं ।

शंका—उपयोग इन्द्रियोंका फल है, क्योंकि, उसकी उत्पत्ति इन्द्रियोंसे होती है, इसलिये उपयोगको इन्द्रिय संज्ञा देना उचित नहीं है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, कारणमें रहनेवाले धर्मकी कार्यमें अनुवृत्ति होती है । अर्थात् कार्य लोकमें कारणका अनुकरण करना हुआ देखा जाता है । जैसे, घटके आकारसे परिणत हुए ज्ञानको घट कहा जाता है, उसीप्रकार इन्द्रियोंसे उत्पन्न हुए उपयोगको भी इन्द्रिय संज्ञा दी गई है ।

इन्द्र ( आत्मा ) के लिंगको इन्द्रिय कहते हैं । या जो इन्द्र अर्थात् नामकर्मसे रची गई है उसे इन्द्रिय कहते हैं । इसप्रकार जो इन्द्रिय शब्दका अर्थ किया जाता है, वह क्षयोपशममें प्रधानतासे पाया जाता है, इसलिये उपयोगको इन्द्रिय संज्ञा देना उचित है ।

उक्त प्रकारकी इन्द्रियकी अपेक्षा जो अनुवाद, अर्थात् आगमानुकूल कथन किया जाता है उसे इन्द्रियानुवाद कहते हैं । उसकी अपेक्षा एकेन्द्रिय जीव हैं । जिनके एक ही इन्द्रिय पाई जाती है उन्हें एकेन्द्रिय जीव कहते हैं ।

शंका—वह एक इन्द्रिय कौनसी है ?

समाधान—वह एक इन्द्रिय स्पर्शन समझना चाहिये ।

वीर्यान्तराय और स्पर्शनेन्द्रियावरण कर्मके क्षयोपशमसे तथा आंगोपांग नामकर्मके उद्भयरूप आलम्बनसे जिसके द्वारा आत्मा पदार्थोंको स्पर्श करता है, अर्थात् पदार्थगत स्पर्श-धर्मकी मुख्यतासे जानता है, उसे स्पर्शन-इन्द्रिय कहते हैं । यह लक्षण करण-कारककी अपेक्षामें ( परतन्त्र विवक्षामें ) वन्ता है । और इन्द्रियकी स्वातन्त्र्यविवक्षामें कर्तृ-साधन भी होता है । जैसे, पूर्वोक्त साधनोंके रहने पर जो स्पर्श करती है उसे स्पर्शन-इन्द्रिय कहते हैं ।

शंका—स्पर्शन-इन्द्रियका विषय क्या है ?

१ सन्दर्भोयं त. रा. वा. २. १८. वा. १-३. ध्यास्यया समानः ।

२ स. सि. २. १९. त. रा. वा. २. १९.



प्राधान्येन विवक्षितं तदा इन्द्रियेण वस्त्वेन विपर्याकृतं भवेद् वस्तुव्यतिरिक्तस्पर्शाद्यभावात् । एतस्यां विवक्षायां स्पृश्यत इति स्पर्शो वस्तु । यदा तु पर्यायः प्राधान्येन विवक्षितस्तदा तस्य ततो भेदोपपत्तेरौदासीन्यावस्थितभावकथनाद्भावसाधनत्वमप्यविरुद्धम्, यथा स्पर्शनं स्पर्श इति । यद्येवम्, सूक्ष्मेषु परमाण्वादिषु स्पर्शव्यवहारो न प्राप्नोति तत्र तदभावात् ? नैष दोषः, सूक्ष्मेष्वपि परमाण्वादिष्वस्ति स्पर्शः स्थूलेषु तत्कार्येषु तद्दर्शनान्यथानुपपत्तेः । नह्यत्यन्तासतां प्रादुर्भावोऽस्त्यतिप्रसङ्गात् । किन्तु इन्द्रियग्रहणयोग्या न भवन्ति । ग्रहणायोग्यानां कथं स व्यपदेश इति चेन्न, तस्य सर्वदायोग्यत्वाभावात् । परमाणुगतः सर्वदा

समाधान—स्पर्शन-इन्द्रियका विषय स्पर्श है ।

शंका—स्पर्शका क्या अर्थ है ? अर्थात् स्पर्शसे किसका ग्रहण करना चाहिये ?

समाधान—जिस समय द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा प्रधानतासे वस्तु ही विवक्षित होती है, उस समय इन्द्रियके द्वारा वस्तुका ही ग्रहण होता है, क्योंकि, वस्तुको छोड़कर स्पर्शादिक धर्म पाये नहीं जाते हैं । इसलिये इस विवक्षामें जो स्पर्श किया जाता है उसे स्पर्श कहते हैं, और वह स्पर्श वस्तुरूप ही पड़ता है । तथा जिस समय पर्यायार्थिकनयकी प्रधानतासे पर्याय विवक्षित होती है, उससमय पर्यायका द्रव्यसे भेद होनेके कारण उदासीनरूपसे अवस्थित भावका कथन किया जाता है । इसलिये स्पर्शमें भावसाधन भी बन जाता है । जैसे, स्पर्शन ही स्पर्श है ।

शंका—यदि ऐसा है, तो सूक्ष्म परमाणु आदिमें स्पर्शका व्यवहार नहीं बन सकता है, क्योंकि, उसमें स्पर्शनरूप क्रियाका अभाव है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, सूक्ष्म परमाणु आदिमें भी स्पर्श है, अन्यथा, परमाणुओंके कार्यरूप स्थूल पदार्थोंमें स्पर्शकी उपलब्धि नहीं हो सकती थी । किंतु स्थूल पदार्थोंमें स्पर्श पाया जाता है, इसलिये सूक्ष्म परमाणुओंमें भी स्पर्शकी सिद्धि हो जाती है, क्योंकि, न्यायका यह सिद्धान्त है, कि जो अत्यंत ( सर्वथा ) असत् होते हैं उनकी उत्पत्ति नहीं होती है । यदि सर्वथा असत्की उत्पत्ति मानी जावे तो अतिप्रसंग हो जायगा । ( अर्थात् चाँदके पुत्र, आकाशके फूल आदि अविद्यमान बातोंका भी प्रादुर्भाव मानना पड़ेगा ) इसलिये यह समझना चाहिये कि परमाणुओंमें स्पर्शादिक पाये तो अवश्य जाते हैं, किंतु वे इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं होते हैं ।

शंका—जब कि. परमाणुओंमें रहनेवाला स्पर्श इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता है, तो फिर उसे स्पर्श संज्ञा कैसे दी जा सकती है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, परमाणुगत स्पर्शके इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण करनेकी योग्यताका सदैव अभाव नहीं है ।

१ 'भैवांसतो जन्म सती न नाशो' वृ. स्व. स्तो. २४. नासतो विद्यते भावो नाभावी विद्यते सतः । भग. गी. २. २६.

२ प्रबन्धोऽयं त. रा. वा. २. २०. १. व्याख्यया समानः ।

न ग्रहणयोग्यश्चेन्न, तस्यैव स्थूलकार्याकारेण परिणतौ योग्यत्वोपलम्भात् । के त एकेन्द्रियाः ? पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतयः । एतेषां स्पर्शनमेकमेवेन्द्रियमस्ति, न शेषाणीति कथमवगम्यत इति चेन्न, स्पर्शनेन्द्रियवन्त एत इति प्रतिपादकार्षोपलम्भात् । क्व तत्सूत्रमिति चेत्कथ्यते—

जाणदि पस्सदि भुंजदि सेवदि पस्सिदिणण एक्केण ।

कुणदि य तस्सामित्तं थावरु एइदिओ तेण ॥ १३५ ॥

‘वनस्पत्यन्तानामेकम्’ इति तत्त्वार्थसूत्राद्वा । अस्यार्थः, अयमन्तशब्दोऽनेकार्थवाचकः, क्वचिदवयवे, यथा वस्त्रान्तो वसनान्त इति । क्वचित्सामीप्ये, यथा उदकान्तं गतः, उदकसमीपं गत इति । क्वचिदवसाने वर्तते, यथा संसारान्तं गतः, संसारावसानं

शंका—परमाणुमें रहनेवाला स्पर्श तो इन्द्रियोंद्वारा कभी भी ग्रहण करने योग्य नहीं है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, जब परमाणु स्थूल कार्यरूपसे परिणत होते हैं, तब तद्गत धर्मोंकी इन्द्रियोंद्वारा ग्रहण करनेकी योग्यता पाई जाती है ।

शंका—वे एकेन्द्रिय जीव कौन कौनसे हैं ?

समाधान—पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, और वनस्पति, ये पांच एकेन्द्रिय जीव हैं ।

शंका—इन पांचोंके एक स्पर्शन इन्द्रिय ही होती है, शेष इन्द्रियां नहीं होतीं, यह कैसे जाना ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, पृथिवी आदि एकेन्द्रिय जीव एक स्पर्शन-इन्द्रियवाले होते हैं, इसप्रकार कथन करनेवाला आर्ष-वचन पाया जाता है ।

शंका—यह आर्ष-वचन कहाँ पाया जाता है ?

समाधान—वह आर्ष-वचन यहाँ कहा जाता है—

क्योंकि, स्थावर जीव एक स्पर्शन इन्द्रियके द्वारा ही जानता है, देखता है, खाता है, सेवन करता है और उसका स्वामीपना करता है, इसलिये उसे एकेन्द्रिय स्थावर जीव कहा है ॥ १३५ ॥

अथवा, ‘वनस्पत्यन्तानामेकम्’ तत्त्वार्थसूत्रके इस वचनसे जाना जाता है कि उनके एक स्पर्शन इन्द्रिय ही होती है । अब इस सूत्रका अर्थ करते हैं, अन्त शब्द अनेक अर्थोंका वाचक है । कहीं पर अवयवरूप अर्थमें आता है, जैसे, ‘वस्त्रान्तः’ अर्थात् वस्त्रका अवयव । कहीं पर समीपताके अर्थमें आता है, जैसे ‘उदकान्तं गतः’ अर्थात् जलके समीप गया । कहीं पर अवसानरूप अर्थमें आता है, जैसे, ‘संसारान्तं गतः’ अर्थात् संसारके अन्तको प्राप्त हुआ ।

गत इति । तत्रेह विवक्षातोऽवसानार्थो वेदितव्यः । वनस्पत्यन्तानां वनस्पत्यवसानानां-  
मिति सामीप्यार्थः किन्न गृह्यते ? वनस्पत्यन्तानां वनस्पतिसमीपानामित्यर्थे गृह्यमाणे  
वायुकायानां त्रसकायानां च सम्प्रत्ययः प्रसज्येत 'पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतित्रसाः'  
इत्यत्र तयोरेव सामीप्यदर्शनात् । अयमन्तशब्दः सम्वन्धिशब्दत्वात् कांश्चित्पूर्वानपेक्ष्य  
वर्तते । ततोऽर्थादादिसम्प्रत्ययो भवति तस्मादयमर्थोऽवगम्यते पृथिव्यादीनां वनस्पत्य-  
न्तानामेकमिन्द्रियमिति । एवमपि पृथिव्यादीनां वनस्पत्यन्तानां स्पर्शनादिप्वन्यतम-  
मेकमिन्द्रियं प्राप्नोत्यविशेषादिति चेन्नैप दोषः, अयमेकशब्दः प्राथम्यवचनम् 'स्पर्शन-  
रसनघ्राणचक्षुःश्रोत्राणि' इत्यत्रतनप्राथम्यमाश्रित इति । वीर्यान्तरायस्पर्शनैन्द्रियावरण-  
क्षयोपशमे सति शेषेन्द्रियसर्वघातिस्पर्धकोंदये चैकेन्द्रियजातिनामकर्मोदयवशवर्तितायां च  
सत्यां स्पर्शनमेकमिन्द्रियमाविर्भवति ।

उनमेंसे यहां पर विवक्षासे अन्त शब्दका अवसानरूप अर्थ जानना चाहिये ।

शंका—'वनस्पत्यन्तानामेकम्' इसमें आये हुए अन्त पदका 'वनस्पतिके समीपवर्ती  
जीवोंके एक स्पर्शन-इन्द्रिय होती है' इसप्रकार सामीप्य-वाचक अर्थ क्यों नहीं लेते ?

समाधान—यदि 'वनस्पत्यन्तानामेकम्' इस सूत्रमें आये हुए अन्त शब्दका  
समीप अर्थ लिया जाय तो उससे वायुकायिक और त्रसकायिकका ही ज्ञान होगा, क्योंकि,  
'पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतित्रसाः' इस वचनमें वायुकायिक और त्रसकायिक ही वनस्पतिके  
समीप दिखाई देते हैं। यह अन्त शब्द संबन्धी शब्द होनेसे अपनेसे पूर्ववर्ती कितने ही शब्दोंकी  
अपेक्षा करके प्रवृत्ति करता है, और इससे अर्थवश आदिका ज्ञान हो जाता है। उससे यह  
अर्थ मालूम पड़ता है कि पृथिवीकायिकसे लेकर वनस्पति पर्यन्त जीवोंके एक स्पर्शन इन्द्रिय  
ही होती है ।

शंका—ऐसा मान लेने पर भी पृथिवीसे लेकर वनस्पति पर्यन्त जीवोंके स्पर्शन  
आदि पांच इन्द्रियोंमेंसे कोई एक इन्द्रिय प्राप्त होती है, क्योंकि, 'वनस्पत्यान्तानामेकम्' इस  
सूत्रमें आया हुआ एक पद स्पर्शन-इन्द्रियका बोधक तो है नहीं, वह तो सामान्यसे संख्यावाची  
है, इसलिये पांच इन्द्रियोंमेंसे किसी एक इन्द्रियका ग्रहण किया जा सकता है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, यह एक शब्द प्राथम्यवाची है, इसलिये  
उससे 'स्पर्शनरसनघ्राणचक्षुःश्रोत्राणि' इस सूत्रमें आई हुई सबसे प्रथम स्पर्शन-इन्द्रियका  
ही-ग्रहण होता है ।

वीर्यान्तराय और स्पर्शनेन्द्रियावरण कर्मके क्षयोपशम होने पर, रसना आदि शेष  
इन्द्रियावरणके सर्वघाती स्पर्धकोंके उदय होने पर तथा एकेन्द्रियजाति नामकर्मके उदयकी  
वशवर्तिताके होने पर स्पर्शन एक इन्द्रिय उत्पन्न होती है ।

द्वे इन्द्रिये येषां ते द्वीन्द्रियाः । के ते ? शंखशुक्तिकृम्यादयः । उक्तं च—

कुक्खिकिमि-सिप्पि-संखा गंडोलारिद्ध-अक्खं-खुल्ला य ।

तह य वराडय जीवा णेया वेइंदिया एदे' ॥ १३६ ॥

के ते द्वे इन्द्रिय इति चेत्स्पर्शनरसने । स्पर्शनमुक्तलक्षणम् । भेदविवक्षायां वीर्यान्तरायरसनेन्द्रियावरणक्षयोपशमाङ्गोपाङ्गनामलाभावष्टम्भाद्रसयत्यनेनेति रसनं करण-

जिनके दो इन्द्रियां होती हैं उन्हें द्वीन्द्रिय जीव कहते हैं ।

शंका—वे द्वीन्द्रिय जीव कौन कौन हैं ?

समाधान—शंख, शुक्ति और कृमि आदिक द्वीन्द्रिय जीव हैं । कहा भी है—

कुक्षि-कृमि अर्थात् पेटके कीड़े, सीप, शंख, गण्डोला अर्थात् उदरमें उत्पन्न होनेवाली बड़ी कृमि, अरिष्ट नामक एक जीवविशेष, अक्ष अर्थात् चन्दनक नामका जलचर जीवविशेष, झुल्लक अर्थात् छोटा शंख और कौड़ी आदि द्वीन्द्रिय जीव हैं ॥ १३६ ॥

शंका—वे दो इन्द्रियां कौनसी हैं ?

समाधान—स्पर्शन और रसना । उनमेंसे स्पर्शनका स्वरूप कह आये हैं । अब रसना-इन्द्रियका स्वरूप कहते हैं—

भेद-विवक्षाकी प्रधानता अर्थात् करणकारककी विवक्षा होने पर, वीर्यान्तराय और रसनेन्द्रियावरणकर्मके क्षयोपशमसे तथा आंगोपांग नामकर्मके उदयके अवलम्बनसे जिसके द्वारा स्वादका ग्रहण होता है उसे रसना-इन्द्रिय कहते हैं । तथा इन्द्रियोंकी स्वातन्त्र्य-विवक्षा अर्थात् कर्तृ-कारककी विवक्षामें पूर्वोक्त साधनोंके मिलने पर जो आस्वाद ग्रहण करती है उसे रसना-इन्द्रिय कहते हैं ।

१ उदरान्तर्वर्तिनो हर्षा ( अर्शा ) मूलमपानकंङ्कराः स्त्रीयोन्यन्तर्गता वा जीवाः कुक्षिकृमयः । गण्डोलका उदरान्तर्वृहत्कृमयः । जलचरजीवविशेषाः चन्दनकाः, ते तु समयमाषयाऽक्षत्वेन प्रतीताः । वराटकः कपर्दकः, कौड़ीति भाषायाम् । (ग्रन्थान्तरेषु निम्नांकितनामानो जीवा अपि द्वीन्द्रियत्वेन प्रसिद्धाः) शंख-कवहुय-गंडोल-जलय-चंदणग-अलस-लहगाई । मेहर-किमि-पूरगा वेइंदिय माइवाहाई । जलय-जलौकसः । अलसा भूनागाः, येऽश्लेषास्थे भानौ जलदवृष्टौ सत्यां समुत्पद्यन्ते । लहको जीवविशेषो त्रिपयप्रसिद्धः ( उपितान्नोत्पन्नजीवः, देशीशब्दोऽयं ) मेहरकः काष्ठकीटविशेषः । पूरगा-पूतरा जलान्तर्वर्तिनो रक्तवर्णाः कृष्णमुखाः जीवाः । माइवाही-मातृवाहिका गुर्जरदेशप्रसिद्धा चुडेलीति आदिग्रहणादीलिकादयोऽनुक्ता अपि द्वीन्द्रियाः ग्राह्याः । जी. वि. प्र. पृ. १०. किमिणो सोमंगला चैव अलसा माइवाहया । वासीमुहा य सिप्पिया संख संखणगा तहा ॥ घल्लोयाणुल्लया चैव तहेव य वराडगा । जङ्गा चैव चन्दणा य तहेव य ॥ उक्त. २६, १२९-१३०. से किं तं वेइंदिया ? वेइंदिया अणेगविहा पन्नत्ता । त जहा, पुलाकिमिया, कुच्छिकिमिया, गंहुयलगा, गोलोमा, णउरा, सोमंगलगा, वंसीइहा, सुइमुहा गोजलोया, जलोया, जालाउया, संखा, संखणगा, खुल्ला, खुल्ला, गुलया, खथा, वराडा, सोत्तिया, मुत्तिया, कल्लयावासा, एगओवत्ता, दुहओवत्ता, नंदियावत्ता, संबुक्का, माइवाहा, सिप्पिसंपुडा, चंदणा, समुदलिव्खा, जे यावन्ने तहप्पगारा । प्रहा. १. ४४,

कारके । इन्द्रियाणां स्वातन्त्र्यविवक्षायां पूर्वोक्तहेतुसन्निधाने सति रसयतीति रसनं कर्तृकारके भवति । कोऽस्य विषयः ? रसः । कोऽस्यार्थः ? यदा वस्तु प्राधान्येन विवक्षितं तदा वस्तुव्यतिरिक्तपर्यायाभावाद्भवति रसः । एतस्यां विवक्षायां कर्मसाधनत्वं रसस्य, यथा रस्यत इति रसः । यदा तु पर्यायः प्राधान्येन विवक्षितस्तदा भेदोपपत्तेः औदासीन्यावस्थितभावकथनाद्भावसाधनत्वं रसस्य, रसनं रस इति । न सूक्ष्मेषु परमाणादिषु रसाभावः उक्तोत्तरत्वात् । कुत एतयोरुत्पत्तिरिति चेद्वीर्यान्तरायस्पर्शन-रसनेन्द्रियावरणक्षयोपशमं सति शेषेन्द्रियसर्वघातिस्पर्धकोदये चाङ्गोपाङ्गनामलाभावष्टम्भे द्वीन्द्रियजातिकर्मोदयवशवर्तितायां च सत्यां स्पर्शनरसनेन्द्रिये आविर्भवतः ।

त्रीणि इन्द्रियाणि येषां ते त्रीन्द्रियाः । के ते ? कुन्थुमत्कुणादयः । उक्तं च —

शंका—रसना इन्द्रियका विषय क्या है ?

समाधान—इस इन्द्रियका विषय रस है ।

शंका—रस शब्दका क्या अर्थ है ?

समाधान—जिस समय प्रधानरूपसे वस्तु विवक्षित होती है, उस समय वस्तुको छोड़कर पर्याय नहीं पाई जाती है, इसलिये वस्तु ही रस है । इस विवक्षामें रसके कर्मसाधनपना है । जैसे, जो चखा जाय, वह रस है । तथा जिस समय प्रधानरूपसे पर्याय विवक्षित होती है, उस समय द्रव्यसे पर्यायका भेद बन जाता है, इसलिये जो उदासीनरूपसे अवस्थित भाव है उसीका कथन किया जाता है । इसप्रकार रसके भावसाधनपना भी बन जाता है । जैसे, आस्वादनरूप क्रियाधर्मको रस कहते हैं । सूक्ष्म परमाणु आदिमें रसका अभाव हो जायगा, यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि, इसका उत्तर पहले दे आये हैं ।

शंका—स्पर्शन और रसना इन दोनों इन्द्रियोंकी उत्पत्ति किस कारणसे होती है ?

समाधान—वीर्यान्तराय और स्पर्शन व रसनेन्द्रियावरण कर्मके क्षयोपशम होने पर, शेष इन्द्रियावरण कर्मके सर्वघाती स्पर्धकोंके उदय होने पर, आङ्गोपाङ्ग नामकर्मके उदयकी वशवर्तिता होने पर स्पर्शन और रसना ये दो इन्द्रियां उत्पन्न होती हैं ।

जिनके तीन इन्द्रियां होती हैं उन्हें त्रीन्द्रिय जीव कहते हैं ।

शंका—वे तीन इन्द्रिय जीव कौन कौन हैं ?

समाधान—कुन्थु और खटमल आदि त्रीन्द्रिय जीव हैं । कहा भी है—

१ प्रबन्धोऽयं त. रा. वा. २. १९-२०, वा. १-१ व्याख्याभ्यां समानः ।

२ से किं तं तेइन्द्रिय-संसार-समावन्न-जीवपन्नवणा ? तेइन्द्रिय संसारसमावन्न-जीवपन्नवणा अणेगविहा पन्नत्ता । तं जहा, ओवइया, रोहिणिया, कुंथू, पिपीलिया, उदंसगा, उद्वेहिया, उकलिया, उप्पाया, उप्पाडा, तणाहारा, कट्टाहारा, मालुया, पत्ताहारा, तण्वेटिया, पत्तवेटिया, पुप्फवेटिया, फलवेटिया, वीयवेटिया, तेवुरणमिंजिया, तओसिमिंजिया, कप्पासट्टिमिंजिया, हिल्लिया, शिल्लिया, श्लिगिरा, किंगिरिडा, वाहुया, लहुया, सुभगा, सोवत्थिया, सुयवेटा, इंदकाइया, इंदगोवया, तुरतुंवगा, कुच्छलनाहगा, जूया, हालाहला, पिसुया, सयवाइया, गोम्ही, हत्थिसोडा,

कुंथु-पिपीलिक-मत्कुण-विच्छिअ-जू-इंदगोव-गोम्ही य ।

उतिरंगणद्वियादी' (?) णेया तीइंदिया जीवा' ॥ १३७ ॥

कानि तानि त्रीणीन्द्रियाणीति चेत्स्पर्शनरसनघ्राणानि । स्पर्शनरसने उक्तलक्षणो । किं घ्राणमिति ? करणसाधनं घ्राणम् । कुतः ? पारतन्त्र्यादिन्द्रियाणाम् । ततो वीर्यान्तराय-घ्राणेन्द्रियावरणक्षयोपशमाङ्गोपाङ्गनामलाभावपृष्माजिघ्रत्यनेनात्मेति घ्राणम् । कर्तृसाधनं च भवति स्वातन्त्र्यविवक्षायामिन्द्रियाणाम् । दृश्यते चेन्द्रियाणां लोके स्वातन्त्र्यविवक्षा, यथेदं मेऽक्षि सुष्ठु पश्यति, अयं मे कर्मः सुष्ठु शृणोतीति । ततः पूर्वोक्तहेतुसन्निधाने

कुन्थु, पिपीलिका, खटमल, विच्छू, जू, इन्द्रगोप, कनखजूरा, तथा उतिरंग-माद्वियादिक कौटविशेष, ये सब त्रीन्द्रिय जीव हैं ॥ १३७ ॥

शंका—वे तीन इन्द्रियां कौन कौन हैं ?

समाधान—स्पर्शन, रसना और घ्राण ये तीन इन्द्रियां हैं । इनमेंसे स्पर्शन और रसनाका लक्षण कह आये । अब घ्राण-इन्द्रियका लक्षण कहते हैं—

शंका—घ्राण किसे कहते हैं ?

समाधान—घ्राण शब्द करणसाधन है, क्योंकि, पारतन्त्र्यविवक्षामें इन्द्रियोंके करण-साधन होता है । इसलिये वीर्यान्तराय और घ्राणेन्द्रियावरण कर्मके क्षयोपशम तथा आंगोपांग नामकर्मके उदयके आलम्बनसे जिसके द्वारा सूंघा जाता है उसे घ्राण-इन्द्रिय कहते हैं । अथवा, इन्द्रियोंकी स्वातन्त्र्यविवक्षामें घ्राण शब्द कर्तृसाधन भी होता है, क्योंकि, लोकमें इन्द्रियोंकी स्वातन्त्र्यविवक्षा भी देखी जाती है । जैसे, यह मेरी आंख अच्छी तरह देखती है; यह मेरा कान अच्छी तरह सुनता है । अतः पहले कहे हुए हेतुओंके मिलने पर जो सूंघती है उसे घ्राण-इन्द्रिय कहते हैं ।

जे यावन्ने तहप्पगारा । प्रज्ञा. १. ४५.

१ अ प्रती 'उत्तिरंग' स प्रती च 'उत्तिरंग' इति पाठः ।

२ कुंथुपिपीलिके प्रतीति । मत्कुणवृश्चिकयूकेन्द्रगोपाश्चापि प्रसिद्धा एव । गोमीति गुल्मिः कर्णशृगाली ( कनखजूरा इति इन्दीमायायाम् ) विशेषपरिज्ञानायान्येऽपि त्रीन्द्रियजीवा उल्लिख्यन्ते । गोमीमत्कुणजूआपिपीलि-उद्देहिया य मकोडा । इल्लियघयमिल्लोओ सात्रय गोकीडजाईओ ॥ गद्दहयचोरकीडागोमयकीडा य धन्नकीडा य । कुंथु गु ( गो ) बालिय इल्लिया तेइंदिय इंदगोवाई ॥ उद्देहिया-उपदेहिका बाल्मीक्यः । इल्लिका धान्यादिषूत्पन्नाः । 'घयमिद्धि' ति घृतेलिकाः । 'सात्रयेति' लोकभाषया सात्रा, ते मज्जुण्यणामशुभोदकतः प्राग् भाविनि कपे शरीरकेशेषूत्पद्यन्ते । गोकीटकाः प्रतीता एव । जातिग्रहणेन सर्वतिरश्चां कर्णाघवयवेषूत्पन्नाश्च जम्बुकचिच्चडादयो प्राह्याः । गद्दहय-गर्दभकाः ( गोशालोत्पन्नजन्तवः ) चोरकीटाः, ( विष्टोत्पन्नजन्तवः ) गोमयकीटाश्चणोत्पन्नाः । धान्यकीटा युणत्वेन प्रसिद्धाः । शेषाश्च स्वनामासिद्धाः । जी. वि. प्र. पृ. ११. कुंथुपिपीलिउडुंसा उक्कुडुदेहिया तहा । तणहारकडुहारा यं मालुरा पत्तहारगा ॥ कम्पासडिडिमि जायति दुगा तउसमिजगा । सदावरी यं गुम्मी यं बोधन्वा इन्द-गाइया ॥ इन्दगोवगमाईया णेगहा एवमायओ । उक्त. ३६, १३८-१४०.

सति जिघ्रतीति घ्राणम् । कोऽस्य विषयः ? गन्धः । अयं गन्धशब्दः कर्मसाधनः । कुतः ? यदा द्रव्यं प्राधान्येन विवक्षितं तदा न ततो व्यतिरिक्ताः स्पर्शादयः केचन सन्तीति । एतस्यां विवक्षायां कर्मसाधनत्वं स्पर्शादीनामवसीयते, गन्ध्यत इति गन्धो वस्तु । यदा तु पर्यायः प्राधान्येन विवक्षितस्तदा भेदोपपत्तेः औदासीन्यावस्थितभावकथनाद्भावसाधनत्वं स्पर्शादीनां युज्यते; गन्धनं गन्ध इति । कुत एतेषामुत्पत्तिरिति चेद्वीर्यान्तरायस्पर्शनरसनघ्राणेन्द्रियावरणक्षयोपशमे सति शेषेन्द्रियसर्वघातिस्पर्धकोदये चाङ्गोपाङ्गनामलाभावष्टम्भे त्रीन्द्रियजातिकर्मोदयवशवर्तितायां च सत्यां स्पर्शनरसनघ्राणेन्द्रियाण्याविर्भवन्ति ।

चत्वारि इन्द्रियाणि येषां ते चतुरिन्द्रियाः । के ते ? मशकमक्षिकादयः ।  
उक्तं च—

शंका—घ्राण-इन्द्रियका विषय क्या है ?

समाधान—इस इन्द्रियका विषय गन्ध है ।

यह गन्ध शब्द कर्मसाधन है, क्योंकि, जिस समय प्रधानरूपसे द्रव्य विवक्षित होता है, उससमय द्रव्यसे भिन्न स्पर्शादिक कुछ भी नहीं रहते हैं, इसलिये इस विवक्षामें स्पर्शादिकके कर्मसाधन समझना चाहिये । जैसे, ' जो सूंघा जाय ' इसप्रकारकी निरुक्ति करने पर गन्ध द्रव्यरूप ही पड़ता है । तथा जिससमय प्रधानरूपसे पर्याय विवक्षित होती है, उस समय द्रव्यसे पर्यायका भेद बन जाता है, अतएव उदासीनरूपसे अवस्थित जो भाव है, वही कहा जाता है । इसतरह स्पर्शादिकके भावसाधन भी बन जाता है । जैसे, सूंघनेरूप क्रियाधर्मको गन्ध कहते हैं ।

शंका—इन तीनों इन्द्रियोंकी उत्पत्ति किस कारणसे होती है ?

समाधान—वीर्यान्तराय और स्पर्शन, रसना तथा घ्राण-इन्द्रियावरणके क्षयोपशमके होने-पर, शेष इन्द्रियावरण कर्मके सर्वघाती स्पर्धकोंके उदय होने पर, आंगोपांग नामकर्मके उदयके आलम्बन होने पर और त्रीन्द्रियजाति नामकर्मके उदयकी वशवर्तिताके होने पर स्पर्शन, रसना और घ्राण ये तीन इन्द्रियां उत्पन्न होती हैं ।

जिनके चार इन्द्रियां पाई जाती हैं वे चतुरिन्द्रिय जीव होते हैं ।

शंका—वे चतुरिन्द्रिय जीव कौन कौन हैं ?

समाधान—मच्छर, मक्खी आदि चतुरिन्द्रिय जीव हैं । कहा भी है—

१ मन्धोऽयं त. रा. वा. २. १९-२०, वा. १-१ व्याख्याभ्यां समानः ।

२ से किं तं चतुरिन्द्रिय-संसारसमावन्न-जीवपन्नवणा ? २ अणेगविहा पन्नत्ता । तं जहा, अंधिय-पत्तिथ-मच्छिय-मसगा कीडे तहा पयंगे य । ढकुण-कुक्कड-कुक्कुह-नंदावत्ते य सिंगिरडे ॥ किण्हपत्ता, नीलपत्ता, लोहियपत्ता, हालिहपत्ता, झुक्किल्लपत्ता, चित्तपक्खा, विचित्तपक्खा, ओहंजलिया, जलचारिया, गंभीरा, पीणिया, तंतवा,

मकडय-भमर-महुवर-मसय-पर्यंगा य सलह-गोमच्छी ।

मच्छी सदंस-कीडा पेया चउरिंदिया जीवा' ॥ १३८ ॥

कानि तानि चत्वारिन्द्रियाणीति चेत्स्पर्शनरसनघ्राणचक्षुषि । स्पर्शनरसनघ्राणानि उक्तलक्षणानि । चक्षुषः स्वरूपमुच्यते । तद्यथा, करणसाधनं चक्षुः । कुतः ? चक्षुषः पारतन्व्यात् । इन्द्रियाणां हि लोके पारतन्व्यविवक्षा दृश्यते आत्मनः स्वातन्त्र्यविवक्षायाम् । यथानेनाक्षणा सुष्ठु पश्यामि, अनेन कर्णेन सुष्ठु शृणोमीति । ततो वीर्यान्तराय-चक्षुरिन्द्रियावरणक्षयोपशमाङ्गोपाङ्गनामलाभावष्टम्भाच्चक्षुः । अनेकार्थत्वादर्शनार्थविवक्षायां चष्टेऽर्थान् पश्यत्यनेनेति चक्षुः । चक्षुषः कर्तृसाधनं च भवति स्वातन्त्र्यविवक्षायाम् । इन्द्रियाणां हि लोके स्वातन्त्र्यविवक्षा च दृश्यते, यथेदं मेऽक्षि सुष्ठु पश्यति, अयं मे कर्णः सुष्ठु शृणोतीति । ततः पूर्वोक्तहेतुसन्निधाने सति चष्ट इति चक्षुः । कोऽस्य

मकड़ी, भौरा, मधु-मक्खी, मच्छर, पतंग, शलभ, गोमक्खी, मक्खी, और दंशसे दशनेवाले कीड़ोंको चतुरिन्द्रिय जीव जानना चाहिये ॥ १३८ ॥

शंका—वे चार इन्द्रियां कौन कौन हैं ?

समाधान—स्पर्शन, रसना, घ्राण, और चक्षु ये चार इन्द्रियां हैं । इसमेंसे स्पर्शन, रसना, और घ्राणके लक्षण कह आये । अब चक्षु-इन्द्रियका स्वरूप कहते हैं । वह इसप्रकार है । चक्षु-इन्द्रिय करणसाधन है, क्योंकि, उसकी पारतन्व्यविवक्षा है । जिस समय आत्माकी स्वातन्त्र्यविवक्षा होती है, उस समय लोकमें इन्द्रियोंकी पारतन्व्यविवक्षा देखी जाती है । जैसे, इस चक्षुसे अच्छी तरह देखता हूं, इस कानसे अच्छी तरह सुनता हूं । इसलिये वीर्यान्तराय और चक्षु इन्द्रियावरणके क्षयोपशम और आंगोपांग नामकर्मके उदयके लाभसे जिसके द्वारा पदार्थ देखे जाते हैं उसे चक्षु-इन्द्रिय कहते हैं । यद्यपि 'चक्षिङ्' धातु अनेक अर्थोंमें आती है, फिर भी यहां पर दर्शनरूप अर्थकी विवक्षा होनेसे 'जिसके द्वारा पदार्थोंको देखता है वह चक्षु है' ऐसा अर्थ लेना चाहिये । तथा स्वातन्त्र्यविवक्षामें चक्षु इन्द्रियके कर्तृसाधन भी होता है, क्योंकि, इन्द्रियोंकी लोकमें स्वातन्त्र्यविवक्षा भी देखी जाती है । जैसे, मेरी यह आंख अच्छी तरह देखती है, यह मेरा कान अच्छी तरह सुनता है । इसलिये पहले कहे गये हेतुओंके मिलने पर जो देखती है उसे चक्षु-इन्द्रिय कहते हैं ।

शंका—इस इन्द्रियका विषय क्या है ?

अच्छिरोडा, अच्छिवेहा, सारंगा, नेउरा, दोला, भमरा, भरिली, जसडा, तोटा, विंढुया, पचविच्छुया, छाणविच्छुया, जलविच्छुया, पियंगाला, कणगा, गोमयकीडा, जे. यावने तहप्पगारा । प्रश्ना. १. ४६.

१ अधिया पोसिया चेव मच्छिया मसगा तथा । भमरे कीडपर्यगे य दंकुणे उवकुडो तथा ॥ कुवकुडे भिंगिरीडा य नंदावत्ते य विच्छुए । टोले भिंगारी य विण्डी अच्छिवेहए ॥ अच्छिले माहए अच्छिरोडए विचिचे चित्तपत्तए । उर्दिजलिया जलकारी य नीया तंतवयाइया ॥ इय चउरिंदिया एण्णगेगहा एवमायओ ॥ उक्त. ३६, १४७-१५०.



विषयश्चेद्वर्णः । अयं वर्णशब्दः कर्मसाधनः । यथा यदा द्रव्यं प्राधान्येन विवक्षितं तदेन्द्रियेण द्रव्यमेव सन्निकृष्यते, न ततो व्यतिरिक्ताः स्पर्शादयः सन्तीत्येतस्यां विवक्षायां कर्मसाधनत्वं स्पर्शादीनामवसीयते, वर्ण्यत इति वर्णः । यदा तु पर्यायः प्राधान्येन विवक्षितस्तदा भेदोपपत्तेरौदासीन्यावास्थितभावकथनाद्भावसाधनत्वं स्पर्शादीनां युज्यते वर्णनं वर्णः । कुत एतेषामुत्पत्तिश्चेद्वीर्यान्तरायस्पर्शनरसनघ्राणचक्षुरावरणक्षयोपशमसति शेषेन्द्रियसर्वघातिस्पर्धकोदये चाङ्गोपाङ्गनामलाभावष्टम्भे चतुरिन्द्रियजातिकर्मोदयवशवर्तितायां च सत्यां चतुर्णामिन्द्रियाणामाविर्भावो भवेत् ।

पञ्च इन्द्रियाणि येषां ते पञ्चेन्द्रियाः । के ते ? जरायुजाण्डजादयः ! उक्तं च—

सस्सेदिम-सम्मुच्छिम-उम्भेदिम-ओववादिमा चैव ।

रस-पोदंड-जरायुज णेया पंचिदिया जीवा ॥ १३९ ॥

समाधान—वर्ण इस इन्द्रियका विषय है । यह वर्ण शब्द कर्मसाधन है । जैसे, जिस समय प्रधानरूपसे द्रव्य विवक्षित होता है, उस समय इन्द्रियसे द्रव्य का ही ग्रहण होता है, क्योंकि, उससे भिन्न स्पर्शादिक पर्याय नहीं पाई जाती हैं । इसलिये इस विवक्षामें स्पर्शादिकके कर्मसाधन जाना जाता है । उस समय जो देखा जाय उसे वर्ण कहते हैं, ऐसी निश्क्ति करना चाहिये । तथा जिस समय पर्याय प्रधानरूपसे विवक्षित होती है, उस समय द्रव्यसे पर्यायका भेद बन जाता है, इसलिये उदासीनरूपसे अवस्थित जो भाव है, उसीका कथन किया जाता है । अतएव स्पर्शादिकके भावसाधन भी बन जाता है । उस समय देखनेरूप धर्मको वर्ण कहते हैं ऐसी निश्क्ति होती है ।

शंका—इन चारों इन्द्रियोंकी उत्पत्ति किस कारणसे होती है ?

समाधान—वीर्यान्तराय और स्पर्शन, रसना, घ्राण तथा चक्षु इन्द्रियावरण कर्मके क्षयोपशम, शेष इन्द्रियावरण सर्वघाती स्पर्धकोका उदय, आंगोपांग नामकर्मके उदयका आलम्बन और चतुरिन्द्रिय जाति नामकर्मके उदयकी वशवर्तिताके होने पर चार इन्द्रियोंकी उत्पत्ति होती है ।

जिनके पांच इन्द्रियां होती हैं उन्हें पंचेन्द्रिय जीव कहते हैं ।

शंका—वे पंचेन्द्रिय जीव कौन कौन हैं ?

समाधान—जरायुज और अण्डज आदिक पंचेन्द्रिय जीव हैं । कहा भी है—

स्वेदज, संमूर्च्छिम, उद्भिज्ज, औपपादिक, रसज, पोत, अंडज और जरायुज, ये सब पंचेन्द्रिय जीव जानना चाहिये ॥ १३९ ॥

१. सन्दर्भोऽयं त. रा. वा. २. १९-२० वा. १-१. व्याख्याभ्यां समानः ।

२. से वेमि सेतिमे तीसा पाणा, तं जहा, अंड्यां पोयया जराउजा रसया संसेयया संमुच्छिमा उभियया उववाइया, एष संसरेति पवुच्चइ । आचा. सू. ४९. उपेत्युपपद्यतेऽस्मिन्नित्युपपादः । त. रा. वा. पृ. ९८. उप-

कानि तानि पञ्चेन्द्रियाणीति चेत्स्पर्शनरसनघ्राणचक्षुःश्रोत्राणि । इमानि स्पर्श-  
नादीनि करणसाधनानि । कुतः ? पारतन्त्र्यात् । इन्द्रियाणां हि लोके दृश्यते च पार-  
तन्त्र्यविवक्षा आत्मनः स्वातन्त्र्यविवक्षायाम्, अनेनाक्षणा सुष्ठु पश्यामि, अनेन कर्णेन  
सुष्ठु शृणोमीति । ततो वीर्यान्तरायश्रोत्रेन्द्रियावरणक्षयोपशमाङ्गोपाङ्गनामलाभावष्टम्भा-  
च्छृणोत्यनेनेति श्रोत्रम् । कर्तृसाधनं च भवति स्वातन्त्र्यविवक्षायाम् । दृश्यते चेन्द्रियाणां  
लोके स्वातन्त्र्यविवक्षा, इदं मेऽक्षि सुष्ठु पश्यति, अयं मे कर्णः सुष्ठु शृणोतीति ।  
ततः पूर्वोक्तहेतुसन्निधाने सति शृणोतीति श्रोत्रम् । कोऽस्य विषयः ? शब्दः । यदा  
द्रव्यं प्राधान्येन विवक्षितं तदेन्द्रियेण द्रव्यमेव सन्निकृष्यते, न ततो व्यतिरिक्ताः  
स्पर्शादयः केचन सन्तीति एतस्यां विवक्षायां कर्मसाधनत्वं शब्दस्य युज्यत इति,  
शब्दत इति शब्दः । यदा तु पर्यायः प्राधान्येन विवक्षितस्तदा भेदोपपत्तेः औदासीन्याव-  
स्थितभावकथनाद्भावसाधनं शब्दः, शब्दनं शब्द इति । कुत एतेषामविर्भाव इति चेद्वीर्यान्त-

शंका — वे पांच इन्द्रियां कौन कौन हैं ?

समाधान—स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र । ये स्पर्शनादिक इन्द्रियां करण-  
साधन हैं, क्योंकि, वे परतन्त्र देखी जाती हैं । लोकमें आत्माकी स्वातन्त्र्यविवक्षा होने पर  
इन्द्रियोंकी पारतन्त्र्यविवक्षा देखी जाती है । जैसे, मैं इस आंखसे अच्छी तरह देखता हूं, इस  
कानसे अच्छी तरह सुनता हूं । इसलिये वीर्यान्तराय और श्रोत्र इन्द्रियावरण कर्मके क्षयोपशम  
तथा आंगोपांग नामकर्मके आलम्बनसे जिसके द्वारा सुना जाता है, उसे श्रोत्र-इन्द्रिय कहते  
हैं । तथा स्वातन्त्र्यविवक्षामें कर्तृसाधन होता है, क्योंकि, लोकमें इन्द्रियोंकी स्वातन्त्र्यविवक्षा भी  
देखी जाती है । जैसे, यह मेरी आंख अच्छी तरह देखती है, यह मेरा कान अच्छी तरह सुनता  
है । इसलिये पहले कहे गये हेतुओंके मिलने पर जो सुनती है उसे श्रोत्र-इन्द्रिय कहते हैं ।

शंका — इसका विषय क्या है ?

समाधान—शब्द इसका विषय है । जिस समय प्रधानरूपसे द्रव्य विवक्षित होता  
है, उस समय इन्द्रियोंके द्वारा द्रव्यका ही ग्रहण होता है । उससे भिन्न स्पर्शादिक कोई चीज  
नहीं है । इस विवक्षामें शब्दके कर्मसाधनपना बन जाता है । जैसे, 'शब्दंते' अर्थात् जो  
ध्वनिरूप हो वह शब्द है । तथा जिस समय प्रधानरूपसे पर्याय विवक्षित होती है, उस समय  
द्रव्यसे पर्यायका भेद सिद्ध हो जाता है, अतएव उदासीनरूपसे अवस्थित भावका कथन  
किया जानेसे शब्द भावसाधन भी है । जैसे, 'शब्दनम् शब्दः' अर्थात् ध्वनिरूप क्रियाधर्मको  
शब्द कहते हैं ।

पाताज्जाता उपपातजाः । अथवा उपपाते भवा औपपातिका देवा नारकाश्च । आचा. नि. पृ. ६३. सम्पूर्णावयवः  
परिस्पंदादिसामर्थ्योपलक्षितः पोतः । शुक्रशोणितपरिवरणमुपात्तकाठिन्यं नखत्वक्सदृशं परिमंडलमंडं, अंडे जाताः  
अंडजाः । जालवत्प्राणिपरिवरणं विततमांसशोणितं जरायुः, जरायु जाताः जरायुजाः । त. रा. वा. पृ. १००, १०१.

१ प्रवन्धोऽयं त. रा. वा. २. १९-२०. वा. १-१ व्याख्याभ्यां समानः ।

रायस्पर्शनरसनघ्राणचक्षुःश्रोत्रेन्द्रियावरणक्षयोपशमे सति अङ्गोपाङ्गनामलाभावष्टममे पञ्चेन्द्रियजातिकर्मोदयवशवर्तितायां च सत्यां पञ्चानामिन्द्रियाणामाविर्भावो भवेदिति । नेदं व्याख्यानमत्र प्रधानम्, 'एकद्वित्रिचतुःपञ्चेन्द्रियजातिनामकर्मोदयादेकद्वित्रिचतुःपञ्चेन्द्रिया भवन्ति' इति भावसूत्रेण सह विरोधात् । ततः एकेन्द्रियजातिनामकर्मोदयादेकेन्द्रियः, द्वीन्द्रियजातिनामकर्मोदयाद् द्वीन्द्रियः, त्रीन्द्रियजातिनामकर्मोदयाद् त्रीन्द्रियः, चतुरिन्द्रियजातिनामकर्मोदयाच्चतुरिन्द्रियः, पञ्चेन्द्रियजातिनामकर्मोदयात्पञ्चेन्द्रियः, एषां ऽथोऽत्र प्रधानं निरवद्यत्वात् ।

न सन्तीन्द्रियाणि येषां तेऽनिन्द्रियाः । के ते ? अशरीराः सिद्धाः । उक्तं च —

ण वि इन्दिय-करण-जुदा अवगहादीहि गाहया अत्ये ।

णैव य इन्दिय-सोक्खा अणिदियाणंत-गाण-सुहा ॥ १४० ॥

तेषु सिद्धेषु भावेन्द्रियस्योपयोगस्य सत्त्वात्सेन्द्रियास्त इति चेन्न, क्षयोपशमजनि-

शंका—इन पांचों इन्द्रियोंकी उत्पत्ति कैसे होती है ?

समाधान—वीर्यान्तराय और स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु तथा श्रोत्रेन्द्रियावरण कर्मके क्षयोपशम होने पर, आंगोपांग नामकर्मके आलम्बन होने पर, तथा पञ्चेन्द्रियजाति नामकर्मके उदयकी वशवर्तिताके होने पर पांचों इन्द्रियोंकी उत्पत्ति होती है । फिर भी वीर्यान्तराय और स्पर्शन इन्द्रियावरण आदिके क्षयोपशमसे एकेन्द्रिय आदि जीव होते हैं, यह व्याख्यान यहां पर प्रधान नहीं है, क्योंकि, 'एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रियजाति नामकर्मके उदयसे एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय जीव होते हैं' भावानुगमके इस कथनसे पूर्वोक्त कथनका विरोध आता है । इसलिये एकेन्द्रियजाति नामकर्मके उदयसे एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रियजाति नामकर्मके उदयसे द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रियजाति नामकर्मके उदयसे त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रियजाति नामकर्मके उदयसे चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रियजाति नामकर्मके उदयसे पञ्चेन्द्रिय जीव उत्पन्न होते हैं, यही अर्थ यहां पर प्रधान है, क्योंकि, यह कथन निर्दोष है ।

जिनके इन्द्रियां नहीं पाई जाती हैं उन्हें अनिन्द्रिय जीव कहते हैं ।

शंका—वे कौन हैं ?

समाधान—शरीररहित सिद्ध अनिन्द्रिय हैं । कहा भी है—

वे सिद्ध जीव इन्द्रियोंके व्यापारसे युक्त नहीं हैं और अवग्रहादिक क्षायोपशमिक ज्ञानके द्वारा पदार्थोंको ग्रहण नहीं करते हैं । उनके इन्द्रिय-सुख भी नहीं है, क्योंकि, उनका अनन्त ज्ञान और अनन्त सुख अनिन्द्रिय है ॥ १४० ॥

शंका—उन सिद्धोंमें भावेन्द्रिय और तज्जन्य उपयोग पाया जाता है, इसलिये वे इन्द्रियसहित हैं ?

तस्योपयोगस्येन्द्रियत्वात् । न च क्षीणाशेषकर्मसु सिद्धेषु क्षयोपशमोऽस्ति तस्य क्षायिक-  
भावेनापसारितत्वात् ।

एकेन्द्रियविकल्पप्रतिपादनार्थमुत्तरसूत्रमाह—

एइंदिया दुविहा, बादरा सुहुमा । बादरा दुविहा, पज्जत्ता  
अपज्जत्ता । सुहुमा दुविहा, पज्जत्ता अपज्जत्ता ॥ ३४ ॥

एकेन्द्रियाः द्विविधाः, बादराः सूक्ष्मा इति । बादरशब्दः स्थूलपर्यायः स्थूलत्वं  
चानियतम्, ततो न ज्ञायते के स्थूला इति । चक्षुर्ग्राह्याश्चेन्न, अचक्षुर्ग्राह्याणां स्थूलानां  
सूक्ष्मतोपपत्तेः । अचक्षुर्ग्राह्याणामपि बादरत्वे सूक्ष्मवादराणामविशेषः स्यादिति चेन्न,  
आर्षस्वरूपानवगमात् । न बादरशब्दोऽयं स्थूलपर्यायः, अपि तु बादरनाम्नः कर्मणो  
वाचकः । तदुदयसहचरितत्वाज्जीवोऽपि बादरः । शरीरस्य स्थौल्यनिर्वर्तकं कर्म बादर-

समाधान— नहीं, क्योंकि, क्षयोपशमसे उत्पन्न हुए उपयोगको इन्द्रिय कहते हैं।  
परंतु जिनके संपूर्ण कर्म क्षीण हो गये हैं, ऐसे सिद्धोंमें क्षयोपशम नहीं पाया जाता है, क्योंकि,  
वह क्षायिक भावके द्वारा दूर कर दिया जाता है ।

अब एकेन्द्रिय जीवोंके भेदोंके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

एकेन्द्रिय जीव दो प्रकारके हैं, बादर और सूक्ष्म । बादर एकेन्द्रिय दो प्रकारके हैं,  
पर्याप्त और अपर्याप्त । सूक्ष्म एकेन्द्रिय दो प्रकारके हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त ॥ ३४ ॥

एकेन्द्रिय जीव बादर और सूक्ष्मके भेदसे दो प्रकारके हैं ।

शंका—बादर शब्द स्थूलका पर्यायवाची है, और स्थूलताका स्वरूप कुछ नियत  
नहीं है, इसलिये यह मालूम नहीं पड़ता है, कि कौन कौन जीव स्थूल हैं । जो चक्षु इन्द्रियके  
द्वारा ग्रहण करने योग्य हैं वे स्थूल हैं, यदि ऐसा कहा जावे सो भी नहीं बनता है, क्योंकि,  
ऐसा मानने पर, जो स्थूल जीव चक्षु इन्द्रियके द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं हैं उन्हें सूक्ष्म-  
पनेकी प्राप्ति हो जायगी । और जिनका चक्षु इन्द्रियसे ग्रहण नहीं हो सकता है ऐसे जीवोंको  
बादर मान लेने पर सूक्ष्म और बादरोंमें कोई भेद नहीं रह जाता है ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, यह आशंका आर्षके स्वरूपकी अनभिज्ञताकी द्योतक है ।  
यह बादर शब्द स्थूलका पर्यायवाची नहीं है, किंतु बादर नामक नामकर्मका वाचक है, इसलिये  
उस बादर नामकर्मके उदयके संबन्धसे जीव भी बादर कहा जाता है ।

शंका—शरीरकी स्थूलताको उत्पन्न करनेवाले कर्मको बादर और सूक्ष्मताको उत्पन्न  
करनेवाले कर्मको सूक्ष्म कहते हैं । तथापि कि जो चक्षु इन्द्रियके द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं है

मुच्यते । सौक्ष्म्यनिर्वर्तकं कर्म सूक्ष्मम् । तथापि चक्षुषोऽग्राह्यं सूक्ष्मशरीरम्, तद्ग्राह्यं वादरमिति तद्वतां तद्वचपदेशो हठादास्कन्देत् । ततश्चक्षुर्ग्राह्या वादराः, अचक्षुर्ग्राह्याः सूक्ष्मा इति तेषामेताभ्यामेव भेदः समापतदन्यथा तेषामविशेषतापत्तेरिति चेन्न, स्थूलाश्च भवन्ति चक्षुर्ग्राह्याश्च न भवन्ति, को विरोधः स्यात् ? सूक्ष्मजीवशरीरादसंख्येयगुणं शरीरं वादरम्, तद्वन्तो जीवाश्च वादराः । ततोऽसंख्येयगुणहीनं शरीरं सूक्ष्मम्, तद्वन्तो जीवाश्च सूक्ष्मा उपचारदित्यपि कल्पना न साध्या, सर्वजवन्यवादराङ्गात्सूक्ष्मकर्मनिर्वर्तितस्य सूक्ष्मशरीरस्यासंख्येयगुणत्वतोऽनेकान्तात् । ततो वादरकर्मोदयवन्तो वादराः, सूक्ष्मकर्मोदयवन्तः सूक्ष्मा इति सिद्धम् । कोऽनयोः कर्मणोरुदययोर्भेदश्चेन्मूर्तैरन्यैः प्रतिहन्यमानशरीरनिर्वर्तको वादरकर्मोदयः, अप्रतिहन्यमानशरीरनिर्वर्तकः सूक्ष्मकर्मोदय इति तयोर्भेदः । सूक्ष्मत्वा-

वह सूक्ष्म शरीर है, और जो उसके द्वारा ग्रहण करने योग्य है वह वादर शरीर है, अतः सूक्ष्म और वादर कर्मके उदयवाले सूक्ष्म और वादर शरीरसे युक्त जीवोंको सूक्ष्म और वादर संज्ञा हठात् प्राप्त हो जाती है । इससे यह सिद्ध हुआ कि जो चक्षुसे ग्राह्य हैं वे वादर हैं, और जो चक्षुसे अग्राह्य हैं वे सूक्ष्म हैं । सूक्ष्म और वादर जीवोंके इन उपर्युक्त लक्षणोंसे ही भेद प्राप्त हो गया । यदि उपर्युक्त लक्षण न माने जायं, तो सूक्ष्म और वादरोंमें कोई भेद नहीं रह जाता है ?

समाधान—ऐसा नहीं है, क्योंकि, स्थूल तो हों और चक्षुसे ग्रहण करने योग्य न हों, इस कथनमें क्या विरोध है ।

शंका—सूक्ष्म शरीरसे असंख्यातगुणी अधिक अवगाहनावाले शरीरको वादर कहते हैं, और उस शरीरसे युक्त जीवोंको उपचारसे वादर जीव कहते हैं । अथवा, वादर शरीरसे असंख्यातगुणी हीन अवगाहनावाले शरीरको सूक्ष्म कहते हैं, और उस शरीरसे युक्त जीवोंको उपचारसे सूक्ष्म जीव कहते हैं ?

समाधान—यह कल्पना भी ठीक नहीं है, क्योंकि, सबसे जघन्य वादर शरीरसे सूक्ष्म नामकर्मके द्वारा निर्मित सूक्ष्म शरीरकी अवगाहना असंख्यातगुणी होनेसे ऊपरके कथनमें अनेकान्त दोष आता है । इसलिये जिन जीवोंके वादर नामकर्मका उदय पाया जाता है वे वादर हैं, और जिनके सूक्ष्म नामकर्मका उदय पाया जाता है वे सूक्ष्म हैं, यह बात सिद्ध हो जाती है ।

शंका—सूक्ष्म नामकर्मके उदय और वादर नामकर्मके उदयमें क्या भेद है ?

समाधान—वादर नामकर्मका उदय दूसरे मूर्त पदार्थोंसे आघात करने योग्य शरीरको

१ यदुदयादन्यवाधाकरशरीरं भवति तद् वादरनाम । सूक्ष्मशरीरनिर्वर्तकं सूक्ष्मनाम । गो. क., जी. प्र., टी. ३३. सं. सि. ८-११.

२ यदुयाद् जीवानां चक्षुर्ग्राह्यशरीरत्वलक्षणं वादरत्वं भवति तद् वादरनाम, पृथिव्यादेरेकेशरीरस्य चक्षुर्ग्राह्यत्वाभावेऽपि वादरत्वपरिणामविशेषाद् बहूनां समुदाये चक्षुषा ग्रहणं भवति । तद्विपरीतं सूक्ष्मनाम; यदुदयाद् बहूनां समुदितानामपि जन्तुशरीराणां चक्षुर्ग्राह्यता न भवति । कं. प्र. पृ. ७.

३ वादरसुहुमुदयेण य वादरसुहुमा हवति तद्देहा । वादरशरीरं थूलं अघाददेहं हवे सुहुमं ॥ गो. जी. १८३.

त्सूक्ष्मजीवानां शरीरमन्यैर्न मूर्तद्रव्यैरभिहन्यते ततो न तत्प्रतिघातः सूक्ष्मकर्मणो विपाका-  
दिति चेन्न, अन्यैरप्रतिहन्यमानत्वेन प्रतिलब्धसूक्ष्मव्यपदेशभाजः सूक्ष्मशरीरादसंख्येय-  
गुणहीनस्य वादरकर्मोदयतः प्राप्तवादरव्यपदेशस्य सूक्ष्मत्वं प्रत्यविशेषतोऽप्रतिघाततापत्तेः ।  
अस्तु चेन्न, सूक्ष्मवादरकर्मोदययोरविशेषतापत्तेः । सूक्ष्मशरीरोपादायकः सूक्ष्मकर्मोदयश्चेन्न,  
तस्मादप्यसंख्येयगुणहीनस्य वादरकर्मनिर्वर्तितस्य शरीरस्योपलम्भात् । तत्कुतोऽवसीयत  
इति चेद्वेदनाक्षेत्रविधानसूत्रात् । तद्यथा —

‘सव्यत्योत्रा सुहुमणिगोदजीवअपज्जत्तयस्स जहणिया ओगाहणा । सुहुमवाउ-  
सुहुमतेउ-सुहुमआउ-सुहुमपुटवि-अपज्जत्तयस्स जहणिया ओगाहणा असंखेज्जगुणा ।

उत्पन्न करता है । और सूक्ष्म नामकर्मका उदय दूसरे मूर्त पदार्थोंके द्वारा आघात नहीं करने  
योग्य शरीरको उत्पन्न करता है । यही उन दोनोंमें भेद है ।

शंका—सूक्ष्म जीवोंका शरीर सूक्ष्म होनेसे ही अन्य मूर्त द्रव्योंके द्वारा आघातको  
प्राप्त नहीं होता है, इसलिये मूर्त द्रव्योंके साथ प्रतिघातका नहीं होना सूक्ष्म नामकर्मके उदयसे  
नहीं मानना चाहिये ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, ऐसा मानने पर दूसरे मूर्त पदार्थोंके द्वारा आघातको नहीं  
प्राप्त होनेसे सूक्ष्म संज्ञाको प्राप्त होनेवाले सूक्ष्म शरीरसे असंख्यातगुणी हीन अवगाहनावाले,  
और वादर नामकर्मके उदयसे वादर संज्ञाको प्राप्त होनेवाले वादर शरीरकी सूक्ष्मताके  
प्रति कोई विशेषता नहीं रह जाती है, अतएव उसका भी मूर्त पदार्थोंसे प्रतिघात नहीं होगा,  
ऐसी आपत्ति आजायगी ।

शंका—आजाने दो ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, ऐसा मानने पर सूक्ष्म और वादर नामकर्मके उदयमें  
फिर कोई विशेषता नहीं रह जायगी ।

शंका—सूक्ष्म नामकर्मका उदय सूक्ष्म शरीरको उत्पन्न करनेवाला है, इसलिये उन  
दोनोंके उदयमें भेद है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, सूक्ष्म शरीरसे भी असंख्यातगुणी हीन अवगाहनावाले  
और वादर नामकर्मके उदयसे उत्पन्न हुए वादर शरीरकी उपलब्धि होती है ।

शंका—यह कैसे जाना ?

समाधान—वेदना नामक चौथे खण्डागमके क्षेत्रानुयोगद्वारसंबन्धी निम्न सूत्रोंसे  
जाना जाता है । वे इसप्रकार हैं—

सूक्ष्म निगोदिया लब्ध्यपर्याप्तक जीवकी जघन्य अवगाहना सबसे स्तोक ( थोड़ी )  
है । सूक्ष्म वायुकायिक, सूक्ष्म अग्निकायिक, सूक्ष्म जलकायिक और सूक्ष्म पृथिवीकायिक लब्ध्य-  
पर्याप्तक जीवोंकी जघन्य अवगाहना सूक्ष्म निगोदिया लब्ध्यपर्याप्तककी जघन्य अवगाहनासे

बादरवाउ--बादरतेउ-बादरआउ--बादरपुढवि--बादरणिगोदजीव--बादरवणप्फदिकाइयपत्तेय-  
 सरीर-अपज्जत्तयस्स जहणिया ओगाहणा असंखेज्जगुणा । वेइंदिय-तेइंदिय-चउरिंदिय-  
 पंचिंदिय-अपज्जत्तयस्स जहणिया ओगाहणा असंखेज्जगुणा । सुहुम-णिगोद-  
 पज्जत्तयस्स जहणिया ओगाहणा असंखेज्जगुणा । तस्सेव अपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया  
 ओगाहणा विसेसाहिया । तस्सेव पज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा विसेसाहिया ।  
 सुहुमवाउकाइय-सुहुमतेउकाइय-सुहुमआउकाइय-सुहुमपुढविकाइय-पज्जत्तयस्स जहणिया-  
 ओगाहणा असंखेज्जगुणा । तस्सेव अपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा विसेसाहिया । तस्सेव  
 पज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा विसेसाहिया । बादरवाउकाइय-बादरतेउकाइय-बादर-  
 आउकाइय-बादरपुढविकाइय-बादरणिगोदजीव-पज्जत्तयस्स जहणिया ओगाहणा  
 असंखेज्जगुणा । तस्सेव अपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा विसेसाहिया ।  
 तस्सेव पज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा विसेसाहिया । बादरवणप्फदिकाइयपत्तेय-

उत्तरोत्तर असंख्यातगुणी है । सूक्ष्म पृथिवीकायिक लब्धपर्याप्तक जीवकी जघन्य  
 अवगाहनासे बादर वायुकायिक, बादर अग्निकायिक, बादर जलकायिक, बादर पृथिवीकायिक,  
 बादरनिगोद और सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतिकायिक लब्धपर्याप्तक जीवोंकी जघन्य अवगाहना  
 उत्तरोत्तर असंख्यातगुणी है । सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतिकायिक लब्धपर्याप्तक जीवकी जघन्य  
 अवगाहनासे अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतिकायिक, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय  
 लब्धपर्याप्तक जीवोंकी जघन्य अवगाहना उत्तरोत्तर असंख्यातगुणी है । लब्धपर्याप्तक  
 पंचेन्द्रिय जीवकी जघन्य अवगाहनासे सूक्ष्म निगोदिया पर्याप्तककी जघन्य अवगाहना  
 असंख्यातगुणी है । इससे सूक्ष्म निगोदिया लब्धपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना कुछ अधिक है ।  
 इससे सूक्ष्म निगोदिया पर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना कुछ अधिक है । इससे सूक्ष्म वायुकायिक  
 पर्याप्तककी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है । इससे सूक्ष्म वायुकायिक अपर्याप्तकी उत्कृष्ट  
 अवगाहना विशेष अधिक है । इससे सूक्ष्म वायुकायिक पर्याप्तकी उत्कृष्ट अवगाहना  
 विशेष अधिक है । इसीतरह सूक्ष्म वायुकायिकसे सूक्ष्म अग्निकायिक, उससे सूक्ष्म जलकायिक,  
 उससे सूक्ष्म पृथिवीकायिकसंबन्धी प्रत्येककी क्रमसे पर्याप्त, अपर्याप्त और पर्याप्तसंबन्धी  
 जघन्य, उत्कृष्ट और उत्कृष्ट अवगाहना उत्तरोत्तर असंख्यातगुणी, विशेषाधिक और विशेषाधिक  
 समझ लेना चाहिये । इसीतरह सूक्ष्मपृथिवीकायिक पर्याप्तकी उत्कृष्ट अवगाहनासे बादर वायु-  
 कायिक, उससे बादर अग्निकायिक, उससे बादर जलकायिक, उससे बादर पृथिवीकायिक,  
 उससे बादर निगोद जीव और उससे निगोदप्रतिष्ठित वनस्पतिकायिकसंबन्धी प्रत्येककी  
 क्रमसे पर्याप्त, अपर्याप्त और पर्याप्तसंबन्धी जघन्य, उत्कृष्ट और उत्कृष्ट अवगाहना उत्तरोत्तर  
 असंख्यातगुणी, विशेषाधिक और विशेषाधिक समझना चाहिये । सप्रतिष्ठित प्रत्येककी उत्कृष्ट

१ बादरणिगोदपदिद्विदपज्जत्ता किमिदि सुत्तन्दि ण वुत्ता ? ण, तेसि पत्तेयसरीरेव अंतम्भावादो ।  
 धवला अ. पृ. २५०.

सरीरपज्जत्तयस्स जहणिया ओगाहणा असंखेज्जगुणा । वेइंदिय-पज्जत्तयस्स जहणिया ओगाहणा असंखेज्जगुणा । तेइंदिय-चउरिंदिय-पंचिंदिय-पज्जत्तयस्स जहणिया ओगाहणा संखेज्जगुणा । तेइंदिय-चउरिंदिय-वेइंदिय-वादरवणप्फदिकाइयपत्तेयसरीर-पांचिंदिय-अपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा संखेज्जगुणा । तस्सेव पज्जत्तयस्स वि संखेज्जगुणां त्ति ।

परैर्मूर्तद्रव्यैरप्रतिहन्यमानशरीरनिर्वर्तकं सूक्ष्मकर्म । तद्विपरीतशरीरनिर्वर्तकं वादर-कर्मैति स्थितम् । तत्र वादराः सूक्ष्माश्च द्विविधाः, पर्याप्ताः अपर्याप्ता इति । पर्याप्त-

अवगाहनासे वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पर्याप्तकर्मी जघन्य अवगाहना असंख्यात-गुणी है । इससे द्वीन्द्रिय पर्याप्तकी जघन्य अवगाहना असंख्यात गुणी है । इससे त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय पर्याप्तकी जघन्य अवगाहना उत्तरोत्तर संख्यातगुणी हैं । पंचेन्द्रिय पर्याप्तकी जघन्य अवगाहनासे त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक-शरीर और पंचेन्द्रिय अपर्याप्तकी उत्कृष्ट अवगाहना उत्तरोत्तर संख्यातगुणी है । पंचेन्द्रिय अपर्याप्तकी उत्कृष्ट अवगाहनासे त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक-शरीर और पंचेन्द्रिय पर्याप्तकी उत्कृष्ट अवगाहना उत्तरोत्तर संख्यातगुणी है ।

इस उपर्युक्त कथनसे यह बात सिद्ध हुई कि जिसका मूर्त पदार्थोंसे प्रतिघात नहीं होता है ऐसे शरीरको निर्माण करनेवाला सूक्ष्म नामकर्म है, और उससे विपरीत अर्थात् मूर्त पदार्थोंसे प्रतिघातको प्राप्त होनेवाले शरीरको निर्माण करनेवाला वादर नामकर्म है ।

विशेषार्थ — ऊपर जो सूक्ष्म निगोदिया लब्धपर्याप्तकी जघन्य अवगाहनासे लेकर पंचेन्द्रिय पर्याप्ततक जीवोंकी उत्कृष्ट अवगाहनाका क्रम बतला आये हैं, उसे देखते हुए यह सिद्ध होता है कि सूक्ष्म जीवोंकी मध्यम अवगाहना वादरोंसे भी अधिक होती है । इसलिये छोटी बड़ी अवगाहनासे स्थूलता और सूक्ष्मता न मानकर स्थूल और सूक्ष्म कर्मके उदयसे सप्रतिघात और अप्रतिघातवाले शरीरको वादर और सूक्ष्म कहते हैं । तथा ऊपर जो वेदनाखण्डके सूत्र उद्धृत किये हैं उनमें सप्रतिष्ठित वादर वनस्पतिसे अप्रतिष्ठित वादर वनस्पतिका स्थान स्वतंत्र माना है । फिर भी यहां 'सव्वत्थोवा' इत्यादि उद्धृत सूत्रमें सप्रतिष्ठितके स्थानको अप्रतिष्ठितके स्थानमें अन्तर्भूत करके सप्रतिष्ठित वनस्पतिका स्वतंत्र स्थान नहीं बतलाया है ।

इनमें, वादर और सूक्ष्म दोनों ही प्रत्येक दो दो प्रकारके हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त ।

१ वे. खं. सू. २९-९३. सुहमणिवातेआभूवातेआपुणपदिद्विदं इदं । त्रितिचपमादिल्लानं एयारारणं तिसेदी य ॥ अपदिद्विदपत्तेयं त्रितिचपतिचित्रिअपदिद्विदं संयलं । तिचित्रिअपदिद्विदं च य संयलं वादालगुणिकमा ॥ अवरमपुण्णं पंदमं सोलं पुण विदियतदियोली । पुण्णिदरपुण्णयाणं जहण्णपुक्कस्सपुक्कस्सं ॥ पुण्णजहण्णं ततो वरं अपुण्णस्स पुण्णउकस्सं । वीपुण्णजहण्णो त्ति असंखं संखं गुणं ततो ॥ सुहमेदरगुणगारी आवलिपल्ला असंखमागो दु । सट्टाणे सेदिगया अहिया तथेगपडिभागो ॥ गो. जी. ९७-१०१.



कर्मोदयवन्तः पर्याप्ताः । तदुदयवतामनिष्पन्नशरीराणां कथं पर्याप्तव्यपदेशो घटत इति चेन्न, नियमेन शरीरनिष्पादकानां भाविनि भूतवदुपचारतस्तदविरोधात् पर्याप्त-  
नामकर्मोदयग्रहचाराद्वा । यदि पर्याप्तशब्दो निष्पात्तिवाचकः, कैस्ते निष्पन्नाः इति चेत्पर्याप्तिभिः । क्रियत्यत्ताः इति चेत्सामान्येन पद् भवन्ति, आहारपर्याप्तिः शरीर-  
पर्याप्तिः इन्द्रियपर्याप्तिः आनापानपर्याप्तिः भाषापर्याप्तिः मनःपर्याप्तिरिति ।

तत्राहारपर्याप्तेरर्थ उच्यते । शरीरनामकर्मोदयात् पुद्गलविषाकिन आहारवर्गणा-  
गतपुद्गलस्कन्धाः समवेतानन्तपरमाणुनिष्पादिता आत्मावष्टवक्षेत्रस्थाः कर्मस्कन्धसम्बन्धतो  
मूर्तीभूतमात्मानं समवेतत्वेन समाश्रयन्ति । तेषामुपगतानां पुद्गलस्कन्धानां खलरसपर्यायैः  
परिणमनशक्तेर्निमित्तानामाप्तिराहारपर्याप्तिः । सा च नान्तर्मुहूर्तमन्तरेण समयेनैकेनैवोप-  
जायते आत्मनोऽक्रमेण तथाविधपरिणामाभावाच्छरीरोपादानप्रथमसमयादारभ्यान्तर्मुहूर्ते-

उनमेंसे जो पर्याप्त नामकर्मके उदयसे युक्त हैं उन्हें पर्याप्त कहते हैं ।

शंका— पर्याप्त नामकर्मके उदयसे युक्त होते हुए भी जब तक शरीर निष्पन्न नहीं हुआ है तब तक उन्हें पर्याप्त कैसे कह सकते हैं ?

समाधान.— नहीं, क्योंकि, नियमसे शरीरको उत्पन्न करनेवाले जीवोंके, होनेवाले कार्यमें यह कार्य हो गया, इसप्रकार उपचार कर लेनेसे पर्याप्त संज्ञा करनेमें कोई विरोध नहीं आता है । अथवा, पर्याप्त नामकर्मके उदयसे युक्त होनेके कारण पर्याप्त संज्ञा दी गई है ।

शंका— यदि पर्याप्त शब्द निष्पात्ति-वाचक है तो यह बतलाइये कि ये पर्याप्तजीव किनसे निष्पन्न होते हैं ।

समाधान— पर्याप्तियोंसे निष्पन्न होते हैं ।

शंका— वे पर्याप्तियां कितनी हैं ?

समाधान— सामान्यकी अपेक्षा छह हैं, आहारपर्याप्ति, शरीरपर्याप्ति, इन्द्रिय-  
पर्याप्ति, आनापानपर्याप्ति, भाषापर्याप्ति और मनःपर्याप्ति । इनमेंसे, पहले आहारपर्याप्तिका  
अर्थ कहते हैं । शरीर नामकर्मके उदयसे जो परस्पर अनन्त परमाणुओंके संबन्धसे उत्पन्न  
हुए हैं, और जो आत्मासे व्याप्त आकाश क्षेत्रमें स्थित हैं ऐसे पुद्गलविषाकी आहारवर्गणा-  
संबन्धी पुद्गलस्कन्ध, कर्मस्कन्धके संबन्धसे कथांचित् मूर्तपनेको प्राप्त हुए आत्माके साथ  
समवायरूपसे संबन्धको प्राप्त होते हैं, उन खल-भाग और रस भागके भेदसे परिणमन  
करनेरूप शक्तिसे बने हुए आगत पुद्गलस्कन्धोंकी प्राप्तिको आहारपर्याप्ति कहते हैं । वह  
आहारपर्याप्ति अन्तर्मुहूर्तके विना केवल एक समयमें उत्पन्न नहीं हो जाती है, क्योंकि,  
आत्माका एकसाथ आहारपर्याप्तिरूपसे परिणमन नहीं हो सकता है । इसलिये शरीरको ग्रहण  
करनेके प्रथम समयसे लेकर एक अन्तर्मुहूर्तमें आहारपर्याप्ति निष्पन्न होती है । तिलकी खलीके

नाहारपर्याप्तिनिष्पद्यते' इति यावत् । तं खलुभागं तिलखलोपममस्थ्यादिस्थिरावयवैस्तिल-  
तैलसमानं रसभागं रसरुधिरवसाशुक्रादिद्रवावयवैरौदारिकादिशरीरत्रयपरिणामशक्त्युपेतानां  
स्कन्धानामवाप्तिः शरीरपर्याप्तिः । साहारपर्याप्तेः पश्चादन्तर्मुहूर्तेन निष्पद्यते । योग्य-  
देशस्थितरूपादिविशिष्टार्थग्रहणशक्त्युत्पत्तेर्निमित्तपुद्गलप्रचयावाप्तिरिन्द्रियपर्याप्तिः । सापि  
ततः पश्चादन्तर्मुहूर्तादुपजायते । न चेन्द्रियनिष्पत्तौ सत्यामपि तस्मिन् क्षणे बाह्यार्थ-  
विषयविज्ञानमुत्पद्यते तदा तदुपकरणाभावात् । उच्छ्वासनिस्सरणशक्तेर्निष्पत्तिनिमित्त-  
पुद्गलप्रचयावाप्तिरानापानपर्याप्तिः । एषापि तस्मादन्तर्मुहूर्तकाले समतीते भवेत् । भापा-  
वर्गणायाः स्कन्धाच्चतुर्विधभापाकारेण परिणमनशक्तेर्निमित्तनोकर्मपुद्गलप्रचयावाप्तिर्भापा-  
पर्याप्तिः । एषापि पश्चादन्तर्मुहूर्तादुपजायते । मनोवर्गणास्कन्धनिष्पन्नपुद्गलप्रचयः अनु-  
भूतार्थस्मरणशक्तिनिमित्तः मनःपर्याप्तिः द्रव्यमनोऽवष्टम्भेनानुभूतार्थस्मरणशक्तेरुत्पत्ति-  
मनःपर्याप्तिर्वा । एतासां प्रारम्भोऽक्रमेण जन्मसमयादारभ्य तासां सत्त्वाभ्युपगमात् ।

समान उस खलुभागको हड्डी आदि कठिन अवयवरूपसे और तिलके तैलके समान रसभागको  
रस, रुधिर, वसा, वीर्य आदि द्रव अवयवरूपसे परिणमन करनेवाले औदारिक आदि तीन  
शरीरोंकी शक्तिसे युक्त पुद्गलस्कन्धोंकी प्राप्तिको शरीर पर्याप्ति कहते हैं । वह शरीर पर्याप्ति  
आहार पर्याप्तिके पश्चात् एक अन्तर्मुहूर्तमें पूर्ण होती है । योग्य देशमें स्थित  
रूपादिसे युक्त पदार्थोंके ग्रहण करनेरूप शक्तिकी उत्पत्तिके निमित्तभूत  
पुद्गलप्रचयकी प्राप्तिको इन्द्रियपर्याप्ति कहते हैं । यह इन्द्रिय पर्याप्ति भी शरीर पर्याप्तिके  
पश्चात् एक अन्तर्मुहूर्तमें पूर्ण होती है । परंतु इन्द्रिय पर्याप्तिके पूर्ण हो जाने पर भी उसी  
समय बाह्य पदार्थसंबन्धी ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि, उस समय उसके उपकरणरूप  
द्रव्येन्द्रिय नहीं पाई जाती है । उच्छ्वास और निःश्वासरूप शक्तिकी पूर्णताके निमित्तभूत  
पुद्गलप्रचयकी प्राप्तिको आनापान पर्याप्ति कहते हैं । यह पर्याप्ति भी इन्द्रिय पर्याप्तिके अन-  
न्तर एक अन्तर्मुहूर्त काल व्यतीत होने पर पूर्ण होगी । भापावर्गणाके स्कन्धोंके निमित्तसे  
चार प्रकारकी भापारूपसे परिणमन करनेकी शक्तिके निमित्तभूत नोकर्म पुद्गलप्रचयकी  
प्राप्तिको भापा पर्याप्ति कहते हैं । यह पर्याप्ति भी आनापान पर्याप्तिके पश्चात् एक अन्तर्मुह-  
ूर्तमें पूर्ण होती है । अनुभूत अर्थके स्मरणरूप शक्तिके निमित्तभूत मनोवर्गणाके स्कन्धोंसे  
निष्पन्न पुद्गलप्रचयको मनःपर्याप्ति कहते हैं । अथवा, द्रव्यमनके आलम्बनसे अनुभूत अर्थके  
स्मरणरूप शक्तिकी उत्पत्तिको मनःपर्याप्ति कहते हैं । इन छहों पर्याप्तियोंका प्रारम्भ युगपत्

१ आहारपर्याप्तिश्च प्रथमसमय एव निष्पद्यते XXX आहारपर्याप्त्या अपर्याप्तौ विग्रहगतावेनापद्यते  
नोपपातक्षेत्रमागतोऽपि, उपपातक्षेत्रमागतस्य प्रथमसमय एवाहारकत्वात् । तत एकताभायिकी आहारपर्याप्तिनिर्दृष्टिः ।  
नं. सू. १७ टी.

२ गो. जी. गा. ११९. नं. सू. १७. अनयोष्टीका विशेषानुसन्धानाय दृष्टव्या ।

निष्पत्तिस्तु पुनः क्रमेण' । एतासामनिष्पत्तिरपर्याप्तिः ।

पर्याप्तप्राणयोः को भेद इति चेन्न, अनयोर्हिमवद्विन्ध्ययोरिव भेदोपलम्भात् । यत आहारशरीरेन्द्रियानापानभापामनःशक्तीनां निष्पत्तेः कारणं पर्याप्तिः । प्राणिति एभिरात्मेति प्राणाः पञ्चेन्द्रियमनोवाक्कायानापानायुंषि' इति । भवन्तिवन्द्रियायुष्कायाः प्राणव्यपदेश-भाजः तेषामाजन्मन आमरणाद्भवधारणत्वेनोपलम्भात् । तत्रैकस्याप्यभावतोऽसुमतां मरण-संदर्शनाच्च । अपि तूच्छ्वासमनोवचसां न प्राणव्यपदेशो युज्यते तान्यन्तेरेणापि अपर्याप्ता-वस्थायां जीवनोपलम्भादिति चेन्न, तैर्विना पश्चाज्जीवतामनुपलम्भतस्तेषामपि प्राणत्वा-विरोधात् । उक्तं च—

बाहिर-पाणेहि जहा तहेव अन्तरेहि पाणेहि ।

जीवंति नेहि जीवा पाणा ते ह्येति बोद्धव्यां ॥ १४१ ॥

होता है, क्योंकि, जन्म-समयसे लेकर ही इनका अस्तित्व पाया जाता है । परंतु पूर्णता क्रमसे होती है । तथा इन पर्याप्तियोंकी अपूर्णताको अपर्याप्ति कहते हैं ।

शंका— पर्याप्ति और प्राणमें क्या भेद है ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, इनमें हिमवान् और विन्ध्याचल पर्वतके समान भेद पाया जाता है । आहार, शरीर, इन्द्रिय, आनापान, भापा और मनरूप शक्तियोंकी पूर्णताके कारणको पर्याप्ति कहते हैं । और जिनके द्वारा आत्मा जीवन संज्ञाको प्राप्त होता है उन्हें प्राण कहते हैं । यही इन दोनोंमें भेद है । वे प्राण पांच इन्द्रियां मनोबल, वचनबल कायबल, आनापान और आयुके भेदसे दश प्रकारके हैं

शंका— पांचों इन्द्रियां, आयु और कायबल ये प्राण संज्ञाको प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि, वे जन्मसे लेकर मरणतक भव ( पर्याय ) को धारण करनेरूपसे पाये जाते हैं । और उनमेंसे किसी एकके अभाव होने पर मरण भी देखा जाता है । परंतु उच्छ्वास, मनोबल और वचनबल इनको प्राण संज्ञा नहीं दी जा सकती है, क्योंकि, इनके विना भी अपर्याप्त अवस्थामें जीवन पाया जाता है ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, उच्छ्वास, मनोबल और वचनबलके विना अपर्याप्त अवस्थाके पश्चात् पर्याप्त अवस्थामें जीवन नहीं पाया जाता है, इसलिये उन्हें प्राण माननेमें कोई विरोध नहीं आता है । कहा भी है—

जिसप्रकार नेत्रोंका खोलना, बन्द करना, वचनप्रवृत्ति, आदि बाह्य प्राणोंसे जीव जीते

१ पञ्चतीपद्मवर्णं जुगवं तु क्रमेण होदि णिद्ववर्णं । अंतोमुहुत्कालेणहियकमा तत्तियालावा ॥ गो. जी. १२०.

२ गो. जी. १२९ टीकानुसन्धेया ।

३ गो. जी. १२९. तत्र 'जीवंति' इति स्थाने 'प्राणंति' इति पाठः । पौद्गलिकद्रव्येन्द्रियादिव्यापाररूपाः द्रव्यप्राणाः । तन्निमित्तभूतज्ञानावरणवीर्यान्तरायक्षयोपशमादिविजृम्भितचेतनव्यापाररूपा भावप्राणाः । जी. प्र. टी.

पर्याप्तिप्राणानां नास्मि विप्रतिपत्तिर्न वस्तुनि इति चेन्न, कार्यकारणयोर्भेदात्, पर्याप्तिष्वायुषोऽसत्त्वान्मनोवागुच्छ्वासप्राणानामपर्याप्तकालेऽसत्त्वाच्च तयोर्भेदात् । तत्पर्याप्तयोऽप्यपर्याप्तकाले न सन्तीति तत्र तदसत्त्वमिति चेन्न, अपर्याप्तरूपेण तत्र तासां सत्त्वात् । किमपर्याप्तरूपमिति चेन्न, पर्याप्तीनामर्धनिष्पन्नावस्था अपर्याप्तिः, ततोऽस्ति तेषां भेद इति । अथवा जीवनहेतुत्वं तत्स्थमनपेक्ष्य शक्तिनिष्पत्तिमात्रं पर्याप्तिरुच्यते, जीवनहेतवः पुनः प्राणा इति तयोर्भेदः ।

एकेन्द्रियाणां भेदमभिधाय साम्प्रतं द्वीन्द्रियादीनां भेदमभिधातुकाम उत्तर-सूत्रमाह—

हैं, उसीप्रकार जिन अभ्यन्तर इन्द्रियावरण कर्मके क्षयोपशमादिके द्वारा जीवमें जीवितपनेका व्यवहार हो उनको प्राण कहते हैं ॥ १४१ ॥

शंका—पर्याप्ति और प्राणके नाममें अर्थात् कहनेमात्रमें विवाद है, वस्तुमें कोई विवाद नहीं है, इसलिये दोनोंका तात्पर्य एक ही मानना चाहिये?

समाधान—न हाँ, क्योंकि, कार्य और कारणके भेदसे उन दोनोंमें भेद पाया जाता है तथा पर्याप्तियोंमें आयुका सद्भाव नहीं होनेसे और मनोबल, वचनबल, तथा उच्छ्वास इन प्राणोंके अपर्याप्त अवस्थामें नहीं पाये जानेसे पर्याप्ति और प्राणमें भेद समझना चाहिये ।

शंका—वे पर्याप्तियां भी अपर्याप्त कालमें नहीं पाई जाती हैं, इसलिये अपर्याप्त कालमें उनका सद्भाव नहीं रहेगा ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, अपर्याप्त कालमें अपर्याप्तिरूपसे उनका सद्भाव पाया जाता है ।

शंका—अपर्याप्तिरूप इसका क्या तात्पर्य है ?

समाधान—पर्याप्तियोंकी अपूर्णताको अपर्याप्ति कहते हैं, इसलिये पर्याप्ति, अपर्याप्ति और प्राण इनमें भेद सिद्ध हो जाता है । अथवा, इन्द्रियादिमें विद्यमान जीवनके कारणपनेकी अपेक्षा न करके इन्द्रियादिरूप शक्तिकी पूर्णतामात्रको पर्याप्ति कहते हैं और जो जीवनके कारण हैं उन्हें प्राण कहते हैं । इसप्रकार इन दोनोंमें भेद समझना चाहिये ।

इसप्रकार एकेन्द्रियोंके भेद प्रभेदोंका कथन करके अब द्वीन्द्रियादिक जीवोंके भेदोंका

१ आहारभाषामनोवर्गणायातपुद्गलस्कन्धानां खलरसभागशरीरात्रयत्ररूपद्रव्येन्द्रियरूपोच्छ्वासनिश्वासरूपभाषारूपद्रव्यमनोरूपपरिणमनकारणात्मकशक्तिनिष्पत्तयः पर्याप्तयः, स्वार्थग्रहणव्यापारकायवाग्व्यापारोच्छ्वासनिश्वासप्रवृत्ति-मन्वधारणरूपजीवद्रव्यहारकारणात्मकशक्तिविशेषाः प्राणा इति मित्रलक्षणलक्षितत्वात्पर्याप्तप्राणयोर्भेदप्रासिद्धेः ॥ गो. जी., सं. प्र., टी. १३१.

बीइंदिया दुविहा, पज्जत्ता अपज्जत्ता । तीइंदिया दुविहा,  
पज्जत्ता अपज्जत्ता । चउरिंदिया दुविहा, पज्जत्ता अपज्जत्ता । पंचि-  
दिया दुविहा, सण्णी असण्णी । सण्णी दुविहा, पज्जत्ता अपज्जत्ता ।  
असण्णी दुविहा, पज्जत्ता अपज्जत्ता चेदि ॥ ३५ ॥

द्वीन्द्रियादय उक्तार्था इति पुनरुक्तभयात्पुनस्तेषां नेहार्थ उच्यते । अथ स्यादेतस्य  
एतावन्त्येवेन्द्रियाणीति कथमवगम्यते इति चेन्न, आर्पात्तदवगतेः । किं तदार्षमिति चेदुच्यते—

एइंदियस्स फुसणं एकं चि य होइ सेस-जीवाणं ।

होति कम-वड्डियाइं जिम्भा-घ्राणक्खि-सोत्ताइं ॥ १४२ ॥

अस्य सूत्रस्यार्थ उच्यते । स्पर्शनमेकमेव एकेन्द्रियस्य भवति<sup>१</sup>, स्पर्शनरसने  
द्वीन्द्रियस्य, स्पर्शनरसनघ्राणेन्द्रियाणि त्रीन्द्रियाणाम्, तानि सचक्षुंपि चतुरिन्द्रियाणाम्,  
स्पर्शनरसनघ्राणचक्षुःश्रोत्रेन्द्रियाणि पञ्चेन्द्रियाणामिति । अथवा 'कृमिपिपीलिका-

कथन करनेके इच्छुक आचार्य आगेका सूत्र कहते हैं

द्वीन्द्रिय जीव दो प्रकारके हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक । त्रीन्द्रिय जीव दो प्रकारके हैं,  
पर्याप्तक और अपर्याप्तक । चतुरिन्द्रिय जीव दो प्रकारके हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक । पंचेन्द्रिय  
जीव दो प्रकारके हैं, संज्ञी और असंज्ञी । संज्ञी जीव दो प्रकारके हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक ।  
असंज्ञी जीव दो प्रकारके हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक ॥ ३५ ॥

द्वीन्द्रिय आदि जीवोंका स्वरूप पहले कह आये हैं, इसलिये पुनरुक्त दूषणके भयसे  
फिरसे यहां नहीं कहते हैं ।

शंका — इस जीवके इतनी ही इन्द्रियां होती हैं, यह कैसे जाना ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, आर्षसे इस बातको जाना ।

शंका — वह आगम कौनसा है ?

समाधान — एकेन्द्रिय जीवके एक स्पर्शन इन्द्रिय ही होती है, और शेष जीवोंके  
क्रमसे बढ़ती हुई जिह्वा, घ्राण, अक्षि और श्रोत्र इन्द्रियां होती हैं ॥ १४२ ॥

अब इस सूत्रका अर्थ कहते हैं । एकेन्द्रिय जीवके एक स्पर्शन इन्द्रिय, द्वीन्द्रिय  
जीवके स्पर्शन और रसना ये दो इन्द्रियां, त्रीन्द्रिय जीवके स्पर्शन, रसना और घ्राण ये तीन  
इन्द्रियां, चतुरिन्द्रिय जीवके स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु ये चार इन्द्रियां और पंचेन्द्रिय  
जीवके स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र ये पांच इन्द्रियां होती हैं । अथवा 'कृमिपिपीलिका-

<sup>१</sup> १ गो. जी. १६७.

२ वनस्पत्यन्तानामेकम् । त. सू. २. २२.

अमरमनुष्यादीनामेकैकवृद्धानि' इति अस्मात्तत्त्वार्थसूत्राद्वावसीयते । अस्यार्थ उच्यते । एकैकं वृद्धं येषां तानीमानि एकैकवृद्धानि । 'वनस्पत्यन्तानामेकम्' इत्येतस्मात्सूत्रात्स्पर्शनमित्यनुवर्तते । तत एवमभिसम्बध्यते, स्पर्शनं रसनवृद्धं कृम्यादीनाम्, स्पर्शनरसने घ्राणवृद्धे पिपीलिकादीनाम्, स्पर्शनरसनघ्राणानि चक्षुर्वृद्धानि अमरादीनाम्, तानि श्रोत्रवृद्धानि मनुष्यादीनामिति' ।

समनस्काः संज्ञिन इति । मनो द्विविधम्, द्रव्यमनो भावमन इति । तत्र पुद्गल-विपाकिकर्मोदयापेक्षं द्रव्यमनः<sup>१</sup> । वीर्यान्तरायनोऽन्द्रियावरणक्षयोपशमापेक्षात्मनो विशुद्धिर्भावमनः<sup>२</sup> । तत्र भावेन्द्रियाणामिव भावमनस उत्पत्तिकाल एव सत्त्वादपर्याप्त-कालेऽपि भावमनसः सत्त्वमिन्द्रियाणामिव किमिति नोक्तमिति चेन्न, बाह्येन्द्रियैरग्राह-

अमरमनुष्यादीनामेकैकवृद्धानि' इस सूत्रसे यह जाना जाता है कि किस जीवके कितनी इन्द्रियां होती हैं । अब इस सूत्रका अर्थ कहते हैं—

एक एक इन्द्रियका बढ़ता हुआ क्रम जिन इन्द्रियोंका पाया जावे, ऐसी एक एक इन्द्रियके बढ़ते हुए क्रमरूप पांच इन्द्रियां होती हैं । 'वनस्पत्यन्तानामेकम्' इस सूत्रमेंसे स्पर्शन पदकी अनुवृत्ति होती है, इसलिये ऐसा संबन्ध कर लेना चाहिये कि काम आदि द्वीन्द्रिय जीवोंके स्पर्शनके साथ रसना इन्द्रिय और अधिक होती है । पिपीलिका आदि त्रीन्द्रिय जीवोंके स्पर्शन और रसनाके साथ घ्राण इन्द्रिय और अधिक होती है । अमर आदि चतुरिन्द्रिय जीवोंके स्पर्शन, रसना और घ्राणके साथ चक्षु इन्द्रिय और अधिक होती है । मनुष्य आदि पंचेन्द्रिय जीवोंके स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षुके साथ श्रोत्र इन्द्रिय और अधिक होती है ।

मनसाहित जीवोंको संज्ञी कहते हैं । मन दो प्रकारका है, द्रव्यमन और भावमन । उनमें पुद्गलविपाकी आंगोपांग नामकर्मके उदयकी अपेक्षा रखनेवाला द्रव्यमन है । तथा वीर्यान्तराय और नो-इन्द्रियावरण कर्मके क्षयोपशमरूप आत्मामें जो विशुद्धि पैदा होती है वह भावमन है ।

शंका—जीवके नवीन भवको धारण करनेके समय ही भावेन्द्रियोंकी तरह

१ त. सू. २. २३.

२ पाठोऽयं त. रा. वा. २. २३. वा. २-४ व्याख्यया समानः ।

३ स. सि. २. ११ । त. रा. वा. २. ११. द्रव्यमनश्च ज्ञानावरणवीर्यान्तरायक्षयोपशमाङ्गीपाङ्गलाभप्रत्ययाः गुणदोषविचारस्मरणादिप्राणिधानस्याभिमुखस्यात्मनोऽनुप्राहकाः पुद्गला मनस्त्रेण परिणता इति पौद्गलिकम् । स. सि. ५. ११. । त. रा. वा. ५. ११.

४ स. सि. २. ११ । त. रा. वा. २. ११. भावमनस्तावद्धृद्युपयोगलक्षणं पुद्गलावलम्बनत्वात्पौद्गलिकम् । स. सि. ५. १९ । त. रा. वा. ५. १९.

द्रव्यस्य मनसोऽपर्याप्त्यवस्थायांमस्तित्वेऽङ्गीक्रियमाणे द्रव्यमनसो विद्यमाननिरूपणस्या-  
सत्त्वप्रसङ्गात् । पर्याप्तनिरूपणात्तदस्तित्वं सिद्धयेदिति चेन्न, बाह्यार्थस्मरणशक्तिनिष्पत्तौ  
पर्याप्त्यव्यपदेशतो द्रव्यमनसोऽभावेऽपि पर्याप्तनिरूपणोपपत्तेः । न बाह्यार्थस्मरण-  
शक्तेः प्रागस्तित्वं योग्यस्य द्रव्यस्योत्पत्तेः प्राक् सत्त्वविरोधात् । ततो द्रव्यमनसोऽस्तित्वस्य  
ज्ञापकं भवति तस्यापर्याप्त्यवस्थायांमस्तित्वानिरूपणमिति सिद्धम् । मनस इन्द्रियव्यपदेशः  
किन्न कृत इति चेन्न, इन्द्रस्य लिङ्गमिन्द्रियम् । उपभोक्तुरात्मनोऽनिवृत्तकर्मसम्बन्धस्य  
परमेश्वरशक्तियोगादिन्द्रव्यपदेशमर्हतः स्वयमर्थान् गृहीतुमसमर्थस्योपयोगोपकरणं  
लिङ्गमिति कथ्यते<sup>१</sup> । न च मनस उपयोगोपकरणमस्ति । द्रव्यमन उपयोगोपकरणमस्तीति

भावमनका भी सत्त्व पाया जाता है, इसलिये जिसप्रकार अपर्याप्त कालमें भावेन्द्रियोंका  
सद्भाव कहा जाता है उसीप्रकार वहां पर भावमनका सद्भाव क्यों नहीं कहा ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, बाह्य इन्द्रियोंके द्वारा नहीं ग्रहण करने योग्य वस्तुभूत  
मनका अपर्याप्तिरूप अवस्थामें अस्तित्व स्वीकार करलेने पर, जिसका निरूपण विद्यमान  
है ऐसे द्रव्यमनके असत्त्वका प्रसंग आ जायगा ।

शंका—पर्याप्तिके निरूपणसे ही द्रव्यमनका अस्तित्व सिद्ध हो जायगा ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, बाह्यार्थकी स्मरणशक्तिकी पूर्णतामें ही पर्याप्ति इस प्रकारका  
व्यवहार मान लेनेसे द्रव्यमनके अभावमें भी मनःपर्याप्तिका निरूपण बन जाता है । बाह्य  
पदार्थोंकी स्मरणरूप शक्तिके पहले द्रव्यमनका सद्भाव बन जायगा ऐसा कहना भी  
ठीक नहीं है, क्योंकि, द्रव्यमनके योग्य द्रव्यकी उत्पत्तिके पहले उसका सत्त्व मान लेनेमें  
विरोध आता है । अतः अपर्याप्तिरूप अवस्थामें भावमनके अस्तित्वका निरूपण नहीं करना  
द्रव्यमनके अस्तित्वका ज्ञापक है, ऐसा समझना चाहिये ।

शंका—मनको इन्द्रिय संज्ञा क्यों नहीं दी गई ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, इन्द्र अर्थात् आत्माके लिंगको इन्द्रिय कहते हैं । जिसके  
कर्मोंका संबन्ध दूर नहीं हुआ है, जो परमेश्वररूप शक्तिके संबन्धसे इन्द्र संज्ञाको धारण  
करता है, परंतु जो स्वतः पदार्थोंको ग्रहण करनेमें असमर्थ है ऐसे उपभोक्ता आत्माके उप-  
योगके उपकरणको लिंग कहते हैं । परंतु मनके उपयोगका उपकरण पाया नहीं जाता है,  
इसलिये मनको इन्द्रिय संज्ञा नहीं दी गई ।

शंका—उपयोगका उपकरण द्रव्यमन तो है ?

१ स. सि. १, १४.

२ इन्द्र आत्मा, तस्य कर्ममलीमसस्य स्वयमर्थान् गृहीतुमसमर्थस्यार्थोपलभने यद्विह्वं तदिन्द्रियमित्युच्यते ।  
त. रा. वा. १. १४. १.

चेन्न, शेषेन्द्रियाणामिव बाह्येन्द्रियग्राह्यत्वाभावतस्तस्येन्द्रलिङ्गत्वानुपपत्तेः'। अथ स्यादर्थालोकमनस्कारचक्षुर्भ्यः सम्प्रवर्तमानं रूपज्ञानं समनस्केषूपलभ्यते तस्य कथममनस्केष्याविर्भाव इति नैष दोषः, भिन्नजातित्वात् ।

इन्द्रियेषु गुणस्थानानामियत्ताप्रतिपादनार्थमुत्तरसूत्रमाह—

एइंदिया बीइंदिया तीइंदिया चउरिंदिया असण्णिपंचिंदिया  
एकम्मि चैव मिच्छाइट्ठि-ट्ठणे ॥ ३६ ॥

एकस्मिन्नेवेति विशेषणं द्वयादिसंख्यानिराकरणार्थम् । शेषगुणस्थाननिरसनार्थं मिथ्यादृष्ट्युपादानम् । एइंदिएसु सासणगुणट्ठणं पि सुणिज्जदि तं कथं घडदे ? ण, एदम्मि सुत्ते तस्स णिसिद्धत्तादो । विरुद्धत्थाणं कथं दोणं पि सुत्तत्तणमिदि ण,

समाधान— नहीं, क्योंकि, जिसप्रकार शेष इन्द्रियोंका बाह्य इन्द्रियोंसे ग्रहण होता है उसप्रकार मनका नहीं होता है, इसलिये उसे इन्द्रका लिंग नहीं कह सकते हैं ।

शंका—पदार्थ, प्रकाश, मन और चक्षु इनसे उत्पन्न होनेवाला रूप-ज्ञान समनस्क जीवोंमें पाया जाता है, यह तो ठीक है । परंतु अमनस्क जीवोंमें उस रूप-ज्ञानकी उत्पत्ति कैसे हो सकती है ?

समाधान— यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, समनस्क जीवोंके रूप-ज्ञानसे अमनस्क जीवोंका रूप-ज्ञान भिन्न-जातीय है ।

अब इन्द्रियोंमें गुणस्थानोंकी निश्चित संख्याके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और असंखी पंचेन्द्रिय जीव मिथ्यादृष्टि नामक प्रथम गुणस्थानमें ही होते हैं ॥ ३६ ॥

दो, तीन आदि संख्याके निराकरण करनेके लिये सूत्रमें एक पदका ग्रहण किया है । तथा अन्य गुणस्थानोंके निराकरण करनेके लिये मिथ्यादृष्टि पदका ग्रहण किया है ।

शंका—एकेन्द्रिय जीवोंमें सासादन गुणस्थान भी सुननेमें आता है, इसलिये उनके केवल एक मिथ्यादृष्टि गुणस्थानके कथन करनेसे वह कैसे बन सकेगा ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, इस खंडागम-सूत्रमें एकेन्द्रियादिकोंके सासादन गुणस्थानका निषेध किया है ।

शंका—जब कि दोनों वचन परस्पर विरोधी हैं तो उन्हें सूत्रपना कैसे प्राप्त हो

१ स. सि. १. १४ । त. रा. वा. १. १४. २. अनयोर्व्याख्या विशेषपरिज्ञानायामुसन्धेया ।

२ इन्द्रियाणुवादेन एकेन्द्रियादिषु चतुरिन्द्रियपर्यन्तेषु एकमेव मिथ्यादृष्टिस्थानम् । असंज्ञिषु, एकमेव मिथ्यादृष्टिस्थानम् । स. सि. १, ८.

३ येषां मते सासादन एकेन्द्रियेषु नोत्पद्यते X स. सि. १. ८. जे पुण देवसासणा एइंदिएसुस्पज्जंति चि



दोणं एकदरस्स सुत्तादो । दोणं मज्जे इदं सुत्तमिदं च ण भवदीदि कथं णव्वदि ?  
उवदेसमंतरेण तदवगमाभावा दोणं पि संगहो कायव्वो । दोणं संगहं करंतो संसय-  
मिच्छाइट्ठी होदि त्ति तण्ण, सुत्तुदिट्ठमेव अत्थि त्ति सदहंतस्स संदेहाभावादो । उत्तं च—  
सुत्तादो तं सम्मं दरिसिजंतं जदा ण सदहदि ।

सो चेय ह्वदि मिच्छाइट्ठी हु तदो पट्टि जीवो ॥ १४३ ॥ इदि ।

पञ्चेन्द्रियप्रतिपादनार्थमुत्तरसूत्रमाह—

पंचिंदिया असण्णिपंचिंदिय-पट्टि जाव अजोगिकेवलि  
ति ॥ ३७ ॥

पञ्चेन्द्रियेषु गुणस्थानसंख्यामप्रतिपाद्य किमिति असंज्ञिप्रभृतयः पञ्चेन्द्रिया इति  
सकता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, दोनों वचन सूत्र नहीं हो सकते हैं, किंतु उन दोनों  
वचनोंमेंसे किसी एक वचनको ही सूत्रपना प्राप्त हो सकता है ।

शंका—दोनों वचनोंमें यह वचन सूत्ररूप है, और यह नहीं, यह कैसे जाना जाय ?

समाधान—उपदेशके बिना दोनोंमेंसे कौन वचन सूत्ररूप है यह नहीं जाना जा  
सकता है, इसलिये दोनों वचनोंका संग्रह करना चाहिये ।

शंका—दोनों वचनोंका संग्रह करनेवाला संशय-मिथ्यादाष्टि हो जायगा ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, संग्रह करनेवालेके 'यह सूत्रकथित ही है' इसप्रकारका  
श्रद्धान पाया जाता है, अतएव उसके संदेह नहीं हो सकता है । कदा भी है—

सूत्रसे आचार्यादिके द्वारा भलेप्रकार समझाये जाने पर भी यदि वह जीव विपरीत  
अर्थको छोड़कर समीचीन अर्थका श्रद्धान नहीं करता है, तो उसी समयसे वह सम्यग्दाष्टि  
जीव मिथ्यादाष्टि हो जाता है ॥ १४३ ॥

पंचेन्द्रियोंमें गुणस्थानोंकी संख्याके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

असंज्ञी-पंचेन्द्रिय-मिथ्यादाष्टि गुणस्थानसे लेकर अयोगिकेवली गुणस्थानतक पंचेन्द्रिय  
जीव होते हैं ॥ ३७ ॥

शंका—पंचेन्द्रिय जीवोंमें गुणस्थानोंकी संख्याका प्रतिपादन नहीं करके असंज्ञी  
आदिक पंचेन्द्रिय होते हैं, ऐसा क्यों कहा ?

भणंति तेसिमहिप्पाएण चारहत्तीदसभागा देसणा उववादकोसणं होदि, एदं पि चक्खेण संतदव्वुत्तविरुद्धं ति ण  
धेत्तव्वं । धवला अ. पृ. २६०. ....

१ गो. जी. २९.

२ पञ्चेन्द्रियेषु चतुर्दशानि सन्ति । स. सि. १. ८.

प्रतिपादितमिति चेन्नैष दोषः, असंज्ञ्यादयोऽयोगिकेवलपर्यन्ताः पञ्चेन्द्रिया इत्यभिहिते पञ्चेन्द्रियेषु गुणस्थानानामियत्तावगतेः । अथ स्यादसंज्ञ्यादयोऽयोगिकेवलपर्यन्ताः किमु पञ्चद्रव्येन्द्रियवन्त उत भावेन्द्रियवन्त इति ? न तावदादिविकल्पः अपर्याप्तजीवैर्व्यभिचारात् । न द्वितीयविकल्पः केवलभिर्व्यभिचारादिति नैष दोषः, भावेन्द्रियतः पञ्चेन्द्रियत्वाभ्युपगमात् । न पूर्वोक्तदोषोऽपि केवलानां निर्मूलतो विनष्टान्तरङ्गेन्द्रियाणां प्रहत्वाह्येन्द्रियव्यापाराणां भावेन्द्रियजनितद्रव्येन्द्रियसत्त्वापेक्षया पञ्चेन्द्रियत्वप्रतिपादनात्, भूतपूर्वगतिन्यायसमाश्रयणाद्वा । सर्वत्र निश्चयनयमाश्रित्य प्रतिपाद्य अत्र व्यवहारनयः किमित्यवलम्ब्यते इति चेन्नैष दोषः, मन्दमेधसामनुग्रहार्थत्वात् । अथवा नेदं व्याख्यानं समीचीनं दुरधिगमत्वात्, इन्द्रियप्राणैरस्यै 'पौनरुक्त्यप्रसङ्गात् । किमपरं व्याख्यानमिति

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, असंज्ञीको आदि लेकर अयोगिकेवली पर्यन्त पंचेन्द्रिय जीव होते हैं, ऐसा कथन कर देने पर पंचेन्द्रियोंमें गुणस्थानोंकी संख्याका ज्ञान हो जाता है ।

शंका—असंज्ञीसे लेकर अयोगिकेवलीतक पंचेन्द्रिय जीव होते हैं यह ठीक है, परंतु वे क्या पांच द्रव्येन्द्रियोंसे युक्त होते हैं या पांच भावेन्द्रियोंसे युक्त होते हैं? इनमें से प्रथम विकल्प तो बन नहीं सकता, क्योंकि, उसके मान लेने पर अपर्याप्त जीवोंके साथ व्यभिचार दोष आता है । अर्थात् अपर्याप्त जीव पंचेन्द्रिय होते हुए भी उनके द्रव्येन्द्रियां नहीं पाई जातीं, इसलिये व्यभिचार दोष आता है । इसीप्रकार दूसरा विकल्प भी नहीं बनता, क्योंकि, उसके मान लेने पर केवलियोंसे व्यभिचार दोष आता है । अर्थात् केवली पंचेन्द्रिय होते हुए भी भावेन्द्रियां नहीं पाई जाती हैं, इसलिये व्यभिचार आता है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, यहां पर भावेन्द्रियोंकी अपेक्षा पंचेन्द्रियपना स्वीकार किया है । और ऐसा मान लेने पर पूर्वोक्त दोष भी नहीं आता है । केवलियोंके यद्यपि भावेन्द्रियां समूल नष्ट हो गई हैं, और बाह्य इन्द्रियोंका व्यापार भी बन्द हो गया है, तो भी ( लक्ष्यस्थ अवस्थामें ) भावेन्द्रियोंके निमित्तसे उत्पन्न हुई द्रव्येन्द्रियोंके सद्भावकी अपेक्षा उन्हें पंचेन्द्रिय कहा गया है । अथवा भूतपूर्वका ज्ञान करानेवाले न्यायके आश्रयसे उन्हें पंचेन्द्रिय कहा है ।

शंका—सब जगह निश्चय नयका आश्रय लेकर वस्तु-स्वरूपका प्रतिपादन करनेके पश्चात् फिर यहां पर व्यवहार नयका आलम्बन क्यों लिया जा रहा है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, मन्दबुद्धि शिष्योंके अनुग्रहके लिये उक्तप्रकारसे वस्तुस्वरूपका विचार किया है । अथवा, उक्त व्याख्यानको ठीक नहीं समझना, क्योंकि, मन्दबुद्धि शिष्योंके लिये यह व्याख्यान दुरवबोध है । दूसरे इन्द्रिय और प्राणोंके साथ इस कथनका पुनरुक्त दोष भी आता है ।

चेदुच्यते । एकेन्द्रियजातिनामकर्मोदयोदेकेन्द्रियः, द्वीन्द्रियजातिनामकर्मोदयाद् द्वीन्द्रियः, त्रीन्द्रियजातिनामकर्मोदयात्त्रीन्द्रियः, चतुरिन्द्रियजातिनामकर्मोदयाच्चतुरिन्द्रियः, पञ्चेन्द्रियजातिनामकर्मोदयात्पञ्चेन्द्रियः । समास्ति च केवलिनामपर्याप्तजीवानां च पञ्चेन्द्रियजातिनामकर्मोदयः । निरवद्यत्वाद् व्याख्यानमिदं समाश्रयणीयम् । पञ्चेन्द्रियजातिरिति किं? यस्याः पारापतादयो जातिविशेषाः समानप्रत्ययग्राह्या सा पञ्चेन्द्रियजातिः पञ्चेन्द्रियक्षयोपशमस्य सहकारित्वमादधाना ।

अतीन्द्रियजीवास्तित्वप्रतिपादनार्थमुत्तरसूत्रमाह—

तेण परमणिंदिया इदि ॥ ३८ ॥

तेनेति एकवचनं जातिनिवन्धनम् । परमूर्ध्वमनिन्द्रियाः एकेन्द्रियादिजात्यतीताः सकलकर्मकलङ्कातीतत्वात् ।

कायमार्गणाप्रतिपादनार्थमुत्तरसूत्रमाह—

कायाणुवादेण अत्थि पुठविकाइया आउकाइया तेउकाइया वाउकाइया वणप्फइकाइया तसकाइया अकाइया चेदि ॥ ३९ ॥

शंका— तो फिर वह दूसरा कौनसा व्याख्यान है जिसे ठीक माना जाय ?

समाधान— एकेन्द्रिय जाति नामकर्मके उदयसे एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय जाति नामकर्मके उदयसे द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रियजाति नामकर्मके उदयसे त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रियजाति नामकर्मके उदयसे चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रियजाति नामकर्मके उदयसे पञ्चेन्द्रिय जीव होते हैं । इस व्याख्यानके अनुसार केवली और अपर्याप्त जीवोंके भी पञ्चेन्द्रिय जाति नामकर्मका उदय होता ही है । अतः यह व्याख्यान निर्दोष है । अतएव इसका आश्रय करना चाहिये ।

शंका— पञ्चेन्द्रियजाति किसे कहते हैं ?

समाधान— जिसके कनूतर आदि जाति-विशेष ' ये पञ्चेन्द्रिय हैं ' इसप्रकार समान प्रत्ययसे ग्रहण करने योग्य होते हैं और जिसमें पञ्चेन्द्रियावरण कर्मके क्षयोपशमके सहकारीपनेकी अपेक्षा रहती है उसे पञ्चेन्द्रिय जाति कहते हैं ।

अब अतीन्द्रिय जीवोंके अस्तित्वके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

उन एकेन्द्रियादि जीवोंसे परे अनिन्द्रिय जीव होते हैं ॥ ३८ ॥

सूत्रमें ' तेन ' यह एक वचन जातिका सूचक है । ' पर ' शब्दका अर्थ ऊपर है । जिससे यह अर्थ हुआ कि एकेन्द्रियादि जातिभेदोंसे रहित अनिन्द्रिय जीव होते हैं, क्योंकि, उनके संपूर्ण द्रव्यकर्म और भावकर्म नहीं पाये जाते हैं ।

अब कार्यमार्गणाके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

कायानुवादाकी अपेक्षा पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक, त्रसकायिक और कायरहित जीव होते हैं ॥ ३९ ॥

अनुवदनमनुवादः । कायानामनुवादः कायानुवादः तेन कायानुवादेन । पृथिव्येव कायः पृथिवीकायः स एवामस्तीति पृथिवीकायिकाः । न कर्मणशरीरमात्रस्थितजीवानां पृथिवीकायत्वाभावः भाविनि भूतवदुपचारतस्तेषामपि तद्व्यपदेशोपपत्तेः । अथवा पृथिवीकायिकनामकर्मोदयवशीकृताः पृथिवीकायिकाः । एवमष्कायिकादीनामपि वाच्यम् । पृथिव्यादीनि कर्माण्यसिद्धानीति चेन्न, पृथिवीकायिकादिकार्यान्यथानुपपत्तितस्तदस्तित्वासिद्धेः । एते पञ्चापि स्थावराः स्थावरनामकर्मोदयजनितविशेषत्वात् । स्थानशीलाः स्थावरा इति चेन्न, वायुतेजोऽम्भसां देशान्तरप्राप्तिदर्शनादस्थावरत्वप्रसङ्गात् । स्थानशीलाः स्थावरा इति व्युत्पत्तिमात्रमेव, नार्थःप्राधान्येनाश्रीयते गोशब्दस्येव । त्रसनामकर्मोदयापा-

सूत्रके अनुकूल कथन करनेको अनुवाद कहते हैं । कायके अनुवादको कायानुवाद कहते हैं, उसकी अपेक्षा पृथिवीकायिक आदि जीव होते हैं । पृथिवीरूप शरीरको पृथिवीकाय कहते हैं, वह जिनके पाया जाता है उन जीवोंको पृथिवीकायिक कहते हैं । पृथिवीकायिकका इसप्रकार लक्षण करने पर कर्मण काययोगमें स्थित जीवोंके पृथिवीकायपना नहीं हो सकता है, यह बात नहीं है, क्योंकि, जिसप्रकार जो कार्य अभी नहीं हुआ है, उसमें यह हो चुका इसप्रकार उपचार किया जाता है, उसीप्रकार कर्मण काययोगमें स्थित पृथिवीकायिक जीवोंके भी पृथिवीकायिक यह संज्ञा बन जाती है । अथवा, जो जीव पृथिवीकायिक नामकर्मके उदयके वशवर्ती हैं उन्हें पृथिवीकायिक कहते हैं । इसीप्रकार जलकायिक आदि शब्दोंकी भी निरुक्ति कर लेना चाहिये ।

शंका—पृथिवी आदि कर्म तो असिद्ध हैं, अर्थात् उनका सद्भाव किसी प्रमाणसे सिद्ध नहीं होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, पृथिवीकायिक आदि कार्योंका होना अन्यथा बन नहीं सकता, इसलिये पृथिवी आदि नामकर्मोंके अस्तित्वकी सिद्धि हो जाती है ।

स्थावर नामकर्मके उदयसे उत्पन्न हुई विशेषताके कारण ये पाँचों ही स्थावर कहलाने हैं ।

शंका—स्थानशील अर्थात् ठहरना ही जिनका स्वभाव हो उन्हें स्थावर कहते हैं, ऐसी व्याख्याके अनुसार स्थावरोंका स्वरूप क्यों नहीं कहा ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, वैसा लक्षण मानने पर, वायुकायिक, अग्निकायिक और जलकायिक जीवोंकी एक देशसे दूसरे देशमें गति देखी जानेसे उन्हें अस्थावरत्वका प्रसंग प्राप्त हो जायगा ।

स्थानशील स्थावर होते हैं, यह निरुक्ति व्युत्पत्तिमात्र ही है, इसमें गो शब्दकी

दितवृत्तयस्त्रसाः । त्रसेरुद्वेजनक्रियस्य त्रस्यन्तीति त्रसा इति चेन्न, गर्भाण्डजमूर्च्छित-  
सुपुप्तेषु तदभावाद्त्रसत्त्वप्रसङ्गात् । ततो न चलनाचलनापेक्षं त्रसस्यावरत्वम् । आत्म-  
प्रवृत्त्युपचितपुद्गलपिण्डः कायः इत्यनेनेदं व्याख्यानं विरुद्धयत इति चेन्न, जीवविपाकि-  
त्रसपृथिवीकायिकादिकर्मोदयसहकार्यौदारिकशरीरोदयजनितशरीरस्यापि उपचारतस्तद्-  
व्यपदेशार्हत्वाविरोधात् । त्रसस्यावरकायिकनामकर्मवन्वातीताः अकायिकाः सिद्धाः ।  
उक्तं च—

जह कंचगमगि-नयं मुंचइ किट्टेणं कालियाए व ।

तह काय-वंध-मुक्का अकाइया ज्ञाण-जोएणं ॥ १४४ ॥

पुदवि-काइयादीणं भेद-पदुप्पायणडुमुत्तर-मुत्तं भणइ—

व्युत्पत्तिकी तरह प्रधानतासे अर्थका ग्रहण नहीं है ।

त्रस नामकर्मके उदयसे जिन्होंने त्रसपर्यायको प्राप्त कर लिया है उन्हें त्रस कहते हैं ।

शंका—‘त्रसी उद्वेगे’ इस धातुसे त्रस शब्दकी सिद्धि हुई है, जिसका यह अर्थ होता है कि जो उद्विग्न अर्थात् भयभीत होकर भागते हैं वे त्रस हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, गर्भमें स्थित, अण्डमें बन्द, मूर्च्छित और सोते हुए जीवोंमें उक्त लक्षण ब्रूटित नहीं होनेसे उन्हें अत्रसत्वका प्रसंग आजायगा । इसलिये चलने और उद्वेगकी अपेक्षा त्रस और स्थावरपना नहीं समझना चाहिये ।

शंका—आत्म-प्रवृत्ति अर्थात् योगसे संव्रित हुए पुद्गलपिण्डको काय कहते हैं, इस व्याख्यानसे पूर्वोक्त व्याख्यान विरोधको प्राप्त होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, जिसमें जीवविपाकी त्रस नामकर्म और पृथिवीकायिक आदि नामकर्मके उदयकी सहकारिता है ऐसे औदारिक-शरीर नामकर्मके उदयसे उत्पन्न हुए शरीरको उपचारसे कायपना बन जाता है, इसमें कोई विरोध नहीं आता है ।

त्रस और स्थावर-कायिक नामकर्मके बन्धसे अतीत सिद्धोंको अकायिक कहते हैं । कहा भी है—

जिसप्रकार अग्निको प्राप्त हुआ सोना कीट और कालिमारूप बाह्य और अभ्यन्तर दोनों प्रकारके मलसे रहित हो जाता है, उसीप्रकार ध्यानके द्वारा यह जीव काय और कर्म-रूप बन्धसे मुक्त होकर कायरहित हो जाता है ॥ १४४ ॥

अत्र पृथिवीकायिकादि जीवोंके भेदोंके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

१ त. रा. वा. २. १२. २. २ प्रतिष्ठा ‘क्रिट्टेण’ इति पाठः ।

३ गो. जी. २०३. क्रिट्टेण बहिर्मलेन कालिकया च वैवर्ण्यरूपांतरंगमलेन । जी. प्र. टी.

पुठविकाइया दुविहा, बादरा सुहुमा । बादरा दुविहा, पज्जत्ता अपज्जत्ता । सुहुमा दुविहा, पज्जत्ता अपज्जत्ता । आउकाइया दुविहा, बादरा सुहुमा । बादरा दुविहा, पज्जत्ता अपज्जत्ता । सुहुमा दुविहा, पज्जत्ता अपज्जत्ता । तेउकाइया दुविहा, बादरा सुहुमा । बादरा दुविहा, पज्जत्ता अपज्जत्ता । सुहुमा दुविहा, पज्जत्ता अपज्जत्ता । वाउकाइया दुविहा, बादरा सुहुमा । बादरा दुविहा, पज्जत्ता अपज्जत्ता । सुहुमा दुविहा, पज्जत्ता अपज्जत्ता । वेदि ॥ ४० ॥

बादरनामकर्मोदयोपजनितविशेषाः बादराः, सूक्ष्मनामकर्मोदयोपजनितविशेषाः सूक्ष्माः । को विशेषश्चेत् ? सप्रतिघाताप्रतिघातरूपाः । पर्याप्तनामकर्मोदयजनितशक्त्या-विर्भावितवृत्तयः पर्याप्ताः । अपर्याप्तनामकर्मोदयजनितशक्त्याविर्भावितवृत्तयः अपर्याप्ताः ।

पृथिवीकायिक जीव दो प्रकारके हैं, बादर और सूक्ष्म । बादर पृथिवीकायिक जीव दो प्रकारके हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त । सूक्ष्म पृथिवीकायिक जीव दो प्रकारके हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त । जलकायिक जीव दो प्रकारके हैं, बादर और सूक्ष्म । बादर जलकायिक जीव दो प्रकारके हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त । सूक्ष्म जलकायिक जीव दो प्रकारके हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त । अशिकायिक जीव दो प्रकारके हैं, बादर और सूक्ष्म । बादर अशिकायिक जीव दो प्रकारके हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त । सूक्ष्म अशिकायिक जीव दो प्रकारके हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त । वायुकायिक जीव दो प्रकारके हैं बादर और सूक्ष्म । बादर वायुकायिक जीव दो प्रकारके हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त । सूक्ष्म वायुकायिक जीव दो प्रकारके हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त ॥४०॥

जिनमें बादर नामकर्मके उदयसे विशेषता उत्पन्न हो गई है उन्हें बादर कहते हैं । तथा जिनमें सूक्ष्म नामकर्मके उदयसे विशेषता उत्पन्न हो गई है उन्हें सूक्ष्म कहते हैं ।

शंका—बादर और सूक्ष्ममें क्या विशेषता है ?

समाधान—बादर प्रतिघात सहित होते हैं और सूक्ष्म प्रतिघात रहित होते हैं, यही इन दोनोंमें विशेषता है । अर्थात् निमित्तके मिलनेपर बादर शरीरका प्रतिघात हो सकता है, परंतु सूक्ष्मशरीरका कभी भी प्रतिघात नहीं होता है ।

पर्याप्त नामकर्मके उदयसे उत्पन्न हुई शक्तिसे जिन जीवोंकी अपने अपने योग्य पर्याप्तियोंके पूर्ण करनेरूप अवस्था-विशेष प्रगट हो गई है उन्हें पर्याप्त कहते हैं । तथा अपर्याप्त नामकर्मके उदयसे उत्पन्न हुई शक्तिसे जिन जीवोंकी शरीर-पर्याप्ति पूर्ण न करके मरनेरूप अवस्था-विशेष उत्पन्न हो जाती है उन्हें अपर्याप्त कहते हैं ।

वनस्पतिकायिकभेदप्रतिपादनार्थमाह—

वणप्फइकाइया दुविहा, पत्तेयसरीरा साधारणसरीरा । पत्तेय-  
सरीरा दुविहा, पज्जता अपज्जता । साधारणसरीरा दुविहा, वादरा  
सुहुमा । वादरा दुविहा, पज्जता अपज्जता । सुहुमा दुविहा, पज्जता  
अपज्जता चेदि ॥ ४१ ॥

प्रत्येकं पृथक् शरीरं येषां ते प्रत्येकशरीराः खदिरादयो वनस्पतयः । पृथिवी-  
कायादिपञ्चानामपि प्रत्येकशरीरव्यपदेशस्तथा सति स्यादिति चेन्न, इष्टत्वात् । तर्हि  
तेषामपि प्रत्येकशरीरविशेषणं विधातव्यमिति चेन्न, तत्र वनस्पतिष्विव व्यवच्छेद्याभावात् ।  
वादरसूक्ष्मोभयविशेषणाभावादनुभयत्वमनुभयस्य चाभावात्प्रत्येकशरीरवनस्पतीनामभावः

अब वनस्पति-कायिक जीवोंके भेद-प्रतिपादन करनेके लिये आंगिका सूत्र कहते हैं—

वनस्पतिकायिक जीव दो प्रकारके हैं, प्रत्येकशरीर और साधारणशरीर । प्रत्येकशरीर  
वनस्पतिकायिक जीव दो प्रकारके हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त । साधारणशरीर वनस्पतिकायिक  
जीव दो प्रकारके हैं, वादर और सूक्ष्म । वादर दो प्रकारके हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त । सूक्ष्म दो  
प्रकारके हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त ॥ ४१ ॥

जिनका प्रत्येक अर्थात् प्रथक् प्रथक् शरीर होता है उन्हें प्रत्येकशरीर जीव कहते हैं  
जैसे, खैर आदि वनस्पति ।

शंका—प्रत्येकशरीरका इसप्रकार लक्षण करने पर पृथिवीकाय आदि पाँचों शरीरोंको  
भी प्रत्येकशरीर संज्ञा प्राप्त हो जायगी ?

समाधान—यह आशंका कोई आपत्ति-जनक नहीं है, क्योंकि, पृथिवीकाय आदिको  
प्रत्येकशरीर मानना इष्ट ही है ।

शंका—तो फिर पृथिवीकाय आदिके साथ भी प्रत्येकशरीर विशेषण लगा लेना चाहिये ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, जिसप्रकार वनस्पतियोंमें प्रत्येक वनस्पतिसे निराकरण  
करने योग्य साधारण वनस्पति पाई जाती है, उसप्रकार पृथिवी आदिमें प्रत्येक शरीरसे भिन्न  
निराकरण करने योग्य कोई भेद नहीं पाया जाता है, इसलिये पृथिवी आदिमें अलग विशेषण  
देनेकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

शंका—प्रत्येक वनस्पतिमें वादर और सूक्ष्म दो विशेषण नहीं पाये जाते हैं, इसलिये  
प्रत्येक वनस्पतिको अनुभयपना प्राप्त हो जाता है। परंतु वादर और सूक्ष्म इन दो भेदोंको छोड़कर  
अनुभयरूप कोई तीसरा विकल्प पाया नहीं जाता है, इसलिये अनुभयरूप विकल्पके अभावमें  
प्रत्येकशरीर वनस्पतियोंका भी अभाव प्राप्त हो जायगा ?

समापतेदिति चेन्न, वादरत्वेन सतामभांवानुपपत्तेः । अनुक्तं कथमवगम्यत इति चेन्न, सत्त्वान्यथानुपपत्तितस्तत्सिद्धेः । सौक्ष्म्यविशिष्टस्यापि जीवसत्त्वस्यासंभवः समस्तीति नैकान्तिको हेतुरिति चेन्न, वादरा इति लक्षणमुत्सर्गरूपत्वादशेषप्राणिव्यापि । ततः प्रत्येकशरीरवनस्पतयो वादरा एव न सूक्ष्माः साधारणशरीरेष्विव उत्सर्गविधिवाधकाप-  
वादविधेरभावात् । तदुत्सर्गत्वं कथमवगम्यत इति चेन्न, प्रत्येकवनस्पतित्रसेषूभय-  
विशेषणानुपादानान्न सूक्ष्मत्वमुत्सर्गः आर्षमन्तरेण प्रत्यक्षादिनानवगतेरप्रसिद्धस्य वादर-  
त्वस्येवोत्सर्गत्वविरोधात् ।

साधारणं सामान्यं शरीरं येषां ते साधारणशरीराः । प्रतिनियतजीवप्रतिवद्धैः

.....  
समाधान—पेसा नहीं है, क्योंकि, प्रत्येक वनस्पतिका वादररूपसे अस्तित्व पाया जाता है, इसलिये उसका अभाव नहीं हो सकता है ।

शंका—प्रत्येक वनस्पतिको वादर नहीं कहा गया है, फिर कैसे जाना जाय कि प्रत्येक वनस्पति वादर ही होती है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, प्रत्येक वनस्पतिका दूसरे रूपसे अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता है, इसलिये वादररूपसे उसके अस्तित्वकी सिद्धि हो जाती है ।

शंका—प्रत्येक वनस्पतिमें यद्यपि सूक्ष्मता-विशिष्ट जीवकी सत्ता असंभव है, परंतु सत्त्वान्यथानुपपत्ति रूपसे उसकी भी सिद्धि हो सकती है, इसलिये यह सत्त्वान्यथानुप-  
पत्तिरूप हेतु अनैकान्तिक है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, वादर यह लक्षण उत्सर्गरूप ( व्यापक ) होनेसे संपूर्ण प्राणियोंमें पाया जाता है । इसलिये प्रत्येक शरीर वनस्पति जीव वादर ही होते हैं, सूक्ष्म नहीं, क्योंकि, जिसप्रकार साधारण शरीरोंमें उत्सर्गविधिकी वाधक अपवादविधि पाई जाती है, अर्थात् साधारण शरीरों में वादर भेद के अतिरिक्त सूक्ष्म भेद भी पाया जाता है, उसप्रकार प्रत्येक वनस्पतिमें अपवादविधि नहीं पाई जाती है, अर्थात् उनमें सूक्ष्म भेदका सर्वथा अभाव है ।

शंका—प्रत्येक वनस्पतिमें वादर यह लक्षण उत्सर्गरूप है, यह कैसे जाना जाय ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, प्रत्येक वनस्पति और त्रसोंमें वादर और सूक्ष्म ये दोनों विशेषण नहीं पाये जाते हैं, इसलिये सूक्ष्मत्व उत्सर्गरूप नहीं हो सकता है, क्योंकि, आगमके विना प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे सूक्ष्मत्वका ज्ञान नहीं होता है, अतएव प्रत्यक्षादिसे अप्रसिद्ध सूक्ष्मको वादरकी तरह उत्सर्गरूप माननेमें विरोध आता है ।

विशेषार्थ—वादरत्व पांचों स्थावर और त्रसोंमें पाया जाता है, परंतु सूक्ष्मत्व प्रत्येक वनस्पति और त्रसोंमें नहीं पाया जाता है । इसलिये वादर उत्सर्ग विधि है, सूक्ष्मत्व नहीं ।

जिन जीवोंका साधारण अर्थात् भिन्न भिन्न शरीर न होकर समानरूपसे एक शरीर पाया जाता है उन्हें साधारणशरीर जीव कहते हैं ।



पुद्गलविपाकित्वादाहारवर्गणास्कन्धानां कायाकारपरिणमनहेतुभिरौदारिककर्मस्कन्धैः कथं भिन्नजीवफलदातृभिरेकं शरीरं निष्पाद्यते विरोधादिति चेन्न, पुद्गलानामेकदेशावस्थितानामेकदेशावस्थितमिथःसमवेतजीवसमवेतानां तत्स्थाशेषप्राणिसम्बन्ध्येकशरीरनिष्पादनं न विरुद्धं साधारणकारणतः समुत्पन्नकार्यस्य साधारणत्वाविरोधात् । कारणानुरूपं कार्यमिति न निषेद्धुं पार्यते सकलनैयायिकलोकप्रसिद्धत्वात् । उक्तं च —

साधारणमाहारो साधारणमाणपाण-ग्रहणं च ।

साधारण-जीवाणं साधारण लक्षणं भणियं' ॥ १४५ ॥

जत्येककु मरइ जीवो तत्य दु मरणं हवे अणंताणं ।

वक्कमदि जत्य एक्को वक्कमणं तत्य णंताणं' ॥ १४६ ॥

एय-णिगोद-सरीरे जीवा दव्व-प्पमाणदो दिट्ठा ।

सिद्धेहि अणंत-गुणा सव्वेण वितीद-कालेण' ॥ १४७ ॥

शंका—जीवोंसे अलग अलग बंधे हुए, पुद्गलविपाकी होनेसे आहार-वर्गणाके स्कन्धोंको शरीरके आकाररूपसे परिणमन करानेमें कारणरूप और भिन्न-भिन्न जीवोंको भिन्न-भिन्न फल देनेवाले औदारिक कर्मस्कन्धोंके द्वारा अनेक जीवोंके एक शरीर कैसे उत्पन्न किया जा सकता है, क्योंकि, ऐसा माननेमें विरोध आता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, जो एकदेशमें अवस्थित हैं और जो एकदेशमें अवस्थित तथा परस्पर संबद्ध जीवोंके साथ समवेत हैं, ऐसे पुद्गल वहां पर स्थित संपूर्ण जीव-संबन्धी एक शरीरको उत्पन्न करते हैं इसमें कोई विरोध नहीं आता है, क्योंकि, साधारण कारणसे उत्पन्न हुआ कार्य भी साधारण ही होता है। कारणके अनुरूप ही कार्य होता है, इसका निषेध भी तो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि, यह बात संपूर्ण नैयायिक लोगोंमें प्रसिद्ध है। कहा भी है—

साधारण जीवोंका साधारण ही आहार होता है और साधारण ही श्वासोच्छ्वासका ग्रहण होता है। इसप्रकार परमाणुमें साधारण जीवोंका साधारण लक्षण कहा है ॥ १४५ ॥

साधारण जीवोंमें जहां पर एक जीव मरण करता है वहां पर अनन्त जीवोंका मरण होता है। और जहां पर एक जीव उत्पन्न होता है वहां पर अनन्त जीवोंका उत्पाद होता है ॥ १४६ ॥

द्रव्य-प्रमाणकी अपेक्षा सिद्धराशि और संपूर्ण अतीत कालसे अनन्तगुणे जीव एक निगोद-शरीरमें देखे गये हैं ॥ १४७ ॥

१ गो. जी १९२. च शब्देन शरीरेन्द्रियपर्याप्तिद्वयं समुच्चयीकृतम् । जी प्र. टी. । आचा. नि. १३६.

२ गो. जी. १९३. एकनिगोदशरीरे प्रतिसमयमनन्तानन्तजीवास्तावत् सहेव प्रियंते सहेवोत्पद्यन्ते यावद-संख्यातसागरोपमकोटिकोटिमात्री असंख्यातलोकमात्रसमयप्रामिता उत्कृष्टनिगोदकायस्थितिः परिसमाप्यते । अत्र विशेषश्च टीकातोऽवसेयः । जी. प्र. टी. ।

३ गो. जी १९६. ननु अष्टसमयाधिकषण्मासाभ्यन्तरे अष्टोत्तरषट्शतजीवेषु कर्मक्षयं कृत्वा सिद्धेषु सत्सु

अत्यि अणता जीवा जेहि ण पत्तो तसाण परिणामो ।

भाव-ऋलंकइपउरा णिगोद-वासं ण मुंचंति' ॥ १४८ ॥

ते तादृक्षाः सन्तीति कथमवगम्यत इति चेन्न, आगमस्यातर्कगोचरत्वात् । न हि प्रमाणप्रकाशितार्थावगतिः प्रमाणान्तरप्रकाशमपेक्षते स्वरूपविलोपप्रसङ्गात् । न चैतत्प्रामाण्यमसिद्धं सुनिश्चितासम्भवद्वाधकप्रमाणस्यासिद्धत्वविरोधात् । वादरनिगोद-प्रतिष्ठिताश्चार्पान्तरेषु श्रूयन्ते, क तेपामन्तर्भावश्चेत् प्रत्येकशरीरवनस्पतिष्विति ब्रूम; । के ते ? स्तुगार्दकमूलकादयः ।

त्रसकायानां भेदप्रतिपादनार्थमुत्तरसूत्रमाह—

नित्य निगोदमें ऐसे अनन्तानन्त जीव हैं जिन्होंने त्रस जीवोंकी पर्याय अभीतक कभी नहीं पाई है, और जो भाव अर्थात् निगोद पर्यायके योग्य कपायके उदयसे उत्पन्न हुए दुर्लेश्यारूप परिणामोंसे अत्यन्त अभिभूत रहते हैं, इसलिये निगोद-स्थानको कभी नहीं छोड़ते ॥ १४८ ॥

शंका—साधारण जीव उक्त लक्षणवाले होते हैं यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि, आगम तर्कका विषय नहीं है । एक प्रमाणसे प्रकाशित अर्थज्ञान दूसरे प्रमाणके प्रकाशकी अपेक्षा नहीं करता है; अन्यथा प्रमाणके स्वरूपका अभाव प्राप्त हो जायगा । तथा आगमकी प्रमाणता असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि, जिसके बाधक प्रमाणोंकी असंभावना अच्छीतरह निश्चित है उसको असिद्ध माननेमें विरोध आता है । अर्थात् बाधक प्रमाणोंके अभावमें आगमकी प्रमाणताका निश्चय होता ही है ।

शंका—वादर निगोदोंसे प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति दूसरे आगमोंमें सुनी जाती है, उसका अन्तर्भाव वनस्पतिके किस भेदमें होगा ?

समाधान—प्रत्येकशरीर वनस्पतिमें उसका अन्तर्भाव होगा, ऐसा हम कहते हैं ।

शंका—जो वादरनिगोदसे प्रतिष्ठित हैं वे कौन हैं ?

समाधान—थूहर, अदरस्र और मूली आदिक वनस्पति वादर निगोदसे प्रतिष्ठित हैं । अब त्रसकायिक जीवोंके भेदोंके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

सिद्धराशेर्वृद्धिदर्शनात् संसारिजीवराशेश्च हानिदर्शनात् कथं सर्वदा सिद्धेभ्योऽनन्तगुणत्वं एकशरीरनिगोदजीवानाम् सर्वजीवराश्यनन्तगुणकालसमयसमूहस्य तद्योगानन्तभागे गते सति संसारिजीवराशिक्षयस्य सिद्धराशिवहुत्वस्य च सुघटत्वान् ? इति चेत्तन्न, केवलज्ञानदृष्टया केवलिभिः, श्रुतज्ञानदृष्टया श्रुतकेवलिभिश्च सदा दृष्टस्य भव्यसंसारि-जीवराश्यक्षयस्यातिवृक्षमत्वात्तर्कविषयत्वाभावात् । प्रत्यक्षागमवाधितस्य च तर्कस्याप्रमाणत्वान् । जी. प्र. टी.

१ गो. जी. १९७. नित्यनिगोदलक्षणमनेन ज्ञातव्यं । XXX एकदेशाभावविशिष्टसकलार्थवाचिणा प्रचुर-शब्देन कदाचिददृष्टसमयाधिकपणसाभ्यन्तरे चतुर्गतिजीवराशितो निर्गतेषु अष्टोत्तरपद्मशतजीवेषु मुक्ति गतेषु तावन्तो जीवा नित्यनिगोदभावं त्यक्त्वा चतुर्गतिभवं प्राप्नुवन्तीत्ययमर्थः प्रतिपादितो बोद्धव्यम् । जी. प्र. टी.

तसकाइया दुविहा, पज्जता अपज्जता ॥ ४२ ॥

गतार्थत्वान्नास्यार्थ उच्यते । किं त्रसाः सूक्ष्मा उत वादरा इति ? वादरा एव न सूक्ष्माः । कुतः ? तत्सौक्ष्म्यविधायकार्पाभावान् । वादरत्वविधायकार्पाभावे कथं तदवगम्यत इति चेन्न, उत्तरसूत्रतस्तेषां वादरत्वसिद्धेः । के ते ? पृथिवीकायाद्य इति चेदुच्यते —

पुटवी य सकरा वालुवा य उवले सिलादि छत्तीसा<sup>१</sup> ।

पुटवीमया हु जीवा णिदिद्वा जिणवरिदेहि ॥ १४९ ॥

त्रसकायिक जीव दो प्रकारके होते हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त ॥ ४२ ॥

गतार्थ होनेसे इस सूत्रका अर्थ नहीं कहते हैं ।

शंका—त्रस जीव क्या सूक्ष्म होते हैं अथवा वादर ?

समाधान—त्रस जीव वादर ही होते हैं, सूक्ष्म नहीं होते ।

शंका—यह कैसे जाना जाय ?

समाधान—क्योंकि त्रस जीव सूक्ष्म होते हैं, इसप्रकार कथन करनेवाला आगम प्रमाण नहीं पाया जाता है ।

शंका—त्रस जीवोंके वादरपनेका प्रतिपादन करनेवाला आगम प्रमाण भी तो अभी तक नहीं आया है, फिर यह कैसे जाना जाय कि वे वादर ही होते हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, आगे आनेवाले सूत्रसे त्रस जीवोंका वादरपना सिद्ध हो जाता है ।

शंका—वे पृथिवीकाय आदि जीव कौनसे हैं ?

समाधान—जिनेन्द्र भगवान्ने पृथिवी, शर्करा, वालुका उपल और शिला आदिके भेदसे पृथिवीरूप छत्तीस प्रकारके जीव कहे हैं ॥ १४९ ॥

विशेषार्थ—ऊपर जो पृथिवीके अचान्तर भेदोंकी अपेक्षा पृथिवीकायिक जीव छत्तीस प्रकारके कहे हैं, वे इसप्रकार हैं: मट्टीरूप पृथिवी, गंगा आदि नदियोंमें उत्पन्न होनेवाली रूक्ष वालुका, तीक्ष्ण और चौकोर आदि आकारवाली शर्करा, गोल पत्थर, बड़ा पत्थर, समुद्रादिमें उत्पन्न होनेवाला नमक, लोहा, ताँबा, जस्ता, सीसा, चाँदी, सोना, वज्र ( हीरा ), हरिताल, इंगुल, मैनसिल, हरे रंगवाला सस्यक, अंजन, मूंगा, भोड़ल, चिकनी और चमकती हुई रेती,

१ पुटवी य सकरा य उवले सिला य लोणे य । अय तं व तउ य सांसय न्य सुवण्णे य वड्रे य ॥ हरिदाले हिंगुले मणोसिला सत्सगंजण पवाले य । अम्मपडलम्भवात्तु य वादरकाया मणिविर्वाया ॥ गोमन्डगे य न्जगे अंके फलहे य लोहिदंके य । चंदप्पम वेसल्ले जलकंते न्नुकंते य ॥ नेत्थ चंदण वच्चग वगमोए तह मसारगल्लो य । ते जाण पुटविर्जावा जाणित्ता परिहरेदव्वा ॥ मूलाचा. २०६-२०९ । आचा. नि. ७३-७६ । उच. ३६-७४-७७ । प्रज्ञा. १. १७.

ओसा य हिमो धूमरि हरदणु सुद्धोदवो घणोदो य' ।  
 एदे हु आउकाया जीवा जिण-सासणुदिहा ॥ १५० ॥  
 इंगाल-जाल-अच्ची मुम्मुर-सुद्धागणी तहा अगणी' ।  
 अण्णे वि एवमाई तेउक्काया समुदिहा ॥ १५१ ॥  
 वाउवामो उक्कलि-मंडलि-गुंजा महा घणा य तणा ।  
 एदे उ वाउकाया जीवा जिण-इंद-णिदिहा' ॥ १५२ ॥  
 मूलग-पोर-वीया कंदा तह खंध-वीय-वीयरुहा ।  
 सम्मुच्छिमा य भणिया पत्तेयाणंतकाया य' ॥ १५३ ॥

कंकतनमणि, राजवर्तकरूप मणि, पुलकवर्णमणि, स्फटिकमणि, पद्मरागमणि, चद्रकांतमणि, वैडूर्यमणि, जलकान्तमणि, सूर्यकान्तमणि, गेरुवर्ण रुधिराक्षमणि, चन्दनगन्धमणि, अनेक प्रकारका मरकतमणि, पुखराज, नीलमणि, और विद्रुमवर्णवाली मणि ये सब पृथिवीके भेद हैं, इसलिये इनके भेदसे पृथिवीकायिक जीव भी छत्तीस प्रकारके हो जाते हैं ॥ १४९ ॥

ओस, वर्षा, कुहरा, स्थूल विन्दुरूप जल, सूक्ष्म विन्दुरूप जल, चद्रकान्तमणिसे उत्पन्न हुआ शुद्ध जल, झरना आदिसे उत्पन्न हुआ जल, समुद्र, तालाव और घनवात आदिसे उत्पन्न हुआ घनोदक, अथवा, हरदणु अर्थात् तालाव और समुद्र आदिसे उत्पन्न हुआ जल तथा घनोदक अर्थात् मेघ आदिसे उत्पन्न हुआ जल ये सब जिन शासनमें जलकायिक जीव कहे गये हैं ॥ १५० ॥

अंगार, ज्वाला, अर्चि अर्थात् आशिकिरण, मुर्मुर अर्थात् भूसा अथवा कण्डाकी अग्नि, शुद्धाग्नि अर्थात् विजली और सूर्यकान्त आदिसे उत्पन्न हुई अग्नि और धूमादिसहित सामान्य अग्नि, ये सब अशिकायिक जीव कहे गये हैं ॥ १५१ ॥

सामान्य वायु, उद्भ्राम अर्थात् घूमता हुआ ऊपर जानेवाला वायु (चक्रवात), उत्कलि अर्थात् नीचेकी ओर बहनेवाला या जलकी तरंगोंके साथ तरंगित होनेवाला वायु, मण्डलि अर्थात् पृथिवीसे स्पर्श करके घूमता हुआ वायु, गुंजा अर्थात् गुंजायमान वायु, महावात अर्थात् वृक्षादिकके भंगसे उत्पन्न होनेवाला वायु, घनवात और तनुवात ये सब वायुकायिक जीव जिनेन्द्र भगवानने कहे हैं ॥ १५२ ॥

मूलबीज, अग्रबीज, पर्वबीज, कन्दबीज, स्कन्धबीज, बीजरुह और संमूर्च्छिम, ये सब

१ ओसा य हिमग महिगा हरदणु सुद्धोदगे घणुदगे य । ते जाण आउजीवा जाणित्ता परिहरेदव्वा ॥  
 मूलाच्चा. २१० । आचा. नि. १०८ । उत्त. ३६. ८६ । प्रज्ञा. १. २०.

२ मूलाच्चा. २११ । आचा. नि. ११८ । उत्त. ३६. ११०-१११ । प्रज्ञा. १. २३.

३ मूलाच्चा. २१२. उक्कलिया मंडलिया गुंजा घणवाय सुद्धवाया य । वादर वाउविहाणा पंचविहा वीण्णय एए ॥ आचा. नि. १६६ । उत्त. ३६. ११९-१२० । प्रज्ञा. १. २६.

४ गो. जी. १८६ । मूलाच्चा. २१३. मूल मूलबीजा जीवा येषां मूलं प्रादुर्भवति ते च हरिद्रादयः । अग-

विहि तीहि चउहि पंचहि सहिया जे इंदिएहि लोयग्मि ।

ते तसकाया जीवा णेया वीरोवप्सेण' ॥ १५४ ॥

पृथिवीकायिकादीनां स्वरूपमभिधाय साम्प्रतं तेषु गुणस्थाननिरूपणार्थमुत्तर-  
सूत्रमाह—

पुढविकाइया आउकाइया तेउकाइया वाउकाइया वणप्फइ-  
काइया एकम्मि चेय मिच्छाइट्ठि-ट्ठणे' ॥ ४३ ॥

आह, आप्तागमविषयश्रद्धारहिता मिथ्यादृष्टयो भण्यन्ते। श्रद्धाभावश्चाश्रद्धेयवस्तु-  
परिज्ञानपूर्वकः। तथा च पृथिवीकायादीनामाप्तागमविषयपरिज्ञानोज्झितानां कथं मिथ्या-

वनस्पतियां सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येकके भेदसे दोनों प्रकारकी कही गई हैं ॥१५३॥

लोकमें जो जीव दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय और पांच इन्द्रियोंसे युक्त हैं  
उन्हें वीर भगवानके उपदेशसे त्रसकायिक जीव जानना चाहिये ॥ १५४ ॥

पृथिवीकायिक आदि जीवोंके स्वरूपका कथन करके अब उनमें गुणस्थानोंका  
निरूपण करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक जीव  
मिथ्यादृष्टि नामक प्रथम गुणस्थानमें ही होते हैं ॥ ४३ ॥

शंका—शंकाकार कहता है कि आप्त, आगम और पदार्थोंकी श्रद्धासे रहित  
जीव मिथ्यादृष्टि कहे जाते हैं, और श्रद्धान करने योग्य वस्तुमें विपरीत  
ज्ञानपूर्वक ही अश्रद्धा अर्थात् मिथ्याभिनिवेश हो सकता है। ऐसी अवस्थामें आप्त, आगम  
और पदार्थके परिज्ञानसे रहित पृथिवीकायिक आदि जीवोंके मिथ्यादृष्टिपना कैसे  
संभव है ?

अग्रवीजा जीवाः कोरंटकमल्लिका कुञ्जकादयो येषामग्रं प्रारोहति । पौरवीया पौरवीजजीवा इक्षुवेत्रादयो येषां  
पौरप्रदेशः प्रारोहति । कंदा कन्दजीवाः कदलीपिण्डालुकादयो येषां कन्ददेशः प्रादुर्भवति । तह तथा । खंधवीया  
स्कन्धवीजजीवाः शल्लकीपालिमद्रकादयो येषां स्कन्धदेशो रोहति । वीयवीया वीजवीजा जीवा यवगोभ्रूमादयो  
येषां क्षेत्रोदकादिसामान्याः प्ररोहः । सम्मुच्छिमा य सम्मुच्छिमाश्च मूलाद्यभात्रेऽपि येषां जन्म । ×× पत्तेया प्रत्येकजीवाः  
पूगफलनालिकेरादयः । अणंतकाया य अनन्तकायाश्च स्नुहीगुड्यादयः, ये छिन्ना मिन्नाश्च प्ररोहन्ति । × × स. टं.  
अगवीया मूलवीया खंधवीया चैवं पौरवीया य । वीयरुहा सम्मुच्छिमा समासओवणसई जीवा ॥ आचा. नि. १३० ।  
उत्त. ३६. ९३-१०० । प्रज्ञा. १. २९-४४.

१ गो. जी. १९८.

२ कायाउचादेन पृथिवीकायादिषु वनस्पतिकायान्तेषु एकमेव मिथ्यादृष्टिस्थानम् । स. सि. १. ८.

दृष्टित्वमिति नैष दोषः, परिज्ञाननिरपेक्षमूढमिथ्यात्वसत्त्वस्य तत्राविरोधात् । अथवा ऐकान्तिकसांशयिकमूढव्युद्ग्राहितवैनयिकस्वाभाविकविपरीतमिथ्यात्वानां सप्तानामपि तत्र सम्भवः समस्ति । अत्रतनजीवानां सप्तविधमिथ्यात्वकलङ्काङ्कितहृदयानामविनष्टमिथ्यात्वपर्यायेण सह स्थावरत्वमुपगतानां तत्सत्त्वाविरोधात् । इन्द्रियानुवादेन एकेन्द्रिया विकलेन्द्रियाश्च सर्वे मिथ्यादृष्टय इत्यभाणि, ततस्तेनैव गतार्थत्वान्ना-रम्भणीयमिदं सूत्रमिति नैष दोषः, पृथिवीकायादीनामियन्तीन्द्रियाणि भवन्ति न भवन्तीति अनवगतस्य विस्मृतस्य वा शिष्यस्य प्रश्नवशादस्य सूत्रस्यावतारात् ।

त्रसजीवप्रतिपादनार्थमुत्तरसूत्रमाह —

तसकाइया बीइंदिय-प्पहुडि जाव अजोगिकेवलि ति' ॥ ४४ ॥

एते त्रसनामकर्मोदयवशवर्तिनः । के पुनः स्थावराः इति चेदेकेन्द्रियाः ।

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, पृथिवीकायिक आदि जीवोंमें परिज्ञानकी अपेक्षारहित मूढ मिथ्यात्वका सद्भाव मान लेनेमें कोई विरोध नहीं आता है। अथवा, ऐकान्तिक, सांशयिक, मूढ, व्युद्ग्राहित, वैनयिक, स्वाभाविक और विपरीत इन सातों प्रकारके मिथ्यात्वोंका भी उन पृथिवीकायिक आदि जीवोंमें सद्भाव संभव है, क्योंकि, जिनका हृदय सात प्रकारके मिथ्यात्वरूपी कलंकसे अंकित है ऐसे मनुष्यादि गतिसंबन्धी जीव पहले ग्रहण की हुई मिथ्यात्व पर्यायको न छोड़कर जब स्थावर पर्यायको प्राप्त हो जाते हैं, तो उनके सातों ही प्रकारका मिथ्यात्व पाया जाता है, इस क्रथन में कोई विरोध नहीं आता है।

शंका—इन्द्रियानुवादेसे एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रिय ये सब जीव मिथ्यादृष्टि होते हैं, ऐसा कह आये हैं, इसलिये उसीसे यह ज्ञान हो जाता है कि पृथिवीकायिक आदि जीव मिथ्यादृष्टि होते हैं। अतः इस सूत्रको प्रथक् रूपसे बनानेकी कोई आवश्यकता नहीं थी ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, पृथिवीकाय आदि जीवोंके इतनी इन्द्रियां होती हैं, अथवा इतनी इन्द्रियां नहीं होती हैं, इसप्रकार जिस शिष्यको ज्ञान नहीं है, अथवा जो भूल गया है, उस शिष्यके प्रश्नके अनुरोधसे इस सूत्रका अवतार हुआ है।

अब त्रस जीवोंके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

द्वीन्द्रियसे आदि लेकर अयोगिकेवलीतक त्रस जीव होते हैं ॥ ४४ ॥

इन सब जीवोंके त्रस नामकर्मका उदय पाया जाता है, इसलिये इन्हें त्रसकार्यिक कहते हैं।

शंका—स्थायर जीव कौन कहलते हैं ?

समाधान—एकेन्द्रिय जीव स्थावर कहलते हैं।

कथमनुक्तमवगम्यते चेत्परिशेषात् । स्थावरकर्मणः किं कार्यमिति चेदेकस्थानावस्था-  
पकत्वम् । तेजोवाय्वप्क्रायानां चलनात्मकानां तथा सत्यस्थावरत्वं स्यादिति चेन्न,  
स्थास्नूनां प्रयोगतश्चलच्छिन्नपर्णानामिव गतिपर्यायपरिणतसमीरणव्यतिरिक्तशरीरत्वत-  
स्तेषां गमनाविरोधात् ।

वादरजीवप्रतिपादनार्थमुत्तरसूत्रमाह —

**वादरकाइया वादरेइंदिय-प्पहुडि जाव अजोगिकेवलिति ॥४५॥**

वादरः स्थूलः सप्रतिघातः कायो येषां ते वादरकायाः । पृथिवीकायिकादिपृ-  
थ्वस्पतिपर्यन्तेषु पूर्वमेव वादराणां सूक्ष्माणां च सूत्रमुक्तं ततोऽत्र वादरैकेन्द्रियग्रहण-  
मनर्थकमिति चेन्नानर्थकम्, प्रत्येकशरीरवनस्पत्युपादानार्थम् तदुपादानात्प्रत्येकशरीर-

शंका—सूत्रमें एकेन्द्रिय जीवोंको स्थावर तो कहा नहीं है; फिर कैसे जाना जाय  
कि एकेन्द्रिय जीवोंको स्थावर कहते हैं?

समाधान—सूत्रमें जब दृष्टिआदिक जीवोंको वसकायिक कहा है, तो परिशेष-  
व्यायसे यह जाना जाता है कि एकेन्द्रिय जीव स्थावर कहलाते हैं।

शंका—स्थावरकर्मका क्या कार्य है?

समाधान—एक स्थान पर अवस्थित रखना स्थावरकर्मका कार्य है।

शंका—ऐसा मानने पर, गमन स्वभाववाले अशिकायिक, वायुकायिक और जल-  
कायिक जीवोंको अस्थावरपना प्राप्त हो जायगा ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, जिसप्रकार वृद्धमें लगे हुए पत्ते वायुसे हिला  
करते हैं और दूटने पर इधर उधर उड़ जाते हैं, उसीप्रकार अशिकायिक और जलकायिकके  
प्रयोगसे गमन माननेमें कोई विरोध नहीं आता है। तथा वायुके गतिपर्यायसे परिणत शरीरको  
छोड़कर कोई दूसरा शरीर नहीं पाया जाता है. इसलिये उसके गमन करनेमें भी कोई विरोध  
नहीं आता है।

अब वादर जीवोंके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

वादर एकेन्द्रिय जीवोंसे लेकर अयोगिकेवलीपर्यन्त जीव वादरकायिक होते हैं ॥४५॥

जिन जीवोंका शरीर वादर, स्थूल अर्थात् प्रतिघातसहित होता है उन्हें  
वादरकाय कहते हैं।

शंका—पृथिवीकायिकसे लेकर वनस्पति पर्यन्त जीवोंमें वादर और सूक्ष्म दोनों  
प्रकारके जीवोंका सम्भाव पहले ही कह आये हैं, इसलिये इस सूत्रमें वादर एकेन्द्रिय  
पदका ग्रहण करना निष्फल है ?

समाधान—अनर्थक नहीं है, क्योंकि, प्रत्येकशरीर वनस्पतिके ग्रहण करनेके लिये

वनस्पतिप्रभृतयो वादरा इति यावत् । न विधातव्यमेतेषां वादरत्वं प्रत्यक्षसिद्धत्वादिति चेन्न, सौक्ष्म्याभावप्रतिपादनफलत्वात् ।

द्विविधकायातीतजीवास्तित्वप्रतिपादनार्थमुत्तरसूत्रमाह—

तेण परमकाइया चेदि ॥ ४६ ॥

तेन द्विविधकायात्मकजीवराशेः परं वादरसूक्ष्मशरीरनिबन्धनकर्मातीतत्वतोऽशरीराः सिद्धाः अकायिकाः । जीवप्रदेशप्रचयात्मकत्वात्सिद्धा अपि सकाया इति चेन्न, तेषामनादिवन्धनबद्धजीवप्रदेशात्मकत्वात् । अनादिप्रचयोऽपि कायः किन्न स्यादिति चेन्न, मूर्तानां पुद्गलानां कर्मनोर्कर्मपर्यायपरिणतानां सादिसान्तप्रचयस्य कायत्वाभ्युपगमात् । 'इति'

वादर एकेन्द्रिय पद सूत्रमें ग्रहण किया गया है । इस पदके ग्रहण करनेसे प्रत्येकशरीर वनस्पति आदि सभी जीव वादर ही होते हैं, यह बात स्पष्ट हो जाती है ।

शंका—इस सूत्रमें इन जीवोंके वादरपनेका कथन नहीं करना चाहिये, क्योंकि, ये जीव वादर ही होते हैं यह बात प्रत्यक्षसिद्ध है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, इन जीवोंके केवल वादरत्वके प्रतिपादन करनेके लिये यह सूत्र नहीं रचा गया है, किंतु इन जीवोंके सूक्ष्मताके अभावका प्रतिपादन करना ही इस सूत्रके बनानेका फल है ।

अब त्रस और स्थावर इन दोनों कायोंसे रहित जीवोंके अस्तित्वके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

स्थावर और वादरकायसे परे कायरहित अकायिक जीव होते हैं ॥ ४६ ॥

जो उस त्रस और स्थावररूप दो प्रकारकी कायरशिसे परे हैं वे सिद्ध जीव वादर और सूक्ष्म शरीरके कारणभूत कर्मसे रहित होनेके कारण अशरीर होते हैं, अतएव अकायिक कहलाते हैं ।

शंका—जीवप्रदेशोंके प्रचयरूप होनेके कारण सिद्ध जीव भी सकाय हैं, फिर उन्हें अकाय क्यों कहा ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, सिद्ध जीव अनादिकालीन स्वाभाविक बन्धनसे बद्ध जीव प्रदेशस्वरूप हैं, इसलिये उसकी अपेक्षा यहां कायपना नहीं लिया गया है ।

शंका—अनादिकालीन आत्म-प्रदेशोंके प्रचयको काय क्यों नहीं कहा ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, यहां पर कर्म और नोर्कर्मरूप पर्यायसे परिणत मूर्त पुद्गलोंके सादि और सान्त प्रदेश प्रचयको ही कायरूपसे स्वीकार किया है ।

विशेषार्थ—यद्यपि पांच अस्तिकायोंमें सिद्ध जीवोंका भी ग्रहण हो जाता है । फिर भी यहां पर अनादिकालीन स्वाभाविक बन्धनसे बद्ध जीव-प्रदेशोंके प्रचयरूप कायकी



शब्द एक एवास्तु सूत्रपरिसमाप्त्यर्थत्वात्, न 'च' शब्दस्तस्य फलाभावादिति चेन्न, तस्य कायमार्गणपरिसमाप्तिप्रतिपादनफलत्वात् ।

योगद्वारेण जीवद्रव्यप्रतिपादनार्थमुत्तरसूत्रमाह—

जोगाणुवादेण अत्थि मणजोगी वच्चिजोगी कायजोगी चेदि ॥ ४७ ॥

अत्र 'इति' शब्दः सूत्रसमाप्तिप्रतिपादनफलः । 'च' शब्दश्च त्रय एव योगाः सन्ति नान्ये इति योगसंख्यानियमप्रतिपादनफलः समुच्चयार्थो वा । योगस्य तल्लक्षणं प्राशुक्तमिति नेदानीमुच्यते । मनसा योगो मनोयोगः । अथ स्यान्न द्रव्यमनसा सम्बन्धो मनोयोगः मनोयोगस्य देशोन्नयत्रिंशत्सागरकालस्थितिप्रसङ्गात् । न सक्रियावस्था योगः योगस्याहोरात्रमात्रकालप्रसङ्गात् । न भावमनसा सम्बन्धो मनोयोगः तस्य

अपेक्षा न होकर कर्म और नोर्कर्मके निमित्तसे होनेवाले सादि और सान्त प्रदेशप्रचयरूप कायकी अपेक्षा है । इसलिये इस विचक्षासे सिद्ध जीव अकायिक होते हैं, क्योंकि, उनके कर्म और नोर्कर्मके निमित्तसे होनेवाले प्रदेशप्रचयरूप कायका अभाव हो गया है ।

शंका—सूत्रमें 'इति' यह एक ही शब्द रहा आवे, क्योंकि, उसका फल सूत्रकी परिसमाप्ति है । परंतु 'च' शब्दकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि, प्रकृतमें उसका कोई प्रयोजन नहीं है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, कायमार्गणाकी परिसमाप्तिका प्रतिपादन करना ही यहां पर 'च' शब्दका फल है ।

अब योगमार्गणाके द्वारा जीव द्रव्यके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

योगमार्गणाके अनुवादकी अपेक्षा मनोयोगी, वचनयोगी और काययोगी जीव होते हैं ॥ ४७ ॥

इस सूत्रमें जो 'इति' शब्द आया है । उसका फल सूत्रकी समाप्तिका प्रतिपादन करना है । तथा जो 'च' शब्द दिया है उसका फल, योग तीन ही होते हैं, अधिक नहीं, इस प्रकार योगकी संख्याके नियमका प्रतिपादन करना है । अथवा 'च' शब्द समुच्चयरूप अर्थका प्रतिपादन करनेवाला समझना चाहिये ।

योगका लक्षण पहले कह आये हैं, इसलिये यहां पर नहीं कहते हैं । मनके साथ संबन्ध होनेको मनोयोग कहते हैं ।

शंका—यदि ऐसा है, तो द्रव्यमनसे संबन्ध होनेको तो मनोयोग कह नहीं सकते हैं, क्योंकि, ऐसा मानने पर मनोयोगकी कुछ कम तेतीस सागर प्रमाण स्थितिका प्रसंग प्राप्त हो जायगा । क्रियासहित अवस्थाको भी योग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि, ऐसा मानने पर योगको दिन-रात्रमात्र कालका प्रसंग प्राप्त हो जायगा । अर्थात्, कोई

ज्ञानरूपत्वतः उपयोगान्तर्भावात् इति न त्रितयविकल्पोक्तदोषः, तेषामनभ्युपगमात् । कः पुनः मनोयोग इति चेद्भावमनसः समुत्पत्त्यर्थः प्रयत्नो मनोयोगः । तथा वचसः समुत्पत्त्यर्थः प्रयत्नो वाग्योगः । कायक्रियासमुत्पत्त्यर्थः प्रयत्नः काययोगः । त्रयाणां योगानां प्रवृत्तिक्रमेण उत नेति ? नाक्रमेण, त्रिष्वक्रमेणैकस्यात्मनो योगनिरोधात् । मनोवाक्कायप्रवृत्तयोऽक्रमेण क्वचिद् दृश्यन्त इति चेद्भवतु तासां तथा प्रवृत्तिर्दृष्टत्वात्, न तत्प्रयत्नानामक्रमेण वृत्तिस्तथोपदेशाभावादिति । अथ स्यात्प्रयत्नो हि नाम बुद्धिपूर्वकः, बुद्धिश्च मनोयोगपूर्विका, तथा च सिद्धो मनोयोगः शेषयोगाविनाभावीति न, कार्य-

कोई क्रिया दिन-रात रहती है, इसलिये एक योगकी स्थिति भी अहोरात्र प्रमाण माननी पड़ेगी । किंतु आगममें तो एक योगकी स्थिति एक अन्तर्मुहूर्तसे अधिक नहीं मानी है । अतः क्रियासहित अवस्था भी योग नहीं हो सकता है । इसीप्रकार भावमनके साथ संबन्ध होनेको भी मनोयोग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि, भावमन ज्ञानरूप होनेके कारण उसका उपयोगमें अन्तर्भाव हो जाता है ?

समाधान—इसप्रकार तीनों विकल्पोंके द्वारा दिये गये दोष प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि, उक्त तीनों ही विकल्पोंको स्वीकार नहीं किया है ।

शंका—तो फिर मनोयोगका क्या स्वरूप है ?

समाधान—भावमनकी उत्पत्तिके लिये जो प्रयत्न होता है उसे मनोयोग कहते हैं । उसीप्रकार वचनकी उत्पत्तिके लिये जो प्रयत्न होता है उसे वचनयोग कहते हैं और कायकी क्रियाकी उत्पत्तिके लिये जो प्रयत्न होता है उसे काययोग कहते हैं ।

शंका—तीनों योगोंकी प्रवृत्ति युगपत् होती है या नहीं ?

समाधान—युगपत् नहीं होती है, क्योंकि, एक आत्माके तीनों योगोंकी प्रवृत्ति युगपत् मानने पर योगनिरोधका प्रसंग आजायगा । अर्थात् किसी भी आत्माके योग नहीं बन सकेगा ।

शंका—कहीं पर मन, वचन और कायकी प्रवृत्तियां युगपत् देखी जाती हैं ?

समाधान—यदि देखी जाती हैं, तो उनकी युगपत् वृत्ति होओ । परंतु इससे, मन वचन और कायकी प्रवृत्तिके लिये जो प्रयत्न होते हैं उनकी युगपत् वृत्ति सिद्ध नहीं हो सकती है, क्योंकि, आगममें इसप्रकार उपदेश नहीं मिलता है ।

विशेषार्थ—तीनों योगोंकी प्रवृत्ति एकसाथ हो सकती है, प्रयत्न नहीं ।

शंका—प्रयत्न बुद्धिपूर्वक होता है, और बुद्धि मनोयोगपूर्वक होती है । ऐसी परिस्थितिमें मनोयोग शेष योगोंका अविनाभावी है, यह बात सिद्ध हो जाना चाहिये ? अर्थात् अनेक प्रयत्न एक साथ होते हैं यह बात सिद्ध हो जायगी ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, कार्य और कारण इन दोनोंकी एक कालमें उत्पत्ति नहीं हो सकती है ।

कारणयोरेककाले समुत्पत्तिविरोधात् । तदस्यास्त्यस्मिन्निति इति सति सिद्धं मनोयोगी वाग्योगी काययोगीति ।

योगातीतजीवप्रतिपादनार्थमुत्तरसूत्रमाह—

अजोगी चेदि ॥ ४८ ॥

न योगी अयोगी । उक्तं च—

जेसि ण सन्ति जोगा सुहासुहा पुण्ण-पाव संजणया ।

ते होति अजोइजिणा अणोवमाणंत-वल-कलिया' ॥ १५३ ॥

मनोयोगस्य सामान्यतः एकविधस्य भेदप्रतिपादनार्थमुत्तरसूत्रमाह—

मणजोगो चउव्विहो, सच्चमणजोगो मोसमणजोगो सच्चमोस-  
मणजोगो असच्चमोसमणजोगो चेदि ॥ ४९ ॥

सत्यमवितथममोघमित्यनर्थान्तरम् । सत्ये मनः सत्यमनः तेन योगः सत्यमनो-  
योगः । तद्विपरीतो मोपमनोयोगः । तदुभययोगात्सत्यमोपमनोयोगः । उक्तं च—

वह मनोयोग जिसके या जिस जीवमें होता है उसे मनोयोगी कहते हैं । यहां पर मनोयोग शब्दसे 'इन्' प्रत्यय कर देने पर मनोयोगी शब्द बन जाता है । इसीप्रकार वाग्योगी और काययोगी शब्द भी बन जाते हैं ।

अब योग रहित जीवोंके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

अयोगी जीव होते हैं ॥ ४८ ॥

जिनके योग नहीं पाया जाता है वे अयोगी हैं । कहा भी है—

जिन जीवोंके पुण्य और पापके उत्पादक शुभ और अशुभ योग नहीं पाये जाते हैं वे अनुपम और अनन्त-बल सहित अयोगीजिन कहलाते हैं ॥ १५३ ॥

सामान्यकी अपेक्षा एक प्रकारके मनोयोगके भेदोंके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

मनोयोग चार प्रकारका है, सत्यमनोयोग, मृषामनोयोग सत्यमृषामनोयोग, और असत्यमृषामनोयोग ॥ ४९ ॥

सत्य, अवितथ और अमोघ, ये एकार्थवाची शब्द हैं । सत्यके विषयमें होनेवाले मनको सत्यमन कहते हैं, और उसके द्वारा जो योग होता है उसे सत्यमनोयोग कहते हैं । इससे विपरीत योगको मृषामनोयोग कहते हैं । जो योग सत्य और मृषा इन दोनोंके संयोगसे उत्पन्न होता है उसे सत्यमृषामनोयोग कहते हैं । कहा भी है—

१ गो. जी. २४३. अत्र योगामात्रे सति अयोगिकेत्रत्यादीनां बलाभावः प्रसज्यते अस्मदादिषु बलस्य योगाश्रितत्वदर्शनात्, इत्याशंक्य इदमुच्यते अनुपमानन्तवलकलिताः । जी. प्र. टी.

सद्भावो सच्चमणो जो जोगो तेण सच्चमणजोगो ।

तच्चिवरीदो मोसो जाणुभयं सच्चमोसं ति' ॥ १५४ ॥

ताभ्यां सत्यमोपाभ्यां व्यतिरिक्तोऽसत्यमोपमनोयोगः । तद्व्युत्थयसंयोगजोऽस्तु ? न, तस्य तृतीयभङ्गेऽन्तर्भावात् । क्रोऽपरश्वतुर्थो मनोयोग इति चेदुच्यते । समनस्केषु मनःपूर्विका वचसः प्रवृत्तिः अन्यथानुपलम्भात् । तत्र सत्यवचननिबन्धनमनसा योगः सत्यमनोयोगः । तथा मोपवचननिबन्धनमनसा योगो मोपमनोयोगः । उभयात्मकवचननिबन्धनमनसा योगः सत्यमोपमनोयोगः । त्रिविधवचनव्यतिरिक्तामन्त्रणादिवचननिबन्धनमनसा योगोऽसत्यमोपमनोयोगः । नायमर्थो मुख्यः सकलमनसामव्यापकत्वात् । कः पुनर्निरवद्योऽर्थश्चेद्यथावस्तु प्रवृत्तं मनः सत्यमनः । विपरीतमसत्यमनः ।

सद्भाव अर्थात् सत्यार्थको विषय करनेवाले मनको सत्यमन कहते हैं और उससे जो योग होता है उसे सत्यमनोयोग कहते हैं । इससे विपरीत योगको मृपामनोयोग कहते हैं । उग्ररूप योगको सत्यमृपामनोयोग जानो ॥ १५४ ॥

सत्यमनोयोग और मृपामनोयोगसे व्यतिरिक्त योगको असत्यमृपामनोयोग कहते हैं ।

शंका— तो असत्यमृपामनोयोग ( अनुभय ) उभयसंयोगज रहा आवे ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, उभयसंयोगजका तीसरे भेदमें अन्तर्भाव हो जाता है ।

शंका— तो फिर इनसे भिन्न चौथा अनुभय मनोयोग कौनसा है ?

समाधान— समनस्क जीवोंमें वचनप्रवृत्ति मनपूर्वक देखी जाती है, क्योंकि, मनके बिना उनमें वचनप्रवृत्ति नहीं पाई जाती है । इसलिये उन चारोंमेंसे सत्यवचन-निमित्तक मनके निमित्तसे होनेवाले योगको सत्यमनोयोग कहते हैं । असत्य वचन-निमित्तक मनसे होनेवाले योगको असत्यमनोयोग कहते हैं । सत्य और मृपा इन दोनोंरूप वचन-निमित्तक मनसे होनेवाले योगको उभय मनोयोग कहते हैं । उक्त तीनों प्रकारके वचनोंसे भिन्न आमन्त्रण आदि अनुभयरूप वचन-निमित्तक मनसे होनेवाले योगको अनुभयमनोयोग कहते हैं । फिर भी उक्त प्रकारका कथन मुख्यार्थ नहीं है, क्योंकि, इसकी संपूर्ण मनके साथ व्याप्ति नहीं पाई जाती है । अर्थात् उक्त कथन उपचरित है, क्योंकि, वचनकी सत्यादिकतासे मनमें सत्य आदिका उपचार किया गया है ।

शंका— तो फिर यहां पर निर्दोष अर्थ कौनसा लेना चाहिये ?

१ गो. जी. २१८. सद्भावः सत्यार्थः तद्विषयं मनः सत्यमनः, सत्यार्थज्ञानजननशक्तिरूपं भावमन इत्यर्थः । XX तद्विपरीतः असत्यार्थविषयज्ञानजनितशक्तिरूपभावमनसा जनितप्रयत्नविशेषः मृपा असत्यमनोयोगः । उभयः सत्यमृपार्थज्ञानजननशक्तिरूपभावमनोजनितप्रयत्नविशेषः उभयमनोयोगः । जी. प्र. टी.

द्व्यात्मकमुभयमनः । संशयानध्यवसायज्ञाननिबन्धनमसत्यमोपमन इति । अथवा तद्वचनजननयोग्यतामपेक्ष्य चिरन्तनोऽप्यर्थः समीचीन एव । उक्तं च —

ण य सच्च-मोस-जुत्तो जो दृ मणो सो असच्चमोसमणो ।

जो जोगो तेण हवे असच्चमोसो दृ मणजोगो ॥ १५५ ॥

मनसो भेदमभिधाय साम्प्रतं गुणस्थानेषु तत्स्वरूपनिरूपणार्थमुत्तरसूत्रमाह—

मणजोगो सच्चमणजोगो असच्चमोसमणजोगो सण्णिमिच्छा-  
इट्ठि-प्पहुडि जाव सजोगिकेवलि ति ॥ ५० ॥

मनोयोग इति पञ्चमो मनोयोगः क्व लब्धश्चेन्नैप दोषः, चतसृणां मनोच्यक्तीनां सामान्यस्य पञ्चमत्वोपपत्तेः । किं तत्सामान्यमिति चेन्मनसः ग्राह्यम् । मनसः

समाधान — जहां जिसप्रकारकी वस्तु विद्यमान हो, वहां उसीप्रकारसे प्रवृत्ति करने-वाले मनको सत्यमन कहते हैं । इससे विपरीत मनको असत्यमन कहते हैं । सत्य और असत्य इन दोनोंरूप मनको उभयमन कहते हैं । तथा जो संशय और अनध्यवसायरूप ज्ञानका कारण है उसे अनुभय मन कहते हैं । अथवा मनमें सत्य, असत्य आदि वचनोंको उत्पन्न करनेरूप योग्यता है, उसकी अपेक्षासे सत्यवचनादिके निमित्तसे होनेके कारण जिसे पहले उपचार कह आये हैं वह कथन मुख्य भी है । कहा भी है—

जो मन सत्य और मृपासे युक्त नहीं होता है उसको असत्यमृपामन कहते हैं, और उससे जो योग अर्थात् प्रयत्नविशेष होता है उसे असत्यमृपामनोयोग कहते हैं ॥ १५५ ॥

मनोयोगके भेदोंका कथन करके अब गुणस्थानोंमें उसके स्वरूपका निरूपण करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

सामान्यसे मनोयोग और विशेषरूपसे सत्यमनोयोग तथा असत्यमृपामनोयोग संक्षी मिथ्यादृष्टिसे लेकर सयोगिकेवली पर्यन्त होते हैं ॥ ५० ॥

शंका—चार मनोयोगोंके अतिरिक्त मनोयोग इस नामका पांचवा मनोयोग कहाँसे आया ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, भेदरूप चार प्रकारके मनोयोगोंमें रहनेवाले सामान्य योगके पांचवी संख्या बन जाती है ।

शंका—वह सामान्य क्या है जो चार प्रकारके मनोयोगोंमें पाया जाता है ?

समाधान—यहां पर सामान्यसे मनकी सदृशताका ग्रहण करना चाहिये ।

समुत्पत्तये प्रयत्नो मनोयोगः । पूर्वप्रयोगात् प्रयत्नमन्तरेणापि मनसः प्रवृत्तिर्दृश्यते इति चेद्भवतु, न तेन मनसा योगोऽत्र मनोयोग इति विवक्षितः, तन्निमित्तप्रयत्नसम्बन्धस्य परिस्पन्दरूपस्य विवक्षितत्वात् ।

भवतु केवलिनः सत्यमनोयोगस्य सत्त्वं तत्र वस्तुयाथात्म्यावगतेः सत्त्वात् । नासत्यमोपमनोयोगस्य सत्त्वं तत्र संशयानध्यवसाययोरभावादिति न, संशयानध्यवसाय-निवन्धनवचनहेतुमनसोऽप्यसत्यमोपमनस्त्वमस्तीति तत्र तस्य सत्त्वाविरोधात् । किमिति केवलिनो वचनं संशयानध्यवसायजनकमिति चेत्स्वार्थानन्त्याच्छ्रोतुरावरणक्षयोपशमाति-शयाभावात् । तीर्थकरवचनमनक्षरत्वाद् ध्वनिरूपं तत एव तदेकम् । एकत्वान्न तस्य द्वैविध्यं घटत इति चेन्न, तत्र स्यादित्यादि असत्यमोपवचनसत्त्वतस्तस्य ध्वनेरनक्षरत्वा-

मनकी उत्पत्तिके लिये जो प्रयत्न होता है उसे मनोयोग कहते हैं ।

शंका—पूर्व-प्रयोगसे प्रयत्नके बिना भी मनकी प्रवृत्ति देखी जाती है ?

समाधान—यदि प्रयत्नके बिना भी मनकी प्रवृत्ति होती है तो होने दो, क्योंकि, ऐसे मनसे होनेवाले योगको मनोयोग कहते हैं, यह अर्थ यहां पर विवक्षित नहीं है । किंतु मनके निमित्तसे जो परिस्पन्दरूप प्रयत्नविशेष होता है, वह यहां पर योगरूपसे विवक्षित है ।

शंका—केवली जिनके सत्यमनोयोगका सद्भाव रहा आवे, क्योंकि, वहां पर वस्तुके यथार्थ ज्ञानका सद्भाव पाया जाता है । परंतु उनके असत्यमृषामनोयोगका सद्भाव संभव नहीं है, क्योंकि, वहां पर संशय और अनध्यवसायरूप ज्ञानका अभाव है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, संशय और अनध्यवसायके कारणरूप वचनका कारण मन होनेसे उसमें भी अनुभयरूप धर्म रह सकता है । अतः सयोगी जिनमें अनुभय मनोयोगका सद्भाव स्वीकार कर लेनेमें कोई विरोध नहीं आता है ।

शंका—केवलीके वचन संशय और अनध्यवसायको पैदा करते हैं इसका क्या तात्पर्य है ?

समाधान—केवलीके ज्ञानके विषयभूत पक्षार्थ अनन्त होनेसे और श्रोताके आवरण-कर्मका क्षयोपशम अतिशयरहित होनेसे केवलीके वचनोंके निमित्तसे संशय और अनध्य-वसायकी उत्पत्ति हो सकती है ।

शंका—तीर्थकरके वचन अनक्षररूप होनेके कारण ध्वनिरूप हैं, और इसलिये वे एकरूप हैं, और एकरूप होनेके कारण वे सत्य और अनुभय इसप्रकार दो प्रकारके नहीं हो सकते हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, केवलीके वचनमें 'स्यात्' इत्यादिरूपसे अनुभयरूप वचनका सद्भाव पाया जाता है, इसलिये केवलीकी ध्वनि अनक्षरात्मक है यह बात आसिद्ध है ।

सिद्धेः । साक्षरत्वे च प्रतिनियतैकभापात्मकमेव तद्वचनं नाशेषभापारूपं भवेदिति चेन्न, क्रमविशिष्टवर्णात्मकभूयःपङ्क्तिदम्बकस्य प्रतिप्राणिप्रवृत्तस्य ध्वनेरशेषभापारूपत्वाविरोधात् । तथा च कथं तस्य ध्वनित्वमिति चेन्न, एतद्भापारूपमेवेति निर्देष्टुमशक्यत्वतः तस्य ध्वनित्वसिद्धेः<sup>१</sup> । अतीन्द्रियज्ञानत्वान्न केवलिनो मन इति चेन्न, द्रव्यमनसः सत्त्वात् । भवतु द्रव्यमनसः सत्त्वं न तत्कार्यमिति चेद्भवतु तत्कार्यस्य क्षायोपशमिकज्ञानस्याभावः, अपि तु तदुत्पादने प्रयत्नोऽस्त्येव तस्य प्रतिबन्धकत्वाभावात् । तेनात्मनो

शंका—केवलीकी ध्वनिको साक्षर मान लेने पर उनके वचन प्रतिनियत एक भापारूप ही होंगे, अशेष भापारूप नहीं हो सकेंगे ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, क्रमविशिष्ट, वर्णात्मक, अनेक पंक्तियोंके समुच्चयरूप और सर्व श्रोताओंमें प्रवृत्त होनेवाली ऐसी केवलीकी ध्वनि संपूर्ण भापारूप होती है ऐसा मान लेनेमें कोई विरोध नहीं आता है ।

शंका—जब कि वह अनेक भापारूप है तो उसे ध्वनिरूप कैसे माना जा सकता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, केवलीके वचन इसी भापारूप ही हैं, ऐसा निर्देश नहीं किया जा सकता है, इसलिये उनके वचन ध्वनिरूप हैं यह बात सिद्ध हो जाती है ।

शंका—केवलीके अतीन्द्रिय ज्ञान होता है, इसलिये उनके मन नहीं पाया जाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, उनके द्रव्यमनका सद्भाव पाया जाता है ।

शंका—केवलीके द्रव्यमनका सद्भाव रहा आवे, परंतु वहां पर उसका कार्य नहीं पाया जाता है ?

समाधान—द्रव्यमनके कार्यरूप उपयोगात्मक क्षायोपशमिक ज्ञानका अभाव भले ही रहा आवे, परंतु द्रव्यमनके उत्पन्न करनेमें प्रयत्न तो पाया ही जाता है, क्योंकि, द्रव्यमनकी वर्गणाओंके लानेके लिये होनेवाले प्रयत्नमें कोई प्रतिबन्धक कारण नहीं पाया जाता है । इसलिये यह सिद्ध हुआ कि उस मनके निमित्तसे जो आत्माका परिस्पन्दरूप प्रयत्न होता है उसे मनोयोग कहते हैं ।

१ वयणेण विणा अत्थपट्टपायणं ण संभवइ, सुहुमत्थाणं सण्णाए परवणाणुववत्तीदी । ण चाणए ( चाणखराए ? ) इणीए अत्थपट्टपायणं जुज्जदे, अणवखरभासातिरिखे मोत्तूण अण्णेसिं तत्तो अत्थावगमामावादी । ण च दिव्वज्जणी अणवखरपिया चैव, अट्टारससत्तसयमासकुमासप्पियत्तादी । धवला अ. पृ. ६९३. सूत्रपौरुपीपु भगवत्तस्तीर्थकरस्य तात्वोष्ठपुटविचलनमंतरेण सकलभापास्वरूपदिव्यध्वनिधर्मकथनविधानं X X कथ्यते । धवला. अ. पृ. ७०६. सा त्रि य णं भगवओ अद्भमागहा भासा भासिज्जमाणी तेसिं सव्वेसिं आयरियमणायरियाणं दुपयचउपपयमियपसुपविखसिरीसिवाणं अप्पणो भासत्ताए परिणमइ । सम. सू. ३४. अष्टादशमहाभापासप्तशत-शुद्धकभापासंज्ञक्षरानक्षरभापात्मकत्यक्ततालुदंतोष्ठकठव्यापारभव्यजनानन्दकयुगपत्सर्वोत्तरप्रतिपादकदिव्यध्वन्युपेतः । गो. जी., जां. प्र., टी. १. XX सारयनवत्थणियमहुरंगमीरकोंचणिग्घोसदुंदुमिस्सरे उरे वित्थडाए कंठेऽवट्टियाए सिरे समाइण्णाए पुण्णरत्ताए सव्वभासाण्णामिणीए सरस्सहए जीयणीहारिणा संरेणं अद्भमागहाए भासाए भासति अरिहा.

योगः मनोयोगः । विद्यमानोऽपि तदुत्पादने प्रयत्नः किमिति स्वकार्यं न विदध्यादिति चेन्न, तत्सहकारिकारणक्षयोपशमाभावात् । असतो मनसः कथं वचनद्वितयसमुत्पत्तिरिति चेन्न, उपचारतस्तयोस्ततः समुत्पत्तिविधानात् ।

शेषमनसोर्गुणस्थानप्रतिपादनार्थमुत्तरसूत्रमाह —

मोसमणजोगो सच्चमोसमणजोगो सण्णिमिच्छाइट्ठिप्पहुडि-  
जाव खीण-कसाय-वीयराय-छुदुमत्था ति ॥ ५१ ॥

भवतु नाम क्षपकोपशमकानां सत्यस्यासत्यमोपस्य च सच्चं नेतरयोरप्रमादस्य

शंका— केवलीके द्रव्यमनको उत्पन्न करनेमें प्रयत्न विद्यमान रहते हुए भी वह अपने कार्यको क्यों नहीं करता है ।

समाधान— नहीं, क्योंकि, केवलीके मानसिक ज्ञानके सहकारी कारणरूप क्षयोपशमका अभाव है, इसलिये उनके मनोनिमित्तक ज्ञान नहीं होता है ।

शंका— जब कि केवलीके यथार्थमें अर्थात् क्षायोपशमिक मन नहीं पाया जाता है, तो उससे सत्य और अनुभय इन दो प्रकारकी वचनोंकी उत्पत्ति कैसे हो सकती है ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, उपचारसे मनके द्वारा उन दोनों प्रकारके वचनोंकी उत्पत्तिका विधान किया गया है ।

अब शेष दो मनोयोगोंके गुणस्थानोंके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

असत्यमनोयोग और उभयमनोयोग संज्ञा मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे लेकर क्षीणकपाय-वीतराग-छद्मस्थ गुणस्थानतक पाये जाते हैं ॥ ५१ ॥

शंका— क्षपक और उपशमक जीवोंके सत्यमनोयोग और अनुभयमनोयोगका सद्भाव

धम्मं परिकहेइ । XX सा वि य णं अद्धमागहा भासा तेसिं सच्चैसिं आरियमणारियाणं अप्पणा भासाए परिणामेणं परिणमइ । औप सू. ३४. व्याप्रोत्यायोजनं वाणी सर्वभापातुगा प्रमोः ॥ तथाहुः श्री हेमसूरयः काव्यानुशासने, अकृत्रिमस्वादुपदां परमार्थमिधायिनीम् । सर्वभापापरिणतां जैर्नां वाचमुपास्महे ॥ देवा देवीं नरा नारीं शबराश्चापि क्षाधरीम् । तिर्यन्त्रोऽपि च तैरश्रीं मेनिरे भगवद्गिरम् ॥ यथा जलधरस्याम्भ आश्रयाणां विशेषतः । नानारसं भवत्येवं वाणी भगवतामपि ॥ स्यात्प्रमोर्मूलभावा च स्वभावादर्थमागधी । स्यातां द्वे लक्षणे ह्यस्यां मागभ्याः प्राकृतस्य च ॥ येनकेनैव वचसा भूयसामपि संशयाः । लिखन्ते वक्ति तत्सारो ज्ञाताशेषवचोविधिः ॥ क्रमच्छेदे संशयानामसंख्यत्वा-द्वपुनमताम् । असंख्येनापि कालेन भवेत् कथमनुग्रहः ॥ शब्दशक्तेर्विचित्रत्वात् सन्तीदंशि वचांसि च । प्रयुक्तेरुत्तरं यत्स्याद्युगपद्भयसामपि ॥ सरःशरस्वरार्थेन मिष्टेन युगपद्यथा । ' सरो नत्थि ' ति वाक्येन प्रियास्तिस्त्रोऽपि बोधिताः ॥ लो. प्र. ३०; ६३४-६४२. सर्वार्थमागधीया भाषा भवति, कोऽर्थः ? अर्थः भगवद्भाषाया मगधदेशभाषात्मकं, अर्थं च सर्वभाषात्मकं । कथमेव देवोपनीतत्वं तदतिशयस्येति चेत् ? मगधदेशसन्निधाने तथापरिणतया भाषया संस्कृतभाषया भवति । पट्टमा. ४. ३२. ( सं. टी. )



प्रमादविरोधित्वादिति न, रजोजुपां विपर्ययानध्यवसायाज्ञानकारणमनसः सत्त्वा-  
विरोधात् । न च तद्योगात्प्रमादिनस्ते प्रमादस्य मोहपर्यायत्वात् ।

वाग्योगभेदप्रतिपादनार्थमुत्तरसूत्रमाह—

वचिजोगो चउव्विहो सच्चवचिजोगो मोसवचिजोगो सच्चमोस-  
वचिजोगो असच्चमोसवचिजोगो चेदि ॥ ५२ ॥

चतुर्विधमनोभ्यः समुत्पन्नवचनानि चतुर्विधान्यपि तद्व्यपदेशं प्रतिलभन्ते  
तथा प्रतीयते च । उक्तं च—

दसविह-सच्चे वयणे जो जोगो सो दु सच्चवचिजोगो ।

तव्विवरीदो मोसो जाणुभयं सच्चमोसं ति' ॥ १५६ ॥

जो णेव सच्च-मोसो तं जाण असच्चमोसवचिजोगो ।

अमणाणं जा भासा सणीणामंतगीयादी' ॥ १५७ ॥

रहा आवे, परंतु वाकीके दो अर्थात् असत्यमनोयोग और उभयमनोयोगका सद्भाव नहीं हो  
सकता है, क्योंकि, इन दोनोंमें रहनेवाला अप्रमाद असत्य और उभय मनके कारणभूत  
प्रमादका विरोधी है? अर्थात् क्षपक और उपशमक प्रमादरहित होते हैं, इसलिये उनके  
असत्यमनोयोग और उभयमनोयोग नहीं पाये जा सकते हैं?

समाधान — नहीं, क्योंकि, आवरणकर्मसे युक्त जीवोंके विपर्यय और अनध्यवसायरूप  
अज्ञानके कारणभूत मनके सद्भाव मान लेनेमें कोई विरोध नहीं आता है। परंतु इसके  
संबन्धसे क्षपक या उपशमक जीव प्रमत्त नहीं माने जा सकते हैं, क्योंकि, प्रमाद मोहकी  
पर्याय है।

अब वचनयोगके भेदोंके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

वचनयोग चार प्रकारका है, सत्यवचनयोग, असत्यवचनयोग, उभयवचनयोग, और  
अनुभयवचनयोग ॥ ५२ ॥

चार प्रकारके मनसे उत्पन्न हुए चार प्रकारके वचन भी उन्हीं संज्ञाओंको प्राप्त होते  
हैं और ऐसी प्रतीति भी होती है। कहा भी है—

दश प्रकारके सत्यवचनमें वचनवर्गणाके निमित्तसे जो योग होता है उसे सत्यवचन-  
योग कहते हैं। उससे विपरीत योगको मृपावचनयोग कहते हैं। सत्यमृपारूप वचन  
योगको उभयवचनयोग कहते हैं ॥ १५६ ॥

जो न तो सत्य रूप है और न मृपारूप ही है वह असत्यमृपावचनयोग है। असंज्ञी

वचसो भेदमभिधाय गुणस्थानेषु तत्सत्त्वप्रतिपादनार्थमुत्तरसूत्रमाह—

वचिजोगो असत्त्वमोसवचिजोगो बीइंदिय-प्पहुडि जाव  
सजोगिकेवलि ति ॥ ५३ ॥

असत्यमोपमनोनिवन्धनवचनमसत्यमोपवचनमिति प्रागुक्तम्, तद् द्वीन्द्रियादीनां मनोरहितानां कथं भवेदिति नायमेकान्तोऽस्ति सकलवचनानि मनस एव समुत्पद्यन्त इति मनोरहितकेवलानां वचनाभावसंजननात् । विकलेन्द्रियाणां मनसा विना न ज्ञानसमुत्पत्तिः । ज्ञानेन विना न वचनप्रवृत्तिरिति चेन्न, मनस एव ज्ञानमुत्पद्यत इत्येकान्ताभावात् । भावे वा नाशेपेन्द्रियेभ्यो ज्ञानसमुत्पत्तिः मनसः समुत्पन्नत्वात् । नैतदपि दृष्टश्रुतानुभूतविषयस्य मानसप्रत्ययस्यान्यत्र वृत्तिविरोधात् । न चक्षुरादीनां सहकार्यपि प्रयत्नात्मसहकारिभ्यः इन्द्रियेभ्यस्तदुत्पत्त्युपलम्भात् । समनस्केषु ज्ञानस्य प्रादुर्भावो मनोयोगादेवेति चेन्न,

जीवोंकी भाषा और संज्ञा जीवोंकी आमन्त्रणी आदि भाषाएं इसके उदाहरण हैं ॥ १५७ ॥

इसप्रकार वचनयोगके भेद कहकर अब गुणस्थानोंमें उसके सत्त्वके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

सामान्यसे वचनयोग और विशेषरूपसे अनुभयवचनयोग द्वीन्द्रिय जीवोंसे लेकर सयोगिकेवली गुणस्थानतक होता है ॥ ५३ ॥

शंका—अनुभयरूप मनके निमित्तसे जो वचन उत्पन्न होते हैं उन्हें अनुभयवचन कहते हैं, यह बात पहले कही जा चुकी है । ऐसी हालतमें मनरहित द्वीन्द्रियादिक जीवोंके अनुभयवचन कैसे हो सकते हैं ?

समाधान—यह कोई एकांत नहीं है कि संपूर्ण वचन मनसे ही उत्पन्न होते हैं । यदि संपूर्ण वचनोंकी उत्पत्ति मनसे ही मान ली जावे तो मनरहित केवलियोंके वचनोंका अभाव प्राप्त हो जायगा ।

शंका—विकलेन्द्रिय जीवोंके मनके विना ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है और ज्ञानके विना वचनोंकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती है ?

समाधान—ऐसा नहीं है, क्योंकि, मनसे ही ज्ञानकी उत्पत्ति होती है यह कोई एकांत नहीं है । यदि मनसे ही ज्ञानकी उत्पत्ति होती है यह एकांत मान लिया जाता है, तो संपूर्ण इन्द्रियोंसे ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं हो सकेगी, क्योंकि, संपूर्ण ज्ञानकी उत्पत्ति मनसे मानते हो । अथवा, मनसे समुत्पन्नत्वरूप धर्म इन्द्रियोंमें रह भी तो नहीं हो सकता है, क्योंकि, दृष्ट, श्रुत और अनुभूतको विषय करनेवाले मानसज्ञानका दूसरी जगह सद्भाव माननेमें विरोध आता है । यदि मनको चक्षु आदि इन्द्रियोंका सहकारी कारण माना जावे सो भी नहीं बनता है, क्योंकि, प्रयत्न और आत्माके सहकारकी अपेक्षा रखनेवाली इन्द्रियोंसे इन्द्रियज्ञानकी उत्पत्ति पाई जाती है ।

शंका—समनस्क जीवोंमें तो ज्ञानकी उत्पत्ति मनोयोगसे ही होती है ?

केवलज्ञानेन व्यभिचारात् । समनस्कानां यत्क्षायोपशमिकं ज्ञानं तन्मनोयोगात्स्यादिति चेन्न, इष्टत्वात् । मनोयोगाद्ब्रह्मचनमुत्पद्यत इति प्रागुक्तं तत्कथं घटत इति चेन्न, उपचारेण तत्र मानसस्य ज्ञानस्य मन इति संज्ञां विधायोक्तत्वात् । कथं विकलेन्द्रियवचसोऽसत्यमोपत्वमिति चेदनध्यवसायहेतुत्वात् । ध्वनिविषयोऽध्यवसायः समुपलभ्यत इति चेन्न, वक्तुरभिप्रायविषयाध्यवसायाभावस्य विवक्षितत्वात् ।

सत्यवचसो गुणनिरूपणार्थमुत्तरसूत्रमाह—

सत्त्ववचिजोगो सण्णिमिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव सजोगि-  
केवलि ति ॥ ५४ ॥

दशविधानामपि सत्यानामेतेषु गुणस्थानेषु सत्त्वस्य विरोधासिद्धेः तत्र भवन्ति

समाधान— नहीं, क्योंकि, ऐसा मानने पर केवलज्ञानसे व्यभिचार आता है ।

शंका— तो फिर ऐसा माना जाय कि समनस्क जीवोंके जो क्षायोपशमिक ज्ञान होता है वह मनोयोगसे होता है ?

समाधान— यह कोई शंका नहीं, क्योंकि, यह तो इष्ट ही है ।

शंका— मनोयोगसे वचन उत्पन्न होते हैं, यह जो पहले कहा जा चुका है वह कैसे घटित होगा ?

समाधान— यह शंका कोई दोषजनक नहीं है, क्योंकि, 'मनोयोगसे वचन उत्पन्न होते हैं' यहां पर मानस ज्ञानकी 'मन' यह संज्ञा उपचारसे रखकर कथन किया है ।

शंका— विकलेन्द्रियोंके वचनोंमें अनुभयपना कैसे आ सकता है ?

समाधान— विकलेन्द्रियोंके वचन अनध्यवसायरूप ज्ञानके कारण हैं, इसलिये उन्हें अनुभयरूप कहा है ।

शंका— उनके वचनोंमें ध्वनिविषयक अध्यवसाय अर्थात् निश्चय तो पाया जाता है, फिर उन्हें अनध्यवसायका कारण क्यों कहा जाय ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, यहां पर अनध्यवसायसे वक्ताका अभिप्रायविषयक अध्यवसायका अभाव विवक्षित है ।

अब सत्यवचनयोगका गुणस्थानोंमें निरूपण करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

सत्यवचनयोग संज्ञी मिथ्यादृष्टीसे लेकर सयोगिकेवली गुणस्थानतक होता है ॥ ५४ ॥

दशों ही प्रकारके सत्यवचनोंके सूत्रोक्त तेरह गुणस्थानोंमें पाये जानेमें कोई विरोध

१ जणपदसम्मदिठवणाणामे रुवे पडुच्च ववहारे । संभावेणे य भावे उवमाणे दसविहं सच्चं ॥ सत्तं देव्री चंदप्पहपडिमा तह य होदि जिणदत्तो । सेदो दिग्धो रञ्जादि कुरो ति यजं हवे वयणं ॥ गो. जी. २२२, २२३.

दशापि सत्यानीति ।

शेषवचसोः गुणस्थाननिरूपणार्थमुत्तरसूत्रमाह—

मोसवचिजोगो सच्चमोसवचिजोगो सण्णिमिच्छाइट्टि-प्पहुडि  
जाव खीण-कसाय-वीयराय-उदुमत्था ति ॥ ५५ ॥

क्षीणकपायस्य वचनं कथमसत्यमिति चेन्न, असत्यनिवन्धनाज्ञानसत्त्वापेक्षया तत्र तत्त्वप्रतिपादनात् । तत एव नोभयसंयोगोऽपि विरुद्ध इति । वाच्यमस्य क्षीणकपायस्य कथं वाग्योगश्चेन्न, तत्रान्तर्जल्पस्य सत्त्वाविरोधात् ।

काययोगसंख्याप्रतिपादनार्थमुत्तरसूत्रमाह—

कायजोगो सत्तविहो ओरालियकायजोगो ओरालियमिस्सकाय-  
जोगो वेउव्वियकायजोगो वेउव्वियमिस्सकायजोगो आहारकायजोगो  
आहारमिस्सकायजोगो कम्मइयकायजोगो चेदि ॥ ५६ ॥

औदारिकशरीरजनितवीर्याजीवप्रदेशपरिस्पन्दनिवन्धनप्रयत्नः औदारिककाययोगः ।

नहीं आता है, इसलिये उनमें दशों प्रकारके सत्यवचन होते हैं ।

शेष वचनयोगोंके गुणस्थानोंमें निरूपण करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

मृपावचनयोग और सत्यमृपावचनयोग संज्ञी मिथ्यादाष्टिसे लेकर क्षीणकपाय-वतिराग-  
उद्वस्य गुणस्थानतक पाये जाते हैं ॥ ५५ ॥

शंका—जिसकी कपायें क्षीण हो गई हैं ऐसे जीवके वचन असत्य कैसे हो सकते हैं ?

समाधान—पेसी शंका व्यर्थ है, क्योंकि, असत्यवचनका कारण अज्ञान वारहवें गुणस्थानतक पाया जाता है, इस अपेक्षासे वहां पर असत्यवचनके सद्भावका प्रतिपादन किया है । और इसीलिये उभयसंयोगज सत्यमृपावचन भी वारहवें गुणस्थानतक होता है, इस कथनमें कोई विरोध नहीं आता है ।

शंका—वचनगुप्तिका पूरी तरहसे पालन करनेवाले कपायरहित जीवोंके वचनयोग कैसे संभव है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, कपायरहित जीवोंमें अन्तर्जल्पके पाये जानेमें कोई विरोध नहीं आता है ।

अब काययोगकी संख्याके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

काययोग सात प्रकारका है, औदारिककाययोग, औदारिकमिश्रकाययोग, वैक्रियक-  
काययोग, वैक्रियकमिश्रकाययोग, आहारककाययोग, आहारकमिश्रकाययोग और कार्मणकाय-  
योग ॥ ५६ ॥

औदारिक शरीरद्वारा ( औदारिक वर्गणाओंसे ) उत्पन्न हुई शक्तिसे जीवके प्रदेशोंमें

कार्मणौदारिकस्कन्धाभ्यां जनितवीर्यात्तत्परिस्पन्दनार्थः प्रयत्नः औदारिकमिश्रकाययोगः ।  
 उदारः पुरुः महानित्यर्थः, तत्र भवं शरीरमौदारिकम् । अथ स्वान्न महन्वमौदारिक-  
 शरीरस्य ? कथमेतदवगम्यते ? वर्गणासूत्रात् । किं तद्वर्गणासूत्रमिति चेदुच्यते 'सव्यत्थोवा  
 ओरालिय-सरीर-द्व-वर्गणा-पदेसा, वेउव्विय-सरीर-द्व-वर्गणा-पदेसा असंखेज्जगुणा,  
 आहार-सरीर-द्व-वर्गणा-पदेसा असंखेज्जगुणा, तेया-सरीर-द्व-वर्गणा-पदेसा अणंतगुणा,  
 भासा-द्व-वर्गणा-पदेसा अणंतगुणा, मण-द्व-वर्गणा-पदेसा अणंतगुणा, कम्मइय-सरीर-  
 द्व-वर्गणा-पदेसा अणंतगुणा त्ति ।' न, अवगाहनापेक्षया औदारिकशरीरस्य महन्वोपपत्तः ।  
 यथा 'सव्यत्थोवा कम्मइय-सरीर-द्व-वर्गणाए ओगाहणा, मण-द्व-वर्गणाए ओगाहणा  
 असंखेज्जगुणा, भासा-द्व-वर्गणाए ओगाहणा असंखेज्जगुणा, तेया-सरीर-द्व-वर्गणाए  
 ओगाहणा असंखेज्जगुणा, आहार-सरीर-द्व-वर्गणाए ओगाहणा असंखेज्जगुणा,  
 वेउव्विय-सरीर-द्व-वर्गणाए ओगाहणा असंखेज्जगुणा, ओरालिय-सरीर-द्व-वर्गणाए

परिस्पन्दका कारणभूत जो प्रयत्न होता है उसे औदारिककाययोग कहते हैं । कार्मण और  
 औदारिक वर्गणाओंके द्वारा उत्पन्न हुए वीर्यसे जीवके प्रदेशोंमें परिस्पन्दके लिये जो प्रयत्न  
 होता है उसे औदारिकमिश्रकाययोग कहते हैं । उदार, पुरु और महान् ये एक ही अर्थके  
 वाचक शब्द हैं । उसमें जो शरीर उत्पन्न होता है उसे औदारिकशरीर कहते हैं ।

शंका—औदारिक शरीर महान् है, यह बात नहीं बनती है ?

प्रतिशंका—यह कैसे जाना ?

शंकाका समर्थन—वर्गणासूत्रसे यह बात मालूम पड़ती है ।

प्रतिशंका—वह वर्गणासूत्र कौनसा है ?

शंकाका समर्थन—जिससे औदारिक शरीरकी महानता सिद्ध नहीं होती है वह  
 वर्गणासूत्र इसप्रकार है, 'औदारिकशरीरद्रव्यसंबन्धी वर्गणाओंके प्रदेश सबसे थोड़े हैं ।  
 उससे असंख्यातगुणे वैक्रियकशरीरद्रव्यसंबन्धी वर्गणाके प्रदेश हैं । उससे असंख्यातगुणे  
 आहारकशरीरद्रव्यसंबन्धी वर्गणाके प्रदेश हैं । उससे अनन्तगुणे तैजसशरीरद्रव्यसंबन्धी  
 वर्गणाके प्रदेश हैं । उससे अनन्तगुणे भापाद्रव्यवर्गणाके प्रदेश हैं । उससे अनन्तगुणे  
 मनोद्रव्यवर्गणाके प्रदेश हैं, और उससे अनन्तगुणे कार्मणशरीरद्रव्यवर्गणाके प्रदेश हैं' ।

समाधान—प्रकृतमें पेसा नहीं है, क्योंकि, अवगाहनाकी अपेक्षा औदारिक शरीरकी  
 स्थूलता बन जाती है । जैसे कि कहा भी है—

'कार्मणशरीरसंबन्धी द्रव्य-वर्गणाकी अवगाहना सबसे सूक्ष्म है । मनोद्रव्य-  
 वर्गणाकी अवगाहना इससे असंख्यातगुणी है । भापाद्रव्यवर्गणाकी अवगाहना इससे असं-  
 ख्यातगुणी है । तैजसशरीरसंबन्धी द्रव्य-वर्गणाकी अवगाहना इससे असंख्यातगुणी है ।  
 आहारशरीरसंबन्धी द्रव्य-वर्गणाकी अवगाहना इससे असंख्यातगुणी है । वैक्रियकशरीर-  
 संबन्धी द्रव्य-वर्गणाकी अवगाहना इससे असंख्यातगुणी है । औदारिकशरीरसंबन्धी

ओगाहणा असंखेज्जगुणा त्ति ।' उक्तं च—

पुरु महमुदारुरालं एयद्धो तं त्रियाण तग्धि भवं ।

ओरालियं ति वुत्तं ओरालियकायजोगो सो' ॥ १६० ॥

ओरालियमुत्तत्थं विजाण मिस्सं च अपरिपुणं ति ।

जो तेण संजोगो ओरालियमिस्सको जोगो' ॥ १६१ ॥

अणिमादिर्विक्रिया, तद्योगात्पुद्गलाश्च विक्रियेति भण्यन्ते । तत्र भवं शरीरं वैक्रियकम् । तद्वष्टम्भतः समुत्पन्नपरिस्पन्देन योगः वैक्रियककाययोगः । कर्मण-वैक्रियकस्कन्धतः समुत्पन्नवीर्येण योगः वैक्रियकमिश्रकाययोगः । उक्तं च—

विधिह-गुण-इद्धि-जुत्तं वेउन्नियमहव विकिरिया चेव ।

तिस्से भवं च पेयं वेउन्नियकायजोगो सो' ॥ १६२ ॥

द्रव्य-वर्गणाकी अवगाहना इससे असंख्यातगुणी है । कहा भी है—

पुरु, महत्, उदार और उराल, ये शब्द एकार्थवाचक हैं । उदारमें जो होता है उसे औदारिक कहते हैं, और उसके निमित्तसे होनेवाले योगको औदारिककाययोग कहते हैं ॥१६०॥

औदारिकका अर्थ ऊपर कह आये हैं । वही शरीर जबतक पूर्ण नहीं होता है तबतक मिश्र कहलाता है, और उसके द्वारा होनेवाले संप्रयोगको औदारिकमिश्रकाययोग कहते हैं ॥१६१॥

अणिमा, महिमा आदि ऋद्धियोंको विक्रिया कहते हैं । उन ऋद्धियोंके संपर्कसे पुद्गल भी 'विक्रिया' इस नामसे कहे जाते हैं । उसमें जो शरीर उत्पन्न होता है उसे वैक्रियकशरीर कहते हैं । उस शरीरके अवलम्बनसे उत्पन्न हुए परिस्पन्दद्वारा जो प्रयत्न होता है उसे वैक्रियककाययोग कहते हैं । कर्मण और वैक्रियक वर्गणाओंके निमित्तसे उत्पन्न हुई शक्तिसे जो परिस्पन्दके लिये प्रयत्न होता है उसे वैक्रियकमिश्रकाययोग कहते हैं । कहा भी है—

नाना प्रकारके गुण और ऋद्धियोंसे युक्त शरीरको वैगूर्विक अथवा वैक्रियक शरीर

१ गो. जी. २३०. सूक्ष्मपृथिव्यप्तेजोवायुसाधारणशरीराणां स्थूलत्वाभावात् कथमौदारिकत्वं ? इति चेत्तत्र, ततः सूक्ष्मतरवैक्रियकादिशरीरापेक्षया तेषां महत्त्वेन परमागमरूढ्या वा औदारिकत्वसंभवान् । सं. प्र. टी.

२ गो. जी. २३१. प्रागुक्तलक्षणमौदारिकशरीरं तदेवान्तर्गृह्यते पर्यन्तमपूर्णं अपर्याप्तं तावन्मिश्रमित्युच्यते अपर्याप्तकालसंबन्धिसमयत्रयसंबन्धिविकर्मणकाययोगाच्छुद्धकर्मणवर्गणासंयुक्तत्वेन परमागमरूढ्या वा अपर्याप्तं अपर्याप्त-शरीरमिश्रमित्यर्थः । जी. प्र. टी. । तत्रौदारिकादयः शुद्धाः सुबोधाः । औदारिकमिश्रस्तु औदारिक एवापरिपूर्णो मिश्र उच्यते, यथा गुडमिश्रं दधि न गुडतया नापि दधितया व्यपदिश्यते तत्ताभ्यामपरिपूर्णत्वात् । एवमौदारिकं मिश्रं कर्मणेन । नौदारिकतया नापि कर्मणतया व्यपदेशं शक्यम् अपरिपूर्णत्वादिति तस्यौदारिकमिश्रव्यपदेशः । एवं वैक्रियकाहारकमिश्रावपीति शतकटीकालेशः । प्रज्ञापनाव्याख्यानांशरुवेवम्, औदारिकाद्या शुद्धास्तपर्याप्तकस्य मिश्रास्तपर्याप्तकस्येति । स्था. सू. पृ. १०१.

३ गो. जी. २३२.

वेडव्वियमुत्तथं विजाण मिस्सं च अपरिपुण्णं ति ।

जो तेण संपजोगो वेडव्वियमिस्सजोगो सो' ॥ १६३ ॥

आहरति आत्मसात्करोति सूक्ष्मानर्थाननेनेति आहारः । तेन आहारकायेन योगः आहारकाययोगः । कथमौदारिकस्कन्धसम्बद्धानां जीवावयवानां अन्यशरीरेण हस्तमात्रेण शङ्खधवलेन शुभसंस्थानेन योग इति चेन्नैप दोषः, अनादिवन्धनवद्भत्वतो मूर्तानां जीवावयवानां मूर्तेण शरीरेण सम्बन्धं प्रति विरोधासिद्धेः । तत एव न पुनः सङ्घटनमपि विरोधमास्कन्देत् । अथ स्याज्जीवस्य शरीरेण सम्बन्धकृदायुस्तयोर्वियोगो मरणम् । न च गलितायुषस्तस्मिन् शरीरे पुनरुत्पत्तिर्विरोधात् । ततो न तस्यौदारिक-शरीरेण पुनः सङ्घटनमिति ।

अत्र प्रतिविधीयते, न तावज्जीवशरीरयोर्वियोगो मरणं तयोः संयोगस्योत्पत्ति-

कहते हैं । और इसके द्वारा होनेवाले योगको वैगूर्विककाययोग कहते हैं ॥ १६२ ॥

वैगूर्विकका अर्थ पहले कह ही चुके हैं । वही शरीर जबतक पूर्ण नहीं होता है तबतक मिश्र कहलाता है । और उसके द्वारा जो संप्रयोग होता है उसे वैगूर्विकमिश्रकाययोग कहते हैं ॥ १६३ ॥

जिसके द्वारा आत्मा सूक्ष्म पदार्थोंको ग्रहण करता है, अर्थात् आत्मसात् करता है उसे आहारकशरीर कहते हैं । और उस आहारकशरीरसे जो योग होता है उसे आहारक-काययोग कहते हैं ।

शंका—औदारिकस्कन्धोंसे संबन्ध रखनेवाले जीवप्रदेशोंका हस्तप्रमाण, शंखके समान धवल वर्णवाले, और शुभ अर्थात् समचतुरस्र संस्थानसे युक्त अन्य शरीरके साथ कैसे संबन्ध हो सकता है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, जीवके प्रदेश अनादिकालीन बन्धनसे बद्ध होनेके कारण मूर्त हैं, अतएव उनका मूर्त आहारकशरीरके साथ संबन्ध होनेमें कोई विरोध नहीं आता है । और इसीलिये उनका फिरसे औदारिक शरीरके साथ संघटनका होना भी विरोधको प्राप्त नहीं होता है ।

शंका—जीवका शरीरके साथ संबन्ध करनेवाला आयुर्कर्म है, और जीव तथा शरीरका परस्परमें वियोग होना मरण है । इसलिये जिसकी आयु नष्ट हो गई है ऐसे जीवकी फिरसे उसी शरीरमें उत्पत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि, ऐसा माननेमें विरोध आता है । अतः जीवका औदारिक शरीरके साथ पुनः संघटन नहीं बन सकता है । अर्थात् एकवार जीवप्रदेशोंका आहारक शरीरके साथ संबन्ध हो जानेके पश्चात् पुनः उन प्रदेशोंका पूर्व औदारिक शरीरके साथ संबन्ध नहीं हो सकता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, आगममें जीव और शरीरके वियोगको मरण नहीं

प्रसङ्गात् । अस्तु चेन्न, पूर्वयुषामुदयप्राप्तोत्तरभवसम्बन्ध्यायुःकर्मणां तत्परित्यक्तानुपात्त-  
पूर्वोत्तरशरीराणामपि जीवानामुत्पत्त्युपलम्भात् । भवतु तथोत्पत्तिर्भरणं पुनर्जीवशरीर-  
वियोग एवेति चेदस्तु सर्वात्मना तयोर्वियोगो मरणं नैकदेशेन आगलादप्युपसंहृत-  
जीवावयवानां मरणानुपलम्भात् जीविताच्छिन्नहस्तेन व्यभिचाराच्च । न पुनरस्यार्थः  
सर्वावयवैः पूर्वशरीरपरित्यागः समस्ति येनास्य मरणं जायेत । न चैतच्छरीरं गच्छत्पूर्व-  
तादिना प्रतिहन्यते शस्त्रैश्छिद्यतेऽग्निना दहते वा सूक्ष्मत्वाद्वैक्रियकशरीरवत् । आहार-  
कर्मणस्क्रन्धतः समुत्पन्नवीर्येण योगः आहारमिश्रकाययोगः । उक्तं च—

कहा है । अन्यथा उनके संयोगको उत्पात्ति मानना पड़ेगा ।

शंका— जीव और शरीरका संयोग उत्पात्ति रहा आवे, इसमें क्या हानि है ?

समाधान— ऐसा नहीं है, क्योंकि, पूर्वभवमें ग्रहण किये हुए आयुकर्मके उदय होने पर जिन्होंने उत्तर भवसंबन्धी आयुकर्मका बन्ध कर लिया है और भुज्यमान आयुसे संबन्धके छूट जाने पर भी जिन्होंने पूर्व अथवा उत्तर इन दोनों शरीरोंमेंसे किसी एक शरीरको प्राप्त नहीं किया है ऐसे जीवोंकी उत्पात्ति पाई जाती है । इसलिये जीव और शरीरके संयोगको उत्पात्ति नहीं कह सकते हैं ।

शंका— उत्पात्ति इसप्रकारकी भली ही रही आवे, फिर भी मरण तो जीव और शरीरके वियोगको ही मानना पड़ेगा ?

समाधान— यह कहना ठीक है, तो भी जीव और शरीरका संपूर्ण-  
रूपसे वियोग ही मरण हो सकता है । उनका एकदेशरूपसे वियोग मरण नहीं हो सकता, क्योंकि, जिनके कण्ठपर्यन्त जीवप्रदेश संकुचित हो गये हैं ऐसे जीवोंका भी मरण नहीं पाया जाता है । यदि एकदेश वियोगको भी मरण माना जावे, तो जीवित शरीरसे छिन्न होकर जिसका हाथ अलग हो गया है उसके साथ व्यभिचार दोष आ जायगा । इसीप्रकार आहारक शरीरको धारण करना इसका अर्थ संपूर्णरूपसे पूर्व (औदारिक) शरीरका त्याग करना नहीं है, जिससे आहारक शरीरको धारण करनेवालेका मरण माना जावे ?

विशेषार्थ— छटवें गुणस्थानमें जब साधु आहारक शरीरको उत्पन्न करता है, उस समय उसका औदारिक शरीरसे सर्वथा संबन्ध भी नहीं छूट जाता है और भुज्यमान आयुका अन्त भी नहीं होता है, इसलिये ऐसी अवस्थाको मरण नहीं कहते हैं । केवल वहां जीवप्रदेशोंका आहारक शरीरके साथ एकदेश संबन्ध होता है ।

यह आहारक शरीर सूक्ष्म होनेके कारण गमन करते समय वैक्रियक शरीरके समान न तो पर्वतोंसे टकराता है, न शस्त्रोंसे छिद्रता है और न अग्निसे जलता है । आहारक और कर्मणकी वर्गणाओंसे उत्पन्न हुए वीर्यके द्वारा जो योग होता है वह आहारकमिश्रकाययोग है ।

१ अन्वाधादी अंतोमुहुत्तकालद्विदी जहणिणदरे । पञ्जतीसपुण्णे मरणं पि कदाचि संभवइ ॥ गो. जी. २२-

२ तत्यावकालमाव्यौदारिकशरीरवर्गणाभिश्चत्वेन ताभिः सह वर्तमानो यः संप्रयोगः अपरिपूर्णश्चि-



गतिकर्मोदयेन सह औदारिककर्मोदयस्य विरोधाद्वा । न च तिरश्चां मनुष्याणां  
चौदारिककाययोग एवेति नियमोऽस्ति तत्र कर्मणकाययोगादीनामभावापत्तेः । किं तु  
औदारिककाययोगस्तिर्यङ्मनुष्याणामेव ।

केषु वैक्रियककाययोगो भवतीत्येतत्प्रतिपादनार्थमुत्तरसूत्रमाह—

वेउव्वियकायजोगो वेउव्वियमिस्सकायजोगो देवणेरइ-  
याणं ॥ ५८ ॥

तिरश्चां मनुष्याणां च किमिति तदुदयो न भवेत् ? न, तिर्यङ्मनुष्यगतिकर्मो-  
दयेन सह वैक्रियकोदयस्य विरोधात्स्वभावाद्वा । न हि स्वभावाः परपर्यनुयोगार्हाः  
अतिप्रसङ्गात् । तिर्यञ्चो मनुष्याश्च वैक्रियकशरीराः श्रूयन्ते तत्कथं घटत इति चेन्न,  
औदारिकशरीरं द्विविधं विक्रियात्मकमविक्रियात्मकमिति । तत्र यद्विक्रियात्मकं तद्वै-

होता है। अथवा, देवगति और नरकगति नामकर्मके उदयके साथ औदारिकशरीर नामकर्मके  
उदयका विरोध है, इसलिये उनके औदारिकशरीरका उदय नहीं पाया जाता है। फिर भी  
तिर्यच और मनुष्योंके औदारिक और औदारिकमिश्रकाययोग ही होता है ऐसा नियम नहीं है,  
क्योंकि, इस प्रकारके नियमके करने पर तिर्यच और मनुष्योंमें कर्मणकाययोग आदिके अभावकी  
आपत्ति आ जायगी। इसलिये औदारिक और औदारिकमिश्र तिर्यच और मनुष्योंके ही होता है,  
ऐसा नियम जानना चाहिये ।

वैक्रियक काययोग किन जीवोंमें होता है इस बातके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका  
सूत्र कहते हैं—

देव और नारकियोंके वैक्रियककाययोग और वैक्रियकमिश्रकाययोग होता है ॥ ५८ ॥

शंका—तिर्यच और मनुष्योंके इन दोनों योगोंका उदय क्यों नहीं होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, तिर्यचगति और मनुष्यगति कर्मोदयके साथ  
वैक्रियक नामकर्मके उदयका विरोध आता है, अथवा, तिर्यच और मनुष्यगतिमें वैक्रियक  
नामकर्मका उदय नहीं होता है, यह स्वभाव ही है। और स्वभाव दूसरेके प्रश्नोंके योग्य नहीं  
होते हैं, अन्यथा, अतिप्रसंग दोष आ जायगा। इसलिये तिर्यच और मनुष्योंके वैक्रियक और  
वैक्रियकमिश्रकाययोग नहीं होता है, यह सिद्ध हो जाता है।

शंका—तिर्यच और मनुष्य भी वैक्रियकशरीरवाले सुने जाते हैं, इसलिये यह बात  
कैसे घटित होगी ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, औदारिकशरीर दो प्रकारका है, विक्रियात्मक और  
अविक्रियात्मक। उनमें जो विक्रियात्मक औदारिक शरीर है, वह मनुष्य और तिर्यचोंके

क्रियकमिति तत्रोक्तं न तदत्र परिगृह्यते विविधगुणर्द्ध्यभावात् । अत्र विविधगुणर्द्ध्यात्मकं परिगृह्यते, तच्च देवनारकाणामेव ।

आहारशरीरस्वामिप्रतिपादनार्थमुत्तरसूत्रमाह—

**आहारकायजोगो आहारमिस्सकायजोगो संजदाणमिड्डि-  
पत्ताणं ॥ ५९ ॥**

आहारर्द्धिप्राप्तेः किमु संयताः ऋद्धिप्राप्ता उत वैक्रियकर्द्धिप्राप्तास्ते ऋद्धिप्राप्ता इति । किं चातः नाद्यः पक्ष आश्रयणयोग्यः इतरेतराश्रयदोषासंजनात् । कथम् ? यावन्नाहारर्द्धिरुत्पद्यते न तावत्तेपामृद्धिप्राप्तत्वम्, यावन्नर्द्धिप्राप्तत्वं न तावत्तेपामाहारर्द्धिरिति । न द्वितीयविकल्पोऽपि ऋद्धेरुपर्यभावात् । भावे वा आहारशरीरवतां मनःपर्ययज्ञानमपि जायेत विशेषाभावात् । न चैवमार्षेण सह विरोधादिति नादिपक्षोक्तदोषः

वैक्रियकरूपसे कहा गया है । उसका यहां पर ग्रहण नहीं किया है, क्योंकि, उसमें नाना गुण और ऋद्धियोंका अभाव है । यहां पर नाना गुण और ऋद्धियुक्त वैक्रियकशरीरका ही ग्रहण किया है, और वह देव और नारकियोंके ही होता है ।

अब आहारकशरीरके स्वामीके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

आहारककाययोग और आहारकमिश्रकाययोग ऋद्धिप्राप्त छटे गुणस्थानवर्ती संयतोंके ही होते हैं ॥ ५९ ॥

शंका—यहां पर क्या आहारक ऋद्धिकी प्राप्तिसे संयतोंको ऋद्धिप्राप्त समझना चाहिये, या उन्होंने पहले वैक्रियक ऋद्धिको प्राप्त कर लिया है, इसलिये उन्हें ऋद्धिप्राप्त समझना चाहिये ? इन दोनों पक्षोंमेंसे प्रथम पक्ष तो ग्रहण करने योग्य नहीं है, क्योंकि, प्रथम पक्षके ग्रहण करने पर इतरेतराश्रय दोष आता है । वह कैसे आता है, आगे इसीको स्पष्ट करते हैं । जबतक आहारक ऋद्धि उत्पन्न नहीं होती है तबतक उन्हें ऋद्धिप्राप्त नहीं माना जा सकता, और जबतक वे ऋद्धिप्राप्त न हों तबतक उनके आहारक ऋद्धि उत्पन्न नहीं हो सकती है । इसीप्रकार दूसरा विकल्प भी नहीं बनता है, क्योंकि, उनके उस समय दूसरी ऋद्धियोंका अभाव है । इतने पर भी यदि सद्भाव माना जाता है, तो आहारक ऋद्धिवालोंके मनःपर्ययज्ञानकी उत्पत्ति भी माननी चाहिये, क्योंकि दूसरी ऋद्धियोंके समान इसके होनेमें कोई विशेषता नहीं है । परंतु आहारक ऋद्धिवालेके मनःपर्यय ज्ञान माना नहीं जा सकता है, क्योंकि ऐसा मानने पर आगमसे विरोध आता है ?

समाधान—प्रथम पक्षमें जो इतरेतराश्रय दोष दिया है, वह तो आता नहीं है, क्योंकि,

समाहौकते । यतो नाहारद्विरात्मानमपेक्ष्योत्पद्यते स्वात्मनि क्रियाविरोधात् । अपि तु संयमातिशयापेक्षया तस्याः समुत्पत्तिरिति । ऋद्धिप्राप्तसंयतानामिति विशेषणमपि घटते तदनुत्पत्तावपि ऋद्धिहेतुसंयमः ऋद्धिः कारणे कार्योपचारात् । ततश्चद्विहेतुसंयमप्राप्ताः यतयः ऋद्धिप्राप्तास्तेषामाहारद्विरिति सिद्धम् । संयमविशेषजनिताहारशरीरोत्पादन-शक्तिराहारद्विरिति वा नेतरेतराश्रयदोषः । न द्वितीयविकल्पोक्तदोषोऽप्यनभ्युपगमात् । नैष नियमोऽप्यस्त्येकस्मिन्नक्रमेण नर्द्धयो भूयस्यो भवन्तीति । गणभृत्सु सप्तानामपि ऋद्धीनामक्रमेण सत्त्वोपलम्भात् । आहारर्द्ध्या सह मनःपर्ययस्य विरोधो दृश्यत इति चेद्भवतु नाम दृष्टत्वात् । न चानेन विरोध इति सर्वाभिर्विरोधो वक्तुं पार्यतेऽव्यवस्था-पत्तेरिति ।

कर्मणशरीरस्वामिप्रतिपादनार्थमुत्तरसूत्रमाह —

कम्मइयकायजोगो विग्गहगइ-समावण्णाणं केवलीणं वा  
समुग्घाद-गदाणं ॥ ६० ॥

आहारक ऋद्धि स्वतःकी अपेक्षा करके उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि, स्वतःसे स्वतःकी उत्पत्तिरूप क्रियाके होनेमें विरोध आता है । किंतु संयमातिशयकी अपेक्षा आहारक ऋद्धिकी उत्पत्ति होती है, इसलिये 'ऋद्धिप्राप्तसंयतानाम्' यह विशेषण भी बन जाता है । यहां पर दूसरी ऋद्धियोंके उत्पन्न नहीं होने पर भी कारणमें कार्यके उपचारसे ऋद्धिके कारणभूत संयमको ही ऋद्धि कहा गया है, इसलिये ऋद्धिके कारणरूप संयमको प्राप्त संयतोंको ऋद्धि-प्राप्त संयत कहते हैं, और उनके आहारक ऋद्धि होती है, यह बात सिद्ध हो जाती है । अथवा, संयमविशेषसे उत्पन्न हुई आहारकशरीरके उत्पादनरूप शक्तिको आहारक ऋद्धि कहते हैं, इसलिये भी इतरेतराश्रय दोष नहीं आता है । इसीप्रकार दूसरे विकल्पमें दिया गया दोष भी नहीं आता है, क्योंकि, एक ऋद्धिके साथ दूसरी ऋद्धियां नहीं होती हैं, यह हम मानते ही नहीं हैं । एक आत्मामें युगपत् अनेक ऋद्धियां उत्पन्न नहीं होती हैं, यह कोई नियम नहीं है, क्योंकि, गणधरोंके एकसाथ सातों ही ऋद्धियोंका सद्भाव पाया जाता है ।

शंका—आहारक ऋद्धिके साथ मनःपर्ययज्ञानका तो विरोध देखा जाता है ?

समाधान—यदि आहारक ऋद्धिके साथ मनःपर्ययज्ञानका विरोध देखनेमें आता है तो रहा आवे । किंतु मनःपर्ययके साथ विरोध है, इसलिये आहारक ऋद्धिका दूसरी संपूर्ण ऋद्धियोंके साथ विरोध है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है । अन्यथा अव्यवस्थाकी आपत्ति आ जायगी ।

अब कर्मणशरीरके स्वामीके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

विग्रहगतिको प्राप्त चारों गतियोंके जीवोंके तथा प्रतर और लोकपूरण समुद्घातको

१ 'क' प्रती 'ये तपऋद्धिप्राप्ताः' इति पाठः ।

विग्रहो देहस्तदर्थं गतिः विग्रहगतिः । औदारिकादिशरीरनामोदयात्स्वनिर्वर्तन-  
समर्थान् विविधान् पुद्गलान् गृह्णाति विग्रह्यतेऽसौ संसारिणा इति वा विग्रहो देहः । विग्रहाय  
गतिः विग्रहगतिः । अथवा विरुद्धो ग्रहो विग्रहः व्याघातः पुद्गलादाननिरोध इत्यर्थः ।  
विग्रहेण पुद्गलादाननिरोधेन गतिः विग्रहगतिः । अथवा विग्रहो व्याघातः कौटिल्य-  
मित्यनर्थान्तरम् । विग्रहेण कौटिल्येन गतिः विग्रहगतिः । तां सम्यगापन्नाः प्राप्ताः  
विग्रहगतिसमापन्नाः, तेषां विग्रहगतिसमापन्नानाम् । सर्वाणि शरीराणि यतः प्ररोहन्ति  
तद्बीजभूतं कार्मणशरीरं कार्मणकाय इति भण्यते । वाङ्मनःकायवर्गणानिमित्तः आत्म-  
प्रदेशपरिस्पन्दो योगो भवति । कार्मणकायकृतो योगः कार्मणकाययोगः । स विग्रहगतौ  
वक्रगतौ वर्तमानजीवानां भवति । एतदुक्तम्, गतेर्गत्यन्तरं व्रजतां प्राणिनां चतस्रो गतयो  
भवन्ति इषुगतिः पाणिमुक्ता लाङ्गलिका गोमूत्रिका चेति । तत्राविग्रहा प्राथमिकी,  
शेषाः विग्रहवत्यः । ऋज्वी गतिरिषुगतिरैकसमयिकी । यथा पाणिना तिर्यक्प्रक्षिप्तस्य

.....  
प्राप्त केवली जिनके कार्मणकाययोग होता है ॥ ६० ॥

विग्रह देहको कहते हैं । उसके लिये जो गति होती है उसे विग्रहगति कहते हैं ।  
यह जीव औदारिक आदि शरीर नामकर्मके उदयसे अपने अपने शरीरकी रचना करनेमें  
समर्थ नाना प्रकारके पुद्गलोंको ग्रहण करता है, अतएव संसारी जीवके द्वारा शरीरका  
ग्रहण किया जाता है । इसलिये देहको विग्रह कहते हैं । ऐसे विग्रह अर्थात् शरीरके लिये जो  
गति होती है उसे विग्रहगति कहते हैं । अथवा, 'वि' शब्दका अर्थ विरुद्ध और 'ग्रह'  
शब्दका अर्थ घात होनेसे विग्रह शब्दका अर्थ व्याघात भी होता है । जिसका अर्थ पुद्गलोंके  
ग्रहण करनेका निरोध होता है । इसलिये विग्रह अर्थात् पुद्गलोंके ग्रहण करनेके निरोधके  
साथ जो गति होती है उसे विग्रहगति कहते हैं । अथवा, विग्रह व्याघात और कौटिल्य  
ये पर्यायवाची नाम हैं । इसलिये विग्रहसे अर्थात् कुटिलता ( मोड़ों ) के साथ जो गति  
होती है उसे विग्रहगति कहते हैं । उसको भली प्रकारसे प्राप्त जीव विग्रहगतिसमापन्न  
कहलाते हैं । उनके अर्थात् विग्रहगतिको प्राप्त जीवोंके कार्मणकाययोग होता है । जिससे  
संपूर्ण शरीर उत्पन्न होते हैं, उस बीजभूत कार्मणशरीरको कार्मणकाय कहते हैं । वचन-  
वर्गणा, मनोवर्गणा और कायवर्गणाके निमित्तसे जो आत्मप्रदेशोंका परिस्पन्द होता है उसे  
योग कहते हैं । कार्मणकायसे जो योग उत्पन्न होता है उसे कार्मणकाययोग कहते हैं ।  
वह विग्रहगति अर्थात् वक्रगतिमें विद्यमान जीवोंके होता है । आंगममें ऐसा कहा है कि एक  
गतिसे दूसरी गतिको गमन करनेवाले जीवोंके चार गतियां होती हैं, इषुगति, पाणिमुक्तागति,  
लांगलिकागति और गोमूत्रिकागति । उनमें पहली गति विग्रहरहित होती है और शेष गतियां  
विग्रहसहित होती हैं । सरल अर्थात् धनुषसे छूटे हुए बाणके समान मोड़ारहित गतिको इषुगति

द्रव्यस्य गतिरेकविग्रहो गतिः तथा संसारिणामेकविग्रहा गतिः पाणिमुक्ता द्वैसमयिकी । यथा लाङ्गलं द्विवक्रं तथा द्विविग्रहा गतिर्लाङ्गलिका त्रैसमयिकी । यथा गोमूत्रिका बहुवक्रा तथा त्रिविग्रहा गतिर्गोमूत्रिका चातुःसमयिकी<sup>१</sup> । तत्र कर्मणकाययोगः स्यादिति । स्वस्थितप्रदेशादारभ्योर्ध्वाधस्तिर्यगाकाशप्रदेशानां क्रमसन्निविष्टानां पङ्क्तिः श्रेणिरित्युच्यते । तथैव जीवानां गमनं नोच्छेणिरूपेण । ततस्त्रिविग्रहा गतिर्न विरुद्धा जीवस्येति ।

घातनं घातः स्थित्यनुभवयोर्विनाश इति यावत् । कथमनुक्तमनधिकृतं चावगम्यत इति चेन्न, प्रकरणवशात्तदवगतेः । उपरि घातः उद्धातः, समीचीन उद्धातः समुद्धातः<sup>२</sup> ।

कहते हैं । इस गतिमें एक समय लगता है । जैसे हाथसे तिरछे फेंके गये द्रव्यकी एक मोड़ेवाली गति होती है, उसीप्रकार संसारी जीवोंके एक मोड़ेवाली गतिको पाणिमुक्ता गति कहते हैं । यह गति दो समयवाली होती है । जैसे हलमें दो मोड़े होते हैं, उसीप्रकार दो मोड़ेवाली गति को लांगलिका गति कहते हैं । यह गति तीन समयवाली होती है । जैसे गायका चलते समय मूत्रका करना अनेक मोड़ोंवाला होता है, उसीप्रकार तीन मोड़ेवाली गतिको गोमूत्रिका गति कहते हैं । यह गति चार समयवाली होती है । इयुगतिको छोड़कर शेष तीनों विग्रह-गतियोंमें कर्मणकाययोग होता है ।

जो प्रदेश जहां स्थित हैं वहांसे लेकर ऊपर, नीचे और तिरछे क्रमसे विद्यमान आकाशप्रदेशोंकी पंक्तिको श्रेणी कहते हैं । इस श्रेणीके द्वारा ही जीवोंका गमन होता है, श्रेणीको उलंघन करके नहीं होता है । इसलिये विग्रहगतिवाले जीवके तीन मोड़ेवाली गति विरोधको प्राप्त नहीं होती है । अर्थात् ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहां पर पहुंचनेके लिये चार मोड़े लग सकें ।

घातनेरूप धर्मको घात कहते हैं, जिसका प्रकृतमें अर्थ कर्मोंकी स्थिति और अनुभागका विनाश होता है ।

शंका—कर्मोंकी स्थिति और अनुभागके घातका अभी तक कथन नहीं किया है, अथवा, उसका अधिकार भी नहीं है, इसलिये यहां पर कर्मोंकी स्थिति और अनुभागका घात विवक्षित है, यह कैसे जाना जाय ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, प्रकरणके वशसे यह जाना जाता है कि केवलिसमुद्धातमें कर्मोंकी स्थिति और अनुभागका घात विवक्षित है ।

उत्तरोत्तर होनेवाले घातको उद्धात कहते हैं, और समीचीन उद्धातको समुद्धात कहते हैं ।

१ त. रा. वा. २. २८. वा. ४.

२ लोकमध्यादारभ्य स. सि. २. २६ । त. रा. वा. २. २६ । अट्टपण्णो क्यगो तिरियं लीयस्स मञ्ज-वारम्मि । एस पमवो दिसाणं एसेव भवे अणुदिसाणं । आचा. नि. ४२.

३ मूलसंसारमर्शद्विय उत्तरदेहस्स जीवपिंडस्स । णिगमणं देहादो होदि समुद्धादणामं तु ॥ गो. जी. ६६८.

कथमस्य घातस्य समीचीनत्वमिति चेन्न, भूयः कालनिष्पाद्यमानघातेभ्योऽस्यैकसमयिकस्य समीचीनत्वाविरोधात् । समुद्घातं गताः समुद्घातगताः । कथमेकस्मिन् गम्यगमकभावश्चेन्न, पर्यायपर्यायिणां कथंचिद् भेदविवक्षायां तदविरोधात् । तेषां समुद्घातगतानां केवलानां कार्मणकाययोगो भवेत् । वा शब्दः समुच्चयप्रतिपादकः ।

अथ स्यात्केवलानां समुद्घातः सहेतुको निर्हेतुको वा ? न द्वितीयविकल्पः, सर्वेषां समुद्घातगमनपूर्वकं मुक्तिप्रसङ्गात् । अस्तु चेन्न, लोकव्यापिनां केवलानां विंशति-संख्यावर्षपृथक्त्वानन्तरनियमानुपपत्तेः । न प्रथमपक्षोऽपि तद्वैतव्यनुपलम्भात् । न

शंका — इस घातमें समीचीनता है, यह कैसे संभव है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, बहुत कालमें संपन्न होनेवाले घातोंसे एक समयमें होनेवाले इस घातमें समीचीनताके मान लेनेमें कोई विरोध नहीं आता है ।

समुद्घातको प्राप्त जीवोंको समुद्घातगत जीव कहते हैं ।

शंका—एक ही पदार्थमें गम्य-गमकभाव कैसे बन सकता है, अर्थात् जब पर्यायीसे पर्याय अभिन्न है, तब केवली समुद्घातको प्राप्त होते हैं, इसप्रकार समुद्घात और केवलीमें गम्य-गमकभाव कैसे बन सकता है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, पर्याय और पर्यायीकी कथंचित् भेद-विवक्षा होने पर एक ही पदार्थमें गम्य-गमकभाव बन जाता है, इसमें कोई विरोध नहीं आता है ।

उन समुद्घातगत केवलियोंके कार्मणकाययोग होता है । यहां सूत्रमें आया हुआ 'वा' शब्द समुच्चयरूप अर्थका प्रतिपादक है ।

शंका — केवलियोंके समुद्घात सहेतुक होता है या निर्हेतुक ? निर्हेतुक होता है, यह दूसरा विकल्प तो बन नहीं सकता, क्योंकि, ऐसा मानने पर सभी केवलियोंको समुद्घात करनेके अनन्तर ही मोक्ष-प्राप्तिका प्रसंग प्राप्त हो जायगा । यदि यह कहा जावे कि सभी केवली समुद्घातपूर्वक ही मोक्षको जाते हैं, ऐसा मान लिया जावे इसमें क्या हानि है ? सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि, ऐसा मानने पर लोकपूरण समुद्घात करनेवाले केवलियोंकी वर्ष-पृथक्त्वके अनन्तर बीस संख्या होती है यह नियम नहीं बन सकता है । केवलियोंके

हृतेर्गमिक्रियात्वासंभूयात्मप्रदेशानां च ग्रहिरुद्गमनं समुद्घातः । त. रा. वा. पृ. ५३. उद्गमनसमुद्घातः, जीवप्रदेशानां विसर्पणमित्यर्थः । समीचीन उद्घातः समुद्घातः, केवलानां समुद्घातः केवलिसमुद्घातः । अघातिकर्मस्थितिसमीकरणार्थं केवलिजीवप्रदेशानां समयविरोधेन ऊर्ध्वमधस्तिर्यक् च विसर्पणं केवलिसमुद्घात इत्युक्तं भवति । जयध. अ. पृ. १२३८.

१ वेदनीयस्य बहुत्वाद्द्वयत्वाच्चायुषो नामोगपूर्वकमायुःसमकरणार्थं द्रव्यस्वभावित्वात् सुराद्रव्यस्य फेनवेगवृद्ध-वृद्धाविर्भावोपशमनवद्देहस्थात्मप्रदेशानां वहिः समुद्घातनं केवलिसमुद्घातः । त. रा. वा. पृ. ५३.

तावद्घातिकर्मणां स्थित्यायुष्यस्थितेरसमानता हेतुः, क्षीणकषायचरमावस्थायां सर्वकर्मणां समानत्वाभावात् सर्वेषामपि तत्प्रसङ्गादिति ।

अत्र प्रतिविधीयते । यतिवृषभोपदेशात्सर्वाघातिकर्मणां क्षीणकषायचरमसमये स्थितेः साम्याभावात्सर्वेऽपि कृतसमुद्धाताः सन्तो निर्वृतिमुपदौकन्ते । येषामाचार्याणां लोकव्यापिकेवल्लिपु विंशतिसंख्यानियमस्तेषां मतेन केचित्तसमुद्धातयन्ति, केचिन्न समुद्धातयन्ति । के न समुद्धातयन्ति ? येषां संसृतिव्यक्तिः कर्मस्थित्या समाना, ते न समुद्धातयन्ति, शेषाः समुद्धातयन्ति । अनिवृत्त्यादिपरिणामेषु समानेषु सत्सु किमिति स्थित्यो-वैषम्यम् ? न, व्यक्तिस्थितिघातहेतुष्वनिवृत्तिपरिणामेषु समानेषु सत्सु संसृतेस्तत्समानत्व-विरोधात् । संसारविच्छित्तेः किं कारणम् ? द्वादशाङ्गावगमः तत्तीव्रभक्तिः केवलिसमुद्धातोऽनिवृत्तिपरिणामाश्च । न चैते सर्वेषु सम्भवन्ति दशनवपूर्वधारिणामपि क्षपक-

समुद्धात सहेतुक होता है यह प्रथम पक्ष भी नहीं बनता है, क्योंकि, केवलिसमुद्धातका कोई हेतु नहीं पाया जाता है । यदि यह कहा जावे कि तीन अघातिया कर्मों की स्थितिसे आशुकर्मकी स्थितिकी असमानता ही समुद्धातका कारण है, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि, क्षीणकषाय गुणस्थानकी चरम अवस्थामें संपूर्ण कर्म समान नहीं होते हैं, इसलिये सभी केवलियोंके समुद्धातका प्रसंग आजायगा ।

समाधान—यतिवृषभाचार्यके उपदेशानुसार क्षीणकषाय गुणस्थानके चरम समयमें संपूर्ण अघातिया कर्मोंकी स्थिति समान नहीं होनेसे सभी केवली समुद्धात करके ही मुक्तिको प्राप्त होते हैं । परंतु जिन आचार्योंके मतानुसार लोकपूरण समुद्धात करनेवाले केवलियोंकी वीस संख्याका नियम है, उनके मतानुसार कितने ही केवली समुद्धात करते हैं और कितने नहीं करते हैं ।

शंका—कौनसे केवली समुद्धात नहीं करते हैं ?

समाधान—जिनकी संसार-व्यक्ति अर्थात् संसारमें रहनेका काल वेदनीय आदि तीन कर्मोंकी स्थितिके समान है वे समुद्धात नहीं करते हैं, शेष केवली करते हैं ।

शंका—अनिवृत्ति आदि परिणामोंके समान रहने पर संसारव्यक्ति-स्थिति और शेष तीन कर्मोंकी स्थितिमें विषमता क्यों रहती है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, संसारकी व्यक्ति और कर्मस्थितिके घातके कारणभूत अनिवृत्तिरूप परिणामोंके समान रहने पर संसारको उसके अर्थात् तीन कर्मोंकी स्थितिके समान मान लेनेमें विरोध आता है ।

शंका—संसारके विच्छेदका क्या कारण है ?

समाधान—द्वादशांगका ज्ञान, उनमें तीव्र भक्ति, केवलिसमुद्धात और अनिवृत्तिरूप परिणाम ये सब संसारके विच्छेदके कारण हैं । परंतु ये सब कारण समस्त जीवोंमें संभव नहीं हैं, क्योंकि, दश पूर्व और नौ पूर्वके धारी जीवोंका भी क्षपकश्रेणी पर चढ़ना देखा जाता

श्रेण्यारोहणदर्शनात् । न तत्र संसारसमानकर्मस्थितयः समुद्धातेन विना स्थितिकाण्डकानि अन्तर्मुहूर्तेन निपतनस्वभावानि पल्योपमस्यासंख्येयभागायतानि संख्येयावलिकायतानि च निपातयन्तः आयुःसमानि कर्माणि कुर्वन्ति । अपरे समुद्धातेन समानयन्ति । न चैष संसारघातः केवलिनि प्राक् सम्भवति स्थितिकाण्डघातवत्समानपरिणामत्वात् । परिणामातिशयाभावे पश्चादपि मा भूत्तद्घात इति चेन्न, वीतरागपरिणामेषु समानेषु सत्स्वन्येभ्योऽन्तर्मुहूर्तायुरपेक्ष्य आत्मनः समुत्पन्नेभ्यस्तद्घातोपपत्तेः । अन्यैराचार्यैरव्याख्यातमिममर्थं भणन्तः कथं न सूत्रप्रत्यनीकाः ? न, वर्षपृथक्त्वान्तरसूत्रवशवर्तिनां तद्विरोधात् ।

छम्मासाउवसेसे उप्पणं जस्स केवलं णाणं ।

स-समुग्धाओ सिज्झइ सेसा भज्जा समुग्घाए ॥ १६७ ॥

है । अतः वहां पर संसार-व्यक्तिके समान कर्मस्थिति नहीं पाई जाती है । इसप्रकार अन्तर्मुहूर्तमें नियमसे नाशको प्राप्त होनेवाले पल्योपमके असंख्यातवै-भागप्रमाण या संख्यांत आवली-प्रमाण स्थिति काण्डकोंका विनाश करते हुए कितने ही जीव समुद्धातके विना ही आयुके समान शेष कर्मोंको कर लेते हैं । तथा कितने ही जीव समुद्धातके द्वारा शेष कर्मोंको आयु-कर्मके समान करते हैं । परंतु यह संसारका घात केवलीमें पहले संभव नहीं है, क्योंकि, पहले स्थितिकाण्डके घातके समान सभी जीवोंके समान परिणाम पाये जाते हैं ।

शंका—जब कि परिणामोंमें कोई अतिशय नहीं पाया जाता है, अर्थात् सभी केवलियोंके परिणाम समान होते हैं तो पीछे भी संसारका घात मत होओ ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, वीतरागरूप परिणामोंके समान रहने पर भी अन्तर्मुहूर्तप्रमाण आयुकर्मकी अपेक्षासे आत्माके उत्पन्न हुए अन्य विशिष्ट परिणामोंसे संसारका घात बन जाता है ।

शंका—अन्य आचार्योंके द्वारा नहीं व्याख्यान किये गये इस अर्थका इसप्रकार व्याख्यान करते हुए आप सूत्रके विरुद्ध जा रहे हैं, ऐसा क्यों न माना जाय ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, वर्षपृथक्त्वके अन्तरालका प्रतिपादन करनेवाले सूत्रके वशवर्ती आचार्योंका ही पूर्वोक्त कथनसे विरोध आता है

शंका—‘छह माह प्रमाण आयुकर्मके शेष रहने पर जिस जीवको केवलज्ञान उत्पन्न हुआ है वह समुद्धातको करके ही मुक्त होता है । शेष जीव समुद्धात करते भी हैं और नहीं भी करते हैं’ ॥ १६७ ॥

१ ठिदिसंतकम्मसमकरणत्थं सव्वेसि तेसि कम्माणं । अंतोमुहुत्तसेसे जंति समुग्घादमाउम्मि ॥ उच्छं संतं वत्थं विरल्लिदं जह ल्हं विणिव्वाइ । संवेदियं तु ण तथा तथेव कम्मं पि णादव्वं ॥ मूलारा. २१०८, २१०९. जह उच्छा साडीया आसुं सुक्कइ विरेल्लिया संती । तह कम्मलहुयसमए वच्चंति जिणा समुग्घायं ॥ वि. भा. ३६५०.

२ उक्कस्सएण छम्मासाउगसेसम्मि केवली जादा । वच्चंति समुग्घादं सेसा भज्जा समुग्घादे ॥ मूलारा.



एदिस्से गाहाए उवएसो किण्ण गहिओ ? ण, भज्जत्ते कारणाणुवलंभादो ।

जेसिं आउ-समाइं णामा गोदाणि वेयणीयं च ।

ते अकय-समुग्वाया वच्चंतियरे समुग्वाए ॥ १६८ ॥

गेदं भज्जत्ते कारणं सच्च-जीवेषु समेहि अणियट्ठि-परिणामेहि पत्त-वादाणं  
ट्ठिदीणमाउ-समाणत्त-विरोहादो, अघाइ-तियस्स खीण-कसाय-चरिम-समए जहण्ण-ट्ठिदि-  
संतस्स वि पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभाग-पमाणत्तुवलंभादो । नागमस्तर्कगोचर इति  
चेन्न, एतयोर्गाथयोरगमत्वेन निर्णयाभावाद् । भावे वास्तु गाथयोरेवोपादानम् ।

इदानीं काययोगस्याध्यानज्ञापनार्थमुत्तरसूत्रचतुष्टयमाह—

इस पूर्वोक्त गाथाका उपदेश क्यों नहीं ग्रहण किया है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, इसप्रकार विकल्पके माननेमें कोई कारण नहीं पाया जाता है, इसलिये पूर्वोक्त गाथाका उपदेश नहीं ग्रहण किया है ।

जिन जीवोंके नाम, गोत्र और वेदनीयकर्मकी स्थिति आयुर्कर्मके समान होती हैं वे समुद्धात नहीं करके ही मुक्तिको प्राप्त होते हैं । दूसरे जीव समुद्धात करके ही मुक्त होते हैं ॥ १६८ ॥

इसप्रकार पूर्वोक्त गाथामें कहे गये अभिप्रायको तो किन्हीं जीवोंके समुद्धातके होनेमें और किन्हीं जीवोंके समुद्धातके नहीं होनेमें कारण कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि, संपूर्ण जीवोंमें समान अनिवृत्तिरूप परिणामोंके द्वारा कर्मस्थितियोंका घात पाया जाता है, अतः उनका आयुके समान होनेमें विरोध आता है । दूसरे, क्षीणकपाय गुणस्थानके चरम समयमें तीन अघातिया कर्मोंकी जघन्य स्थिति पल्योपमके असंख्यातवें भाग सभी जीवोंके पाई जाती है, इसलिये भी पूर्वोक्त अर्थ ठीक प्रतीत नहीं होता है ।

शंका— आगम तो तर्कका विषय नहीं है, इसलिये इसप्रकार तर्क के बलसे पूर्वोक्त गाथाओंके अभिप्रायका खण्डन करना उचित नहीं है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, इन दोनों गाथाओंका आगमरूपसे निर्णय नहीं हुआ है । अथवा, यदि इन दोनों गाथाओंका आगमरूपसे निर्णय हो जाय तो इनका ही ग्रहण रहा आवे ।

अब काययोगका गुणस्थानोंमें ज्ञान करानेके लिये आगेके चार सूत्र कहते हैं—

२१०५. पण्णासायुषि शेषे स्याद्दुत्पन्नं यस्स केवलम् । समुद्धातमसौ याति केवली नापरः पुनः ॥ पंचसं. ३२७.  
पण्णासाधिकायुक्तो लभते केवलोद्गमम् । करोत्यसौ समुद्धातमन्ये कुर्वन्ति वा न वा ॥ गुण. क्र. प्र. ९४.

१ मूलरा. २१०६. परं च तत्र चतुर्थचरणे पाठमेदोऽयम्—' जिणा उवणमंति सेलेसि ' । जेसिं ह्वंति विसमाणि णामगोदाइं वेदणायाणि । ते अकदससुग्वादा जिणा उवणमंति सेलेसि ॥ मूलरा. २१०७.

कायजोगो ओरालियकायजोगो ओरालियमिस्सकायजोगो  
एइंदिय-प्पहुडि जाव सजोगिकेवलि ति ॥ ६१ ॥

काययोग एवेत्यवधारणाभावान्न वाङ्मनसोरभावः। एवं शेषाणामपि वाच्यमिति। एकेन्द्रियप्रभृत्यासयोगकेवलिनः औदारिकमिश्रकाययोगिनः इति प्रतिपाद्यमाने देशविरतादि-क्षीणकषायान्तानामपि तदस्तित्वं प्राप्नुयादिति चेन्न, प्रभृतिशब्दोऽयं व्यवस्थायां प्रकारे च वर्तते। अत्र प्रभृतिशब्दः प्रकारे परिगृह्यते, यथा सिंहप्रभृतयो मृगा इति। ततो न तेषां ग्रहणम्। व्यवस्थावाचिनोऽपि ग्रहणे न दोषः 'ओरालिय-मिस्स-कायजोगो अपज्जत्ताणं' ति बाधकसूत्रसम्भवाद्वा।

वैक्रियककाययोगाधिपतिप्रतिपादनार्थमुत्तरसूत्रमाह—

वेउव्वियकायजोगो वेउव्वियमिस्सकायजोगो सण्णिमिच्छाइट्टि-  
प्पहुडि जाव असंजदसम्माइट्टि ति ॥ ६२ ॥

सामान्यसे काययोग और विशेषकी अपेक्षा औदारिक काययोग और औदारिकमिश्र काययोग एकेन्द्रियसे लेकर सयोगिकेवली गुणस्थानतक होते हैं ॥ ६१ ॥

काययोग ही होता है, इसप्रकार अवधारण नहीं होनेसे पूर्वोक्त गुणस्थानोंमें वचनयोग और मनोयोगका अभाव नहीं समझना चाहिये। इसीप्रकार शेष योगोंका भी कथन करना चाहिये।

शंका—एकेन्द्रियसे लेकर सयोगिकेवलीतक औदारिकमिश्रकाययोगी होते हैं ऐसा कथन करने पर देशविरत आदि क्षीणकषायपर्यन्त गुणस्थानोंमें भी औदारिकमिश्रयोगका संज्ञाव प्राप्त हो जायगा ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, यह प्रभृति शब्द व्यवस्था और प्रकाररूप अर्थमें रहता है। उनमेंसे यहां पर प्रभृति शब्द प्रकाररूप अर्थमें ग्रहण किया गया है। जैसे, सिंह आदि मृग। इसलिये औदारिकमिश्रयोगमें देशविरत आदि क्षीणकषायतकके गुणस्थानोंका ग्रहण नहीं होता है। अथवा, व्यवस्थावाची भी प्रभृति शब्दके ग्रहण करने पर कोई दोष नहीं आता है। अथवा, 'ओरालियमिस्सकायजोगो अपज्जत्ताणं' अर्थात् औदारिकमिश्रकाययोग अपर्याप्तकोंके होता है, इस बाधक सूत्रके संभव होनेके कारण भी पूर्वोक्त दोष नहीं आता है।

अब वैक्रियककाययोगके स्वामीका प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

वैक्रियककाययोग और वैक्रियकमिश्रकाययोग संखी मिथ्यादृष्टिसे लेकर असंयत-  
सम्यग्दृष्टितक होते हैं ॥ ६२ ॥

१ ओरालं पञ्चत्ते धावरकायादि जाव जोगो ति । तम्मिस्समपज्जते चदुण्ठणणेसु णियमेण ॥ गो. जी. ६८०.

२ जी. सं. सू. ७६.

३ वेणुवं पञ्जत्ते इदरे खलु होदि तस्स मिस्सं तु । सुरणिरयचउट्टाणे मिस्से ण हि मिस्सजोगो हु ॥ गो. जी. ६८२.

अत्र 'च' शब्दः कर्तव्योऽन्यथा समुच्चयावगमानुपपत्तेरिति न, च-शब्दमन्तरेणापि समुच्चयार्थावगतेः यथा पृथिव्यप्तेजोवायुरित्यत्र । सम्यङ्मिथ्यादृष्टेरपि वैक्रियकमिश्रकाययोगः प्राप्नुयादिति चेन्न, उक्तोत्तरत्वात् । 'सम्मामिच्छादृष्टि-दृष्टाणे णियमापज्जत्ता', वेउव्वियमिस्स-कायजोगो अपज्जत्ताणं' इत्याभ्यां वा सूत्राभ्यामवसीयते यथा न सम्यङ्मिथ्यादृष्टेर्वैक्रियकमिश्रकाययोगः समस्तीति ।

आहारकाययोगस्वामिप्रतिपादनार्थमुत्तरसूत्रमाह—

आहारकायजोगो आहारमिस्सकायजोगो एकमिह चैव पमत्त-संजद-दृष्टाणे ॥ ६३ ॥

अप्रमादिनां संयतानां किमित्याहारकायजोगो न भवेदिति चेन्न, तत्र तदुत्थापने निमित्ताभावात् । तदुत्थापने किं निमित्तमिति चेदाज्ञाकनिष्ठतायाः समुत्पन्नप्रमादः

शंका—इस सूत्रमें च शब्द और अधिक जोड़ देना चाहिये, अन्यथा समुच्चयरूप अर्थका ज्ञान नहीं हो सकेगा ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, च शब्दके बिना भी समुच्चयरूप अर्थका ज्ञान हो जाता है । जैसे, 'पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतयः स्थावराः' इस सूत्रमें च शब्दके नहीं रहने पर भी समुच्चयरूप अर्थका ज्ञान हो जाता है ।

शंका—सूत्रके कथनानुसार सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानवालेके भी वैक्रियकमिश्रकाययोगका सङ्गाव मानना पड़ेगा ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, इसका उत्तर औदारिकमिश्रकाययोगके प्रकरणमें दे आये हैं । अर्थात् यहां पर प्रभृति शब्द व्यवस्था या प्रकारवाची होनेसे पूर्वोक्त दोष नहीं आता है । अथवा, 'सम्मामिच्छादृष्टिदृष्टाणे णियमापज्जत्ता' 'वेउव्वियमिस्सकायजोगो अपज्जत्ताणं' अर्थात् 'सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें जीव नियमसे पर्याप्तक ही होते हैं, अथवा, वैक्रियकमिश्रकाययोग अपर्याप्तकोंके ही होता है, इन दोनों सूत्रोंसे भी जाना जाता है कि सम्यग्मिथ्यादृष्टिके वैक्रियकमिश्रकाययोग नहीं पाया जाता है ।

आहारककाययोगके स्वामीके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

आहारककाययोग और आहारकमिश्रकाययोग एक प्रमत्त गुणस्थानमें ही होते हैं ॥६३॥

शंका—प्रमादरहित संयतोंके आहारककाययोग क्यों नहीं होता है ?

समाधान—प्रमादरहित जीवोंके आहारककाययोगके उत्पन्न करानेमें निमित्तकारणका अभाव है ।

शंका—आहारककाययोगके उत्पन्न करानेमें निमित्तकारण क्या है ?

१ जी. सं. सू. ८३.

२ आहारो पज्जत्तो इदरे खलु होदि तस्स मिस्सो दु । अंतोऽहुत्तकाले छट्टयणे होदि आहारो ॥  
गी. जी. ६८३.

असंयमबहुलतोत्पन्नप्रमादश्च । न च प्रमादनिबन्धनोऽप्रमादिनि भवेदतिप्रसङ्गात् । अथवा स्वभावोऽयं यदाहारकाययोगः प्रमादिनामेवोपजायते, नाप्रमादिनामिति ।

कर्मणकाययोगाधारजीवप्रतिपादनार्थमुत्तरसूत्रमाह—

कम्मइयकायजोगो एइंदिय-प्पहुडि जाव सजोगिकेवलि  
ति ॥ ६४ ॥

देशविरतादिक्षीणकपायान्तानामपि कर्मणकाययोगस्यास्तित्वं प्राप्नोत्यस्मात्सूत्रा-  
दिति चेन्न, 'संजदासंजदट्टाणे णियमा पज्जत्ता' इत्येतस्मात्सूत्रात्तत्र तदभावाव-  
गतेः । न च समुद्धातादृते पर्याप्तानां कर्मणकाययोगोऽस्ति । किमिति स तत्र नास्तीति  
चेद्विग्रहगतेरभावात् । देवविद्याधरादीनां पर्याप्तानामपि वक्रा गतिरुपलभ्यते चेन्न,  
पूर्वशरीरं परित्यज्योत्तरशरीरमादातुं व्रजतो वक्रगतेर्विवक्षितत्वात् ।

समाधान—आज्ञाकनिष्ठता अर्थात् आप्तवचनमें, सन्देहजनित शिथिलताके होनेसे  
उत्पन्न हुआ प्रमाद और असंयमकी बहुलतासे उत्पन्न प्रमाद आहारककायकी उत्पत्तिका निमित्त-  
कारण है । जो कार्य प्रमादके निमित्तसे उत्पन्न होता है, वह प्रमादरहित जीवमें नहीं हो  
सकता है । अथवा, यह स्वभाव ही है कि आहारककाययोग प्रमत्त गुणस्थानवालोंके ही होता  
है, प्रमादरहित जीवोंके नहीं ।

अब कर्मणकाययोगके आधारभूत जीवोंके प्रतिपादनार्थ आगेका सूत्र कहते हैं—

कर्मणकाययोग एकेन्द्रिय जीवोंसे लेकर सयोगिकेवली तक होता है ॥ ६४ ॥

शंका—इस सूत्रके कथनसे देशविरत गुणस्थानसे लेकर क्षीणकषाय गुणस्थानतक  
भी कर्मणकाययोगका अस्तित्व प्राप्त होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, 'संजदासंजदट्टाणे णियमा पज्जत्ता' अर्थात् संयता-  
संयत गुणस्थानमें जीव नियमसे पर्याप्त ही होते हैं, इस सूत्रके अनुसार यहाँ पर कर्मण-  
काययोगका अभाव ज्ञात हो जाता है । यहाँपर संयतासंयत पद उपलक्षण होनेसे पांचवेंसे  
ऊपर सभी पर्याप्त गुणस्थानोंका सूचक है । दूसरे समुद्धातको छोड़कर पर्याप्तक जीवोंके  
कर्मणकाययोग नहीं पाया जाता है ।

शंका—पर्याप्तक जीवोंमें कर्मणकाययोग क्यों नहीं होता है ?

समाधान—विग्रहगतिका अभाव होनेसे उनके कर्मणकाययोग नहीं होता है ।

शंका—देव और विद्याधर आदि पर्याप्तक जीवोंके भी वक्रगति पाई जाती है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, पूर्व शरीरको छोड़कर आगेके शरीरको ग्रहण करनेके  
लिये जाते हुए जीवके जो एक, दो या तीन मोड़ेवाली गति होती है, वही गति यहाँ पर वक्र-  
गतिरूपसे विवक्षित है ।

१ ओरालियमिस्सं वा चउगुणट्टाणेसु होदि कम्मइयं । चदुगदिविगहकाले जोगिस्स पदंरलौगंपूरणं ॥  
गो. जी. ६८४.

२ जी. सं. सू. ८३.

योगत्रयस्य स्वामिप्रतिपादनार्थमुत्तरसूत्रमाह —

मणजोगो वचिजोगो कायजोगो साण्णामिच्छाइट्टि-प्पहुडि  
जाव सजोगिकेवलि ति ॥ ६५ ॥

चतुर्णां मनसां सामान्यं मनः, तज्जनितवीर्येण परिस्पन्दलक्षणेन योगो मनो-  
योगः - चतुर्णां वचसां सामान्यं वचः, तज्जनितवीर्येणात्मप्रदेशपरिस्पन्दलक्षणेन  
योगो वाग्योगः । सप्तानां कायानां सामान्यं कायः, तेन जनितेन वीर्येण जीवप्रदेश-  
परिस्पन्दलक्षणेन योगः काययोगः । एते त्रयोऽपि योगाः श्रयोपशमापेक्षया त्र्यात्मकैक-  
रूपमापन्नाः संज्ञिमिथ्यादृष्टेरारम्य आसयोगकेवलिन इति क्रमेण सम्मन्नापेक्षया वा  
स्वामित्वमुक्तम् । काययोग एकेन्द्रियेष्वप्यस्तीति चेन्न, वाङ्मनोभ्यामविनाभाविनः  
काययोगस्य विवक्षितत्वात् । तथा वचनोऽप्यभिधानव्यम् ।

अब तीन योगोंके स्वामीके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

मनोयोग, वचनयोग और काययोग संबन्धी मिथ्यादृष्टिसे लेकर सयोगिकेवली तक  
होते हैं ॥ ६५ ॥

सत्यादि चार प्रकारके मनमें जो अन्वयरूपसे रहता है उसे सामान्य मन कहते हैं ।  
उस मनसे उत्पन्न हुए परिस्पन्द-लक्षण वीर्यके द्वारा जो योग होता है उसे मनोयोग कहते हैं ।  
चार प्रकारके वचनोंमें जो अन्वयरूपसे रहता है उसे सामान्य वचन कहते हैं । उस वचनसे  
उत्पन्न हुए आत्मप्रदेश-परिस्पन्द-लक्षण वीर्यके द्वारा जो योग होता है उसे वचनयोग कहते हैं ।  
सात प्रकारके कायोंमें जो अन्वयरूपसे रहता है उसे सामान्य काय कहते हैं । उस कायसे  
उत्पन्न हुए आत्मप्रदेश-परिस्पन्द-लक्षण वीर्यके द्वारा जो योग होता है उसे काययोग कहते  
हैं । ये योग तीन होते हुए भी श्रयोपशमकी अपेक्षा त्र्यात्मक एकरूपताको प्राप्त होकर संबन्धी  
मिथ्यादृष्टिसे लेकर सयोगिकेवली गुणस्यानतक होते हैं । यहां पर इस क्रमसे संभव होनेकी  
अपेक्षा स्वामित्वका प्रतिपादन किया ।

शंका—काययोग एकेन्द्रिय जीवोंके भी होता है, फिर यहां उसका संबन्धी पंचेन्द्रियसे  
कथन क्यों किया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, यहां पर वचनयोग और मनोयोगसे अविनाभाव रखने-  
वाले काययोगकी विवक्षा है । इसीप्रकार वचनयोगका भी कथन करना चाहिये । अर्थात्, यद्यपि  
वचनयोग द्वीन्द्रिय जीवोंसे होता है, फिर भी यहां पर मनोयोगका अविनाभावी वचनयोग  
विवक्षित है, इसलिये उसका भी संबन्धी पंचेन्द्रियसे कथन किया ।

१ योगादुक्तादेन त्रिषु योगेषु त्रयोदश गुणत्वान्ताति भवन्ति । स. सि. १. ८. सच्चिदानन्दप्रवचने सत्ति-  
प्पहुडि इ जाव हांजो ति । सेजानं जांगि ति य अन्नयवचनं तु वियज्जो ॥ गो. ६७१.

द्विसंयोगप्रतिपादनार्थमुत्तरसूत्रमाह —

वचिजोगो कायजोगो बीइंदिय-प्पहुडि जाव असण्णिपंचि-  
दिया ति ॥ ६६ ॥

अत्र सामान्यवाक्काययोर्विवाक्षितत्वात् द्वीन्द्रियादिर्भवत्यसंज्ञिनश्च पर्यवसानम् । विशेषे तु पुनरवलम्ब्यमाने तुरीयस्यैव वचसः सत्त्वमिति । तदाद्यन्तव्यवहारो न घटामटेत्, उपरिष्ठादपि वाक्काययोगौ विद्येते ततो नासंज्ञिनः पर्यवसानमिति चेन्न, उपरि त्रयाणामपि सत्त्वात् । अस्तु चेन्न, निरुद्धद्विसंयोगस्य त्रिसंयोगेन सह विरोधात् ।

एकसंयोगप्रतिपादनार्थमुत्तरसूत्रमाह —

कायजोगो एइंदियाणं ॥ ६७ ॥

एकेन्द्रियाणामेकः काययोग एव, द्वीन्द्रियादीनामसंज्ञिपर्यन्तानां वाक्काययोगौ द्वावेव, शेषास्त्रियोगाः ।

अब द्विसंयोगी योगोंके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

वचनयोग और काययोग द्वीन्द्रिय जीवोंसे लेकर असंज्ञी पंचेन्द्रिय जीवों तक होते हैं ॥६६॥

यहां पर सामान्य वचन और काययोगकी विवक्षा होनेसे द्वीन्द्रियसे लेकर असंज्ञी पंचेन्द्रिय तक सामान्यसे दोनों योग पाये जाते हैं । किंतु विशेषके अवलम्बन करने पर तो द्वीन्द्रियसे असंज्ञातिक वचनयोगके चौथे भेद ( अनुभयवचन ) का ही सत्त्व समझना चाहिये ।

शंका— इन दोनों योगोंका द्वीन्द्रियसे आदि लेकर असंज्ञीपर्यन्त जो सद्भाव बताया है, यह आदि और अन्तका व्यवहार यहां पर घटित नहीं होता है, क्योंकि, इन जीवोंसे आगेके जीवोंके भी वचन और काययोग पाये जाते हैं । इसलिये असंज्ञातिक ये योग होते हैं, यह बात नहीं बनती है ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, आगेके जीवोंके तीनों योगोंका सत्त्व पाया जाता है ।

शंका— यदि ऊपर तीन योगोंका सत्त्व है तो रहा अवे, फिर भी इन दो योगोंके कथन करनेमें क्या हानि है ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, द्विसंयोगी योगका त्रिसंयोगी योगके साथ कथन करनेमें विरोध आता है । इसलिये द्विसंयोगी योगका असंज्ञातिक ही कथन किया है ।

अब एक संयोगी योगके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

काययोग एकेन्द्रिय जीवोंके होता है ॥ ६७ ॥

एकेन्द्रिय जीवोंके एक काययोग ही होता है । द्वीन्द्रियसे लेकर असंज्ञातिक जीवोंके वचन और काय ये दो योग ही होते हैं । तथा, शेष जीवोंके तीनों ही योग होते हैं ।

प्राक् सामान्येन योगस्य सत्त्वमभिधायेदानीं व्यवच्छेद्येऽमुष्मिन् कालेऽस्य सत्त्व-  
ममुष्मिश्च न सत्त्वमिति प्रतिपादनार्थमुत्तरसूत्रमाह—

**मणजोगो वचिजोगो पज्जत्ताणं अत्थि, अपज्जत्ताणं णत्थि ॥६८॥**

क्षयोपशमापेक्षया अपर्याप्तकालेऽपि तयोः सत्त्वं न विरोधमास्कन्देदिति चेन्न,  
वाङ्मनोभ्यामनिष्पन्नस्य तद्योगानुपपत्तेः । पर्याप्तानामपि विरुद्धयोगमध्यासितावस्थायां  
नास्त्येवेति चेन्न, सम्भवापेक्षया तत्र तत्सत्त्वप्रतिपादनात्, तच्छक्तिः सत्त्वापेक्षया वा ।  
सर्वत्र समुच्चयार्थावद्योतक-च-शब्दाभावेऽपि समुच्चयार्थः पदैरेवावद्योत्यत इत्यवसेयः ।

काययोगसामान्यस्य सत्त्वप्रदेशप्रतिपादनार्थमुत्तरसूत्रमाह—

**कायजोगो पज्जत्ताण वि अत्थि, अपज्जत्ताण वि अत्थि ॥६९॥**

पहले सामान्यसे योगका सत्त्व कहकर, अब जिस कालमें योगका सद्भाव नहीं पाया  
जाता है, ऐसा निराकरण करने योग्य कालके होने पर, इस कालमें इस योगका सत्त्व है, और  
इस कालमें इस योगका सत्त्व नहीं है, इस बातके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र  
कहते हैं—

मनोयोग और वचनयोग पर्याप्तकोंके ही होते हैं, अपर्याप्तकोंके नहीं होते ॥६८॥

शंका—क्षयोपशमकी अपेक्षा अपर्याप्त कालमें भी वचनयोग और मनोयोगका पाया  
जाना विरोधको प्राप्त नहीं होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, जो क्षयोपशम वचनयोग और मनोयोगरूपसे उत्पन्न  
नहीं हुआ है, उसे योग संज्ञा प्राप्त नहीं हो सकती है ।

शंका—पर्याप्तक जीवोंके भी विरुद्ध योगको प्राप्त होनेरूप अवस्थाके होने पर  
विशिक्षित योग नहीं पाया जाता है ?

विशेषार्थ—शंकाकारका यह अभिप्राय है कि जिसप्रकार अपर्याप्त अवस्थामें मनो-  
योग और वचनयोगका अभाव बतलाया गया है, उसीप्रकार पर्याप्त अवस्थामें भी किसी  
एक योगके रहने पर शेष दो योगोंका अभाव रहता है, इसलिये उस समय भी उन दो योगोंके  
अभावका कथन करना चाहिये ।

समाधान—नहीं, क्योंकि, पर्याप्त अवस्थामें किसी एक योगके रहने पर शेष  
योग संभव हैं, इसलिये इस अपेक्षासे वहां पर उनके अस्तित्वका कथन किया जाता है ।  
अथवा, उस समय वे योग शक्तिरूपसे विद्यमान रहते हैं, इसलिये इस अपेक्षासे उनका  
अस्तित्व कहा जाता है ।

इन सभी सूत्रोंमें समुच्चयरूप अर्थको प्रगट करनेवाला च शब्द नहीं होने पर  
भी सूत्रोक्त पदोंसे ही समुच्चयरूप अर्थ प्रगट हो जाता है, ऐसा समझ लेना चाहिये ।

अब सामान्य काययोगकी सत्ताके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—  
कार्ययोग पर्याप्तकोंके भी होता है, और अपर्याप्तकोंके भी होता है ॥ ६९ ॥

‘अपि’ शब्दः समुच्चयार्थे दृष्टव्यः । कः समुच्चयः ? एकस्य निर्दिष्टप्रदेशद्विप्रभृते-  
रुपनिपातः समुच्चयः । द्विरस्ति-शब्दोपादानमनर्थकमिति चेन्न, विस्तररुचिसत्त्वानुग्रहार्थ-  
त्वात् । संक्षेपरुचयो नानुग्रहीताश्चेन्न, विस्तररुचिसत्त्वानुग्रहस्य संक्षेपरुचिसत्त्वानुग्रहा-  
विनाभावित्वात् ।

पर्याप्तस्यैव एते योगाः भवन्ति, एते चोभयोरिति वचनमाकर्ण्य पर्याप्तिविषयजात-  
संशयस्य शिष्यस्य सन्देहापोहनार्थमुत्तरसूत्राण्यभाषीत्—

छ पञ्जतीओ, छ अपञ्जतीओ ॥ ७० ॥

पर्याप्तिनिःशेषलक्षणोपलक्षणार्थं तत्संख्यामेव प्रागाह । आहारशरीरेन्द्रियोच्छ्वास-  
निःश्वासभाषामनसां निष्पत्तिः पर्याप्तिः । ताश्च षट् भवन्ति, आहारपर्याप्तिः शरीरपर्याप्तिः

सूत्रमें जो अपि शब्द आया है वह समुच्चयार्थक जानना चाहिये ।

शंका--समुच्चय किसे कहते हैं ?

समाधान—किसी एक वस्तुके निर्दिष्ट स्थानमें दो आदि बार प्राप्त होनेको समुच्चय  
कहते हैं ।

शंका--सूत्रमें दो बार अस्ति शब्दका ग्रहण करना निरर्थक है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, विस्तारसे समझनेकी रुचि रखनेवाले शिष्योंके अनुग्रहके  
लिये सूत्रमें दो बार अस्ति पदका ग्रहण किया ।

शंका—तो इस सूत्रमें संक्षेपसे समझनेकी रुचि रखनेवाले शिष्य अनुग्रहीत नहीं  
किये गये ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, संक्षेपसे समझनेकी रुचि रखनेवाले जीवोंका अनुग्रह  
विस्तारसे समझनेकी रुचि रखनेवाले जीवोंके अनुग्रहका अविनाभावी है । अर्थात्; विस्तारसे  
कथन कर देने पर संक्षेपरुचि शिष्योंका काम चल ही जाता है, इसलिये यहां पर विस्तारसे  
कथन किया है ।

ये योग पर्याप्तकके ही होते हैं और ये योग दोनोंके होते हैं, इस वचनको सुनकर  
जिन शिष्योंके पर्याप्तिके विषयमें संशय उत्पन्न हो गया है, उनके संदेहको दूर करनेके लिये  
आगेका सूत्र कहा गया है—

छह पर्याप्तियां और छह अपर्याप्तियां होती हैं ॥ ७० ॥

पर्याप्तियोंके संपूर्ण लक्षणको बतलानेके लिये उनकी संख्या ही पहले कहीं गई है ।  
आहार, शरीर, इन्द्रिय, उच्छ्वासनिःश्वास, भाषा और मन, इनकी निष्पत्तिको पर्याप्ति कहते  
हैं । वे पर्याप्तियां छह होती हैं, आहारपर्याप्ति, शरीरपर्याप्ति, इन्द्रियपर्याप्ति, आनापान-

१ उत्पत्तिदेशमागतेन प्रथमं ये गृहीताः पुद्गलास्तेषां तथान्येषामपि प्रतिसमयं गृह्यमाणानां तत्सम्पर्कतस्त-  
द्रूपतया जातानां यः शक्तिविशेष आहारादिपुद्गलखलसरूपतापादनहेतुर्यथोदरान्तर्गतानां पुद्गलविशेषाणामाहारपुद्गलखल-  
सरूपतापरिणमनहेतुः सा पर्याप्तिः । जी. १ प्रति. ( अमि. रा. को., पञ्जति. )



इन्द्रियपर्याप्तिः आनापानपर्याप्तिः भाषापर्याप्तिः मनःपर्याप्तिरिति । एतासामेवानिष्पत्तिर-  
पर्याप्तिः । ताश्च पञ्च भवन्ति, आहारापर्याप्तिः शरीरापर्याप्तिः इन्द्रियापर्याप्तिः आनापाना-  
पर्याप्तिः भाषापर्याप्तिः मनोऽपर्याप्तिरिति । एतासां द्वादशानामपि पर्याप्तीनां स्वरूपं  
प्रागुक्तमिति पौनरुक्तिभयादिह नोच्यते ।

इदानीं तासामाधारप्रतिपादनार्थमुत्तरसूत्रमवोचत्—

सण्णामिच्छादृष्टि-प्पहुडि जाव असंजदसम्माइदृि ति ॥ ७१ ॥

सम्यग्मिथ्यादृष्टीनामपि पद् पर्याप्तयो भवन्तीति चेन्न, तत्र गुणेऽपर्याप्तकाला-  
भावात् । देशविरताद्युपरितनगुणानां किमिति पद् पर्याप्तयो न सन्तीति चेन्न, पर्याप्ति-  
नाम पण्णां पर्याप्तीनां समाप्तिः, न सोपरितनगुणेऽस्ति अपर्याप्तिचरमावस्थायामैकं-  
समयिक्या उपरि सत्त्वविरोधात्

पद्पर्याप्तिश्रवणात् पडेव पर्याप्तयः सन्तीति समुत्पन्नप्रत्ययस्य शिष्यस्याव-  
धारणात्मकप्रत्ययनिराकरणार्थमुत्तरसूत्रमवोचत्—

पर्याप्ति, भाषापर्याप्ति और मनःपर्याप्ति । इन छह पर्याप्तियोंकी अपूर्णताको ही अपर्याप्ति  
कहते हैं । अपर्याप्तियां भी छह ही होती हैं, आहार-अपर्याप्ति, शरीर-अपर्याप्ति, इन्द्रिय-  
अपर्याप्ति, आनापान-अपर्याप्ति, भाषा-अपर्याप्ति और मन-अपर्याप्ति । इन बारह पर्याप्तियोंका  
स्वरूप पहले कह आये हैं, इसलिये पुनरुक्ति दृषणके भयसे उनका स्वरूप फिरसे यहां नहीं  
कहते हैं ।

अब उन पर्याप्तियोंके आधारको बतलानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

उपर्युक्त सभी पर्याप्तियां संज्ञी मिथ्यादृष्टिसे लेकर असंयत सम्यग्दृष्टि गुणस्थानतक  
होती हैं ॥ ७१ ॥

शंका— तो क्या सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानवालोंके भी छह पर्याप्तियां होती हैं ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, उस गुणस्थानमें अपर्याप्त काल नहीं पाया जाता है ।

शंका— देशविरतादिक ऊपर के गुणस्थानवालोंके छह पर्याप्तियां क्यों नहीं होती हैं ?

समाधान— नहीं, क्योंकि छह पर्याप्तियोंकी समाप्तिका नाम ही पर्याप्ति है और  
यह समाप्ति चौथे गुणस्थान तक ही होनेसे पांचवें आदि ऊपरके गुणस्थानोंमें नहीं पायी  
जाती, क्योंकि, अपर्याप्तिकी अन्तिम अवस्थावर्ती एक समयमें पूर्ण हो जानेवाली पर्याप्तिकी  
आगेके गुणस्थानोंमें सत्त्व माननेसे विरोध उत्पन्न होता है ।

छह पर्याप्तियोंके सुननेसे जिस शिष्य को यह निश्चय होगया कि पर्याप्तियां छह  
ही होती हैं, हीनाधिक नहीं, उस शिष्यके ऐसे धारणारूप निश्चयको दूर करनेके लिये  
आगेका सूत्र कहा है—

## पंच पञ्जत्तीओ पंच अपञ्जत्तीओ ॥ ७२ ॥

पर्याप्तीनामपर्याप्तीनां च लक्षणमभाणीति नेदानीं भण्यते । पण्णां पर्याप्तीनामन्तः पञ्चापि सन्तीति पृथक् पर्याप्तिपञ्चकोपदेशोऽनर्थक इति चेन्न, क्वचिज्जीवविशेषे पदेव पर्याप्तयो भवन्ति, क्वचित्पञ्चैव भवन्तीति प्रतिपादनफलत्वात् । काः पञ्च पर्याप्तय इति चेन्मनोवर्जाः शेषाः पञ्च ।

ताः केषां भवन्तीति संशयानस्य शिष्यस्यारेकानिराकरणार्थमुत्तरसूत्रं वक्ष्यति—

## वीइंदिय-प्पहुडि जाव असण्णिपंचिदिया ति ॥ ७३ ॥

विकलेन्द्रियेष्वस्ति मनः तत्कार्यस्य विज्ञानस्य तत्र सत्त्वान्मनुष्येष्वेवेति न प्रत्यवस्थातुं युक्तं तत्रतनस्य विज्ञानस्य तत्कार्यत्वासिद्धेः । मनुष्येषु विज्ञानस्य तत्कार्यत्वं दृश्यत

पांच पर्याप्तियां और पांच अपर्याप्तियां होती हैं ॥ ७२ ॥

पर्याप्तियोंका और अपर्याप्तियोंका लक्षण पहले कह आये हैं, इसलिये अब फिरसे नहीं कहते हैं ।

शंका—पांच पर्याप्तियां छह पर्याप्तियोंके भीतर आ ही जाती हैं, इसलिये अलग-रूपसे पांच पर्याप्तियोंका कथन करना निष्फल है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, किन्हीं जीव-विशेषोंमें छहों पर्याप्तियां पाई जाती हैं, और किन्हीं जीवोंमें पांच ही पर्याप्तियां पाई जाती हैं । इस बातका प्रतिपादन करना इस सूत्रका फल है ।

शंका—वे पांच पर्याप्तियां कौनसी हैं ?

समाधान—मनःपर्याप्तिको छोड़कर शेष पांच पर्याप्तियां यहां पर ली गई हैं ।

वे पांच पर्याप्तियां किनके होती हैं, इसप्रकार संशयापन्न शिष्यकी शंका दूर करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

वे पांच पर्याप्तियां द्वीन्द्रिय जीवोंसे लेकर असंज्ञी-पंचेन्द्रियपर्यन्त होती हैं ॥ ७३ ॥

शंका—विकलेन्द्रिय जीवोंमें भी मन है, क्योंकि, मनका कार्य जो विज्ञान मनुष्योंमें है वही विकलेन्द्रिय जीवोंमें भी पाया जाता है ?

समाधान—यह बात निश्चय करने योग्य नहीं है, क्योंकि, विकलेन्द्रियोंमें रहनेवाला विज्ञान मनका कार्य है, यह बात असिद्ध है ।

शंका—मनुष्योंमें जो विशेष ज्ञान होता है वह मनका कार्य है, यह बात तो देखी जाती है ?

समाधान—मनुष्योंका विशेष विज्ञान यदि मनका कार्य है तो रहा आवे, क्योंकि,

इति चेदस्तु, क्वचिद् दृष्टत्वात् । मनसः कार्यत्वेन प्रतिपन्नविज्ञानेन सह तत्रतनविज्ञानस्य ज्ञानत्वं प्रत्यविशेषान्मनोनिबन्धनत्वमनुमीयत इति चेन्न, भिन्नजातिस्थितविज्ञानेन सहाविशेषानुपपत्तेः । न प्रत्यक्षेणाप्येव आगमो बाध्यते तत्र प्रत्यक्षस्य वृत्त्यभावात् । विकलेन्द्रियेषु मनसोऽभावः कुतोऽवसीयत इति चेदापात् । कथमार्पस्य ग्रामाण्यमिति चेत्स्वाभाव्यात्प्रत्यक्षस्येव ।

पुनरपि पर्याप्तिसंख्यासत्त्वभेदप्रदर्शनार्थमुत्तरसूत्रमाह—

चत्वारि पञ्जतीओ चत्वारि अपञ्जतीओ ॥ ७४ ॥

केषुचित्प्राणिषु चतस्र एव पर्याप्तयोऽपर्याप्तयो वा भवन्ति । कास्ताश्चतस्र इति चेदाहारशरीरेन्द्रियानापानपर्याप्तयः इति । शेषं सुगमम् ।

चतुर्णामपि पर्याप्तीनामधिपतिजीवप्रतिपादनार्थमुत्तरसूत्रमाह—

एइंदियाणं ॥ ७५ ॥

वह क्वचित् अर्थात् मनुष्योंमें देखा जाता है ।

शंका—मनुष्योंमें मनके कार्यरूपसे स्वीकार किये गये विज्ञानके साथ विकलेन्द्रियोंमें होनेवाले विज्ञानकी ज्ञानसामान्यकी अपेक्षा कोई विशेषता नहीं है, इसलिये यह अनुमान किया जाता है कि विकलेन्द्रियोंका विज्ञान भी मनसे होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, भिन्न जातिमें स्थित विज्ञानके साथ भिन्न जातिमें स्थित विज्ञानकी समानता नहीं बन सकती है। 'विकलेन्द्रियोंके मन नहीं होता है' यह आगम प्रत्यक्षसे भी बाधित नहीं है, क्योंकि, वहां पर प्रत्यक्षकी प्रवृत्ति ही नहीं होती है ।

शंका—विकलेन्द्रियोंमें मनका अभाव है यह बात किस प्रमाणसे जानी जाती है ?

समाधान—आगम प्रमाणसे जाना जाता है कि विकलेन्द्रियोंके मन नहीं होता है ।

शंका—आर्पको प्रमाण कैसे माना जाय ?

समाधान—जैसे प्रत्यक्ष स्वभावतः प्रमाण है उसीप्रकार आर्प भी स्वभावतः प्रमाण है ।

फिर भी पर्याप्तियोंकी संख्याके अस्तित्वमें भेद बतानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—  
चार पर्याप्तियां और चार अपर्याप्तियां होती हैं ॥ ७४ ॥

किन्हीं जीवोंमें चार पर्याप्तियां अथवा किन्हींमें चार अपर्याप्तियां होती हैं ।

शंका—वे चार पर्याप्तियां कौनसी हैं ?

समाधान—आहारपर्याप्ति, शरीरपर्याप्ति, इन्द्रियपर्याप्ति और आनापानपर्याप्ति ।  
शेष कथन सुगम है ।

चारों पर्याप्तियोंके अधिकारी जीवोंके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—  
उक्तं चारों पर्याप्तियां पकेन्द्रिय जीवोंके होती हैं ॥ ७५ ॥

ताश्चतस्रोऽपि पर्याप्तय एकेन्द्रियाणामेव नान्येषाम् । एकेन्द्रियाणां नोच्छ्वास-  
मुपलभ्यते चेन्न, आपर्त्तदुपलम्भात् । प्रत्यक्षेणागमो बाध्यत इति चेद्भवत्वस्य बाधा प्रत्यक्षा-  
त्प्रत्यक्षीकृताशेषप्रमेयात् । न चेन्द्रियजं प्रत्यक्षं समस्तवस्तुविषयं येन तद्विषयीकृतस्य  
वस्तुनो भावो भेदीयते ।

एवं पर्याप्त्यपर्याप्तिरभिधाय साम्प्रतममुष्मिन्नयं योगो भवत्यमुष्मिंश्च न भवतीति  
प्रतिपादनार्थमुत्तरसूत्रमाह—

ओरालिकायजोगो पञ्जत्ताणं ओरालियमिस्सकायजोगो  
अपञ्जत्ताणं ॥ ७६ ॥

पङ्क्तिः पञ्चभिश्चतसृभिर्वा पर्याप्तिभिर्निष्पन्नाः परिनिष्ठितास्तिर्यञ्चो मनुष्याश्च  
पर्याप्ताः । किमेकया पर्याप्त्या निष्पन्नः पर्याप्तः उत साकल्येन निष्पन्न इति ? शरीर-

वे चारों पर्याप्तियां एकेन्द्रिय जीवोंके ही होती हैं, दूसरोंके नहीं ।

शंका—एकेन्द्रिय जीवोंके उच्छ्वास तो नहीं पाया जाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, एकेन्द्रियोंके श्वासोच्छ्वास होता है, यह बात आगम  
प्रमाणसे जानी जाती है ।

शंका—प्रत्यक्षसे यह आगम बाधित है ?

समाधान—जिसने संपूर्ण पदार्थों को प्रत्यक्ष कर लिया है ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाणसे  
यदि बाधा संभव हो तो वह प्रत्यक्षबाधा कही जा सकती है । परंतु इन्द्रियप्रत्यक्ष तो संपूर्ण  
पदार्थोंको विषय ही नहीं करता है, जिससे कि इन्द्रियप्रत्यक्षकी विषयताको नहीं प्राप्त  
होनेवाले पदार्थोंमें भेद किया जा सके ।

इसप्रकार पर्याप्ति और अपर्याप्तिर्योंका कथन करके अब इस जीवमें यह योग  
होता है और इस जीवमें यह योग नहीं होता है, इसका कथन करनेके लिये आगेका  
सूत्र कहते हैं—

औदारिककाययोग पर्याप्तकोंके और औदारिकमिश्रकाययोग अपर्याप्तकोंके होता  
है ॥ ७६ ॥

शंका—छह पर्याप्ति, पांच पर्याप्ति अथवा चार पर्याप्तियोंसे पूर्णताको प्राप्त हुए तिर्यंच  
और मनुष्य पर्याप्तक कहलाते हैं । तो क्या उनमेंसे किसी एक पर्याप्तिसे पूर्णताको प्राप्त हुआ  
पर्याप्तक कहलाता है या संपूर्ण पर्याप्तियोंसे पूर्णताको प्राप्त हुआ पर्याप्तक कहलाता है ?

१ ओरालं पञ्जत्ते श्रावरकायादि जाव जोगो चि । तम्मिस्ससमपञ्जत्ते चदुगुणठाणेसु णियमेण ॥  
गो. जी. ६८०.

योगोऽपर्याप्तकस्येति न घटामटेदिति चेन्न, अनवगतसूत्राभिप्रायत्वात् । तद्यथा, भवत्वसौ पर्याप्तकः औदारिकशरीरगतपट्पर्याप्त्यपेक्षया, आहारशरीरगतपर्याप्तिनिष्पत्त्यभावापेक्षया त्वपर्याप्तकोऽसौ । पर्याप्तापर्याप्तत्वयोर्नैकत्राक्रमेण संभवो विरोधादिति चेन्न, पर्याप्तापर्याप्तयोगयोरक्रमेणैकत्र न सम्भवः इतीष्टत्वात् । कथं न पूर्वोऽभ्युपगमः इति विरोध इति चेन्न, भूतपूर्वगतन्यायापेक्षया विरोधासिद्धेः । विनष्टौदारिकशरीरसम्बन्ध-पट्पर्याप्तेरपरिनिष्ठिताहारशरीरगतपर्याप्तेरपर्याप्तस्य कथं संयम इति चेन्न, संयमस्या-स्रवनिरोधलक्षणस्य मन्दयोगेन सह विरोधासिद्धेः । विरोधे वा न केवलिनोऽपि समुद्रातगतस्य संयमः तत्राप्यपर्याप्तकयोगास्तित्वं प्रत्यविशेषात् । ' संजदासंजदद्व्याणे

है यह कथन नहीं बन सकता है ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, ऐसा कहनेवाला आगमके अभिप्रायको ही नहीं समझा है । आगमका अभिप्राय तो इसप्रकार है कि आहारकशरीरको उत्पन्न करनेवाला साधु औदारिक शरीरगत छह पर्याप्तियोंकी अपेक्षा पर्याप्तक भले ही रहा आवे, किन्तु आहारकशरीरसंबन्धी पर्याप्तिके पूर्ण होनेकी अपेक्षा वह अपर्याप्तक है ।

शंका— पर्याप्त और अपर्याप्तपना एकसाथ एक जीवमें संभव नहीं है, क्योंकि, एकसाथ एक जीवमें इन दोनोंके रहनेमें विरोध आता है ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, एकसाथ एक जीवमें पर्याप्त और अपर्याप्तसंबन्धी योग संभव नहीं है, यह बात हमें इष्ट ही है ।

शंका— तो फिर हमारा पूर्व कथन क्यों न मान लिया जाय, अतः आपके कथनमें विरोध आता है ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, भूतपूर्व न्यायकी अपेक्षा विरोध असिद्ध है । अर्थात् औदारिक शरीरसंबन्धी पर्याप्तपनेकी अपेक्षा आहारकमिश्र अवस्थामें भी पर्याप्तपनेका व्यवहार किया जा सकता है ।

शंका— जिसके औदारिक शरीरसंबन्धी छह पर्याप्तियां नष्ट हो चुकी हैं, और आहारक शरीरसंबन्धी पर्याप्तियां अभी तक पूर्ण नहीं हुई हैं ऐसे अपर्याप्तक साधुके संयम कैसे हो सकता है ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, जिसका लक्षण आश्रवका निरोध करना है ऐसे संयमका मन्दयोग ( आहारकमिश्रयोग ) के साथ होनेमें कोई विरोध नहीं आता है । यदि इस मन्दयोगके साथ संयमके होनेमें विरोध आता ही है ऐसा माना जावे, तो समुद्रातको प्राप्त हुए केवलीके भी संयम नहीं हो सकेगा, क्योंकि, वहां पर भी अपर्याप्तकसंबन्धी योगका सद्भाव पाया जाता है इसमें कोई विशेषता नहीं है ।

णियमा पज्जत्ता ' इत्यनेनार्षेण सह कथं न विरोधः स्यादिति चेन्न, द्रव्यार्थिकनया-  
पेक्षया प्रवृत्तसूत्रस्याभिप्रायेणाहारशरीरानिष्पत्त्यवस्थायामपि पट्पर्याप्तीनां सत्त्वाविरोधात् ।  
कार्मणकाययोगः पर्याप्तेष्वपर्याप्तेषु भयत्र वा भवतीति नोक्तम्, तन्निश्चयः कुतो भवेत् ?  
' कम्मइयकायजोगो विग्गहगइ-समावण्णाणं केवलीणं वा समुग्घाद-गदाणं ' इत्येतस्मा-  
त्सूत्रादपर्याप्तेष्वेव कार्मणकाययोग इति निश्चीयते ।

पर्याप्तिष्वपर्याप्तिषु च योगानां सत्त्वमसत्त्वं चाभिधायेदानीं गतिषु तत्र गुण-  
स्थानानां सत्त्वासत्त्वप्रतिपादनार्थमुत्तरसूत्रमाह —

णेरइया मिच्छाइट्ठि-असंजदसम्माइट्ठिण्णे सिया पज्जत्ता  
सिया अपज्जत्ता ॥ ७९ ॥

नारका इत्यनेन बहुवचनेन स्यादित्येतस्य एकवचनस्य न सामानाधिकरण्य-

शंका—' संयतासंयतसे लेकर सभी गुणस्थानोंमें जीव नियमसे पर्याप्तक होते हैं ' इस  
आर्षवचनके साथ उपर्युक्त कथनका विरोध क्यों नहीं आजायगा ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षासे प्रवृत्त हुए इस सूत्रके  
अभिप्रायसे आहारक शरीरकी अपर्याप्त अवस्थामें भी औदारिक शरीरसंबन्धी छह पर्याप्तियोंके  
होनेमें कोई विरोध नहीं आता है ।

शंका—कार्मणकाययोग पर्याप्त होने पर होता है, या अपर्याप्त रहने पर होता है,  
अथवा दोनों अवस्थाओंमें होता है, यह कुछ भी नहीं कहा, इसलिये इसका निश्चय कैसे  
किया जाय ?

समाधान—' विग्रहगतिको प्राप्त चारों गतिके जीवोंके और समुद्धातगत केवलियोंके  
कार्मणकाययोग होता है ' इस सूत्रके कथनानुसार अपर्याप्तकोंके ही कार्मणकाययोग होता  
है, इस कथनका निश्चय हो जाता है ।

इसप्रकार पर्याप्ति और अपर्याप्तियोंमें योगोंके सत्त्व और असत्त्वका कथन करके अब  
चार गतिसंबन्धी पर्याप्ति और अपर्याप्तियोंमें गुणस्थानोंके सत्त्व और असत्त्वके प्रतिपादन  
करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

नारकी जीव मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें पर्याप्तक होते हैं और  
अपर्याप्तक भी होते हैं ॥ ७९ ॥

शंका—सूत्रमें आये हुए ' नारकाः ' इस बहुवचनके साथ ' स्यात् ' इस एक वचनका  
समानाधिकरण नहीं बन सकता है ?

मिति चेन्न, एकस्य नानात्मकस्य नानात्वाविरोधात् । विरुद्धयोः कथमेकमधिकरणमिति चेन्न, दृष्टत्वात् । न हि दृष्टेऽनुपपन्नता<sup>१</sup> । नारकाः मिथ्यादृष्टयोऽसंयतसम्यग्दृष्टयश्च पर्याप्ताश्चापर्याप्ताश्च भवन्ति । समुच्चयावगतये चशब्दोऽत्र वक्तव्यः<sup>२</sup>, सामर्थ्य-लभ्यत्वात् ।

तत्रतनशेषगुणद्वयप्रदेशप्रतिपादनार्थमाह—

**सासणसम्माइट्टि-सम्मामिच्छाइट्टि-ट्टाणे णियमा पज्जत्ता ॥८०॥**

नारकाः निष्पन्नपदपर्याप्तयः सन्तः ताभ्यां गुणाभ्यां परिणमन्ते नापर्याप्ता-वस्थायाम् । किमिति तत्र तौ नोत्पद्येते इति चेत्तयोस्तत्रोत्पत्तिनिमित्तपरिणामाभावात् ।

समाधान—नहीं, क्योंकि, एक भी नानात्मक होता है, इसलिये एकको नानारूप मान लेनेमें कोई विरोध नहीं आता है ।

शंका--विरुद्ध दो पदार्थोंका एकाधिकरण कैसे हो सकता है ?

समाधान--नहीं, क्योंकि, विरुद्ध दो पदार्थोंका भी एकाधिकरण देखा जाता है । और देखे गये कार्यमें यह नहीं बन सकता यह कहा नहीं जा सकता है । अतः सिद्ध हुआ कि मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि नारकी पर्याप्तक भी होते हैं और अपर्याप्तक भी होते हैं ।

शंका—समुच्चयका ज्ञान करानेके लिये इस सूत्रमें च शब्दका कथन करना चाहिये ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, वह सामर्थ्यसे ही प्राप्त हो जाता है ।

अब नारकसंबन्धी शेष दो गुणस्थानोंके आधारके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

नारकी जीव सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें नियमसे पर्याप्तक होते हैं ॥ ८० ॥

जिनकी छह पर्याप्तियां पूर्ण हो गई हैं ऐसे नारकी ही इन दो गुणस्थानोंके साथ परिणत होते हैं, अपर्याप्त अवस्थामें नहीं ।

शंका—नारकियोंकी अपर्याप्त अवस्थामें ये दो गुणस्थान क्यों नहीं उत्पन्न होते हैं ?

समाधान—क्योंकि, नारकियोंकी अपर्याप्त अवस्थामें इन दो गुणस्थानोंकी उत्पत्तिके निमित्तभूत परिणामोंका अभाव है, इसलिये उनकी अपर्याप्त अवस्थामें ये दो गुणस्थान नहीं होते हैं ।

१ स्वभावेऽप्यक्षतः सिद्धे यदि पर्यनुच्यते । तत्रोत्तरमिदं युक्तं न दृष्टेऽनुपपन्नता ॥ स. त. पृ. २६.

सोऽपि किमिति तयोर्न स्यादिति चेत्स्वाभाव्यात् । नारकाणामग्निसंस्वन्धाद्भस्मसाद्भाव-  
मुपगतानां पुनर्भस्मनि समुत्पद्यमानानामपर्याप्ताद्वायां गुणद्वयस्य सत्त्वाविरोधान्नियमेन  
पर्याप्ता इति न घटत इति चेन्न, तेषां मरणाभावात् । भावे वा न ते तत्रोत्पद्यन्ते,  
' गिरयादो णेरइया उवड्ढिदसमाणा णो गिरयगदिं जादि णो देवगदिं जादि, तिरिक्ख-  
गदिं मणुसगदिं च जादि ' इत्यनेनार्षेण निषिद्धत्वात् । आयुषोऽवसाने म्रियमाणानामेष  
नियमश्चेन्न, तेषामपमृत्योरसत्त्वात् । भस्मसाद्भावमुपगतदेहानां तेषां कथं पुनर्मरणमिति  
चेन्न, देहविकारस्यायुर्विच्छिद्यनिमित्तत्वात् । अन्यथा बालवस्थातः प्राप्तयौवनस्यापि  
मरणप्रसङ्गात् ।

शंका — इसप्रकारके परिणाम उन दो गुणस्थानोंमें क्यों नहीं होते हैं ?

समाधान — क्योंकि, ऐसा स्वभाव ही है ।

शंका — अग्निके संवन्धसे भस्मीभावको प्राप्त हुए और फिर भी उसी भस्ममें होने-  
वाले नारकियोंके अपर्याप्त कालमें इन दो गुणस्थानोंके होनेमें कोई विरोध नहीं आता है,  
अर्थात् छेदन भेदन आदिसे नष्ट हुए शरीरके पश्चात् पुनः उन्हीं अवयवोंमें उत्पन्न होनेवाले जीवोंके  
सासादन और मिश्र गुणस्थान माननेमें कोई विरोध नहीं आता है, इसलिये इन गुणस्थानोंमें  
नारकी नियमसे पर्याप्तक होते हैं, यह नियम नहीं बनता है ?

समाधान - नहीं, क्योंकि, अग्नि आदि निमित्तोंसे नारकियोंका मरण नहीं होता  
है । यदि नारकियोंका मरण हो जावे, तो पुनः वे वहाँ पर उत्पन्न नहीं होते हैं, क्योंकि,  
' जिनकी आयु पूर्ण हो गई है ऐसे नारकी जीव नरकगतिसे निकलकर पुनः नरकगतिको  
नहीं जाते हैं, देवगतिको नहीं जाते हैं । किंतु तिर्यचगति और मनुष्यगतिको जाते हैं ' इस  
आर्ष वचनके अनुसार नारकियोंका पुनः नरकगतिमें उत्पन्न होना निषिद्ध है ।

शंका—आयुके अन्तमें मरनेवाले नारकियोंके लिये ही यह सूत्रोक्त नियम लागू  
होना चाहिये ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, नारकी जीवोंके अपमृत्युका सद्भाव नहीं पाया जाता है ।  
अर्थात् नारकियोंका आयुके अन्तमें ही मरण होता है, बीचमें नहीं ।

शंका—यदि उनकी अपमृत्यु नहीं होती है, तो जिनका शरीर भस्मीभावको प्राप्त  
हो गया है ऐसे नारकियोंका पुनर्मरण कैसे बनेगा ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, देहका विकार आयुकर्मके विनाशका  
निमित्त नहीं है । अन्यथा जिसने बाल-अवस्थाके पश्चात् यौवन-अवस्थाको प्राप्त कर लिया  
है ऐसे जीवके भी मरणका प्रसंग आ जायगा ।



नारकाणामोद्यमविधायदेशप्रतिपादनार्थमाह—

एवं पठमाए पुठवीए णेरइया ॥ ८१ ॥

प्रथमायां पृथिव्यां ये नारकास्तेषां नारकाणां सामान्योक्तरूपेण<sup>१</sup> भवन्ति । कुतो? विशेषाभावात् । यदि सामान्यप्ररूपणया प्रथमपृथिवीगतनारका एव निरूपिता भवेयुरलं तथा, विशेषनिरूपणतयैव तदवगतेरिति ? न, द्रव्यार्थिकनयात् सत्त्वानुग्रहार्थं तत्प्रवृत्तेः । विशेषप्ररूपणमन्तरेण न सामान्यप्ररूपणतोऽर्थावगतिर्भवतीति तथा निरूपणमनर्थकमिति चेन्न, बुद्धीनां वैचित्र्यात् । तथाविधबुद्धयो नेदानीमुपलभ्यन्त इति चेन्न, अस्याप्यस्य त्रिकालगोचरानन्तप्राण्यपेक्षया प्रवृत्तत्वात् ।

शेषपृथिवीनारकाणां प्रतिपादनार्थमाह —

इसप्रकार सामान्यरूपसे नारकियोंका कथन करके अब विशेषरूपसे कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

इसीप्रकार प्रथम पृथिवीमें नारकी होते हैं ॥ ८१ ॥

प्रथम पृथिवीमें जो नारकी रहते हैं उनकी पर्याप्तियां और अपर्याप्तियां नरकगतिके सामान्य कथनके अनुसार होती हैं, क्योंकि, नरकगतिसंबन्धी सामान्य कथनमें और प्रथम पृथिवीसंबन्धी कथनमें कोई विशेषता नहीं है ।

शंका—यदि सामान्यप्ररूपणाके द्वारा प्रथम पृथिवीसंबन्धी नारकी ही निरूपित किये गये हैं, तो सामान्यप्ररूपणाके कथन करनेसे रहने दो, क्योंकि, विशेषप्ररूपणासे ही उसका ज्ञान हो जायगा ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा रखनेवाले जीवोंके अनुग्रहके लिये सामान्यप्ररूपणाकी प्रवृत्ति मानी गई है ।

शंका—विशेषप्ररूपणाके बिना केवल सामान्यप्ररूपणासे अर्थका ज्ञान नहीं हो सकता है, ऐसी हालतमें सामान्यप्ररूपणाका कथन करना निष्फल है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, श्रोताओंकी बुद्धि अनेक प्रकारकी होती है, इसलिये विशेष प्ररूपणाके कथनके समान सामान्यप्ररूपणाका कथन करना भी निष्फल नहीं है ।

शंका—जो सामान्यसे पदार्थको समझ लेते हैं ऐसे बुद्धिमान् पुरुष इस कालमें तो नहीं पाये जाते हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, आगम तो त्रिकालमें होनेवाले अनन्त प्राणियोंकी अपेक्षा प्रवृत्त होता है ।

शेष पृथिवियोंमें रहनेवाले नारकियोंके विशेष कथनके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

१ 'पर्याप्तयोऽपर्याप्तयश्च' इति पाठशेषः ।

विदियादि जाव सत्तमाए पुढवीए णेरइया मिच्छाइट्टि-ट्टाणे  
सिया पज्जत्ता सिया अपज्जत्ता ॥ ८२ ॥

अधस्तनीपु पट्सु पृथिवीपु मिथ्यादृष्टीनामुत्पत्तेः सत्त्वात् । पृथिवीशब्दः  
प्रत्येकमभिसम्बन्धनीयः । सुगममन्यत् ।

शेषगुणस्थानानां तत्र क सत्त्वं क च न भवेदिति जातारेकस्य भव्यस्यारेका-  
निरसनार्थमाह—

सासणसम्माइट्टि-सम्मामिच्छाइट्टि-असंजदसम्माइट्टि-ट्टाणे णि-  
यमा पज्जत्ता ॥ ८३ ॥

भवतु नाम सम्यग्मिथ्यादृष्टेस्तत्रानुत्पत्तिः । सम्यग्मिथ्यात्वपरिणाममधिष्ठितस्य  
मरणाभावात् । भवति च तस्य मरणं गुणान्तरमुपादाय । न च तत्र स गुणोऽस्तीति ।  
किन्त्वेतन्न युज्यते शेषगुणस्थानप्राणिनस्तत्र नोत्पद्यन्त इति ? न तावत् सासादनस्तत्रोत्पद्यते

दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तक रहनेवाले नारकी मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें  
पर्याप्त भी होते हैं और अपर्याप्त भी होते हैं ॥ ८२ ॥

प्रथम पृथिवीको छोड़कर शेष छह पृथिवियोंमें मिथ्यादृष्टि जीवोंकी ही उत्पत्ति पाई  
जाती है, इसलिये वहां पर प्रथम गुणस्थानमें पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों अवस्थायें बतलाई  
गई हैं । सूत्रमें आया हुआ पृथिवी शब्द प्रत्येक नरकके साथ जोड़ लेना चाहिये । शेष  
व्याख्यान सुगम है ।

उन पृथिवियोंकी किस अवस्थामें शेष गुणस्थानोंका सद्भाव है और किस अवस्थामें  
नहीं, इसप्रकार जिसको शंका उत्पन्न हुई है उस भव्यकी शंकाके दूर करनेके लिये आगेका सूत्र  
कहते हैं—

दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तक रहनेवाले नारकी सासादनसम्यग्दृष्टि  
सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें नियमसे पर्याप्तक होते हैं ॥ ८३ ॥

शंका—सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवकी मरकर शेष छह पृथिवियोंमें भी उत्पत्ति नहीं होती है,  
क्योंकि, सम्यग्मिथ्यात्वरूप परिणामको प्राप्त हुए जीवका मरण ही नहीं होता है । यदि उसका  
मरण भी होता है तो किसी दूसरे गुणस्थानको प्राप्त होकर ही होता है । परंतु मरणकालमें  
वह गुणस्थान नहीं होता, यह सब ठीक है । किंतु शेष ( दूसरे, चौथे ) गुणस्थानवाले प्राणी  
मरकर वहां पर उत्पन्न नहीं होते, यह कहना नहीं बनता है ?

समाधान—सासादन गुणस्थानवाले तो नरकमें उत्पन्न ही नहीं होते हैं, क्योंकि,

तस्य नरकायुषो बन्धाभावात् । नापि बद्धनरकायुष्कः सासादनं प्रतिपद्य नारकेपूतपद्यते  
 तस्य तस्मिन् गुणे मरणाभावात् । नासंयतसम्यग्दृष्टयोऽपि तत्रोत्पद्यन्ते तत्रोत्पत्तिनिमित्ता-  
 भावात् । न तावत्कर्मस्कन्धबहुत्वं तस्य तत्रोत्पत्तेः कारणं क्षपितकर्माज्ञानामपि जीवानां  
 तत्रोत्पत्तिदर्शनात् । नापि कर्मस्कन्धाणुत्वं तत्रोत्पत्तेः कारणं गुणितकर्माज्ञानामपि  
 तत्रोत्पत्तिदर्शनात् । नापि नरकगतिकर्मणः सत्त्वं तस्य तत्रोत्पत्तेः कारणं तत्सत्त्वं प्रत्य-  
 विशेषतः सकलपञ्चेन्द्रियाणामपि नरकप्राप्तिप्रसङ्गात् । नित्यनिगोदानामपि विद्यमान-  
 त्रसकर्मणां त्रसेपूतपत्तिप्रसङ्गात् । नाशुभलेख्यानां सत्त्वं तत्रोत्पत्तेः कारणं मरणावस्थायाम-  
 संयतसम्यग्दृष्टेः पद्सु पृथिवीपूतपत्तिनिमित्ताशुभलेख्याभावात् । न नरकायुषः सत्त्वं तस्य  
 तत्रोत्पत्तेः कारणं सम्यग्दर्शनासिना छिन्नपद्पृथिव्यायुष्कत्वात् । न च तच्छेदोऽसिद्धः  
 आर्पात्तसिद्ध्युपलम्भात् । ततः स्थितमेतत् न सम्यग्दृष्टिः पद्सु पृथिवीपूतपद्यते इति ।

सासादन गुणस्थानवालेके नरकायुका बन्ध ही नहीं होता है । जिसने पहले नरकायुका बन्ध  
 कर लिया है ऐसे जीव भी सासादन गुणस्थानको प्राप्त होकर नारकियोंमें उत्पन्न नहीं होते  
 हैं, क्योंकि, नरकायुका बन्ध करनेवाले जीवका सासादन गुणस्थानमें मरण ही नहीं  
 होता है । असंयतसम्यग्दृष्टि जीव भी द्वितीयादि पृथिवियोंमें उत्पन्न नहीं होते हैं, क्योंकि,  
 सम्यग्दृष्टियोंके शेष छह पृथिवियोंमें उत्पन्न होनेके निमित्त नहीं पाये जाते हैं । यदि कर्म-  
 स्कन्धोंकी अधिकता असंयतसम्यग्दृष्टि जीवके शेष छह नरकोंमें उत्पत्तिका कारण कहा जावे,  
 सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि, जिन्होंने बहुतसे कर्मस्कन्धोंका क्षय कर दिया है ऐसे जीवोंकी  
 भी नरकमें उत्पत्ति देखी जाती है । कर्मस्कन्धोंकी अल्पता भी नरकमें उत्पत्तिका कारण नहीं  
 है, क्योंकि, जिनके उत्तरोत्तर गुणित कर्मस्कन्ध पाये जाते हैं उनकी भी वहां पर उत्पत्ति  
 देखी जाती है । नरकगतिका सत्त्व भी सम्यग्दृष्टिके नरकमें उत्पत्तिका कारण कहना ठीक नहीं  
 है, क्योंकि, नरकगतिके सत्त्वके प्रति कोई विशेषता न होनेसे सभी पंचेन्द्रिय जीवोंको नरक-  
 गतिकी प्राप्तिका प्रसंग आजायगा । तथा नित्यनिगोदिया जीवोंके भी त्रसकर्मकी सत्ता  
 विद्यमान रहती है, इसलिये उनकी भी त्रसोंमें उत्पत्ति होने लगेगी । अशुभ लेख्याके सत्त्वको  
 नरकमें उत्पत्तिका कारण कहना ठीक नहीं है, क्योंकि, मरणके समय असंयतसम्यग्दृष्टि  
 जीवके नीचेकी छह पृथिवियोंमें उत्पत्तिका कारणरूप अशुभ लेख्याएं नहीं पाई जाती हैं ।  
 नरकायुका सत्त्व भी सम्यग्दृष्टिके नीचेकी छह पृथिवियोंमें उत्पत्तिका कारण नहीं है, क्योंकि,  
 सम्यग्दर्शनरूपी खड्गसे नीचेकी छह पृथिवीसंबन्धी आयु काट दी जाती है । नीचेकी छह  
 पृथिवीसंबन्धी आयुका कटना आसिद्ध भी नहीं है, क्योंकि, आगमसे इसकी पुष्टि होती है ।  
 इसलिये यह सिद्ध हुआ कि नीचेकी छह पृथिवियोंमें सम्यग्दृष्टी जीव उत्पन्न नहीं होता है ।

तिर्यग्गतौ गुणस्थानानां सत्त्वावस्थाप्रतिपादनार्थमाह—

तिरिक्त्वा मिच्छादृष्टि-सासणसम्मादृष्टि-असंजदसम्मादृष्टि-ट्टाणे  
सिया पज्जत्ता, सिया अपज्जत्ता ॥ ८४ ॥

भवतु नाम मिथ्यादृष्टिसासादनसम्यग्दृष्टीनां तिर्यक्षु पर्याप्तापर्याप्तद्वयोः सत्त्वं तयोस्तत्रोत्पत्त्यविरोधात् । सम्यग्दृष्टयस्तु पुनर्नोत्पद्यन्ते तिर्यगपर्याप्तपर्यायेण सम्यग्दर्शनस्य विरोधादिति ? न विरोधः, अस्वार्थस्याप्रामाण्यप्रसङ्गात् । क्षायिकसम्यग्दृष्टिः सेविततीर्थकरः क्षपितसप्तप्रकृतिः कथं तिर्यक्षु दुःखभूयस्सूतपद्यते इति चेन्न, तिरश्चां नारकेभ्यो दुःखाधिक्याभावात् । नारकेष्वपि सम्यग्दृष्टयो नोत्पत्स्यन्त इति चेन्न, तेषां तत्रोत्पत्तिप्रतिपादकार्पोपलम्भात् । किमिति ते तत्रोत्पद्यन्त इति चेन्न, सम्यग्दर्शनोपादानात् प्राड् मिथ्यादृष्ट्यवस्थायां वद्वतिर्यङ्नरकायुष्कत्वात् । सम्यग्दर्शनेन तत्

अब तिर्यचगतिमें गुणस्थानोंके सद्भावके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

तिर्यच मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें पर्याप्त भी होते हैं और अपर्याप्त भी होते हैं ॥ ८४ ॥

मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंकी तिर्यचोंसंबन्धी पर्याप्त और अपर्याप्त अवस्थामें भले ही सत्ता रही आवे, क्योंकि, इन दो गुणस्थानोंकी तिर्यचसंबन्धी पर्याप्त और अपर्याप्त अवस्थामें उत्पत्ति होनेमें कोई विरोध नहीं आता है । परंतु सम्यग्दृष्टि जीव तो तिर्यचोंमें उत्पन्न नहीं होते हैं, क्योंकि, तिर्यचोंकी अपर्याप्त पर्यायके साथ सम्यग्दर्शनका विरोध है ?

समाधान—विरोध नहीं है, फिर भी यदि विरोध माना जावे तो ऊपरका सूत्र अप्रमाण हो जायगा ।

शंका—जिसने तीर्थकरकी सेवा की है और जिसने मोहनीयकी सात प्रकृतियोंका क्षय कर दिया है ऐसा क्षायिक-सम्यग्दृष्टि जीव दुःखबहुल तिर्यचोंमें कैसे उत्पन्न होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, तिर्यचोंके नारकियोंकी अपेक्षा अधिक दुःख नहीं पाये जाते हैं ।

शंका—तो फिर नारकियोंमें भी सम्यग्दृष्टि जीव उत्पन्न नहीं होंगे ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, सम्यग्दृष्टियोंकी नारकियोंमें उत्पत्तिका प्रतिपादन करने-वाला आगम-प्रमाण पाया जाता है ।

शंका—सम्यग्दृष्टि जीव नारकियोंमें क्यों उत्पन्न होते हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, जिन्होंने सम्यग्दर्शनको ग्रहण करनेके पहले मिथ्यादृष्टि

किमिति न छिद्यते ? इति चेत् किमिति तन्न छिद्यते ? अपि तु न तस्य निर्मूलच्छेदः । तदपि कुतः ? स्वाभाव्यात् ।

तत्र सम्यग्मिथ्यादृष्ट्यादिस्वरूपनिरूपणार्थमाह—

**सम्पामिच्छादृष्टि-संजदासंजद-दृष्टाणे णियमा पज्जत्ता ॥ ८५ ॥**

मनुष्याः मिथ्यादृष्ट्यवस्थायां वद्वतिर्यगायुपः पश्चात्सम्यग्दर्शनेन सहात्ता-प्रत्याख्यानाः क्षपितसप्तप्रकृतयस्तिर्यक्षु किन्नोत्पद्यन्ते ? इति चेत् किंचातोऽप्रत्याख्यान-गुणस्य तिर्यगपर्याप्तेषु सत्त्वापत्तिः ? न, देवगतिव्यतिरिक्तगतित्रयसम्बद्धायुपोपलक्षिताना-मणुव्रतोपादानबुद्धयनुत्पत्तेः । उक्तं च —

चत्तारि वि छेत्ताइं आउग-बंधे वि होइ सम्मत्तं ।

अणुवद-महव्रदाइं ण लहइ देवायुगं मोत्तुं ॥ १६९ ॥

अवस्थामें तिर्यचायु और नरकायुका बन्ध कर लिया है उनकी सम्यग्दर्शनके साथ वहां पर उत्पत्ति माननेमें कोई आपत्ति नहीं आती है ।

शंका—सम्यग्दर्शनकी सामर्थ्यसे उस आयुका छेद क्यों नहीं हो जाता है ?

समाधान—उसका छेद क्यों नहीं होता है ? अवश्य होता है, किंतु उसका समूल नाश नहीं होता है ।

शंका—समूल नाश क्यों नहीं होता ?

समाधान—आगेके भवकी बांधी हुई आयुकर्मका समूल नाश नहीं होता है इस-प्रकारका स्वभाव ही है ।

अब तिर्यचोंमें सम्यग्मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थानोंके स्वरूपका निरूपण करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

तिर्यच सम्यग्मिथ्यादृष्टि और संयतासंयत गुणस्थानमें नियमसे पर्याप्तक होते हैं ॥ ८५ ॥

शंका—जिन्होंने मिथ्यादृष्टि अवस्थामें तिर्यचायुका बन्ध करनेके पश्चात् देशसंय-मको ग्रहण कर लिया है और मोहकी सात प्रकृतियोंका क्षय कर दिया है ऐसे मनुष्य तिर्यचोंमें क्यों नहीं उत्पन्न होते ? यदि होते हैं तो इससे तिर्यच-अपर्याप्तोंमें देशसंयमके प्राप्त होनेकी आपत्ति आती है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, देवगतिको छोड़कर शेष तीन गतिसंबन्धी आयुबन्धसे युक्त जीवोंके अणुव्रतको ग्रहण करनेकी बुद्धि ही उत्पन्न नहीं होती है । कहा भी है—

चारों गतिसंबन्धी आयुकर्मके बन्ध हो जाने पर भी सम्यग्दर्शन उत्पन्न हो सकता

न तिर्यक्षूत्पन्ना अपि क्षायिकसम्यग्दृष्टयोऽणुव्रतान्यादधते भोगभूमावुत्पन्नानां तदुपादानानुपपत्तेः । ये निर्दानास्ते कथं तत्रोत्पद्यन्त इति चेन्न, सम्यग्दर्शनस्य तत्रोत्पत्तिकारणस्य सत्त्वात् । न च पात्रदानेऽनुमोदिनः सम्यग्दृष्टयो भवन्ति तत्र तदनुपपत्तेः ।

तिरश्चामोघमभिधायदेशस्वरूपनिरूपणार्थं वक्ष्यति—

एवं पंचिंदिय-तिरिक्खा पंचिंदिय-तिरिक्ख-पज्जत्ता ॥ ८६ ॥

एतेषामोघप्ररूपणमेव भवेद्विवाक्षितं प्रति विशेषाभावात् ।

स्त्रीवेदविशिष्टतिरश्चां विशेषप्रतिपादनार्थमाह—

हैं, परंतु देवायुके बन्धको छोड़कर शेष तीन आयुर्कर्मके बन्ध होने पर यह जीव अणुव्रत और महाव्रतको ग्रहण नहीं करता है ॥ १६९ ॥

तिर्यचोंमें उत्पन्न हुए भी क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव अणुव्रतोंको नहीं ग्रहण करते हैं, क्योंकि, क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव यदि तिर्यचोंमें उत्पन्न होते हैं तो भोगभूमिमें ही उत्पन्न होते हैं और भोगभूमिमें उत्पन्न हुए जीवोंके अणुव्रतोंका ग्रहण करना बन नहीं सकता है ।

शंका— जिन्होंने दान नहीं दिया है ऐसे जीव भोगभूमिमें कैसे उत्पन्न हो सकते हैं ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, भोगभूमिमें उत्पत्तिका कारण सम्यग्दर्शन है और वह जिनके पाया जाता है उनके वहां उत्पन्न होनेमें कोई विरोध नहीं आता है । तथा पात्रदानकी अनुमोदनासे रहित जीव सम्यग्दृष्टि हो नहीं सकते हैं, क्योंकि, उनमें पात्रदानकी अनुमोदनाका अभाव नहीं बन सकता है

विशेषार्थ— क्षायिक सम्यग्दर्शनकी उत्पत्ति मनुष्य पर्यायमें ही होती है । अतः जिस मनुष्यने पहले तिर्यचायुका बन्ध कर लिया है और अनन्तर उसके क्षायिक सम्यग्दर्शन उत्पन्न हुआ है ऐसे जीवके भोगभूमिमें उत्पत्तिका मुख्य कारण क्षायिक सम्यग्दर्शन ही जानना चाहिये, पात्रदान नहीं । फिर भी वह पात्रदानकी अनुमोदनासे रहित नहीं होता है ।

इसप्रकार तिर्यचोंकी सामान्य प्ररूपणाका कथन करके अब उनके विशेष स्वरूपके निर्णय करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

तिर्यचसंबन्धी सामान्यप्ररूपणाके समान पंचेन्द्रियतिर्यच और पर्याप्तपंचेन्द्रिय-तिर्यच भी होते हैं ॥ ८६ ॥

पंचेन्द्रियतिर्यच और पर्याप्त-पंचेन्द्रिय-तिर्यचोंकी प्ररूपणा तिर्यचसंबन्धी सामान्य-प्ररूपणाके समान ही होती है, क्योंकि, विवक्षित विषयके प्रति इन दोनोंके कथनमें कोई विशेषता नहीं है ।

अब स्त्रीवेदयुक्त तिर्यचोंमें विशेषका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

पंचिन्द्रिय-तिरिक्ख-जोणिणीसु मिच्छाइट्ठि-सासणसम्माइट्ठि-द्वारेण  
सिया पज्जत्तियाओ सिया अपज्जत्तियाओ ॥ ८७ ॥

सासादनो नारकेणिव तिर्यक्ष्वपि नोत्पादीति चेन्न, द्वयोः साधर्म्याभावात्तो  
दृष्टान्तानुपपत्तेः ।

तत्र शेषगुणानां स्वरूपमभिधातुमाह —

सम्माभिच्छाइट्ठि-असंजदसम्माइट्ठि-संजदासंजद-द्वारेण णियमा  
पज्जत्तियाओ ॥ ८८ ॥

कुत :? तत्रैतासामुत्पत्तेरभावात् । बद्धायुष्कः क्षायिकसम्यग्दृष्टिर्नारकेषु नपुंसकवेद  
इवात्र स्त्रीवेदे किन्नोत्पद्यत इति चेन्न, तत्र तस्यैवैकस्य सत्त्वात् । यत्र क्वचन समुत्पद्यमानः

योनिमती-पंचेन्द्रिय-तिर्यच मिथ्यादृष्टि और सासादन गुणस्थानमें पर्याप्त भी होते  
हैं और अपर्याप्त भी होते हैं ॥ ८७ ॥

शंका-- सासादन गुणस्थानवाला जीव मरकर जिसप्रकार नारकियोंमें उत्पन्न नहीं  
होता है, उसीप्रकार तिर्यचोंमें भी उत्पन्न नहीं होना चाहिये ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, नारकी और तिर्यचोंमें साधर्म्य नहीं पाया जाता है,  
इसलिये नारकियोंका दृष्टान्त तिर्यचोंको लागू नहीं हो सकता है ।

योनिमती तिर्यचनियोंमें शेष गुणस्थानोंके स्वरूपका कथन करनेके लिये आगेका  
सूत्र कहते हैं—

योनिमती-तिर्यच सम्यग्मिथ्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि और संयतासंयत गुणस्थानमें  
नियमसे पर्याप्तक होते हैं ॥ ८८ ॥

शंका—ऐसा क्यों होता है ?

समाधान—क्योंकि, उपर्युक्त गुणस्थानोंमें मरकर योनिमती-तिर्यच उत्पन्न नहीं  
होते हैं ।

शंका—जिसप्रकार बद्धायुष्क क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव नारकसंबन्धी नपुंसकवेदमें  
उत्पन्न होता है उसीप्रकार यहां पर स्त्रीवेदमें क्यों नहीं उत्पन्न होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, नारकमें एक नपुंसकवेदका ही सद्भाव है । जिस किसी  
गतिमें उत्पन्न होनेवाला सम्यग्दृष्टि जीव उस गतिसंबन्धी विशिष्ट वेदादिकमें ही उत्पन्न  
होता है । यह अभिप्राय यहां पर ग्रहण करना चाहिये । इससे यह सिद्ध हुआ कि सम्यग्दृष्टि  
जीव मरकर योनिमती तिर्यचमें नहीं उत्पन्न होता है ।

सम्यग्दृष्टिस्तत्र विशिष्टवेदादिषु समुत्पद्यत इति गृह्यताम् । तिर्यगपर्याप्तेषु किन्न निरूपित-  
मिति नाशङ्कनीयम्, तत्र प्रतिपक्षाभावतो गतार्थत्वात् ।

मनुष्यगतिप्रतिपादनार्थमाह—

मणुस्सा मिच्छाइट्टि-सासणसम्माइट्टि-असंजदसम्माइट्टि-ट्टाणे  
सिया पज्जत्ता सिया अपज्जत्ता ॥ ८९ ॥

सुगममेतत् ।

तत्र शेषगुणस्थानसत्त्वावस्थाप्रतिपादनार्थमाह—

सम्मामिच्छाइट्टि-संजदासंजद-संजद-ट्टाणे णियमा पज्जत्ता  
॥ ९० ॥

भवतु सर्वेषामेतेषां पर्याप्तत्वं नाहारशरीरमुत्थापयतां प्रमत्तानामनिष्पन्नाहारगत-  
पदपर्याप्तीनाम् । न पर्याप्तकर्मोदयापेक्षया पर्याप्तोपदेशः तदुदयसत्त्वाविशेषतोऽसंयत-

शंका— तिर्यच-अपर्याप्तोंमें गुणस्थानोंका निरूपण क्यों नहीं किया ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, अपर्याप्त तिर्यचोंमें एक मिथ्यात्व गुणस्थानको छोड़कर  
प्रतिपक्षरूप और कोई दूसरा गुणस्थान नहीं पाया जाता है, अतः विना कथन किये ही इसका  
ज्ञान हो जाता है ।

विशेषार्थ— यहाँ अपर्याप्त-तिर्यचोंसे लब्धपर्याप्त तिर्यचोंका ग्रहण करना चाहिये ।  
और लब्धपर्याप्तकोंके एक मिथ्यात्व गुणस्थान ही होता है । अतः उनके विषयमें यहाँ पर  
अधिक नहीं कहा गया है ।

अब मनुष्यगतिके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

मनुष्य मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें पर्याप्त  
भी होते हैं और अपर्याप्त भी होते हैं ॥ ८९ ॥

इस सूत्रका अर्थ सरल है ।

मनुष्योंमें शेष गुणस्थानोंके सद्भावरूप अवस्थाके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका  
सूत्र कहते हैं—

मनुष्य सम्यग्मिथ्यादृष्टि, संयतासंयत और संयत गुणस्थानोंमें नियमसे पर्या-  
प्तक होते हैं ॥ ९० ॥

शंका— सूत्रमें बताये गये इन सभी गुणस्थानवालोंको यदि पर्याप्तपना प्राप्त होता  
है तो होओ, परंतु जिनकी आहारक शरीरसंबन्धी छह पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई हैं ऐसे  
आहारक शरीरको उत्पन्न करनेवाले प्रमत्त गुणस्थानवर्ती जीवोंके पर्याप्तपना नहीं बन-  
सकता है । यदि पर्याप्त नामकर्मके उदयकी अपेक्षा आहारक शरीरको उत्पन्न करनेवाले



सम्यग्दृष्टीनामपि अपर्याप्तत्वस्थाभावापत्तेः । न च संयमोत्पत्त्यवस्थापेक्षया तदवस्थायां प्रमत्तस्य पर्याप्तत्वं घटते असंयतसम्यग्दृष्ट्यावपि तत्प्रसङ्गादिति नैप दोषः, अवलम्बित-द्रव्यार्थिकनयत्वात् । सोऽन्यत्र किमिति नावलम्ब्यत इति चेन्न, तत्र निमित्ताभावात् । किमर्थमत्रावलम्ब्यत इति चेत्पर्याप्तैरस्य साम्यदर्शनं तदवलम्बनकारणम् । केन साम्यमिति चेद् दुःखाभावेन । उपपातगर्भसम्मूर्च्छजशरीराण्यादधानानामिव आहारशरीर-माददानानां न दुःखमस्तीति पर्याप्तत्वं प्रमत्तस्योपचर्यत इति यावत् । पूर्वाभ्यस्तवस्तु-विस्मरणमन्तरेण शरीरोपादानाद्वा दुःखमन्तरेण पूर्वशरीरपरित्यागाद्वा प्रमत्तस्तदवस्थायां

प्रमत्तसंयतोंको पर्याप्तक कहा जावे, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि, पर्याप्तकर्मका उदय प्रमत्तसंयतोंके समान असंयत सम्यग्दृष्टियोंके भी निर्वृत्त्यपर्याप्त अवस्थामें पाया जाता है, इसलिये वहां पर भी अपर्याप्तपनेका अभाव मानना पड़ेगा । संयमकी उत्पत्तिरूप अवस्थाकी अपेक्षा प्रमत्तसंयतके आहारककी अपर्याप्त अवस्थामें पर्याप्तपना बन जाता है यदि ऐसा कहा जावे, सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि, इसप्रकार असंयत सम्यग्दृष्टियोंके भी अपर्याप्त अवस्थामें [ सम्यग्दर्शनकी अपेक्षा ] पर्याप्तपनेका प्रसंग आजायगा ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, द्रव्यार्थिक नयके अवलम्बनकी अपेक्षा प्रमत्तसंयतोंको आहारक शरीरसंबन्धी छह पर्याप्तियोंके पूर्ण नहीं होने पर भी पर्याप्त कहा है ।

शंका—उस द्रव्यार्थिक नयका दूसरी जगह [ विग्रहगतिसंबन्धी गुणस्थानोंमें ] अवलम्बन क्यों नहीं लिया जाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, वहां पर द्रव्यार्थिक नयके अवलम्बनके निमित्त नहीं पाये जाते हैं ।

शंका—तो फिर यहां पर द्रव्यार्थिक नयका अवलम्बन किस लिये लिया जा रहा है ।

समाधान—आहारकसंबन्धी अपर्याप्त अवस्थाको प्राप्त हुए प्रमत्तसंयतकी पर्याप्तके साथ समानताका दिखाना ही यहां पर द्रव्यार्थिक नयके अवलम्बनका कारण है ।

शंका—इसकी दूसरे पर्याप्तकोंके साथ किस कारणसे समानता है ?

समाधान—दुःखाभावकी अपेक्षा इसकी दूसरे पर्याप्तकोंके साथ समानता है । जिस प्रकार उपपातजन्म, गर्भजन्म या सम्मूर्च्छनजन्मसे उत्पन्न हुए शरीरोंको धारण करनेवालोंके दुःख होता है, उसप्रकार आहारशरीरको धारण करनेवालोंके दुःख नहीं होता है, इसलिये उस अवस्थामें प्रमत्तसंयत पर्याप्त है इसप्रकारका उपचार किया जाता है । अथवा, पहले अभ्यास की हुई वस्तुके विस्मरणके बिना ही आहारक शरीरका ग्रहण होता है, या दुःखके बिना ही पूर्व शरीर [ औदारिक ] का परित्याग होता है, अतएव प्रमत्तसंयत अपर्याप्त

पर्याप्त इत्युपचर्यते । निश्चयनयाश्रयणे तु पुनरपर्याप्तः' । एवं समुद्धातगतकेवलिना-  
मपि वक्तव्यम् ।

मनुष्यविशेषस्य निरूपणार्थमाह —

एवं मणुस्स-पज्जत्ता ॥ ९१ ॥

पर्याप्तेषु नापर्याप्तत्वमस्ति विरोधात् । ततः 'एवं पज्जत्ता' इति कथमेतद्वदत इति नैप दोषः, शरीरानिष्पत्त्यपेक्षया तदुपपत्तेः । कथं तस्य पर्याप्तत्वं ? न, द्रव्यार्थिकनया-  
श्रयणात् । ओदनः पच्यत इत्यत्र यथा तन्दुलानामेवौदनव्यपदेशस्तथाऽपर्याप्तावस्थाया-  
मप्यत्र पर्याप्तव्यवहारो न विरुद्धयत इति । पर्याप्तनामकर्मोदयापेक्षया वा पर्याप्तता ।  
एवं तिर्यक्ष्वपि वक्तव्यम् । सुगममन्यत् ।

अवस्थामें भी पर्याप्त है, इसप्रकारका उपचार किया जाता है । निश्चयनयका आश्रय करने पर  
तो वह अपर्याप्त ही है । इसीप्रकार समुद्धातगत केवलीके संबन्धमें भी कथन करना चाहिये ।

अब मनुष्यके भेदोंके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

मनुष्य-सामान्यके कथनके समान पर्याप्त मनुष्य होते हैं ॥ ९१ ॥

शंका—पर्याप्तकोंमें अपर्याप्तपना तो बन नहीं सकता है, क्योंकि, इन दोनों  
अवस्थाओंका परस्पर विरोध है । इसलिये 'इसीप्रकार पर्याप्त होते हैं' यह कथन कैसे  
घटित होगा ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, शरीरकी अनिष्पत्तिकी अपेक्षा पर्याप्त-  
कोंमें भी अपर्याप्तपना बन जाता है ।

शंका—जिसके शरीरपर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है उसे पर्याप्तक कैसे कहा जायगा ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा उसके भी पर्याप्तपना बन  
जाता है । भात पक रहा है, यहां पर जिसप्रकार चावलोंको भात कहा जाता है, उसीप्रकार  
जिसके सभी पर्याप्तियां पूर्ण होनेवाली हैं ऐसे जीवके अपर्याप्त अवस्थामें भी पर्याप्तपनेका  
व्यवहार विरोधको प्राप्त नहीं होता है । अथवा, पर्याप्त नामकर्मके उदयकी अपेक्षा उनके पर्याप्त  
पना समझ लेना चाहिये । इसीप्रकार तिर्यचोंमें भी कथन करना चाहिये । शेष कथन सुगम है ।

विशेषार्थ—पर्याप्त मनुष्योंमें पर्याप्त और निर्वृत्त्यपर्याप्त इन दोनों प्रकारके मनुष्योंका

१ औदारिकाद्याः शुद्धास्तत्पर्याप्तकस्य, मिश्रास्त्वपर्याप्तकस्येति । तत्रोत्पत्तावौदारिकायाः कर्मणेन, औदा-  
रिकाशरीरिणश्च वैक्रियकाहारकरणकाले वैक्रियकाहारकाभ्यां मिश्रो भवतीति । एवमौदारिकमिश्रः । तथा वैक्रियकमिश्रो  
देवाद्युत्पत्तौ कर्मणेन, कृतवैक्रियस्य औदारिकप्रवेशाद्वायामौदारिकेण । आहारकमिश्रस्तु साधिताहारकायप्रयोजनः  
पुनरौदारिकप्रवेशे औदारिकेणेति । स्था. ३ का. १३. ( अमि. रा. को. जोग. )

मानुषीषु निरूपणार्थमाह —

मणुसिणीषु मिच्छाइड्ढि-सासणसम्माइड्ढि-द्वाने सिया पज्जत्ति-  
याओ सिया अपज्जत्तियाओ ॥ ९२ ॥

अत्रापि पूर्ववदपर्याप्तानां पर्याप्तव्यवहारः प्रवर्तयितव्यः । अथवा स्यादित्ययं  
निपातः कथञ्चिदित्यस्मिन्नर्थे वर्तते, तेन स्यात्पर्याप्ताः पर्याप्तनामकर्मोदयाच्छरीर-  
निष्पत्त्यपेक्षया वा । स्यादपर्याप्ताः शरीरानिष्पत्त्यपेक्षया इति वक्तव्यम् । सुगममन्यत् ।

तत्रैव शेषगुणविषयारेकापोहनार्थमाह —

सम्मामिच्छाइड्ढि-असंजदसम्माइड्ढि-संजदासंजद-द्वाने णियमा  
पज्जत्तियाओ ॥ ९३ ॥

हुण्डावसर्पिण्यां स्त्रीषु सम्यग्दृष्टयः किन्नोत्पद्यन्ते इति चेन्न, उत्पद्यन्ते । कुतोऽवसी-

अन्तर्भाव होता है, क्योंकि, आगममें जो मनुष्योंके चार भेद किये हैं उनमेंसे जिनके पर्याप्त नामकर्मका उदय विद्यमान है उन्हें पर्याप्त कहा है । इस पर शंकाकारका कहना है कि जिनके पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई हैं ऐसे अपर्याप्तकोंका पर्याप्तकोंमें अन्तर्भाव कैसे किया जा सकता है । इसी शंकाको ध्यानमें रखकर ऊपर समाधान किया गया है ।

अब मनुष्य-स्त्रियोंमें गुणस्थानोंके निरूपण करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

मनुष्य-स्त्रियां मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें पर्याप्त भी होती हैं और अपर्याप्त भी होती हैं ॥ ९२ ॥

यहां पर भी पर्याप्त मनुष्योंके समान निर्वृत्यपर्याप्तकोंमें पर्याप्तपनेका व्यवहार कर लेना चाहिये । अथवा, 'स्यात्' यह निपात कथंचित् अर्थमें रहता है । इसके अनुसार कथंचित् पर्याप्त होते हैं, इसका यह तात्पर्य है कि पर्याप्त नामकर्मके उदयकी अपेक्षा अथवा शरीर-पर्याप्तिकी पूर्णताकी अपेक्षा पर्याप्त होते हैं । और कथंचित् अपर्याप्त होते हैं, इसका यह तात्पर्य है कि शरीर पर्याप्तिकी अपूर्णताकी अपेक्षा अपर्याप्त होते हैं । शेष कथन सुगम है ।

अब मनुष्य-स्त्रियोंमें ही शेष गुणस्थानविषयक शंकाके दूर करनेके लिये सूत्र कहते हैं—  
मनुष्य-स्त्रियां सम्यग्मिथ्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि संयतासंयत और संयत गुणस्थानोंमें नियमसे पर्याप्तक होती हैं ॥ ९३ ॥

शंका—हुण्डावसर्पिणी कालसंबन्धी स्त्रियोंमें सम्यग्दृष्टि जीव क्यों नहीं उत्पन्न होते हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, उनमें सम्यग्दृष्टि जीव उत्पन्न होते हैं ।

शंका—यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

यते ? अस्मादेवार्पात् । अस्मादेवार्पाद् द्रव्यस्त्रीणां निर्वृत्तिः सिद्धचेदिति चेन्न, सवासस्त्वादप्रत्याख्यानगुणस्थितानां संयमानुपपत्तेः । भावसंयमस्तासां सवाससामप्यविरुद्ध इति चेत्, न तासां भावसंयमोऽस्ति भावासंयमाविनाभाविवस्त्राद्युपादानान्यथानुपपत्तेः । कथं पुनस्तासु चतुर्दश गुणस्थानानीति चेन्न, भावस्त्रीविशिष्टमनुष्यगतौ तत्सत्त्वाविरोधात् । भाववेदो वादरकपायान्नोपर्यस्तीति न तत्र चतुर्दशगुणस्थानानां सम्भव इति चेन्न, अत्र वेदस्य प्राधान्याभावात् । गतिस्तु प्रधाना न साराद्विनश्यति । वेदविशेषणायाम् गतौ न तानि सम्भवन्तीति चेन्न, विनष्टेऽपि विशेषणे उपचारेण तद्व्यपदेशमादधानमनुष्यगतौ तत्सत्त्वाविरोधात् । मनुष्यापर्याप्तेऽपर्याप्तिप्रतिपक्षाभावतः सुगमत्वान्न तत्र वक्तव्यमस्ति ।

समाधान—इसी आगम प्रमाणसे जाना जाता है ।

शंका—तो इसी आगमसे द्रव्य-स्त्रियोंका मुक्ति जाना भी सिद्ध हो जायगा ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, ब्रह्मसहित होनेसे उनके संयतासंयत गुणस्थान होता है, अतएव उनके संयमकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है ।

शंका—ब्रह्मसहित होते हुए भी उन द्रव्य-स्त्रियोंके भावसंयमके होनेमें कोई विरोध नहीं आना चाहिये ?

समाधान—उनके भाव संयम नहीं है, क्योंकि, अन्यथा, अर्थात् भाव संयमके मानने पर, उनके भाव असंयमका अविनाभावी ब्रह्मादिकका ग्रहण करना नहीं बन सकता है ।

शंका—तो फिर स्त्रियोंमें चौदह गुणस्थान होते हैं यह कथन कैसे बन सकेगा ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, भावस्त्रीमें, अर्थात् स्त्रीवेद युक्त मनुष्यगतिमें, चौदह गुणस्थानोंके सद्भाव मान लेनेमें कोई विरोध नहीं आता है ।

शंका—वादरकपाय गुणस्थानके ऊपर भाववेद नहीं पाया जाता है, इसलिये भाववेदमें चौदह गुणस्थानोंका सद्भाव नहीं हो सकता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, यहां पर वेदकी प्रधानता नहीं है, किंतु गति प्रधान है । और वह पहले नष्ट नहीं होती है ।

शंका—यद्यपि मनुष्यगतिमें चौदह गुणस्थान संभव हैं । फिर भी उसे वेद विशेषणसे युक्त कर देने पर उसमें चौदह गुणस्थान संभव नहीं हो सकते हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, विशेषणके नष्ट हो जाने पर भी उपचारसे उस विशेषण युक्त संज्ञाको धारण करनेवाली मनुष्यगतिमें चौदह गुणस्थानोंका सद्भाव मान लेनेमें कोई विरोध नहीं आता है ।

अपर्याप्त मनुष्योंमें अपर्याप्तिका कोई प्रतिपक्षी नहीं होनेसे और अपर्याप्त मनुष्योंका कथन सुगम होनेसे इस विषयमें कुछ अधिक कहने योग्य नहीं है । इसलिये इस संबन्धमें स्वतंत्ररूपसे नहीं कहा गया है ।

देवगतौ निरूपणार्थमुत्तरसूत्रमाह--

देवा मिच्छाइट्टि-सासणसम्माइट्टि असंजदसम्माइट्टि-ट्टाणे सिया  
पज्जत्ता सिया अपज्जत्ता ॥ ९४ ॥

अथ स्याद्विग्रहगतौ कर्मणशरीराणां न पर्याप्तिस्तदा पर्याप्तीनां पण्णां निष्पत्तेर-  
भावात् । न अपर्याप्तास्ते आरम्भात्प्रभृति आ उपरमादन्तरालावस्थायामपर्याप्ति-  
व्यपदेशात् । न चानारम्भकस्य स व्यपदेशः अतिप्रसङ्गात् । ततस्तृतीयमप्यवस्थान्तरं  
वक्तव्यमिति नैष दोषः, तेषामपर्याप्तेष्वन्तर्भावात् । नातिप्रसङ्गोऽपि कर्मणशरीर-  
स्थितप्राणिनामिवापर्याप्तकैः सह सामर्थ्याभावोपपादैकान्तानुवृद्धियोगैर्गत्यायुःप्रथम-  
द्वित्रिसमयवर्तनेन च शेषप्राणिनां प्रत्यासत्तेरभावात् । ततोऽशेषसंसारिणामवस्थाद्वयमेव  
नापरमिति स्थितम् ।

अब देवगतिमें निरूपण करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

देव मिथ्याइट्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें पर्याप्त भी  
होते हैं और अपर्याप्त भी होते हैं ॥ ९४ ॥

शंका—विग्रहगतिमें कर्मण शरीर होता है, यह बात ठीक है। किंतु वहां पर कर्मण-  
शरीरवालोंके पर्याप्ति नहीं पाई जाती है, क्योंकि, विग्रहगतिके कालमें छह पर्याप्तियोंकी  
निष्पत्ति नहीं होती है? उसीप्रकार विग्रहगतिमें वे अपर्याप्त भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि,  
पर्याप्तियोंके आरम्भसे लेकर समाप्ति पर्यन्त मध्यकी अवस्थामें अपर्याप्ति यह संज्ञा दी गई है।  
परंतु जिन्होंने पर्याप्तियोंका आरम्भ ही नहीं किया है ऐसे विग्रहगतिसंबन्धी एक दो  
और तीन समयवर्ती जीवोंको अपर्याप्त संज्ञा नहीं प्राप्त हो सकती है, क्योंकि, ऐसा मान  
लेने पर अतिप्रसंग दोष आता है। इसलिये यहां पर पर्याप्त और अपर्याप्तसे भिन्न कोई तीसरी  
अवस्था ही कहना चाहिये ?

समाधान— यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, ऐसे जीवोंका अपर्याप्तोंमें ही अन्तर्भाव  
किया गया है। और ऐसा मान लेने पर अतिप्रसंग दोष भी नहीं आता है, क्योंकि, कर्मणशरीरमें  
स्थित जीवोंकी अपर्याप्तकोंके साथ सामर्थ्याभाव, उपपादयोगस्थान, एकान्तवृद्धियोगस्थान  
और गति तथा आयुसंबन्धी प्रथम, द्वितीय और तृतीय समयमें होनेवाली अवस्थाके द्वारा  
जितनी समीपता पाई जाती है, उतनी शेष प्राणियोंकी नहीं पाई जाती  
है। इसलिये कर्मणकाययोगमें स्थित जीवोंका अपर्याप्तकोंमें ही अन्तर्भाव किया  
जाता है। अतः संपूर्ण प्राणियोंकी दो अवस्थाएं ही होती हैं। इनसे भिन्न कोई तीसरी  
अवस्था नहीं होती है।



उभयगुणोपलक्षितजीवानां तत्रोत्पत्तेरुभयत्रापि तदस्तित्वं सिद्धम् । अन्यत्सुगमम् ।  
तत्रानुत्पद्यमानगुणस्थानप्रतिपादनार्थमाह—

**सम्मामिच्छाद्दृष्टि-असंजदसम्माद्दृष्टि-द्वारेणियमा पज्जत्ता णियमा  
पज्जत्तियाओ ॥ ९७ ॥**

भवतु सम्यग्मिथ्यादृष्टेस्तत्रानुत्पत्तिस्तस्य तद्गुणेन मरणाभावात्, कित्वेतन्न  
घटते यदसंयतसम्यग्दृष्टिर्मरणवांस्तत्र नोत्पद्यत इति न, जघन्येषु तस्योत्पत्तेरभावात् ।  
नारकेषु तिर्यक्षु च कनिष्ठेषूपद्यमानास्तत्र तेभ्योऽधिकेषु किमिति नोत्पद्यन्त इति चेन्न,  
मिथ्यादृष्टीनां प्राग्बद्धायुष्काणां पश्चादात्तसम्यग्दर्शनानां नारकाद्युत्पत्तिप्रतिबन्धनं प्रति  
सम्यग्दर्शनस्यासामर्थ्यात् । तद्देवेष्वपि किन्न स्यादिति चेत्सत्यमिष्टत्वात् । तथा च

इन दोनों गुणस्थानोंसे युक्त जीवोंकी उपर्युक्त देव और देवियोंमें भी उत्पत्ति होती है,  
अतएव उन दोनों गुणस्थानोंमें भी पर्याप्त और अपर्याप्तरूपसे उनका अस्तित्व सिद्ध हो  
जाता है । शेष कथन सुगम है ।

उक्त देव और देवियोंकी अपर्याप्त अवस्थामें नहीं होनेवाले गुणस्थानोंके प्रतिपादन  
करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें पूर्वोक्त देव नियमसे पर्याप्त होते  
हैं और पूर्वोक्त देवियां नियमसे पर्याप्त होती हैं ॥ ९७ ॥

शंका—सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवकी उक्त देव और देवियोंमें उत्पत्ति मत होओ, यह  
ठीक है, क्योंकि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानके साथ जीवका मरण ही नहीं होता है । परंतु यह  
बात नहीं बनती है कि मरनेवाला असंयतसम्यग्दृष्टि जीव उक्त देव और देवियोंमें उत्पन्न  
नहीं होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, सम्यग्दृष्टिकी जघन्य देवोंमें उत्पत्ति नहीं होती है ।

शंका—जघन्य अवस्थाको प्राप्त नारकियोंमें और तिर्यक्षोंमें उत्पन्न होनेवाले  
सम्यग्दृष्टि जीव उनसे उत्कृष्ट अवस्थाको प्राप्त भवनवासी देव और देवियोंमें तथा कल्प-  
वासिनी देवियोंमें क्यों नहीं उत्पन्न होते हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, जो आयुर्कर्मका बन्ध करते समय मिथ्यादृष्टि थे और  
जिन्होंने तदनन्तर सम्यग्दर्शनको ग्रहण किया है ऐसे जीवोंकी नरकादि गतिमें उत्पत्तिके रोक  
नेकी सामर्थ्य सम्यग्दर्शनमें नहीं है ।

शंका—सम्यग्दृष्टि जीवोंकी जिसप्रकार नरकगति आदिमें उत्पत्ति होती है उसी-  
प्रकार देवोंमें क्यों नहीं होती है ?

समाधान—यह कहना ठीक है, क्योंकि, यह बात इष्ट ही है ।

व्योतीषि विमानानि, तन्निवासिनो ज्योतिष्काः । उक्त. २ अ. । व्योतीषि विमानविशेषाः, तेषु भवा ज्योतिष्काः ।  
स्था. ५ ठा. १ उ. [ अमिः रा. को. ज्योतिष्क, ज्यौतिष्क. ]

भवनवास्यादिष्वप्यसंयतसम्यग्दृष्टेरुत्पात्तिरास्कन्देदिति चेन्न, सम्यग्दर्शनस्य बद्धायुषां प्राणिनां तत्तद्गत्यायुःसामान्येनाविरोधिनस्तत्तद्गतविशेषोत्पात्तिविरोधित्वोपलम्भात् । तथा च भवनवासिव्यन्तरज्योतिष्कप्रकीर्णकाभियोग्यकिल्बिषिकपृथ्वीपट्टस्त्रीनपुंसक-विकलेन्द्रियलब्धपर्याप्तकर्मभूमिजतिर्यक्षु चोत्पत्त्या विरोधोऽसंयतसम्यग्दृष्टेः सिद्धयेदिति तत्र ते नोत्पद्यन्ते । सुगममन्यत् ।

शेषदेवेषु गुणावस्थाप्रतिपादनार्थं वक्ष्यति—

सोधम्मीसाण-प्पहुडि जाव उवरिम-उवरिम-गेवज्जं' ति विमाणवा-  
सिय' -देवेषु मिच्छाइट्टि-सासणसम्माइट्टि-असंजदसम्माइट्टि-ट्टाणे सिया  
पज्जता सिया अपज्जता ॥ ९८ ॥

शंका — यदि ऐसा है तो भवनवासी आदिमें भी असंयतसम्यग्दृष्टि जीवोंकी उत्पत्ति प्राप्त हो जायगी ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, जिन्होंने पहले आयुकर्मका बन्ध कर लिया है ऐसे जीवोंके सम्यग्दर्शनका उस गतिसंबन्धी आयुसामान्यके साथ विरोध न होते हुए भी उस उस गतिसंबन्धी विशेषमें उत्पत्तिके साथ विरोध पाया जाता है। ऐसी अवस्थामें भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी, प्रकीर्णक, आभियोग्य और किल्बिषिक देवोंमें, नीचेके छह नरकोंमें, सब प्रकारकी स्त्रियोंमें, नपुंसक वेदमें, विकलत्रयोंमें, लब्धपर्याप्तक जीवोंमें और कर्मभूमिज तिर्यचोंमें असंयतसम्यग्दृष्टिका उत्पत्तिके साथ विरोध सिद्ध हो जाता है। इसलिये इतने स्थानोंमें सम्यग्दृष्टि जीव उत्पन्न नहीं होता है। शेष कथन सुगम है।

शेष देवोंमें गुणस्थानोंकी अवस्थितिके बतलानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

सौधर्म और ऐशान स्वर्गसे लेकर उपरिम त्रैवेयकके उपरिम भाग पर्यन्त विमानवासी देवोंसंबन्धी मिथ्यादृष्टि सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें जीव पर्याप्त भी होते हैं और अपर्याप्त भी होते हैं ॥ ९८ ॥

१ लोकपुरुषस्य त्रीवास्थानीयत्वात् त्रीवाः । त्रीवासु भवानि त्रैवेयकाणि विमानानि । तत्साहचर्यात् इन्द्रा अपि त्रैवेयकाः । त. रा. वा. ४. १९. त्रैवेव त्रीवा लोकपुरुषस्य त्रयोदशरज्जुपरिवर्तिप्रदेशः तन्निविष्टतयातिभ्राजि-  
प्यतया च तदाभरणभूतादौ त्रैवेयका देशवासाः, तन्निवासिनो देवा अपि त्रैवेयकाः । उक्त. ३६. अ. (अभि. रा. को. गेविज्ञक.)

२ विंशपेणात्मस्थान् सुकृतिनो भानयन्तीति विमानानि, विमानेषु भवा वैमानिकाः । स. सि., त. रा. वा. ४. १६. विविधं मन्यन्ते उपभुज्यन्ते पुण्यवद्विर्जिवैरिति विमानानि । तेषु भवाः वैमानिकाः । से किं तं वेमाणियां ? वेमाणिया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा कप्पोपगा य कप्पाईया य । XX कल्प आचारः, स चेह इन्द्रसामानिकत्रायस्त्रि-



भवत्वत्रोभयावस्थासु गुणत्रयास्तित्वं तस्य तेषूत्पत्तिं प्रति विरोधासिद्धेः । सनत्कुमारादुपरि न स्त्रियः समुत्पद्यन्ते सौधर्मादाविव तदुत्पत्त्यप्रतिपादनात् । तत्र स्त्रीणामभावे कथं तेषां देवानामनुपशान्ततत्सन्तापानां सुखमिति चेन्न, तत्स्त्रीणां सौधर्म-  
कल्पोपपत्तेः । तर्हि तत्रापि स्त्रीणामस्तित्वमभिधातव्यमिति चेन्न, अन्यत्रोत्पन्नानामन्य-  
लेख्यायुर्वलानां स्त्रीणां तत्र सत्त्वविरोधात् । तत्र भवनवासिनो व्यन्तरज्योतिष्काः  
सौधर्मैशानदेवाश्च मनुष्या इव कायप्रवीचाराः । प्रवीचारो मैथुनसेवनम्, काये प्रवीचारो  
येषां ते कायप्रवीचाराः । सनत्कुमारमाहेन्द्रयोः स्पर्शप्रवीचाराः, तत्रतनदेवा देवाङ्गना-  
स्पर्शनमात्रादेव परां प्रीतिमुपलभन्ते इति यावत् । तथा देव्योऽपि । यतो ब्रह्मब्रह्मोत्तर-  
लान्तवकापिष्टेषु देवाः दिव्याङ्गनाशृङ्गाराकारविलासचतुरमनोज्ञवेपरूपालोकमात्रादेव

शंका—सौधर्म स्वर्गसे लेकर उपरिम ग्रैवेयकके उपरिम भाग तकके देवोंकी पर्याप्त और अपर्याप्त इन दोनों अवस्थाओंमें प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ गुणस्थानोंका अस्तित्व पाया जाता है, यह कहना तो ठीक है, क्योंकि, उन तीन गुणस्थानोंकी उक्त देवोंमें उत्पत्तिके प्रति विरोध है । किंतु सनत्कुमार स्वर्गसे लेकर ऊपर स्त्रियां उत्पन्न नहीं होती हैं, क्योंकि, सौधर्म और ऐशान स्वर्गमें देवांगनाओंके उत्पन्न होनेका जिसप्रकार कथन किया गया है, उसप्रकार आगेके स्वर्गोंमें उनकी उत्पत्तिका कथन नहीं किया गया है । इसलिये वहां स्त्रियोंके अभाव रहने पर, जिनका स्त्रीसंबन्धी संताप शान्त नहीं हुआ है ऐसे देवोंके उनके बिना सुख कैसे हो सकता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, सनत्कुमार आदि कल्प-संबन्धी स्त्रियोंकी सौधर्म और ऐशान स्वर्गमें उत्पत्ति होती है ।

शंका—तो सनत्कुमार आदि कल्पोंमें भी स्त्रियोंके अस्तित्वका कथन करना चाहिये ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, जो दूसरी जगह उत्पन्न हुई हैं, तथा जिनकी लेख्या, आयु और बल सनत्कुमारादि कल्पोंमें उत्पन्न हुए देवोंसे भिन्न प्रकारके हैं ऐसी स्त्रियोंका सनत्कुमारादि कल्पोंमें उत्पत्तिकी अपेक्षा अस्तित्व माननेमें विरोध आता है ।

उन देवोंमें भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देव तथा सौधर्म और ऐशान कल्पवासी देव मनुष्योंके समान शरीरसे प्रवीचार करते हैं । मैथुनसेवनको प्रवीचार कहते हैं । जिनका कायमें प्रवीचार होता है उन्हें कायसे प्रवीचार करनेवाले कहते हैं । सनत्कुमार और माहेन्द्र कल्पमें देव स्पर्शसे प्रवीचार करते हैं । अर्थात् इन दोनों कल्पोंमें रहनेवाले देव देवांगनाओंके स्पर्शमात्रसे ही अत्यन्त प्रीतिको प्राप्त होते हैं । इसप्रकार वहांकी देवियां भी देवोंके स्पर्शमात्रसे अत्यन्त प्रीतिको प्राप्त होती हैं । क्योंकि ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लान्तव और कापिष्ट कल्पोंमें रहनेवाले देव अपनी देवांगनाओंके शृंगार, आकार, विलास, यथायोग्य तथा मनोज्ञ वेप तथा रूपके अवलोकन

आदिव्यवहाररूपस्तमुपनाः प्राप्ताः कल्पोपनाः सौधर्मैशानादिदेवलोकनिवासिनः । यथोक्तरूपं कल्पमर्ताताः अति-  
क्रान्ताः कल्पातीताः । ब्रह्म. १ पद. [ अमि. रा. को. त्रेमाणिय. ]

परं सुखमवाप्नुवन्ति ततस्ते रूपप्रवीचाराः । यतः शुक्रमहाशुक्रशतारसहस्रारेषु देवाः देवाङ्गनानां मधुरसङ्गीतमृदुहसितललितकथितभूपणरवश्रवणमात्रादेव परां प्रीतिमास्कन्दन्ति ततस्ते शब्दप्रवीचाराः । आनतप्राणतारणाच्युतकल्पेषु देवाः यतः स्वाङ्गनामनः-सङ्कल्पमात्रादेव परं सुखमवाप्नुवन्ति ततस्ते मनःप्रवीचाराः । प्रवीचारो वेदनाप्रतीकारः । वेदनाभावाच्छेषाः देवाः अप्रवीचाराः अनवरतसुखा इति यावत् ।

सम्यग्मिथ्यादृष्टिस्वरूपनिरूपणार्थमाह—

सम्भामिच्छाद्दृष्टि-दृष्टाणे णियमा पज्जत्ता ॥ ९९ ॥

सुगमत्वान्नात्र वक्तव्यमस्ति ।

शेषदेवेषु गुणस्थानस्वरूपनिरूपणार्थमाह—

अणुदिस-अणुत्तरं विजय-वज्जयन्त-जयन्तावराजितसव्वड्डिसिद्धि-  
विमाणवासिय-देवा असंजदसम्भाद्दृष्टि-दृष्टाणे सिया पज्जत्ता सिया  
अपज्जत्ता ॥ १०० ॥

मात्रसे ही परम सुखको प्राप्त होते हैं । इसलिये वे रूपसे प्रवीचार करनेवाले हैं । क्योंकि, शुक्र, महाशुक्र, शतार और सहस्रार कल्पोंमें रहनेवाले देव देवांगनाओंके मधुर संगीत, कोमल हास्य, ललित शब्दोच्चार और भूपणोंके शब्द सुनने मात्रसे ही परम प्रीतिको प्राप्त होते हैं, इसलिये वे शब्दसे प्रवीचार करनेवाले हैं । क्योंकि, आनत, प्राणत, आरण और अच्युत कल्पोंमें रहनेवाले देव अपनी स्त्रीका मनमें संकल्प करने मात्रसे ही परम सुखको प्राप्त होते हैं, इसलिये वे मनसे प्रवीचार करनेवाले कहे जाते हैं । वेदनाके प्रतीकारको प्रवीचार कहते हैं । उस वेदनाका अभाव होनेसे नव ग्रैथेयकसे लेकर ऊपरके सभी देव प्रवीचाररहित हैं अर्थात् निरन्तर सुखी हैं ।

अब सम्यग्मिथ्यादृष्टि देवोंके स्वरूपके निर्णय करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें देव नियमसे पर्याप्तक होते हैं ॥ ९९ ॥

इस सूत्रका अर्थ सुगम होनेसे यहां पर अधिक कहनेकी आवश्यकता नहीं है ।

अब शेष देवोंमें गुणस्थानोंके स्वरूपके निर्णय करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

नव अनुदिशोंमें और विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित और सर्वार्थसिद्धि इन पांच अनुत्तर विमानोंमें रहनेवाले देव असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें पर्याप्त भी होते हैं और अपार्याप्त भी होते हैं ॥ १०० ॥

१ स. सिं. ४. ८. तं. रा. या. ४. ८. वा. ५.

२ नैयामन्यानुत्तराणि विमानानि सन्तीत्यनुत्तरविमानानि । अनु. अनुत्तरेषु सर्वोत्तमेषु विमानविशेषेषु

पञ्चानामेव नामान्यभ्यधादन्तदीपकार्थम् । ततः शेषस्वर्गनामान्यपि वक्तव्यानि । तानि च यथवासरं वक्ष्यामः । एवं योगनिरूपणावसर एव चतसृषु गतिषु पर्याप्ता-पर्याप्तकालविशिष्टासु सकलगुणस्थानानामभिहितमस्तित्वम् । शेषमार्गणासु अयमर्थः किमिति नाभिधीयत इति चेत्, नोच्यते अनेनैव गतार्थत्वाद् गतिचतुष्टयव्यतिरिक्त-मार्गणाभावात् ।

वेदविशिष्टगुणस्थाननिरूपणार्थमाह—

वेदाणुवादेण अत्थि इत्थिवेदा पुरिसवेदा णवुंसयवेदा अवगद-  
वेदा चैदि ॥ १०१ ॥

दोषैरात्मानं परं च स्तृणाति छादयतीति स्त्री, स्त्री चासौ वेदश्च स्त्रीवेदः । अथवा पुरुषं स्तृणाति आकाङ्क्षतीति स्त्री पुरुषकाङ्क्षेत्यर्थः । स्त्रियं विन्दतीति स्त्रीवेदः । अथवा

ये पांच विमान सबसे अन्तमें हैं इस बातके प्रगट करनेके लिये पांचों ही विमानोंके नाम कहे गये हैं, इसलिये शेष स्वर्गोंके नाम भी कहने चाहिये । परंतु उनका वर्णन यथावसर करेंगे ।

इसप्रकार योगमार्गणाके निरूपण करनेके अवसर पर ही पर्याप्त और अपर्याप्त काल युक्त चारों गतियोंमें संपूर्ण गुणस्थानोंकी सत्ता बतला दी गई ।

शंका—शेष मार्गणाओंमें यह विषय क्यों नहीं कहा जाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, इसी कथनसे शेष मार्गणाओंमें यह विषय आगया है, क्योंकि, चारों गतियोंको छोड़कर और कोई मार्गणाएं नहीं हैं ।

अब वेदसहित गुणस्थानोंके निरूपण करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

वेदमार्गणाके अनुवादसे स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद और अपगतवेदवाले जीव होते हैं ॥ १०१ ॥

जो दोषोंसे स्वयं अपनेको और दूसरोंको आच्छादित करती है उसे स्त्री कहते हैं और स्त्रीरूप जो वेद है उसे स्त्रीवेद कहते हैं । अथवा, जो पुरुषकी आकांक्षा करती है उसे स्त्री कहते हैं, जिसका अर्थ पुरुषकी चाह करनेवाली होता है । जो अपनेको स्त्रीरूप अनुभव करता है उसे स्त्रीवेद कहते हैं । अथवा वेदन करनेको वेद कहते हैं और स्त्रीरूप वेदको स्त्रीवेद

उपपातो जन्मानुत्तरोपपातः । म. ६. श. ६. उ. अत्थि णं भंते अणुत्तरोववाइया देवा । इता । अत्थि । से केणहे णं भंते ? एवं बुच्चइ अणुत्तरोववाइया देवा ? गोयमा । अणुत्तरोववाइयाणं अणुत्तरा सदा, अणुत्तरा रूवा, जाव अणुत्तरा फासा, से तेणहे णं गोयमा । एवं बुच्चइ जाव अणुत्तरोववाइया देवा । म. १४. श. ७. उ. (आधि. रा. को. णुत्तरोववाइय.)

वेदनं वेदः, स्त्रियो वेदः स्त्रीवेदः । उक्तं च—

छादेदि सयं दोसेण यदो छादइ परं हि दोसेण ।

छादणसीला जम्हा तम्हा सा वण्णिया इत्थी' ॥ १७० ॥

पुरुगुणेषु पुरुभोगेषु च शेते स्वपितीति पुरुषः । सुपुप्तपुरुषवदनुगतगुणोऽप्राप्त-  
भोगश्च यदुदयाजीवो भवति स पुरुषः अङ्गनाभिलाप इति यावत् । पुरुगुणं कर्म शेते  
करोतीति वा पुरुषः । कथं स्यभिलापः पुरुगुणं कर्म कुर्यादिति चेन्न, तथाभूतसामर्थ्यानु-  
विद्धजीवसहचरितत्वाद्दुपचारेण जीवस्य तत्कर्तृत्वाभिधानात् । तस्य वेदः पुंवेदः ।  
उक्तं च—

पुरु-गुण-भोगे सेदे करेदि लोग्ग्हि पुरुगुणं कम्मं ।

पुरु उत्तमो य जम्हा तम्हा सो वण्णिदो पुरिसो' ॥ १७१ ॥

न स्त्री न पुमान्पुंसकमुभयाभिलाप इति यावत् । उक्तं च—

कहते हैं । कहा भी है—

जो मिथ्यादर्शन, अज्ञान और असंयम आदि दोषोंसे अपनेको आच्छादित करती है  
और मधुर संभाषण, कटाक्ष-विक्षेप आदिके द्वारा जो दूसरे पुरुषोंको भी अब्रह्म आदि दोषोंसे  
आच्छादित करती है, उसको आच्छादनशील होनेके कारण स्त्री कहा है ॥ १७० ॥

जो उत्कृष्ट गुणोंमें और उत्कृष्ट भोगोंमें शयन करता है उसे पुरुष कहते हैं । अथवा,  
जिस कर्मके उदयसे जीव, सोते हुए पुरुषके समान, गुणोंसे अनुगत होता है और भोगोंको  
प्राप्त नहीं करता है उसे पुरुष कहते हैं । अर्थात् स्त्रीसंबन्धी अभिलाषा जिसके पाई जाती है  
उसे पुरुष कहते हैं । अथवा, जो श्रेष्ठ कर्म करता है वह पुरुष है ।

शंका—जिसके स्त्रीविषयक अभिलाषा पाई जाती है वह उत्तम कर्म कैसे कर  
सकता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, उत्तम कर्मको करनेरूप सामर्थ्यसे युक्त जीवके स्त्रीविषयक  
अभिलाषा पाई जाती है, अतः वह उत्तम कर्मको करता है ऐसा कथन उपचारसे किया है ।  
कहा भी है—

जो उत्तम गुण और उत्तम भोगोंमें स्वामीपनेका अनुभव करता है, जो लोकमें उत्तम  
गुणयुक्त कार्य करता है और जो उत्तम है उसे पुरुष कहा है ॥ १७१ ॥

जो न स्त्री है और न पुरुष है उसे नपुंसक कहते हैं, अर्थात् जिसके स्त्री और पुरुष-  
विषयक दोनों प्रकारकी अभिलाषा पाई जाती है उसे नपुंसक कहते हैं । कहा भी है—

१ गो. जी. २७४. नयतः मृदुभाषितस्निग्धविलोकनानुकुलवर्तनादिकुशलव्यापारैः । जी. प्र. टी.

२ गो. जी. २७३. पुरुगुणे सम्यग्ज्ञानाधिकगुणसमूहे । पुरुभोगे नरेन्द्रनागेन्द्रदेवेन्द्राद्यधिकभोगचये ।  
पुरुगुणं कर्म धर्मार्थकामगोक्षलक्षणपुरुषार्थसाधनरूपदिव्यानुष्ठानं । पुरुचगे परमेष्ठिपदे । जी. प्र. टी.

णेविथी णेव पुमं णवुंसओ उभय-लिंग-वदिरित्तो ।

इहावाग-समाणग-वेयण-गरुओ कल्लस-चित्तो' ॥ १७२ ॥

अपगतास्त्रयोऽपि वेदसंतापा येषां तेऽपगतवेदाः । प्रक्षीणान्तर्दाहा इति यावत् ।  
सर्वत्र सन्तीत्यभिसम्बन्धः कर्तव्यः । उक्तं च —

कारिस-तणिट्ठिवागग्गि-सरिस-परिणाम-वेयणुम्मुक्का ।

अवगय-वेदा जीवा सग-संभवणंत-वर-सोक्खा' ॥ १७३ ॥

वेदवतां जीवानां गुणस्थानादिषु सत्त्वप्रतिपादनार्थमुत्तरसूत्रमाह —

इत्थिवेदा पुरिसवेदा असण्णिमिच्छाइट्ठि-प्पहुडि जाव अणि-  
याट्ठि ति ॥ १०२ ॥

उभयोर्वेदयोरक्रमेणैकस्मिन् प्राणिनि सत्त्वं प्राप्नोतीति चेन्न, विरुद्धयोरक्रमेणै-

जो न स्त्री है और न पुरुष है, किंतु स्त्री और पुरुषसंबन्धी दोनों प्रकारके लिंगोंसे रहित है, अवाकी अग्निके समान तीव्र वेदनासे युक्त है और सर्वदा स्त्री और पुरुष विषयक मैथुनकी अभिलाषासे उत्पन्न हुई वेदनासे जिसका चित्त कलुषित है उसे नपुंसक कहते हैं ॥१७२॥

जिनके तीनों प्रकारके वेदोंसे उत्पन्न होनेवाला संताप ( अन्तरंग दाह ) दूर हो गया है वे वेदरहित जीव हैं ।

सूत्रमें कहे गये सभी पदोंके साथ 'सन्ति' पदका संबन्ध कर लेना चाहिये । कहा भी है—

जो कारीष ( कण्डेकी ) अग्नि, तृणाग्नि, और इष्टपाकाग्नि ( अवेकी अग्नि ) के समान परिणामोंसे उत्पन्न हुई वेदनासे रहित हैं और अपनी आत्मामें उत्पन्न हुए अनन्त और उत्कृष्ट सुखके भोक्ता हैं उन्हें वेदरहित जीव कहते हैं ॥ १७३ ॥

अब वेदोंसे युक्त जीवोंके गुणस्थान आदिकमें अस्तित्वके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

स्त्रीवेद और पुरुषवेदवाले जीव असंखी मिथ्यादृष्टिसे लेकर अनिवृत्तिकरण गुणस्थान तक होते हैं ॥ १०२ ॥

शंका — इसप्रकार तो दोनों वेदोंका एकसाथ एक जीवमें अस्तित्व प्राप्त हो जायगा ?

१ गो. जी. २७५. तथापि स्त्रीपुरुषाभिलाषरूपतीव्रकामवेदनालक्षणो भावनंपुंसकवेदोऽस्तीति आचार्यस्य सांपर्यं ज्ञातव्यं । जी. प्र. टी.

२ गो. जी. २७६. यद्यपि अपगतवेदानिवृत्तिकरणादीनां वेदोदयजनितकामवेदनारूपसंक्लेशाभावः तथापि गुणस्थानार्तात्पुक्तात्मनां स्वात्मात्थसुखसद्भावः ज्ञानादिगुणसद्भाववद्दशितः । परमार्थवृत्त्या तु अपगतवेदानामेषामपि ज्ञानोपयोगस्वास्थ्यलक्षणपरमानंदो जीवस्वभावोऽस्तीति निश्चेतव्यः । जी. प्र. टी.

कस्मिन् सत्त्वविरोधात् । कथं पुनस्तयोस्तत्र सत्त्वमिति चेद्भिन्नजीवद्रव्याधारतया पर्यायेणैकद्रव्याधारतया च । तत्र न नपुंसकवेदस्याभावः तत्र द्वावेव वेदौ भवत इत्यवधारणाभावात् । तत्कुतोऽवसीयत इति चेत् 'तिरिक्खा ति-वेदा असण्णिपंचिंदिय-प्पहुडि जाव संजदासंजदा त्ति । मणुस्सा ति-वेदा मिच्छाइड्ढि-प्पहुडि जाव अणियट्ठि त्ति' एतस्मादापात् । सुगममन्यत् ।

नपुंसकवेदसत्त्वप्रतिपादनार्थमाह—

णवुंसयवेदा एइंदिय-प्पहुडि जाव अणियट्ठि त्ति ॥ १०३ ॥

एकेन्द्रियाणां न द्रव्यवेद उपलभ्यते, तदनुपलब्धौ कथं तस्य तत्र सत्त्वमिति

समाधान--नहीं, क्योंकि, विरुद्ध दो धर्मोंका एकसाथ एक जीवमें सद्भाव माननेमें विरोध आता है ।

शंका—तो फिर नववें गुणस्थानतक इन दोनों वेदोंकी एकसाथ सत्ता कैसे बनेगी ?

समाधान - भिन्न भिन्न जीवोंके आधारपनेकी अपेक्षा, अथवा, पर्यायरूपसे एक जीवद्रव्यके आधारपनेकी अपेक्षा नववें गुणस्थानतक इन दोनों वेदोंकी सत्ता बन जाती है । अर्थात् एक कालमें भी नाना जीवोंमें अनेक वेद पाये जा सकते हैं और एक जीवमें भी पर्यायकी अपेक्षा कालभेदसे अनेक वेद पाये जा सकते हैं ।

नववें गुणस्थानतक नपुंसक वेदका अभाव नहीं है, क्योंकि, नववें गुणस्थानतक दो ही वेद होते हैं ऐसे अवधारणका ( सूत्रमें ) अभाव है ।

शंका—यह बात कैसे जानी जाय कि नववें गुणस्थानतक तीनों वेद होते हैं ?

समाधान—'असंज्ञी पंचेन्द्रियसे लेकर संयतासंयत गुणस्थानतक तिर्यंच तीनों वेदवाले होते हैं, और, मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे लेकर अनिवृत्तिकरण गुणस्थानतक मनुष्य तीनों वेदोंसे युक्त होते हैं' इस आगम-वचनसे यह बात जानी जाती है कि नववें गुणस्थानतक तीनों वेद हैं । शेष कथन सुगम है ।

अब नपुंसकवेदके सत्त्वके प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

एकेन्द्रियसे लेकर अनिवृत्तिकरण गुणस्थानतक नपुंसकवेदवाले जीव पाये जाते हैं ॥ १०३ ॥

शंका—एकेन्द्रिय जीवोंके द्रव्यवेद नहीं पाया जाता है, इसलिये द्रव्यवेदकी उपलब्धि नहीं होने पर एकेन्द्रिय जीवोंमें नपुंसक वेदका अस्तित्व कैसे बतलाया ?

१ वेदानुवादेन त्रिषु वेदेषु मिथ्यादृष्ट्या अनिवृत्तिवादरान्तानि सन्ति । स. सि. १. ८. थावरकायप्पहुदी संदो सेसा असण्णिआदी य । अणियट्ठिस्स य पढमी मागो त्ति जिणेहि णिद्धिं ॥ गो. जी. ३८५.

चेन्माभूत्तत्र द्रव्यवेदः तस्यात्र प्राधान्याभावात् । अथवा नानुपलब्ध्या तदभावः सिद्धयेत्, सकलप्रमेयव्याप्युपलम्भत्रलेन तत्सिद्धिः । न स छन्नस्थेष्वस्ति । एकेन्द्रियाणामप्रतिपन्नस्त्रीपुरुषाणां कथं स्त्रीपुरुषविषयाभिलाषे घटत इति चेन्न, अप्रतिपन्नस्त्रीवेदेन भूमिगृहान्तर्द्विमुपगतेन यूना पुरुषेण व्यभिचारात् । सुगममन्यत् ।

अपगतवेदजीवप्रतिपादनार्थमाह—

तेण परमवगदवेदा चेदि' ॥ १०४ ॥

समाधान—एकेन्द्रियोंमें द्रव्यवेद मत होश्रो, क्योंकि, उसकी यहां पर प्रधानता नहीं है । अथवा, द्रव्यवेदकी एकेन्द्रियोंमें उपलब्धि नहीं होती है, इसलिये उसका अभाव नहीं सिद्ध होता है । किन्तु संपूर्ण प्रमेयोंमें व्याप्त होकर रहनेवाले उपलम्भप्रमाणसे ( केवलज्ञानसे ) उसकी सिद्धि हो जाती है । परंतु वह उपलम्भ ( केवलज्ञान ) छन्नस्थोंमें नहीं पाया जाता है ।

विशेषार्थ—इन्द्रियप्रत्यक्षसे एकेन्द्रियोंमें वेदकी अनुपलब्धि सच्ची अनुपलब्धि नहीं है, क्योंकि, एकेन्द्रियोंमें यद्यपि इन्द्रियोंसे द्रव्यवेदका ग्रहण नहीं होता है तो भी सकल प्रमेयोंमें व्याप्त होकर रहनेवाले केवलज्ञानसे उसका ग्रहण होता है ! अतः एकेन्द्रियोंमें इन्द्रिय प्रमाणके द्वारा द्रव्यवेदका अभाव नहीं किया जा सकता है ।

शंका—जो स्त्रीभाव और पुरुषभावसे सवर्था अनभिन्न हैं ऐसे एकेन्द्रियोंके स्त्री और पुरुषविषयक अभिलाषा कैसे बन सकती है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, जो पुरुष स्त्रीवेदसे सर्वथा अज्ञात है और भृगुहके भीतर वृद्धिको प्राप्त हुआ है, ऐसे पुरुषके साथ उक्त कथनका व्यभिचार देखा जाता है ।

विशेषार्थ—यदि यह मान लिया जाय कि एकेन्द्रिय जीव स्त्री और पुरुषसंबन्धी भेदसे सर्वथा अपरिचित होते हैं, इसलिये उनके स्त्री और पुरुषसंबन्धी अभिलाषा नहीं उत्पन्न हो सकती है, तो जो पुरुष जन्मसे ही एकान्तमें वृद्धिको प्राप्त हुआ है और जिसने स्त्रीको कभी भी नहीं देखा है उसके भी युवा होने पर स्त्रीविषयक अभिलाषा नहीं उत्पन्न होना चाहिये । परंतु उसके स्त्रीविषयक अभिलाषा देखी जाती है । इससे सिद्ध है कि स्त्री और पुरुषसंबन्धी अभिलाषाका कारण स्त्री और पुरुषविषयक ज्ञान नहीं है । किन्तु वेदकर्मके उदयसे वह अभिलाषा उत्पन्न होती है । वह एकेन्द्रियोंके भी पाया जाता है, अतएव उनके स्त्री और पुरुषविषयक अभिलाषाके होनेमें कोई दोष नहीं आता है ।

शेष व्याख्यान सुगम है ।

अब वेदरहित जीवोंके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

नववै गुणस्थानके सवेद भागके आगे जीव वेदरहित होते हैं ॥१०४ ॥

शेषगुणमधिष्ठिताः सर्वेऽपि प्राणिनोऽपगतवेदाः । न द्रव्यवेदस्याभावस्तेन विकाराभावात् । अधिकृतोऽत्र भाववेदस्तत्सदभावादपगतवेदो नान्यथेति ।

वेदादेशप्रतिपादनार्थमाह—

णेरइया चदुसु द्वाणेषु सुद्धा णवुंसयवेदा ॥ १०५ ॥

नारकेषु शेषवेदाभावः कथमवसीयत इति चेत् ' सुद्धा णवुंसयवेदा ' इत्यर्थात् । शेषवेदां तत्र किमिति न स्यातामिति चेन्न, अनवरतदुःखेषु तत्सत्त्वविरोधात् । स्त्रीपुरुष-वेदादपि दुःखमेवेति चेन्न, दृष्टकापाकाधिसमानसन्तापान्यूनतया तार्णकारीपाधिसमान-पुरुषर्षवेदयोः सुखरूपत्वात् ।

तिर्यग्गतां वेदनिरूपणार्थमाह—

तिरिक्खा सुद्धा णवुंसगवेदा एइंदिय-प्पहुडि जाव चउरिंदिया ति ॥ १०६ ॥

नचयं गुणस्थानके सवेद भागसे आने शेष गुणस्थानोंको प्राप्त हुए जीव वेदरहित होते हैं । परंतु आगेके गुणस्थानोंमें द्रव्यवेदका अभाव नहीं होता है, क्योंकि, केवल द्रव्यवेदसे कोई विकार ही उत्पन्न नहीं होता है । यहां पर तो भाववेदका अधिकार है । इसलिये भाव-वेदके अभावसे ही उन जीवोंको वेदरहित जानना चाहिये, द्रव्यवेदके अभावसे नहीं ।

अब वेदका मार्गणाओंमें प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

नारकी जीव चारों ही गुणस्थानोंमें शुद्ध ( केवल ) नपुंसकवेदी होते हैं ॥ १०५ ॥

शंका—नारकियोंमें नपुंसकवेदको छोड़कर दूसरे वेदोंका अभाव है, यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—' नारकी शुद्ध नपुंसकवेदी होते हैं, इस आर्षवचनसे जाना जाता है कि वहां अन्य दो वेद नहीं होते हैं ।

शंका—वहां पर शेष दो वेद क्यों नहीं होते हैं ?

समाधान—इसलिये नहीं होते कि निरन्तर दुखी जीवोंमें शेष दो वेदोंके सद्भाव माननेमें विरोध आता है ।

शंका—स्त्री और पुरुषवेदसे भी तो दुख ही होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, नपुंसक वेद अवाकी आशिके समान संतापसे न्यून नहीं है, अतएव उससे हीन तृण और कण्डेकी आशिके समान पुरुषवेद और स्त्रीवेद सुखरूप हैं ।

अब तिर्यग्गतियोंमें वेदोंके निरूपण करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

तिर्यन्त्र पकेन्द्रिय जीवोंसे लेकर चतुरिन्द्रियतक शुद्ध नपुंसकवेदी होते हैं ॥ १०६ ॥



अत्र शेषवेदाभावः कुतोऽवसीयत इति चेत् 'सुद्धा णवुंसगवेदा' इत्यर्थात् । पिपीलिकानामण्डदर्शनाच्च ते नपुंसका इति चेन्न, अण्डानां गर्भे एवोत्पत्तिरिति नियमाभावात् । विग्रहगतौ न वेदाभावस्तत्राप्यव्यक्तवेदस्य सत्त्वात् ।

शेषतिरश्चां कियन्तो वेदा इति शङ्कितशिष्याशङ्कानिराकरणार्थमाह—

तिरिक्खा तिवेदा असण्णिपंचिदियप्पहुडि जाव संजदासंजदा  
त्ति ॥ १०७ ॥

त्रयाणां वेदानां क्रमेणैव प्रवृत्तिर्नाक्रमेण पर्यायत्वात् । कषायवन्नान्तर्मुहूर्तस्थायिनो वेदा आजन्मनः आमरणात्तदुदयस्य सत्त्वात् । सुगममन्यत् ।

मनुष्यादेशप्रतिपादनार्थमाह—

मणुस्सा तिवेदा मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव अणियट्टि त्ति ॥१०८॥

शंका—चतुरिन्द्रियतकके जीवोंमें शेष दो वेदोंका अभाव है, यह कैसे जाना जाय ?

समाधान—'एकेन्द्रियसे चतुरिन्द्रियतक जीव शुद्ध नपुंसकवेदी होते हैं' इस अर्पवचनसे जाना जाता है कि इनमें शेष दो वेद नहीं होते हैं ।

शंका—चौंटियोंके अण्डे देखे जाते हैं, इसलिये वे नपुंसकवेदी नहीं हो सकते हैं ?

समाधान—अण्डोंकी उत्पत्ति गर्भमें ही होती है, ऐसा कोई नियम नहीं है ।

विशेषार्थ—माता पिताके शुक्र और शोणितसे गर्भधारणा होती है । इसप्रकार गर्भधारणा चौंटियोंके नहीं पाई जाती है । अतः उनके अण्डे गर्भज नहीं समझना चाहिये ।

विग्रहगतिमें भी वेदका अभाव नहीं है, क्योंकि, वहां पर भी अव्यक्तवेद पाया जाता है ।

शेष तिर्यचोंके कितने वेद होते हैं, इसप्रकारकी आशंकासे युक्त शिष्योंकी शंकाके दूर करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

तिर्यच असंज्ञी पंचेन्द्रियसे लेकर संयतासंयत गुणस्थानतक तीनों वेदोंसे युक्त होते हैं ॥ १०७ ॥

तीनों वेदोंकी प्रवृत्ति क्रमसे ही होती है युगपत् नहीं, क्योंकि, वेद पर्याय है । जैसे, विवक्षित कषाय केवल अन्तर्मुहूर्तपर्यन्त रहती है, वैसे सभी वेद केवल एक अन्तर्मुहूर्तपर्यन्त ही नहीं रहते हैं, क्योंकि, जन्मसे लेकर मरणतक भी किसी एक वेदका उदय पाया जाता है । शेष कथन सुगम है ।

मनुष्यगतिमें विशेष प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

मनुष्य मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे लेकर अनिवृत्तिकरण गुणस्थानतक तीनों वेदवाले होते हैं ॥ १०८ ॥

संयतानां कथं त्रिवेदसत्त्वमिति चेन्न, अव्यक्तवेदसत्त्वापेक्षया तत्र तथोक्तम् ।  
सुगममन्यत् ।

वेदत्रयातीतजीवप्रतिपादनार्थमाह—

तेण परमवगदवेदा चेदि ॥ १०९ ॥

सर्वत्र च-शब्दः समुच्चये दृष्टव्यः एते च पूर्वोक्ताश्च सन्तीति । इति शब्दः सर्वत्र  
समाप्तौ परिगृहीतव्यः । सुगममन्यत् ।

देवादेशप्रतिपादनार्थमाह—

देवा चदुसु द्वाणेषु दुवेदा, इत्थिवेदा पुरिसवेदा ॥ ११० ॥

सानत्कुमारमाहेन्द्रादुपरि पुरुषवेदा एव । यत्नमन्तरेण तत्कथं लभ्यत इति चेत्  
'तेण परमवगदवेदा चेदि' अत्रतन च-शब्दो यतोऽनुक्तसमुच्चयार्थश्च तस्मात्सान-  
त्कुमारादीनां पुंवेदत्वमवसीयते । तिर्यङ्मनुष्यलब्ध्यपर्याप्ताः सम्मूर्च्छिमपञ्चेन्द्रियाश्च  
नपुंसका एव । असंख्येयवर्षायुपस्तिर्यञ्चो मनुष्याश्च द्विवेदा एव, न नपुंसकवेदाः इत्यादयोऽ-

शंका— संयतोंके तीनों वेदोंका सत्त्व कैसे संभव है ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, अव्यक्तरूपसे वेदोंके अस्तित्वकी अपेक्षा वहां पर तीनों  
वेदोंकी सत्ता कहीं । शेष कथन सुगम है ।

अब तीनों वेदोंसे रहित जीवोंके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

नववें गुणस्थानके सवेद भागसे आगेके सभी गुणस्थानवाले जीव वेदरहित हैं ॥१०९॥

सब जगह च शब्द समुच्चयरूप अर्थमें जानना चाहिये । अर्थात् वेदरहित और पहले  
कहे हुए वेदवाले जीव होते हैं । इति शब्द सब जगह समाप्तिरूप अर्थमें ग्रहण करना  
चाहिये । शेष कथन सुगम है ।

अब देवगतिमें विशेष प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

देव चार गुणस्थानोंमें स्त्री और पुरुष इसप्रकार दो वेदवाले होते हैं ॥ ११० ॥

सानत्कुमार और माहेन्द्र कल्पसे लेकर ऊपर सभी देव पुरुषवेदी ही होते हैं ।

शंका— यज्ञके बिना अर्थात् बिना आगम प्रमाणके यह बात कैसे जानी जाय ?

समाधान— 'तेण परमवगदवेदा चेदि' इस सूत्रमें आया हुआ च शब्द अनुक्त  
अर्थके समुच्चयके लिये है । इसलिये इससे यह जाना जाता है कि सानत्कुमार और माहेन्द्र  
कल्पसे लेकर ऊपरके देव एक पुरुषवेदी ही होते हैं ।

उसीप्रकार, लब्ध्यपर्याप्तक तिर्यच और मनुष्य तथा सम्मूर्छन पंचेन्द्रिय जीव नपुंसक  
ही होते हैं । असंख्यात वर्षकी आयुवाले मनुष्य और तिर्यच ये दोनों स्त्री और पुरुष ये दो

नुक्तास्तत एवावसेयाः ।

वेदद्वारेण जीवपदार्थमभिधाय कपायमुखेन जीवसमासस्थाननिरूपणार्थमाह—

कसायाणुवादेण अत्थि क्रोधकसाई माणकसाई मायकसाई  
लोभकसाई अकसाई चेदि ॥ १११ ॥

कपायिसामान्येनैकत्वाद्ब्रह्मनामप्येकवचनं घटते क्रोधकपायी मानकपायी माया-  
कपायी लोभकपायी अकपायीति । अथवा नेदमेकवचनं 'एए सोहंति सिही णचंता  
गिरिवरस्स सिहरम्मि' इत्येवमादिवहुत्वेऽपि एवंविधरूपोपलम्भादनैकान्तात् । अथ  
स्यात्क्रोधकपायः मानकपायः मायाकपायः लोभकपायः अकपाय इति वक्तव्यं कपायेभ्य-  
स्तद्वृत्तां भेदात् इति न, जीवेभ्यः पृथक् क्रोधाद्यनुपलम्भात् । तयोर्भेदाभावे कथं  
भिन्नं तन्निर्देशो घटत इति चेन्न, अनेकान्ते तद्विरोधात् । शब्दनयाश्रयणे क्रोधकपाय

वेदवाले होते हैं, नपुंसक नहीं होते हैं। इत्यादि अनुक्त अर्थ भी उसी च शब्दसे जान लेना ।

वेदमार्गणाके द्वारा जीव पदार्थको कहकर अब कपाय मार्गणाके द्वारा गुणस्थानोंके  
निरूपण करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

कपाय मार्गणाके अनुवादसे क्रोधकपायी, मानकपायी, मायाकपायी, लोभकपायी और  
कपायरहित जीव होते हैं ॥ १११ ॥

कपायी-सामान्यकी अपेक्षा एक होनेके कारण बहुतका भी एकवचनके द्वारा कथन  
बन जाता है । जैसे, क्रोधकपायी, मानकपायी, मायाकपायी, लोभकपायी और अकपायी ।  
अथवा, 'क्रोधकसाई' इत्यादि पद एकवचन नहीं हैं, क्योंकि, 'एए सोहंति सिही णचंता  
गिरिवरस्स सिहरम्मि' ( अर्थात् गिरिवरके शिखरपर नृत्य करते हुए ये गयूर शोभा  
पा रहे हैं । ) इत्यादि प्रयोगोंमें बहुत्वकी विवक्षा रहने पर भी 'क्रोधकसाई' की तरह 'सिही'  
इसप्रकार रूपोंकी उपलब्धि होती है । इसलिये इसप्रकारके प्रयोगोंमें अनेकान्त समझना चाहिये ।

शंका—सूत्रमें क्रोधकपायी आदिके स्थान पर क्रोधकपाय, मानकपाय, मायाकपाय,  
लोभकपाय और अकपाय कहना चाहिये, क्योंकि, कपायोंसे कपायवालोंमें भेद पाया जाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, जीवोंसे पृथक् क्रोधादि कपाय नहीं पाई जाती हैं ।

शंका—यदि कपाय और कपायवानमें भेद नहीं है तो भिन्न रूपसे उनका निर्देश कैसे  
बन सकता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, अनेकान्तमें भिन्न निर्देशके बन जानेमें भी कोई विरोध  
नहीं आता है ।

विशेषार्थ—यद्यपि कपायादि धर्म जीवको छोड़कर स्वतन्त्र नहीं पाये जाते हैं, इस

इति भवति तस्य शब्दपृष्ठतोऽर्थप्रतिपत्तिप्रवणत्वात् । अर्थनयाश्रयणे क्रोधकषायीति स्याच्छब्दतोऽर्थस्य भेदाभावात् । कषायिचातुर्विध्यात्कषायस्य चातुर्विध्यमवगम्यत इति वा । तथोपदिष्टमेवानुवदनमनुवादः कषायस्य अनुवादः कषायानुवादः तेन कषायानुवादेन । प्रसिद्धस्यानुकथनमनुवादः । सिद्धासिद्धाश्रया हि कथामार्गा इति न्यायादनुवादोऽनर्थकोऽनधिगतार्थाधिगन्तृत्वाभावाद्देति न, प्रवाहरूपेणापौरुषेयत्वतस्तीर्थकृदादयोऽस्य व्याख्यातार एव न कर्तार इति ज्ञापनार्थत्वात् । कः क्रोधकषायः ? रोप आमर्षः संरम्भः । को मानकषायः ? रोपेण विद्यातपोजात्यादिमदेन वान्यस्यानवनतिः । निकृतिर्वञ्चना मायाकषायः । गर्हा काङ्क्षा लोभः । उक्तं च -

लिये जीवसे वे अभिन्न हैं । फिर भी धर्म-धर्मीभेदसे उनमें भेद बन जाता है, अतएव भिन्न निर्देश करनेमें कोई आपत्ति नहीं आती है ।

अथवा, शब्दनयका आश्रय करने पर 'क्रोधकषाय' इत्यादि प्रयोग बन जाते हैं, क्योंकि, शब्दनय शब्दानुसार अर्थज्ञान करानेमें समर्थ है । और अर्थनयका आश्रय करने पर 'क्रोधकषायी' इत्यादि प्रयोग होते हैं, क्योंकि, इस नयकी दृष्टिमें शब्दसे अर्थका कोई भेद नहीं है । अथवा, चार प्रकारके कषायवान् जीव होते हैं । इससे कषाय भी चार प्रकारकी हैं, ऐसा ज्ञान हो जाता है । इसलिये सूत्रमें 'क्रोधकषायी' इत्यादि पदोंका प्रयोग किया है ।

जिसप्रकार उपदेश दिया है उसीप्रकारके कथन करनेको अनुवाद कहते हैं । कषायके अनुवादको कषायानुवाद कहते हैं । उससे अर्थात् कषायानुवादसे जीव पांच प्रकारके होते हैं । अथवा, प्रसिद्ध अर्थका अनुकूल कथन करनेको अनुवाद कहते हैं ।

शंका — 'कथामार्ग अर्थात् कथनपरंपराएं प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध इन दोनोंके आश्रयसे प्रवृत्त होती हैं' इस न्यायके अनुसार यहां पर अनुवाद अर्थात् केवल प्रसिद्ध अर्थका अनुकूल कथन करना निष्फल है, इससे अनधिगत अर्थका ज्ञान नहीं होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, यह कथन प्रवाहरूपसे अपौरुषेय होनेके कारण तीर्थकर आदि इसके केवल व्याख्यान करनेवाले ही हैं कर्ता नहीं हैं, इस बातका ज्ञान करानेके लिये अनुवाद पदका कहना अनर्थक नहीं है ।

शंका—क्रोधकषाय किसे कहते हैं ?

समाधान—रोप, आमर्ष और संरम्भ इन सबको क्रोध कहते हैं ।

शंका—मानकषाय किसे कहते हैं ?

समाधान—रोपसे अथवा विद्या, तप और जाति आदिके मंदसे दूसरेके तिरस्काररूप भावको मान कहते हैं ।

निकृति या वञ्चनाको मायाकषाय कहते हैं । गर्हा या आकांक्षाको लोभ कहते हैं कहां भी है—

सिल-पुढवि-भेद-धूली-जल-राई-समाणओ हवे कोहो ।

णारय-तिरिय-णारामर-गईसु उप्पायओ कमसो' ॥ १७४ ॥

सेलट्टि-कट्ट-वेत्तं णियभेणणगुहरंतओ माणो ।

णारय-तिरिय-णारामर-गइ-विसयुप्पायओ कमसो' ॥ १७५ ॥

वेळुवमूलोरध्मय-सिंगे गोमुत्तणण खोरपे ।

सरिसी माया णारय-तिरिय-णारामरेसु जणइ जिअं' ॥ १७६ ॥

किमिराय-चक्क-तणु-मल-हरिइ-राणण सरिसओ लोहो ।

णारय-तिरिक्ख-माणुस-देवेसुप्पायओ कमसो' ॥ १७७ ॥

क्रोधकषाय चार प्रकारका है। पत्थरकी रेखाके समान, पृथिवीकी रेखाके समान, धूलिरेखाके समान और जलरेखाके समान। ये चारों ही क्रोध क्रमसे नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देवगतिमें उत्पन्न करानेवाले होते हैं ॥ १७४ ॥

मान चार प्रकारका होता है। पत्थरके समान, हड्डीके समान, काठके समान तथा बेटके समान। ये चार प्रकारके मान भी क्रमसे नरक, तिर्यंच मनुष्य और देवगतिके उत्पादक हैं ॥ १७५ ॥

माया भी चार प्रकारकी है। बांसकी जड़के समान, मेढके सींगके समान, गोमूत्रके समान तथा खुरपाके समान। यह चार प्रकारकी माया भी क्रमसे जीवको नरक, तिर्यंच-मनुष्य और देवगतिमें ले जाती है ॥ १७६ ॥

लोभकषाय भी चार प्रकारका है। किमिरागके समान, चक्रमलके समान, शरीरके मलके समान और हल्दीके रंगके समान। यह भी क्रमसे नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव, गतिका उत्पादक है ॥ १७७ ॥

.....

१ गो. जी. २८४. तत्तच्छक्तियुक्तक्रोधकषायपरिणतो जीवः तत्तद्गत्युत्पत्तिकारणतत्तदायुर्ग्यानुपूर्व्यादि-प्रकृतीर्वाभातीत्यर्थः। अत्र राजिशब्दो रेखार्थवाची न तु पंक्तिवाची। यथा शिलादिभेदानां चित्तराचिरशीघ्रशीघ्रतरकालैर्विना अनुसन्धानं न घटते तथोत्कृष्टादिशक्तियुक्तक्रोधपरिणतो जीवोऽपि तथाविधकालैर्विना क्षमालक्षणसंधानाहो न स्यात् इत्युपमानोपमेययोः सादृश्यं संभवतीति तात्पर्यार्थः। जी. प्र. टी. णगपुढविवाल्लुगोदयरईसरिसो चउच्चिहो कोहो। फसायपाहुड, जलरेणुपुढविप्ययरईसरिसो चउच्चिहो कोहो। क. ग्रं. १. १९.

२ गो. जी. २८५. सेलवणअट्टिदारुअलदासमाणो हवदि माणो ॥ कसायपहुड. तिणिसलयाकट्टट्टियअसे-लधंभोवमो माणो। क. ग्रं. १. १९.

३ गो. जी. २८६. वंसीजणहुगसरिसी मेढवेसाणसरिसी य गोमुत्ती। अवलेहणीसमाणा माया वि चउच्चिहा भाणिदा ॥ कसायपहुड. मायावलेहिगोमुत्तिमिढंसिगघनवंसिमूलसमा। क. ग्रं. १. २०.

४ गो. जी. २८७. किमिरागरत्तसमगो अक्खमलसमो य पंसुलेवसमो। हालिद्धवत्थसमगो लोमी वि

सकलकषायाभावोऽकषायः । उक्तं च —

अप्प-परोभय-वाधण-बंधासंजम-णिमित्त-क्रोधादी ।

जेसिं णत्थि कसाया अमला अकसाइणो जीवा' ॥ १७८ ॥

कषायाध्वानप्रतिपादनार्थमाह —

क्रोधकसाई माणकसाई मायकसाई एइंदिय-प्पहुडि जाव  
अणियट्टि ति' ॥ ११२ ॥

यतीनामपूर्वकरणादीनां कथं कषायास्तित्वमिति चेन्न, अव्यक्तकषायापेक्षया  
तथोपदेशात् । सुगममन्यत् ।

लोभस्याध्वाननिरूपणार्थमाह—

संपूर्ण कषायोंके अभावको अकषाय कहते हैं । कहा भी है—

जिनके, स्वयं अपनेको दूसरेको तथा दोनोंको वाधा देने, बन्ध करने और असंयम  
करनेमें निमित्तभूत क्रोधादि कषाय नहीं हैं, तथा जो बाह्य और आभ्यन्तर मलसे रहित हैं  
ऐसे जीवोंको अकषाय कहते हैं ॥१७८॥

अब कषायमार्गणाके विशेष प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

एकेन्द्रियसे लेकर अनिवृत्तिकरण गुणस्थानतक क्रोधकषायी, मानकषायी और माया-  
कषायी जीव होते हैं ॥ ११२ ॥

शंका—अपूर्वकरण आदि गुणस्थानवाले साधुओंके कषायका अस्तित्व कैसे पाया  
जाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, अव्यक्त कषायकी अपेक्षा वहां पर कषायोंके अस्तित्वका  
उपदेश दिया है । शेष कथन सुगम है ।

अब लोभकषायके विशेष प्ररूपण करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

चउत्विहो भणियो ॥ कसायपहुड. लोहो हलिद्धखंजणकद्धमकिमिरागसामाणो । क. प्र. १. २०.

१ गो. जी. २८९. यद्यपि उपशांतकषायादिचतुर्गुणस्थानवर्तिनोऽपि अकषाया अमलाश्च यथासंभवं  
द्रव्यमात्रमलरहिताः संति तथापि तेषां गुणस्थानप्ररूपणयैव अकषायत्वसिद्धिरस्तीति ज्ञातव्यं । तथा, कस्यचिज्जीवस्य  
क्रोधादिकषायः स्वस्यैव बन्धनहेतुः स्वशिरोभिवातादिवाधाहेतुः हिंसाद्यसंयमहेतुश्च भवति । कस्यचिज्जीवस्य क्रोधादिः  
कषायः परस्य स्वशत्रादेर्वाधनबंधनासंयमहेतुर्भवति । कस्यचित्कामुकदिज्जीवस्य क्रोधादिकषायः स्वपरयोरपि यथा-  
संभवं बाधनबन्धनासंयमहेतुर्भवति इति विभागः लोकानुसारेण आगमासारेण च दृष्टव्यः । जी. प्र. टी.

२ कषायानुवादेन क्रोधमानमायासु मिथ्यादृष्ट्यादीनि अनिवृत्तिवादस्थानान्तानि सन्ति । स. सि. १. ८.

लोभकसाई एइंदिय-पहुडि जाव सुहुम-सांपराइय-मुद्धि-संजदा  
त्ति ॥ ११३ ॥

शेषकपायोदयविनाशे लोभकपायस्य विनाशानुपपत्तेः लोभकपायस्य सूक्ष्म-  
साम्परायोऽवधिः ।

अकपायोपलक्षितगुणप्रतिपादनार्थमाह—

अकसाई चदुसु टाणेसु अत्थि उवसंतकसाय-वीयराय-छुदु-  
मत्था खीणकसाय-वीयराय-छुदुमत्था सजोगिकेवली अजोगिकेवलि  
त्ति ॥ ११४ ॥

उपशान्तकपायस्य कथमकपायत्वमिति चेत्, कथं च न भवति? द्रव्यकपायस्या-  
नन्तस्य सत्त्वात् । न, कपायोदयाभावापेक्षया तस्याकपायत्वोपपत्तेः । सुगममन्यत् ।  
कपायस्यादेशः किमिति नोक्तमिति चेन्न, विशेषाभावतोऽनेनैव गतार्थत्वात् ।

लोभकपायसे युक्त जीव एकेन्द्रियोंसे लेकर सूक्ष्मसांपरायशुद्धिसंयत गुणस्थान-  
तक होते हैं ॥ ११३ ॥

शेष कपायोंके उदयके नाश हो जाने पर उसीसमय लोभकपायका विनाश बन  
नहीं सकता है, इसलिये लोभकपायकी अन्तिम मर्यादा सूक्ष्मसांपराय गुणस्थान है ।

कपायरहित जीवोंसे उपलक्षित गुणस्थानोंके प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

कपायरहित जीव उपशान्त-कपाय-वीतराग-छद्मस्थ, क्षीणकपाय-वीतराग-छद्मस्थ,  
सयोगिकेवली और अयोगिकेवली इन चार गुणस्थानोंमें होते हैं ॥ ११४ ॥

शंका—उपशान्तकपाय गुणस्थानको कपायरहित कैसे कहा ?

प्रतिशंका—बहु कपायरहित क्यों नहीं हो सकता है ?

शंका—वहाँ अनन्त द्रव्यकपायका सद्भाव होनेसे उसे कपायरहित नहीं कह  
सकते हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, कपायके उदयके अभावकी अपेक्षा उसमें कपायोंसे रहित-  
पना बन जाता है । शेष कथन सुगम है ।

शंका—कपायोंका विशेष ( मार्गणाओंमें ) कथन क्यों नहीं किया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, कपायोंके सामान्य कथनसे उनका मार्गणाओंमें कथन कर-  
नेमें कोई विशेषता नहीं है, इसीसे उसका ज्ञान हो जाता है । इसलिये आदेश प्ररूपणा नहीं की ।

१ लोभकपाये तान्येव सूक्ष्मसाम्परायस्थानाधिकानि । स. सि. १. ८.

२ अकपायः उपशान्तकपायः क्षीणकपायः सयोगिकेवली अयोगिकेवली चेदि । स. सि. १. ८.

ज्ञानद्वारेण जीवपदार्थनिरूपणार्थमाह—

णाणाणुवादेण अत्थि मदि-अण्णाणी सुद-अण्णाणी विभंग-  
णाणी आभिणिबोहियणाणी सुदणाणी ओहिणाणी मणपज्जव-  
णाणी केवलणाणी चेदि ॥ ११५ ॥

अत्रापि पूर्ववत्पर्यायपर्यायिणोः कथञ्चिदभेदात्पर्यायिग्रहणेऽपि पर्यायस्य ज्ञानस्यैव ग्रहणं भवति । ज्ञानिनां भेदाद् ज्ञानभेदोऽवगम्यत इति वा पर्यायिद्वारेणोपदेशः । ज्ञानानुवादेन कथमज्ञानस्य ज्ञानप्रतिपक्षस्य सम्भव इति चेन्न, मिथ्यात्वसमवेतज्ञानस्यैव ज्ञानकार्याकरणादज्ञानव्यपदेशात् पुत्रस्यैव पुत्रकार्याकरणादपुत्रव्यपदेशवत् । किं तद्-ज्ञानकार्यमिति चेत्तत्त्वार्थे रुचिः प्रत्ययः श्रद्धा चारित्रस्पर्शनं च । अथवा प्रधानपद-माश्रित्याज्ञानानामपि ज्ञानव्यपदेशः आम्रवनमिति यथा । जानातीति ज्ञानं साकारोप-योगः । अथवा जानात्यज्ञासीज्ज्ञास्यत्यनेनेति वा ज्ञानं ज्ञानावरणीयकर्मणः एकदेश-प्रक्षयात् समुत्पन्नात्मपरिणामः क्षायिको वा । तदपि ज्ञानं द्विविधम्, प्रत्यक्षं परोक्षमिति ।

अब ज्ञानमार्गणाके द्वारा जीव पदार्थके निरूपण करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

ज्ञानमार्गणाके अनुवादसे मति-अज्ञानी श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, आभिनिबोधिकाज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, और केवलज्ञानी जीव होते हैं ॥ ११५ ॥

यहां पर भी पहलेकी तरह पर्याय और पर्यायीमें कथंचित् अभेद होनेसे पर्यायीके ग्रहण करने पर भी पर्यायरूप ज्ञानका ही ग्रहण होता है । अथवा, ज्ञानी कितने प्रकारके होते हैं इस बातके समझ लेनेसे ज्ञानके भेदोंका ज्ञान हो जाता है । इसलिये पर्यायीके कथन-द्वारा यहां पर उपदेश दिया है ।

शंका—ज्ञान मार्गणाके अनुवादसे ज्ञानके प्रतिपक्षभूत अज्ञानका ज्ञानमार्गणामें कैसे संभव है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, मिथ्यात्वसहित ज्ञानको ही ज्ञानका कार्य नहीं करनेसे अज्ञान कहा है । जैसे, पुत्रोचित कार्यको नहीं करनेवाले पुत्रको ही अपुत्र कहा जाता है ।

शंका—ज्ञानका कार्य क्या है ?

समाधान—तत्त्वार्थमें रुचि, निश्चय, श्रद्धा और चारित्रका धारण करना ज्ञानका कार्य है । अथवा, प्रधानपदकी अपेक्षा अज्ञानको भी ज्ञान कहा जाता है । जैसे, जिस वनमें आमके वृक्षोंकी बहुलता होती है उसे आम्रवन कहा जाता है ।

जो जानता है उसे ज्ञान कहते हैं । अर्थात् साकार उपयोगको ज्ञान कहते हैं । अथवा, जिसके द्वारा यह आत्मा जानता है, जानता था अथवा जानेगा, ऐसे ज्ञानावरण कर्मके एकदेश क्षयसे अथवा संपूर्ण ज्ञानावरण कर्मके क्षयसे उत्पन्न हुए आत्माके परिणामको ज्ञान कहते हैं ।



परोक्षं द्विविधम्, सतिः श्रुतमिति । तत्र पञ्चभिरिन्द्रियैर्मनसा च यदर्थग्रहणं तन्मतिज्ञानम् । तदपि चतुर्विधम्, अवग्रह ईहा अवायो धारणा चेति । विषयविषयिसन्निपात-समनन्तरमाद्यग्रहणमवग्रहः । अवग्रहीतस्यार्थस्य विशेषाकाङ्क्षणमीहा । ईहितस्यार्थस्य निश्चयोऽवायः । कालान्तरेऽप्यविस्मरणसंस्कारजनकं ज्ञानं धारणा । अथवा चतुर्विंशति-विधं मतिज्ञानम् । तद्यथा, चाक्षुषं च चतुर्विधं मतिज्ञानमवग्रहः ईहावायो धारणा चेति । एवं शेषाणामपि इन्द्रियाणां मनसश्च वाच्यम् । अथवा अष्टाविंशतिविधम् । तद्यथा, अवग्रहो द्विविधोऽर्थावग्रहो व्यञ्जनावग्रहश्चेति । क्रोऽर्थावग्रहश्चेद्प्राप्तार्थग्रहणमर्थावग्रहः ।

वह ज्ञान दो प्रकारका है, प्रत्यक्ष और परोक्ष । परोक्षके भी दो भेद हैं, मतिज्ञान और श्रुतज्ञान । उनमें पांच इन्द्रियों और मनसे जो पदार्थका ग्रहण होता है उसे मतिज्ञान कहते हैं । वह मतिज्ञान चार प्रकारका है, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा । विषय और विषयीके संबन्ध होनेके अनन्तर समयमें जो प्रथम ग्रहण होता है उसे अवग्रह कहते हैं । अवग्रहसे ग्रहण किये गये पदार्थके विशेषको जाननेके लिये अभिलापरूप जो ज्ञान होता है उसे ईहा कहते हैं । ईहाके द्वारा जाने गये पदार्थके निश्चयरूप ज्ञानको अवाय कहते हैं । कालान्तरमें भी विस्मरण न होनेरूप संस्कारके उत्पन्न करनेवाले ज्ञानको धारणा कहते हैं ।

अथवा, मतिज्ञान चौबीस प्रकारका होता है । इसका रूपटीकरण इसप्रकार है, चक्षु इन्द्रियसे उत्पन्न होनेवाला मतिज्ञान चार प्रकारका है, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा इसीप्रकार शेष चार इन्द्रियोंसे और मनसे उत्पन्न होनेवाला ज्ञान भी अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणाके भेदसे चार चार प्रकारका होता है इसप्रकार कथन करना चाहिये । इसप्रकार ये सब मिलकर चौबीस भेद हो जाते हैं । अथवा, मतिज्ञान अष्टाईस प्रकारका होता है । उसका रूपटीकरण इसप्रकार है । अवग्रह दो प्रकारका होता है, अर्थावग्रह और व्यञ्जनावग्रह ।

शंका—अर्थावग्रह किसे कहते हैं ?

समाधान—अप्राप्त अर्थके ग्रहण करनेको अर्थावग्रह कहते हैं ।

१ विषयविषयिसन्निपातसमयानन्तरमाद्यग्रहणमवग्रहः । स. सि. १. १५. विषयविषयिसन्निपाते सति दर्शनं भवति तदनन्तरमर्थस्य ग्रहणमवग्रहः । त. रा. वा. १. १५. विषयविषयिसन्निपातानन्तरमाद्यं ग्रहणमवग्रहः । विषय-स्तावद् द्रव्यपर्यायात्मार्थः विषयिणो द्रव्यभावेन्द्रियं अर्थग्रहणं योग्यतालक्षणं तदनन्तरभूतं सन्मात्रं दर्शनं स्वविषय-व्यवस्थापनविकल्पमुत्तरं परिणामं प्रतिपद्यतेऽवग्रहः । लघ्नीयस्य. स्वो. वृ. लि. पृ. २ प्र. पं. १-३ । तत्राव्यक्तं यथास्वमिन्द्रियैर्विषयाणामालोचनावधारणमवग्रहः । तच्चार्थ. भा. १. १५. विषयविषयिसन्निपातानन्तरसमुद्भूतसत्ता-मात्रगोचरदर्शनाज्ञातमाद्यमवान्तरसामान्याकारविशिष्टवस्तुग्रहणमवग्रहः । प्रमाणनयत. २. ७. अक्षार्थयोगे दर्शना-नन्तरमर्थग्रहणमवग्रहः । प्रमाणमी. १. १. २७.

२ एषां विशेषार्थपरिज्ञानाय विशेषावश्यकमाप्यं १७९, तः ३५०. गाथान्तं यावद् दृष्टव्यम् । उगहो एकं समयं ईहावाया गृह्यन्तं तु । कालमसंखं संखं च धारणा होई नायच्चा ॥ आ. नि. ४.

को व्यञ्जनावग्रहः ? प्राप्तार्थग्रहणं व्यञ्जनावग्रहः । तत्र चक्षुर्मनसोरर्थावग्रह एव तयोः प्राप्तार्थग्रहणानुपलम्भात् । शेषाणामिन्द्रियाणां द्वावप्यवग्रहौ भवतः । शेषेन्द्रियेष्व-  
प्राप्तार्थग्रहणं नोपलभ्यत इति चेन्न, एकेन्द्रियेषु योग्यदेशस्थितनिधिषु निधिस्थितप्रदेश

शंका—व्यञ्जनावग्रह किसे कहते हैं ?

समाधान—प्राप्त अर्थके ग्रहण करनेको व्यञ्जनावग्रह कहते हैं ।

उनमें, चक्षु और मनसे अर्थावग्रह ही होता है, क्योंकि, इन दोनोंमें प्राप्त अर्थका ग्रहण नहीं पाया जाता है । शेष चारों ही इन्द्रियोंके अर्थावग्रह और व्यञ्जनावग्रह ये दोनों भी पाये जाते हैं ।

शंका—शेष इन्द्रियोंमें अप्राप्त अर्थका ग्रहण नहीं पाया जाता है, इसलिये उनसे अर्थावग्रह नहीं होना चाहिये ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, एकेन्द्रियोंमें उनका योग्य देशमें स्थित निधिवाले प्रदेशमें

१ व्यञ्जनमव्यक्तं शब्दादिजातं तस्यावग्रहो भवति । ×× ननु अवग्रहग्रहणमुभयत्र तुल्यं तत्र किंकृतोऽयं विशेषः ? अर्थावग्रहव्यञ्जनावग्रहयोर्व्यक्ताव्यक्तकृतो विशेषः । कथम् ? अमिनवशरावार्द्राकरणवत् । यथा जलकण-  
द्वित्रिसिक्तः शरावोऽमिनवो नार्द्राभवति, स एव पुनः पुनः सिच्यमानः शनैस्तिम्यते, एवं श्रोत्रादिष्विन्द्रियेषु शब्दादिपरिणताः पुद्गला द्वित्र्यादियु समयेषु गृह्यमाणा न व्यक्तीभवन्ति, पुनः पुनरवग्रहे सति व्यक्तीभवन्ति । अतो व्यक्तग्रहणात्प्राग्व्यञ्जनावग्रहः । व्यक्तग्रहणमर्थावग्रहः । स. सि. १. १८ । त. रा. वा. १. ५८. वा. २. अव्यक्तमत्र शब्दादिजातं व्यञ्जनमित्यते । तस्यावग्रह एवेति नियमोऽध्यक्षवद्गतः ॥ त. श्लो. वा. १. १८. २. ×× इन्द्रियैः प्राप्तार्थविशेषग्रहणं व्यञ्जनावग्रहः । तैरप्राप्तार्थविशेषग्रहणं अर्थावग्रह इत्यर्थः । व्यञ्जनं अव्यक्तं शब्दादिजातं इति तच्चार्थ-  
विवरणेषु प्रोक्तं कथमनेन व्याख्यानेन सह संगतमिति चेदुच्यते, विगतं-अंजनं-अभिव्यक्तिर्यस्य तद् व्यञ्जनं । व्यञ्ज्यते प्रक्ष्यते प्राप्यते इति व्यञ्जनं । अंजु गतिव्यक्तिप्रक्षणेऽपि व्यक्तिप्रक्षणार्थयोर्ग्रहणात् । शब्दाद्यर्थः श्रोत्रादीन्द्रियेण प्राप्तोऽपि यावन्नाभिव्यक्तस्तावद् व्यञ्जनमित्युच्यते एकवारजलकणसिक्तनूतनशराववत् । पुनरभिव्यक्तौ सत्यां स एवार्थो भवति । गो. जी., जी. प्र, टी. ३०७. ×× अव्यक्ते इत्यर्थः अर्थस्यावग्रहणं अर्थावग्रहः, सकलरूपादिविशेषनिर-  
पेक्षानिर्देश्यसामान्यमात्ररूपार्थग्रहणमेकसामयिकमित्यर्थः । तथा व्यञ्ज्यते अनेनार्थः प्रदीपेनेव घट इति व्यञ्जनं, तच्चोप-  
करणेन्द्रियस्य श्रोत्रादेः शब्दादिपरिणतद्रव्याणां च परस्परं सम्बन्धः, सम्बन्धे हि सति सोऽर्थः शब्दादिरूपः श्रोत्रादी-  
न्द्रियेण व्यञ्जयितुं शक्यते नान्यथा, ततः सम्बन्धो व्यञ्जनं । ×× व्यञ्जनेन-सम्बन्धेनावग्रहणं सम्बन्धमानस्य शब्दादिरूपस्यार्थस्याव्यक्तरूपः परिच्छेदो व्यञ्जनावग्रहः । अथवा व्यञ्ज्यते इति व्यञ्जनानि, कृद्वहुलमिति वचनात् कर्मण्यनट्, व्यञ्जनानां शब्दादिरूपतया परिणतानां द्रव्याणामुपकरणेन्द्रियसम्प्राप्तानामवग्रहः अव्यक्तरूपः परिच्छेदोः व्यञ्जनावग्रहः । ×× इयमत्र भावना उपकरणेन्द्रियशब्दादिपरिणतद्रव्यसम्बन्धे प्रथमसमयादारभ्यार्थावग्रहात् प्राक् या सुप्तमत्तमूर्धितादिपुरुषाणामिव शब्दादिद्रव्यसम्बन्धमात्रविषया काचिदव्यक्ता ज्ञानमात्रा सा व्यञ्जनावग्रहः, स. चान्त-  
सुद्वर्तप्रमाणः । नं. सू. पृ. १६८. २ कोर्थावग्रहः व्यञ्जनावग्रहो वा ? अप्राप्तार्थग्रहणमर्थावग्रहः । प्राप्तार्थग्रहणं व्यञ्जनावग्रहः । न स्पष्टास्पष्टग्रहणेऽर्थव्यञ्जनावग्रहो । तयोश्चक्षुर्मनसोरपि सत्त्वतस्तत्र व्यञ्जनावग्रहस्य सत्त्वप्रसंगादस्तुचेन्न, न चक्षुरानि-

एव प्रारोहमुक्त्यन्यथानुपपत्तितः स्पर्शनस्याप्राप्तार्थग्रहणसिद्धेः । शेषेन्द्रियाणामप्राप्तार्थ-  
ग्रहणं नोपलभ्यत इति चेन्माभूदुपलम्भस्तथापि तदस्त्येव । यद्युपलम्भस्त्रिकालगोचरमशेषं  
पर्यच्छेत्स्यदनुपलब्धस्याभावोऽभविष्यत् । न चैवमनुपलम्भात् । न कात्स्न्येनाप्राप्त-  
मर्थस्यानिःसृतत्वमनुक्तत्वं वा ब्रूमहे यतस्तद्वग्रहादिनिदानमिन्द्रियाणामप्राप्यकारित्व-

ही अंकुरोंका फैलाव अन्यथा बन नहीं सकता है, इसलिये स्पर्शन इन्द्रियके अप्राप्त अर्थका  
ग्रहण करना, अर्थात् अर्थावग्रह, बन जाता है ।

शंका—इसप्रकार यदि स्पर्शन इन्द्रियके अप्राप्त अर्थका ग्रहण करना बन जाता है  
तो बन जाओ । फिर भी शेष इन्द्रियोंके अप्राप्त अर्थका ग्रहण करना नहीं पाया जाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, यदि शेष इन्द्रियोंसे अप्राप्त अर्थका ग्रहण करना क्षायो-  
पशमिक ज्ञानके द्वारा नहीं पाया जाता है तो मत पाया जावे । तो भी वह है ही, क्योंकि, यदि  
हमारा ज्ञान त्रिकालगोचर समस्त पदार्थोंको जाननेवाला होता तो अनुपलब्धका अभाव सिद्ध  
हो जाता, अर्थात् हमारा ज्ञान यदि सभी पदार्थोंको जानता तो कोई भी पदार्थ उसके लिये  
अनुपलब्ध नहीं रहता । किंतु हमारा ज्ञान तो त्रिकालवर्ती पदार्थोंको जाननेवाला है नहीं,  
क्योंकि सर्व पदार्थोंको जाननेवाले ज्ञानकी हमारे उपलब्धि ही नहीं होती है । इस कथनसे  
यह सिद्ध हुआ कि शेष इन्द्रियां अप्राप्त पदार्थको ग्रहण करती हैं इस बातको यदि हम न  
भी जान सकें, तो भी उसका निषेध नहीं किया जा सकता है ।

दूसरे, पदार्थके पूरी तरहसे अनिःसृतपनेको और अनुक्तपनेको हम अप्राप्त नहीं  
कहते हैं । जिससे उनके अवग्रहादिका कारण इन्द्रियोंका अप्राप्यकारीपना होवे ।

न्द्रियाभ्यामिति तत्र व्यंजनावग्रहस्य प्रतिषेधात् । न शनैर्ग्रहणं व्यंजनावग्रहः चक्षुर्मनसोरपि तदस्तित्वतः तयोर्व्यंजनावग्रहस्य  
सत्त्वप्रसंगात् । न च तत्र शनैर्ग्रहणमसिद्धमक्षिप्रमंगाभावे अष्टचत्वारिंशच्चक्षुर्मतिज्ञानभेदस्यासत्त्वप्रसंगात् । न श्रोत्रादीन्द्रिय-  
चतुष्टयेऽर्थावग्रहः तत्र प्राप्तस्यैवार्थस्य ग्रहणोपलम्भात् इति चेन्न, वनस्पतिष्वप्राप्तग्रहणस्योपलम्भात् । तदपि कुतोऽव-  
गम्यते ? दूरस्थनिधिमुद्दिश्य प्रारोहमुक्त्यन्यथानुपपत्तेः । चत्वारि धणुसयाइं चउसदृसयं च तह य धणुहाणं । पासे रसे  
य गंधे दुगुणा दुगुणा असणिं चि ॥ ×× इति आगमाद्वा तेषामप्राप्तार्थग्रहणमवगम्यते । नवयोजनान्तरस्थितपुद्गल-  
द्रव्यस्कंधैकदेशमागम्येन्द्रियसंबन्धं जानंतीति केचिदाचक्षते तन्न घटते, अध्वानप्ररूपणायाः वैफल्यप्रसंगात् । न चाध्वानं  
द्रव्याल्पीयस्त्वस्य कारणं स्वमहत्त्वापरित्यागेन भूयो योजनानि संचरज्जीमृतवातोपलम्भतोऽनेकांतात् । किंच यदि  
प्राप्तार्थग्राहिण्येवेन्द्रियाण्यध्वानानिरूपणमंतरेण द्रव्यप्रमाणप्ररूपणमेवाकारिष्यन्न चैवं तथानुपलम्भात् ॥ किंच नवयोजनान्तर-  
स्थितामिषिषाम्यां तीव्रस्पर्शरसक्षयोपशमानां दाहमरणे स्यातां प्राप्तार्थग्रहणात् तावन्मात्राध्वानस्थिताशुचिभक्षणतदुद्ध-  
जनितदुःखे च तत एव स्यातां । पुष्टं सुणेइ सद्दं अपुष्टं चैय पस्सदे रूवं । गंधं रसं च फासं वद्धं पुष्टं च जाणादि ॥  
इत्यस्मात् सूत्रात्प्राप्तार्थग्राहित्वमिन्द्रियाणामवगम्यत इति चेन्न, अर्थावग्रहस्य लक्षणाभावतः खरविषाणस्येवाभावप्रसंगात् ।  
कथं पुनरस्याः गाथाया अर्थो व्याख्यायते ? उच्यते, रूपमस्पष्टमेव चक्षुर्गृह्णाति च-शब्दान्मनश्च । गंधं रसं स्पर्शं च  
वद्धं स्वकं स्वकेन्द्रियेषु नियमितं पुष्टं स्पष्टं च-शब्दादस्पष्टं च शेषेन्द्रियाणि गृह्णति । पुष्टं सुणेइ सद्दं इत्यत्रापि वद्धं च  
शब्दौ योज्यौ अन्यथा दुर्व्याख्यानतापत्तेः । धवला ६९८-६९९.

मिति । किं तर्हि ? कथं चक्षुरनिन्द्रियाभ्यामनिःसृतानुक्तावग्रहादिः तयोरपि प्राप्य-  
कारित्वप्रसङ्गादिति चेन्न, योग्यदेशावस्थितेरेव प्राप्तेरभिधानात् । तथा च रसगन्ध-  
स्पर्शानां स्वग्राहिभिरिन्द्रियैः स्पष्टं स्वयोग्यदेशावस्थितिः शब्दस्य च । रूपस्य चक्षुषाभि-  
मुखतया, न तत्परिच्छेदिना चक्षुषा प्राप्यकारित्वमनिःसृतानुक्तावग्रहादिसिद्धेः । किं च  
तेनाभिहितेनानुक्तावग्रहः, यथा दध्नी गन्धग्रहणकाल एव तद्रसोपलम्भः । नियमित-  
धर्मविशिष्टवस्तुनो वस्त्वेकदेशस्य वा ग्रहणमुक्तावग्रहः । सोऽयमित्यादि ध्रुवावग्रहः । न  
सोऽयमित्याद्यध्रुवावग्रहः । एवमीहादीनामपि योज्यम् । सर्वाण्येतानि मतिज्ञानम् ।

शब्दधूमादिभ्योऽर्थान्तरावगमः श्रुतज्ञानम्<sup>१</sup> । तत्र शब्दलिङ्गजं द्विविधमङ्गमङ्गवाह्य-

शंका — तो फिर अप्राप्यकारीपनेसे क्या प्रयोजन है ? और यदि 'पूरी तरहसे  
अनिःसृतत्व और अनुक्तत्वको अप्राप्त नहीं कहते हो तो चक्षु और मनसे अनिःसृत और  
अनुक्तके अवग्रहादि कैसे हो सकेंगे ? यदि चक्षु और मनसे भी पूर्वोक्त अनिःसृत और अनुक्तके  
अवग्रहादि माने जावेंगे तो उन्हें भी प्राप्यकारित्वका प्रसंग आ जायगा ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, इन्द्रियोंके ग्रहण करनेके योग्य देशमें पदार्थोंकी अवस्थि-  
तिको ही प्राप्ति कहते हैं । ऐसी अवस्थामें रस, गन्ध और स्पर्शका उनको ग्रहण करनेवाली  
इन्द्रियोंके साथ अपने अपने योग्य देशमें अवस्थित रहना स्पष्ट ही है । शब्दका भी उसको ग्रहण  
करनेवाली इन्द्रियके साथ अपने योग्य देशमें अवस्थित रहना स्पष्ट है । उसीप्रकार रूपका चक्षुके  
साथ अभिमुखरूपसे अपने देशमें अवस्थित रहना स्पष्ट है, क्योंकि, रूपको ग्रहण करनेवाले चक्षुके  
साथ रूपका प्राप्यकारीपना नहीं बनता है । इसप्रकार अनिःसृत और अनुक्त पदार्थोंके अव-  
ग्रहादिक सिद्ध हो जाते हैं ।

उपर कहे हुए कथनानुसार अनुक्तावग्रह यह है । जैसे, दहीके गन्धके ग्रहण करनेके  
कालमें ही दहीके रसकी भी उपलब्धि हो जाती है । निश्चित धर्मसे युक्त वस्तुका अथवा  
वस्तुके एकदेशका ग्रहण करना उक्तावग्रह है । 'वह यही है' इत्यादि प्रकारसे ग्रहण करनेको  
ध्रुवावग्रह कहते हैं । 'वह यह नहीं है' इत्यादि प्रकारसे ग्रहण करनेको अध्रुवावग्रह कहते  
हैं । इसीप्रकार ईहादिसंबन्धी उक्त अनुक्त आदिको भी जानना चाहिये । इन सभी भेदोंको  
मतिज्ञान कहते हैं ।

शब्द और धूमादिक लिंगके द्वारा जो एक पदार्थसे दूसरे पदार्थका ज्ञान होता है उसे  
श्रुतज्ञान कहते हैं । उनमें शब्दके निमित्तसे उत्पन्न होनेवाला श्रुतज्ञान दो प्रकारका है, अंग

१ प्रतिपु 'सामादियो' इति पाठः ।

२ अवग्रहादिधारणापरंतमदिणाणेण अन्नगयथावो अण्णत्थावगमो सुदणाणं । तं च दुविहं, सदल्लिगं  
असदल्लिगं चेदि । धूमल्लिगादो जलणावगमो असदल्लिगजो । अवरो सदल्लिगजो । किं लक्खणं लिंगं ? अण्णहाणुव-  
वात्तिलक्खणं । धवला. अ. पृ. ११७१.

मिति । अङ्गभूतं द्वादशविधम् । अङ्गवाह्यं चतुर्दशविधम् । प्रत्यक्षं त्रिविधम्, अवधिज्ञानं मनःपर्ययज्ञानं केवलज्ञानमिति । साक्षान्मूर्ताशेषपदार्थपरिच्छेदकमवधिज्ञानम् । साक्षान्मनःसमादाय मानसार्थानां साक्षात्करणं मनःपर्ययज्ञानम् । साक्षान्त्रिकालगोचराशेषपदार्थपरिच्छेदकं केवलज्ञानम् । मिथ्यात्वसमवेतमिन्द्रियजज्ञानं मत्यज्ञानम् । तेनैव समवेतः शब्दः प्रत्ययः श्रुताज्ञानम् । तत्समवेतमवधिज्ञानं विभङ्गज्ञानम् । उक्तं च—

विस-जंत-कूड-पंजर-वंदादिसु विणुवंस-करणेण ।

जा खट्ट पवत्तइ मदी नदि-अण्णाणे सि तं वेत्ति ॥ १७९ ॥

आभीयमासुरक्खा भारह-रानायगादि-उवएत्ता ।

तुच्छा असाहणीया सुद-अण्णाणे सि तं वेत्ति ॥ १८० ॥

और अंगवाह्य । अंगभूत बारह प्रकारका है और अंगवाह्य चौदह प्रकारका है ।

प्रत्यक्षज्ञानके तीन भेद हैं, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञान । संपूर्ण मूर्त पदार्थोंको साक्षात् जाननेवाले ज्ञानको अवधिज्ञान कहते हैं । मनका आश्रय लेकर मनोगत पदार्थोंके साक्षात्कार करनेवाले ज्ञानको मनःपर्ययज्ञान कहते हैं । त्रिकालके विषयभूत समस्त पदार्थोंको साक्षात् जाननेवाले ज्ञानको केवलज्ञान कहते हैं ।

इन्द्रियोंसे उत्पन्न होनेवाले मिथ्यात्वसमवेत ज्ञानको मत्यज्ञान कहते हैं । शब्दके निमित्तसे जो एक पदार्थसे दूसरे पदार्थका मिथ्यात्वसमवेत ज्ञान होता है उसे श्रुताज्ञान कहते हैं । मिथ्यादर्शनसमवेत अवधिज्ञानको विभंगज्ञान कहते हैं । कहा भी है—

दूसरेके उपदेश विना विषय, यन्त्र, कूट, पंजर तथा वन्ध आदिके विषयमें जो बुद्धि प्रवृत्त होती है उसको मत्यज्ञान कहते हैं ॥ १७९ ॥

चौरशास्त्र, हिंसाशास्त्र, भारत और रामायण आदिके तुच्छ और साधन करनेके अयोग्य उपदेशोंको श्रुताज्ञान कहते हैं ॥ १८० ॥

१ अपरायत्तं नानं पञ्चकखं त्रिविह्नीहिमाईयं । जे परतो आयत्तं तं पारोक्खं ह्वइ सव्वं ॥ वृ. क. सू. २९.  
२ तं मययञ्जवन्दापं जेष दिव्यानाइ सदिजावानं । दडुं ननिञ्जनाने मग्दव्वे नागसं नाव । वृ. क. सू. ३५.  
३ दक्कादिकसिपविसयं केवलज्ञानं तु केवलज्ञानं । अनिवारियवात्तरं अगंतविकल्पिये नियत्तं । वृ. क. सू. ३८.  
४ गो. जी. ३०३. उपदेश-वर्तकत्वे श्रुतज्ञानत्वप्रसंगात् । उपदेशक्रियां विना यदादृष्टमहामोहविकल्पान्महं हिंसाद्यस्तथाद्रुपरिग्रहकारणं आर्तरोद्रव्यानकारणं सत्यदंङ्गारवसंज्ञाव्यवस्तपरिगानकारणं च इन्द्रियमनोजनिताविशेष-प्रहणरूपं मिथ्याज्ञानं तन्मत्यज्ञानमिति निश्चेत्तव्यम् । जी. प्र. टी.

५ गो. जी. ३०४. आ समंताह्मीताः आर्नाताः चौराः तच्छास्त्रन्यासीति । असवः प्राणाः तेषां रक्षा येभ्यः ते असुरज्ञाः तलवराः तेषां शस्त्रनादुराहं । आदिकच्छाद्यधनिम्यादर्शनवृथितसर्वैकान्तवादित्त्वेच्छाकल्पितकथानबंध-भुवनकोचहिंसायागादिगुह्यकर्म त्रिदंडं जडाधारनादितयः कर्मफोडकपदार्थसूक्ष्मपदार्थसावनाविदिनियोंनृत्तचतुन्दयपंच-विकृतिवन्नद्रहोद्वेत्तचतुरार्यसत्यविज्ञानव्रित्तसर्वेश्वर्यात्वादिप्रतिपादकगमासासजनेदश्रुतज्ञानान्मासं तत्सर्वं श्रुतज्ञानमिति निश्चेत्तव्यं, दृष्टेष्टाविरुद्धार्थविषयत्वान् । जी. प्र. टी.

विवरीयमोहिणाणं खड्युवसमियं च कम्म-वीजं च ।  
 वेमंगो त्ति पउच्चइ समत्त-गाणीहि समयम्हि<sup>१</sup> ॥ १८१ ॥  
 अभिमुह-णियमिय-बोहणमाभिणिबोहियमणिदि-इंदियजं ।  
 बहु-ओग्गहाइणा खलु कय-छत्तीस-ति-सय--भेयं<sup>२</sup> ॥ १८२ ॥  
 अत्थादो अत्यंतर-उवलंभो तं भणंति सुदणाणं ।  
 आभिणिबोहिय-पुवं णियमेणिह सदजं पमुहं<sup>३</sup> ॥ १८३ ॥  
 अवहीयदि त्ति ओही सीमाणाणे त्ति वणिणदं समए ।  
 भव-गुण-पच्चय-विहियं तमेहिणाणे त्ति णं वेत्ति<sup>४</sup> ॥ १८४ ॥

सर्वज्ञोंके द्वारा आगममें क्षयोपशमजन्य और मिथ्यात्वादि कर्मके कारणरूप विपरीत अवधिज्ञानको विभंग ज्ञान कहा है ॥ १८१ ॥

मन और इन्द्रियोंकी सहायतासे उत्पन्न हुए अभिमुख और नियमित पदार्थके ज्ञानको आभिनिबोधिक ज्ञान कहते हैं। उसके बहु आदिक वारह प्रकारके पदार्थ और अवग्रह आदिकी अपेक्षा तीनसौ छत्तीस भेद हो जाते हैं ॥ १८२ ॥

मतिज्ञानसे जाने हुए पदार्थके अवलम्बनसे तत्संबन्धी दूसरे पदार्थके ज्ञानको श्रुतज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान नियमसे मतिज्ञानपूर्वक होता है। इसके अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक अथवा शब्दजन्य और लिंगजन्य इसप्रकार दो भेद हैं। उनमें शब्दजन्य श्रुतज्ञान मुख्य है ॥ १८३ ॥

द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षा जिस ज्ञानके विषयकी सीमा हो उसे अवधि-ज्ञान कहते हैं। इसीलिये परमागममें इसको सीमाज्ञान कहा है। इसके भवप्रत्यय और गुण-प्रत्यय इसप्रकार जिनेन्द्रदेवने दो भेद कहे हैं ॥ १८४ ॥

१ गो. जी. ३०५. विशिष्टस्य अवधिज्ञानस्य भंगःविपर्ययः विभंग इति निरुक्तिसिद्धार्थस्यैव अनेन परू-पितस्त्वात्<sup>१</sup>। जी. प्र. टी. विरुद्धो वितथो वा अन्यथा वस्तुभंगो वस्तुविकल्पो यस्मिंस्तद्विभङ्गं, तच्च तज्ज्ञानं च साकारत्वादिति विभङ्गज्ञानं मिथ्यात्वसहितोऽवधिरित्यर्थः। सू. ५४२ (आमि. रा. को. विभंगणाण.)

२ गो. जी. ३०६. स्थूलवर्तमानयोग्यदेशावस्थितोऽर्थः अभिमुखः, अस्मिन्द्वयस्य अयमेवार्थः इत्यवधारितो नियमितः। अभिमुखश्चासौ नियमितश्चासौ अभिमुखानियमितः। तस्यार्थस्य बोधनं अभिनिबोधिकं मतिज्ञानमित्यर्थः। जी. प्र. टी.

३ गो. जी. ३१५. जीवोऽस्तीत्युक्ते जीवोऽस्तीति शब्दज्ञानं श्रोत्रेन्द्रियप्रभवं मतिज्ञानं भवति। ज्ञानेन जीवोऽस्तीति शब्दवाच्यरूपे आःमास्तित्त्रे वाच्यवाचकसंबंधसंकेतसंकलनपूर्वकं यद् ज्ञानमुत्पद्यते तदक्षरात्मकं श्रुतज्ञानं भवति, अक्षरात्मकशब्दसमुत्पन्नत्वेन कार्ये कारणोपचारात्। वातशीतस्पर्शज्ञानेन वातप्रकृतिकस्य तत्स्पर्शे अमनोज्ञान-मनक्षरात्मकं लिंगजं श्रुतज्ञानं भवति, शब्दपूर्वकत्वाभावात् जी. प्र. टी.

४. गो. जी. ३७०. अवाग्धानादविच्छिन्नविषयाद्वा अवधिः। स. सि. १. ९. अवधिज्ञानावरणक्षयोपशमाद्युभयहेतुसन्निधाने सत्यवधीयतेऽवाग्धात्यावाग्धानमात्रं वावधिः। अवधिशब्दोऽधः

चित्तिमचिचित्यं वा अद्रं चित्तिमणेय-भेयं च ।

मणपञ्जवं ति उच्चइ जं जाणइ तं खु णर-लोणं ॥ १८५ ॥

संपुण्णं तु समगं केवलमसवत्त-सव्व-भाव-विदं ।

लोगालोग-वितिमिरं केवलणाणं मुणेयव्वं ॥ १८६ ॥

इदानीं गतीन्द्रियकायगुणस्थानेषु मतिश्रुतज्ञानयोरध्वानप्रतिपादनार्थमाह—

जिसका भूतकालमें चिन्तवन किया है, अथवा जिसका भविष्यकालमें चिन्तवन होगा, अथवा जो अर्धचिन्तित है इत्यादि अनेक भेदरूप दूसरेके मनमें स्थित पदार्थको जो जानता है उसे मनःपर्ययज्ञान कहते हैं । यह ज्ञान मनुष्यक्षेत्रमें ही होता है ॥ १८५ ॥

जो जीवद्रव्यके शक्तिगत सर्व ज्ञानके अविभाग-प्रतिच्छेदोंके व्यक्त हो जानेके कारण संपूर्ण है, ज्ञानावरण और वीर्यान्तराय कर्मके सर्वथा नाश हो जानेके कारण जो अप्रतिहन-शक्ति है इसलिये समग्र है, जो इन्द्रिय और मनकी सहायतासे रहित होनेके कारण केवल है, जो प्रतिपक्षी चार घातिया कर्मोंके नाश हो जानेसे अनुक्रम रहित संपूर्ण पदार्थोंमें प्रवृत्ति करता है इसलिये असपन्न है और जो लोक और अलोकमें अज्ञानरूपी अन्धकारसे रहित होकर प्रकाश-मान हो रहा है उसे केवलज्ञान जानना चाहिये ॥ १८६ ॥

अब गति, इन्द्रिय और कायमार्गणान्तर्गत गुणस्थानोंमें मतिज्ञान और श्रुतज्ञानके विशेष कथन करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

पर्यायवचनः, यथाऽधः श्लेषणमवश्लेषणं, इत्यवोगतभूयोद्रव्यविषयो एवविधिः । अववावधिर्मर्यादा, अवधिना प्रतिवद्धं ज्ञानमत्रधिज्ञानम् । त रा. वा. १. ९, वा. ३. अवशब्दोऽधःशब्दार्थः, अव-अधोऽधो विस्तृतं वस्तु धीयते परिच्छिद्यतेऽनेनेत्यत्रविधिः । अथवा अत्रधिर्मर्यादा रूपिन्नेव द्रव्येयु परिच्छिद्यकृतया प्रवृत्तिरूपा तदुपलक्षितं ज्ञानमप्यत्रविधिः । यद्वा अवधानम्—आत्मनोऽर्थसाक्षात्करणव्यापारोऽत्रविधिः । नं. सू. प. ६५.

१ गो. जी. ४३८. परकीयमनोगतार्थो मन इत्युच्यते साहचर्यात्तस्य पर्ययणं परिगमनं मनःपर्ययः । स. सि. १. ९. मनः प्रतीत्य प्रतिस्थाय वा ज्ञानं मनःपर्ययः । त. रा. वा. १. ९. वा. ४. स मनःपर्ययो ज्ञेयो मनोवार्था (मन्यन्तेऽर्थाः ?) मनोगताः । परेषां स्वमनो वापि तदालम्बनमात्रकम् ॥ त. श्लो. वा. १. ९. ७. परि सर्वतो भावे अत्रनं अत्रः । ×× अवनं गमनं वेदनमिति पर्यायाः, परि अत्रः पर्यत्रः, मनसि मनसो वा पर्यत्रः मनःपर्यत्रः सर्वतो मनोद्रव्यपरिच्छेद इत्यर्थः । अथवा मनःपर्यय इति पाठः, तत्र पर्ययणं पर्ययः, मवेऽल् प्रत्ययः, मनसि मनसो वा पर्ययो मनःपर्ययः सर्वतस्तत्परिच्छेद इत्यर्थः । ×× अथवा मनःपर्यायज्ञानमिति पाठः ततः ननांसि मनोद्रव्याणि पर्येति सर्वात्मना परिच्छिन्नचित्ति मनःपर्यायः, पर्याया भेदा धर्मा बाह्यवत्त्रालोचनप्रकार इत्यर्थः, तेषु तेषां वा सन्वन्धि ज्ञानं मनःपर्यायज्ञानम् । नं. सू. पृ. ६६.

२ गो. जी. ४६०. जीवद्रव्यस्य शक्तिगतसर्वज्ञानाविभागप्रतिच्छेदानां व्यक्तिगतत्वात्संपूर्णम् । मोहनाय वीर्यान्तरायनि (वशेषंक्षयादप्रतिहतंशक्तियुक्तज्ञानं निश्चलत्वाच्च समग्रं । इन्द्रियसहायनिरपेक्षत्वात् केवलं । घातित्तुष्टच-प्रक्षयान् असपन्नम् । जी. प्र. टी.

## मदि-अण्णाणी सुद-अण्णाणी एइंदिय-प्पहुडि जाव सासण-सम्माइट्टि ति ॥ ११६ ॥

मिथ्यादृष्टेः द्वेऽप्यज्ञाने भवतां नाम तत्र मिथ्यात्वोदयस्य सत्त्वात् । मिथ्या-त्वोदयस्यासत्त्वान्न सासादने तयोः सत्त्वमिति न, मिथ्यात्वं नाम विपरीताभिनिवेशः स च मिथ्यात्वादनन्तानुबन्धनश्चेत्पद्यते । समास्ति च सासादनस्यानन्तानुबन्धुदय इति । कथमेकेन्द्रियाणां श्रुतज्ञानमिति चेत्कथं च न भवति ? श्रोत्राभावान्न शब्दावगति-स्तदभावान्न शब्दार्थावगम इति नैष दोषः, यतो नायमेकान्तोऽस्ति शब्दार्थावबोध एव श्रुतमिति । अपि तु अशब्दरूपादपि लिङ्गाल्लिङ्गिज्ञानमपि श्रुतमिति । अमनसां तदपि कथमिति चेन्न, मनोऽन्तरेण वनस्पतिषु हिताहितप्रवृत्तिनिवृत्त्युपलम्भतोऽनेकान्तात् ।

एकेन्द्रियसे लेकर सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानतक मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीव होते हैं ॥ ११६ ॥

शंका— मिथ्यादृष्टि जीवोंके भले ही दोनों अज्ञान हों, क्योंकि, वहां पर मिथ्यात्व कर्मका उदय पाया जाता है । परंतु सासादनमें मिथ्यात्वका उदय नहीं पाया जाता है, इसलिये वहां पर वे दोनों ज्ञान अज्ञानरूप नहीं होना चाहिये ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, विपरीत अभिनिवेशको मिथ्यात्व कहते हैं । और वह मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी इन दोनोंके निमित्तसे उत्पन्न होता है । सासादन गुणस्थान-वालेके अनन्तानुबन्धीका उदय तो पाया ही जाता है, इसलिये वहां पर भी दोनों अज्ञान संभव हैं ।

शंका— एकेन्द्रियोंके श्रुतज्ञान कैसे हो सकता है ?

प्रतिशंका—कैसे नहीं हो सकता है ?

शंका—एकेन्द्रियोंके श्रोत्र इन्द्रियका अभाव होनेसे शब्दका ज्ञान नहीं हो सकता है, और शब्दका ज्ञान नहीं होनेसे शब्दके विषयभूत वाच्यका भी ज्ञान नहीं हो सकता है । इसलिये उनके श्रुतज्ञान नहीं होता है यह बात सिद्ध हो जाती है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, यह कोई एकान्त नहीं है कि शब्दके निमित्तसे होनेवाले पदार्थके ज्ञानको ही श्रुतज्ञान कहते हैं । किन्तु शब्दसे भिन्न रूपादिक लिंगसे भी जो लिंगीका ज्ञान होता है उसे भी श्रुतज्ञान कहते हैं ।

शंका—मनरहित जीवोंके ऐसा श्रुतज्ञान भी कैसे संभव है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, मनके विना वनस्पतिकायिक जीवोंके हितमें प्रवृत्ति और अहितसे निवृत्ति देखी जाती है, इसलिये मनसाहित जीवोंके ही श्रुतज्ञान माननेमें उनसे अनेकान्त दोष आता है ।



विभङ्गज्ञानाध्वानप्रतिपादनार्थमाह—

विभंगणाणं सण्णि-मिच्छाइट्ठीणं वा सासणसम्माइट्ठीणं  
वा ॥ ११७ ॥

विकलेन्द्रियाणां किमिति तन्न भवतीति चेन्न, तत्र तन्निवन्धनक्षयोपशमाभावात् ।  
सोऽपि तत्र किमिति न सम्भवतीति चेन्न, तद्वेतुभवगुणानामभावात् ।

विभङ्गज्ञाने भवप्रत्यये सति पर्याप्तापर्याप्तावस्थयोरपि तस्य सत्त्वं स्यादित्या-  
शङ्कितशिष्याशङ्कापोहनार्थमाह—

पज्जत्ताणं अत्थि, अपज्जत्ताणं णत्थि ॥ ११८ ॥

अथ स्याद्यदि देवनारकाणां विभङ्गज्ञानं भवनिवन्धनं भवेदपर्याप्तकालेऽपि तेन  
भवितव्यं तद्वेतोर्भवस्य सत्त्वादिति न, 'सामान्यवोधनाश्च विशेषेण्ववतिष्ठन्ते' इति

विभंगज्ञानके विशेष प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

विभंगज्ञान संज्ञी मिथ्यादृष्टि जीवोंके तथा सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंके होता है ॥ ११७ ॥

शंका — विकलेन्द्रिय जीवोंके वह क्यों नहीं होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, वहां पर विभंगज्ञानका कारणभूत क्षयोपशम नहीं पाया  
जाता है ।

शंका—वह क्षयोपशम भी विकलेन्द्रियोंमें क्यों संभव नहीं है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, अवधिज्ञानावरणका क्षयोपशम भवप्रत्यय और गुणप्रत्यय  
होता है । परंतु विकलेन्द्रियोंमें ये दोनों प्रकारके कारण नहीं पाये जाते हैं, इसलिये उनके  
विभंगज्ञान संभव नहीं है ।

विभंगज्ञानको भवप्रत्यय मान लेने पर पर्याप्त और अपर्याप्त इन दोनों अवस्थाओंमें  
उसका सद्भाव पाया जाना चाहिये इसप्रकार आशंकाको प्राप्त शिष्यके संदेहके दूर करनेके  
लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

विभंगज्ञान पर्याप्तकोंके ही होता है, अपर्याप्तकोंके नहीं होता है ॥ ११८ ॥

शंका—यदि देव और नारकियोंके विभंगज्ञान भवप्रत्यय होता है तो अपर्याप्तकालमें  
भी वह हो सकता है, क्योंकि, अपर्याप्तकालमें भी विभंगज्ञानके कारणरूप भवकी सत्ता पाई  
जाती है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, 'सामान्य विषयका बोध करानेवाले वाक्य विशेषोंमें रहा

न्यायात् नापर्याप्तविशिष्टं देवनारकत्वं विभङ्गनिवन्धनमपि तु पर्याप्तविशिष्टमिति । ततो नापर्याप्तकाले तदस्तीति सिद्धम् ।

इदानीं सम्यग्मिथ्यादृष्टिज्ञानप्रतिपादनार्थमाह —

सम्मामिच्छादृष्टि-दृष्टाणे तिण्णि वि णाणाणि अण्णाणेणं  
मिस्साणि । आभिणिबोहियणाणं मदि-अण्णाणेण मिस्सयं सुदणाणं  
सुद-अण्णाणेण मिस्सयं ओहिणाणं विभंगणाणेण मिस्सयं । तिण्णि  
वि णाणाणि अण्णाणेण मिस्साणि वा इदि ॥ ११३ ॥

अत्रैकवचननिर्देशः किमिति क्रियत इति चेत् कथं च न क्रियते, यत्स्त्रीण्य-  
ज्ञानानि ततो नैकवचनं घटत इति न, अज्ञाननिवन्धनमिथ्यात्वस्यैकत्वतोऽज्ञानस्याप्येकत्वा-  
विरोधात् । यथार्थश्रद्धानुविद्धावगमो ज्ञानम्, अयथार्थश्रद्धानुविद्धावगमोऽज्ञानम् । एवं  
च सति ज्ञानाज्ञानयोर्भिन्नजीवाधिकरणयोर्न मिश्रणं घटत इति चेत्सत्यमेतदिष्टत्वात् ।  
किन्त्वत्र सम्यग्मिथ्यादृष्टावेवं मा ग्रहीः यतः सम्यग्मिथ्यात्वं नाम कर्म न तन्मिथ्यात्वं

करते है' इस न्यायके अनुसार अपर्याप्त अवस्थासे युक्त देव और नारक पर्याय विभंगज्ञानका कारण नहीं है । किंतु पर्याप्त अवस्थासे युक्त ही देव और नारक पर्याय विभंगज्ञानका कारण है, इसलिये अपर्याप्त कालमें विभंगज्ञान नहीं होता है यह बात सिद्ध हो जाती है ।

अब सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें ज्ञानके प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें आदिके तीनों ही ज्ञान अज्ञानसे मिश्रित होते हैं ।  
आभिनिबोधिकज्ञान मत्यज्ञानसे मिश्रित होता है । श्रुतज्ञान श्रुताज्ञानसे मिश्रित होता है । अवधि-  
ज्ञान विभंगज्ञानसे मिश्रित होता है । अथवा तीनों ही अज्ञान ज्ञानसे मिश्रित होते हैं ॥ ११९ ॥

शंका—सूत्रमें अज्ञान पदका एकवचन निर्देश क्यों किया है ?

प्रतिशंका—एकवचन निर्देश क्यों नहीं करना चाहिये ?

शंका—क्योंकि, अज्ञान तीन हैं, इसलिये उनका बहुवचनरूपसे प्रयोग बन जाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, अज्ञानका कारण मिथ्यात्व एक होनेसे अज्ञानको भी एक मान लेनेमें कोई विरोध नहीं आता है ।

शंका—यथार्थ श्रद्धासे अनुविद्ध अवगमको ज्ञान कहते हैं और अयथार्थ श्रद्धासे अनुविद्ध अवगमको अज्ञान कहते हैं । ऐसी हालतमें भिन्न भिन्न जीवोंके आधारसे रहनेवाले ज्ञान और अज्ञानका मिश्रण नहीं बन सकता है ?

समाधान—यह कहना सत्य है, क्योंकि, हमें यही इष्ट है । किंतु यहाँ सम्यग्मिथ्या-  
दृष्टि गुणस्थानमें यह अर्थ ग्रहण नहीं करना चाहिये, क्योंकि, सम्यग्मिथ्यात्व कर्म मिथ्यात्व

तस्मादनन्तगुणहीनशक्तेस्तस्य विपरीताभिनिवेशोत्पादसामर्थ्याभावात् । नापि सम्यक्तत्वं तस्मादनन्तगुणशक्तेस्तस्य यथार्थश्रद्धया साहचर्याविरोधात् । ततो जात्यन्तरत्वात् सम्यग्मिथ्यात्वं जात्यन्तरीभूतपरिणामस्योत्पादकम् । ततस्तदुदयजनितपरिणामसमवेतबोधो न ज्ञानं यथार्थश्रद्धयानुविद्धत्वात् । नाप्यज्ञानमयथार्थश्रद्धयाऽसङ्गतत्वात् । ततस्तज्ज्ञानं सम्यग्मिथ्यात्वपरिणामवज्जात्यन्तरापन्नमित्येकमपि मिश्रमित्युच्यते । यथायथं प्रतिभासितार्थप्रत्ययानुविद्धावगमो ज्ञानम् । यथायथमप्रतिभासितार्थप्रत्ययानुविद्धावगमोऽज्ञानम् । जात्यन्तरीभूतप्रत्ययानुविद्धावगमो जात्यन्तरं ज्ञानम्, तदेव मिश्रज्ञानमिति राट्टान्त-विदो व्याचक्षते ।

साम्प्रतं ज्ञानानां गुणस्थानाध्वानप्रतिपादनार्थमाह —

आभिणिबोहियणाणं सुदणाणं ओहिणाणमसंजदसम्माइट्ठि-  
प्पहुडि जाव खीणकसाय-वीदराग-छदुमत्था ति ॥ १२० ॥

तो हो नहीं सकता, क्योंकि, उससे अनन्तगुणी हीन शक्तिवाले सम्यग्मिथ्यात्वमें विपरीताभिनिवेशको उत्पन्न करनेकी सामर्थ्य नहीं पाई जाती है। और न वह सम्यक्प्रकृतिरूप ही है, क्योंकि, उससे अनन्तगुणी अधिक शक्तिवाले उसका (सम्यग्मिथ्यात्वका) यथार्थ श्रद्धाके साथ साहचर्यसंबन्धका विरोध है। इसलिये जात्यन्तर होनेसे सम्यग्मिथ्यात्व जात्यन्तररूप परिणामोंका ही उत्पादक है। अतः उसके उदयसे उत्पन्न हुए परिणामोंसे युक्त ज्ञान 'ज्ञान' इस संज्ञाको तो प्राप्त हो नहीं सकता है, क्योंकि, उस ज्ञानमें यथार्थ श्रद्धाका अन्वय नहीं पाया जाता है। और उसे अज्ञान भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि, वह अयथार्थ श्रद्धाके साथ संपर्क नहीं रखता है। इसलिये वह ज्ञान सम्यग्मिथ्यात्व परिणामकी तरह जात्यन्तररूप अवस्थाको प्राप्त है। अतः एक होते हुए भी मिश्र कहा जाता है।

यथावस्थित प्रतिभासित हुए पदार्थके निमित्तसे उत्पन्न हुए तत्संबन्धी बोधको ज्ञान कहते हैं। न्यूनता आदि दोषोंसे युक्त यथावस्थित अप्रतिभासित हुए पदार्थके निमित्तसे उत्पन्न हुए तत्संबन्धी बोधको अज्ञान कहते हैं। और जात्यन्तररूप कारणसे उत्पन्न हुए तत्संबन्धी ज्ञानको जात्यन्तर-ज्ञान कहते हैं। इसीका नाम मिश्रज्ञान है ऐसा सिद्धान्तको जाननेवाले विद्वान् पुरुष व्याख्यान करते हैं।

अब ज्ञानोंका गुणस्थानोंमें विशेष प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

आभिनिबोधिकज्ञान, श्रुतज्ञान और अवधिज्ञान ये तीनों असंयतसम्यग्दृष्टिसे लेकर क्षीणकषाय-वीतराग-छद्मस्थ गुणस्थानतक होते हैं ॥ १२० ॥

भवतु नाम देवनारकासंयतसम्यग्दृष्टिष्ववधिज्ञानस्य सत्त्वं तस्य तद्भवनिवन्धन-  
त्वात् । देशविरताद्युपरितनानामपि भवतु तत्सत्त्वं तन्निमित्तगुणस्य तत्र सत्त्वात्, न  
तिर्यङ्मनुष्यासंयतसम्यग्दृष्टिषु तस्य सत्त्वं तन्निवन्धनभवगुणानां तत्रासत्त्वादिति चेन्न,  
अवधिज्ञाननिवन्धनसम्यक्त्वगुणस्य तत्र सत्त्वात् । सर्वसम्यग्दृष्टिषु तदनुत्पत्त्यन्यथानुप-  
पत्तेर्नावधिज्ञानं सम्यग्दर्शननिवन्धनमिति चेत्सर्वसंयतेषु तदनुत्पत्त्यन्यथानुपपत्तेरवधि-  
ज्ञानं संयमहेतुकमपि न भवतीति किन्न भवेत् । विशिष्टः संयमस्तद्वेतुरिति न सर्वसंयता-  
नामवधिर्भवतीति चेदत्रापि विशिष्टसम्यक्त्वं तद्वेतुरिति न सर्वेषां तद्भवति को विरोधः  
स्यात् ? औपशमिकक्षायिकक्षायोपशमिकभेदभिन्नेषु त्रिष्वपि सम्यक्त्वविशेषेष्ववधिज्ञानो-  
त्पत्तेर्व्यभिचारदर्शनान्न तद्विशेषनिवन्धनमपीति चेत्तत्रापि सामायिक-च्छेदोपस्थापन-

शंका—वेव और नारकीसंयन्धी असंयतसम्यग्दृष्टि जीवोंमें अवधिज्ञानका सद्भाव  
भले ही रहा आवे, क्योंकि, उनके अवधिज्ञान भवनिमित्तक होता है । उसीप्रकार देशविरति  
आदि ऊपरके गुणस्थानोंमें भी अवधिज्ञान रहा आवे, क्योंकि, अवधिज्ञानकी उत्पत्तिके कारण-  
भूत गुणोंका वहां पर सद्भाव पाया जाता है । परंतु असंयतसम्यग्दृष्टि तिर्यच और मनुष्योंमें  
उसका सद्भाव नहीं पाया जा सकता है, क्योंकि, अवधिज्ञानकी उत्पत्तिके कारण भव और  
गुण असंयतसम्यग्दृष्टि तिर्यच और मनुष्योंमें नहीं पाये जाते हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, अवधिज्ञानकी उत्पत्तिके कारणरूप सम्यग्दर्शनका असंय-  
तसम्यग्दृष्टि तिर्यच और मनुष्योंमें सद्भाव पाया जाता है ।

शंका—चूंकि संपूर्ण सम्यग्दृष्टियोंमें अवधिज्ञानकी अनुत्पत्ति अन्यथा बन नहीं सकती  
है, इससे मालूम पड़ता है कि सम्यग्दर्शन अवधिज्ञानकी उत्पत्तिका कारण नहीं है ?

समाधान—यदि ऐसा है तो संपूर्ण संयतोंमें अवधिज्ञानकी अनुत्पत्ति अन्यथा बन  
नहीं सकती है, इसलिये संयम भी अवधिज्ञानका कारण नहीं है, ऐसा क्यों मान लिया जाय ?

शंका—विशिष्ट संयम ही अवधिज्ञानकी उत्पत्तिका कारण है, इसलिये समस्त  
संयतोंके अवधिज्ञान नहीं होता है, किंतु कुछके ही होता है ?

समाधान—यदि ऐसा है तो यहां पर भी ऐसा ही मान लेना चाहिये कि असंयत-  
सम्यग्दृष्टि तिर्यच और मनुष्योंमें भी विशिष्ट सम्यक्त्व ही अवधिज्ञानकी उत्पत्तिका कारण  
है । इसलिये सभी सम्यग्दृष्टि तिर्यच और मनुष्योंमें अवधिज्ञान नहीं होता है, किंतु कुछके ही  
होता है, ऐसा मान लेनेमें क्या विरोध आता है ?

शंका—औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक इन तीनों ही प्रकारके विशेष  
सम्यग्दर्शनोंमें अवधिज्ञानकी उत्पत्तिमें व्यभिचार देखा जाता है । इसलिये सम्यग्दर्शनविशेष  
अवधिज्ञानकी उत्पत्तिका कारण है यह नहीं कहा जा सकता है ?

समाधान—यदि ऐसा है तो संयममें भी सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि,

परिहार-सूक्ष्मसाम्पराय-यथाख्यात-भेदभिन्नैः पञ्चभिरपि संयमैः देशविरत्या च तस्य व्यभिचारदर्शनान्नावधिज्ञानं संयमविशेषनिवन्धनमपीति समानमेतत् । असंख्यातलोक-मात्रसंयमपरिणामेषु केचिद्विशिष्टाः परिणामास्तद्वेतव इति नायं दोषश्चेत्तर्हि सम्यग्दर्शन-परिणामेष्वप्यसंख्येयलोकपरिणामेषु केचिद्विशिष्टाः सम्यक्त्वपरिणामाः सहकारिकारण-व्यपेक्षास्तद्वेतव इति स्थितम् ।

मनःपर्ययज्ञानस्वामिप्रतिपादनार्थमाह—

मणपञ्जवणाणी पमत्तसंजद-प्पहुडि जाव खीणकसाय-वीदराग-  
छदुमत्था ति ॥ १२१ ॥

पर्यायपर्यायिणोरभेदापेक्षया मनःपर्ययज्ञानस्यैव मनःपर्ययज्ञानिव्यपदेशः । देश-विरताद्यधस्तनगुणभूमिस्थितानां किमिति मनःपर्ययज्ञानं न भवेदिति चेन्न, संयमा-संयमासंयमत<sup>१</sup> उत्पत्तिविरोधात् । संयममात्रकारणत्वे सर्वसंयतानां किन्न तद्भवेदिति

सूक्ष्मसाम्पराय और यथाख्यात इन पांच प्रकारके विशेष संयमोंके साथ और देशविरतिके साथ भी अवधिज्ञानकी उत्पत्तिका व्यभिचार देखा जाता है, इसलिये अवधिज्ञानकी उत्पत्ति संयम-विशेषके निमित्तसे होती है यह भी तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि, सम्यग्दर्शन और संयम इन दोनोंको अवधिज्ञानकी उत्पत्तिमें निमित्त मानने पर आक्षेप और परिहार समान हैं ।

शंका—असंख्यात लोकप्रमाण संयमरूप परिणामोंमें कितने ही विशेष जातिके परिणाम अवधिज्ञानकी उत्पत्तिके कारण होते हैं, इसलिये पूर्वोक्त दोष नहीं आता है ?

समाधान—यदि ऐसा है तो असंख्यात लोकप्रमाण सम्यग्दर्शनरूप परिणामोंमें दूसरे सहकारी कारणोंकी अपेक्षासे युक्त होते हुए कितने ही विशेष जातिके सम्यक्त्वरूप परिणाम अवधिज्ञानकी उत्पत्तिमें कारण हो जाते हैं यह बात निश्चित हो जाती है ।

अब मनःपर्ययज्ञानके स्वामीके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

मनःपर्ययज्ञानी जीव प्रमत्तसंयतसे लेकर क्षीणकपाय-वीतराग-छद्मस्थ गुणस्थानतक होते हैं ॥ १२१ ॥

पर्याय और पर्यायीमें अभेदकी अपेक्षासे मनःपर्ययज्ञानका ही मनःपर्ययज्ञानीरूपसे उल्लेख किया है ।

शंका—देशविरति आदि नीचेके गुणस्थानवर्ती जीवोंके मनःपर्ययज्ञान क्यों नहीं होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, संयमासंयम और असंयमके साथ मनःपर्ययज्ञानकी उत्पत्ति माननेमें विरोध आता है ।

१ मनःपर्ययज्ञाने प्रमत्तसंयतादयः क्षीणकपायान्ताः सन्ति । सं. सि. १. ८.

२ अ. क. प्रत्योः 'संयमसंयत' आ. प्रती न 'संयमसंयतस्य जघन्यस्य' इति पाठः ।

चेदभविष्यद्यदि संयम एक एव तदुत्पत्तेः कारणतामगमिष्यत् । अप्यन्येऽपि तु तद्वैतवः सन्ति तद्वैकल्यान्न सर्वसंयतानां तदुत्पद्यते । केऽन्ये तद्वैतव इति चेद्विशिष्टद्रव्य-क्षेत्रकालादयः ।

केवलज्ञानाधिपतिगुणभूमिप्रतिपादनार्थमाह—

केवलणाणी तिसु द्वाणेषु सजोगिकेवली अजोगिकेवली सिद्धा चेदि ॥ १२२ ॥

अथ स्यान्नाहंतः केवलज्ञानमस्ति तत्र नोऽन्द्रियावरणक्षयोपशमजनितमनसः सत्त्वात्, न, प्रक्षीणसंमस्तावरणे भगवत्यर्हति ज्ञानावरणक्षयोपशमाभावात्तत्कार्यस्य मनसोऽसत्त्वात् । न वीर्यान्तरायक्षयोपशमजनितशक्त्यास्तित्वद्वारेण तत्सत्त्वं प्रक्षीण-

शंका — यदि संयममात्र मनःपर्ययज्ञानकी उत्पत्तिका कारण है तो समस्त संयमियोंके मनःपर्ययज्ञान क्यों नहीं होता है ?

समाधान—यदि केवल संयम ही मनःपर्ययज्ञानकी उत्पत्तिका कारण होता तो ऐसा भी होता । किंतु अन्य भी मनःपर्ययज्ञानकी उत्पत्तिके कारण हैं, इसलिये उन दूसरे हेतुओंके न रहनेसे समस्त संयमोंके मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न नहीं होता है ।

शंका—वे दूसरे कौनसे कारण हैं ?

समाधान—विशेष जातिके द्रव्य, क्षेत्र और कालादि अन्य कारण हैं । जिनके बिना सभी संयमियोंके मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न नहीं होता है ।

अब केवलज्ञानके स्वामीके गुणस्थान बतलानेके लिये सूत्र कहते हैं—

केवलज्ञानी जीव सयोगिकेवली, अयोगिकेवली और सिद्ध इन तीन स्थानोंमें होते हैं ॥ १२२ ॥

शंका—अरिहंत परमेष्ठीके केवलज्ञान नहीं है, क्योंकि, वहां पर नोऽन्द्रियावरण कर्मके क्षयोपशमसे उत्पन्न हुए मनका सद्भाव पाया जाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, जिनके संपूर्ण आवरणकर्म नाशको प्राप्त हो गये हैं ऐसे अरिहंत परमेष्ठीमें ज्ञानावरणकर्मका क्षयोपशम नहीं पाया जाता है, इसलिये क्षयोपशमके कार्यरूप मन भी उनके नहीं पाया जाता है । उसीप्रकार वीर्यान्तराय कर्मके क्षयोपशमसे उत्पन्न हुई शक्तिकी अपेक्षा भी वहां पर मनका सद्भाव नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि, जिनके वीर्यान्तराय कर्मका क्षय पाया जाता है ऐसे जीवोंके वीर्यान्तराय कर्मके क्षयोपशमसे उत्पन्न हुई शक्तिके सद्भाव माननेमें विरोध आता है ।

वीर्यान्तरायस्य वीर्यान्तरायजनितशक्त्यस्तित्वविरोधात् । कथं पुनः सयोग इति चेन्न, प्रथमचतुर्थभाषोत्पत्तिनिमित्तात्मप्रदेशपरिस्पन्दस्य सत्त्वापेक्षया तस्य सयोगत्वाविरोधात् । तत्र मनसोऽभावे तत्कार्यस्य वचसोऽपि न सत्त्वमिति चेन्न, तस्य ज्ञानकार्यत्वात् । अक्रमज्ञानात्कथं क्रमवतां वचनानामुत्पत्तिरिति चेन्न, घटविषयाक्रम-ज्ञानसमवेतकुम्भकाराद्धटस्य क्रमेणोत्पत्त्युपलम्भात् । मनोयोगाभावे सूत्रेण सह विरोधः स्यादिति चेन्न, मनःकार्यप्रथमचतुर्थवचसोः सत्त्वापेक्षयोपचारेण तत्सत्त्वोपदेशात् । जीवप्रदेशपरिस्पन्दहेतुनोक्तमजनितशक्त्यस्तित्वापेक्षया वा तत्सत्त्वान्न विरोधः ।

संयममार्गणाप्रतिपादनार्थमाह —

संजमाणुवादेण अत्थि संजदा सामाइय-छेदोवट्टावण-सुद्धि-  
संजदा परिहार-सुद्धि-संजदा सुहुम-सांपराइय-सुद्धि-संजदा जहाक्खाद-  
विहार-सुद्धि संजदा संजदासंजदा असंजदा चेदि ॥ १२३ ॥

शंका— फिर अरिहंत परमेष्ठीको सयोगी कैसे माना जाय ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, प्रथम ( सत्य ) और चतुर्थ ( अनुभय ) भाषाकी उत्पत्तिके निमित्तभूत आत्मप्रदेशोंका परिस्पन्द वहां पर पाया जाता है, इसलिये इस अपेक्षासे अरिहंत परमेष्ठीके सयोगी होनेमें कोई विरोध नहीं आता है ।

शंका— अरिहंत परमेष्ठीमें मनका अभाव होने पर मनके कार्यरूप वचनका सद्भाव भी नहीं पाया जा सकता है ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, वचन ज्ञानके कार्य हैं, मनके नहीं ।

शंका— अक्रम ज्ञानसे क्रमिक वचनोंकी उत्पत्ति कैसे हो सकती है ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, घटविषयक अक्रम ज्ञानसे युक्त कुम्भकारद्वारा क्रमसे घटकी उत्पत्ति देखी जाती है । इसलिये अक्रमवर्ती ज्ञानसे क्रमिक वचनोंकी उत्पत्ति मान लेनेमें कोई विरोध नहीं आता है ।

शंका— सयोगिकेवलीके मनोयोगका अभाव मानने पर ' सच्चमणजोगो असच्चमोस-मणजोगो साण्णिमिच्छाइट्ठिप्पहुडि जाव सजोगिकेवलित्ति ' इस पूर्वोक्त सूत्रके साथ विरोध आ जायगा ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, मनके कार्यरूप प्रथम और चतुर्थ भाषाके सद्भावकी अपेक्षा उपचारसे मनके सद्भाव मान लेनेमें कोई विरोध नहीं आता है । अथवा, जीवप्रदेशोंके परिस्पन्दके कारणरूप मनोवर्णणारूप नोक्तमसे उत्पन्न हुई शक्तिके अस्तित्वकी अपेक्षा सयोगिकेवलीमें मनका सद्भाव पाया जाता है ऐसा मान लेनेमें भी कोई विरोध नहीं आता है ।

अब संयममार्गणाके प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

संयममार्गणाके अनुवादसे सामायिकशुद्धिसंयत, छेदोपस्थापनाशुद्धिसंयत; परिहार-

अत्राप्यभेदापेक्षया पर्यायस्य पर्यायिव्यपदेशः । सम् सम्यक् सम्यग्दर्शनज्ञानानु-  
सारंण यताः बहिरङ्गान्तरङ्गास्रवेभ्यो विरताः संयताः । सर्वसावद्ययोगात् विरतोऽस्मीति  
सकलसावद्ययोगविरतिः सामायिकशुद्धिसंयमो' द्रव्यार्थिकत्वात् । एवंविधैकव्रतो मिथ्या-  
दृष्टिः किन्न स्यादिति चेन्न, आक्षिप्ताशेषविशेषसामान्यार्थिनो नयस्य सम्यग्दृष्टित्वाविरोधात् ।  
आक्षिप्ताशेषरूपमिदं सामान्यमिति कुतोऽवसीयत इति चेत्सर्वसावद्ययोगोपादानात् ।  
नह्येकस्मिन् सर्वशब्दः प्रवर्तते विरोधात् । स्वान्तर्भावितशेषसंयमविशेषैक्यमः

शुद्धिसंयत, सूक्ष्मसांपराय-शुद्धि-संयत, यथाख्यात-विहार-शुद्धि-संयत ये पांच प्रकारके संयत  
तथा संयतासंयत और असंयत जीव होते हैं ॥ १२३ ॥

यहां पर भी अभेदकी अपेक्षासे पर्यायका पर्यायरूपसे कथन किया है । 'सम्' उपसर्ग  
सम्यक् अर्थका वाची है, इसलिये सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानपूर्वक 'यताः' अर्थात् जो बहिरंग  
और अन्तरंग आश्रवोंसे विरत हैं उन्हें संयत कहते हैं ।

'मैं सर्व प्रकारके सावद्ययोगसे विरत हूं' इसप्रकार द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा सकल  
सावद्ययोगके त्यागको सामायिक-शुद्धि-संयम कहते हैं ।

शंका — इसप्रकार एक व्रतका नियमवाला जीव मिथ्यादृष्टि क्यों नहीं हो जायगा ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, जिसमें संपूर्ण चरित्रके भेदोंका संग्रह होता है । ऐसे  
सामान्यग्राही द्रव्यार्थिक नयको समीचीन दृष्टि माननेमें कोई विरोध नहीं आता है ।

शंका — यह सामान्य संयम अपने संपूर्ण भेदोंका संग्रह करनेवाला है, यह कैसे  
जाना जाता है ?

समाधान—'सर्वसावद्ययोग' पदके ग्रहण करनेसे ही, यहां पर अपने संपूर्ण भेदोंका  
संग्रह कर लिया गया है, यह बात जानी जाती है । यदि यहां पर संयमके किसी एक भेदकी  
ही मुख्यता होती तो 'सर्व' शब्दका प्रयोग नहीं किया जा सकता था, क्योंकि, ऐसे स्थल  
पर 'सर्व' शब्दके प्रयोग करनेमें विरोध आता है ।

१ रागद्वोसविरहिओ समो त्ति अयणं अयो त्ति गमणं ति । समगमणं ति समाओ स एव सामाहयं नाम ॥  
अहवा भवं समाए निव्वत्तं तेण तम्मयं वाक्कि । जं तप्पओयणं वा तेण व सामाहयं नेयं ॥ अहवा समाहं सम्मत्तणाण-  
चरणाहं तेसु तंहिं वा । अयणं अओ समाओ स एव सामाहयं नाम ॥ अहवा समस्स आओ गुणाण लाभो त्ति जो  
समाओ सो । अहवा समाणमाओ नेओ सामाहयं नाम ॥ अहवा सामं मित्ती तत्थ अओ ( गमणं ) तेण होइ सामाओ ।  
अहवा सामस्साओ लाभो सामाहयं नेयं ॥ सम्ममओ वा समओ सामाहयपुभयविद्धिमावाओ । अहवा सम्मस्स आओ  
लाभो सामाहयं होइ ॥ अहवा निरुत्तविहिणा सामं सम्मं समं च जं तस्स । इकमप्पए पवेसणमेयं सामाहयं नेयं ॥ किं  
पुण तं सामहयं सन्नसावज्जजोगविरइ त्ति ॥ वि. भा. ४२२०-४२२७.



सामायिकशुद्धिसंयम इति यावत् । तस्यैकस्य व्रतस्य छेदेन द्वित्र्यादिभेदेनोपस्थापनं व्रतसमारोपणं छेदोपस्थापनशुद्धिसंयमः । सकलव्रतानामेकत्वमापाद्य एक्यमोपादानाद् द्रव्यार्थिकनयः सामायिकशुद्धिसंयमः । तदेवैकं व्रतं पञ्चधा बहुधा वा विपाद्य धारणात् पर्यायार्थिकनयः छेदोपस्थापनशुद्धिसंयमः । निशितशुद्धिजनानुग्रहार्थं द्रव्यार्थिकनयादेशना, मन्दधियामनुग्रहार्थं पर्यायार्थिकनयादेशना । ततो नानयोः संयमयोरनुष्ठानकृतो विशेषोऽस्तीति द्वितयदेशेनानुगृहीत एक एव संयम इति चेन्नैप दोषः, इष्टत्वात् । अनेनैवाभिप्रायेण सूत्रे पृथक् न शुद्धिसंयतग्रहणं कृतम् ।

परिहारप्रधानः शुद्धिसंयतः परिहारशुद्धिसंयतः । त्रिंशद्बर्षाणि यथेच्छया भोगमनुभूय सामान्यरूपेण विशेषरूपेण वा संयममादाय द्रव्यक्षेत्रकालभावगतपरिमितापरिमितप्रत्याख्यानप्रतिपादकप्रत्याख्यानपूर्वमहार्णवं सम्यगधिगम्य व्यपगतसकलसंशयस्तपो-

इस कथनसे यह सिद्ध हुआ कि जिसने संपूर्ण संयमके भेदोंको अपने अन्तर्गत कर लिया है उसे अभेदरूपसे एक यमको धारण करनेवाला जीव सामायिक-शुद्धि-संयत कहलाता है।

उस एक व्रतका छेद अर्थात् दो, तीन आदिके भेदसे उपस्थापन करनेको अर्थात् व्रतोंके आरोपण करनेको छेदोपस्थापना-शुद्धि-संयम कहते हैं। संपूर्ण व्रतोंको सामान्यकी अपेक्षा एक मानकर एक यमको ग्रहण करनेवाला होनेसे सामायिक-शुद्धि-संयम द्रव्यार्थिकनयरूप है। और उसी एक व्रतको पांच अथवा अनेक प्रकारके भेद करके धारण करनेवाला होनेसे छेदोपस्थापना-शुद्धि-संयम पर्यायार्थिकनयरूप है। यहां पर तीक्ष्णबुद्धि मनुष्योंके अनुग्रहके लिये द्रव्यार्थिक नयका उपदेश दिया गया है और मन्दबुद्धि प्राणियोंका अनुग्रह करनेके लिये पर्यायार्थिक नयका उपदेश दिया गया है। इसलिये इन दोनों संयमोंमें अनुष्ठानकृत कोई विशेषता नहीं है।

शंका — तब तो उपदेशकी अपेक्षा संयमको भले ही दो प्रकारका कइ लिया जावे, पर वास्तवमें तो वह एक ही है ?

समाधान — यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, यह कथन हमें इष्ट ही है। और इसी अभिप्रायसे सूत्रमें स्वतन्त्ररूपसे (सामायिक पदके साथ) 'शुद्धिसंयत' पदका ग्रहण नहीं किया है।

जिसके (हिंसाका) परिहार ही प्रधान है उसे शुद्धिप्राप्त संयतोंको परिहार-शुद्धि-संयत कहते हैं। तीस वर्षतक अपनी इच्छानुसार भोगोंको भोगकर सामान्यरूपसे अर्थात् सामायिक संयमको और विशेषरूपसे अर्थात् छेदोपस्थापना संयमको धारण कर द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके अनुसार परिमित या अपरिमित प्रत्याख्यानके प्रतिपादन करनेवाले प्रत्याख्यानपूर्वरूपी महार्णवमें अच्छीतरह प्रवेश करके जिसका संपूर्ण संशय दूर हो गया है और जिसने

१ छेदेन पूर्वपर्यायनिरोधेन उपस्थापनमारोपणं महाव्रतानां यत्र तच्छेदोपस्थापनम् । XX छेत्तुं तु परियागं पोरानं जी ठविति अप्पाणं । धम्मम्मि पंचजामे छेओवह्मावणे स खुलु । पं. मा. [ छेओवह्मावण. आमि. रा. को. ]

विशेषात्समुत्पन्नपरिहारद्विस्तीर्थकरपादमूले परिहारशुद्धिसंयममादत्ते' । एवमादाय स्थान-  
गमनचङ्गमणाशनपानासनादिषु व्यापारेष्वशेषप्राणिपरिहरणदक्षः परिहारशुद्धिसंयतो नाम ।

साम्परायः कषायः, सूक्ष्मः साम्परायो येषां ते सूक्ष्मसांपरायाः । शुद्धाश्च ते  
संयताश्च शुद्धसंयताः । सूक्ष्मसाम्परायाश्च ते शुद्धिसंयताश्च सूक्ष्मसाम्परायशुद्धिसंयताः ।  
त एव द्विधोपात्तसंयमा यदा सूक्ष्मीकृतकषायाः भवन्ति तदा ते सूक्ष्मसाम्परायशुद्धि-  
संयता इत्युच्यन्ते इति यावत् ।

यथाख्यातो यथाप्रतिपादितः विहारः कषायाभावरूपमनुष्ठानम् । यथाख्यातो  
विहारो येषां ते यथाख्यातविहाराः । यथाख्यातविहाराश्च ते शुद्धिसंयताश्च यथाख्यात-  
विहारशुद्धिसंयताः । सुगममन्यत् ।

संयमानुवादेनासंयतानां संयतासंयतानां च न ग्रहणं प्राप्नुयादिति चेन्न, आम्रतरु-

तपोविशेषसे परिहार ऋद्धिको प्राप्त कर लिया है ऐसा जीव तीर्थकरके पादमूलमें परिहार-  
शुद्धि-संयमको ग्रहण करता है । इसप्रकार संयमको धारण करके जो खड़े होना, गमन करना  
यहां वहां विहार करना, भोजन करना, पान करना और बैठना आदि संपूर्ण व्यापारोंमें प्राणि-  
योंकी हिंसाके परिहारमें दक्ष हो जाता है उसे परिहार-शुद्धि-संयत कहते हैं ।

सांपराय कषायको कहते हैं । जिनकी कषाय सूक्ष्म हो गई है उन्हें सूक्ष्मसांपराय  
कहते हैं । जो संयत विशुद्धिको प्राप्त हो गये हैं उन्हें शुद्धिसंयत कहते हैं । जो सूक्ष्मकषाय-  
वाले होते हुए शुद्धिप्राप्त संयत हैं उन्हें सूक्ष्मसांपराय-शुद्धि-संयत कहते हैं । इसका तात्पर्य  
यह है कि सामायिक या क्षेत्रोपस्थापना संयमको धारण करनेवाले साधु जब अत्यन्त सूक्ष्म-  
कषायवाले हो जाते हैं तब वे सूक्ष्मसांपरायशुद्धिसंयत कहे जाते हैं ।

परमागममें विहार अर्थात् कषायोंके अभावरूप अनुष्ठानका जैसा प्रतिपादन किया  
गया है तदनुकूल विहार जिनके पाया जाता है उन्हें यथाख्यातविहार कहते हैं । जो यथा-  
ख्यातविहारवाले होते हुए शुद्धिप्राप्त संयत हैं वे यथाख्यातविहार-शुद्धि-संयत कहलाते हैं ।  
शेष कथन सुगम है ।

शंका — संयम मार्गणाके अनुवादसे संयतोंमें संयतासंयत और असंयतोंका ग्रहण नहीं  
हो सकता है ?

१ तीस्रं व्रासीं जन्मे वासपुधत्ते खु तित्थयरमूले । पच्चवखाणं पदिदी संश्रणदुगाउयविहारो ॥ गो. जी. ४७३.

२ परिहारार्धिसमेतः षड्जीवानिकायसंकुले विहरन् । पयसेव पन्नपन्नं न लिप्यते पापनिवहेन ॥ गो. जा.  
४७३. जी. प्र. टी. उदधृतम् ।

३ अहंसदी जाह्वे आडोभिहीए कहियमवखायं । चरणमकसायमुदितं तमहवखायं जहवखाय ॥ तं  
दुविणप्यं छउमत्थकेवालिविहाणओ पुणेकेकं । खयसमजसयोगाजोगिकेवलिविहाणओ दुविहं । वि. मा. १२७९.

प्रधानवनान्तस्थनिम्बानामपि आम्रवनव्यपदेशदर्शनतोऽनेकान्तात् । उक्तं च—

संगहिय-सयल-संजममेय-जममणुत्तरं दुरवगम्भे ।

जीवो समुच्चहंतो सामाह्य-संजदो हेर्द्वि' ॥ १८७ ॥

छेत्तूण य परियायं पोरणं जो ठवेइ अप्पाणं ।

पंचजमे धम्मे सो छेदोवद्वावओ जीवो' ॥ १८८ ॥

पंच-समिदो ति-गुत्तो परिहरइ सदा वि जो हु सावज्जं ।

पंच-जमेय-जमो वा परिहारो संजदो सो हु' ॥ १८९ ॥

समाधान—नहीं, क्योंकि, जिस वनमें आम्रवृक्षोंकी प्रधानता है उसमें रहनेवाले नीमके वृक्षोंकी भी 'आम्रवन' ऐसी संज्ञा देखनेमें आती है। अतएव अनेकान्तका आश्रय करनेसे संयतासंयत और असंयतोंका भी संयम मार्गणमें ग्रहण किया है। कहा भी है—

जिसमें समस्त संयमोंका संग्रह कर लिया गया है ऐसे लोकोत्तर और दुरधिगम्य अभेदरूप एक यमको धारण करनेवाला जीव सामाधिकसंयत होता है ॥ १८७ ॥

जो पुरानी सावद्यव्यापाररूप पर्यायको छेदकर पांच यमरूप धर्ममें अपनेको स्थापित करता है वह जीव छेदोपस्थापक संयमी कहलाता है ॥ १८८ ॥

जो पांच समिति और तीन गुणियोंसे युक्त होता हुआ सदा ही सावद्ययोगका परिहार करता है तथा पांच यमरूप छेदोपस्थापना संयमको और एक यमरूप सामाधिकसंयमको धारण करता है वह परिहार-शुद्धि-संयत कहलाता है ॥ १८९ ॥

१ गो. जी. ४७०.

२ गो. जी. ४७१ छेदेन प्रायश्चित्ताचरणेन उपस्थापनं यस्य स छेदोपस्थापन इति निरुक्तेः । अधवा प्रायश्चित्तं स्वकृतदोषपरिहाराय पूर्वकृततपस्तद्दोषानुसारेण छित्त्वा आत्मानं तन्निरवधसंयमे स्थापयति स छेदोपस्थापक-संयतः, स्वतपश्छेदे सति उपस्थापनं यस्य स छेदोपस्थापन इत्याधिकरणव्युत्पत्तेः । जी. प्र. टी.

३ गो. जी. ४७२. परिहारकम्पं पवक्खामि परिहरंति जहा विज्ज । आदिमञ्जवसाणेषु आणुपुञ्चि जह-कम् ॥ ३६९ ॥ सत्तावीसं जहण्णेण उक्कोसेण सहस्ससो ॥ निग्गंथसूरा भगवंतो सच्चगोणं वियाहिया ॥ ३७२ ॥ सयगलो य उक्कोसा जहण्णेणं तओ गणा । गणो य णवओ वुत्तो एमेता पडिवत्तिओ ॥ ३७३ ॥ एगं कप्पाट्टियं कुञ्जा चत्तारि परिहारिए । अणुपरिहारिगा चैव चउरो तेसिं तु ठावए ॥ ३७४ ॥ ण य तेपिं जायती विग्घं जा मासा दस अट्ट य । ण वेयणा ण वातंका णेव अण्णे उवद्दवा ॥ ३७५ ॥ अट्टारससु पुण्णेसु होञ्ज एते उवद्दवा । ऊणिए ऊणिए यावि गणमेरा इमा भवे ॥ ३७६ ॥ पडिवन्नजिणिंदस्स पादमूलम्मि जे विऊ । ठावयंतिआ ते अण्णे ण उ ठावित-ठावगा ॥ ३८३ ॥ सच्चे चरितमंता य दंसणे परिनिट्टिया । णवपुच्चिया जहण्णेणं उक्कोसं दसपुच्चिया ॥ ३८४ ॥ पंचविहे ववहारे कप्पे ते दुविहम्मि य । दसविहे य पच्छित्ते सच्चे वि परिनिट्टिया ॥ ३८५ ॥ पडिपुच्छं वायं णं मोत्तुणं णत्थि संकहा । आलावो अत्तणिहेसो परिहारस्स कारणे ॥ ३९६ ॥ वारस दसट्ट दस अट्ट छच्चट्ट छ चउरो य उक्कोसं । मच्चिम जहन्ना ऊ वासासिसिरिग्घे उ ॥ ३९४ ॥ आर्यंभिलवारसगं पत्तेयं परिहारगा परिहरंति । अभिगट्ठिनण्णणाए

अणुलोभं वेदंती जीवो उवसामगो व खवओ वा ।  
 सो सुहुम-सांपराओ जहक्खादेणूणओ किं पि' ॥ १९० ॥  
 उवसंते खीणे वा असुहे कम्मम्हि मोहणीयम्हि ।  
 छट्टुमत्थो व जिणो वा जहक्खादो संजदो सो हु' ॥ १९१ ॥  
 पंच-ति-चउव्विहेहि अणु-गुण-सिक्खा-वएहि संजुत्ता ।  
 वुच्चंति देस-विरया सम्माइड्डी ज्जारिय-कम्मा' ॥ १९२ ॥  
 दंसण-वय-सामाइय-पोसह-सच्चित्त-राइमत्ते य ।  
 बम्हारंभ-परिगह-अणुमण-उद्धिद्व देस-विरदेदे' ॥ १९३ ॥  
 जीवा चोइस-भेया इंदिय-विसया तहट्टवीसं तु ।  
 जे तेसु णेव विरदा असंजदा ते मुणेयव्वा' ॥ १९४ ॥

चाहे उपशमश्रेणीका आरोहण करनेवाला हो अथवा क्षपकश्रेणीका आरोहण करने-  
 वाला हो, परंतु जो जीव सूक्ष्म लोभका अनुभव करता है उसे सूक्ष्मसांपराय-शुद्धि-संयत  
 कहते हैं । यह संयत यथाख्यात संयमसे कुछ कम संयमको धारण करनेवाला होता है ॥ १९० ॥

अशुभ मोहनीय कर्मके उपशान्त अथवा क्षय हो जाने पर ग्यारहवें, बारहवें गुणस्थान-  
 वर्ती छत्रस्थ और तेरहवें चौदहवें गुणस्थानवर्ती जिन यथाख्यात-शुद्धि-संयत होते हैं ॥ १९१ ॥

जो पांच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रतोंसे संयुक्त होते हुए असंख्यात-  
 गुणी कर्मनिर्जरा करते हैं ऐसे सम्यग्दृष्टि जीव देशविरत कहे जाते हैं ॥ १९२ ॥

दर्शनिक, व्रतिक, सामायिकी, प्रोपद्योपवासी, सच्चित्तविरत, रत्त्रिभुक्तविरत, ब्रह्मचारी,  
 आरंभविरत, परिग्रहविरत, अनुमतिविरत और उद्दिष्टविरत ये देशविरतके ग्यारह भेद हैं ॥ १९३ ॥

जीवसमास चौदह प्रकारके होते हैं और इन्द्रिय तथा मनके विषय अट्ठाईस प्रकारके  
 होते हैं । जो जीव इनसे विरत नहीं हैं उन्हें असंयत जानना चाहिये ॥ १९४ ॥

पंचण्ह वि एगो संभोगो ॥ ३९५ ॥ परिहारिओ छम्मासे अणुपरिहारिओ वि छम्मासा । कप्पट्ठितो वि छम्मासे तेए  
 अट्टारस उ मासे ॥ ३९६ ॥ गइहिं छहिं मासेहिं निव्विद्धा य भवति ते । ततो पच्च य ववहारं पट्टवंति अणुपरि-  
 हारिया ॥ ३९८ ॥ गएहिं छहिं मासेहिं निव्विद्धा य भवति ते । वइ कप्पट्ठिओ पच्च परिहारं तहाविधं ॥ ३९९ ॥  
 अट्टारसहिं मासेहिं कप्पो होति समाणितो । म्लुक्कवणाए समं छम्मासा उ अणूणगा ॥ ४०० ॥ वृ. ६ उ. ( अमि.  
 रा. को. परिहारविसुद्धिय. )

१ गो. जी. ४७४.

२ गो. जी. ४७५.

३ गो. जी. ४७६.

४ गाथेयं पूर्वमपि ७४ गाथाङ्केन आगता ।

५ गो. जी. ४७८.

संयतानां गुणस्थानानां संख्यानिरूपणार्थमाह—

संजदा पमत्तसंजद-प्पहुडि जाव अजोगिकेवलि तिं ॥१२४॥

अथ स्याद् बुद्धिपूर्विका सावद्यविरतिः संयमः, अन्यथा काष्ठादिष्वपि संयम-  
प्रसङ्गात् । न च केवलीषु तथाभूता निवृत्तिरस्ति ततस्तत्र संयमो दुर्घट इति नैष  
दोषः, अघातिचतुष्टयविनाशापेक्षया समयं प्रत्यसंख्यातगुणश्रेणिकर्मनिर्जरापेक्षया च सकल-  
पापक्रियानिरोधलक्षणपारिणामिकगुणाविर्भावापेक्षया न, तत्र संयमोपचारात् ।  
अथवा प्रवृत्त्यभावापेक्षया मुख्यसंयमोऽस्ति । न काष्ठेन व्यभिचारस्तत्र प्रवृत्त्यभाव-  
तस्तन्निवृत्त्यनुपपत्तेः । सुगममन्यत् ।

द्रव्यपर्यायार्थिकनयद्वयनिबन्धनसंयमगुणप्रतिपादनार्थमाह—

सामायिक-च्छेदोपस्थापण-शुद्धि-संजदा पमत्तसंजद-प्पहुडि जाव  
अणियट्टि तिं ॥ १२५ ॥

अब संयतोंमें गुणस्थानोंकी संख्याके निरूपण करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

संयत जीव प्रमत्तसंयतसे लेकर अयोगिकेवली गुणस्थानतक होते हैं ॥ १२४ ॥

शंका—बुद्धिपूर्वक सावद्ययोगके त्यागको संयम कहना तो ठीक है । यदि ऐसा न  
माना जाय तो काष्ठ आदिमें भी संयमका प्रसंग आजायगा । किंतु केवलीमें बुद्धिपूर्वक सावद्य-  
योगकी निवृत्ति तो पाई नहीं जाती है इसलिये उनमें संयमका होना दुर्घट ही है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, चार अघातिया कर्मोंके विनाश करनेकी  
अपेक्षा और समय समयमें असंख्यातगुणी श्रेणीरूपसे कर्मनिर्जरा करनेकी अपेक्षा संपूर्ण  
पाप-क्रियाके निरोधस्वरूप पारिणामिक गुण प्रगट हो जाता है, इसलिये इस अपेक्षासे  
वहां संयमका उपचार किया जाता है । अतः वहां पर संयमका होना दुर्घट नहीं है । अथवा  
प्रवृत्तिके अभावकी अपेक्षा वहां पर मुख्य संयम है । इसप्रकार जिनेन्द्रमें प्रवृत्त्यभावसे मुख्य संय-  
मकी सिद्धि करने पर काष्ठसे व्यभिचार दोष भी नहीं आता है, क्योंकि, काष्ठमें प्रवृत्ति नहीं पाई  
जाती है, तब उसकी निवृत्ति भी नहीं बन सकती है । शेष कथन सुगम है ।

अब द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक इन दोनों नयोंके निमित्तसे माने गये संयमके  
गुणस्थान प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं ।

सामायिक और छेदोपस्थापनारूप शुद्धिको प्राप्त संयत जीव प्रमत्तसंयतसे लेकर  
अनिवृत्तिकरण गुणस्थानतक होते हैं ॥ १२५ ॥

१ संयमानुवादेन संयताः प्रमत्तादयोऽयोगिकेवत्यन्ताः । स. सि. १. ८.

२ सामायिकच्छेदोपस्थापनाशुद्धिसंयताः प्रमत्तादयोऽनिवृत्तिस्थानान्ताः । स. सि. १. ८.

सुगमत्वादत्र न किञ्चिद्भक्तव्यमस्ति ।

द्वितीयसंयमस्याध्वाननिरूपणार्थमाह—

परिहार-शुद्धि-संजदा दोसु द्वाणेषु पमत्तसंजद-द्वाणे अप्पमत्त-  
संजद-द्वाणे ॥ १२६ ॥

उपरिष्ठात्किमित्ययं संयमो न भवेदिति चेन्न, ध्यानामृतसागरान्तर्निमग्नात्मनां वाच्यमानामुपसंहृतगमनागमनादिकायव्यापाराणां परिहारानुपपत्तेः । प्रवृत्तः परिहरति नाप्रवृत्तस्ततो नोपरिष्ठात्संयमोऽस्ति । परिहारशुद्धिसंयतः किमु एकयम उत पंचयम इति ? किंचातो यद्येकयमः सामायिकेऽन्तर्भवति । अथ यदि पंचयमः छेदोपस्थापनेऽन्तर्भवति ? न च संयममादधानस्य पुरुषस्य द्रव्यपर्यायार्थिकाभ्यां व्यतिरिक्तस्यास्ति सम्भवस्ततो न परिहारसंयमोऽस्तीति न, परिहारद्वयतिशयोत्पत्त्यपेक्षया ताभ्यामस्य कथञ्चिद्भेदात् । तद्रूपापरित्यागेनैव परिहारद्विपर्यायेण परिणतत्वान्न ताभ्यामन्योऽयं-

इस सूत्रका अर्थ सुगम होनेसे यहां कुछ विशेष कहने योग्य नहीं है ।

अब दूसरे संयमके गुणस्थानोंके निरूपण करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

परिहार-शुद्धि-संयत प्रमत्त और अप्रमत्त इन दो गुणस्थानोंमें होते हैं ॥ १२६ ॥

शंका—ऊपरके आठवें आदि गुणस्थानोंमें यह संयम क्यों नहीं होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, जिनकी आत्माएं ध्यानरूपी अमृतके सागरमें निमग्न हैं, जो वचन-यम (मौन) का पालन करते हैं और जिन्होंने आने जानेरूप संपूर्ण शरीरसंबन्धी व्यापार संकुचित कर लिया है ऐसे जीवोंके शुभाशुभ क्रियाओंका परिहार बन ही नहीं सकता है । क्योंकि, गमनागमन आदि क्रियाओंमें प्रवृत्ति करनेवाला ही परिहार कर सकता है, प्रवृत्ति नहीं करनेवाला नहीं । इसलिये ऊपरके आठवें आदि ध्यान अवस्थाको प्राप्त गुणस्थानोंमें परिहार-शुद्धि-संयम नहीं बन सकता है ।

शंका—परिहार-शुद्धि-संयम क्या एक यमरूप है या पांच यमरूप ? इनमेंसे यदि एक यमरूप है तो उसका सामायिकमें अन्तर्भाव होना चाहिये और यदि पांच यमरूप है तो छेदोपस्थापनामें अन्तर्भाव हो जाना चाहिये । संयमको धारण करनेवाले पुरुषके द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षा इन दोनों संयमोंसे भिन्न तीसरे संयमकी संभावना तो है नहीं, इसलिये परिहार-शुद्धि-संयम नहीं बन सकता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, परिहार ऋद्धिरूप अतिशयकी उत्पत्तिकी अपेक्षा सामायिक और छेदोपस्थानासे परिहार-शुद्धि-संयमका कथंचित् भेद है ।

शंका—सामायिक और छेदोपस्थापनारूप अवस्थाका त्याग न करते हुए ही परिहार ऋद्धिरूप पर्यायसे यह जीव परिणत होता है, इसलिये सामायिक और छेदोपस्थापनासे भिन्न

संयम इति चेन्न, प्राग्विद्यमानपरिहारद्वयपेक्षया ताभ्यामस्य भेदात् । ततः स्थितमेत-  
त्ताभ्यामन्यः परिहारसंयम इति । परिहारद्वैरुपरिष्ठादपि सत्त्वात्तत्रास्यास्तु सत्त्वामिति  
चेन्न, तत्कार्यस्य परिहरणलक्षणस्यासत्त्वतस्तत्र तदभावात् ।

तृतीयसंयमस्याध्वानप्रतिपादनार्थमाह—

**सुहुम-सांपराइय-शुद्धि-संजदा एकस्मि चैव सुहुम-सांपराइय-  
शुद्धि-संजद-द्वारे ॥ १२७ ॥**

सूक्ष्मसाम्परायः किमु एकयम उत पञ्चयम इति? किं चातो यत्रेकयमः पञ्चयमान्  
मुक्तिरुपशमश्रेण्यारोहणं वा सूक्ष्मसाम्परायगुणप्राप्तिमन्तरेण तदुभयाभावात् । अथ पञ्चयमः  
एकयमानां पूर्वोक्तदोषौ समाढौकैते । अथोभययमः एकयमपञ्चयमभेदेन सूक्ष्मसाम्परा-  
यह संयम नहीं हो सकता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, पहले अविद्यमान परंतु पीछेसे उत्पन्न हुई परिहार क्रद्धिकी  
अपेक्षा उन दोनों संयमोंसे इसका भेद है, अतः यह बात निश्चित हो जाती है कि सामायिक  
और छेदोपस्थापनासे परिहार-शुद्धि-संयम भिन्न ही है ।

शंका—परिहार क्रद्धिकी आगेके आठवें आदि गुणस्थानोंमें भी सत्ता पाई जाती है,  
अतएव वहां पर इस संयमका सद्भाव मान लेना चाहिये ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, यद्यपि आठवें आदि गुणस्थानोंमें परिहार क्रद्धि पाई  
जाती है परंतु वहां पर परिहार करनेरूप उसका कार्य नहीं पाया जाता है, इसलिये आठवें आदि  
गुणस्थानोंमें परिहार-शुद्धि-संयमका अभाव कहा गया है ।

अब तीसरे संयमके गुणस्थानका निरूपण करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

सूक्ष्मसांपराय-शुद्धि-संयत जीव एक सूक्ष्मसांपराय-शुद्धि-संयत गुणस्थानमें ही  
होते हैं ॥ १२७ ॥

शंका—सूक्ष्मसांपरायसंयम क्या एक यमरूप है अथवा पांच यमरूप ? इनमेंसे यदि  
एक यमरूप है तो पंचयमरूप छेदोपस्थापनासंयमसे मुक्ति अथवा उपशमश्रेणीका  
आरोहण नहीं बन सकता है, क्योंकि, सूक्ष्मसांपरायगुणस्थानकी प्राप्तिके बिना  
मुक्तिकी प्राप्ति और उपशमश्रेणीका आरोहण नहीं बन सकेगा ? यदि सूक्ष्मसांपराय  
पांच यमरूप है तो एक यमरूप सामायिक संयमको धारण करनेवाले जीवोंके पूर्वोक्त  
दोनों दोष प्राप्त होते हैं ? यदि छेदोपस्थापनाको उभय यमरूप मानते हैं तो एक यम और  
पंचयमके भेदसे सूक्ष्मसांपरायके दो भेद हो जाते हैं ?

याणां द्वैविध्यमापतेदिति । नाद्यौ विकल्पावनभ्युपगमात् । न तृतीयविकल्पोक्तदोषः सम्भवति पञ्चकयमभेदेन संयमभेदाभावात् । यद्येकयमपञ्चयमौ संयमस्य न्यूनाधिकभावस्य निवन्धनावेवाभविष्यतां संयमभेदोऽप्यभविष्यत् । न चैवं संयमं प्रति द्वयोर- विशेषात् । ततो न सूक्ष्मसांपरायसंयमस्य तद्द्वारेण द्वैविध्यमिति । तद्द्वारेण संयमस्य द्वैविध्याभावे पञ्चविधसंयमोपदेशः कथं घटत इति चेन्मा घटिष्ट । तर्हि कतिविधः संयमः ? चतुर्विधः पञ्चमस्य संयमस्यानुपलम्भात् । सुगममन्यत् ।

चतुर्थसंयमस्याध्वानप्रतिपादनार्थमाह—

जहाक्खाद-विहार-शुद्धि-संजदा चदुसु द्वाणेषु उवसंत-कसाय-  
वीयराय-छदुमत्था खीण-कसाय-वीयराय-छदुमत्था सजोगिकेवली  
अजोगिकेवलि ति' ॥ १२८ ॥

समाधान—आदिके दो विकल्प तो ठीक नहीं हैं, क्योंकि, वैसा हमने माना नहीं है । इसीप्रकार तीसरे विकल्पमें दिया गया दोष भी संभव नहीं है, क्योंकि, पंचयम और एकयमके भेदसे संयममें कोई भेद ही संभव नहीं है । यदि एकयम और पंचयम संयमके न्यूनाधिकभावके कारण होते तो संयममें भेद भी हो जाता । परंतु ऐसा तो है नहीं, क्योंकि, संयमके प्रति दोनोंमें कोई विशेषता नहीं है । अतः सूक्ष्मसांपराय संयमके उन दोनोंकी अपेक्षा दो भेद नहीं हो सकते हैं ।

शंका—जब कि उन दोनोंकी अपेक्षा संयमके दो भेद नहीं हो सकते हैं तो पांच प्रकारके संयमका उपदेश कैसे बन सकता है ?

समाधान— यदि पांच प्रकारका संयम घटित नहीं होता है तो मत होओ ।

शंका—तो संयम कितने प्रकारका है ?

समाधान—संयम चार प्रकारका है, क्योंकि, पांचवा संयम पाया ही नहीं जाता है । शेष कथन सुगम है ।

विशेषार्थ—सामायिक और छेदोपस्थापना संयममें विवक्षा भेदसे ही भेद है नास्तवमें नहीं, अतः ये दोनों मिलकर एक और शेषके तीन इसप्रकार संयम चार प्रकारके होते हैं ।

अब चौथे संयमके गुणस्थानोंके प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

यथाख्यात-विहार-शुद्धि-संयत जीव उपशान्त-कषाय-वीतराग-छद्मस्थ, क्षीणकषाय-  
वीतराग-छद्मस्थ सयोगिकेवली और अयोगिकेवली इन चार गुणस्थानोंमें होते हैं ॥ १२८ ॥



सुगमत्वान्नात्र वक्तव्यमस्ति ।

देशविरतगुणस्थानप्रतिपादनार्थमाह —

संजदासंजदा एकस्मिन्नेव संजदासंजद-दृष्टौ ॥१२९ ॥

सुगममेतत् ।

असंयतगुणस्य गुणस्थानप्रमाणनिरूपणार्थमाह —

असंजदा एइंदिय-प्पहुडि जाव असंजदसम्माइट्टि ति ॥१३०॥

मिथ्यादृष्टयोऽपि केचित्संयता दृश्यन्त इति चेन्न, सम्यक्त्वमन्तरेण संयमानुप-  
पत्तेः । सिद्धानां कः संयतो भवतीति चेन्नैकोऽपि । यथा बुद्धिपूर्वकनिवृत्तेरभावान्न  
संयतास्तत एव न संयतासंयताः नाप्यसंयताः प्रगटाशेषपापक्रियत्वात् ।

संयमद्वारेण जीवपदार्थमभिधाय साम्प्रतं दर्शनमुखेन जीवसत्तानिरूपणार्थमाह —

दंसणाणुवादेण अत्थि चक्खुदंसणी अचक्खुदंसणी ओधिदंसणी  
केवलदंसणी चेदि ॥ १३१ ॥

इस सूत्रका अर्थ सुगम होनेसे यहां विशेष कुछ कहने योग्य नहीं हैं ।

अब देशविरत गुणस्थानके प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

संयतासंयत जीव एक संयतासंयत गुणस्थानमें ही होते हैं ॥ १२९ ॥

इस सूत्रका अर्थ सुगम है ।

अब असंयतगुणके गुणस्थानोंके प्रमाणके निरूपण करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

असंयत जीव एकेन्द्रियसे लेकर असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानतक होते हैं ॥ १३० ॥

शंका—कितने ही मिथ्यादृष्टि जीव संयत देखे जाते हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, सम्यग्दर्शनके विना संयमकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है ।

शंका—सिद्ध जीवोंके कौनसा संयम होता है ?

समाधान—एक भी संयम नहीं होता है । उनके बुद्धिपूर्वक निवृत्तिका अभाव होनेसे  
जिसलिये वे संयत नहीं हैं, इसलिये संयतासंयत नहीं है और असंयत भी नहीं है, क्योंकि,  
उनके संपूर्ण पापरूप क्रियाएं नष्ट हो चुकी हैं ।

संयममार्गणाके द्वारा जीव-पदार्थका कथन करके अब दर्शनमार्गणाके द्वारा जीवोंके  
अस्तित्वके प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

दर्शनमार्गणाके अनुवादसे चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन, अवधिदर्शन और केवलदर्शनके  
धारण करनेवाले जीव होते हैं ॥ १३१ ॥

१ संयतासंयता एकस्मिन्नेव संयतासंयतस्थानं । स. सि. १. ८.

२ असंयताः आद्येषु चतुर्षु गुणस्थानेषु । स. सि. १. ८.

३ मानवचक्षुरिन्द्रियावरणक्षयोपशमाद् द्रव्येन्द्रियानुपघाताच्च चक्षुर्दर्शननिश्चक्षुर्दर्शनलब्धिमतो जीवस्य घटादिषु

चक्षुषा सामान्यस्यार्थस्य ग्रहणं चक्षुर्दर्शनम् । अथ स्याद्विषयविषयिसम्पातसमनन्तर-  
माद्यग्रहणमवग्रहः । न तेन बाह्यार्थगतविधिसामान्यं परिच्छिद्यते तस्यावस्तुनः कर्मत्वा-  
भावात् । अविषयीकृतप्रतिषेधस्य ज्ञानस्य विधौ प्रवृत्तिविरोधात् । विधेः प्रतिषेधाद् व्यावृत्तो  
गृह्यतेऽव्यावृत्तो वा ? आद्ये न विधिसामान्यग्रहणं प्रतिषेधेन सह विध्युपादानात् ।  
द्वितीये न तद्वि ग्रहणं विधिप्रतिषेधोभयग्रहणे तस्यान्तर्भावात् । न बाह्यार्थगतप्रतिषेध-  
सामान्यमपि परिच्छिद्यते विधिपक्षोक्तदोषदूषितत्वात् । तस्माद्विधिनिषेधात्मकबाह्यार्थ-

चक्षुके द्वारा सामान्य पदार्थके ग्रहण करनेको चक्षुर्दर्शन कहते हैं ।

शंका— विषय और विषयीके योग्य संबन्धके अनन्तर प्रथम ग्रहणको जो अवग्रह  
कहा है । सो उस अवग्रहके द्वारा बाह्य अर्थमें रहनेवाले विधि-सामान्यका ज्ञान तो हो नहीं  
सकता है, क्योंकि, बाह्य अर्थमें रहनेवाला विधि सामान्य अवस्तु है इसलिये वह कर्म अर्थात्  
ज्ञानका विषय नहीं हो सकता है । दूसरे जिस ज्ञानने प्रतिषेधको विषय नहीं किया है उसकी  
विधिमें प्रवृत्ति माननेमें विरोध आता है । इसलिये विधिका प्रतिषेधसे व्यावृत्त होकर ग्रहण  
होता है या अव्यावृत्त होकर ग्रहण होता है ? प्रथम विकल्पके मानने पर केवल विधि-  
सामान्यका ग्रहण तो बन नहीं सकता है, क्योंकि, प्रतिषेधके साथ ही विधिका ग्रहण देखा  
जाता है । दूसरे विकल्पके मानने पर ऐसे ग्रहणका कोई स्वतन्त्र स्थान नहीं, क्योंकि, विधि  
और प्रतिषेध इन दोनोंके ग्रहणमेंही प्रतिषेधसे अव्यावृत्त विधिका अन्तर्भाव हो जाता  
है । इसीप्रकार बाह्य अर्थमें रहनेवाले प्रतिषेधसामान्यका भी ग्रहण नहीं बन सकता है, क्योंकि,  
विधि पक्षमें जो दोष दे आये हैं वे सब यहाँ पर भी लागू पड़ते हैं । इसलिये विधि-निषेधात्मक

द्रव्येषु चक्षुषी दर्शनं चक्षुर्दर्शनम् । सामान्यविषयत्वेऽपि चास्य यद् घटादिविशेषाभिधानं तत्सामान्यविशेषयोः कथञ्चि-  
दभेदादेकान्तेन विशेषेभ्यो व्यतिरिक्तस्य सामान्यस्याग्रहणस्यापनार्थम् । उक्तं च ' निर्विशेषं विशेषाणां ग्रहो दर्शनमुच्यते '  
इत्यादि । चक्षुर्वर्जशेषेन्द्रियचतुष्टयं मनश्चाचक्षुरुच्यते, तस्य दर्शने न चक्षुर्दर्शनं, तदपि भावचक्षुरिन्द्रियावरणक्षयोप-  
शमाद् द्रव्येन्द्रियानुपघाताच्च अचक्षुर्दर्शनिनोऽचक्षुर्दर्शनलब्धिमतो जीवस्यात्मभावे भवति । ×× इदमुक्तं भवति, चक्षुर-  
प्राप्यकारि, ततो दूरस्थमपि स्वविषयं परिच्छिनत्ति । ×× श्रोत्रादीनि तु प्राप्यकारीणि, ततो द्रव्येन्द्रियसंश्लेषद्वारेण  
जात्रेण सह सम्बद्धमेव विषयं परिच्छिन्दन्तीत्येतद्दर्शनार्थमाऽभवाति । ×× अवधेर्दर्शनमवधिदर्शनम् । अवधिदर्शनि-  
नोऽवधिदर्शनावरणक्षयोपशमसमुद्भूतावधिदर्शनलब्धिमतो जीवस्य सर्वरूपिद्रव्येषु भवति, न पुनः सर्वपर्यायेषु ।  
यतोऽवधेरुक्तदृष्टतोऽप्येकवस्तुगता संख्येया असंख्येया वा पर्याया विषयत्वेनोक्ताः । ×× ननु पर्याया विशेषा उच्यन्ते,  
न च दर्शनं विशेषविषयं भवितुमर्हति ज्ञानस्यैव तद्विषयःवात् कथमिहावधिदर्शनविषयत्वेन पर्यायाः निर्दिष्टाः ?  
सायूक्तं, केवलं पर्यायैरपि घटशरावोदञ्जनादिभिर्मृदादिसामान्यमेव तथा तथा विशिष्यते न पुनस्तेन एकान्तेन  
व्यतिरिच्यन्ते, अतो मुख्यतः सामान्यं, गुणीभूतास्तु विशेषा अप्यस्य विषयीभवन्ति । केवल सकलदृश्यविषयत्वेन  
परिपूर्ण दर्शनं, केवलदर्शनिनस्तदावरणक्षयाविभूततल्लब्धिमतो जीवस्य सर्वद्रव्येषु मूर्तामूर्तेषु सर्वपर्यायेषु च भवतीति ।  
मनःपर्यायज्ञानं तु तथाविधक्षयोपशमपाटवार् सर्वदा विशेषानेव गृह्णदुत्पद्यते, न सामान्यम्, अतस्तद्दर्शनं नोक्तमिति ।  
अनु. ( अमि. रा. को. दंसणगुणप्पमाण. )

ग्रहणमवग्रहः । न स दर्शनं सामान्यग्रहणस्य दर्शनव्यपदेशात् । ततो न चक्षुर्दर्शनमिति ।

अत्र प्रतिविधीयते, नैते दोषाः दर्शनमाढौकन्ते तस्यान्तरङ्गार्थविषयत्वात् । अन्तरङ्गार्थोऽपि सामान्यविशेषात्मक इति । तद्विधिप्रतिषेधसामान्ययोरुपयोगस्य क्रमेण प्रवृत्त्यनुपपत्तेरक्रमेण तत्रोपयोगस्य प्रवृत्तिरङ्गीकर्तव्या । तथा च न सोऽन्तरङ्गोपयोगोऽपि दर्शनं तस्य सामान्यविशेषविषयत्वादिति चेन्न, सामान्यविशेषात्मकस्यात्मनः सामान्य-शब्दवाच्यत्वेनोपादानात् । तस्य कथं सामान्यतेति चेदुच्यते । चक्षुरिन्द्रियक्षयोपशमो हि नाम रूप एव नियमितस्ततो रूपविशिष्टस्यैवार्थग्रहणस्योपलम्भात् । तत्रापि रूपसामान्य एव नियमितस्ततो नीलादिष्वेकरूपेणैव विशिष्टवस्त्वनुपलम्भात् । तस्माच्चक्षुरिन्द्रिय-क्षयोपशमो रूपविशिष्टार्थं प्रति समानः आत्मव्यतिरिक्तक्षयोपशमाभावादात्मापि तद्-द्वारेण समानः, तस्य भावः सामान्यं तद्दर्शनस्य विषय इति स्थितम् ।

अथ स्याच्चक्षुषा यत्प्रकाशते तद्दर्शनम् । न चात्मा चक्षुषा प्रकाशते तथानुपल-

बाह्य पदार्थके ग्रहणको अवग्रह मानना चाहिये । परंतु वह अवग्रह दर्शनरूप तो हो नहीं सकता है, क्योंकि, जो सामान्यको ग्रहण करता है उसे दर्शन कहा है । अतः चक्षुर्दर्शन नहीं बनता है ?

समाधान—ऊपर दिये गये ये सब दोष दर्शनको नहीं प्राप्त होते हैं, क्योंकि, वह अन्तरंग पदार्थको विषय करता है । और अन्तरंग पदार्थ भी सामान्य-विशेषात्मक होता है । इसलिये विधिसामान्य और प्रतिषेधसामान्यमें उपयोगकी क्रमसे प्रवृत्ति नहीं बनती है, अतः उनमें उपयोगकी अक्रमसे प्रवृत्ति स्वीकार करना चाहिये । अर्थात् दोनोंका युगपत् ही ग्रहण होता है ।

शंका—इस कथनको मान लेने पर भी वह अन्तरंग उपयोग दर्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि, उस अन्तरंग उपयोगको सामान्यविशेषात्मक पदार्थ विषय मान लिया है ।

समाधान—नहीं, क्योंकि, यहांपर सामान्यविशेषात्मक आत्माका सामान्य शब्दके वाच्यरूपसे ग्रहण किया है ।

शंका—उसको सामान्यपना कैसे है ?

समाधान—चक्षु इन्द्रियावरणका क्षयोपशम रूपमें ही नियमित है । इसलिये उससे रूपविशिष्ट ही पदार्थका ग्रहण पाया जाता है । वहांपर भी चक्षुर्दर्शनमें रूपसामान्य ही नियमित है, इसलिये उससे नीलादिकमें किसी एक रूपके द्वारा ही विशिष्ट वस्तुकी उपलब्धि नहीं होती है । अतः चक्षु इन्द्रियावरणका क्षयोपशम रूपविशिष्ट अर्थके प्रति समान है । और आत्माको छोड़कर क्षयोपशम पाया नहीं जाता है इसलिये आत्मा भी क्षयोपशमकी अपेक्षा समान है । और उस समानके भावको सामान्य कहते हैं । वह दर्शनका विषय है ।

शंका—चक्षु इन्द्रियसे जो प्रकाशित होता है उसे दर्शन कहते हैं । परंतु आत्मा तो चक्षु इन्द्रियसे प्रकाशित होता नहीं, क्योंकि, चक्षु इन्द्रियसे आत्माकी उपलब्धि होती हुई नहीं देखी जाती है । चक्षु इन्द्रियसे रूपसामान्य और रूपविशेषसे युक्त पदार्थ प्रकाशित

म्भात् । प्रकाशते च रूपसामान्यविशेषविशिष्टार्थः । न स दर्शनमर्थस्यापयोगरूपत्व-  
विरोधात् । न तस्योपयोगोऽपि दर्शनं तस्य ज्ञानरूपत्वात् । ततो न चक्षुर्दर्शनमिति न,  
चक्षुर्दर्शनावरणीयस्य कर्मणोऽस्तित्वान्यथानुपपत्तेराधार्याभावे आधारकस्याप्यभावात् ।  
तस्माच्चक्षुर्दर्शनमन्तरङ्गविषयमित्यङ्गीकर्तव्यम् । किं च निद्रानिद्रादीनि कर्माणि न  
ज्ञानप्रतिबन्धकानि ज्ञानावरणाभ्यन्तरे तेपामपाठात् । नान्तरङ्गबहिरङ्गार्थविषयोपयोग-  
द्वयप्रतिबन्धकानि एवमपि ज्ञानावरणस्यैवान्तर्भावात् । नान्तरङ्गबहिरङ्गार्थविषयोपयोग-  
सामान्यप्रतिबन्धकानि जाग्रदवस्थायां छद्मस्थज्ञानदर्शनोपयोगयोरक्रमेण वृत्तिप्रसङ्गात् ।  
ततो दर्शनावरणीयकर्मणोऽस्तित्वान्यथानुपपत्तेरन्तरङ्गार्थविषयोपयोगप्रतिबन्धकं दर्शना-  
वरणीयम्, बहिरङ्गार्थविषयोपयोगप्रतिबन्धकं ज्ञानावरणमिति प्रतिपत्तव्यम् । आत्म-  
विषयोपयोगस्य दर्शनत्वेऽङ्गीक्रियमाणे आत्मनो विशेषाभावाच्चतुर्णामपि दर्शनानाम-  
विशेषः स्यादिति चेन्नैष दोषः, यद्यस्य ज्ञानस्योत्पादकं स्वरूपसंवेदनं तस्य तद्दर्शन-

होता है । परंतु पदार्थ तो उपयोगरूप हो नहीं सकता, क्योंकि, पदार्थको उपयोगरूप माननेमें  
विरोध आता है । पदार्थका उपयोग भी दर्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि, वह उपयोग ज्ञान-  
रूप पड़ता है । इसलिये चक्षुर्दर्शनका अस्तित्व नहीं बनता है ।

समाधान--नहीं, क्योंकि, यदि चक्षुर्दर्शन नहीं हो तो चक्षुर्दर्शनावरण कर्म नहीं  
बन सकता है, क्योंकि, आधार्थके अभावमें आधारकका भी अभाव हो जाता है । इसलिये  
अन्तरंग पदार्थको विषय करनेवाला चक्षुर्दर्शन है यह बात स्वीकार कर लेना चाहिये ।  
दूसरे निद्रानिद्रा आदि कर्म ज्ञानके प्रतिबन्धक नहीं हैं, क्योंकि, ज्ञानावरण कर्मके भेदोंमें इन  
निद्रानिद्रा आदि कर्मोंका पाठ नहीं है । तथा निद्रानिद्रा आदि कर्म अन्तरंग और बहिरंग  
पदार्थोंको विषय करनेवाले दोनों उपयोगोंके भी प्रतिबन्धक नहीं है, क्योंकि, ऐसा मानने पर  
भी निद्रानिद्रादिकका ज्ञानावरणके भीतर ही अन्तर्भाव होना चाहिये था । परंतु ऐसा नहीं है,  
अतः निद्रानिद्रादिक दोनों उपयोगके भी प्रतिबन्धक नहीं हैं । निद्रानिद्रादिक अन्तरंग और  
बहिरंग पदार्थोंको विषय करनेवाले उपयोग सामान्यके भी प्रतिबन्धक नहीं हैं, क्योंकि, ऐसा  
मान लेने पर जाग्रत् अवस्थामें छद्मस्थके ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोगकी युगपत् प्रवृत्तिका प्रसंग  
था जायगा । इसलिये दर्शन यदि न हो तो दर्शनावरण कर्मका अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता  
है । अतः अन्तरंग पदार्थको विषय करनेवाले उपयोगका प्रतिबन्धक दर्शनावरण कर्म है  
और बहिरंग पदार्थको विषय करनेवाले उपयोगका प्रतिबन्धक ज्ञानावरण कर्म है ऐसा  
जानना चाहिये ।

शंका—आत्माको विषय करनेवाले उपयोगको दर्शन स्वीकार कर लेनेपर आत्मामें  
कोई विशेषता नहीं होनेसे चारों दर्शनोंमें भी कोई भेद नहीं रह जायगा ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, जो जिस ज्ञानका उत्पन्न करनेवाला

व्यपदेशान्न दर्शनस्य चातुर्विध्यनियमः । यावन्तश्चक्षुरिन्द्रियक्षयोपशमजनितज्ञानस्य विषयभावमापन्नाः पदार्थास्तावन्त एवात्मस्थक्षयोपशमास्तत्तन्नामानस्तद्द्वारेणात्मापि तावन्नेव तच्छक्तिखचितात्मपरिच्छित्तिर्दर्शनम् । न चैतत्काल्पनिकं परमार्थत एव परोपदेश-मन्तरेण शक्त्या सहात्मनः उपलम्भात् । न दर्शनानामक्रमेण प्रवृत्तिर्ज्ञानानामक्रमेणो-त्पत्त्यभावतस्तदभावात् । एवं शेषदर्शनानामपि वक्तव्यम् । ततो न दर्शनानामेकत्व-मिति उक्तं च —

चक्रवृण जं पयासदि दिस्सदि तच्चक्खु-दंसणं वेति ।

सोसिंदिय-पयासो णादब्बो सो अचक्खु ति' ॥ १९५ ॥

परम.णु-आदियाइं अंतिम-खंधं ति मुत्ति-दब्बाइं ।

तं ओधि-दंसणं पुण जं परसइ ताइ पच्चक्खं ॥ १०.६ ॥

बहुविह बहुप्पयारा उज्जोवा परिमियमिह खेतमिह ।

लोगालोग-अतिमिरा जो केवलदंसणुज्जोवा' ॥ १९.७ ॥

स्वरूपसंवेदन है उसको उसी नामका दर्शन कहा जाता है । इसलिये दर्शनके चार प्रकारके होनेका कोई नियम नहीं है । चक्षु इन्द्रियावरण कर्मके क्षयोपशमसे उत्पन्न हुए ज्ञानके विषय-भावको प्राप्त जितने पदार्थ हैं उतने ही आत्मामें स्थित क्षयोपशम उन उन संज्ञाओंको प्राप्त होते हैं । और उनके निमित्तसे आत्मा भी उतने ही प्रकारका हो जाता है । अतः इस प्रकारकी शक्तियोंसे युक्त आत्माके संवेदन करनेको दर्शन कहते हैं । यह सब कथन काल्पनिक भी नहीं है, क्योंकि, परोपदेशके बिना अनेक शक्तियोंसे युक्त आत्माकी परमार्थसे उपलब्धि होती है । सभी दर्शनोंकी अक्रमसे प्रवृत्ति होती है सो बात भी नहीं है, क्योंकि, ज्ञानोंकी एकसाथ उत्पत्ति नहीं होती है, अतः संपूर्ण दर्शनोंकी भी एकसाथ उत्पत्ति नहीं होता है । इसीप्रकार शेष दर्शनोंका भी कथन करना चाहिये । इसलिये दर्शनोंमें एकता अर्थात् अभेद सिद्ध नहीं हो सकता है । कहा भी है—

जो चक्षु इन्द्रियके द्वारा प्रकाशित होता है अथवा दिखाई देता है उसे चक्षुदर्शन कहते हैं । तथा शेष इन्द्रिय और मनसे जो प्रतिभास होता है उसे अन्वक्षुदर्शन कहते हैं ॥१९५॥

परमाणुसे आदि लेकर अन्तिम स्कन्धपर्यन्त मूर्त पदार्थोंको जो प्रत्यक्ष देखता है उसे अवधिदर्शन कहते हैं ॥१९६॥

अपने अपने अनेक प्रकारके भेदोंसे युक्त बहुत प्रकारके प्रकाश इस परिमित क्षेत्रमें ही पाये जाते हैं । परंतु जो केवल दर्शनरूपी प्रकाश है वह लोक और अलोकको भी तिमिर रहित कर देता है ॥१९७॥

१ गो. जी. ४८४.

२ गो. जी. ४८५.

३ गो. जी. ४८६.

चक्षुर्दर्शनाध्वानप्रतिपादनार्थमाह—

चक्षु-दंसणी चउरिंदिय-प्पहुडि जाव खीण-कसाय-वीयराय-  
छदुमत्था ति ॥ १३२ ॥

सुगममेतत् ।

अचक्षुर्दर्शनस्याधिपतिप्रतिपादनार्थमाह—

अचक्षु-दंसणी एइंदिय-प्पहुडि जाव खीण-कसाय-वीयराय-  
छदुमत्था ति ॥ १३३ ॥

दृष्टान्तस्मरणमचक्षुर्दर्शनमिति केचिदाचक्षते तन्न घटते एकेन्द्रियेषु चक्षुर-  
भावतोऽचक्षुर्दर्शनस्याभावासञ्जननात् । दृष्टशब्द उपलम्भवाचक इति चेन्न, उपलब्धार्थ-  
विषयस्मृतेर्दर्शनत्वेऽङ्गीक्रियमाणे मनसो निर्विषयतापत्तेः । ततः स्वरूपसंवेदनं दर्शन-  
मित्यङ्गीकर्तव्यम् । ज्ञानमेव द्विस्वभावं किन्न स्यादिति चेन्न, स्वस्माद्भिन्नवस्तुपरिच्छेदकं

अव चक्षुर्दर्शनसंबन्धी गुणस्थानोंके प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

चक्षुर्दर्शन उपयोगवाले जीव चतुरिन्द्रियसे लेकर क्षीणकषाय-छद्मस्थ-वीतराग गुण-  
स्थान तक होते है ॥ १३२ ॥

इसका अर्थ सरल है ।

अव अचक्षुर्दर्शनके स्वामी बतलानेके लिये सूत्र कहते हैं—

अचक्षुर्दर्शन उपयोगवाले जीव एकेन्द्रियसे लेकर क्षीणकषाय-वीतराग-छद्मस्थ गुण-  
स्थान तक होते हैं ॥ १३३ ॥

दृष्टान्त अर्थात् देखे हुए पदार्थका स्मरण करना अचक्षुर्दर्शन है, इसप्रकार कितने ही  
पुरुष कहते हैं । परंतु उनका ऐसा कहना घटित नहीं होता है, क्योंकि, ऐसा माननेपर  
एकेन्द्रिय जीवोंमें चक्षुइन्द्रियका अभाव होनेसे उनके अचक्षुर्दर्शनके अभावका प्रसंग आजायगा ।

शंका—दृष्टान्तमें ' दृष्ट ' शब्द उपलम्भवाचक ग्रहण करना चाहिये ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, उपलब्ध पदार्थको विषय करनेवाली स्मृतिको दर्शन  
स्वीकार कर लेनेपर मनको विषय रहितपनेकी आपत्ति आजाती है । इसलिये स्वरूपसंवेदन  
दर्शन है ऐसा स्वीकार कर लेना चाहिये ।

शंका—ज्ञान ही दो स्वभाववाला क्यों नहीं मान लिया जाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, अपनेसे भिन्न वस्तुका परिच्छेदक ज्ञान है और अपनेसे  
अभिन्न वस्तुका परिच्छेदक दर्शन है, इसलिये इन दोनोंमें एकपन नहीं बन सकता है ।

ज्ञानम्, स्वतोऽभिन्नवस्तुपरिच्छेदकं दर्शनम्, ततो नानयोरेकत्वमिति । ज्ञानदर्शनयोर-  
क्रमेण प्रवृत्तिः किन्न स्यादिति चेत् किमिति न भवति ? भवत्येव क्षीणावरणे द्वयोरक्रमेण  
प्रवृत्त्युपलम्भात् । भवतु छद्मस्थावस्थायामप्यक्रमेण क्षीणावरणे इव तयोः प्रवृत्तिरिति चेन्न,  
आवरणानिरुद्धाक्रमयोरक्रमवृत्तिविरोधात् । अस्वसंविद्रूपो न कदाचिदप्यात्मोपलभ्यत  
इति चेन्न, बहिरङ्गोपयोगावस्थायामन्तरङ्गोपयोगानुपलम्भात् । श्रुतदर्शनं किमिति  
नोच्यत इति चेन्न, तस्य मतिपूर्वकस्य दर्शनपूर्वकत्वविरोधात् । यदि बहिरङ्गार्थसामान्य-  
विषयं दर्शनमभविष्यत्तदा श्रुतज्ञानदर्शनमपि समभविष्यत् ।

अवधिदर्शनप्रदेशप्रतिपादनार्थमाह—

ओधि-दंसणी असंजदसम्माइङ्गि-प्पहुडि जाव खीण-कसाय-  
वीयराय-छदुमत्था ति' ॥ १३४ ॥

शंका— ज्ञान और दर्शनकी युगपत् प्रवृत्ति क्यों नहीं होती ?

समाधान— कैसे नहीं होती, होती ही है, क्योंकि, जिनके आवरण कर्म नष्ट हो गये  
हैं ऐसे तेरहवें आदि गुणस्थानवर्ती जीवोंमें ज्ञान और दर्शन इन दोनोंकी युगपत् प्रवृत्ति पाई  
जाती है ।

शंका— आवरणकर्मसे रहित जीवोंमें जिसप्रकार ज्ञान और दर्शनकी युगपत् प्रवृत्ति  
पाई जाती है, उसीप्रकार छद्मस्थ अवस्थामें भी उन दोनोंकी एक साथ प्रवृत्ति होओ ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, आवरणकर्मके उदयसे जिनकी युगपत् प्रवृत्ति करनेकी  
शक्ति रुक गई है ऐसे छद्मस्थ जीवोंके ज्ञान और दर्शनमें युगपत् प्रवृत्ति माननेमें विरोध  
आता है ।

शंका— अपने आपके संवेदनसे रहित आत्माकी तो कभी भी उपलब्धि नहीं होती है ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, बहिरंग पदार्थोंकी उपयोगरूप अवस्थामें अन्तरंग  
पदार्थका उपयोग नहीं पाया जाता है ।

शंका— श्रुत दर्शन क्यों नहीं कहा ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, मतिज्ञानपूर्वक होनेवाले श्रुतज्ञानको दर्शनपूर्वक माननेमें  
विरोध आता है । दूसरे यदि बहिरंग पदार्थको सामान्यरूपसे विषय करनेवाला दर्शन होता  
तो श्रुतज्ञानसंबन्धी दर्शनभी होता । परंतु ऐसा नहीं है, इसलिये श्रुतज्ञानके पहले दर्शन नहीं  
होता है ।

अब अवधिज्ञानसंबन्धी गुणस्थानोंके प्रतिपादन करनेकेलिये सूत्र कहते हैं—

अवधिदर्शनवाले जीव असंयत सम्यग्दृष्टिसे लेकर क्षीणकषायवीतरागछद्मस्थ गुण-

सुगममेतत् । विभङ्गदर्शनं किमिति पृथग् नोपदिष्टमिति चेन्न, तस्यावधिदर्शनेऽ-  
न्तर्भावात् । मनःपर्ययदर्शनं तर्हि वक्तव्यमिति चेन्न, मतिपूर्वकत्वात्तस्य दर्शनाभावात् ।

केवलदर्शनस्वामिप्रतिपादनार्थमाह--

केवलदंसणी तिसु द्वाणेषु सजोगिकेवली अजोगिकेवली  
सिद्धा चेदि' ॥ १३५ ॥

अनन्तत्रिकालगोचरबाह्येऽर्थे प्रवृत्तं केवलज्ञानं ( स्वतोऽभिन्नवस्तुपरिच्छेदकं च  
दर्शनमिति ) कथमनयोः समानतेति चेत्कथ्यते । ज्ञानप्रमाणमात्मा ज्ञानं च त्रिकाल-  
गोचरानन्तद्रव्यपर्यायपरिमाणं ततो ज्ञानदर्शनयोः समानत्वमिति । स्वजीवस्थपर्यायै-  
र्ज्ञानाद्दर्शनमधिकमिति चेन्न, इष्टत्वात् । कथं पुनस्तेन तस्य समानत्वम् ? न, अन्योन्या-  
त्मकयोस्तदविरोधात् । उक्तं च—

स्थान तक होते हैं ॥१३४॥

इस सूत्रका अर्थ सुगम है ।

शंका—विभंगदर्शनका पृथक् रूपसे उपदेश क्यों नहीं किया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, उसका अवधिदर्शनमें अन्तर्भाव हो जाता है ।

शंका—तो मनःपर्ययदर्शनको भिन्न रूपसे कहना चाहिये ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, मनःपर्ययज्ञान मतिज्ञानपूर्वक होता है, इसलिये मनःपर्यय-  
दर्शन नहीं होता है ।

अब केवलदर्शनके स्वामीके प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

केवलदर्शनके धारक जीव सयोगिकेवली, अयोगिकेवली और सिद्ध इन तीन  
स्थानोंमें होते हैं ॥१३५॥

शंका—त्रिकालगोचर अनन्त बाह्य पदार्थोंमें प्रवृत्ति करनेवाले ज्ञान है और स्वरूप-  
मात्रमें प्रवृत्ति करनेवाला दर्शन है, इसलिये इन दोनोंमें समानता कैसे हो सकती है ?

समाधान—आत्मा ज्ञानप्रमाण है और ज्ञान त्रिकालके विषयभूत द्रव्योंकी अनन्त  
पर्यायोंको जाननेवाला होनेसे तत्परिमाण है, इसलिये ज्ञान और दर्शनमें समानता है ।

शंका—जीवमें रहनेवाली स्वकीय पर्यायोंकी अपेक्षा ज्ञानसे दर्शन अधिक है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, यह बात इष्ट ही है ।

शंका—फिर ज्ञानके साथ दर्शनकी समानता कैसे हो सकती है ?

समाधान—समानता नहीं हो सकती यह बात नहीं है, क्योंकि, एक दूसरेकी अपेक्षा  
करनेवाले उन दोनोंमें समानता मान लेनेमें कोई विरोध नहीं आता है । कदा भी है—



आदा णाण-पमाणं णाणं णेय-प्पमाणमुदिहं ।

णेयं लोआलोअं तम्हा णाणं तु सच्च-गयं<sup>१</sup> ॥ १९८ ॥

एय-द्वियम्मि जे अत्य-पज्जया वयण-पज्जया चावि ।

तादाणागय-भूदा तावदियं तं हवइ दम्मं<sup>२</sup> ॥ १९९ ॥ इदि

लेश्याद्वारेण जीवपदार्थसत्त्वान्वेष गायाम्—

लेस्साणुवादेण अत्थि किण्हलेस्सिया णील्लेस्सिया काउ-  
लेस्सिया तेजलेस्सिया पम्मलेस्सिया सुक्कलेस्सिया अलेस्सिया  
चेदि ॥ १३६ ॥

लेश्या इति किमुक्तं भवति ? कर्मस्कन्धैरात्मानं लिम्पतीति लेश्या ।  
कषायानुरञ्जितैव योगप्रवृत्तिलेश्येति नात्र परिगृह्यते सयोगकेवलीनोऽलेश्यत्वापत्तेः ।  
अस्तु चेन्न, 'शुक्कलेश्यः सयोगकेवली' इति वचनव्याघातात् । लेश्या नाम योगः

आत्मा ज्ञानप्रमाण है, ज्ञान ज्ञेयप्रमाण है, ज्ञेय लोकालोकप्रमाण है, इसलिये ज्ञान  
सर्वगत कहा है ॥ १९८ ॥

एक द्रव्यमें अतीत, अनागत और गायामें आये हुए 'अपि' शब्दसे वर्तमानपर्यायरूप  
जितनी अर्थपर्याय और व्यंजनपर्याय हैं तत्प्रमाण वह द्रव्य होता है ॥ १९९ ॥

अब लेश्यामार्गणाद्वारा जीवपदार्थके अस्तित्वके अन्वेषण करनेके लिये सूत्र कहते हैं—  
लेश्यामार्गणाके अनुवादसे कृष्णलेश्या, नीललेश्या, कापोतलेश्या, तेजोलेश्या, पद्म-  
लेश्या, शुक्कलेश्या और अलेश्यावाले जीव हैं ॥ १३६ ॥

शंका—'लेश्या' इस शब्दसे क्या कहा जाता है ?

समाधान—जो कर्मस्कन्धसे आत्माको लिप्त करती है उसे लेश्या कहते हैं ।

यहांपर 'कषायसे अनुरंजित योगप्रवृत्तिको लेश्या कहते हैं' यह अर्थ नहीं ग्रहण  
करना चाहिये, क्योंकि, इस अर्थके ग्रहण करनेपर सयोगिकेवलीको लेश्यारहितपनेकी आपत्ति  
प्राप्त होती है ।

शंका—यदि सयोगिकेवलीको लेश्यारहित मान लिया जावे तो क्या हानि है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, ऐसा मान लेनेपर 'सयोगिकेवलीके शुक्कलेश्या पाई

१ प्रवच. १, २३.

२ गो. जी. ५८२. स. त. १. ३३.

३ लिश्यते प्राणी कर्मणा यथा सा लेश्या । यदाह, श्लेष इव वर्णबन्धस्य कर्मबन्धस्थितिनिधान्यः । स्था. १.  
ठा. ज्ञा. । लिश्यते शिलन्धते कर्मणा सह आत्मा अनयति लेश्या । कर्म. ४. कर्म. । कृष्णादिद्रव्यसाच्चिव्यात्परिणामो  
य आत्मनः । स्फटिकश्लेष तत्रायं लेश्याशब्दः प्रवर्तते ॥ १ ॥ प्रज्ञा. १७. पद. । (अभि. रा. को. लेस्सा.)

कषायस्तावुभौ वा? किं चातो नाद्यौ विकल्पौ योगकषायमार्गणयोरेव तस्या अन्तर्भावात् । न तृतीयविकल्पस्तस्यापि तथाविधत्वात् । न प्रथमद्वितीयविकल्पोक्तदोषावनभ्युपगमात् । न तृतीयविकल्पोक्तदोषो द्वयोरेकस्मिन्नन्तर्भावविरोधात् । न द्वित्वमपि कर्मलेपैककार्य-  
कर्तृत्वेनैकत्वमापन्नयोर्योगकषाययोर्लेश्यात्वाभ्युपगमात् । नैकत्वात्तयोरन्तर्भवति द्वायात्म-  
कैकस्य जात्यन्तरमापन्नस्य केवलेनैकेन सहैकत्वसमानत्वयोर्विरोधात् । योगकषायकार्या-  
द्वयतिरिक्तलेश्याकार्यानुपलम्भान्न ताभ्यां पृथग्लेश्यास्तीति चेन्न, योगकषायाभ्यां  
प्रत्यनीकत्वाद्यालम्बनाचार्यादिवाह्यार्थसन्निधानेनापन्नलेश्याभावाभ्यां संसारवृद्धिकार्यस्य

जाती है' इस वचनका व्याघात हो जाता है ।

शंका—लेश्या योगको कहते हैं, अथवा, कषायको कहते हैं, या योग और कषाय दोनोंको कहते हैं? इनमेंसे आदिके दो विकल्प अर्थात् योग या कषायरूप लेश्या तो मान नहीं सकते, क्योंकि, वैसे माननेपर योगमार्गणा और कषायमार्गणमें ही उसका अन्तर्भाव हो जायगा । तीसरा विकल्प भी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि, तीसरा विकल्प भी आदिके दो विकल्पोंके समान है । अर्थात् तीसरे विकल्पके माननेपर भी लेश्याका उक्त दोनों मार्गणाओंमें अथवा किसी एक मार्गणमें अन्तर्भाव हो जाता है । इसलिये लेश्याकी स्वतन्त्र सत्ता सिद्ध नहीं होती है ?

समाधान—शंकाकारने जो ऊपर तीन विकल्प उठाये हैं उनमेंसे पहले और दूसरे विकल्पमें दिये गये दोष तो प्राप्त ही नहीं होते हैं, क्योंकि, लेश्याको केवल योग और केवल कषायरूप माना ही नहीं है । उसीप्रकार तीसरे विकल्पमें दिया गया दोष भी प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि, योग और कषाय इन दोनोंका किसी एकमें अन्तर्भाव माननेमें विरोध आता है । यदि कहा जाय कि लेश्याको दोरूप मान लिया जाय जिससे उसका योग और कषाय इन दोनों मार्गणाओंमें अन्तर्भाव हो जायगा, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि, कर्मलेपरूप एक कार्यको करनेवाले होनेकी अपेक्षा एक करनेको प्राप्त हुए योग और कषायको लेश्या माना है । यदि कहा जाय कि एकताको प्राप्त हुए योग और कषायरूप लेश्या होनेसे उन दोनोंमें लेश्याका अन्तर्भाव हो जायगा, सो भी कहना ठीक नहीं है क्योंकि, दो धर्मोंके संयोगसे उत्पन्न हुए द्वायात्मक अतएव किसी एक तीसरी अवस्थाको प्राप्त हुए किसी एक धर्मका केवल एकके साथ एकत्व अथवा समानता मान लेनेमें विरोध आता है ।

शंका—योग और कषायके कार्यसे भिन्न लेश्याका कार्य नहीं पाया जाता है, इसलिये उन दोनोंसे भिन्न लेश्या नहीं मानी जा सकती है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, विपरीतताको प्राप्त हुए मिथ्यात्व अविरति आदिके आलम्बनरूप आचार्यादि बह्य पदार्थोंके संपर्कसे लेश्याभावको प्राप्त हुए योग और कषायोंसे, केवल योग और केवल कषायके कार्यसे भिन्न संसारकी वृद्धिरूप कार्यकी उपलब्धि होती

तत्केवलकार्याद्व्यतिरिक्तस्योपलम्भात् । संसारवृद्धिहेतुलेश्येति प्रतिज्ञायमाने लिम्पतीति लेश्येत्यनेन विरोधश्चेन्न, लेपाविनाभावित्वेन तद्वृद्धेरपि तद्व्यपदेशाविरोधात् । ततस्ताभ्यां पृथग्भूता लेश्येति स्थितम् । षड्विधः कषायोदयः । तद्यथा, तीव्रतमः तीव्रतरः तीव्रः मन्दः मन्दतरः मन्दतम इति । एतेभ्यः षड्भ्यः कषायोदयेभ्यः परिपाट्या षड् लेश्या भवन्ति । कृष्णलेश्या नीललेश्या कापोतलेश्या पीतलेश्या पद्मलेश्या शुक्ललेश्या चेति । उक्तं च—

चंडो ण मुयदि वेरं मंडण-सालो य धम्म दय-रहिओ ।

दुद्धो ण य एदि वसं लक्ष्णमेदं तु किण्हस्सं ॥ २०० ॥

मंदो बुद्धि-विहीणो णिविण्णाणी य विसय-लोलो य ।

माणी मायी य तहा आलस्सो चय भेज्जो यं ॥ २०१ ॥

है जो केवल योग और केवल कषायका कार्य नहीं कहा जा सकता है, इसलिये लेश्या उन दोनोंसे भिन्न है यह बात सिद्ध हो जाती है ।

शंका—संसारकी वृद्धिका हेतु लेश्या है ऐसी प्रतिज्ञा करनेपर 'जो लिप्त करती है उसे लेश्या कहते हैं' इस वचनके साथ विरोध आता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, कर्मलेपकी अविनाभावी होने रूपसे संसारकी वृद्धिको भी लेश्या ऐसी संज्ञा देनेसे कोई विरोध नहीं आता है । अतः उन दोनोंसे पृथग्भूत लेश्या है यह बात निश्चित हो जाती है ।

कषायका उदय छह प्रकारका होता है । वह इसप्रकार है, तीव्रतम, तीव्रतर, तीव्र, मन्द, मन्दतर और मन्दतम । इन छह प्रकारके कषायके उदयसे उत्पन्न हुई परिपाटीक्रमसे लेश्या भी छह हो जाती हैं । कृष्णलेश्या, नीललेश्या, कापोतलेश्या, तेजोलेश्या, पद्मलेश्या और शुक्ललेश्या । कहा भी है—

तीव्र, क्रोध करनेवाला हो, वैरको न छोड़े, लड़ना जिसका स्वभाव हो, धर्म और दयासे रहित हो, दुष्ट हो और जो किसीके वशको प्राप्त न हो, ये सब कृष्णलेश्यावालेके लक्षण हैं ॥ २०० ॥

मन्द अर्थात् स्वच्छन्द हो अथवा काम करनेमें मन्द हो, वर्तमान कार्य करनेमें विवेक रहित हो, कला-चातुर्यसे रहित हो, पांच इन्द्रियोंके स्पर्शादि बाह्य विषयोंमें लम्पट हो, मानी हो, मायावी हो, आलसी हो, और भीरु हो, ये सब भी कृष्णलेश्यावालेके लक्षण हैं ॥ २०१ ॥

१ गो. जी. ५०९. पंचासवप्पवत्तो तीहि अयुत्तो षुं अविरओ य । तिव्वारम्मपरिणओ खुड्ढो साहासिओ भरो ॥ निद्धधसपरिणामो निस्संसी अजिहंदिओ । एयजोगसमाउत्तो किण्हस्सं तु परिणमे ॥ उक्त. ३४. २१-२२.

२ गो. जी. ५१०.

णिद्वा-त्रंचण-बहुलो धण-धणो होइ तिन्त्र-सण्णो य ।  
 लक्खणमेदं भणियं समासदो णील-लेस्सस्स' ॥ २०२ ॥  
 रूसदि णिददि अण्णे दूसदि बहुसो य सोय-भय-बहुलो ।  
 असुयदि परिभवदि परं पसंसदि य अप्पयं बहुसो' ॥ २०३ ॥  
 ण य पत्तियइ परं सो अप्पाणमिन्न परं पि मण्णतो ।  
 तसदि अभित्थुवंतो ण य जाणइ हाणि-वड्डीओ' ॥ २०४ ॥  
 मरणं पत्थेइ रणे देदि सुन्नहुअं हि. थुव्वमाणो दु ।  
 ण गणइ अक्कज्ज-क्कज्जं लक्खणमेदं तु काउस्स' ॥ २०५ ॥  
 जाणइ कज्जमकज्जं सेयमसेयं च सन्न-सम-पासी ।  
 दय-द्वाण-रदो य मिदू लक्खणमेदं तु तेउस्स' ॥ २०६ ॥

जो अतिनिद्रालु हो, दूसरोंको ठगनेमें अतिदक्ष हो, और धन-धान्यके विषयमें जिसकी अति तीव्र लालसा हो, ये सब नीललेख्यावालेके संक्षेपसे लक्षण कहे गये हैं ॥ २०२ ॥

जो दूसरोंके ऊपर क्रोध करता है, दूसरेकी निन्दा करता है, अनेक प्रकारसे दूसरोंको दुख देता है, अथवा, दूसरोंको दोष लगाता है, अत्यधिक शोक और भयसे व्याप्त रहता है, दूसरोंको सहन नहीं करता है, दूसरोंका पराभव करता है, अपनी नाना प्रकारसे प्रशंसा करता है, दूसरेके ऊपर विश्वास नहीं करता है, अपने समान दूसरेको भी मानता है, स्तुति करनेवालेके ऊपर संतुष्ट हो जाता है, अपनी और दूसरेकी हानि और वृद्धिको नहीं जानता है, युद्धमें मरनेकी प्रार्थना करता है, स्तुति करनेवालेको बहुत धन दे डालता है, और कार्य अकार्यकी कुछ भी गणना नहीं करता है, ये सब कापोतलेख्यावालेके लक्षण हैं ॥ २०३-२०५ ॥

जो कार्य-अकार्य और सेव्य-असेव्यको जानता है, सबके विषयमें समदर्शी रहता है, दया और दानमें तत्पर रहता है, और मन, वचन तथा कायसे कोमलपरिणामी होता है ये सब पीतलेख्यावालेके लक्षण हैं ॥ २०६ ॥

१ गो. जी. ५११. इस्सा अमरिस अत्तवो आविज्जमाया अहीरिया । गेही पओसे य सदे पमत्ते रसलोलुए ॥ सायगवेसए य आरंमाओ अविरओ खुट्ठो साहस्सिओ नरो । एयजोगसमाउत्तो नीललेसं तु परिणमे ॥ उक्त. ३४. २३-२४.

२ गो. जी. ५१२.

३ गो. जी. ५१३.

४ गो. जी. ५१४. वंके वंकसमायारे नियडिह्हे अणुज्जुए । पालउंचगओवाहिए मिच्छादिट्ठी अणारिए ॥ उप्फासगदुट्ठवाई य तेणे यावि. य मच्छरी । एयजोगसमाउत्तो काज्जलेसं तु परिणमे ॥ उक्त. ३४. २५-२६.

५ गो. जी. ५१५. सीयावत्ती अचवले अमाई अक्कुहले । विणीयाविणए दत्ते जोगवं उव्वहणवं ॥ पियधम्मं ददधम्मं ब्रह्ममीरू हिप्पसए । एयजोगसमाउत्तो तेज्जलेसं तु परिणमे ॥ उक्त. ३४. २७-२८.

चागी भदो चोक्खो उज्जुत्र-कम्मो य खमइ बहुअं हि ।  
 साहु-गुरु-पूज-णिरदो लक्खणमेदं तु पम्मस्स<sup>१</sup> ॥ २०७ ॥  
 ण उ कुणइ पक्खवायं ण त्रि य णिदाणं समो य सव्वेसु ।  
 णत्थि य राय-दोसो णेहो त्रि य सुक्क-लेस्सस्स<sup>२</sup> ॥ २०८ ॥

पद्मलेश्यातीताः अलेश्याः । उक्तं च—

किण्हादि-लेस्म-रहिदा संसार-विणिग्गया अणंत-सुहा ।  
 सिद्धि-पुरं संपत्ता अलेस्सिया ते मुणेयव्वा<sup>३</sup> ॥ २०९ ॥

लेश्यानां गुणस्थाननिरूपणार्थमाह—

**किण्हेस्सिया नीलेस्सिया काउलेस्सिया एइंदिय-प्पहुडि  
 जाव असंजद-सम्माइट्टि ति<sup>४</sup> ॥ १३७ ॥**

जो त्यागी है, भद्रपरिणामी है, निरन्तर कार्य करनेमें उद्यत रहता है, जो अनेक प्रकारके कष्टप्रद और अनिष्ट उपसर्गोंको क्षमा कर देता है, और साधु तथा गुरुजनोंकी पूजामें रत रहता है, ये सब पद्मलेश्यावालेके लक्षण हैं ॥ २०७ ॥

जो पक्षपात नहीं करता है, निदान नहीं बांधता है, सबके साथ समान व्यवहार करता है, इष्ट और अनिष्ट पदार्थोंके विषयमें राग और द्वेषले रहित है तथा स्त्री, पुत्र और मित्र आदिमें स्नेहरहित है ये सब शुक्ललेश्यावालेके लक्षण हैं ॥ २०८ ॥

जो छह लेश्याओंसे रहित हैं उन्हें लेश्यारहित जीव कहते हैं । कहा भी है—

जो कृष्णादि लेश्याओंसे रहित हैं, पत्र परिवर्तनरूप संसारले पार हो गये हैं, जो अतीन्द्रिय और अनन्त सुखको प्राप्त हैं और जो अतमोपलब्धिरूप सिद्धिपुरीको प्राप्त हो गये हैं उन्हें लेश्यारहित जानना चाहिये ॥ २०९ ॥

अब लेश्याओंके गुणस्थान बतलानेके लिये सूत्र कहते हैं—

कृष्णलेश्या, नीललेश्या और कापोतलेश्यावाले जीव एकेन्द्रियसे लेकर असंयत-सम्यग्दृष्टि गुणस्थानतक होते हैं ॥ १३७ ॥

१ गो. जी. ५१६. पयणुकीहमाणे य मायालोमे य पयणुए । पसताचित्ते दंतप्पा जोगमं उयहाणवं ॥  
 तथा पयणुवाइ य उवसते जिइदिए । एयजोगसमाउत्तां पम्हलेसं तु परिणमे ॥ उक्त. ३४. २९-३०.

२ गो. जी. ५१७. अट्टरुदाणि वाजंता धम्मसक्काणि ज्ञायए । पसताचित्ते दंतप्पा समिए गुत्ते य गुत्तिमु ॥  
 सरोगे वीयरोगे वा उवसतं जिइदिए । एयजोगसमाउत्तां सुक्कलेसं तु परिणमे ॥ उक्त. ३४. ३१-३२.

३ गो. जी. ५५६.

४ लेश्याद्वारादेन कृष्णनीलकपोतलेश्यासु मिथ्यादृष्ट्यादीनि असंयतसम्यग्दृष्टवन्तानि सन्ति । स. सि. १. ८०.

कथम् ? त्रिविधतीव्रादिकषायोदयवृत्तेः सत्त्वात् । सुगममन्यत् ।

तेजःपद्मलेश्याध्वानप्रतिप्रादनार्थमाह—

तेउलेस्सिया पम्मलेस्सिया सण्णि-मिच्छाइट्ठि-प्पहुडि जाव  
अप्पमत्तसंजदा त्तिं ॥ १३८ ॥

कथम् ? एतेषां तीव्रादिकषायोदयाभावात् । सुगममन्यत् ।

सुकलेस्सिया सण्णि-मिच्छाइट्ठि-प्पहुडि जाव सजोगिकेवलि-  
त्तिं ॥ १३९ ॥

कथं क्षीणोपशान्तकषायाणां शुक्ललेश्येति चेन्न, कर्मलेपनिमित्तयोगस्य तत्र  
सत्त्वापेक्षया तेषां शुक्ललेश्यास्तित्वाविरोधात् ।

शंका—चौथे गुणस्थानतक ही आदिकी तीन लेश्याएं क्यों होती हैं ?

समाधान—तीव्रतम, तीव्रतर और तीव्र कषायके उदयका सद्भाव चौथे गुणस्थान-  
तक ही पाया जाता है, इसलिये वहाँतक तीन लेश्याएं कहीं । शेष कथन सुगम है ।

अब पीत और पद्मलेश्याके गुणस्थान बतलानेके लिये सूत्र कहते हैं—

पितिलेश्या और पद्मलेश्यावाले जीव संज्ञी मिथ्यादृष्टिसे लेकर अप्रमत्तसंयत गुणस्थान-  
तक होते हैं ॥ १३८ ॥

शंका—ये दोनों लेश्याएं सातवें गुणस्थानतक कैसे पाई जाती हैं ?

समाधान—क्योंकि, इन लेश्यावाले जीवोंके तीव्रतम आदि कषायोंका उदय नहीं  
पाया जाता है । शेष कथन सुगम है ।

अब शुक्ललेश्याके गुणस्थान बतलानेके लिये सूत्र कहते हैं—

शुक्ललेश्यावाले जीव संज्ञी मिथ्यादृष्टिसे लेकर सयोगिकेवली गुणस्थान तक होते  
हैं ॥ १३९ ॥

शंका—जिन जीवोंकी कषाय क्षीण अथवा उपशान्त हो गई है उनके शुक्ललेश्याका  
होना कैसे संभव है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, जिन जीवोंकी कषाय क्षीण अथवा उपशान्त हो गई है  
उनमें कर्मलेपका कारण योग पाया जाता है, इसलिये इस अपेक्षासे उनके शुक्ललेश्याके सद्भाव  
मान लेनेमें कोई विरोध नहीं आता है ।

अब लेश्यारहित जीवोंके गुणस्थान बतलानेके लिये सूत्र कहते हैं—

१ तेजः पद्मलेश्ययोर्मिथ्यादृष्ट्यादीनि अप्रमत्तस्थानान्तानि । स. सि. १. ८.

२ शुक्ललेश्यायां मिथ्यादृष्ट्यादीनि सयोगकेवल्यन्तानि । स. सि. १. ८.

तेण परमलेसिसया' ॥ १४० ॥

कथम् ? वन्धहेतुयोगकपायाभावात् । सुगममन्यत् ।

लेश्यामुखेन जीवपदार्थमभिधाय भव्याभव्यद्वारेण जीवास्तित्वप्रतिपादनार्थमाह—

भवियाणुवादेण अत्थि भवसिद्धिया अभवसिद्धिया ॥ १४१ ॥

भव्याः भविष्यन्तीति सिद्धिर्येषां ते भव्यसिद्धयः । तथा च भव्यसन्ततिच्छेदः स्यादिति चेन्न, तेषामानन्त्यात् । न हि सान्तस्यानन्त्यं विरोधात् । सव्ययस्य निरायस्य राशेः कथमानन्त्यमिति चेन्न, अन्यथैकस्याप्यानन्त्यप्रसङ्गः । सव्ययस्यानन्तस्य न क्षयोऽस्तीत्येकान्तोऽस्ति स्वसंख्येयासंख्येयभागव्ययस्य राशेरनन्तस्यापेक्षया तद्विच्ययादिसंख्येयराशिव्ययतो न क्षयोऽपीत्यभ्युपगमात् । अर्द्धपुद्गलपरिवर्तनकालस्यानन्तस्यापि

तेरहवें गुणस्थानके आगे सभी जीव लेश्यारहित हैं ॥ १४० ॥

शंका—यह कैसे ?

समाधान—क्योंकि, वहांपर बन्धके कारणभूत योग और कपायका अभाव है । शेष कथन सुगम है ।

लेश्यामार्गणाके द्वारा जीवपदार्थका कथन करके अब भव्याभव्य मार्गणाके द्वारा जीवोंके अस्तित्वके प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं ।

भव्यमार्गणाके अनुवादसे भवसिद्ध और अभवसिद्ध जीव होते हैं ॥ १४१ ॥

जो आगे सिद्धिको प्राप्त होंगे उन्हें भव्यसिद्ध जीव कहते हैं ।

शंका—इसप्रकार तो भव्यजीवोंकी संततिका उच्छेद हो जायगा ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, भव्यजीव अनन्त होते हैं । हां, जो राशि सान्त होती है उसमें अनन्तपना नहीं बन सकता है, क्योंकि, सान्तको अनन्त माननेमें विरोध आता है ।

शंका—जिस राशिका निरन्तर व्यय चालू है, परंतु उसमें आय नहीं होती है तो उसके अनन्तपना कैसे बन सकता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, यदि सव्यय और निराय राशिको भी अनन्त न माना जावे तो एकको भी अनन्तके माननेका प्रसंग आ जायगा । व्यय होते हुए भी अनन्तका क्षय नहीं होता है, यह एकान्त नियम है, इसलिये जिसके संख्यातवें और असंख्यातवें भागका व्यय हो रहा है ऐसी राशिका, अनन्तकी अपेक्षा उसकी दो तीन आदि संख्यात राशिके व्यय होनेसे भी क्षय नहीं होता है, ऐसा स्वीकार किया है ।

शंका—अर्द्धपुद्गलपरिवर्तनरूप काल अनन्त होते हुए भी उसका क्षय देखा जाता है,

१ अलेश्याः अयोगकेवलिनः । स. सि. १. ८.

२ एव भव्यच्छेदो कोट्टागारस्त वा अवचयति सि । तं नाणंतत्तणओऽणागयकालंबरणं व ॥ जं चातीता-

क्षयदर्शनादनैकान्तिक आनन्त्यहेतुरिति चेन्न, उभयोर्मिन्ननिवन्धनतः प्राप्तानन्तयोः साम्याभावतोऽर्द्धपुद्गलपरिवर्तनस्य वास्तवानन्त्याभावात् । तद्यथा, अर्द्धपुद्गलपरिवर्तनकालः सक्षयोऽप्यनन्तः छद्मस्थैरनुपलब्धपर्यन्तत्वात् । केवलमनन्तस्तद्विषयत्वाद्वा । जीवराशिस्तु पुनः संख्येयराशिक्षयोऽपि निर्मूलप्रलयाभावादनन्त इति । अथवा छद्मस्थानुपलब्ध्यपेक्षामन्तरेणानन्त्यादिति विशेषणाद्वा नानैकान्तिक इति । किं च सव्ययस्य निरवशेषक्षयेऽभ्युपगम्यमाने कालस्यापि निरवशेषक्षयो जायेत सव्ययत्वं प्रत्यविशेषात् । अस्तु चेन्न, सकलपर्यायप्रक्षयतोऽंशस्य वस्तुनः प्रक्षीणस्वलक्षणस्याभावापत्तेः । मुक्तिमनुपगच्छतां कथं पुनर्भव्यत्वमिति चेन्न, मुक्तिगमनयोग्यतापेक्षया तेषां भव्यव्यपदेशात् । न

इसलिये भव्य राशिके क्षय न होनेमें जो अनन्तरूप हेतु दिया है वह व्यभिचरित हो जाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, भिन्न भिन्न कारणोंसे अनन्तपनेको प्राप्त भव्यराशि और अर्धपुद्गल-परिवर्तनरूप काल इन दोनों राशियोंमें समानताका अभाव है, और इसलिये अर्धपुद्गल-परिवर्तन काल वास्तवमें अनन्तरूप नहीं है । आगे इसीका स्पष्टीकरण करते हैं—

अर्धपुद्गल-परिवर्तनकाल क्षयसाहित होते हुए भी इसलिये अनन्त है कि छद्मस्थ जीवोंके द्वारा उसका अन्त नहीं पाया जाता है । किंतु केवलज्ञान वास्तवमें अनन्त है । अथवा, अनन्तको विषय करनेवाला होनेसे वह अनन्त है । जीवराशि तो, उसका संख्यातवें भागरूप राशिके क्षय हो जाने पर भी निर्मूल नाश नहीं होनेसे, अनन्त है । अथवा, उपर जो भव्य राशिके क्षय नहीं होनेमें अनन्तरूप हेतु दे अये हैं । उसमें ' छद्मस्थ जीवोंके द्वारा अनन्तकी उपलब्धि नहीं होती है, इस अपेक्षाके विना ही ' यह विशेषण लगा देनेसे अनैकान्तिक दोष नहीं आता है । दूसरे व्ययसाहित अनन्तके सर्वथा क्षय मान लेनेपर कालका भी सर्वथा क्षय हो जायगा, क्योंकि, व्ययसाहित होनेके प्रति दोनों समान हैं ।

शंका—यदि ऐसा ही मान लिया जाय तो क्या हानि है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, ऐसा माननेपर कालकी समस्त पर्यायोंके क्षय हो जानेसे दूसरे द्रव्योंकी स्वलक्षणरूप पर्यायोंका भी अभाव हो जायगा और इसलिये समस्त वस्तुओंके अभावकी आपत्ति आ जायगी ।

शंका—मुक्तिको नहीं जानेवाले जीवोंके भव्यपना कैसे बन सकता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, मुक्ति जानेकी योग्यताकी अपेक्षा उनके भव्य संज्ञा बन जाती है । जितने भी जीव मुक्ति जानेके योग्य होते हैं वे सब नियमसे कलंकरहित होते हैं

गायकाला तुल्ला जओ य संसिद्धो । एको अणंतभांगो भव्वाणमईयकालेण ॥ एस्सेण तत्तिओ च्चिय जुत्तो जं तो वि सव्वसव्वाणं । जुत्तो न सपुच्छेओ होज्ज मई कहाणिं सिद्धं । भव्वाणमणंतत्तणमणंतभांगो व किह व म्मको सिं । कालादओ व मंडिय मह वयणाओ व पाडिवल्ल ॥ वि. मा. २३०६-२३०९.



च योग्याः सर्वेऽपि नियमेन निष्कलङ्का भवन्ति सुवर्णपाषाणेन व्यभिचारात् । उक्तं च—

एय-णिगोद-सरीरे जीवा दव्व-प्पमागदो दिट्ठा ।

सिद्धेहि अणंत-गुणा सर्वेण वितीद-कालेण<sup>१</sup> ॥ २१० ॥

तद्विपरीताः अभव्याः । उक्तं च—

भविया सिद्धी जेसि जीवाणं ते भवन्ति भव-सिद्धा ।

तव्विवरीदाभव्वा संसारादौ ण सिञ्जन्ति<sup>२</sup> ॥ २११ ॥

भव्यगुणस्थानप्रतिपादनार्थमाह—

भवसिद्धिया एइंदिय-प्पहुडि जाव अजोगिकेवलि ति<sup>३</sup> ॥ १४२ ॥

सुगममेतत् ।

अभव्यानां गुणस्थाननिरूपणायाह—

अभवसिद्धिया एइंदिय-प्पहुडि जाव साण्णि-मिच्छाइट्टि  
ति<sup>४</sup> ॥ १४३ ॥

ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि, सर्वथा ऐसा मान लेने पर स्वर्णपाषाणसे व्यभिचार आ जायगा । कहा भी है—

द्रव्यप्रमाणकी अपेक्षा सिद्धराशिसे और संपूर्ण अतीत कालसे अनन्तगुणों जीव एक निगोदशरीरमें देखे गये हैं ॥ २१० ॥

भव्योंसे विपरीत अर्थात् मुक्तिगमनकी योग्यता न रखनेवाले अभव्य जीव होते हैं । कहा भी है—

जिन जीवोंकी अनन्तचतुष्टयरूप सिद्धि होनेवाली हो अथवा जो उसकी प्राप्तिके योग्य हों उन्हें भव्यसिद्ध कहते हैं । और इनसे विपरीत अभव्य होते हैं । जो संसारसे निकलकर कभी भी मुक्तिको प्राप्त नहीं होते हैं ॥ २११ ॥

अब भव्यजीवोंके गुणस्थानोंका प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

भव्यसिद्ध जीव एकेन्द्रियसे लेकर अयोगिकेवली गुणस्थानतक होते हैं ॥ १४२ ॥

इस सूत्रका अर्थ सुगम है—

अब अभव्यजीवोंके गुणस्थानका निरूपण करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

अभव्यसिद्ध जीव एकेन्द्रियसे लेकर संह्री मिथ्याइट्टि गुणस्थानतक होते हैं ॥ १४३ ॥

१ गो. जी. १९६.

२ गो. जी. ५५७. ( भवसिद्धा ) अनेन सिद्धेर्लब्धियायोग्यताभ्यां भव्यानां द्वैविध्यमुक्तं । जी. प्र. टी.

३ भव्यानुवादेन भव्येषु चतुर्दशापि सन्ति । स. सि. १. ८.

४ अभव्य आद्य एव स्थाने । स. सि. १. ८.

एतदपि सुगमम् ।

सम्मत्ताणुवादेण अत्थि सम्माइट्ठी खइयसम्माइट्ठी वेदग-  
सम्माइट्ठी उवसमसम्माइट्ठी सासणसम्माइट्ठी सम्मामिच्छाइट्ठी  
मिच्छाइट्ठी चेदि ॥ १४४ ॥

आम्रवनान्तस्थनिम्बानामाम्रवनव्यपदेशवन्मिथ्यात्वादीनां सम्यक्त्वव्यपदेशो  
न्याय्यः । सुगममन्यत् । उक्तं च—

छप्पंच-गव-विहाणं अत्याणं जिणवरोवइट्ठाणं ।

आणाए अहिगमेण व सदहणं होइ सम्मत्तं ॥ २१२ ॥

खीणे दंसण-मोहे जं सदहणं सुणिम्मलं होई ।

तं खाइय-सम्मत्तं णिच्चं कम्म-क्खवण-हेऊ ॥ २१३ ॥

वयणेहि वि हेऊहि वि इंदिय-भय-आणएहि रूवेहि ।

वीहच्छ-दुगुंछाहि ण सो ते-लोक़ेण चालेज्ज ॥ २१४ ॥

इस सूत्रका अर्थ भी सुगम है ।

अत्र सम्यक्त्वमार्गणाके अनुवादसे जीवोंके अस्तित्वके प्रतिपादन करनेके लिये  
सूत्र कहते हैं—

सम्यक्त्वमार्गणाके अनुवादसे सामान्यकी अपेक्षा सम्यग्दृष्टि और विशेषकी अपेक्षा  
क्षायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि  
और मिथ्यादृष्टि जीव होते हैं ॥ १४४ ॥

जिसप्रकार आम्रवनके भीतर रहनेवाले नीमके वृक्षोंको आम्रवन यह संज्ञा प्राप्त हो  
जाती है, उसीप्रकार मिथ्यात्व आदिको सम्यक्त्व यह संज्ञा देना उचित ही है । शेष कथन  
सुगम है । कहा भी है—

जिनेन्द्रदेवके द्वारा उपदिष्ट छह द्रव्य, पांच अस्तिकाय और नव पदार्थोंका आज्ञा  
अथवा अधिगमसे श्रद्धान करनेको सम्यक्त्व कहते हैं ॥ २१२ ॥

दर्शनमोहनीय कर्मके सर्वथा क्षय हो जाने पर जो निर्मल श्रद्धान होता है वह क्षायिक  
सम्यक्त्व है । जो नित्य है और कर्मोंके क्षणका कारण है ॥ २१३ ॥

श्रद्धानको अष्ट करनेवाले वचन या हेतुओंसे अथवा इन्द्रियोंको भय उत्पन्न करनेवाले

१ गाथेयं पूर्वमपि ९६ गाथाङ्केन आगता । तद्वियाणं तु भावाणं सम्भावे उवएसणं । भावेणं सदहंतस्स  
सम्मत्तं तं वियाहियं ॥ उक्त. २८. १५.

२ गो. जी. ६४६.

३ गो. जी. ६४७.

दंसणमोहुदयादो उप्पज्जइ जं पयत्थ-सद्वहणं ।

चल-मलिनमगाढं तं वेदग-सम्मत्तमिह मुणसुं ॥ २१५ ॥

दंसणमोहुवसमदो उप्पज्जइ जं पयत्थ-सद्वहणं ।

उवसम-सम्मत्तमिणं पसण्ण-मल-पंक-तोय-समं ॥ २१६ ॥

सम्यग्दर्शनस्य सामान्यस्य क्षायिकसम्यग्दर्शनस्य च गुणनिरूपणार्थमाह—

सम्माइट्ठी खइयसम्माइट्ठी असंजदसम्माइट्ठि-प्पहुडि जाव  
अजोगिकेवलि ति ॥ १४५ ॥

किं तत्सम्यक्त्वगतसामान्यमिति चेन्निष्प्रपि सम्यग्दर्शनेषु यः साधारणोऽशस्त-  
त्सामान्यम् । क्षायिकक्षायोपशमिकौपशमिकेषु परस्परतो भिन्नेषु किं सादृश्यमिति चेन्न,

आकारोंसे या वीभत्स अर्थात् निन्दित पदार्थोंके देखनेसे उत्पन्न हुई ग्लानिसे, किं बहुना तीन  
लोकसे भी वह क्षायिक सम्यग्दर्शन चलायमान नहीं होता है ॥ २१४ ॥

सम्यक्त्वमोहनीय प्रकृतिके उदयसे पदार्थोंका जो चल, मलिन और अगाढ़रूप श्रद्धान  
होता है उसको वेदक सम्यग्दर्शन कहते हैं ऐसा हे शिष्य तू समझ ॥ २१५ ॥

दर्शनमोहनीयके उपशमसे कीचड़के नीचे बैठ जानेसे निर्मल जलके समान पदार्थोंका,  
जो निर्मल श्रद्धान होता है वह उपशमसम्यग्दर्शन है ॥ २१६ ॥

अब सामान्य सम्यग्दर्शन और क्षायिकसम्यग्दर्शनके गुणस्थानोंके निरूपण करनेके  
लिये सूत्र कहते हैं—

सामान्यसे सम्यग्दृष्टि और विशेषकी अपेक्षा क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव असंयतसम्य-  
ग्दृष्टि गुणस्थानसे लेकर अयोगिकेवली गुणस्थानतक होते हैं ॥ १४५ ॥

शंका—सम्यक्त्वमें रहनेवाला वह सामान्य क्या वस्तु है ?

समाधान—तीनों ही सम्यग्दर्शनोंमें जो साधारण धर्म है वह सामान्य शब्दसे यहाँ  
पर विवक्षित है ।

शंका—क्षायिक, क्षायोपशमिक और औपशमिक सम्यग्दर्शनोंके परस्पर भिन्न भिन्न

१ गो. जी. ६४९. नानात्मीयविशेषेषु चलतीति चलं स्पृतं । लसत्कल्लोलमालासु जलमेकमवस्थितं ॥  
स्वकारितेऽर्हचैत्यादौ देवोऽयं मेऽन्यकारिते । अन्यस्यायमिति आम्यन् मोहाच्छादोऽपि चेष्टते ॥ तदप्यलब्धमाहात्म्यं  
यकात् सम्यक्त्वकर्मणः । मलिनं मलसंगेन शुद्धं स्वर्णमिवोद्भवेत् ॥ स्थान एव स्थितं कं प्रमगादमिति कीर्त्यते ।  
वृद्धयष्टिरीवालत्तस्थाना करतले स्थिता ॥ समेऽप्यनन्तशक्तित्वे सर्वेषामर्हतामयं । देवोऽस्मै प्रभुरेवोऽस्मा इत्यास्था  
मुदशामपि ॥ गो. जी. २५. जी. प्र. टी. उद्घृता.

२ गो. जी. ६५०.

३ सम्यक्त्वानुवादेन क्षायिकसम्यक्त्वे असंयतसम्यग्दृष्ट्यादीनि अयोगिकेवल्यन्तानि सन्ति । स.सि. १.८.

तत्र यथार्थश्रद्धानं प्रति साम्योपलम्भात् । क्षयक्षयोपशमोपशमविशिष्टानां यथार्थ-  
श्रद्धानानां कथं समानतेति चेद्भवतु विशेषणानां भेदो न विशेष्यस्य यथार्थश्रद्धानस्य ।  
सुगममन्यत् ।

वेदकसम्यग्दर्शनगुणसंख्याप्रतिपादनार्थमाह—

वेदगसम्माइड्डी असंजदसम्माइड्डी-प्पहुडि जाव अप्पपत्त-  
संजदा त्ति ॥ १४६ ॥

उपरितनगुणेषु किमिति वेदकसम्यक्त्वं नास्तीति चेन्न, अगाढसमलश्रद्धानेन  
सह क्षयकोपशमश्रेण्यारोहणानुपपत्तेः । वेदकसम्यक्त्वादौपशमिकसम्यक्त्वस्य कथ-  
माधिक्यतेति चेन्न, दर्शनमोहोदयजनितशैथिल्यादेस्तत्रासत्त्वतस्तदाधिक्योपलम्भात् ।

होने पर सदृशता क्या वस्तु हो सकती है ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, उन तीनों सम्यग्दर्शनोंमें यथार्थ श्रद्धानके प्रति समानता  
पाई जाती है ।

शंका—क्षय, क्षयोपशम और उपशम विशेषणसे युक्त यथार्थ श्रद्धानोंमें समानता  
कैसे हो सकती है ?

समाधान— विशेषणोंमें भेद भले ही रहा आवे, परंतु इससे यथार्थ श्रद्धारूप  
विशेष्यमें भेद नहीं पड़ता है ।

शेष सूत्रका अर्थ सुगम है ।

अथ वेदकसम्यग्दर्शनके गुणस्थानोंकी संख्याके प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र  
कहते हैं—

वेदकसम्यग्दृष्टि जीव असंयतसम्यग्दृष्टिसे लेकर अप्रमत्तसंयत गुणस्थानतक  
होते हैं ॥ १४६ ॥

शंका—ऊपरके आठवें आदि गुणस्थानोंमें वेदकसम्यग्दर्शन क्यों नहीं होता है ?

समाधान— नहीं होता, क्योंकि, आगाढ़ आदि मलसहित श्रद्धानके साथ क्षयक  
और उपशम श्रेणीका चढ़ना नहीं बनता है ।

शंका—वेदकसम्यग्दर्शनसे औपशमिक सम्यग्दर्शनकी अधिकता अर्थात् विशेषता  
कैसे संभव है ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, दर्शनमोहनीयके उदयसे उत्पन्न हुई शिथिलता आदि  
औपशमिक सम्यग्दर्शनमें नहीं पाई जाती है, इसलिये वेदकसम्यग्दर्शनसे औपशमिकसम्य-  
ग्दर्शनमें विशेषता सिद्ध हो जाती है

कथमस्य वेदकसम्यग्दर्शनव्यपदेश इति चेदुच्यते । दर्शनमोहवेदको वेदकः, तस्य सम्यग्दर्शनं वेदकसम्यग्दर्शनम् । कथं दर्शनमोहोदयवतां सम्यग्दर्शनस्य सम्भव इति चेन्न, दर्शनमोहनीयस्य देशघातिन उदये सत्यपि जीवस्वभावश्रद्धानस्यैकदेशे सत्य-विरोधात् । देशघातिनो दर्शनमोहनीयस्य कथं सम्यग्दर्शनव्यपदेश इति चेन्न, सम्यग्दर्शनसाहचर्यात्तस्य तद्व्यपदेशाविरोधात् ।

औपशमिकसम्यग्दर्शनगुणस्थानप्रतिपादनार्थमाह —

उवसमसम्माइट्ठी असंजदसम्माइट्ठि-प्पहुडि जाव उवसंत-  
कसाय-वीयराय-छदुमत्था ति' ॥ १४७ ॥

सुगममेतत् ।

सासणसम्माइट्ठी एकम्मि चय सासणसम्माइट्ठि-ट्ठाणे ॥ १४८ ॥

शंका — क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शनको वेदक सम्यग्दर्शन यह संज्ञा कैसे प्राप्त होती है ?

समाधान — दर्शनमोहनीय कर्मके उदयका वेदन करनेवाले जीवको वेदक कहते हैं । उसके जो सम्यग्दर्शन होता है उसे वेदकसम्यग्दर्शन कहते हैं ।

शंका — जिनके दर्शनमोहनीय कर्मका उदय विद्यमान है उनके सम्यग्दर्शन कैसे पाया जा सकता है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, दर्शनमोहनीयकी देशघाति प्रकृतिके उदय रहने पर भी जीवके स्वभावरूप श्रद्धानके एकदेश रहनेमें कोई विरोध नहीं आता है ।

शंका — दर्शनमोहनीयकी देशघाति प्रकृतिको सम्यग्दर्शन यह संज्ञा कैसे दी गई ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, सम्यग्दर्शनके साथ सहचर संबन्ध होनेके कारण उसको सम्यग्दर्शन इस संज्ञाके देनेमें कोई विरोध नहीं आता है ।

अब औपशमिक सम्यग्दर्शनके गुणस्थानोंके प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं —

उपशमसम्यग्दृष्टि जीव असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानसे लेकर उपशान्त-कषाय-वीतराग-छिन्नस्थ-गुणस्थानतक होते हैं ॥ १४७ ॥

इस सूत्रका अर्थ सुगम है ।

अब सासादनसम्यक्त्व आदि संबन्धी गुणस्थानोंके प्रतिपादन करनेके लिये तीन सूत्र कहते हैं —

सासादनसम्यग्दृष्टि जीव एक सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें ही होते हैं ॥ १४८ ॥

१ औपशमिकसम्यक्त्वे असंयतसम्यग्दृष्ट्यादीनि उपशान्तकषायान्तानि । स. सि. १. ८.

सम्भामिच्छाइष्टी एकम्मि चय सम्भामिच्छाइष्टिणाणे ॥१४९॥

मिच्छाइष्टी एइंदिय-प्पहुडि जाव सण्णि-मिच्छाइष्टि ति ॥१५०॥

सुगमत्वात्रिण्वप्येतेषु सूत्रेषु न वक्तव्यमस्ति ।

सम्यग्दर्शनादेशप्रतिपादनार्थमाह—

णेरइया अत्थि मिच्छाइष्टी सासण-सम्भाइष्टी सम्भामिच्छाइष्टी असंजदसंभाइष्टि ति ॥ १५१ ॥

अथ स्याद्गतिनिरूपणायामस्यां गतौ इयन्ति गुणस्थानानि सन्ति, इयन्ति न सन्तीति निरूपितत्वान्न वक्तव्यमिदं सूत्रम्, सम्यक्त्वनिरूपणायां गुणस्थाननिरूपणावसराभावाच्चेति न, विस्मृतपूर्वोक्तार्थस्य प्रतिपाद्यस्य तमर्थं संस्मार्य तत्र तत्र गतौ सम्यग्दर्शनभेदप्रतिपादनप्रवणत्वात् । सुगममन्यत् ।

एवं जाव सत्तसु पुढवीसु ॥ १५२ ॥

सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव एक सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें ही होते हैं ॥ १४९ ॥

मिथ्यादृष्टि जीव एकेन्द्रियसे लेकर संझी मिथ्यादृष्टितक होते हैं ॥ १५० ॥

इन तीनों सूत्रोंका अर्थ सुगम है, अतएव इनके विषयमें अधिक कुछ भी नहीं कहना है ।

अब सम्यग्दर्शनका मार्गणाओंमें निरूपण करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

नारकी जीव मिथ्यादृष्टि सासादनसम्यग्दृष्टि सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानवर्ती होते हैं ॥ १५१ ॥

शंका— गतिमार्गणाका निरूपण करते समय 'इस गतिमें इतने गुणस्थान होते हैं और इतने नहीं होते हैं' इस बातका निरूपण कर ही आये हैं, इसलिये इस सूत्रके कथनकी कोई आवश्यकता नहीं है । अथवा, सम्यग्दर्शनमार्गणाके निरूपण करते समय गुणस्थानोंके निरूपणका अवसर ही नहीं है, इसलिये भी सूत्रके कथनकी आवश्यकता नहीं है ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, जो शिष्य पूर्वोक्त अर्थको भूल गया है उसके लिये, उस अर्थका पुनः स्मरण कराके उन उन गतियोंमें सम्यग्दर्शनके भेदोंके प्रतिपादन करनेमें यह सूत्र समर्थ है, इसलिये इस सूत्रका अवतार हुआ है । शेष कथन सुगम है ।

अब सातों पृथिवियोंमें सम्यग्दर्शनके निरूपण करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

इसीप्रकार सातों पृथिवियोंमें प्रारम्भके चार गुणस्थान होते हैं ॥ १५२ ॥

कथं सामान्यवद्विशेषः स्यादिति चेन्न, विशेषव्यतिरिक्तसामान्यस्यासत्त्वात् ।  
नाव्यतिरेकोऽपि द्वयोरभावासञ्जननात् । नोभयपक्षोऽपि पक्षद्वयोक्तदोषासञ्जननात् ।  
नानुभयपक्षोऽपि निःस्वभावप्रसङ्गात् । न च सामान्यविशेषयोरभाव एव प्राप्तजात्यन्तर-  
त्वेनोपलम्भात् । ततः सूक्तमेतदिति स्थितम् ।

सम्यग्दर्शनविशेषप्रतिपादनार्थमाह —

णेरइया असंजदसम्माइट्टि-ट्टाणे अत्थि खइयसम्माइट्टी वेदग-  
सम्माइट्टी उवसमसम्माइट्टी चेदि ॥ १५३ ॥

सुगममेतत् ।

एवं पढमाए पुढवीए णेरइआ ॥ १५४ ॥

एतदपि सुबोधम् ।

शंका—सामान्य कथनके समान ही विशेष कथन कैसे हो सकता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, विशेषको छोड़कर सामान्य नहीं पाया जाता है, इसलिये सामान्य कथनसे विशेषका भी बोध हो जाता है । इससे सामान्य और विशेषमें सर्वथा अभेद भी नहीं समझ लेना चाहिये, क्योंकि, दोनोंमें सर्वथा अभेद मान लेने पर दोनोंका अभाव हो जायगा । इसीप्रकार इन दोनोंमें सर्वथा उभयपक्ष अर्थात् सर्वथा भेद और सर्वथा अभेद भी नहीं माना जा सकता है, क्योंकि, ऐसा माननेपर दोनों पक्षमें दिये गये दोष प्राप्त हो जायंगे । सामान्य और विशेषको सर्वथा अनुभयरूप भी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि, ऐसा मान लेनेपर वस्तुको निःस्वभावताका प्रसंग आ जायगा । परंतु इसप्रकार सामान्य और विशेषका अभाव भी नहीं माना जा सकता है, क्योंकि, जात्यन्तर अवस्थाको प्राप्त होने रूपसे उन दोनोंकी उपलब्धि होती है । इसलिये ऊपर जो कथन किया है वह सर्वथा ठीक है, यह बात निश्चित हो जाती है ।

अब सम्यग्दर्शनका मार्गणाओंमें प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

नारकी जीव असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि,  
और उपशमसम्यग्दृष्टि होते हैं ॥ १५३ ॥

इस सूत्रका अर्थ सुगम है ।

अब प्रथम पृथिवीमें सम्यग्दर्शन बतलानेके लिये सूत्र कहते हैं—

इसीप्रकार प्रथम पृथिवीमें नारकी जीव होते हैं ॥ १५४ ॥

इस सूत्रका अर्थ भी सुबोध है ।

अब शेष पृथिवियोंमें सम्यग्दर्शनके निरूपण करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

विदियादि जाव सत्तमाए पुढवीए णेरइया असंजदसम्माइट्टि-  
ट्टाणे खइयसम्माइट्टी णत्थि, अवसेसा अत्थि ॥ १५५ ॥

सप्तप्रकृतीपुं क्षीणासु किमिति तत्र नोत्पद्यन्त इति चेत्स्वाभाव्यात् । तत्रस्थाः  
सन्तः किमिति सप्तप्रकृतीर्न क्षपयन्तीति चेन्न, तत्र जिनानामभावात् ।

तिर्यगादेशप्रतिपादनार्थमाह—

तिरिक्खा अत्थि मिच्छाइट्टी सासणसम्माइड्डी सम्मामिच्छा-  
इट्टी असंजदसम्माइड्डी संजदासंजदा त्ति ॥ १५६ ॥

संन्यस्तशरीरत्वात्पक्ताहाराणां तिरश्चां किमिति संयमो न भवेदिति चेन्न,  
अन्तरङ्गायाः सकलनिवृत्तेरभावात् । किमिति तदभावश्चेज्जातिविशेषात् ।

एवं जाव सव्व-दीव-समुद्देसु ॥ १५७ ॥

दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवीतक नारकी जीव असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें  
क्षायिकसम्यग्दृष्टि नहीं होते हैं । शेषके दो सम्यग्दर्शनोंसे युक्त होते हैं ॥ १५५ ॥

शंका—सम्यक्त्वकी प्रतिबन्धक सात प्रकृतियोंके क्षय हो जानेपर क्षायिकसम्यग्दृष्टि  
जीव द्वितीयादि पृथिवियोंमें क्यों उत्पन्न नहीं होते हैं ?

समाधान—ऐसा स्वभाव ही है कि क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव द्वितीयादि पृथिवियोंमें  
नहीं उत्पन्न होते हैं ।

शंका—द्वितीयादि पृथिवियोंमें रहनेवाले नारकी सम्यक्त्वकी प्रतिबन्धक सात प्रकृ-  
तियोंका क्षय क्यों नहीं करते हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, वहांपर जिनेदेवका अभाव है ।

अब तिर्यंच गतिमें विशेष प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

तिर्यंच मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि और  
संयतासंयत होते हैं ॥ १५६ ॥

शंका—शरीरसे संन्यास ग्रहण कर लेनेके कारण जिन्होंने आहारका त्याग कर दिया  
है ऐसे तिर्यंचोंके संयम क्यों नहीं होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, उनके आभ्यन्तर सकल-निवृत्तिका अभाव है ।

शंका—उनके आभ्यन्तर सकल-निवृत्तिका अभाव क्यों है ?

समाधान—जिस जातिमें वे उत्पन्न हुए हैं उसमें संयम नहीं होता यह नियम है,  
इसलिये उनके संयम नहीं पाया जाता है ।

अब तिर्यंचोंके और विशेष प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

इसीप्रकार संपूर्ण द्वीप-समुद्रवर्ती तिर्यंचोंमें समझना चाहिये ॥ १५७ ॥



स्वयंप्रभादारान्मानुषोत्तरात्परतो भोगभूमिसमानत्वान्न तत्र देशव्रतिनः सन्ति तत एतत्सूत्रं न घटत इति न, वैरसम्बन्धेन देवैर्दानवैर्वोत्क्षिप्य क्षिप्तानां सर्वत्र सत्त्वाविरोधात् ।

सम्यग्दर्शनविशेषप्रतिपादनार्थमाह—

तिरिक्त्वा असंजदसम्माइट्टि-द्वाने अत्थि खइयसम्माइट्टी वेदग-  
सम्माइट्टी उवसमसम्माइट्टी ॥ १५८ ॥

तिरिक्त्वा संजदासंजद-द्वाने खइयसम्माइट्टी णत्थि अवसेसा  
अत्थि ॥ १५९ ॥

तियक्षु क्षायिकसम्यग्दृष्टयः संयतासंयताः किमिति न सन्तीति चेन्न, क्षायिक-  
सम्यग्दृष्टीनां भोगभूमिमन्तरेणोत्पत्तेरभावात् । न च भोगभूमावुत्पन्नानामणुव्रतोपादानं  
सम्भवति तत्र तद्विरोधात् । सुगममन्यत् ।

शंका—स्वयंप्रभरण द्वीपवर्ती स्वयंप्रभ पर्वतके इस ओर और मानुषोत्तर पर्वतके  
उत्तर ओर असंख्यात द्वीपोंमें भोगभूमिके समान रचना होनेसे वहांपर देशव्रती नहीं पाये जाते  
हैं, इसलिये यह सूत्र घटित नहीं होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, वैरके संबन्धसे देवों अथवा दानवोंके द्वारा कर्मभूमिसे  
उठाकर डाले गये कर्मभूमिज तिर्यचोंका सब जगह सद्भाव होनेमें कोई विरोध नहीं आता है,  
इसलिये वहांपर तिर्यचोंके पांचों गुणस्थान बन जाते हैं ।

अब तिर्यचोंमें सम्यग्दर्शनके विशेष प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

तिर्यच असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि और उपशम-  
सम्यग्दृष्टि होते हैं ॥ १५८ ॥

अब तिर्यचोंके पांचवें गुणस्थानमें विशेष प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

तिर्यच संयतासंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दृष्टि नहीं होते हैं । शेषके दो सम्य-  
ग्दर्शनोंसे युक्त होते हैं ॥ १५९ ॥

शंका—तिर्यचोंमें क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव संयतासंयत क्यों नहीं होते हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, तिर्यचोंमें यदि क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव उत्पन्न होते हैं तो  
वे भोगभूमिमें ही उत्पन्न होते हैं, दूसरी जगह नहीं । परंतु भोगभूमिमें उत्पन्न हुए जीवोंके  
अणुव्रतकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि, वहांपर अणुव्रतके होनेमें आगमसे विरोध  
जाता है । शेष कथन सुगम है ।

अब तिर्यच-विशेषोंमें प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

एवं पंचिंदिय-तिरिक्खा पंचिंदिय-तिरिक्ख-पज्जत्ता ॥१६०॥

एतदपि सुबोध्यम् ।

पंचिंदिय-तिरिक्ख-जोणिणीसु असंजदसम्माइट्ठी-संजदासंजद-  
इण्णे खइयसम्माइट्ठी णत्थि, अवसेसा अत्थि ॥ १६१ ॥

तत्र क्षायिकसम्यग्दृष्टीनामुत्पत्तेरभावात्तत्र दर्शनमोहनीयस्य क्षपणाभावाच्च ।

मनुष्यादेशप्रतिपादनार्थमाह—

मणुस्सा अत्थि मिच्छाइट्ठी सासणसम्माइट्ठी सम्मामिच्छाइट्ठी  
असंजदसम्माइट्ठी संजदासंजदा संजदा त्ति ॥ १६२ ॥

सुगममेतत् ।

एवमङ्गाइज्ज-दीव-समुद्देसु ॥ १६३ ॥

वैरसम्बन्धेन क्षिप्तानां संयतानां संयतासंयतानां च सर्वद्वीपसमुद्रेषु संभवो  
भवत्विति चेन्न, मानुषोत्तरात्परतो देवस्य प्रयोगतोऽपि मनुष्याणां गमनाभावात् ।

इसीप्रकार पंचेन्द्रिय-तिर्यंच और पंचेन्द्रिय-पर्याप्त-तिर्यंच भी होते हैं ॥ १६० ॥

इस सूत्रका अर्थ भी सुबोध्य है ।

अब योनिमती तिर्यंचोंमें विशेष प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

योनिमती-पंचेन्द्रिय-तिर्यंचोंके असंयतसम्यग्दृष्टि और संयतासंयत गुणस्थानमें  
क्षायिकसम्यग्दृष्टि नहीं होते हैं । शेषके दो सम्यग्दर्शनोंसे युक्त होते हैं ॥ १६१ ॥

योनिमती पंचेन्द्रिय तिर्यंचोंमें क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव मरकर उत्पन्न नहीं होते हैं  
और जो वहां उत्पन्न होते हैं उनके दर्शनमोहनीयका क्षय नहीं होता है, अतः वहां क्षायिक  
सम्यग्दर्शन नहीं पाया जाता है ।

अब मनुष्योंमें विशेष प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

मनुष्य मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि, संयता-  
संयत और संयत होते हैं ॥ १६२ ॥

इस सूत्रका अर्थ सुगम है—

उन्हींमें और विशेष कहनेके लिये सूत्र कहते हैं—

इसीप्रकार ढाई द्वीप और दो समुद्रोंमें जानना चाहिये ॥ १६३ ॥

शंका—वैरके संबन्धसे डाले गये संयत और संयतासंयत आदि मनुष्योंका संपूर्ण  
द्वीप और समुद्रोंमें सद्भाव रहा आवे, ऐसा मान लेनेमें क्या हानि है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, मानुषोत्तर पर्वतके उस तरफ देवोंकी प्रेरणासे भी  
मनुष्योंका गमन नहीं हो सकता है । ऐसा न्याय भी है कि जो स्वतः असमर्थ होता है वह

न हि स्वतोऽसमर्थोऽन्यतः समर्थो भवत्यतिप्रसङ्गात् । अथ स्यादर्धतृतीयशब्देन किमु द्वीपो विशिष्यते उत समुद्र उत द्वावपीति ? नान्त्योपान्त्यविकल्पौ मानुषोत्तरात्परतोऽपि मनुष्याणामस्तित्वप्रसङ्गात् । अस्तु चेन्न, द्वीपत्रये मनुष्याणां सत्त्वप्रसङ्गात् । न तदपि सूत्रविरोधात् । नादिविकल्पोऽपि समुद्राणां संख्यानियमाभावतः सर्वसमुद्रेषु तत्सत्त्व-प्रसङ्गादिति ।

अत्र प्रतिविधीयते । नान्त्योपान्त्यविकल्पोक्तदोषाः समाढौकन्ते, तयोरनभ्युपगमात् । न प्रथमविकल्पोक्तदोषोऽपि द्वीपेष्वर्धतृतीयसंख्येषु मनुष्याणामस्तित्वनियमसति शेषद्वीपेषु मनुष्याभावसिद्धिवन्मानुषोत्तरत्वं प्रत्यविशेषतः शेषसमुद्रेषु तदभावसिद्धेः । नाशेषसमुद्राणां मानुषोत्तरत्वमसिद्धमारात्तनद्वीपभागस्याप्यन्यथा मानुषोत्तरत्वानुपपत्तेः । ततः सामर्थ्याद् द्वयोः समुद्रयोः सन्तीत्यनुक्तमप्यवगम्यते ।

दूसरोंके संबन्धसे भी समर्थ नहीं हो सकता है । यदि ऐसा न माना जावे तो अतिप्रसंग दोष आ जायगा । अतः मानुषोत्तरके उस ओर मनुष्य नहीं पाये जाते हैं ।

शंका—अर्धतृतीय शब्द द्वीपका विशेषण है या समुद्रका अथवा दोनोंका ? इनमेंसे अन्तके दो विकल्प तो बराबर नहीं हैं, क्योंकि, वैसा मान लेने पर मानुषोत्तर पर्वतके उस तरफ भी मनुष्योंके अस्तित्वका प्रसंग आ जायगा । यदि यह कहा जावे कि अच्छी बात है, मानुषोत्तरके परे भी मनुष्य पाये जावें सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि, इसप्रकार तो तीन द्वीपोंमें मनुष्योंके सद्भावका प्रसंग आता है । और वैसा माना नहीं जा सकता, क्योंकि, सूत्रसे विरोध आता है । इसीप्रकार पहला विकल्प भी नहीं बन सकता है, क्योंकि, इसप्रकार द्वीपोंकी संख्याका नियम होने पर भी समुद्रोंकी संख्याका कोई नियम नहीं बनता है, इसलिये समस्त समुद्रोंमें मनुष्योंके सद्भावका प्रसंग प्राप्त होता है ?

समाधान—दूसरे और तीसरे विकल्पमें दिये गये दोष तो प्राप्त ही नहीं होते हैं, क्योंकि, परमागममें वैसा माना ही नहीं गया है । इसीप्रकार प्रथम विकल्पमें दिया गया दोष भी प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि, ढाई द्वीपमें मनुष्योंके अस्तित्वका नियम हो जानेपर शेषके द्वीपोंमें जिसप्रकार मनुष्योंके अभावकी सिद्धि हो जाती है उसीप्रकार शेष समुद्रोंमें भी मनुष्योंका अभाव सिद्ध हो जाता है, क्योंकि ढाई द्वीपोंको छोड़कर शेष द्वीपोंकी तरह दो समुद्रोंके अतिरिक्त शेष समुद्र भी मानुषोत्तरसे परे हैं, अतः शेष द्वीपोंकी तरह शेष समुद्रोंके भी मानुषोत्तरसे परे होनेमें कोई विशेषता नहीं है । इसप्रकार शेष द्वीपोंके लिये जो नियम लागू है वही शेष समुद्रोंके लिये भी हो जाता है । इसलिये शेष समुद्रोंमें मनुष्योंका अभाव है यह बात निश्चित हो जाती है । शेषके संपूर्ण समुद्रोंका मानुषोत्तर पर्वतके उस तरफ होना असिद्ध भी नहीं है, अन्यथा समीपवर्ती द्वीपभागके भी मानुषोत्तर पर्वतके उस तरफ होना सिद्ध नहीं होगा । इसलिये सामर्थ्यसे दो समुद्रोंमें मनुष्य पाये जाते हैं, यह बात बिना कहे ही जानी जाती है ।

१ प्रातिपु ' स्वतोऽसमर्थमन्यतः समर्थ ' इति पाठः ।

सम्यग्दर्शनविशेषप्रतिपादनार्थमाह--

मणुसा असंजदसम्माइट्ठि-संजदासंजद-संजद-इण्णे अत्थि  
सम्माइट्ठी वेदयसम्माइट्ठी उवसमसम्माइट्ठी ॥ १६४ ॥

सुगमत्वान्नात्र वक्तव्यमस्ति ।

एवं मणुस-पज्जत्त-मणुसिणीसु ॥ १६५ ॥

एतदपि सुगमम् ।

देवादेशप्रतिपादनार्थमाह--

देवा अत्थि मिच्छाइट्ठी सासणसम्माइट्ठी सम्मामिच्छाइट्ठी असं-  
जदसम्माइट्ठि ति ॥ १६६ ॥

एवं जाव उवरिम-उवरिम-गेवेज्ज-विमाण-वासिय-देवा ति  
॥ १६७ ॥

देवा असंजदसम्माइट्ठि-इण्णे अत्थि खइयसम्माइट्ठी वेदय-  
सम्माइट्ठी उवसमसम्माइट्ठि ति ॥ १६८ ॥

अब मनुष्योंमें सम्यग्दर्शनके विशेष प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

मनुष्य असंयतसम्यग्दृष्टि, संयतासंयत और संयत गुणस्थानोंमें क्षायिकसम्यग्दृष्टि  
वेदकसम्यग्दृष्टि और उपशमसम्यग्दृष्टि होते हैं ॥ १६४ ॥

इस सूत्रका अर्थ सुगम होनेसे यहां पर विशेष कहने योग्य नहीं है ।

अब विशेष मनुष्योंमें विशेष प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

इसीप्रकार पर्याप्त मनुष्य और पर्याप्त मनुष्यनियोंमें भी जानना चाहिये ॥ १६५ ॥

इस सूत्रका अर्थ भी सुगम है ।

अब देवोंमें विशेष प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

देव मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि  
होते हैं ॥ १६६ ॥

अब उक्त अर्थके देवविशेषोंमें प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

इसीप्रकार उपरिम त्रैवेयकके उपरिम पटल तकके देव जानना चाहिये ॥ १६७ ॥

अब देवोंमें सम्यग्दर्शनके भेदोंके प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

देव असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि और उपशम-

सुगमत्वात्सूत्रत्रितये न किञ्चिद्वक्तव्यमस्ति ।

भवनवासिय-वाणवेंतर-जोइसिय-देवा देवीओ च सोधम्मीसाण-  
कप्पवासिय-देवीओ च असंजदसम्माइड्ढि-ट्ठणे खइयसम्माइड्ढी णत्थि  
अवसेसा अत्थि अवसेसियाओ अत्थि ॥ १६९ ॥

किमिति क्षायिकसम्यग्दृष्टयस्तत्र न सन्तीति चेन्न, देवेषु दर्शनमोहक्षपणाभावा-  
त्क्षपितदर्शनमोहकर्मणामपि प्राणिनां भवनवास्यादिष्वधमदेवेषु सर्वदेवीषु चोत्पत्तेर-  
भावाच्च । शेषसम्यक्त्वद्वयस्य तत्र कथं सम्भव इति चेन्न, तत्रोत्पन्नजीवानां पश्चात्तत्प-  
र्यायपरिणतेः सत्त्वात् ।

सोधम्मीसाण-प्पहुडि जाव उवरिम-उवरिम-गेवज्ज-विमाण-  
वासिय-देवा असंजदसम्माइड्ढि-ट्ठणे अत्थि खइयसम्माइड्ढी वेदग-  
सम्माइड्ढी उवसमसम्माइड्ढी ॥<sup>१६९</sup>१७० ॥

सम्यग्दृष्टि होते हैं ॥ १६८ ॥

पूर्वोक्त तीनों सूत्रोंका अर्थ सुगम होनेसे इनके विषयमें अधिक कुछ भी नहीं कहना है ।

अब भवनवासी आदि देवोंमें विशेष प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

भवनवासी, चानव्यन्तर और ज्योतिषी देव तथा उनकी देवियां और सौधर्म तथा  
ईशानकल्पवासी देवियां असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दृष्टि नहीं होते हैं या  
नहीं होती हैं । शेषके दो सम्यग्दर्शनोंसे युक्त होते हैं या होती हैं ॥ १६९ ॥

शंका—क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव उक्त स्थानोंमें क्यों नहीं होते हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, एक तो वहांपर दर्शनमोहनीयका क्षपण नहीं होता है ।  
दूसरे जिन जीवोंने पूर्व पर्यायमें दर्शनमोहनीयका क्षय कर दिया है उनकी भवनवासी आदि  
अधम देवोंमें और सभी देवियोंमें उत्पत्ति नहीं होती है ।

शंका—शेषके दो सम्यग्दर्शनोंका उक्त स्थानोंमें सद्भाव कैसे संभव है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, वहांपर उत्पन्न हुए जीवोंके अनन्तर सम्यग्दर्शनरूप  
पर्याय हो जाती है, इसलिये शेषके दो सम्यग्दर्शनोंका वहांपर सद्भाव पाया जाता है ।

अब शेष देवोंमें सम्यग्दर्शनके भेद बतलानेके लिये सूत्र कहते हैं—

सौधर्म और पेशान कल्पसे लेकर उपरिम त्रैवेयकके उपरिम भागतक रहनेवाले  
देव असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि और उपशमसम्यग्दृष्टि  
होते हैं ॥ १७० ॥

त्रिविधेन सम्यक्त्वेन सह तत्रोत्पत्तेर्दर्शनात् । तत्रोत्पद्य द्विविधसम्यग्दर्शनो-  
पादानात्तत्र तेषां सत्त्वं सुघटमिति ।

शेषदेवानां सम्यग्दर्शनभेदप्रतिपादनार्थमाह—

अणुदिस-अणुत्तर--विजय-वइजयंत-जयंतावराजिदसवद्वसिद्धि-  
विमाण-वासिय-देवा असंजदसम्माइड्ढि-इणणे अत्थि खइयसम्माइड्ढी  
वेदगसम्माइड्ढी उवसमसम्माइड्ढी ॥ १७१ ॥

कथं तत्रोपशमसम्यक्त्वस्य सत्त्वमिति चेत्कथं च तत्र तस्यासत्त्वं ? तत्रोत्पन्नेभ्यः  
क्षायिकक्षायोपशमिकसम्यग्दर्शनैभ्यस्तदनुत्पत्तेः । नापि मिथ्यादृष्टय उपात्तौपशमिक-  
सम्यग्दर्शनाः सन्तस्तत्रोत्पद्यन्ते तेषां तेन सह मरणाभावात् । न, उपशमश्रेण्यारूढानामारु-  
ह्यावतीर्णानां च तत्रोत्पत्तितस्तत्र तत्सत्त्वाविरोधात् । उपशमश्रेण्यारूढा उपशम-  
सम्यग्दृष्टयो न म्रियन्ते औपशमिकसम्यग्दर्शनोपलक्षितत्वाच्छेषोपशमिकसम्यग्दृष्टय इवेति

उक्त देवोंमें तीनों ही प्रकारके सम्यग्दर्शनोंके साथ जीवोंकी उत्पत्ति देखी जाती है  
अथवा, वहांपर उत्पन्न होनेके पश्चात् वेदक और औपशमिक इन दो सम्यग्दर्शनोंका ग्रहण  
होता है, इसलिये उक्त देवोंमें तीनों सम्यग्दर्शनोंका सद्भाव बन जाता है ।

अब शेष देवोंमें सम्यग्दर्शनके भेद बतलानेके लिये सूत्र कहते हैं—

नव अनुदिशोंमें और विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित तथा सर्वार्थसिद्धि इन पांच  
अनुत्तरोंमें रहनेवाले देव असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दृष्टि वेदकसम्यग्दृष्टि  
और उपशमसम्यग्दृष्टि होते हैं ॥ १७१ ॥

शंका—वहांपर उपशम सम्यग्दर्शनका सद्भाव कैसे पाया जाता है?

प्रतिशंका—वहांपर उसका सद्भाव कैसे नहीं पाया जा सकता है?

शंका—वहांपर जो उत्पन्न होते हैं उनके क्षायिक और क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन  
पाया जाता है, इसलिये उनके उपशम सम्यग्दर्शनकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है । और  
मिथ्यादृष्टि जीव उपशम सम्यग्दर्शनको ग्रहण करके वहांपर उत्पन्न नहीं होते हैं, क्योंकि,  
उपशमसम्यग्दृष्टियोंका उपशमसम्यक्त्वके साथ मरण नहीं होता है ।

समाधान—नहीं, क्योंकि, उपशम श्रेणीपर चढ़नेवाले और चढ़कर उतरनेवाले  
जीवोंकी अनुदिश और अनुत्तरोंमें उत्पत्ति होती है, इसलिये वहां पर उपशम सम्यक्त्वके  
सद्भाव रहनेमें कोई विरोध नहीं आता है ।

शंका—उपशम श्रेणीपर आरूढ़ हुए उपशमसम्यग्दृष्टि जीव नहीं मरते हैं, क्योंकि,  
वे उपशम सम्यग्दर्शनसे युक्त होते हैं । जिसप्रकार अन्य औपशमिक सम्यग्दृष्टियोंका मरण  
नहीं होता है ?

चेन्न, पश्चात्कृतमिथ्यात्वसम्यक्त्वाभ्यामनुपशमितोपशमितचारित्रमोहाभ्यां च तयो-  
र्वैधर्म्यात् ।

सम्यग्दर्शनमुखेन जीवपदार्थमाभिधाय समनस्कामनस्कभेदेन जीवपदार्थप्रति-  
प्रतिपादनार्थमाह--

सण्णियाणुवादेण अत्थि सण्णी असण्णी ॥ १७२ ॥

सुगममेतत्सूत्रम् ।

संज्ञिनां गुणस्थानाध्वानप्रतिपादनार्थमाह-

सण्णी मिच्छाइट्ठिप्पहुडि जाव खीणकसाय-वीयराय-छुदुमत्था  
त्तिं ॥ १७३ ॥

समनस्कत्वात्सयोगिकेवलिनोऽपि संज्ञिन इति चेन्न, तेषां क्षीणावरणानां मनोऽ  
वष्टम्भचलेन बाह्यार्थग्रहणाभावतस्तदसत्त्वात् । तर्हि भवन्तु केवलिनोऽसंज्ञिन इति चेन्न,  
साक्षात्कृताशेषपदार्थानामसंज्ञित्वविरोधात् । असंज्ञिनः केवलिनो मनोऽनपेक्ष्य बाह्यार्थ-

समाधान—नहीं, क्योंकि, पश्चात्कृत मिथ्यात्व और सम्यक्त्वकी अपेक्षा तथा अनुप-  
शमित और उपशमित चारित्रमोहनीयकी अपेक्षा साधारण उपशम सम्यग्दृष्टियों और उपशम  
श्रेणीपर चढ़े हुए सम्यग्दृष्टियोंमें वैधर्म्य है ।

इसप्रकार सम्यग्दर्शनके द्वारा जीव पदार्थका कथन करके अब समनस्क और अमनस्क  
इन दो भेदरूप संज्ञीमार्गणाके द्वारा जीव पदार्थके प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

संज्ञी मार्गणाके अनुवादसे संज्ञी और असंज्ञी जीव होते हैं ॥ १७२ ॥

इस सूत्रका अर्थ सुगम है ।

अब संज्ञी जीवोंके गुणस्थानोंमें प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

संज्ञी जीव मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे लेकर क्षीणकपाय-वीतराग-छद्मस्थ गुणस्थानतक  
होते हैं ॥ १७३ ॥

शंका—मनसहित होनेके कारण सयोगकेवली भी संज्ञी होते हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, आवरण कर्मसे रहित उनके मनके अवलम्बनसे बाह्य  
अर्थका ग्रहण नहीं पाया जाता है, इसलिये उन्हें संज्ञी नहीं कह सकते ।

शंका—तो केवली असंज्ञी रहे आवें ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, जिन्होंने समस्त पदार्थोंको साक्षात् कर लिया है उन्हें  
असंज्ञी माननेमें विरोध आता है ।

शंका—केवली असंज्ञी होते हैं, क्योंकि, वे मनकी अपेक्षाके बिना ही विकलेन्द्रिय

सम्यग्दर्शनविशेषप्रतिपादनार्थमाह--

मणुसा असंजदसम्माइट्टि-संजदासंजद-संजद-डाणे अत्थि  
सम्माइट्टी वेदयसम्माइट्टी उवसमसम्माइट्टी ॥ १६४ ॥

सुगमत्वान्नात्र वक्तव्यमस्ति ।

एवं मणुस-पज्जत्त-मणुसिणीसु ॥ १६५ ॥

एतदपि सुगमम् ।

देवादेशप्रतिपादनार्थमाह--

देवा अत्थि मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी सम्मामिच्छाइट्टी असं-  
जदसम्माइट्टि ति ॥ १६६ ॥

एवं जाव उवरिम-उवरिम-गेवैज्ज-विमाण-वासिय-देवा ति  
॥ १६७ ॥

देवा असंजदसम्माइट्टि-डाणे अत्थि खइयसम्माइट्टी वेदय-  
सम्माइट्टी उवसमसम्माइट्टि ति ॥ १६८ ॥

अथ मनुष्योंमें सम्यग्दर्शनके विशेष प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

मनुष्य असंयतसम्यग्दृष्टि, संयतासंयत और संयत गुणस्थानोंमें क्षायिकसम्यग्दृष्टि  
वेदकसम्यग्दृष्टि और उपशमसम्यग्दृष्टि होते हैं ॥ १६४ ॥

इस सूत्रका अर्थ सुगम होनेसे यहां पर विशेष कहने योग्य नहीं है ।

अब विशेष मनुष्योंमें विशेष प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

इसीप्रकार पर्याप्त मनुष्य और पर्याप्त मनुष्यनियोंमें भी जानना चाहिये ॥ १६५ ॥

इस सूत्रका अर्थ भी सुगम है ।

अब देवोंमें विशेष प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

देव मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि  
होते हैं ॥ १६६ ॥

अब उक्त अर्थके देवविशेषोंमें प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

इसीप्रकार उपरिम प्रैवेयकके उपरिम पटल तकके देव जानना चाहिये ॥ १६७ ॥

अब देवोंमें सम्यग्दर्शनके भेदोंके प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

देव असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि और उपशम-



सुगमत्वात्सूत्रत्रितये न किञ्चिद्वक्तव्यमस्ति ।

भवनवासिय-वाणवेंतर-जोइसिय-देवा देवीओ च सोधम्मीसाण-  
कप्पवासिय-देवीओ च असंजदसम्माइट्टि-द्वाने खइयसम्माइट्टी णत्थि  
अवसेसा अत्थि अवसेसियाओ अत्थि ॥ १६९ ॥

किमिति क्षायिकसम्यग्दृष्टयस्तत्र न सन्तीति चेन्न, देवेषु दर्शनमोहक्षपणाभावा-  
त्क्षपितदर्शनमोहकर्मणामपि प्राणिनां भवनवास्यादिष्वधमदेवेषु सर्वदेवीषु चोत्पत्तेर-  
भावाच्च । शेषसम्यक्त्वद्वयस्य तत्र कथं सम्भव इति चेन्न, तत्रोत्पन्नजीवानां पश्चात्तत्प-  
र्यायपरिणतेः सत्त्वात् ।

सोधम्मीसाण-प्पहुडि जाव उवरिम-उवरिम-गेवज्ज-विमाण-  
वासिय-देवा असंजदसम्माइट्टि-द्वाने अत्थि खइयसम्माइट्टी वेदग-  
सम्माइट्टी उवसमसम्माइट्टी ॥ १७० ॥

सम्यग्दृष्टि होते हैं ॥ १६८ ॥

पूर्वोक्त तीनों सूत्रोंका अर्थ सुगम होनेसे इनके विषयमें अधिक कुछ भी नहीं कहना है ।

अब भवनवासी आदि देवोंमें विशेष प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

भवनवासी, वानव्यन्तर और ज्योतिषी देव तथा उनकी देवियां और सौधर्म तथा  
ईशानकल्पवासी देवियां असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दृष्टि नहीं होते हैं या  
नहीं होती हैं । शेषके दो सम्यग्दर्शनोंसे युक्त होते हैं या होती हैं ॥ १६९ ॥

शंका—क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव उक्त स्थानोंमें क्यों नहीं होते हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, एक तो वहांपर दर्शनमोहनीयका क्षपण नहीं होता है ।  
दूसरे जिन जीवोंने पूर्व पर्यायमें दर्शनमोहनीयका क्षय कर दिया है उनकी भवनवासी आदि  
अधम देवोंमें और सभी देवियोंमें उत्पत्ति नहीं होती है ।

शंका—शेषके दो सम्यग्दर्शनोंका उक्त स्थानोंमें सद्भाव कैसे संभव है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, वहांपर उत्पन्न हुए जीवोंके अनन्तर सम्यग्दर्शनरूप  
पर्याय हो जाती है, इसलिये शेषके दो सम्यग्दर्शनोंका वहांपर सद्भाव पाया जाता है ।

अब शेष देवोंमें सम्यग्दर्शनके भेद बतलानेके लिये सूत्र कहते हैं—

सौधर्म और ऐशान कल्पसे लेकर उपरिम त्रैवेयकके उपरिम भागतक रहनेवाले  
देव असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि और उपशमसम्यग्दृष्टि  
होते हैं ॥ १७० ॥

त्रिविधेन सम्यक्त्वेन सह तत्रोत्पत्तेर्दर्शनात् । तत्रोत्पद्य द्विविधसम्यग्दर्शनो-  
पादानात्तत्र तेषां सत्त्वं सुघटमिति ।

शेषदेवानां सम्यग्दर्शनभेदप्रतिपादनार्थमाह—

अणुदिस-अणुत्तर-विजय-वइजयंत-जयंतावराजिदसवइसिद्धि-  
विमाण-वासिय-देवा असंजदसम्माइड्ढि-इणो अत्थि खइयसम्माइड्ढी  
वेदगसम्माइड्ढी उवसमसम्माइड्ढी ॥ १७१ ॥

कथं तत्रोपशमसम्यक्त्वस्य सत्त्वमिति चेत्कथं च तत्र तस्यासत्त्वं ? तत्रोत्पन्नेभ्यः  
क्षायिकक्षायोपशमिकसम्यग्दर्शनेभ्यस्तदनुत्पत्तेः । नापि मिथ्यादृष्टय उपात्तौपशमिक-  
सम्यग्दर्शनाः सन्तस्तत्रोत्पद्यन्ते तेषां तेन सह मरणाभावात् । न, उपशमश्रेण्यारूढानामारु-  
ह्यावतीर्णानां च तत्रोत्पत्तितस्तत्र तत्सत्त्वाविरोधात् । उपशमश्रेण्यारूढा उपशम-  
सम्यग्दृष्टयो न म्रियन्ते औपशमिकसम्यग्दर्शनोपलक्षितत्वाच्चेपोपशमिकसम्यग्दृष्टय इधेति

उक्त देवोंमें तीनों ही प्रकारके सम्यग्दर्शनोंके साथ जीवोंकी उत्पत्ति देखी जाती है  
अथवा, वहांपर उत्पन्न होनेके पश्चात् वेदक और औपशमिक इन दो सम्यग्दर्शनोंका ग्रहण  
होता है, इसलिये उक्त देवोंमें तीनों सम्यग्दर्शनोंका सद्भाव बन जाता है ।

अब शेष देवोंमें सम्यग्दर्शनके भेद बतलानेके लिये सूत्र कहते हैं—

नव अनुदिशोंमें और विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित तथा सर्वार्थसिद्धि इन पांच  
अनुत्तरोंमें रहनेवाले देव असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दृष्टि वेदकसम्यग्दृष्टि  
और उपशमसम्यग्दृष्टि होते हैं ॥ १७१ ॥

शंका—वहांपर उपशम सम्यग्दर्शनका सद्भाव कैसे पाया जाता है?

प्रतिशंका—वहांपर उसका सद्भाव कैसे नहीं पाया जा सकता है?

शंका—वहांपर जो उत्पन्न होते हैं उनके क्षायिक और क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन  
पाया जाता है, इसलिये उनके उपशम सम्यग्दर्शनकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है । और  
मिथ्यादृष्टि जीव उपशम सम्यग्दर्शनको ग्रहण करके वहांपर उत्पन्न नहीं होते हैं, क्योंकि,  
उपशमसम्यग्दृष्टियोंका उपशमसम्यक्त्वके साथ मरण नहीं होता है ।

समाधान—नहीं, क्योंकि, उपशम श्रेणीपर चढ़नेवाले और चढ़कर उतरनेवाले  
जीवोंकी अनुदिश और अनुत्तरोंमें उत्पत्ति होती है, इसलिये वहां पर उपशम सम्यक्त्वके  
सद्भाव रहनेमें कोई विरोध नहीं आता है ।

शंका—उपशम श्रेणीपर आरूढ़ हुए उपशमसम्यग्दृष्टि जीव नहीं मरते हैं, क्योंकि,  
वे उपशम सम्यग्दर्शनसे युक्त होते हैं । जिसप्रकार अन्य औपशमिक सम्यग्दृष्टियोंका मरण  
नहीं होता है ?

चेन्न, पश्चात्कृतमिथ्यात्वसम्यक्त्वाभ्यामनुपशमितोपशमितचारित्रमोहाभ्यां च तयो-  
वैधर्म्यात् ।

सम्यग्दर्शनमुखेन जीवपदार्थमभिधाय समनस्कामनस्कभेदेन जीवपदार्थप्रति-  
प्रतिपादनार्थमाह—

सण्णियाणुवादेण अत्थि सण्णी असण्णी ॥ १७२ ॥

सुगममेतत्सूत्रम् ।

संज्ञिनां गुणस्थानाध्वानप्रतिपादनार्थमाह—

सण्णी मिच्छाइट्ठि-प्पहुडि जाव खीणकसाय-वीयराय-छट्टुमत्था  
त्ति ॥ १७३ ॥

समनस्कत्वात्सयोगिकेवलिनोऽपि संज्ञिन इति चेन्न, तेषां क्षीणावरणानां मनोऽ  
वष्टम्भवलेन बाह्यार्थग्रहणाभावतस्तदसत्त्वात् । तर्हि भवन्तु केवलिनोऽसंज्ञिन इति चेन्न,  
साक्षात्कृताशेषपदार्थानामसंज्ञित्वविरोधात् । असंज्ञिनः केवलिनो मनोऽनपेक्ष्य बाह्यार्थ-

समाधान—नहीं, क्योंकि, पश्चात्कृत मिथ्यात्व और सम्यक्त्वकी अपेक्षा तथा अनुप-  
शमित और उपशमित चारित्रमोहनीयकी अपेक्षा साधारण उपशम सम्यग्दृष्टियों और उपशम  
श्रेणीपर चढ़े हुए सम्यग्दृष्टियोंमें वैधर्म्य है ।

इसप्रकार सम्यग्दर्शनके द्वारा जीव पदार्थका कथन करके अब समनस्क और अमनस्क  
इन दो भेदरूप संज्ञीमार्गणाके द्वारा जीव पदार्थके प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

संज्ञी मार्गणाके अनुवादसे संज्ञी और असंज्ञी जीव होते हैं ॥ १७२ ॥

इस सूत्रका अर्थ सुगम है ।

अब संज्ञी जीवोंके गुणस्थानोंमें प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

संज्ञी जीव मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे लेकर क्षीणकपाय-वीतराग-छद्मस्थ गुणस्थानतक  
होते हैं ॥ १७३ ॥

शंका—मनसहित होनेके कारण सयोगकेवली भी संज्ञी होते हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, आवरण कर्मसे रहित उनके मनके अवलम्बनसे बाह्य  
अर्थका ग्रहण नहीं पाया जाता है, इसलिये उन्हें संज्ञी नहीं कह सकते ।

शंका—तो केवली असंज्ञी रहे आवें ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, जिन्होंने समस्त पदार्थोंको साक्षात् कर लिया है उन्हें  
असंज्ञी माननेमें विरोध आता है ।

शंका—केवली असंज्ञी होते हैं, क्योंकि, वे मनकी अपेक्षाके विना ही विकलेन्द्रिय

ग्रहणाद्विकलेन्द्रियवदिति चेद्भवत्वेवं यदि मनोऽनपेक्ष्य ज्ञानोत्पत्तिमात्रमाश्रित्यासंज्ञित्वस्य निबन्धनमिति चेन्मनसोऽभावाद् बुद्ध्यतिशयाभावः, ततो नानन्तरोक्तदोष इति सुगममेतत् ।

असण्णी एइंदिय-प्पहुडि जाव असण्णि-पंचिंदिया त्ति ॥१७४॥

एतदपि सुगमं सूत्रम् ।

आहारमुखेन जीवप्रतिपादनार्थमाह —

आहाराणुवादेण अत्थि आहारा अणाहारा ॥ १७५ ॥

एतदपि सुगमम् ।

आहारगुणप्रतिपादनार्थमाह —

आहारा एइंदिय-प्पहुडि जाव सजोगिकेवल्लि त्ति ॥ १७६ ॥

अत्र कवल्लेपोऽमनःकर्माहारान् परित्यज्य नोकर्माहारो ग्राह्यः, अन्यथाहारकाल-  
विरहाभ्यां सह विरोधात् ।

जीवोंकी तरह बाह्य पदार्थोंका ग्रहण करते हैं ?

समाधान—यदि मनकी अपेक्षा न करके ज्ञानकी उत्पत्तिमात्रका आश्रय करके ज्ञानो-  
त्पत्ति असंज्ञीपनेकी कारण होती तो ऐसा होता। परंतु ऐसा तो है नहीं, क्योंकि, कदाचित् मनके  
अभावसे विकलेन्द्रिय जीवोंकी तरह केवलीके बुद्धिके अतिशयका अभाव भी कहा जावेगा,  
इसलिये केवलीके पूर्वोक्त दोष लागू नहीं होता है। शेष कथन सुगम है ।

अब असंज्ञी जीवोंके गुणस्थान बतलानेके लिये सूत्र कहते हैं—

असंज्ञी जीव एकेन्द्रियसे लेकर असंज्ञी पंचेन्द्रियपर्यन्त होते हैं ॥ १७४ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

अब आहारमार्गणाके द्वारा जीवोंके प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

आहारमार्गणाके अनुवादसे आहारक और अनाहारक जीव होते हैं ॥ १७५ ॥

यह सूत्र भी सुगम है ।

अब आहारमार्गणामें गुणस्थानोंके प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

आहारक जीव एकेन्द्रियसे लेकर सयोगिकेवली गुणस्थानतक होते हैं ॥ १७६ ॥

यहांपर आहार शब्दसे कवलाहार, लेपाहार, ऊष्माहार, मानसिकाहार और कर्माहारको  
छोड़कर नोकर्माहारका ही ग्रहण करना चाहिये। अन्यथा आहारकाल और विरहके साथ  
विरोध आता है ।

१ असंज्ञियु एकमेव मिथ्यादृष्टिस्थानम् । स. सि. १. ८.

२ आहारानुवादेन आहारकेयु मिथ्यादृष्ट्यादीनि सयोगकेवल्यन्तानि । स. सि. १. ८.

अणाहारा चदुसु द्वाणेषु विग्रहगद्-समावण्णाणं केवलीणं वा  
समुग्धाद-गदाणं अजोगिकेवली सिद्धा चेदि ॥ १७७ ॥

एते शरीरप्रायोग्यपुद्गलोपादानरहितत्वादानाहारिण उच्यन्ते ।

इदि संत सुत्त-विवरणं समत्तं ।

अब अनाहारकोंके गुणस्थान बतलानेके लिये सूत्र कहते हैं—

विग्रहगतिको प्राप्त जीवोंके मिथ्यात्व, सासादन और अविरतसम्यग्दृष्टि तथा समुद्धा-  
तगत केवलियोंके सयोगिकेवली, इन चार गुणस्थानोंमें रहनेवाले जीव और अयोगिकेवली  
तथा सिद्ध अनाहारक होते हैं ॥ १७७ ॥

ये जीव शरीरके योग्य पुद्गलोंका ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिये अनाहारक होते हैं ।

इसप्रकार सत्प्ररूपणा-सूत्र-विवरण समाप्त हुआ ।

१ अनाहारकेषु विग्रहगत्यापन्नेषु त्रीणि गुणस्थानानि, मिथ्यादृष्टिः सासादनसम्यग्दृष्टिरसंयतसम्यग्दृष्टिश्च ।  
समुद्धातगतः सयोगिकेवली अयोगिकेवली च । स. सि. १. ८.



सिंह



## १ संत-परूवणा-सुत्ताणि

सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ	सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ
१	णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आइरियाणं णमो उवज्झा- याणं णमो लोए सव्वसाहूणं इदि ।	८	९	ओघेण अत्थि मिच्छाइट्ठी ।	१३१
२	एत्तो इमेसिं चोद्दसण्हं जीवसमा- साणं मग्गणट्टदाए तत्थ इमाणि चोद्दस चैव द्वाणाणि णायव्वाणि भवन्ति ।	९१	१०	सासणसम्माइट्ठी ।	१६३
३	तं जहा ।	१३२	११	सम्मामिच्छाइट्ठी ।	१६६
४	गइ इंदिए काए जोगे वेदे कसाए णाणे संजमे दंसणे लेस्सा भविय सम्मत्त सण्णि आहारए चेदि ।	१३२	१२	असंजदसम्माइट्ठी ।	१७०
५	एदेसिं चैव चोद्दसण्हं जीवसमा- साणं परूवणट्टदाए तत्थ इमाणि अट्ट अणियोगद्वाराणि णाय- व्वाणि भवन्ति ।	१५३	१३	संजदासंजदा ।	१७३
६	तं जहा ।	१५५	१४	पमत्तसंजदा ।	१७५
७	संतपरूवणा दव्वपमाणाणुगमो खेत्ताणुगमो फोसणाणुगमो कालाणुगमो अंतराणुगमो भावा- णुगमो अप्पाबहुगाणुगमो चेदि ।	१५५	१५	अप्पमत्तसंजदा ।	१७८
८	संतपरूवणदाए दुविहो णिद्देसो ओघेण आदेसेण य ।	१५९	१६	अपुव्वकरणपविट्टसुद्धिसंजदेसु अत्थि उवसमा खवा ।	१७९
			१७	अणियट्ठिवादरसांपराइयपविट्टसु- द्धिसंजदेसु अत्थि उवसमा खवा ।	१८३
			१८	सुहुमसांपराइयपविट्टसुद्धिसंजदेसु अत्थि उवसमा खवा ।	१८७
			१९	उवसंतकसायवीयरायछदुमत्था ।	१८८
			२०	खीणकसायवीयरायछदुमत्था ।	१८९
			२१	सजोगकेवली ।	१९०
			२२	अजोगकेवली ।	१९२
			२३	सिद्धा चेदि ।	२००
			२४	आदेसेण गदियाणुवादेण अत्थि णिरयगदी तिरिक्खगदी मणुस्स- गदी देवगदी सिद्धगदी चेदि ।	२०१



सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ	सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ
२५	णेरइया चउड्डाणेसु अत्थि मिच्छा- इट्ठी सामणसम्माइट्ठी सम्मा- मिच्छाइट्ठी असंजदसम्माइडि त्ति ।	२०४	३०	तिरिक्खा मिस्सा मण्णिमिच्छा- इडिप्पहुडि जाव संजदामंजदा त्ति ।	२२८
२६	तिरिक्खा पंचसु ड्डाणेसु अत्थि मिच्छाइट्ठी सामणसम्माइट्ठी सम्मामिच्छाइट्ठी असंजदसम्मा- इट्ठी संजदामंजदा त्ति ।	२०७	३१	मणुस्सा मिस्सा मिच्छाइडि- प्पहुडि जाव संजदामंजदा त्ति ।	२३१
२७	मणुस्सा चादससु गुणड्डाणेसु अत्थि मिच्छाइट्ठी, सामणसम्मा- इट्ठी, सम्मामिच्छाइट्ठी, असंजद- सम्माइट्ठी, संजदामंजदा, पमत्त- संजदा, अप्पमत्तसंजदा, अपुच्च- करणपविट्टसुद्धिसंजदेसु अत्थि उवसमा खवा, अणियट्ठिवादर- सांपराइयपविट्टसुद्धिसंजदेसु अत्थि उवसमा खवा, सुहुमसांपराइय- पविट्टसुद्धिसंजदेसु अत्थि उव- समा खवा, उवसंतकषायवीय- रायछदुमत्था, खीणकत्तायवीय- रायछदुमत्था, सजोगिकेवली, अजोगिकेवलि त्ति ।	२१०	३२	तेण परं सुद्धा मणुस्सा ।	२३१
२८	देवा चदुसु ड्डाणेसु अत्थि मिच्छा- इट्ठी सामणसम्माइट्ठी सम्मा- मिच्छाइट्ठी असंजदसम्माइडि त्ति ।	२२५	३३	इंदियाणुवादेण अत्थि एइंदिया वीइंदिया तीइंदिया चउरिंदिया पंचिंदिया अणिंदिया चेदि ।	२३१
२९	तिरिक्खा सुद्धा एइंदियप्पहुडि जाव अमण्णिपंचिंदिया त्ति ।	२२७	३४	एइंदिया दुविहा, वादरा सुहुमा । वादरा दुविहा, पज्जत्ता अपज्जत्ता । सुहुमा दुविहा, पज्जत्ता अपज्जत्ता ।	२४०
			३५	वीइंदिया दुविहा, पज्जत्ता अप- ज्जत्ता । तीइंदिया दुविहा, पज्जत्ता अपज्जत्ता । चउरिंदिया दुविहा, पज्जत्ता अपज्जत्ता । पंचिंदिया दुविहा, मण्णी अमण्णी । मण्णी दुविहा, पज्जत्ता अपज्जत्ता । अमण्णी दुविहा, पज्जत्ता अप- ज्जत्ता चेदि ।	२५८
			३६	एइंदिया वीइंदिया तीइंदिया चउरिंदिया अमण्णिपंचिंदिया एकम्मि चव मिच्छाइडिड्डाणे ।	२६१
			३७	पंचिंदिया अमण्णिपंचिंदियप्प- हुडि जाव अजोगिकेवलि त्ति ।	२६२
			३८	तेण परमण्णिंदिया इदि ।	२६४
			३९	कायाणुवादेण अत्थि पुढविका- इया आउकाइया नेउकाइया	

सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ	सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ
	वाउकाइया वणप्फइकाइया तस- काइया अकाइया चेदि ।	२६४		काइया एक्कम्मि चय मिच्छा- इट्टिट्ठणो ।	२७४
४०	पुढविकाइया दुविहा, वादरा सुहुमा । वादरा दुविहा, पज्जत्ता अपज्जत्ता । सुहुमा दुविहा, पज्जत्ता अपज्जत्ता । आउकाइया दुविहा, वादरा सुहुमा । वादरा दुविहा, पज्जत्ता अपज्जत्ता । सुहुमा दुविहा, पज्जत्ता अप- ज्जत्ता । तेउकाइया दुविहा, वादरा सुहुमा । वादरा दुविहा, पज्जत्ता अपज्जत्ता । सुहुमा दुविहा, पज्जत्ता अपज्जत्ता । वाउकाइया दुविहा, वादरा सुहुमा । वादरा दुविहा, पज्जत्ता अपज्जत्ता । सुहुमा दुविहा, पज्जत्ता अप- ज्जत्ता चेदि ।	२६७	४४	तसकाइया वीइंदियप्पहुडि जाव अजोगिकेवलि त्ति ।	२७५
४१	वणप्फइकाइया दुविहा, पत्तेय- सरीरा साधारणसरीरा । पत्तेय- सरीरा दुविहा, पज्जत्ता अपज्जत्ता । साधारणसरीरा दुविहा, वादरा सुहुमा । वादरा दुविहा, पज्जत्ता अपज्जत्ता । सुहुमा दुविहा, पज्जत्ता अपज्जत्ता चेदि ।	२६८	४५	वादरकाइया वादरेइंदियप्पहुडि जाव अजोगिकेवलि त्ति ।	२७६
४२	तसकाइया दुविहा, पज्जत्ता अपज्जत्ता ।	२७२	४६	तेण परमकाइया चेदि ।	२७७
४३	पुढविकाइया आउकाइया तेउ- काइया वाउकाइया वणप्फइ-		४७	जोगाणुवादेण अत्थि मणजोगी वाचिजोगी कायजोगी चेदि ।	२७८
			४८	अजोगी चेदि ।	२८०
			४९	मणजोगो चउव्विहो, सच्चमण- जोगो मोसमणजोगो सच्चमोस- मणजोगो असच्चमोसमणजोगो चेदि ।	२८०
			५०	मणजोगो सच्चमणजोगो असच्च- मोसमणजोगो सण्णिमिच्छाइट्टि- प्पहुडि जाव सजोगिकेवलि त्ति ।	२८२
			५१	मोसमणजोगो सच्चमोसमणजोगो सण्णिमिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव खीणकसायवीयरायछदुमत्था त्ति ।	२८५
			५२	वाचिजोगो चउव्विहो, सच्चवाचि जोगो मोसवाचिजोगो सच्चमोस- वाचिजोगो असच्चमोसवाचिजोगो चेदि ।	२८६
			५३	वाचिजोगो असच्चमोसवाचि- जोगो वीइंदियप्पहुडि जाव सजोगिकेवलि त्ति ।	२८७

सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ	सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ
५४	सच्चवचिजोगो सण्णमिच्छाइट्ठि- प्पहुडि जाव सजोगिकेवलि त्ति ।	२८८		इट्ठिप्पहुडि जाव असंजदसम्मा- इट्ठि त्ति ।	३०५
५५	मोसवचिजोगो सच्चमोसवचि- जोगो सण्णमिच्छाइट्ठिप्पहुडि जाव खीणकसायवीयरायछदु- मत्था त्ति ।	२८९	६३	आहारकायजोगो आहारमिस्स- कायजोगो एकम्हि चैव पमत्त- संजदङ्गाणे ।	३०६
५६	कायजोगो सत्तविहो, ओरालिय- कायजोगो ओरालियमिस्सकाय- जोगो वेउव्वियकायजोगो वेउ- व्वियमिस्सकायजोगो आहार- कायजोगो आहारमिस्सकायजोगो कम्मइयकायजोगो चेदि ।	२८९	६४	कम्मइयकायजोगो एइंदिय- प्पहुडि जाव सजोगिकेवलि त्ति ।	३०७
५७	ओरालियकायजोगो ओरालिय- मिस्सकायजोगो तिरिक्खमणु- स्साणं ।	२९५	६५	मणजोगो वचिजोगो कायजोगो सण्णमिच्छाइट्ठिप्पहुडि जाव सजोगिकेवलि त्ति ।	३०८
५८	वेउव्वियकायजोगो वेउव्विय- मिस्सकायजोगो देवणेरइयाणं ।	२९६	६६	वचिजोगो कायजोगो वीइंदिय- प्पहुडि जाव असण्णपंचिंदिया त्ति ।	३०९
५९	आहारकायजोगो आहारमिस्स- कायजोगो संजदाणमिद्धिपत्ताणं ।	२९७	६७	कायजोगो एइंदियाणं ।	३०९
६०	कम्मइयकायजोगो विग्गहगइ- समावण्णाणं केवल्लिणं वा समु- ग्घादगदाणं ।	२९८	६८	मणजोगो वचिजोगो पज्जत्ताणं अत्थि, अपज्जत्ताणं णत्थि ।	३१०
६१	कायजोगो ओरालियकायजोगो ओरालियमिस्सकायजोगो एइं- दियप्पहुडि जाव सजोगिकेवलि त्ति ।	३०५	६९	कायजोगो पज्जत्ताण वि अत्थि, अपज्जत्ताण वि अत्थि ।	३१०
६२	वेउव्वियकायजोगो वेउव्विय- मिस्सकायजोगो सण्णमिच्छा-		७०	छ पज्जत्तीओ, छ अपज्जत्तीओ ।	३११
			७१	सण्णमिच्छाइट्ठिप्पहुडि जाव असंजदसम्माइट्ठि त्ति ।	३१२
			७२	पंच पज्जत्तीओ, पंच अपज्ज- त्तीओ ।	३१३
			७३	वीइंदियप्पहुडि जाव असण्ण- पंचिंदिया त्ति ।	३१३
			७४	चत्तारि पज्जत्तीओ, चत्तारि अपज्जत्तीओ ।	३१४

सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ	सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ
७५	एइंदियाणं ।	३१४	८६	एवं पंचिदियतिरिक्खा पंचि- दियतिरिक्खपज्जत्ता ।	३२७
७६	ओरालियकायजोगो पज्जत्ताणं, ओरालियमिस्सकायजोगो अप- ज्जत्ताणं ।	३१५	८७	पंचिदियतिरिक्खजोणिणीसु मि- च्छाइट्ठि-सासणसम्माइट्ठिद्वाने- सिया पज्जत्तियाओ, सिया अपज्जत्तियाओ ।	३२८
७७	वेउव्वियकायजोगो पज्जत्ताणं, वेउव्वियमिस्सकायजोगो अप- ज्जत्ताणं ।	३१७	८८	सम्मामिच्छाइट्ठि-असंजदसम्मा- इट्ठि-संजदासंजदद्वाने णियमा पज्जत्तियाओ ।	३२८
७८	आहारकायजोगो पज्जत्ताणं, आहारमिस्सकायजोगो अपज्ज- त्ताणं ।	३१७	८९	मणुस्सा मिच्छाइट्ठि-सासणस- म्माइट्ठि-असंजदसम्माइट्ठिद्वाने सिया पज्जत्ता सिया अपज्जत्ता ।	३२९
७९	णेरइया मिच्छाइट्ठि-असंजद- सम्माइट्ठिद्वाने सिया पज्जत्ता सिया अपज्जत्ता ।	३१९	९०	सम्मामिच्छाइट्ठि-संजदासंजद- संजदद्वाने णियमा पज्जत्ता ।	३२९
८०	सासणसम्माइट्ठि-सम्मामिच्छा- इट्ठिद्वाने णियमा पज्जत्ता ।	३२०	९१	एवं मणुस्सपज्जत्ता ।	३३१
८१	एवं पढमाए पुढवीए णेरइया ।	३२२	९२	मणुसिणीसु मिच्छाइट्ठि-सासण- सम्माइट्ठिद्वाने सिया पज्जत्ति- याओ सिया अपज्जत्तियाओ ।	३३२
८२	विदियादि जाव सत्तमाए पुढ- वीए णेरइया मिच्छाइट्ठिद्वाने सिया पज्जत्ता, सिया अपज्जत्ता ।	३२३	९३	सम्मामिच्छाइट्ठि-असंजदसम्मा- इट्ठि-संजदासंजदद्वाने णियमा पज्जत्तियाओ ।	३३२
८३	सासणसम्माइट्ठि-सम्मामिच्छा- इट्ठि-असंजदसम्माइट्ठिद्वाने णि- यमा पज्जत्ता ।	३२३	९४	देवा मिच्छाइट्ठि-सासणसम्माइट्ठि- असंजदसम्माइट्ठिद्वाने सिया पज्जत्ता सिया अपज्जत्ता ।	३३४
८४	तिरिक्खा मिच्छाइट्ठि-सासण- सम्माइट्ठि-असंजदसम्माइट्ठि- द्वाने सिया पज्जत्ता, सिया अपज्जत्ता ।	३२५	९५	सम्मामिच्छाइट्ठिद्वाने णियमा पज्जत्ता ।	३३५
८५	सम्मामिच्छाइट्ठि-संजदासंजद- द्वाने णियमा पज्जत्ता ।	३२६	९६	भवणवासिय-वाणवेंतर-जोइसिय- देवा देवीओ सोधम्मीसाण-कप्प-	

सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ	सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ
	वासिय-देवीओ च मिच्छाइट्टि- सासणसम्माइट्टिहाणे सिया पज्जत्ता सिया अपज्जत्ता, सिया पज्जत्तियाओ सिया अपज्जत्ति- याओ ।	३३५	१०४	तेण परमवगदवेदा चेदि ।	३४४
९७	सम्मामिच्छाइट्टि-असंजदस- म्माइट्टिहाणे णियमा पज्जत्ता णियमा पज्जत्तियाओ ।	३३६	१०५	णेइया चदुसु ट्ठाणेषु सुद्धा णवुंसयवेदा ।	३४५
९८	सोधम्मीसाणप्पहुडि जाव उव- रिमउवरिमगेवज्जं ति विमाण- वासिय-देवेषु मिच्छाइट्टि-सास- णसम्माइट्टि-असंजदसम्माइट्टि- हाणे सिया पज्जत्ता सिया अपज्जत्ता ।	३३७	१०६	तिरिक्खा सुद्धा णवुंसगवेदा एइंदियप्पहुडि जाव चउरिं- दिया ति ।	३४५
९९	सम्मामिच्छाइट्टिहाणे णियमा पज्जत्ता ।	३३९	१०७	तिरिक्खा तिवेदा असण्णि- पंचिंदियप्पहुडि जाव संजदा- संजदा ति ।	३४६
१००	अणुदिस-अणुचर-विजय-वइज- यंत-जयंतावराजित-सव्वट्ठसि- द्धि-विमाणवासिय-देवा असं- जदसम्माइट्टिहाणे सिया- पज्जत्ता, सिया अपज्जत्ता ।	३३९	१०८	मणुस्सा तिवेदा मिच्छाइट्टि- प्पहुडि जाव अणियट्टि ति ।	३४६
१०१	वेदानुवादेण अत्थि इत्थिवेदा पुरिसवेदा णवुंसयवेदा अवगद- वेदा चेदि ।	३४०	१०९	तेण परमवगदवेदा चेदि ।	३४७
१०२	इत्थिवेदा पुरिसवेदा असण्णि- मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव अणियट्टि ति ।	३४२	११०	देवा चदुसु ट्ठाणेषु दुवेदा, इत्थिवेदा पुरिसवेदा ।	३४७
१०३	णवुंसयवेदा एइंदियप्पहुडि जाव अणियट्टि ति ।	३४३	१११	कसायाणुवादेण अत्थि कोध- कसाई माणकसाई मायकसाई लोभकसाई अकसाई चेदि ।	३४८
			११२	कोधकसाई माणकसाई माय- कसाई एइंदियप्पहुडि जाव अणियट्टि ति ।	३५१
			११३	लोभकसाई एइंदियप्पहुडि जाव सुद्धमसांपराइयसुद्धिसंजदा ति ।	३५२
			११४	अकसाई चदुसु ट्ठाणेषु अत्थि उवसंतकसायवीयरायछदुमत्था खीणकसायवीयरायछदुमत्था सजोगिकेवली अजोगिकेवलि त्ति ।	३५२

सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ	सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ
११५	णाणाणुवादेण अत्थि मदि- अण्णाणी सुदअण्णाणी विभंग- णाणी आभिणिवोहियणाणी सुदणाणी ओहिणाणी मणपज्ज- वणाणी केवलणाणी चेदि ।	३५३	१२२	केवलणाणी तिसु द्वाणेषु सजोगकेवली अजोगकेवली सिद्धा चेदि ।	३६७
११६	मदिअण्णाणी सुदअण्णाणी एइंदियप्पहुडि जाव सासण- सम्माइट्ठि त्ति ।	३६१	१२३	संजमाणुवादेण अत्थि संजदा सामाइयच्छेदोवट्ठावणसुद्धि- संजदा परिहारसुद्धिसंजदा सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदा ज- हाक्खादविहारसुद्धिसंजदा सं- जदासंजदा असंजदा चेदि ।	३६८
११७	विभंगणाणं सण्णिमिच्छाइट्ठीणं वा सासणसम्माइट्ठीणं ।	३६२	१२४	संजदा पमत्तसंजदप्पहुडि जाव अजोगकेवलि त्ति ।	३७४
११८	पज्जत्ताणं अत्थि, अपज्ज- त्ताणं णत्थि ।	३६२	१२५	सामाइयच्छेदोवट्ठावणसुद्धिसं- जदा पमत्तसंजदप्पहुडि जाव अणियट्ठि त्ति ।	३७४
११९	सम्मामिच्छाइट्ठि-ट्ठाणे ति- ण्णि वि णाणाणि अण्णाणेण मिस्साणि । आभिणिवोहिय- णाणं मदिअण्णाणेण मिस्सियं, सुदणाणं सुदअण्णाणेण मि- स्सियं, ओहिणाणं विभंगणा- णेण मिस्सियं, तिण्णि वि णाणाणि अण्णाणेण मिस्साणि वा ।	३६३	१२६	परिहारसुद्धिसंजदा दोसु द्वाणेषु पमत्तसंजदद्वाणे अप्पमत्तसंजद- द्वाणे ।	३७५
१२०	आभिणिवोहियणाणं सुदणाणं ओहिणाणं असंजदसम्माइट्ठि- प्पहुडि जाव खीणकसाय- वीदरागछदुमत्था त्ति ।	३६४	१२७	सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदा ए कम्मि चेव सुहुमसांपराइय- सुद्धिसंजद-ट्ठाणे ।	३७६
१२१	मणपज्जवणाणी पंमत्तसजद- प्पहुडि जाव खीणकसायवीद- रागछदुमत्था त्ति ।	३६६	१२८	जहाक्खादविहारसुद्धिसंजदा च- दुसु ट्ठाणेषु उवसंतकसाय- वीयरायछदुमत्था खीणकसा- यवीयरायछदुमत्था सजोगि- केवली अजोगिकेवलि त्ति ।	३७७
			१२९	संजदासंजदा एकम्मि चेय संजदासंजद-ट्ठाणे ।	३७८

सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ	सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ
१३०	असंजदा एइंदियप्पहुडि जाव असंजदसम्माइट्ठि ति ।	३७८	१३९	सुकलेस्सिया सण्णिमिच्छा-इट्ठिप्पहुडि जाव सजोगि-केवलि ति ।	३९१
१३१	दंसणाणुवादेण अत्थि चक्खु-दंसणी अचक्खुदंसणी ओधि-दंसणी केवलदंसणी चेदि ।	३७८	१४०	तेण परमलेस्सिया ।	३९२
१३२	चक्खुदंसणी चउरिंदियप्पहुडि जाव खीणकसायवीयरायछदु-मत्था ति ।	३८३	१४१	भवियाणुवादेण अत्थि भव-सिद्धिया अभवसिद्धिया ।	३९२
१३३	अचक्खुदंसणी एइंदियप्पहुडि जाव खीणकसायवीयरायछदु-मत्था ति ।	३८३	१४२	भवसिद्धिया एइंदियप्पहुडि जाव अजोगिकेवलि ति ।	३९४
१३४	ओधिदंसणी असंजदसम्मा-इट्ठिप्पहुडि जाव खीणकसा-यवीयरायछदुमत्था ति ।	३८४	१४३	अभवसिद्धिया एइंदियप्पहुडि जाव सण्णि मिच्छाइट्ठि ति ।	३९४
१३५	केवलदंसणी तिसु द्ढाणेसु सजोगिकेवली अजोगिकेवली सिद्धा चेदि ।	३८५	१४४	सम्मचाणुवादेण अत्थि सम्मा-इट्ठी खइयसम्माइट्ठी वेदग-सम्माइट्ठी उवसमसम्माइट्ठी सासणसम्माइट्ठी सम्मामि-च्छाइट्ठी मिच्छाइट्ठी चेदि ।	३९५
१३६	लेस्साणुवादेण अत्थि किण्ह-लेस्सिया णीललेस्सिया काउ-लेस्सिया तेउलेस्सिया पम्म-लेस्सिया सुकलेस्सिया अले-स्सिया चेदि ।	३८६	१४५	सम्माइट्ठी खइयसम्माइट्ठी असंजदसम्माइट्ठिप्पहुडि जा-व अजोगिकेवलि ति ।	३९६
१३७	किण्हलेस्सिया णीललेस्सिया काउलेस्सिया एइंदियप्पहुडि जाव असंजदसम्माइट्ठि ति ।	३९०	१४६	वेदगसम्माइट्ठी असंजदस-म्माइट्ठिप्पहुडि जाव अप्पम-त्तसंजदा ति ।	३९७
१३८	तेउलेस्सिया पम्मलेस्सिया सण्णिमिच्छाइट्ठिप्पहुडि जाव अप्पमत्तसंजदा ति ।	३९१	१४७	उवसमसम्माइट्ठी असंजदस-म्माइट्ठिप्पहुडि जाव उवसंत-कसायवीयरायछदुमत्था ति ।	३९८
			१४८	सासणसम्माइट्ठी एककम्मि-चेव सासणसम्माइट्ठि-द्ढाणे ।	३९८
			१४९	सम्मामिच्छाइट्ठी एककम्मि-चेव सम्मामिच्छाइट्ठि-द्ढाणे ।	३९९

सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ	सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ
१५०	मिच्छाइष्टी एइंदियप्पहुडि जाव सण्णिमिच्छाइडि ति ।	३९९	१६०	एवं पंचिदियतिरिक्खा पंचि-दियतिरिक्खपज्जत्ता ।	४०३
१५१	णेरइया अत्थि मिच्छाइष्टी सासणसम्माइष्टी सम्मामिच्छाइष्टी असंजदसम्माइडि ति ।	३९९	१६१	पंचिदियतिरिक्खजोणिणीसु असंजदसम्माइडि-संजदासंजदहाणे खइयसम्माइष्टी णत्थि, अवसेसा अत्थि ।	४०३
१५२	एवं जाव सत्तसु पुढवीसु	३९९	१६२	मणुस्ता अत्थि मिच्छाइष्टी सासणसम्माइष्टी सम्मामिच्छाइष्टी असंजदसम्माइष्टी संजदासंजदा ति ।	४०३
१५३	णेरइया असंजदसम्माइडि-ट्टाणे अत्थि खइयसम्माइष्टी वेदगसम्माइष्टी उवसमसम्माइष्टी चेदि ।	४००	१६३	एवमहुइज्जदीवसमुद्देसु ।	४०३
१५४	एवं पढमाए पुढवीए णेरइआ ।	४००	१६४	मणुस्ता असंजदसम्माइडि-संजदासंजदहाणे अत्थि खइयसम्माइष्टी वेदयसम्माइष्टी उवसमसम्माइष्टी ।	४०५
१५५	विदियादि जाव सत्तमाए पुढवीए णेरइया असंजदसम्माइडि-हाणे खइयसम्माइष्टी णत्थि, अवसेसा अत्थि ।	४०१	१६५	एवं मणुस-पज्जत्तमणुसिणीसु ।	४०५
१५६	तिरिक्खा अत्थि मिच्छाइष्टी सासणसम्माइष्टी सम्मामिच्छाइष्टी असंजदसम्माइष्टी संजदासंजदा ति ।	४०१	१६६	देवा अत्थि मिच्छाइष्टी सासणसम्माइष्टी सम्मामिच्छाइष्टी असंजदसम्माइडि ति ।	४०५
१५७	एवं जाव सव्वदीवसमुद्देसु ।	४०१	१६७	एवं जाव उवरिमउवरिमगेवेज्जविमाणवासियदेवा ति ।	४०५
१५८	तिरिक्खा असंजदसम्माइडि-हाणे अत्थि खइयसम्माइष्टी वेदगसम्माइष्टी उवसमसम्माइष्टी ।	४०२	१६८	देवा असंजदसम्माइडिहाणे अत्थि खइयसम्माइष्टी वेदयसम्माइष्टी उवसमसम्माइडि ति ।	४०५
१५९	तिरिक्खा संजदासंजदहाणे खइयसम्माइष्टी णत्थि, अवसेसा अत्थि ।	४०२	१६९	भवणवासियवाणवेंतरजोइसियदेवा देवीओ च, सोधम्मीसाणकप्पवासियदेवीओ च असंजदसम्माइडिहाणे खइय-	४०६



सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ	सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ
	सम्माइट्ठी णत्थि, अवसेसा अत्थि, अवसेसियाओ अत्थि । ४०६		१७३	सण्णी मिच्छाइट्ठिप्पहुडि जाव खीणकसायवीयरायछट्टुमत्था त्ति । ४०८	
१७०	सोधम्मीसाणप्पहुडि जाव उव- रिमउवरिम-गेवज्जविमाणवा- सियदेवा असंजदसम्माइट्ठिणा अत्थि खइयसम्माइट्ठी वेदग- सम्माइट्ठी उवसमसम्माइट्ठी । ४०६		१७४	असण्णी एइंदियप्पहुडि जाव असण्णिपंचिंदिया त्ति । ४०९	
१७१	अणुदिसअणुत्तरविजयवइजयं- तजयंतावराजिदसव्वइसिद्धि-- विमाणवासियदेवा असंजद- सम्माइट्ठिणा अत्थि खइयस- म्माइट्ठी वेदगसम्माइट्ठी उव- समसम्माइट्ठी । ४०७		१७५	आहाराणुवादेण अत्थि आहारा अणाहारा । ४०९	
१७२	सण्णियाणुवादेण अत्थि सण्णी असण्णी । ४०८		१७६	आहारा एइंदियप्पहुडि जाव सजोगिकेवलि त्ति । ४०९	
			१७७	अणाहारा चट्टुसु द्वाणेषु विग्ग- हगइसमावण्णाणं केवलीणं वा समुग्घादगदाणं अजोगिकेवली सिद्धा चेदि । ४१०	



## २. अवतरण-गाथा-सूची

क्रम संख्या	गाथा	पृष्ठ	अन्यत्र कहाँ	क्रम संख्या	गाथा	पृष्ठ	अन्यत्र कहाँ
<b>अ</b>							
१२७	अट्टविहकम्मविजुदा	२००	गो. जी. ६८.	१८०	आभीयमासुरक्खा	३५८	गो. जी. ३०४.
७६	अट्टासी-अहियारेसु	११२		१६४	आहरदि अणेण मुणी	२९४	गो. जी. २३९.
२७	अणवज्जा कयकज्जा	४८		९८	आहरदि सरीराणं	१५२	गो. जी. ६६५.
५१	अण्णाणतिमिरहरणं	५९		१६५	आहारयमुत्तथं	२९४	गो. जी. २४०.
१००	अणियोगो य णियोगो	१५४	आ. नि. १२५.	<b>इ</b>			
१९०	अणुलोभं वेदंतो	३७३	गो. जी. ४७४.	५५	इम्मिसे वसप्पिणीए	६२	ति. प. १, ६८ (समान).
१८३	अत्थादो अत्थंतर	३५९	गो. जी. ३१५.	१५१	इंगाल जाल अच्ची	२७३	मूलाचा. २११. आ. चा. नि. ११८.
१४८	अत्थि अणंता जीवा	२७१	गो. जी. १९७. मूलाचा. १२०३.	<b>उ</b>			
१०२	अत्थित्तं पुण संतं	१५८		३	उच्चारियमत्थपदं	१०	जयध. अ. ३०.
४६	अदिसयमादसमुत्थं	५८	प्रवच. १, १३.	८	उप्पज्जंति विर्यंति य	१३	स. त. १, ११.
१७८	अप्पपरोभयबाधण	३५१	गो. जी. २८९.	६०	उप्पणमिह अणंते	६४	ति. प. १, ७४. (शब्दभेद)
८६	अप्पप्पवुत्तिसंचिद	१३९		१९१	उवसंते खीणे वा	३७३	गो. जी. ४७५.
१८२	अभिमुहणियमिय	३५९	गो. जी. ३०६.	<b>ऋ</b>			
१५	अवगयणिवारणट्टं	३१		५३	ऋषिगिरिरैन्द्राशायां	६२	जयध. अ. ९.
१८४	अवहीयदि त्ति ओही	३५९	गो. जी. ३७०.	<b>ए</b>			
४२	अग्रसहस्रमर्हापति	५८	ति. प. १, ४७.	१४२	एइंदियस्स फुसणं	२५८	गो. जी. १६७.
३६	अग्रादशसंख्यानां	५७	,, १, ४२.	११९	एक्कमिह कालसमए	१८६	गो. जी. ५६.
१२५	असहायणाणदंसण	१९२	गो. जी. ६४.	७२	एक्को चेव महप्पो	१००	पञ्जा. ७७.
८५	अहमिंदा जह देवा	१३७	गो. जी. १६४.	११७	एदमिह गुणद्वाणे	६८३	गो. जी. ५१.
<b>आ</b>							
७५	आक्षेपर्णीं तत्त्ववि	१०६					
१९८	आदा णाणपमाणं	३८६	प्रवच. १, २३.				
२०	आदिमिह भद्दवयणं	४०	ति. प. १, २९. समान				
१९	आदीवसाणमज्जे	४०					
२२	आदौ मर्येऽवसाने	४१	आ. प.				

क्रम संख्या	गाथा	पृष्ठ	अन्यत्र कहाँ	क्रम संख्या	गाथा	पृष्ठ	अन्यत्र कहाँ
१४७	एयणिगोदसरीरे	२७०	गो. जी. १९६. मूलाचा. १२०४.		ग		
२१०	" "	३९४	" "	८४	गइकम्मविणिव्वत्ता	१३५	
१९९	एयदवियम्मि जे	३८६	गो. जी. ५८२. स. त. १, ३३.	३८	गणरायमच्चतलवर	५७	ति. प. १, ४४.
६५	एस करेमि य पणमं	७३	मूलाचा. १०५. (अर्धसमता)	६६	गयगवलसजलजल	७३	
	ओ			६१	गोत्तेण गोदमो	६५	
१६१	ओरालियमुत्तत्थं	२९१	गो. जी. २३१.		च		
१५०	ओसा य हिमो धूम	२८३	मूलाचा. २१०. आ. चा. नि. १०८.	१९५	चक्खूण जं पयास	३८२	गो. जी. ४८४.
	क			१६९	चत्तारि वि छेत्ताइं	३२६	गो. जी. ६५३. गो. क. ३३४.
७०	कधं चरे कधं चिहे	९९	मूलाचा. १०१२. दशवै. ४, ७.	२०७	चागी भहो चोक्खो	३९०	गो. जी. ५१६.
१६६	कम्मेव च कम्मभवं	२९५	गो. जी. २४१.	७९	चारणवंसो तह पंच	११२	
१७३	कारिसतणिट्ठिवाग	३४२	गो. जी. २७५.	३२	चोदसपुव्वमहोयहि	५०	
१०३	कालो ट्ठिदि-अवधरणं			२००	चंडो ण मुयदि वेरं	३८८	गो. जी. ५०९.
२०९	किण्हादिलेस्सरहिदा	३९०	गो. जी. ५५६.	१८५	चित्थियमचित्थियं व	३६०	गो. जी. ४३८.
१७७	किमिरायचकतणु	३५०	गो. जी. २८७.		छ		
१८	किं कस्स केण कत्थ	३४	मूलाचा. ७०५.	७३	छक्कावक्कमजुत्तो	१००	पञ्चा. ७८.
१३६	कुक्खिक्खिमिसिप्पि	२४१		३५	छद्व्वणवपयत्थे	५५	ति. प. १, ३४ ( शब्दभेद )
१३७	कुंथुपिपीलिकम	२४३		९६	छपंचणवविहाणं	१५२	गो. जी. ५६१.
१२४	केवलणाणदिवायर	१९१	गो. जी. ६३.	२१२	" "	३९५	" "
	ख			१६७	छम्मासाउवसेसे	३०३	मूलारा. २१०५. (शब्द- भेद ). वसु. आ. ५३०.
५९	खीणे दंसणमोहे	६४	जयध. अ. ८.	१३३	छसु हेट्ठिमासु पुढ	२०९	
२१३	" "	३९५	" "	१७०	छादेदि सयं दोसे	३४१	गो. जी. २७४.
				१८८	छेत्तूण य परियायं	३७२	गो. जी. ४७१.
					ज		
				१४६	जत्थेक्कु मरइ	२७०	गो. जी. १९३.

क्रम संख्या	गाथा	पृष्ठ	अन्यत्र कहाँ	क्रम संख्या	गाथा	पृष्ठ	अन्यत्र कहाँ
१४	जतय वहं जाणिजा	३०	अनु. द्वा. १, ६. आचारा. नि. ४	११५	णट्टासेसपमाओ	१७९	गो. जी. ४६.
७१	जदं चरे जदं चिद्वे	९९	मूलाचा. १०१३. दशवै. ४, ८.	६८	णत्थि णयेहि विहूणं	९१	आ. नि- ६६१.
१३४	जवणालिया मसूरी	२३६	मूलाचा. १०९१.	४	णयदित्ति णयो	११	
३४	जस्सं तिण धम्मवहं	५४	दशवै. ९, १३.	२०४	ण य पत्तियइ परं सो	३८९	गो. जी. ५१३.
१४४	जह कंचणमग्गिगयं	२६६	गो. जी. २०३.	१५७	ण य सच्चमोसजुतो	२८२	गो. जी. २१९.
८७	जह भारवहो पुरिसो	१३९	गो. जी. २०२.	१२८	ण रमंति जदो णिच्चं	२०२	गो. जी. १४७.
१३२	जाइजरा मरणभया	२०४	गो. जी. १५२.	८०	णवमो य इक्खयाणं	११२	
२०६	जाणइ कज्जमकज्जं	३८९	गो. जी. ५१५.	१४०	ण वि इंदियकरण	२४८	गो. जी. १७४.
९१	जाणइ तिकालसाहिण	१४४	गो. जी. २९९.	९	णामं ठवणा दविण	१५	स. त. १, ६.
१३५	जाणदि पस्सदि	२३९		२३	णिद्वद्धमोहतणो	४५	
६७	जावदिया वयणवहां	८०	गो. क. ८९४. स. त. १, ४७.	२०२	णिदावंचणवहुलो	३८९	गो. जी. ५११.
१०५	"	१६२	"	१२३	णिस्सेसखीणमोहो	१९०	गो. जी. ६२.
८३	जाहि व जासु व	१३२	गो. जी. १४१.	२६	णिहयविविहडुकम्मा	४८	
५०	जियमोहिंधणज्जलणो	५९		१७२	णेवित्थी णेव पुमं	३४२	गो. जी. २७५.
८१	जीवो कत्ता य वत्ता	११८	गो. जी. जी., प्र. टी., ३३६.	१११	णो इदिणसु विरदो	१७३	गो. जी. २९.
१९४	जीवां चोहसमेया	३७३	गो. जी. ४७८.		त		
१६८	जेसिं आउसमाइं	३०४	मूलारा. २१०६.	४९	तत्तो चेव सुहाइं	५९	
१५५	जेसिं ण संति जोगा	२८०	गो. जी. २४३.		तदियो य णियइ	११२	
१०४	जेहि दु लक्खिज्जंते	१६१	गो. जी. ८.	६९	तम्हा अहिगय सुत्तेण	९१	स. त. ३, ६४-६५.
१५९	जे णेव सच्चमोसो	२८६	गो. जी. २२१.	११८	तारिसपरिणामद्विय	१८३	गो. जी. ५४.
११२	जे तसवहाउविरओ	१७५	गो. जी. ३१.	४५	तित्थयरगणहरत्तं	५८	
९३	जं सामणं गहणं	१४९	गो. जी. ४८२. द्रव्यसं. ४३.	५	तित्थयरवयणसंगह	१२	स. त. १, ३.
११	ज्ञानं प्रमाणमित्याहुः	१७	लघीय. ६, २.	२५	तिरयणतिसूल	४५	
	ण			१२९	तिरियंति कुडिल	२०२	गो. जी. १४८.
२०८	ण उ कुणइ पक्ख	३९०	गो. जी. ५१७.	६४	तिविहा य आणुपुब्बी	७२	
				१०७	तं मिच्छत्तं जहमस	१६३	
					द		
				२४	दलियमयणप्पयावा	४५	
				६	दव्वद्वियणयपयई	१२	स. त. १, ४.
				१५८	दसविह-सच्चे वयणे	२८६	गो. जी. २२०



क्रम संख्या	गाथा	पृष्ठ	अन्यत्र कहाँ	क्रम संख्या	गाथा	पृष्ठ	अन्यत्र कहाँ
२०३	रुसदि णिंददि अण्णे	३८९	गो. जी. ५१२.				
	ल				स		
९४	लिंपदि अण्णीकीर	१५०	गो. जी. ४८९.	१२२	सकयाजलं हलं वा	१८९	गो. जी. ६१.
	व			४४	सकलभुवनैकनाथ	५८	ति. प. १, ४५. (प्राकृतरूप).
११३	वत्तावत्तपमाए	१७८	गो. जी. ३३.	८२	सत्ता जंतू य माणी	११९	गो. जी, जी. प्र, टी. ३६६.
२१४	वयणेहि वि हेऊहि	३९५	गो. जी. ६४७	१५६	सवभावो सच्चमणो	२८१	गो. जी. २१९.
९२	वयसामिइकसायाणं	१४१	गो. जी. ४६४.	१०८	सम्मत्तरयणपव्वय	१६६	गो. जी. २०.
१५२	वाउव्भामो उक्कलि	१७३	मूलाचा. २१२. आचा. नि. १६६. ( अर्ध- समता ).	११०	सम्माइही जीवो	१७३	गो. जी. २७.
५६	वासस्स पढममासे	६३	ति. प. १, ६९. (शब्दभेद).	१३९	सस्सेदिमसम्मु	२४६	आचा. सू. ४९. (सूत्ररूप).
११४	विकहा तथा कसाया	१७८	गो. जी- ३४.	५७	सावणवहुलपडिवदे	६३	ति. प. १, ७०.
९९	विग्गहगइमावण्णा	१५३	गो. जी. ६६६.	१४५	साहारणमाहारो	२७०	गो. जी. १९२.
२१	विग्गाः प्रणश्यन्ति	४१	ति. प. १, ३०. (प्राकृतरूप).	९७	सिक्खकिरियुव	१५२	गो. जी. ६६१.
१८१	विवरीयमोहिणाणं	३५९	गो. जी. ३०५.	९५	सिद्धत्तणस्स जोग्गा	१५०	गो. जी. ५५८.
१६२	विविहगुणइद्धिजुत्तं	२९१	गो. जी. २३२.	१३	सिद्धत्थपुण्णकुंभो	२७	पञ्चा. टी.
१७३	विसजंतकूडपंजर	३५८	गो. जी. ३०३.	१७४	सिलपुढविभेदधूली	३५०	गो. जी. २८४.
१२	विसवेयणरत्तक्खय	२३	गो. क. ५७.	३३	सीहगयवसहमिय	५१	
१५४	विहातिहचउहि	२७४	गो. जी. १९८.	१४३	सुत्तादो तं सम्मं	२६२	गो. जी. २९.
१६३	वेउव्वियमुत्तत्थं	२२२	गो. जी. २३४.	९०	सुहडुक्खसुवहु	१४२	गो. जी. २८२.
८२	वेदस्सुदीरणए	१४१		१०१	सूर्इ मुद्दा पडिहो	१५४	
१७६	वेलुवमूलोरव्वय	३५०	गो. जी. २८६.	६२	सेलघणभग्गघडआहि	६८	वृ. क. सू. ३३४. आ. नि. १२९. (शब्दभेद).
	श			१७५	सेलट्टिकट्टवेत्तं	३५०	गो. जी. २८५.
२	शब्दात्पदप्रसिद्धिः	१०	प्र. शाकटा. सिद्ध हैम.	१२६	सेलेसिं संपत्तो	१९९	गो. जी. ६५.
	प			३१	संगहाणिग्गहकुसलो	४९	मूलाचा. १५८. ( शब्दभेद )
४३	षट्खण्डभरतनाथं	५८	ति. प. १, ४५. (प्राकृतरूप).	१८७	संगहियसयलसंजम	३७२	गो. जी. ४७०.
				१८६	संपुण्णं तु समग्गं	३६०	गो. जी. ४६०.
					ह		
				३७	हयहत्थिरहाणहिवा	५७	ति. प. १. ४३. (शब्दभेद)
				१२०	होंति अणियट्टिणो ते	१८६	गो. जी. ५७.

## ३. ऐतिहासिक नाम सूची

	पृष्ठ		पृष्ठ		पृष्ठ
अ		कापिल	१०८	धरसेन(भट्टारक)	६, ६७, ६८, ७०
अपराजित	६६	काणेविद्धि	१०७	धर्मसेन	६६
अभय (कुमार)	१०४	कार्तिकेय	१०४	शुभसेन	६६
अग्रस्थूण	१०८	किष्किविल	१०३	शुनिपेण	६६
अद्वलायन	१०७	कुशुमि	१०८		
अष्टपुत्र	१०३	कौत्किल	१०७	न	
		कौशिक	१०७	नक्षत्राचार्य	६६
आ		कंसाचार्य	६६	नन्दन	१०४
आनन्द	१०४	क्षत्रिय	६६	नन्दिमित्र	६६
				नमि	१०३
इ		ग		नागाचार्य	६६
इन्द्रभूति	६४, ६५	गार्ग्य	१०८	नारायण	१०८
		गोवर्द्धन	६६		
उ		गौतम, देव, स्वामी	६४, ६५, ६६, ७२	प	
उलूक	१०८			पाराशर	१०८
ऋ		गंगदेव	६६	पालम्य	१०३
ऋषिदास	१०४			पांडुस्वामी	६६
		च		पुष्पदन्त	७, ८, ७३, ७२, २३०, २९२, २२६
ए		चिल्लातपुत्र	१०४	पैण्पलाद्	१०८
एलापुत्र	१०८			प्रौष्टिल	६६
ऐ		ज			
पेतिकायन	१०८	जतुकर्ण	१०८	व	
ऐन्द्रदत्त	१०८	जम्बूस्वामी	६५, ६६	वांदरायण	१०८
		जयपाल	६६	बुद्धिल	६६
औ		जयाचार्य	६६		
औपमन्थव	१०८	जिनपालित	६०, ७१	भ	
		जैमिनि	१०८	भद्रबाहु	६६
क		ध		भूतबलि	७, ७३, ७४, २२६
कण्व	१०८	धन्य (कुमार)	१०४		

	पृष्ठ		पृष्ठ		पृष्ठ
म		रोमश	१०७	श	
		रोमहर्षणी	१०८		
मतङ्ग	१०३			शाकल्य	१०८
मरीचि	१०७	ल		शालिभद्र	१०४
महावीर	६१, ६४	लोहार्य	६५, ६६	शिवमाता	७३
माउर	१०८			स	
माध्यंदिन	१०८	व			
मांड्यपिक	१०७	वर्धमान	६४, ७२, १०३	सत्यदत्त	१०८
मुण्ड	१०७	वलीक	१०३	सात्यमुग्रि	१०८
मोद	१०८	वल्कल	१०८	सिद्धार्थदेव	६६
मौद्गलायन	१०८	वशिष्ट	१०८	सुदर्शन	१०३
य		वसु	१०८	सुनक्षत्र	१०४
		वाद्दलि	१०८	सुभद्र	६६
यतिवृषभ	३०२	वाल्मीकि	१०८	स्वेष्टकृत्	१०८
यमलकि	१०३	वारिषेण	१०४	सोमिल	१०३
यशोवाहु	६६	विजयाचार्य	६६	ह	
यशोभद्र	६६	विशाखाचार्य	६६		
र		विष्णु	६६		
		व्याघ्रभूति	१०८	हरिश्मथु	१०७
रामपुत्र	१०३	व्यास	१०८	हारित	१०७

## ४. भौगोलिक नाम सूची

अ		ग		द	
अंकलेश्वर	७१	गङ्गा	९२	दक्षिणापथ	६७
अंध्र, आंध्र विषय	६७, ७७	गिरिनगर	६७	दाक्षिणात्य	७८
ऋ		गौड	७७	द्रमिलदेश	७१, ७७
ऋपिगिरि	६२	च		प	
औ		चन्द्रगुफा	६७	पंचशैलपुर	६१
औदीच्य	७८	छिन्न ( गिरि )	६२	पांडगिरि	६२



	पृष्ठ	वालभ	पृष्ठ	स	पृष्ठ
म			७८		
महिमा	७६	विपुलगिरि	६१, ६२	सौराष्ट्र	६७
माथुर	७८	वेण्यातट	६७	ह	
व					
वनवास विषय	७१	वैभार	६२	हिमवान्	९२

### ५. ग्रन्थ नामोल्लेख

	क	तत्त्वार्थसूत्र	२३९, २५९	स
कषाय प्राभृत	२१७, २२१	व		सत्कर्मप्राभृत
कालसूत्र	१४२			२१७, २२१
त		वर्गणासूत्र	२९०	सन्मतिसूत्र
तत्त्वार्थभाष्य	१०३	वेदनाक्षेत्रविधान	२५१	१५

### ६. वंश नामोल्लेख

	इ	चारण	११२	र
अर्हत्	११२	ज		राजवंश
इक्ष्वाकु	११२			११२
क		जिनवंश	११२	व
काश्यप	११२	न		वादि
कुरु	११२	नाथवंश	११२	वासुदेव
च				विद्याधर
चक्रवर्ति	११२	प		११२
		प्रह्लाथमण	११२	हरि
				७३, ११२

## ७. प्रतियोंके पाठ-भेद.

- १ अ-अमरावतीकी प्रति; आ-आराकी; क-कारंजाकी; स-सहारनपूरकी ।
- २ ,, चिन्होंसे तात्पर्य यहां उपरके शब्दोंसे नहीं, किन्तु उसी पंक्तिके बाई ओरके शब्दोंसे समझना चाहिये ।
३. इन प्रतियोंके पाठभेदोंकी दिशा बतलानेके लिये यहां केवल थोड़ेसे पाठभेद दिये जाते हैं । यथार्थतः ऐसे पाठभेद हैं बहुत ही अधिक ।

पृष्ठ	पंक्ति	अ	आ	क	स	मुद्रित
१	१	ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ गणधरपरमे- ष्ठिने नमः । ॐ द्वादशाङ्गाय नमः । निर्विघ्न मस्तु	” अथ श्री धवल प्रारम्भः ।	”	ॐ नमः सि- द्धभ्यः ।	
१	२	केवलि-	”	केवल-	केवल-	केवल-
१	२	णमहं	”	”	णमह	णमह
६	१	-अंगांगिजा	-अङ्गङ्गिजा	”	”	-अंगांगिजा
”	”	-मल-मूल-	-मल-गूढ-	-मल-मूल-	-मल-मूढ-	-मल-मूढ-
७	६	वक्खाणिउ	”	”	वक्खाणउ	वक्खाणउ
८	५	परूवणयं	”	”	परूवयं ण	परूवयं ? ण,
”	६	तालफलं व सुत्तुव	”	”	तालफलं व सुत्तं व	तालपलंब सुत्तं व
९	२	सयलच्छवच्छाणं सच्छाणं	” ”	” ”	सयलत्थवत्थू- णं सद्दाणं	”
१२	१	-वायरणे	”	”	”	-वायरणी
१३	१	-णिमोणं	-णिमाणं	-णिमोणं	”	-णिमेणं
१३	२	सद्दादीया	सद्दादिया	सद्दादीया	”	सद्दादीया
”	”	साहुपसाहु	”	”	”	साहपसाहा
१५	७	-लक्खणं खइणो	”	”	”	-लक्खण-अखइणो
१६	५	णियतव्वाचय-	”	”	”	णियत-वाचय-

पृष्ठ	पंक्ति	अ	आ	क	स	मुद्रित
९	१	वज्रत्थ-	"	"	"	वज्रत्थ-
९	१	जीवो वा जीवो वा अजीवो वा जीवो च अजी- वो च अजीवो च अजीवा च जीवा च जीवा च अजी- वो च जीवा चेदि	जीवो वा जीवो वा अजीवो वा अजीवो वा जीवो च अजी- वो च, अजीवो च जीवा च अ- जीवा च जीवा च अजीवो च जीवा चेदि	"	"	जीवो वा, जीवा वा, अजीवो वा, अजीवा वा, जीवो य अजीवो य, जीवा य अजीवो य, जीवो य अजी- वा य, जीवा य अजीवा य.
२०	४	सुभाव-	"	"	सव्भाव-	सव्भाव-
२१	२	तस्सत्थ-	"	"	तस्सद्-	तस्सत्थ-
२९	१	अथाष्टारत्न्यादि-	"	"	अर्धाष्टारत्न्यादि	"
३०	४	जाणिज्जो	"	"	"	जाणिज्जा
३१	५	विपर्ययोः	"	"	"	विपर्यस्यतोः
३२	३	असौ व्यामोहेन	"	"	सोऽव्यामोहेन	"
३४	३	गच्छति कर्त्ता सिद्धि-	गच्छति कर्त्ता कार्यसिद्धि-	"	"	"
३५	६	सारस्थ स्तम्भ	"	"	"	सारे स्तम्भ
३९	५	नमो जिनाणाम्	"	"	नमो जिणाणम्	'णमो जिणाणं'
४०	४	कयकाउया	"	"	"	कयकोउय-
४१	६	जो सुत्तस्सादीए सुत्तकत्तारेण कयदेवदाणमो- क्कारो तं णिबद्ध- मंगलं । जो सुत्त- स्सादी सुत्तकत्ता- रेण णिबद्धो देव- दाणमोक्कारो तम णिबद्ध-मंगलं ।	"	"	"	जो सुत्तस्सादीए सुत्तकत्तारेण णि- बद्ध-देवदाण- मोक्कारो तं णि- बद्धमंगलं । जो सुत्तस्सादीए सुत्त-कत्तारेण कय-देवदा- णमोक्कारो तमणिं- बद्ध-मंगलं ।
४३	५	विनष्टैरा	"	"	"	विनष्टैरौ
४६	३	-भूताः शेषात्म-	"	"	"	-भूताशेषात्म-

पृष्ठ	पंक्ति	अ	आ	क	स	मुद्रित
४८	५	वज्जसिलत्थ- स्सग्गय-	वज्जसिलत्थ- स्सग्गय-	वज्जसिलत्थ- वग्गय-	वज्जसिलत्थ- स्सग्गय-	वज्जसिलत्थ- वग्गय-
४९	४	संगभग्ग-		भग्गसंग-	संगभग्ग-	संग-भंग-
५२	७	-कार्यत्वाद्देद- सत्स्वेव	"	"	"	-कार्यत्वाद्देदः सत्स्वेव
५३	३	रत्तैकदेशस्य देशत्वा-	रत्तैकदेशस्य देवत्वा-	रत्तैक- देशत्वा-		रत्तैकदेशस्य देवत्वा-
५४	१	संजात-	स जात-	संजात-	संजात-	संजात-
"	२	गुणिभूतताद्द्वैते	"	गुणिभूतताद्द्वैते	"	गुणीभूताद्द्वैते
"	३	-शब्दाधिक्य-	"	"	"	-श्रद्धाधिक्य-
"	४	-स्थापनार्थं	-ख्यापनार्थं	-स्थापनार्थं	-ख्यापनार्थं	-ख्यापनार्थं
५९	६	कम्मं मुप्पज्जइय कुड सिद्धसुहं पि वयणादो ।	कम्मं फुड सिद्धसुहं पि पवयणदो	कम्मं फुड सिद्धसुहं पि वयणदो		कम्मं फुड सिद्ध- सुहं पि पवय- णादो ।
६२	३	-दिच्छन्नोदा-	"	"	-दिच्छन्नो	"
६४	४	खइयाइ ण हांति	"	"	खइयाइं हांति	"
"	६	दिव्वज्जुणी	"	"	दिव्वज्जुणी	"
"	८	गोत्तम-गोत्तेण	गोत्तम-गोदेण	गोत्तम-गोदेण		गोदम-गोत्तेण जादेत्ति
६५	६	जादेत्ति	"	"		जादेत्ति
६६	५	विदिसेणो			धिदिसेणो	"
६७	४	बंधवोच्छेदो	"	"		गंधवोच्छेदो -वच्छओ
७३	९	-वच्छेदे	"	"		एत्थेदं समस्तस्य
८२	३	यत्थेदं	जत्थेदं	यत्थेदं		समस्तस्य
८४	३	समनस्य	"	"	"	समस्तस्य
"	६	नैकगमो नयः	"	"	नैकगमो नैगमः	"
८९	१	संतिष्ठति तिष्ठति	संतिष्ठते तिष्ठति	"	"	तिष्ठति संतिष्ठते -कत्वात्तैते
८९	५	-कत्वान्येते	"	"		-कत्वात्तैते
"	"	भिन्नपदाना-			भिन्नपदार्थाना-	भिन्नपदाना-
९०	६	नानार्थं	"	"	नानार्थं	"
९१	३	अत्थोत्थ	"	"	अत्थो व्व	"
९२	४	संख्येयानन्ता- त्मक-	संख्येयासंख्ये- यानन्तात्मक-	संख्येयानन्ता- त्मक-		संख्येयासंख्येया- नन्तात्मक-

पृष्ठ	पंक्ति	अ	आ	क	स	मुद्रित
९३	४	सिद्ध	"	"	सद्ध-	संह-
"	"	-विसयायो	"	"	"	-विसयायो
९४	४	मुहोण	मणेण	मुणेण	मणेण	"
"	६	-पुव्वत्तं	-पुव्वुत्त	-पुव्वत्तं	-पुधत्तं	"
९९	२	विहाय-	वियाह-	विवाह-	वियाह-	"
१०३	२	गंधहस्तितत्वा- र्थभाष्ये	तत्वार्थभाष्ये	"	"	"
१०५	२	सुद्धिमकरेति	"	"	"	सुद्धि करेती
"	३	धावत्ती	"	"	"	थावत्ती
"	७	उक्तं च भाष्ये	"	"	उक्तं च	"
१०८	३	-मन्यानिक-	"	"	-मज्ञानिक-	"
११०	४	पव्वयददह-	"	"	पव्वददह-	"
११८	२	यल्लोक्कं	"	"	"	यल्लोक्के
"	१४	सरीर	"	"	"	सरीरी
११९	६	-देसोहि	"	"	-देहेहि	"
१२०	१	सरीरी	"	"	"	सरीरी
१२३	२	धारणा	"	"	वारणा	"
१२७	१०	भावो	भावादो भावो	भावो	"	भावो
१२८	२	दोणिण एक्काणि	"	"	दोणिण	"
१३०	११	पुत्त-	उत्त-	पुव्वुत्त-	उत्त-	पुव्वुत्त-
१३३	६	-रीकतत्वा-	"	"	"	-रीकः तत्वा-
१४१	१	रूढिव्यप-	"	"	रूढिवशा-	"
"	४	मेयो	"	"	मेओ	वेओ
१४७	५	तदा भावाणं	"	"	भावाणं	भावाणं
१५१	३	-मुक्कता	"	"	"	-मनुरक्कता
१५३	७	"	इमान्वद्यौ	"	इमाणि अट्ट	"
१५८	१	परूवणा णं	"	"	परूवणा	"
१६४	१	ततोऽसत्येषु	ततो सत्येष-	सत्येष-	ततोऽसन्	"
१६८	३	सतोऽपि	"	"	सतापि	"
"	५	-दिवतः	"	"	"	-दिवतः
१७१	१०	अट्टि-	"	"	"	लट्टि-
१७४	५	सहभावो	"	"	सहभुवो	"
१७७	२	कुतः	"	"	क तद्	"

पृष्ठ	पंक्ति	अ	आ	क	स	मुद्रित-
१५९	४	-ख्यानानुत्पत्तेः	"	"	-ख्यानोत्पत्तेः	"
"	५	-क्षयोपशमोप- शमज-	-क्षयोपशमज-	"	"	-क्षयोपशमोप- शमज-
१८१	३	-करणनाम-	"	"	"	-करणनाम-
"	५	-देशी	"	"	-देश-	"
१८३	९	-राइय-	-राये	राइय	"	"
१८४	६	तासु	"	"	तान्	तेषु
१९६	६	-स्यात्पौ-	"	"	-स्यापौ-	"
१९८	६	ज्ञेयसंभवि	"	"	ज्ञेयसमवि-	"
१९९	१	-माक्षिष्ट-	"	"	"	-मैक्षिष्ट-
२०१	८	-स्यापत्यं	"	"	"	-स्यापत्यानि ;
२०२	५	तच्च अन्नति तदंश्रंति	"	"	तदश्चन्ति	"
२०५	४	-दृष्टिषु	-दृष्ट्यादिषु	"	"	-दृष्टिषु
"	९	तद्वत्यं	तद्वत्य-	तद्वत्यं	तद्वतां	"
२१०	१०	-मबुत्तमुत्तमुव-	"	"	"	-मबुत्तमुव-
२२१	४	तदो	तदो ण	तत्थ तदो	"	तदो
"	६	आइरियकहि- याणं	आइयारिइ- रियकम्माणं	आइरियाइय- कहियाणं	"	आइरियकहिः याणं
२२३	६	अप्पणो	तदो अप्पणो	अप्पणो	"	"
"	७	गमियमिदं	"	"	गमिय	"
२२८	३	-संयतास्ता-	"	"	"	संयतासंयतास्ता-
२३०	२	-त्वादेशा-	"	"	-त्वोदेशा-	-त्वादेशा-
"	५	-वासंजनना-	"	"	-वासजना-	"
२३३	२	-मान्द्य-	-माद्य-	-मान्द्य-	"	-मान्द्य-
२६६	७	किट्टेण	"	"	"	किट्टेण
२६७	११	-शक्त्याविर्भावित वृत्तयः	-शक्त्युपवृंहि- तवृत्तः	-शक्त्याविर्भा- वितवृत्तयः	"	"
२७६	७	संप्रतिघातः	"	"	"	संप्रतिघातः
२७२	६	स्यादप्रयत्नो	"	"	स्यात् प्रयत्नो	"
२८१	४	समनस्के	"	"	समनस्केषु	"
२८२	५	सत्स्वरूप-	"	"	तत्स्वरूप-	"
"	"	-मुत्तरसूत्रद्वयमाह	"	"	-मुत्तरसूत्रमाह	"

पृष्ठ	पंक्ति	अ	आ	क	स	मुद्रित
२८९	७	सजोगिकेवालि	अजोगिकेवालि	॥	सजोगिकेवालि	॥
२९२	७	तत्रान्तर्जल्पस्य	तत्रान्तर्जल्पस्य	तत्रान्तर्ज- तत्राप्यनन्तर्ज- ल्पस्य	॥	॥
३१२	२	मिस्सकायजोगो	॥	॥		मिस्सजोगो
२९३	५	पूतं शरीर-	॥	॥	पूर्व शरीर-	॥
२९८	३	ततश्च द्विहेतु-	॥	॥		ततश्चद्विहेतु-
३०२	३	सर्वघाति-	॥	॥		सर्वाघाति-
॥	१०	चैतेषु	॥	॥	चैते	॥
३०५	३	-धारणाभावान्न	धारणान्न	-धारणाभावान्न	॥	॥
३०६	१	ऽन्यथा न	॥	॥		ऽन्यथा
३१६	२	वलेनोच्छन्न-	॥	॥	वलेनोत्पन्न-	॥
३१९	२	प्रवृत्तसूत्र-	॥	॥	प्रवृत्तसूत्र-	॥
॥	३	कुतो भवेत्	॥	॥	कुतो भवेत्	॥
३२०	५	तत्र तु न	॥	॥	तत्रतन	॥
॥	७	सन्त्येताभ्यां	॥	॥	सन्तः ताभ्यां	॥
३२१	७	प्राप्तौ यौ-	॥	॥	प्राप्तयौ-	॥
३२४	७	नियमान्न	नियमान्न	नियमान्न	विद्यमान-	॥
३२५	८	संजदासंजद- द्वारे	संजदासंजद- संजदद्वारे	॥		॥
३२६	१०	महव्वदो सु य ण अहइ दो वा	॥	॥		महव्वदाइ ण लहइ देवा-
३३४	६	नन्वनारंभकस्य	॥	॥		न चारंभकस्य
३३७	७	उवरिम-	उवरिम-	॥		उवरिम-उवरिम-
३३८	३	-नुपशान्तास्त-	॥	॥		-नुपशान्तत-
॥	७	तत्र तु न	तत्र तु न	॥		तत्रतन-
३४२	१	पुम्हं	॥	॥	पुमं	॥
॥	२	समाणा	॥	॥		समाणग-
३५७	३	शब्दस्य	॥	॥		शब्दस्य च
॥	४	निःसृतानु-	॥	॥		अनिःसृतानु-
३५८	८	आभेयमासु-	॥	॥		आभीयमासु-
३६३	११	नामिश्रणं	॥	॥		न मिश्रणं-
३६५	१	तद्वनि-	॥	॥		तद्वनि-

पृष्ठ	पंक्ति	अ	आ	क	स	मुद्रित
३६६	१	संयमोद्देश-	"	"		संयमैः देश-
३६६	१०	संयमसंयत-	संयमसंयतस्य संय-	संयत-		संयमासंयमा-
			जघन्यस्य			संयमत-
३६७	१	-तामभविष्यत्	"	"		-तामगमिष्यत्
३६९	५	शेषः सामेदं	शेषः समिदं	"	शेष रूपमिदं	"
३७०	१	शुद्धिसंयत	"	"		शुद्धिसंयम
"	७	सूत्रे	विशिष्टसूत्रे	सूत्रे		"
३७१	१०	वादे	वादे	वादेन		"
३७३	४	संजमो	संजमो	"	संजदो	"
३७५	५	निमग्नान्तानां-	निमग्नान्तानां	निमग्नान्तानां		"
३७७	३	निबन्धनावेव-	निबन्धनाव-	निबन्धनावेव		निबन्धनावेवा-
		भवि	भवि			भवि-
३७८	४	गुणस्य गुणस्थान	गुणस्य गुण-	गुणस्थान		गुणस्य गुणस्थान-
		प्रमाणनिरू-	स्थान निरू-	प्रमाणनिरू-		प्रमाणनिरू-
३८०	६	नियम	"	"		नियमित
"	९	न दर्शनस्य	"	न दर्शनविषय-	तद्दर्शनस्य	"
		विषय-		-विषय-		
३८१	६	-रूपद्वय-	-द्वय-	-द्वय		-द्वय-
३८५	८	ज्ञानदर्शन-	"	"		ज्ञानादर्शन-
३८८	८	णाणत्थि	"	"		-णाणी य
३८९	१	द्व्व-	द्व्व-	द्व्व-		तिद्व्व-
३९२	८	-पेक्षया ते	"	"		-पेक्षया तद्
३९३	७	गच्छंती	"	"		गच्छतां
३९४	१	निष्कलंको	"	"		निष्कलंका
		भवति				भवन्ति
३९५	६	त्याज्यः	"	"		न्याज्यः
४०२	७	तिरिक्खा-	"	"		तिरिक्खा
४०३	८	संजदासंजदा	संजदासंजदा	"		"
			संजदा			
४०३	९		-मन्यत्	-मेतत्		-मेतत्
४०४	१	-र्थमन्यतःसमर्थं	"	"	"	-र्थोऽन्यतःसमर्थो
४०५	२	-संजद्-	-संजद्-संजद्-	"	"	"
४०५	५	-पञ्जत्ता	"	"	"	-पञ्जत्ता-



## प्रतियोंमें छूटे हुए पाठ

सूचना—ये पाठ केवल निर्देशमात्रके लिये दिये जाते हैं । इस प्रकारके छूटे हुए पाठ प्रतियोंमें बहुत अधिक हैं ।

पृष्ठ	पंक्ति	प्रति	कहांसे	कहां तक
२५	८	अ	नहदं । जीवियासाए ...	... पदिदं सरिरं ।
३९	७	अ	मंगलकरणीयं ...	... मंगलकत्ता ।
५२	६	क	ानां सिद्धस्थरत्नेभ्यो ...	... स्थरत्ना-
५३	३	अ	रत्नेकदेशस्य ...	... कृत्स्नकर्मक्षयकर्तृणि
५६	२	अ	प्रतिसमयमसंख्यात ...	... सततमभ्यर्चनम् ।
६६	१०	अ	तदो सुभदो	... -मेगदेश-धारया
८१	४	अ	-स्य बहुषु ...	... पमाणं छव्विहं
९३	९	आ	परमाणुं जाणदि	... असंखेज्जदि-
९४	१	अ	उक्कस्सेण ...	... अणुक्कस्सोद्धी जाणदि
१२८	५	अ	पदस्स पयाडि-	... एवदि खेत्ते
१३०	१	अ	उत्तरपयाडि ...	... पयाडिद्विदिवंधो
१७४	२	क	इष्टत्वात् ...	... विरोधः
१९३	८	अ	सर्वत्र सर्वदा ...	... अदृष्टविषये
१९५	१	अ	वाच्यवाचक- ...	... तस्यास्तिवति चेन्न
२२३	१	अ	तदो अंतोमुहुत्तं	... पुरिसवेदं खवेदि
२२४	४	आ	मणुसगइपा ...	... अहवा
२३०	७	क	जीवानां सादृश्यं ...	... गुणद्वारेण
२५३	४	अ	तस्सेव ...	... संखेजगुणा
२८३	५	आ	संशयानध्यव...	... केवलिनो वचनं
२९०	७	आ	पदेसा अणंत-	... दव्ववग्गणा-
२९८	८	आ	विरोध इति सर्वाभिः	
३१०	९	क	अपज्जत्ताण वि अत्थि	
३४८	८	आ	अकपायः	
३६१	३	क	मिथ्यात्वोदयस्य सत्त्वात्	

## विशेष टिप्पण

सूचना—प्रथम संख्यासे पृष्ठ और दूसरीसे पंक्तिका तात्पर्य है।

पृ. पं. 'वारह-अंगगिज्जा' में ' गिज्जा ' पाठ भी प्रतियोंमें मिलता है। इस गाथासे कुछ  
११. मिलती जुलती एक गाथा वसुनन्दिश्रावकाचारमें निम्न प्रकारसे पाई जाती है—

वारह-अंगगी जा दंसण-तिलया चरित्त-वत्थ-हरा ।

चोदस-पुच्चाहरणा ठावेयच्चा य सुयदेवी ॥ ३९१ ॥

३९१०. 'देहितो कय' इतना पाठ आराकी प्रतिमें नहीं है, और इस पाठके न होनेसे अर्थका सामञ्जस्य भी ठीक बैठता है, किन्तु पाठ-निश्चय करते समय आराकी प्रति हमारे सामने न होनेसे हम उसे छोड़ नहीं सके और किसी प्रकार अर्थ-संगति बिठलाई गई। पर जान पड़ता है कि अ. और क. प्रतियोंमें वह आगेकी गाथा नं. १९ के '(जिणिं-) देहिं तो कय' पाठसे लिपिकारोंके दृष्टि-दोषसे आगया है। ऐसे लिपि-दोष इन सभी प्रतियोंमें अनेक हैं। (देखिये प्रतियोंके पाठ भेद)

६७ पं. 'महिमाए मिलियाणं' से यह स्पष्ट नहीं होता कि महिमा एक नगरीका नाम था जहां वह मुनि-संमेलन हुआ। इन्द्रनन्दिकृत श्रुतावतारमें भी महिमाका उल्लेख भ्रामक है। यथा, देशेन्द्रदेशनामनि वेणाकतटीपुरे महामहिमासमुदितमुनीन् प्रति ब्रह्मचारिणा प्रापयल्लेखम् ॥ इस पद्यमें 'देशेन्द्रदेश' 'देशान्ध्रदेश' का अशुद्ध रूप ज्ञात होता है। 'महामहिमा-समुदितमुनीन्' का 'महोत्सवनिमित्त सम्मिलित मुनि' भी हो सकता है। प्रस्तुत ग्रंथके पृ. २९ पर 'जिनमहिम-सम्बद्धकालोऽपि मङ्गलं यथा नन्दीश्वरदिवसादिः' में 'महिम' का अर्थ उत्सव होता है। वसुनन्दिश्रावकाचारमें भी 'महिम' शब्द नन्दीश्वर उत्सवके अर्थमें आया है यथा—

विविहं करेइ महिमं नंदीसर-चेइय-गिहेसु ॥ ४०७ ॥

इसके अनुसार 'महिमाए मिलियाणं' का अर्थ 'नन्दीश्वर उत्सवके लिये सम्मिलित' भी हो सकता है। किन्तु पं. जुगलकिशोरजी मुख्तारने अपनी श्रुतावतार कथा (जै. सि. भा. ३, ४) में महिमाको नगरीका नाम अनुमान किया है और उसे सतारा जिलेके महिमानगढ़से अभिन्न होनेका संकेत किया है। इसी अनुसार अनुवादमें उसे नगरीका द्योतक स्वीकार कर लिया गया है। किन्तु है यह प्रश्न अभी भी विचारणीय।

७१ पं. जिणवांलियं दहूण पुप्फयंताइरियो वणवासविसयं गदो। यहां 'दहूण' का अर्थ अनुवादमें 'देखकर' (दृष्ट्वा) किया गया है। किन्तु इसका अर्थ 'देखनेके लिये' (दृष्टुम्) भी हो सकता है। (देखो भूमिका पृ. १९, पुष्पदन्त और जिनपालित)

- ७१ ९. 'अप्पाउओ ति अत्रगय-जिणवालिदेण' इन्द्रनन्दिने अपने श्रुतावतारमें यह प्रसंग इस प्रकार दिया है 'विज्ञायाल्पायुष्यानल्पमतीन्मानवान् प्रतीत्य ततः' जिसका अर्थ यह होता है कि भूतबलिने मनुष्योंको अल्पायु समझकर सिद्धान्तोंको पुस्तकारूढ़ करनेका निश्चय किया। पं. जुगलकिशोरजीने इसका अर्थ इसप्रकार किया है 'भूतबलिने.....यह मालूम किया कि जिनपालित अल्पायु हैं' ( जै. सि. भा. ३, ४ )। किन्तु जिनपालितके अल्पायु होनेसे सिद्धान्तके लोप होनेकी आशंकाका कोई कारण नहीं था, किन्तु पुष्पदन्त और भूतबलिमेंसे किसी एकके अल्पायु होनेसे सिद्धान्त-लोपकी आशंका हो सकती थी। इसी उपपत्तिको ध्यानमें रखकर अनुवादमें अल्पायुका सम्बन्ध पुष्पदन्तसे जोड़ दिया गया है। 'अवगतः जिणपालितात् येन सः तेन भूतबलिना' ऐसा समास ध्यानमें रक्खा गया है।
- ११२ ५. जगदिदं। यह पाठ प्रतियोंका है। टिप्पणीमें इसके स्थानपर 'जं दिदं' पाठकी कल्पना सूचित की गयी है। वसुनन्दिश्रावकाचारकी गाथा ३ में 'इन्द्रभूषणा सेणियस्स जह दिदं' ऐसा चरण दृष्टिगोचर हुआ। अतः अनुमान होता है कि यहाँ भी संभवतः शुद्ध पाठ 'जह दिदं' रहा होगा जिसका संस्कृत रूप 'यथा दिष्टम्' होता है।
- १४३ ५. 'अन्तर्बहिर्मुखयो' आदि। इसका अनुवाद निम्न प्रकार करना ठीक होगा—  
समाधान—नहीं, क्योंकि, अन्तर्मुख चैतन्य अर्थात् स्वरूपसंवेदनको दर्शन और बहिर्मुख प्रकाशको ज्ञान माना है"। इत्यादि।
- २२४ ७. उप्पायाणुच्छेद का अर्थ अनुवादमें इस प्रकार समझना चाहिये—  
व्युच्छेद दो प्रकारका होता है—उत्पादानुच्छेद और अनुत्पादानुच्छेद। उनमें उत्पादानुच्छेदसे द्रव्यार्थिक नयका ग्रहण किया गया है जिसका अभिप्राय यह है कि जिस समयमें जिस प्रकृतिकी सत्त्वादि-व्युच्छित्ति होती है उसी समय उसका अभाव कहा जाता है। अनुत्पादानुच्छेद पर्यायार्थिकरूप है जिसका अभिप्राय यह है कि जिस समयमें जिस प्रकृतिकी सत्त्वादि-व्युच्छित्ति होती है उसके अगले समयमें उसका अभाव कहा जाता है।
- ३८५ ६. यहाँ प्रतियोंमें दर्शनकी परिभाषा न होनेसे वाक्य अधूरासा रह जाता है, अतएव उतने अंशकी पूर्ति पृ. ३८४ पंक्ति १ के अनुसार कर दी है, और उतने वाक्यांश को कोष्ठके भीतर रख दिया है। प्रस्तुत ग्रंथमें यही एक ऐसा स्थल सामने आया जहाँ हम अन्यत्रसे पाठकी पूर्ति किये बिना निर्वाह न कर सके।
- ३८८ ९. गाथा नं. २०१ में 'भेज्जो' का अर्थ गोम्मटसारकी जीवप्रबोधिनी टीकामें 'परेणाव-बोध्याभिप्रायः। तथा टोडरमलजीके हिन्दी अनुवादमें 'जिसके अभिप्रायको और कोई न जाने' किया गया है। किन्तु 'भेज्ज' का अर्थ देशी नाममालाके अनुसार भीरु होता है। यथा 'भयालुए भेड-भेज्ज-भेज्जलया'। (टीका) 'भेडो भेज्जो तथा भेज्जलओ त्रयोऽपि अमी भीरुवाचकाः' (दे. ना. मा. ६, १०७)। यह अर्थ प्रस्तुत प्रसंगमें दूसरोंकी अपेक्षा अधिक उपयुक्त प्रतीत हुआ। अतएव इसीके अनुसार अनुवादमें 'भीरु' अर्थ ही किया गया है।  
भूमिका पृ. ६० पं. १ में गाथा से पूर्व 'तह आयारंगे वि उत्तं' इतना पाठ छूट गया है।

